त्रिभाषा कोशमाला-6

हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी

त्रिभाषा कोश : जिल्द 2

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

त्रिभाषा कोशमाला-6

हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी
त्रिभाषा कोश
(जिल्द 2)

Hindi-Bengali-English
Trilingual Dictionary
(Volume 2)
(न-ल)

सत्यमेव जयते

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(भारत सरकार)

Central Hindi Directorate
Department of Education
Ministry of
Human Resource Development
(Government of India)

पी.ई.डी. 654 (त्रिभाषी)

1000—1988 (उपभंडारी-2)

प्रथम संस्करण : 1988

मूल्य : 222.00 रुपये

प्रकाशक: केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
पश्चिमी खण्ड-7,
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066

सर्वश्री तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली द्वारा 1988 में मुद्रित

संक्षेप सूची

व्या. को.	व्याकरणिक कोटि
पुं.	पुंलिंग
स्त्री.	स्त्रीलिंग
सर्व.	सर्वनाम
वि.	विशेषण
क्रि.वि.	क्रियाविशेषण
स.क्रि.	सकर्मक क्रिया
अ.क्रि.	अकर्मक क्रिया
अव्य.	अव्यय

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नंग-धड़ंग	वि.	**जो सब वस्त्र उतारकर बिल्कुल नंगा हो गया हो।**	সম্পূর্ণ উলংগ, দিগম্বর, বিবস্ত্র	सम्पूर्न उलंग, दिगम्बर, बिबस्त्र	naked in body and limbs, stark naked, completely nude.
नंगा	वि.	**1. जो कोई कपड़ा न पहने हो;**	নাংগা, নেংটা, নেঙটা, ন্যাংটা;	नांगा, नेंटा, नेङ्गटा, न्याङ्गटा;	naked, nude;
		2. जिस पर कोई आवरण या आलंकारिक वस्तु न हो;	নাংগা, অনাবৃত, নিরাভরণ;	नाङ्गा, अनाबृत, निराभरन;	bare, uncovered, without ornament;
		3. निर्लज्ज, बेशर्म, दुष्ट, पाजी।	নির্লজ্জ, বেহায়া, দুষ্টে, পাজি	निर्लज्ज, बेहाया, दुष्ट पाजि	shameless, wicked.
नंगाझाड़ (नंगाझोरी स्त्री)	पु.	**खोई हुई वस्तु ढूंढने के उद्देश्य से किसी के कपड़े आदि उतरवाकर तलाशी लेना, जामा-तलाशी।**	বিবস্ত্র করিয়া দেহতল্লাস	बिबस्त्र करिया देहतल्लास	a thorough personal search by stripping and shaking (the clothes)
नंदक	वि.	**आनंद और सुख देनेवाला।**	নন্দক, নন্দয়িতা	नन्दक, नन्दयिता	rejoicing, making happy, gladdening, delighting, one who delights (esp. a family).
नंदन	वि.	**आनंद या प्रसन्नता देनेवाला।**	নন্দন, আনন্দয়িতা, হর্ষক	नन्दन, आनन्दयिता, हर्षक	rejoicing gladdening, one who delights.
	पु.	**पुत्र (पिता को आनंद देनेवाला)।**	নন্দন, পুত্র	नन्दन, पुत्र	son (the rejoicer of his father).
नंदित	वि.	**आनंदित, प्रसन्न।**	নন্দিত, আনন্দিত	नन्दित, आनन्दित	delighted, pleased.
नंदी	पु.	**1. नाटक में नांदी पाठ करनेवाला व्यक्ति, नांदी;**	নন্দী, নান্দীপাঠক সূত্রধার;	नन्दी, नान्दीपाठक सूत्रधार;	speaker of a prelude or benediction in drama.
		2. शिव के द्वारपाल तथा एक बैल का नाम जो उनकी सवारी है।	শিবের দ্বারপাল, শিবের বাহন বৃষের নাম	शिबेर द्वारपाल, शिबेर बाहन बृषेर नाम	name of the door-keeper of Siva, his chief attendant, or of the bull which he rides.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नंदोई	पु.	ननद का पति।	নন্দাই, ননদের স্বামী	नन्दाइ, ननदेर स्वामी	the husband of husband's sister.
नंबरदार	पु.	ब्रिटिश शासन में गांव का वह जमींदार जो अपनी पट्टी के दूसरे हिस्सेदारों से मालगुजारी आदि वसूलने में सहायता देता था।	লম্বরদার	लम्बरदार	the registered representative of a coparcenary community who was responsible for the Government revenue.
नंबरवार	क्रि. वि.	अंक या संख्या के क्रम से, सिलसिलेवार।	নম্বর অনুসারে, সংখ্যানুযায়ী	नम्बर अनुसारे, संख्यानुजायी	one by one, turn-wise.
नंबरी	वि.	1. बहुत बड़ा और मशहूर, कुख्यात, बदनाम;	অনেক বড় ও প্রসিদ্ধ, কুখ্যাত, দাগী;	अनेक बड़ ओ प्रसिद्ध, कुख्यात, दागी;	notorious;
		2. जिस पर नंबर या अंक पड़ा है, नंबर संबंधी;	নম্বরী, নম্বরযুক্ত;	नम्बरी, नम्बरजुक्त;	bearing the number, numbered;
		3. सौ रुपये का (नोट)।	একশ এবং তদতিরিক্ত টাকার নোট	एकश एबं तदतिरिक्त टाकार नोट	of one hundred (as a note).
न	अव्य.	निषेधवाचक शब्द, नहीं।	না	ना	no, not, nay.
नककटा	वि.	1. जिसकी नाक कटी हो;	নাককাটা;	नाककाटा;	nose-clipt, noseless, (a person) whose nose has been chopped off;
		2. चपटी नाकवाला;	খাঁদা;	खांदा;	flatnosed, snub-nosed;
		3. निर्लज्ज।	নির্লজ্জ	निर्लज्ज	shameless.
नकचढ़ा	वि.	जो बात-बात में चिढ़ जाता हो, चिड़चिड़ा, बदमिजाज।	রগচটা, বদমেজাজী	रगचटा, बदमेजाजी	fastidious, peevish, ill-tempered.
नकटा (स्त्री. नकटी)	वि., पु.	दे. 'नककटा' (सभी अर्थों में)	'নককটা'	'नककटा'	see 'नककटा' (in all senses).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नकद	पु.	1. रुपया-पैसा, जो सिक्कों या नोट के रूप में हो;	নগদ, উপস্থিত টাকা;	नगद, उपस्थित टाका;	money in the form of coins and notes, cash money;
		2. सिक्कों आदि के रूप में खड़ा धन जो देने आदि के बदले में तुरंत दिया या चुकाया जाए, उधार का विपर्याय।	ক্রয় করার সংগে সংগে উপস্থিত মূল্য, বাকীর বিপরীত	क्रय करार संगे संगे उपस्थित मूल्य, बाकीर बिपरीत	ready money, cash.
	वि.	जिसका मूल्य रुपए-पैसे के रूप में तुरंत दिया या चुकाया जाए।	কাঁচা অর্থ, সংগে সংগে যে অর্থ দেওয়া যায়	कांचा अर्थ, सङ्गे सङ्गे जे अर्थ देओया जाय	cash, hard cash.
	क्रि. वि.	तुरंत दिए हुए रुपए के रूप में।	সংগে সংগে অর্থ দিয়া	सङ्गे सङ्गे अर्थ दिया	in cash.
नकदी	स्त्री.	1. रुपया-पैसा जो सिक्कों या नोट के रूप में हो;	নগদ;	नगद;	money in the form of coins and notes, cash money;
		2. रुपया-पैसा जो तैयार या सामने हो, खड़ा धन।	মজুদ টাকা পয়সা, কাঁচা টাকা	मजुद टाका पयसा, कांचा टाका	ready money, hard cash.
नकदी-चिट्ठा	पु.	वह कागज या बही जिसमें आय-व्यय, लेन-देन आदि ब्यौरा लिखा रहता है, रोकड़-बही।	রোকড়	रोकड़	cash-book.
नकफूल	पु.	नाक में पहनने का एक आभूषण, लौंग।	নাকফুল, নাকছাবি	नाकफुल, नाकछाबि	nose-stud.
नकल	स्त्री.	1. किसी को कुछ करते हुए देखकर उसी के अनुसार कुछ करने की क्रिया या भाव, अनुकृति, अनुकरण;	নকল, অনুকরণ;	नकल, अनुकरन;	imitating, imitation;
		2. किसी कृति, चित्र, लेख आदि की ज्यों की त्यों तैयार की हुई प्रतिलिपि, अनुलिपि;	প্রতিলিপি, প্রতিলেখ;	प्रतिलिपि, प्रतिलेख;	copy, duplicate transcript;
		3. अभिनयात्मक अनुकरण, स्वांग।	ভাবভংগি কথাবার্তা ইত্যাদির অনুকরণ	भावभङ्गि कथाबार्ता इत्यादिर अनुकरन	mimicking, mimicry.

हिंदी शब्द	व्या. को	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नकलची	पु., वि.	1. नकल करनेवाला (विद्यार्थी);	যে নকল করে;	जे नकल करे;	one who copies (as a student);
		2. दूसरों की हर बात या कार्य का अनुकरण या नकल करनेवाला;	অনুকরণকারী;	अनुकरनकारी;	imitator;
		3. अभिनयात्मक अनुकरण करनेवाला, स्वांगी।	ভাবভংগি কথাবার্তা ইত্যাদির অনুকরণ	भावभङ्गि कथावार्ता इत्यादिर अनुकरन	mimic.
नकलनवीस	पु.	कार्यालय आदि का वह लिपिक जो दस्तावेजों आदि की नकल तैयार करता हो।	নকলনবীস, যে নকল করে, প্রতিলিপি-কারক অনুলিপি লেখক	नकलनबीस, जे नकल करे, प्रतिलिपि-कारक, अनुलिपि लेखक	copyist.
नकली	वि.	1. जो नकल करके बनाया गया हो;	নকলী, নকল করা;	नकली, नकल करा;	imitated, imitation;
		2. जो मौलिक न हो, कृत्रिम;	কৃত্রিম;	कृत्रिम;	fabricated, artificial, spurious;
		3. खोटा, जाली, झूठा।	ঝুঠা	झुठा	counterfeit, false.
नकाब	स्त्री.	1. अपने को छिपाए रखने के लिए चेहरे पर डाला जानेवाला जालीदार रंगीन कपड़ा;	আত্মগোপন করিবার জন্য যে রংগীন জালি কাপড় দিয়া মুখ ঢাকা হয়;	आत्मगोपन करिबार जन्य जे रंगीन जालि कापड़ दिया मुख ढाका हय;	mask;
		2. घूंघट;	ঘোমটা;	घोमटा;	a veil;
		3. लोहे की वह जाली जो चिलम में नाक की रक्षा के लिए लगी रहती है।	শিরস্ত্রাণের যে-অংশের লোহার জালি নাক ঢাকিয়া রাখে	शिरस्त्रानेर जे-अंशेर लोहार जालि नाक ढाकिया राखे	visor, vizard.
नकाबपोश	वि.	जिसने अपने चेहरे पर नाकब डाल रखी हो।	যে 'নকাব' পরিয়াছে	जे 'नकाब' परियाछे	wearing a mask, masked (man).
नकारना	स. क्रि.	असहमति प्रकट करते हुए 'न' या 'नहीं' कहना, इनकार करना, अस्वीकार करना।	অসম্মতি প্রকাশ করার জন্য না না করা, অস্বীকার করা	असम्मति प्रकाश करार जन्य ना ना करा, अस्वीकार करा	to negate, to deny, to refuse, to reject.
नकारात्मक	वि.	(उत्तर या कथन) जिसमें कोई बात न मानी गई हो, या कुछ करने से इनकार किया गया हो, निषेधात्मक, अस्वीकारात्मक।	নেতিবাচক, নিষেধাত্মক	नेतिबाचक, निषेधात्मक	negative, implying refusal or denial.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नकेल	स्त्री.	1. ऊंट, बैल आदि के नथने से आर-पार निकाली हुई रस्सी जो लगाम का काम देती है;	উট বলদ ইত্যাদির নাকে-লাগান দড়ি-ইহা লাগামের কাজ করে;	उट बलद इत्यादिर नाके-लागान दड़ि इहा लागामेर काज करे;	nose-string, nose halter (of camel, ox etc.);
		2. किसी को अपने वश में रखने की युक्ति।	কোন ব্যক্তিকে বশে রাখিবার কৌশল	कोन व्यक्तिके बशे राखिबार कौशल	trick or means of controlling anyone, control or check.
नक्का	पु.	सूई का वह छेद जिसमें डोरा डाला जाता है।	ছুঁচের ছিদ্র	छुंचेर छिद्र	eye of a needle.
नक्कारखाना	पुं.	वह स्थान जहां नक्कारा या नौबत बजती है,नौबतखाना।	নওবতখানা, নহবতখানা	नओबतखाना, नहबतखाना	kettle-drum chamber.
नक्कारची	पु.	नगाड़ा या नौबत बजानेवाला।	যে নাকারা বাজায়	जे नाकारा बाजाय	one who beats the kettle-drum, kettle-drummer.
नक्कारा	पु.	नगाड़ा नाम का बाजा।	নাকারা	नाकारा	kettle-drum.
नक्काश	पु.	नक्काशी का काम करनेवाला कारीगर।	যে নকাশির কাজ করে	जे नकाशिर काज करे	carver, engraver.
नक्काशी	स्त्री.	1. धातु, पत्थर, लकड़ी आदि पर खोद कर बेल-बूटे आदि बनाने का काम या कला;	নকাশি, নকাশী;	नकाशि, नकाशी;	carving, engraving;
		2. उक्त प्रकार से बनाए गए बेल-बूटे आदि।	নকাশী করা	नकाशी करा	designing, design.
नक्कू	वि.	1. जिसका कोई आचरण या कृत्य औरों से बिल्कुल भिन्न और असाधारण हो और इसीलिए जिसकी ओर लोग उपेक्षापूर्वक उंगलियां उठाते हों, बदनाम;	যার আচরণ এবং কাজকর্ম অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সাধারণের মতো নয় এবং এই জন্য লোকে যাকে উপেক্ষা করে;	जार आचरन एबं काजकर्म अन्यदेर चेये सम्पूर्न भिन्न एबं साधारनेर मतो नय एबं एइ जन्य लोके जाके उपेक्षा करे;	butt for accusing fingers, notorious for non-conforming initiatives;
		2. अपने आपको बहुत प्रतिष्ठित या औरों से बढ़ कर समझनेवाला;	নাক-উঁচু, আত্মম্ভরী;	नाक-उंचु, आत्मम्भरी;	(person) who thinks too much of himself;
		3. बड़ी नाकवाला।	নাকু, তুংগনাসিক	नाकु, तुंगनासिक	one who has a large nose, long-nosed (person).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नक्शा	पु.	1. रेखाओं आदि द्वारा किसी वस्तु की अंकित की हुई वह आकृति या प्रतिकृति जो उस वस्तु के स्वरूप का सामान्य परिचय कराती हो, मानचित्र, खाका;	নকশা, নক্সা, নকসা;	नकशा, नक्सा, नकसा;	map;
		2. नमूना;	নমুনা;	नमुना;	model, pattern;
		3. ढांचा, संरचना;	নকশা, নকসা, ধাঁচা;	नकशा, नकसा, धांचा;	structure, design;
		4. रूपरेखा, खाका;	গঠন প্রণালী;	गठन प्रनाली;	plan, sketch, draft;
		5. सारणी;	রেখাচিত্র;	रेखाचित्र;	chart;
		6. तड़क-भड़क, दिखावा।	ঝাঁকজমক;	जांकजमक	pomp and show.
नक्शानवीस	पु.	वह व्यक्ति जो नक्शे बनाता हो।	যে নক্সা তৈরী করে, নকশাকার	जे नक्सा तैरी करे, नकशाकार	draftsman.
नक्शानवीसी	स्त्री.	नक्शा बनाने का काम।	নক্সা তৈরি করার কাজ	नक्सा तैरी करार काज	draftsmanship.
नक्षत्र	पु.	1. तारा;	নক্ষত্র, তারকা;	नक्षत्र, तारका;	star in general;
		2. चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले 27 तारों का समूह।	চন্দ্রপথবর্তী (অশ্বিনী-আদি) সাতাশটি তারকার পুঞ্জ	चन्द्रपथबर्ती (अश्बिनी आदि) साताशटि तारकार पुंज	constellation, asterism in the moon's path, comprised of 27 stars, lunar mansion.
नक्षत्र-योग	पु.	नक्षत्र के साथ ग्रहों का योग।	নক্ষত্রযোগ, চন্দ্রের অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্রের সহিত যোগ	नक्षत्रजोग, चन्द्रेर अश्बिनी-प्रभृति नक्षत्रेर सहित जोग	the conjunction of the moon with the lunar mansions.
नक्षत्रलोक	पु.	पुराणानुसार वह लोक जिसमें नक्षत्र हैं और जो चंद्रलोक से ऊपर स्थित माना गया है, सितारों की दुनिया, आकाश।	নক্ষত্রলোক, নক্ষত্রাধিষ্ঠিত লোক, আকাশ	नक्षत्रलोक, नक्षत्राधिष्ठित लोक, आकाश	the starry region, firmament, the sky.
नक्षत्रविद्या	स्त्री.	ज्योतिष-विद्या।	নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র	नक्षत्रबिद्या, ज्योतिषशास्त्र	astronomy or astrology.
नक्षत्री	वि.	जिसके नक्षत्र अच्छे हों, भाग्यवान।	ভাগ্যবান্	भाग्यबान्	person born under lucky star, fortunate person.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नख	पु.	हाथ या पैर की उंगली का नाखून।	নখ, আংগুলির অগ্রভাগস্থ উপাস্থি	नख, अङ्गुलिर अग्रभागस्थ उपास्थि	nail (of a finger or toe).
नखक्षत	पु.	वे चिह्न जो शरीर में नाखून के गड़ने या खरौंच लगने के कारण बने हों (विशेषत: प्रणय-क्रीड़ा में)।	নখক্ষত, নখের আঁচড় নখের আঘাতচিহ্ন নখের দাগ	नखक्षत, नखेर आंचड़, नखेर आघातचिह्न, नखेर दाग	bruises caused by the nails (in amorous play).
नखरा	पु.	1. लाड़-प्यार आदि के कारण की जानेवाली ऐसी हठ-पूर्ण, परंतु सुकुमारतापूर्ण चेष्टा जिसमें किसी के आग्रह को न मानने या टालने का भाव निहित होता है, हाव-भाव;	ছলাকলা, ঢঙ, ঢংগ;	छलाकला, ढङ, ढङ्ग;	coquetry, feminine airs, airs and graces;
		2. झूठा बहाना।	ছুতা, অছিলা	छुता, अछिला	lame excuse.
नखरेबाज़	वि.	प्राय: नखरे दिखानेवाला।	ছলাকলায় পটু ঢংগী	छलाकलाय पटु ढङ्गी	coquettish.
नखशिख	पुं.	पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक के सब अंग, शरीर के सम्पूर्ण अंग।	পায়ের নখ থেকে শিখা পর্যন্ত সর্বাংগ আপাদমস্তক	पायेर नख थेके शिखा पर्जन्त सर्बाङ्ग आपादमस्तक	the entire physical frame from top to bottom.
नखास	पु.	वह बाजार जिसमें पशुओं आदि का क्रय-विक्रय होता है।	গোমহিষাদির হাট	गोमहिषादिर हाट	cattle market.
नख़लिस्तान	पु.	रेगिस्तान का वह स्थान जहां पानी के सोते फूटने से हरियाली होती है।	মরূদ্যান	मरूद्यान	oasis.
नग	पु.	1. नगीना, मणि;	রত্ন, মণি;	रत्न, मनि;	precious stone, gem, jewel;
		2. पहाड़;	নগ, পাহাড়;	नग, पाहाड़;	mountain;
		3. अदद या संख्या का सूचक एक शब्द।	সংখ্যাসূচক শব্দবিশেষ, পদ	संख्यासूचक शब्दबिशेष, पद	piece, number, item.
नगण्य	वि.	जो किसी गिनती में न हो, तुच्छ, महत्वहीन।	নগণ্য, গণনার অযোগ্য, তুচ্ছ	नगन्य, गननार अजोग्य, तुच्छ	trifle, trifling, insignificant.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नगद	पु., वि., क्रि. वि.	दे. 'नकद'।	নগদ, দ্রষ্টব্য 'নকদ'	नगद, द्रष्टव्य 'नकद'	see 'नकद'.
नगदी	स्त्री.	दे. 'नकदी'।	দ্রষ্টব্য 'নকদী'	द्रष्टव्य 'नकदी'	see 'नकदी'.
नगर	पु.	गांव या कस्बे आदि से बड़ी मनुष्यों की बस्ती, शहर।	শহর	शहर	city.
नगरनिगम	पु.	किसी बड़े नगर की स्वायत्त संस्था जिसे नगरपालिका की अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं।	পৌর প্রতিষ্ঠান, পৌরনিগম, কর্পরেশন	पौर प्रतिष्ठान, पौरनिगम, कर्परेशन	municipal corporation.
नगरपालिका	स्त्री.	आधुनिक नगर-व्यवस्था में नगरनिवासियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की वह संस्था जो सारे नगर के यातायात, स्वास्थ्य, जल, रोशनी आदि का प्रबंध करती है।	পৌর প্রতিষ্ঠান, ম্যুনিসিপালিটি	पौर प्रतिष्ठान, म्युनिसिपालिटि	municipality. municipal committee.
नगरवासी	पु.	शहर में रहनेवाला।	নগরবাসী, শহরবাসী	नगरबासी, शहरबासी	person dwelling ir a city, inhabitant of a city.
नगरी	स्त्री.	छोटा नगर या शहर।	নগরী, পুরী, নগর	नगरी, पुरी, नगर	city.
नगाड़ा	पु.	डुगडुगी की तरह का चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा जो चोब (लकड़ी का छोटा डंडा) का आघात करके बजाया जाता है, डंका, नक्कारा, धौंसा।	নাকাড়া, নাকারা	नाकाड़ा, नाकारा	kettle drum, timbal.
नगीना	पु.	बहुमूल्य पत्थर आदि का चमकीला टुकड़ा जो गहनों में जड़ा जाता है, रत्न, मणि।	মূল্যবান্ পাথর, রত্ন, মণি	मूल्यबान् पाथर, रत्न, मनि	precious stone, gem, jewel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नग्न	वि.	1. जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, नंगा;	নগ্ন, বিবসন, বিবস্ত্র, উলংগ, নেংটা;	नग्न, बिबसन, बिबस्त्र, उलङ्ग, ने	naked, nude;
		2. जिस पर कोई आवरण या अलंकार आदि न हो, रिक्त, खाली।	অনাবৃত	अनाबृत	bare, uncovered, without ornament.
नग्नता	स्त्री.	1. नंगे होने की अवस्था या भाव, नंगापन;	নগ্নতা, উলংগতা, নগ্নত্ব, বিবস্ত্রতা;	नग्नता, उलङ्गता, नग्नत्व, बिबस्त्रता;	nakedness, nudeness;
		2. निर्लज्जता, बेशर्मी।	নির্লজ্জতা	निर्लज्जा	shamelessness.
नचनिया	पुं.	वह जो नाच दिखलाकर जीविका उपार्जित करता हो।	নাচনীয়া, নৃত্যকুশল, নাচুনে, নাচিয়ে	नाचनीया, नृत्यकुशल, नाचुने, नाचिये	dancer.
नचाना	स. क्रि.	1. दूसरे को नाचने में प्रवृत करना;	নাচানো;	नाचानो;	to cause to dance, to make (one) dance, to set a-dancing, to spin (a top, etc.);
		2. व्यर्थ इधर-उधर दौड़ाना या परेशान करना;	অনর্থক দৌড় ঝাঁপ করানো, নাচানো;	अनर्थक दौड़ झांप करानो, नाचानो;	to cause to run on errands, to harass;
		3. हिलाना-डुलाना (आंखों की पुतली आदि);	চোখ নাচানো;	चोख नाचानो;	to move (as the pupil of the eye etc.), to spin;
		4. इच्छानुसार कार्य कराना।	ইচ্ছামতো কাজ করানো	इच्छामतो काज करानो	to cause to act at will.
नजदीक	क्रि. वि.	कम फासले पर, निकट, पास, समीप।	নিকটে পাসে, কাছে সমীপে	निकटे पासे, काछे समीपे	near, in the vicinity of, close (to or by), not far (from), adjoining, contiguous (to).
नजदीकी	वि.	जिसके साथ निकट या पास का संबंध हो (रिश्तेदार आदि)।	ঘনিষ্ঠ, নিকট	घनिष्ट, निकट	near (as relation).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नजर	स्त्री.	1. दृष्टि, निगाह;	নজর, দৃষ্টি;	नजर, दृष्टि;	sight, eyesight, vision, look, glance;
		2. कृपा-दृष्टि, मेहरबानी;	কৃপাদৃষ্টি;	कृपादृष्टि;	favour;
		3. निगरानी;	দেখাশোনা;	देखाशोना;	watch, inspection;
		4. ध्यान, विचार, ख्याल;	লক্ষ্য;	लक्ष्य;	attention;
		5. कुदृष्टि का प्रभाव;	অশুভদৃষ্টি, অপকারক দৃষ্টি;	अशुभदृष्टि, अपकारक दृष्टि;	influence of an evil-eye;
		6. भेंट, उपहार।	ভেট, উপঢৌকন	भेट, उपढौकन	gift, present.
नजरअंदाज	वि.	उपेक्षित, अनदेखा, जिस पर ध्यान न दिया गया हो।	উপেক্ষিত, দেখাশোনা করা হয় নাই এমন	उपेक्षित, देखाशोना करा हय नाइ एमन	disregarded, unnoticed, ignored.
नजरबंद	वि.	जो किसी बंद स्थान में कड़ी निगरानी में रखा जाए और निश्चित स्थान और सीमा से बाहर आ-जा न सके।	নজরবন্দী	नजरबन्दी	under detention, under watch.
	पुं.	वह व्यक्ति जिसे मुकदमा चलाने से पहले किसी सीमित स्थान में कड़ी निगरानी में रखा गया हो, कैदी।	নজরবন্দী ব্যক্তি	नजरबन्दी व्यक्ति	detenue, internee.
नजरबंदी	स्त्री.	नजरबंद होने की अवस्था या भाव।	অবরোধ, আটক	अबरोध, आटक	detention, internment.
नजराना	पुं.	वह चीज़ जो किसी को भेंट स्वरूप दी जाए, उपहार।	নজরানা, ভেট	नजराना, भेट	gift, present.
नज़ला	पुं.	एक प्रकार का रोग जिसमें गरमी के कारण सिर का विकारयुक्त पानी ढल कर भिन्न-भिन्न अंगों की ओर प्रवृत होता है और जिस अंग की ओर ढलता है उसे खराब कर देता है।	সর্দ্দি	सर्दि्द	catarrh, cold.
नजाकत	स्त्री.	1. शारीरिक कोमलता या सुकुमारता;	কোমলতা বা সুকুমারতা;	कोमलता बा सुकुमारता;	tenderness, delicacy;
		2. सुकुमार अंगों की मृदु चेष्टा।	অংগসৌষ্ঠব	अङ्गसौष्ठब	elegance, grace.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नज़ारा	पुं.	1. वह जो दिखाई दे, दृश्य; 2. अनुरागपूर्ण दृष्टि, भ्रूविलास, कटाक्ष।	যাহা নজরে আসে; অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি ভ্রূবিলাস, কটাক্ষ	जाहा नजरे आसे; अनुरागपूर्न दृष्टि भ्रूबिलास, कटाक्ष	scene, sight, view; amorous glance, ogling.
नट	पुं.	1. नाटक खेलनेवाला व्यक्ति, अभिनेता;	নট, অভিনেতা;	नट, अभिनेता;	actor;
		2. कलाबाज;	কলাবাজ;	कलाबाज;	acrobat, tumbler;
		3. तरह-तरह के शारीरिक कौशल दिखानेवाली कंजर नामक एक घुमक्कड़ हिन्दू जाति जो रज्जुनर्तक, बाजीगर आदि होती है।	কঞ্জর নামক যাযাবর হিন্দু জাতিবিশেষ, ইহারা দড়াবাজি ইত্যাদি দেখাইয়া বেড়ায়	कञ्जर नामक जाजाबर हिन्दु जातिबिशेष, इहारा दड़ाबाजि इत्यादि देखाइया बेड़ाय	name of a particular vagrant caste in Hindus, the Indian gypsy, a rope-dancer, juggler etc.
नटखट	वि.	शरारती, चंचल, ऊधमी।	চঞ্চল, দুরন্ত	चंचल, दुरन्त	naughty, playful.
नटना	अ. क्रि.	प्रतिज्ञा, वचन आदि से मुकरना।	কথার খেলাপ করা, প্রতিজ্ঞা ভংগ করা	कथार खेलाप करा, प्रतिज्ञा भङ्ग करा	to say 'no', to go back on one's word, to deny, to negate.
नटनी	स्त्री.	1. नटजाति की स्त्री;	নটিনী, নটী, নটজাতি-স্ত্রী;	नटिनी, नटी, नटजाति-स्त्री;	woman of 'nat' tribe;
		2. अभिनेत्री।	অভিনেত্রী	अभिनेत्री	actress, a nautch girl.
नटी	स्त्री.	1. अभिनेत्री;	নটী, অভিনেত্রী;	नटी, अभिनेत्री;	actress;
		2. सूत्रधार की पत्नी;	সূত্রধারের সহ-কারিণী অভিনেত্রী;	सूत्रधारेर सह-कारिनी अभिनेत्री;	wife of the stage-manager;
		3. नटजाति की स्त्री।	নটজাতি-স্ত্রী	नटजाति-स्त्री	woman of the 'nat' tribe.
नत	वि.	1. झुका हुआ;	নত, আনত,	नत, आनत;	bent, stooping, inclined, curved;
		2. नमस्कार के लिए या नम्रतावश झुका हुआ;	প্রণত;	प्रनत;	bowed, bowing to, saluting;
		3. विनम्र।	নম্র, বিনীত	नम्र, बिनीत	humble.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नतमस्तक	वि.	1. जिसने किसी के आगे नम्रता या लज्जा आदि के कारण सिर झुका दिया हो;	নতমস্তক, নতশির;	नतमस्तक, नतशिर;	having the head bowed down through modesty, shame etc;
		2. आदरभावयुक्त।	নতমস্তক, সশ্রদ্ধ নম্রভাবযুক্ত	नतमस्तक, सश्रद्ध नम्रभावजुक्त	respectful.
नति	स्त्री.	1. नत होने की क्रिया या भाव;	নতি, নত অবস্থা বা ভাব;	नति, नत अबस्था बा भाब;	bend, curvature, crooked-ness;
		2. किसी ओर होनेवाली मन की प्रवृत्ति;	ঝোঁক, প্রবণতা;	झोंक, प्रबनता;	inclination, bias;
		3. नम्रता।	নম্রতা	नम्रता	modesty, humbleness.
नतीजा	पु.	1. परिणाम फल;	পরিণাম ফল;	परिनाम फल;	result, consequence, effect;
		2. परीक्षाफल;	পরীক্ষাফল;	परीक्षाफल;	examination result;
		3. निष्कर्ष।	নিষ্কর্ষ	निष्कर्म	conclusion.
नत्थी	वि.	पिन, धागे आदि से एक साथ बंधा हुआ, साथ लगा हुआ, संलग्न (कागज आदि)।	নথী, নথি, সূতা দিয়া বাঁধা কাগজের তাড়া	नथी, नथि, सूता दिया बांधा कागजेर ताड़ा	tagged, attached, appended (papers etc.).
नथ	स्त्री.	1. नाक में पहनने का सोने के तार आदि का बना हुआ एक गोलाकार गहना;	নথ, নাকের গহনা বিশেষ;	नथ, नाकेर गहना बिशेष;	nose-ring;
		2. बैलों के नाथने की रस्सी, नाथ।	গরুর নাকের দড়ি	गरुर नाकेर दड़ि	nose-rope (of a bullock etc.).
नथना	अ. क्रि.	1. नत्थी होना;	সংলগ্ন হওয়া;	संलग्न हओया;	to be tagged;
		2. छिदना।	ফোঁটানো	फोंटानो	to be pierced.
	पु.	1. नाक का अगला भाग;	নাসারন্ধ্র;	नासारन्ध्र;	nostril, nares;
		2. नाक में पहनने की बड़ी नथ;	বড় নথ;	बड़ नथ;	large nose-ring.;
		3. बैलों के नाथने की रस्सी नाथ।	গরুর নাকের দড়ি	गरुर नाकेर दड़ि	nose-rope (of a bullock etc.).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नथनी	स्त्री.	1. नाक में पहनने की छोटी नथ; 2. बैलों के नाथने की रस्सी, नाथ।	নথনী, ছোট নথ; গরুর নাকের দড়ি	नथनी, छोट नथ; गरुर नाकेर दड़ि	small nose-ring; nose-rope (of a bullock etc.).
नथुना	पु.	नाक का अगला भाग, नथना।	নাসারন্ধ্র	नासारन्ध्र	nostril, nares.
नदारद	वि.	गायब, लुप्त।	গায়েব, লুপ্ত	गायेब, लुप्त	absent, missing, disappeared.
नदी	स्त्री.	जल की वह प्राकृतिक धारा जो किसी पहाड़, झील आदि से निकलकर विशिष्ट मार्ग से बहती हुई किसी अन्य जलधारा, झील या समुद्र में जा मिली हो।	নদী, স্বাভাবিক জলস্রোত, স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিণী	नदी, स्वाभाविक जलस्रोत, स्रोतस्विनी, तटिनी, प्रवाहिनी	river.
ननद (नंद)	स्त्री.	पति की बहन।	ননদ, স্বামীর ভগিনী	ननद, स्वामीर भगिनी	husband's sister, sister-in-law.
ननदोई	पु.	ननद का पति।	ননদাই, নন্দাই	ननदाइ, नन्दाइ	husband of the husband's sister, brother-in-law.
ननिहाल	पु.	नाना का घर या घराना, ननसार, ननसाल।	মামার বাড়ী	मामार बाड़ी	the house or family of maternal grand-father.
ननुनच	पु.	किसी बात में की जानेवाली छोटी-मोटी आपत्ति।	কোনো কথায় ছোটখাট আপত্তি	कोनो कथाय छोटखाट आपत्ति	demur.
नन्हा (नन्ही	वि. स्त्री.)	अवस्था, आकार आदि में बहुत छोटा (बच्चा आदि)।	কচি, খুদে (বাচ্চা)	कचि, खुदे (बाच्चा)	small, tiny, little one, young.
नपाई	स्त्री.	1. नापने की क्रिया या भाव; 2. नापने की मजदूरी।	মাপা; মাপিবার মজুরী	मापा; मापिबार मजुरी	the process of measuring, measurement; charges paid for measuring.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नपुंसक	पु.	**ऐसा पुरुष जिसमें न तो पूर्ण पुरुषों के चिह्न हों और न स्त्रियों के ही, क्लीव, हिजड़ा।**	নপুংসক, ক্লীব, হিজড়া, খোজা	नपुंसक, क्लीब, हिजड़ा, खोजा	hermaphrodite (neither man nor woman), a eunuch;
	वि.	1. जिसमें काम-वासना या स्त्री-संभोग की शक्ति बिल्कुल न हो, नामर्द;	পুরুষত্বহীন;	पुरुषत्वहीन;	impotent, eunuch;
		2. कायर;	নপুংসক, ভীরু;	नपुंसक, भीरु;	coward;
		3. नपुंसक लिंग (व्या०)।	ক্লীব লিংগ (ব্যাকরণে)	क्लीब लिङ्ग (ब्याकरने)	neuter gender (in grammar).
नपुंसकता	स्त्री.	1. नपुंसक होने की अवस्था या भाव, कायरता, हिजड़ापन;	নপুংসকতা, ক্লীবত্ব;	नपुंसकता, क्लीबत्व;	cowardliness, unmanliness;
		2. नामर्दी का रोग।	ধ্বজভংগ	ध्वजभङ्ग	impotency.
नफरत	स्त्री.	1. किसी के प्रति होने वाली अरुचिपूर्ण भावना, विरक्ति;	বিরূপ, মনোভাব, বিরক্তি;	बिरूप, मनोभाव, बिरक्ति;	contempt, abomination, disgust;
		2. घृणा।	ঘৃণা	घृना	hatred, dislike.
नफा	पु.	1. आर्थिक लाभ;	আর্থিক লাভ;	आर्थिक लाभ;	profit;
		2. हित, लाभ;	নাফা, উপকার;	नाफा, उपकार;	advantage;
		3. किसी प्रकार की प्राप्ति।	লাভ	लाभ	gain.
नफीस	वि.	**बढ़िया, उत्तम, रुचिकर।**	বেড়ে, উত্তম, রুচিকর	बेड़े, उत्तम, रुचिकर	nice, fine, excellent, exquisite, dainty.
नबूज	स्त्री.	हाथ की वह रक्तवाहिनी नलिका जिसके कलाई पर पड़नेवाले अंश की गति से रोग, आरोग्य आदि की पहचान की जाती है, नाड़ी।	নাড়ী	नाड़ी	pulse.
नबूवे	वि.	**जो गिनती में अस्सी से दस अधिक हो।**	নব্বই	नब्बइ	ninety.
	पु.	**नबूबे की सूचक संख्या।**	(৯০) এই সংখ্যা	(90) एइ संख्या	the number ninety.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नभ	पु.	आकाश, आसमान, बिल्कुल खाली या शून्य स्थान, व्योम।	নভ, আকাশ, শূন্য, ব্যোম, গগন	नभ, आकाश, शुन्य, ब्योम, गगन	the sky, firmament, ether.
नभोमंडल	पु.	मंडलाकार आकाश।	নভোমন্ডল গগনমন্ডল	नभोमन्डल, गगनमन्डल	sky-circle, firmament.
नम	वि.	भीगा हुआ, गीला, आर्द्र।	ভিজা, আদ্র	भिजा, आद्र	moist, damp, wet.
नमक	पु.	एक प्रसिद्ध क्षार पदार्थ जो मुख्यतः खारे जल से तैयार किया जाता है और कहीं-कहीं चट्टानों के रूप में भी मिलता है, लवण।	নিমক, নুন, লবণ	निमक, नुन, लबन	salt.
नमकदान	पु.	पिसा हुआ नमक रखने का पात्र।	নিমকদান	निमकदान	salt-cellar.
नमकहराम	वि.	जो अपने आश्रयदाता, उपकारक या स्वामी का अहित चाहता या करता हो, कृतघ्न।	নমকহারাম, নেমকহারাম	नमकहाराम, नेमकहाराम	ungrateful, unfaithful, disloyal.
नमकहरामी	स्त्री.	नमकहराम होने की अवस्था या भाव, कृतघ्नता।	নিমকহারামী	निमकहारामी	ingratitude, ungratefulness, unfaithfulness, disloyalty.
नमकहलाल	वि.	जो अपने स्वामी, आश्रयदाता या उपकारक की भलाई करने के लिए सदा तत्पर रहता है, कृतज्ञ, स्वामिभक्त।	নিমকহালাল, কৃতজ্ঞ	निमकहालाल, कृतज्ञ	grateful, faithful, loyal.
नमकहलाली	स्त्री.	नमकहलाल होने का भाव या गुण, कृतज्ञता, स्वामिभक्ति।	নিমকহালালী, কৃতজ্ঞতা	निमकहालाली, कृतज्ञता	gratitude, gratefulness.
नमकीन	वि., पुं.	1. जिसमें नमक मिला हो; 2. जो स्वाद में नमक के स्वाद जैसा हो; 3. जो देखने में सांवला होने पर भी सुन्दर हों।	নোনতা; নোনা, লবণাক্ত, নোনতা; সুন্দর, শ্যামল লাবণ্যময়	नोनता; नोना, लबनाक्त, नोनता; सुन्दर, श्यामल लाबन्यमय	salt, salted; saline, brackish; handsome, beautiful, pretty.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नमदा	पु.	एक प्रकार का ऊनी कंबल जो गद्दे की तरह बिछाया जाता है।	নামদা, একপ্রকারের পশমী কম্বল	नामदा, एकप्रकारेर पशमी कम्बल	felt, a coarse woollen carpet.
नमन	पुं.	1. झुकने की क्रिया या भाव; 2. नमस्कार, प्रणाम।	নমন, নোয়ান; নতি; প্রণাম	नमन, नोयान, नति; प्रनाम	bending, flexure; deference salutation, obeisance, bowing, bowing down.
नमस्कार	पु.	1. अभिवादन, प्रणाम; 2. अभिवादन करने के लिए प्रयुक्त एक शब्द।	নমস্কার, অভিবাদন; অভিবাদন করার সময় মুখে উচ্চারিত শব্দ	नमस्कार, अभिवादन; अभिबादन करार समय मुखे उच्चारित शब्द	salutation, obeisance; a term used for greeting or salutation.
नमस्ते	स्त्री.	संस्कृत का एक वाक्य जिसका अर्थ है, 'आपको नमस्कार है'।	নমস্তে, কেউ কেউ নমস্কার করার সময় মুখে বলেন 'নমস্তে'	नमस्ते, केउ केउ नमस्कार करार समय मुखे बलेन 'नमस्ते'	a term used for greeting or salutation, lit. 'salutation to you
नमाज	स्त्री.	मुसलमानों की एक विशिष्ट प्रकार और रूप की ईश्वर-प्रार्थना जिसे दिन में पांच बार करने का विधान है।	নমাজ, মুসলমানধর্মবিহিত ঈশ্বরোপাসনা	नमाज, मुसलमानधर्मबिहित ईश्बरोपासना	a formal prayer (offered by Muslims).
नमाजी	वि., पु.	नियमपूर्वक समयानुसार नमाज पढ़नेवाला (व्यक्ति), धार्मिक मुसलमान।	নমাজী, নিয়মিত-ভাবে নমাজকারী, ধার্মিক মুসলমান	नमाजी, नियमित-भाबे नमाजकारी, धार्मिक मुसलमान	meticulously regular in 'namaz', a devout Muslim.
नमित	वि.	1. झुका हुआ; 2. झुकाया हुआ।	নমিত, নতীকৃত; নোয়ানো হইয়াছে এমন	नमित, नतीकृत; नोयानो हइयाछे एमन	bowed, bent down; caused to stoop.
नमी	स्त्री.	आर्द्रता, गीलापन।	আর্দ্রতা, সিক্ততা	आर्द्रता, सिक्तता	moisture, dampness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नमूना	पुं.	1. किसी वस्तु की बहुत सी इकाइयों में से कोई इकाई जो उस वस्तु का स्वरूप बतलाने के लिए दिखाई जाती है;	নমুনা, কোনো বস্তু বা কার্যের নিদর্শন;	नमुना, कोनो बस्तु बा कार्जेर निदर्शन;	specimen;
		2. किसी पदार्थ का कोई ऐसा अंश जो उसके गुण और स्वरूप का परिचय कराने के लिए निकाला गया हो, बानगी;	আদর্শ, প্রতিরূপ;	आदर्श, प्रतिरूप;	a sample;
		3. वह जिसे देखकर उसके अनुसार वैसा ही कुछ और बनाया जाए, प्रतिमान;	কোনো বস্তুর নিদর্শন;	कोनो बस्तुर निदर्शन;	pattern, model, design;
		4. उदाहरण।	উদাহরণ	उदाहरन	example.
नम्र	वि.	जिसमें नम्रता और विनय हो।	নম্র, বিনয়ান্বিত, বিনীত, নত	नम्र, बिनयान्वित, बिनीत, नत	modest, humble, meek, courteous, submissive.
नम्रता	स्त्री.	नम्र होने की अवस्था, गुण या भाव।	নম্রতা, নতভাব, বিনয়	नम्रता, नतभाव, बिनय	modesty, humility, meekness.
नय	पुं.	प्रबंध, व्यवस्था और शासन करने का कोई कौशलपूर्ण ढंग, नीति।	নয়, উপায়, নীতি	नय, उपाय, नीति	policy.
नयन	पुं.	नेत्र, आंख।	নেত্র, চক্ষু, চোখ	नेत्र, चक्षु, चोख	the eye.
नयनाभिराम	वि.	जो देखने में प्रिय तथा सुन्दर हो।	নয়নাভিরাম, প্রিয়দর্শন	नयनाभिराम, प्रियदर्शन	gladdening the sight, lovely to behold, charming, beautiful, attractive.
नया	वि.	1. जो अभी हाल में ही निकला, बना या हुआ हो, नवीन;	নয়া, নব্য, নূতন;	नया, नव्य, नूतन;	new, novel;
		2. थोड़े दिनों का, हाल का, ताजा;	ইদানীন্তন, অর্বাচীন, তাজা;	इदानीन्तन, अर्वाचीन, ताजा;	recent, fresh;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. जो पहले किसी के उपयोग या व्यवहार में न आया हो;	অব্যবহৃত;	अव्यबहृत;	unused;
		4. किसी के स्थान पर आनेवाला दूसरा;	কাহারও স্থানে নবাগত;	काहारओ स्थाने नबागत;	new comer;
		5. अनुभवरहित;	অপরিপক্ক;	अपरिपक्क;	inexperienced;
		6. आधुनिक;	আধুনিক;	आधुनिक;	modern;
		7. (पहले से) अज्ञात;	অজ্ঞাত;	अज्ञात;	not known;
		8. अपरिचित;	অপরিচিত;	अपरिचित;	unacquainted;
		9. मौलिक।	মৌলিক	मौलिक	original.
नयापन	पु.	1. नये होने की अवस्था या भाव, नवीनता;	নূতনত্ব, নবীনতা;	नूतनत्व, नबीनता;	newness, novelty;
		2. कोई ऐसा नवीन गुण या विशेषता जिसके फलस्वरूप किसी चीज में कोई चमत्कार या सौन्दर्य उत्पन्न हो जाए, मौलिकता।	মৌলিকতা	मौलिकता	originality.
नर	पु.	पुरुष, आदमी, मर्द।	নর, পুরুষ, মর্দ্দ	नर, पुरुष, मर्द्द	man, male person.
	वि.	जिसमें वे सब शारीरिक अवयव हों जो किसी विशिष्ट वर्ग के वीर्यवान जीवों में होते हैं, मादा का विपर्याय।	পুরুষ জাতীয়	पुरुष जातीय	male.
नरक	पु.	1. पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार वह स्थान जहां पापी मनुष्यों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात् यातनाएं सहनी पड़ती हैं;	নরক, পাপীদের মৃত্যুর দন্ড-ভোগের জন্য পুরাণাদিবর্ণিত স্থান, জাহান্নম;	नरक, पापीदेर मृत्युर दन्ड-भोगेर जन्य पुरानादिबर्नित स्थान, जाहान्नम;	hell, infernal region, inferno;
		2. बहुत गंदा और दुर्गन्धपूर्ण स्थान;	জঘন্য নোংরা জায়গা;	जघन्य नोङ्रा जायगा;	dirty and obnoxious place;
		3. वह स्थान जहां अनेक प्रकार के कष्ट होते हों।	ক্লেশপ্রাপক স্থান	क्लेशप्रापक स्थान	a place of great torture or agony.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नरकुल	पु.	बेंत की जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके डंठल मजबूत किन्तु खोखले होते हैं और अनेक प्रकार के कामों में लाये जाते हैं।	নলখাগড়া, শর	नलखागड़ा, शर	reed, bulrush.
नरगिस	पु.	प्याज की तरह का एक पौधा और उसके फूल जो कटोरी के आकार के सफेद रंग के होते हैं तथा जिसमें गोल काला धब्बा होता है।	ড্যাফোডিল জাতীয় পুষ্পবিশেষ	ड्याफोडिल जातीय पुष्पबिशेष	the narcissus plant and its flowers.
नरगिसी	पु.	1. एक तरह का कोफ्ता जो अंडों पर कीमा चढ़ाकर बनाया जाता है; 2. पुरानी चाल का एक प्रकार का कपड़ा जिस पर नरगिस के फूलों के आकार की बूटियां होती थीं।	মাংসের কিমা ও ডিম দিয়া তৈরী কোপ্তা বিশেষ; নরগিস ফুলের বুটিদার এক প্রকার পুরানো ঢঙের কাপড়	मांसेर किमा ओ डिम दिया तैरी कोप्ता बिशेष; नरगिस फुलेर बुटिदार एक प्रकार पुरानो ढङेर कापड़	a ball of minced meat stuffed with egg; a kind of cloth or garment figured with narcissus flowers.
	वि.	नरगिस के आकार-प्रकार, रूप-रंग आदि का।	নরগিস ফুলের মতন	नरगिस फुलेर मतन	like a narcissus flower.
नरपशु	पु.	जो मनुष्य होकर भी पशुओं का सा आचरण करता हो।	নরপশু, নরাকার পশু, পশু প্রকৃতি মানুষ, পশুর মতো আচারণকারী মানুষ	नरपशु, नराकार पशु, पशुप्रकृति मानुष, पशुर मतो आचरनकारी मानुष	a 'beast-like man' a beast in human form, a beasty man.
नरमाना	अ. क्रि.	1. मुलायम होना;	নরম হওয়া, মোলায়েম হওয়া;	नरम हओया, मोलायेम हओया;	to soften;
		2. शांत होना।	শান্ত হওয়া, নরম হওয়া	शान्त हओया, नरम हओया	to become moderate, to be mollified, pacified etc.
	स. क्रि.	1. मुलायम करना; 2. शांत करना।	নরম করা; শান্ত করা	नरम करा; शान्त करा	to soften; to moderate, to mollify, pacify etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नरसिंगा (नरसिंघा)	पु.	तुरही के आकार का फूंककर बजाया जानेवाला एक बाजा।	শিংগা	शिङ्गा	a (musical) horn.
नरसों	क्रि. वि.	1. बीते हुए परसों के पहले का दिन;	তরশু, গত পরশুর পূর্বদিন;	तरशु, गत परशुर पूर्बदिन;	the fourth day past, two days before yesterday;
		2. आनेवाले परसों के बाद का दिन।	আগামী পরশুর পরের দিন	आगामी परशुर परेर दिन	two days after tomorrow.
नराधम	पु.	अधम या नीच व्यक्ति।	নরাধম, অতিশয় অধম ব্যক্তি	नराधम, अतिशय अधम ब्यक्ति	a low or vile man, a wretch.
नरिया	पुं.	एक प्रकार का मिट्टी का अर्द्ध-वृत्ताकार लंबा खपड़ा जो मकान की छावन पर रखने के काम आता है।	অর্দ্ধবৃত্তাকার লম্বা খাপরা বিশেষ	अर्द्धबृत्ताकार लम्बा खापरा बिशेष	an earthen semi-cylindrical tile.
नरेश	पु.	राजा।	নরেশ, রাজা, নৃপতি	नरेश, राजा, नृपति	king, prince.
नर्तक	पु.	नाचनेवाला व्यक्ति।	নর্তক	नर्तक	dancer.
नर्तकी	स्त्री.	नाचनेका पेशा करनेवाली स्त्री।	নর্তকী, নৃত্যকর্ম-কুশলা নারী, নটী	नर्तकी, नृत्यकर्म-कुशला नारी, नटी	a female dancer, dancing girl.
नर्तन	पुं.	नाचने की क्रिया या भाव, नाच, नृत्य।	নর্তন, নৃত্য, নাচ	नर्तन, नृत्य, नाच	dancing, dance.
नर्म (नरम)	वि.	1. जो कड़ा न हो, मुलायम;	নরম, মোলায়েম;	नरम, मोलायेम;	soft;
		2. लचीला;	নমনীয়;	नमनीय;	flexible;
		3. जिसमें उग्रता या कठोरता न हो, मृदुल, कोमल;	অনুগ্র, মৃদু, কোমল;	अनुग्र, मृदु, कोमल;	delicate, tender;
		4. मंद, धीमा।	মন্দ, ঢিমা	मन्द, ढिमा	mild, gentle.
नर्मदिल	वि.	कोमल हृदयवाला, दयालु।	যাহার মন নরম, কোমলহৃদয়,দয়ালু	जाहार मन नरम, कोमलहृदय,दयालु	tender-hearted, kind-hearted.
नर्मी (नरमी)	स्त्री.	1. नर्म होने की अवस्था, गुण या भाव;	নরমভাব;	नरमभाव;	softness;
		2. कठोरतापूर्ण व्यवहार न करने का गुण, मृदुलता, कोमलता;	মৃদুতা, কোমলতা;	मृदुता, कोमलता;	tenderness;
		3. मंदता, धीमापन;	মন্দতা;	मन्दता;	gentleness, mildness, want of firmness;
		4. ढिलाई (बर्ताव आदि)।	ঢিলেমি	ढिलेमि	slackness;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नल	पुं.	1. ऐसा वर्तुलाकार लंबा खंड या रचना जिसका भीतरी भाग खोखला हो और जिसके अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीजें आती-जाती हों;	নল, চোঙ, চোঙা, পাইপ;	नल, चोङ्, चोङा पाइप;	pipe, tube;
		2. जलकल का वर्तुलाकार लंबा, खोखला, लोहे का टुकड़ा जिसके द्वारा जल की पूर्ति की जाती है, नलका, बम्बा।	জলের পাইপ	जलेर पाइप	water-pipe, hydrant.
नलकी	स्त्री.	छोटा नल, नली।	ছোট নল, নলী, নলি	छोट नल, नली, नलि	small or narrow pipe, tube, tubule.
नलकूप	पुं.	एक विशेष प्रकार का आधुनिक यंत्र जिसके द्वारा सिंचाई के लिए जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है।	নলকূপ, টিউব ওয়েল	नलकूप, टिउब ओयेल	tube-well.
नलिका	स्त्री.	नली।	নলিকা, নলী, চোঙ	नलिका, नली, चोङ	tube, tubule;
नलिनी	स्त्री.	कमलिनी, कमल।	নলিনী, পদ্ম	नलिनी, पद्म	lotus.
नली	स्त्री.	1. छोटा या पतला नल, नलकी;	নলী, নলি, ছোট নল;	नली, नलि, छोट नल;	tube, tubule;
		2. शरीर में नल के आकार की भीतर से पोली हड्डी जिसमें मज्जा होती है;	নলী, শরীরস্থ নলাকার হাড়;	नली, शरीरस्थ नलाकार हाड़;	marrow bone;
		3. बंदूक की नली जिसमें से होकर गोली गुजरती है।	বন্দুকের নল	बन्दुकेर नल	barrel (of gun).
नव	वि.	1. नया, नवीन;	নব, নয়া, নূতন;	नब, नया, नूतन;	new, fresh, young;
		2. आधुनिक;	আধুনিক;	आधुनिक;	modern;
		3. जो गिनती में आठ से एक अधिक हो, नौ।	নয়, নবসংখ্যক	नव, नवसंख्यक	nine.
	पुं.	आठ और एक के योग की सूचक संख्या।	(৯) এই সংখ্যা	(9) एइ संख्या	the number nine.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नवग्रह	पुं.	सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ये नौ ग्रह (ज्योतिष)।	নবগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র এবং কেতু আদি নয়টি গ্রহ	नबग्रह, सूर्ज, चन्द्र एबं केतु आदि नयटि ग्रह	the nine planets (sun, moon etc.).
नवजात	वि.	जिसका जन्म कुछ ही समय पहले हुआ हो।	নবজাত, সদ্য উৎপন্ন বা প্রসূত	नबजात, सद्य उत्पन्न बा प्रसूत	newly born, nascent, neonatal.
नवजीवन	पुं.	1. नया जीवन, नई जिन्दगी, मृत्यु के बाद प्राप्त होनेवाला दूसरा जीवन;	নবজীবন, নূতন জীবন;	नबजीबन, नूतन जीबन;	new life, next life, life after death;
		2. जीवन में होनेवाला बड़ा परिवर्तन, जीवन का नया मोड़;	জীবনে কোনো এক বিরাট পরিবর্তন, জীবনের নূতন মোড়;	जीबने कोनो एक बिराट परिबर्तन, जीबनेर नूतन मोड़;	a new turn in life, a great change in life;
		3. मृत्यु से बच जाना, मरते-मरते बचना।	নবজীবন, পুনর্জীবন	नबजीबन, पुनर्जीबन	to be saved from death.
नवधाभक्ति	स्त्री.	नौ प्रकार की भक्ति-श्रवण कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन।	নবধা ভক্তি, নয় প্রকার ভক্তি, যথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, সখ্য, দাস্য এবং আত্মনিবেদন	नबधा भक्ति, नय प्रकार भक्ति, जथा श्रबन, कीर्तन, स्मरन, पादसेबन, अर्चन बन्दन, सख्य, दास्य एबं आत्मनिबेदन	the nine ways of devotion. (श्रवण, कीर्तन etc).
नवनिधि	स्त्री.	कुबेर की नौ निधियाँ:- पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व।	কুবেরের মহাপদ্মাদি নবরত্ন, যথা– পদ্ম, শঙ্খ, মকর, নীল আদি	कुबेरेर महापद्मादि नबरत्न, जथा– पद्म, शङ्ख, मकर, नील आदि	the nine treasures of Kubera, the god of riches (पद्म, महापद्म etc.).
नवनिर्माण	पुं.	किसी चीज का नए सिरे से किया जानेवाला निर्माण।	নবনির্মাণ, নূতন করিয়া নির্মাণ	नबनिर्मान, नूतन करिया निर्मान	to construct a new thing, afresh construction, reconstruction.
नवनीत	पुं.	1. मक्खन;	নবনীত, মাখন;	नबनीत, माखन;	butter;
		2. श्री कृष्ण।	শ্রীকৃষ্ণ	श्रीकृष्न	Lord Krishna.
नवम	वि.	नौ के स्थान पर पड़नेवाला नवाँ।	নবম	नबम	ninth.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नवमी	स्त्री.	चांद्रमास के किसी पक्ष की नवीं तिथि।	নবমী, অষ্টমীর পরবর্তী তিথি	नबमी, अष्टमीर परबर्ती तिथि	the ninth day of a lunar fortnight.
नवयुवक	पु.	नौजवान, तरुण।	নবযুবক, নবীন যুবক	नबजुबक, नबीन जुबक	a youth, a young man.
नवयुवती	स्त्री.	नौजवान स्त्री, तरुणी।	নবযুবতী	नबजुबती	a young woman.
नवयुवा	पु.	दे. 'नवयुवक'।	দ্রষ্টব্য 'নবযুবক'	द्रष्टव्य 'नवयुवक'	same as 'नवयुवक'.
नवयौवन	पु.	नई जवानी, तरुणाई।	নবযৌবন, নবলব্ধ যৌবন, যৌবন-প্রারম্ভ, তারুণ্য	नबजौबन, नबलब्ध जौबन, जौबन-प्रारम्भ, तारुन्य	fresh youth, bloom or prime of youth.
नवयौवना	स्त्री.	वह स्त्री, जिसमें युवावस्था के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे हों, नौजवान स्त्री, नवयुवती।	নবযৌবনা, নবযুবতী, নূতন যৌবন-প্রাপ্তা	नबजौबना, नबजुबती, नूतन जौबन-प्राप्ता	a girl just grown up to puberty, a woman in the prime of youth, a young woman.
नवरत्न	पु.	1. मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद, हीरा, मूंगा, लहसुनिया, पद्म-राग और नीलम—ये नौ रत्न·	নবরত্ন, মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্ত এই নয়টি রত্ন	नबरत्न, मुक्ता, मानिक्य, बैदुर्ज, गोमेद, बज्र, बिद्रुम, पद्मराग, मरकत एबं नीलकान्त एइ नयटि रत्न	the nine precious gems (viz. pearl, ruby, topaz, diamond, emerald, lapis or lazuli, coral, sapphire and one called go-meda);
		2. राजा विक्रमादित्य की सभा के नौ प्रसिद्ध पंडित (अर्थात् धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटखर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि)।	বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্ন, যথা—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি	बिक्रमादित्येर सभार नबरत्न जथा—धनन्तरि, क्षपनक, अमरसिंह, शङ्कु, बेतालभट्ट, घटकर्पर, कालिदास, बराहमिहिर एबं बररुचि	the nine jewels i.e. men of letters, at the court of Vikramaditya (viz. Dhanvantri, Kshapanak, Amar Singh, Sanku, Vetal Bhatt, Ghatakharpar, Kalidas, Vararuchi and Varahmihir).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नवरस	पु.	भारतीय साहित्य शास्त्र में शृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत—ये नौ प्रकार के रस।	নবরস, শৃংগারাদি নয় প্রকার রস, যথা–শৃংগার, হাস্য করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত ও শান্ত	नबरस, श्रृंगारादि नय प्रकार रस, जथा—श्रृंङ्गार हास्य, करुन, रौद्र, बीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत ओ शान्त	the nine 'rasas' in poetry (viz शृंगार, करुण etc. according to Indian critical thought).
नवरात्र	पु.	आश्विन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के नौ दिन जिसमें हिंदु लोग दुर्गा का पूजन आदि करते हैं।	নবরাত্র, আশ্বিনের শূক্ল প্রতিপদাদি নবমী পর্যন্ত নয় তিথিতে কর্তব্য বিশেষ	नबरात्र, आश्बिनेर शुक्ल प्रतिपदादी नबमी पर्जन्त नय तिथिते कर्तब्य बिशेष	the period of nine days from the first of the light half of the months Asvina and Chaitra to the ninth devoted to the worship of Durga.
नवल	वि.	1. नया, नवीन;	নওল, নবীন;	नओल, नबीन;	new, novel;
		2. नया और अनोखा, बढ़िया, आकर्षक;	নূতন এবং সুন্দর, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক;	नूतन एबं सुन्दर अत्यन्त चित्ताकर्षक;	new and attractive, fine, charming, wonderful;
		3. नवयुवक।	নবযুবক	नबजुबक	young.
नववधू	स्त्री.	नवविवाहित स्त्री।	নববধূ, নববিবাহিতা স্ত্রী	नबबधू, नबबिबाहित स्त्री	a newly married girl, a bride.
नवशिक्षित	वि.	जिसने अभी हाल में ही कुछ पढ़ना-लिखना सीखा हो।	নবশিক্ষিত, সম্প্রতি কিছু লেখা-পড়া শিখিয়াছে	नबशिक्षित, सम्प्रति किछु लेखा-पड़ा शिखियाछे	neo-literate.
नवां	वि.	नौ के स्थान पर पड़नेवाला।	নবম ৯ই	नबम 9इ	ninth.
नवागत	वि.	नया आया हुआ, जो अभी आया हो।	নবাগত, নূতন আসিয়াছে এমন	नबागत, नूतन आसियाछे एमन	just come, recently arrived.
	पु.	नया आनेवाला (व्यक्ति), अतिथि।	নূতন আগত ব্যক্তি, অতিথি	नूतन आगत ब्यक्ति, अतिथि	newcomer, guest.
नवाना	स. क्रि.	1. झुकाना;	নোয়ানো;	नोयानो;	to bend, to bow;
		2. विनीत करना।	বিনীত করানো	बिनीत करानो	to cause to submit to.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नवाब	पु.	1. किसी प्रदेश का मुसलमान शासक;	নবাব; মুসলমান জমিদার	नबाब; मुसलमान जमिदार	Muslim nobleman or ruler;
		2. मुसलमान रईसों को अंग्रेजी शासन की ओर से मिलनेवाली उपाधि;	বা বড় লোকের ইংরাজ সরকারের দেওয়া খেতাব;	बा बड़ लोकेर इङराज सरकारेर देओया खेताब;	title of some Muslim rulers;
		3. बहुत शानशौकत और अमीरी ढंग से रहनेवाला तथा खूब खर्च करनेवाला (व्यक्ति)।	নবাবের মতো চালচলন বিশিষ্ট আরামপ্রিয় বিলাসী ব্যক্তি	नबाबेर मतो चालचलन बिशिष्ट आरामप्रिय बिलासी ब्यक्ति	a man living with great pomp and show.
नवाबी	वि.	1. नवाबों का;	নবাবী, নবাব-সম্বন্ধী;	नबाबी, नबाब सम्बन्धी;	of or relating to a nawab;
		2. नवाबों-जैसा।	নবাবের মতো	नबाबेर मतो	nawab-like.
	स्त्री.	1. नवाब होने की अवस्था, भाव या पद;	নবাবি, নবাবগিরি;	नबाबि, नबाबगिरि;	the state of being a nawab;
		2. नवाब का पद या कार्य;	নবাবের পদ বা কার্য;	नबाबेर पद बा कार्ज;	the office of a nawab;
		3. नवाबों की तरह की बहुत अधिक अमीरी या शान-शौकत;	নবাবের মতো চালচলন;	नबाबेर मतो चालचल;	luxurious and lavish living (comparable to that of a nawab);
		4. नवाबों की तरह मनमाना आचरण।	নবাবের মতো আচার-আচরণ	नबाबेर मतो आचार-आचरन	arbitrary conduct in the manner of a nawab.
नवासा	पु.	बेटी का बेटा, नाती।	দৌহিত্র, নাতি	दौहित्र, नाति	daughter's son.
नवासी	वि.	जो संख्या में अस्सी से नौ अधिक हो।	ঊননব্বই	उननब्बइ	eightynine.
	स्त्री.	नवासी की सूचक संख्या।	(৮৯) এই সংখ্যা	(89) एइ संख्या	figure eightynine.
नवीकरण	पु.	1. किसी चीज या बात की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से नियमित तथा वैध रूप देना या उसकी अवधि बढ़ाना;	নবীকরণ, পুনরায় নূতন অবস্থায় পরিণত করণ;	नबीकरन, पुनराय नूतन अबस्थाय परिनत करन;	renewal;
		2. नवीन रूप देने की क्रिया या भाव, मरम्मत करके नया रूप देना, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, कायाकल्प।	নবীকরণ, মেরামতকরণ, জীর্ণ সংস্কার	नबीकरन, मेरामतकरन, जीर्न संस्कार	renovation, rejuvenation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नवीन	वि.	**1. नया, नूतन;**	নবীন, নব, নূতন;	नबीन, नब, नूतन;	new, novel;
		2. जो पहले पहल या मूल रूप में बना हो, मौलिक;	মৌলিক;	मौलिक;	original;
		3. हाल का, थोड़े समय का, ताजा;	তাজা;	ताजा;	recent, fresh;
		4. आधुनिक।	আধুনিক	आधुनिक	modern.
नवीनतम	वि.	**1. सबसे बाद का;**	সর্বশেষ;	सर्बशेष;	latest;
		2. आधुनिकतम, अति आधुनिक, आजकल का;	নবীনতম, আধুনিকতম;	नबीनतम, आधुनिकतम;	most modern;
		3. अद्यतन, अद्यावधिक, आज तक का।	অদ্যাবধি	अद्याबधि	up-to-date.
नवीनता	स्त्री.	**1. नया होने की अवस्था या भाव, नूतनता;**	নবীনতা, নবত্ব, নূতনতা;	नबीनता, नबत्ब, नूतनता;	newness, novelty, freshness;
		2. मौलिकता;	মৌলিকতা;	मौलिकता;	originality;
		3. आधुनिकता।	নবীনতা, আধুনিকতা	नबीनता, आधुनिकता	modernity, modernism.
नवीयन	पुं.	**दे. 'नवीकरण'।**	দ্রষ্টব্য 'নবীকরণ'	द्रष्टब्य 'नवीकरण'	same as **'नवीकरण'**.
नवोढ़ा	स्त्री.	**1. नवविवाहिता स्त्री, नववधू;**	নবোঢ়া, নববিবাহিতা স্ত্রী;	नबोढ़ा, नबबिबाहिता स्त्री;	a newly married woman, a bride;
		2. नवविवाहिता, लज्जाशीला नायिका (साहित्य)।	নায়িকাবিশেষ, লজ্জাভয়পরাধীনরতি	नायिकाबिशेष, लज्जाभयपराधीनरति	a bashful newly married heroine (in lit.).
नव्य	वि.	**1. नया, नवीन;**	নব্য, নব, নবীন;	नब्य, नब, नबीन;	new, fresh, recent, novel;
		2. आधुनिक।	আধুনিক	आधुनिक	modern.
नशा	पु.	**1. शराब, अफीम या गांजा आदि मादक द्रव्यों के खाने या पीने से उत्पन्न अवस्था;**	নেশা, মাদকসেবন-জনিত মত্ততা;	नेशा, मादकसेबन-जनित मत्तता;	intoxication, drunkenness;
		2. मादक द्रव्य;	নেশা, মাদক দ্রব্য;	नेशा, मादक द्रब्य;	intoxicating substance;
		3. (धन, बल आदि का) मद (ला०);	ধন, শক্তি ইত্যাদি জনিত মদ;	धन, शक्ति इत्यादि जनित मद;	arrogance, pride, intoxication (fig);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. मादक पदार्थ सेवन करने की आदत;	নেশা, মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস;	नेशा मादकद्रब्य सेबनेर अभ्यास;	habit of drinking or taking intoxicants;
		5. ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य आनंदपूर्वक किसी धुन में लगा रहना चाहता हो, मस्ती।	মশ্‌গুল অবস্থা, নেশায় চুর হওয়া	मश्‌गुल अबस्था, नेशाय चुर हओया	exaltation, overjoy, rapture.
नशाखोर	पुं.	वह जो मादक पदार्थ का सेवन करता रहता हो।	নেশাখোর	नेशाखोर	an inebriate, one addicted to intoxicants.
नशीला	वि. (स्त्री. नशीली)	1. जिसके सेवन से नशा चढ़ता हो, मादक;	মাদক;	मादक;	inebriant, intoxicating;
		2. जिस पर नशे का प्रभाव हो।	নেশাগ্রস্ত, যাহার নেশা হইয়াছে এমন	नेशाग्रस्त, जाहार नेशा हइयाछे एमन	intoxicated, sleepy-looking, drooping (eyes etc.).
नशेबाज	वि.	जिसे कोई मादक पदार्थ सेवन करने की आदत हो।	নেশাখোর	नेशाखोर	an inebriate, habitual drunkard, one addicted to an intoxicant.
नश्तर	पुं.	एक प्रकार का बहुत तेज छोटा चाकू जिसका उपयोग शारीरिक अंगों की चीर-फाड़ के लिए किया जाता है।	খুব ধারাল ছোট ছুরিবিশেষ– ইহা শল্যোপচারে ব্যবহৃত হয়	खुब धाराल छोट छुरिबिशेष– इहा शल्योपचारे ब्यबहृत हय	a lancet, fleam, surgical knife.
नश्वर	वि.	1. नाशवान;	নশ্বর, নাশশীল;	नश्बर, नाशशील;	perishable, destructible;
		2. जो सदा न रहे, अस्थायी अनित्य, क्षणिक।	অস্থায়ী, অনিত্য	अस्थायी, अनित्य	transient, evanescent.
नश्वरता	स्त्री.	1. नश्वर होने की अवस्था या भाव;	নশ্বরতা, নশ্বরত্ব	नश्बरता, नश्बरत्ब	perishableness,
		2. अनित्यता, क्षणभंगुरता।	অনিত্যতা, অস্থায়িত্ব	अनित्यता, अस्थायीत्ब	transitoriness, evanescence.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगली पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नष्ट	वि.	**1. जो बरबाद हो गया हो, चौपट;**	নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত;	नष्ट, नाशप्राप्त, बिध्बस्त;	destroyed, ruined, annihilated;
		2. जो मर या मिट चुका हो;	মৃত, মিটিয়া গিয়াছে এমন;	मृत, मिटिया गियाछे एमन;	dead, ceased, passed, perished;
		3. जो व्यर्थ या निष्फल हो गया हो;	ব্যর্থ, নিষ্ফল;	ब्यर्थ, निष्फल;	spoiled, wasted;
		4. पतित, हीन, भ्रष्ट (चरित्र आदि)।	দুশ্চরিত্র, দুষ্ট	दुश्चरित्र, दुष्ट	depraved, corrupted, debauched.
नष्टप्राय	वि.	**जो पूरी तरह से नष्ट होने के पास पहुँच चुका हो, जो बहुत कुछ नष्ट हो गया हो।**	নষ্টপ্রায়, যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে	नष्टप्राय, जाहा नष्ट हइया गियाछे	almost ruined or destroyed.
नष्ट-भ्रष्ट	वि.	**1. सब तरह से खराब और बरबाद;**	ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত, লন্ডভন্ড;	ध्बस्त, बिध्बस्त, लन्डभन्ड;	devastated;
		2. व्यर्थ और बेकार।	মাটি, পন্ড	माटि, पन्ड	wasted and spoiled.
नस	स्त्री.	**1. रक्तवाहिनी नली या नाड़ी;**	রক্তবাহী শিরা বা ধমনী;	रक्तबाही शिरा बा धमनी;	vein;
		2. शरीर के अंदर का तंतुजाल, स्नायु, तंत्रिका;	দেহস্থ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী, স্নায়ু;	देहस्थ सूत्रबत् सूक्ष्म, नाड़ी, स्नायु;	sinew, tenden, nerve;
		3. रेशा, तंतु (पत्तों आदि का	আঁশ, তন্তু;	आंश, तन्तु;	fibre;
		4. पुरुष या स्त्री की जननेन्द्रिय।	পুংজননেন্দ্রিয় বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয়	पुंजननेन्द्रिय बा स्त्रीजननेन्द्रिय	the organ of generation.
नसबंदी	स्त्री.	**शल्य क्रिया द्वारा पुरुष की जननेन्द्रिय के वीर्य प्रवाह के मार्ग को अवरुद्ध कर देने की क्रिया ताकि वह प्रजनन कार्य में अक्षम हो जाए।**	অস্ত্রোপচার করিয়া পুংজননেন্দ্রিয়ের বীর্যবাহী পথ অবরোধ, ছিন্নমুষ্কতা	अस्त्रोपचार करिया पुंजननेन्द्रियेर बीर्जबाही पथ अबरोध, छिन्नमुष्कता	vasectomy.
नसवार	स्त्री.	**तम्बाकू के पत्तों की बुकनी जो प्रायः सूंघी जाती है, सुंघनी।**	নস্য, নস্যি	नस्य, नस्यि	snuff.
नसीब	पु.	**1. भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध;**	নসীব, নসিব, নছিব, ভাগ্য, অদৃষ্টে;	नसीब, नसिब, नछिब, भाग्य, अदृष्ट;	luck, fate, fortune, destiny;
		2. प्राप्त, मिला हुआ।	প্রাপ্ত	प्राप्त	attained, obtained or achieved.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नसीहत	स्त्री.	1. सीख, शिक्षा, सदुपदेश, सत्परामर्श;	শিক্ষা, সদুপদেশ, সৎপরামর্শ;	शिक्षा, सदुपदेश, सत्परामर्श;	teaching, precept;
		2. ऐसा दंड या डांट-डपट जिससे कुछ शिक्षा या सीख मिलती हो, प्रबोधन।	এমন দন্ড বা ভর্ৎসনা যাহা হইতে কিছু শিক্ষা বা উপদেশ পাওয়া যায়	एमन दन्ड बा भर्त्सना जाहा हइते किछु शिक्षा बा उपदेश पाओया जाय	admonition.
नसूड़िया	वि.	मनहूस, अमांगलिक।	অশুভ, অমাংগলিক	अशुभ, अमाङ्गलिक	ominous, sinister.
नसैनी (निसैनी)	स्त्री.	सीढ़ी, सोपान, जीना।	সিঁড়ি, সোপান	सिंड़ि, सोपान	a ladder, staircase, stairway.
नस्ल (नसल)	स्त्री.	1. वंश;	বংশ;	बंश;	breed, pedigree, geneology;
		2. संतति।	সন্ততি	सन्तति	offspring, progeny.
नहन्नी (नहरनी)	स्त्री.	नाखून काटने का एक धारदार छोटा उपकरण।	নরুন	नरुन	instrument for paring nails, nail-cutter.
नहर	स्त्री.	सिंचाई और यातायात के निमित्त बनाया हुआ कृत्रिम जल-मार्ग।	নহর, খাল, ক্যানাল	नहर, खाल, क्यानाल	canal, channel, water-way.
नहरी	स्त्री.	वह जमीन जिसकी सिंचाई नहर के पानी से होती हैं।	খালের জলে যে জমির সেচ হয়	खालेर जले जे जमिर सेच हय	the land irrigated by canal water.
	वि.	नहर-संबंधी।	নহর সম্বন্ধী খাল সম্পর্কিত	नहर सम्बन्धी खाल सम्पर्कित	pertaining or belonging to canal.
नहला	पु.	ताश का वह पत्ता जिसमें नौ बूटियाँ होती हैं।	নহলা, নয়-ফোঁটাযুক্ত খেলিবার তাস	नहला, नय-फोंटाजुक्त खेलिबार तास	a playing card with nine pips, the nine in playing cards.
नहलाई	स्त्री.	1. नहलाने की क्रिया या भाव;	নাওয়ানো;	नाओयानो;	the act or process of bathing;
		2. नहलाने का पारिश्रमिक या पुरस्कार।	নাওয়ানোর মজুরী বা পুরষ্কার	नाओयानोर मजुरी बा पुरष्कार	the wages paid for bathing.
नहलाना	स. क्रि.	किसी को नहाने में प्रवृत करना।	নওয়ানো, স্নান করানো	नाओयानो, स्नान करानो	to bathe, to give (one) a bath.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नहान	पु.	1. नहाने की क्रिया या भाव, स्नान;	নাহা, নাওয়া, স্নান;	नाहा, नाओया, स्नान;	bathing;
		2; नहाने का शुभ अवसर या पर्व।	স্নানের শুভদিন বা পর্ব	स्नानेर शुभदिन बा पर्ब	a festal day or occasion for taking a bath.
नहाना	अ. क्रि.	1. शरीर को स्वच्छ करने के लिए जल से धोना, स्नान करना;	নাহা, নাওয়া, স্নান করা;	नाहा, नाओया, स्नान करा;	to bathe, to take a bath;
		2. किसी तरल पदार्थ से शरीर का लथपथ होना।	কোনো তরল পদার্থের দ্বারা শরীর চপ্‌চপে হওয়া	कोनो तरल पदार्थेर द्वारा शरीर चप्‌चपे हओया	to be smeared with, to be soaked or drenched in.
नहीं	अव्य.	असहमति, अस्वीकृति, विरोध आदि प्रकट करने के लिए प्रयुक्त एक अव्यय शब्द।	নহি, না	नहि, ना	no, not, nay.
नाँद	स्त्री.	चौड़े मुँह तथा गोल पेंदेवाला एक पात्र जिसमें गाय, भैंस आदि को चारा खिलाया जाता है।	নাদা, মুখ-চওড়া পাত্র–ইহাতে গরু মহিষাদিকে জাবনা দেওয়া হয়	नादा, मुख-चओड़ा पात्र–इहाते गरु महिषादिके जाबना देओया हय	manger, trough.
नांदी	स्त्री.	नाटक में वह आशीर्वादात्मक पद्य जो अभिनय आरंभ करने से पहले सूत्रधार उच्च स्वर में गाता या पढ़ता है, मंगलाचरण।	নান্দী, নাটকারম্ভ সূত্রধার কর্তৃক দেবতাদির আশীর্বচনযুক্ত স্তব, মংগলাচরণ	नान्दी, नाटकारम्भ सूत्रधार कर्तृक देबतादिर आशीर्बचनजुक्त स्तब, मङ्गलाचरन	the benedictory verse recited as sort of prologue at the beginning of a drama, benediction.
ना	अव्य.	एक अव्यय पूरक जिसका प्रयोग किसी को कोई काम करने से मना करने या निषेध करने के लिए 'न' या 'नहीं' की तरह होता है।	না, নিষেধসূচক অব্যয়	ना, निषेधसूचक अव्यय	a word denoting negation, no, not, nay.
नाइन	स्त्री.	1. नाई जाति की स्त्री;	নাপিত জাতীয় নারী;	नापित जातीय नारी;	a woman of the barber caste;
		2. नाई की पत्नी।	নাপিতানী, নাপতিনী	नापितानी, नापतिनी	a barber's wife.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाई	पु.	वह जो लोगों के बाल काटता और हजामत बनाता हो, नापित, हज्जाम।	নাই, নাপিত	नाइ, नापित	barber.
नाउम्मीद (नाउम्मेद)	वि.	जिसे आशा के पूर्ण होने की संभावना न दिखाई पड़ती हो, निराश।	হতাশ, নিরাশ	हताश, निराश	hopeless, despairing, despondent, desperate, dejected, disappointed.
नाउम्मीदी (नाउम्मेदी)	स्त्री.	निराशा।	নৈরাশ্য	नैराश्य	hopelessness, despair, disappointment, dejection.
नाक	स्त्री.	1. ओठों और आंखों के बीच की सूंघने और सांस लेने की इन्द्रिय;	নাক, নাসিকা, নাসা;	नाक, नासिका, नासा;	nose;
		2. मल जो नाक से निकलता है, रेंट, नैटा;	শ্লেষ্মা, পোঁটা, শিকনি;	श्लेष्मा, पोंटा, शिकनि;	mucus;
		3. गौरव, प्रतिष्ठा या सम्मान (का प्रतीक);	গৌরব, প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের প্রতীক;	गौरब, प्रतिष्ठा बा सम्मानेर प्रतीक;	(a symbol of) honour, prestige, pre-eminence etc.;
		4. मगर की तरह का एक प्रकार का जलजंतु, घड़ियाल;	ঘড়িয়াল, নক্র;	घड़ियाल, नक्र;	a kind of crocodile;
		5. स्वर्ग	নাক, স্বর্গ	नाक, स्वर्ग	heaven.
नाक-नक्शा	पु.	आँख, नाक, ओठ आदि की बनावट, चेहरा-मोहरा, रूप।	মুখের গড়ন, মুখাকৃতি, চেহারা, রূপ	मुखेर गड़न, मुखाकृति, चेहारा, रूप	features, facial cut.
नाका	पु.	1. रास्ते आदि का छोर;	রাস্তা আদির শেষ সীমা;	रास्ता आदिर शेष सीमा;	extremity (of a road etc);
		2. प्रवेश-द्वार;	প্রবেশদ্বার;	प्रबेशद्वार;	entrance to a road or pass etc.;
		3. वह स्थान जहां पहरे आदि के लिए रक्षक रहते हों या प्रवेश-कर आदि उगाहे जाते हों, चौकी;	তল্লাসী বা চুঙ্গি আদায়ের ঘাঁটি, চৌকী;	तल्लासी बा चुङ्गि आदायेर घाटि, चौकी;	check-post;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. सूई का छेद;	সূচের ছিদ্র;	सूचेर छिद्र;	eye (of a needle);
		5. घड़ियाल या मगर की तरह का एक जल जंतु।	ঘড়িয়ালের মতো জলজন্তু বিশেষ	घड़ियालेर मतो जलजन्तु बिशेष	a kind of crocodile.
नाकाबंदी (नाकेबंदी)	स्त्री.	1. ऐसी व्यवस्था जो नाका अर्थात कहीं आने-जाने के मार्ग को रोकने के लिए हो;	রাস্তাবন্ধ, যাতায়াত নিষেধ;	रास्ताबन्ध, जातायात निषेध;	stoppage of entry, shutting up a road etc;
		2. आधुनिक राजनीति में, शत्रु या विपक्षी के किसी तट, बंदरगाह या स्थान को इस प्रकार घेरना कि न तो उसके अंदर कोई प्रवेश करने पाए और न वहां से कोई बाहर निकलने पाए।	অবরোধ	अबरोध	blockade.
नाकाबिल	वि.	1. अयोग्य, अनुपयुक्त;	অযোগ্য, অনুপযুক্ত;	अजोग्य, अनुपजुक्त;	unworthy, unfit;
		2. असमर्थ, अशक्त;	অসমর্থ, অশক্ত;	असमर्थ, अशक्त;	incapable;
		3. बेकार, निकम्मा, नालायक;	বেকার, নিষ্কর্মা, নালায়েক;	बेकार, निष्कर्मा, नालायेक;	worthless;
		4. अपात्र;	অপাত্র;	अपात्र;	undeserving;
		5. अनर्ह, अयोग्य।	অনর্হ, অযোগ্য	अनर्ह, अजोग्य	unqualified.
नाकाम	वि.	जिसे अपने प्रयत्न में सफलता न मिली हो, नाकामयाब, असफल।	ব্যর্থকাম, অসফল	ब्यर्थकाम, असफल	unsuccessful, fruitless, ineffective.
नाकामयाब	वि.	दे. 'नाकाम'।	দ্রষ্টব্য 'नाकाम'	द्रष्टव्य 'नाकाम'	same as 'नाकाम'.
नाकारा	वि.	1. निकम्मा (व्यक्ति);	নিষ্কর্মা (ব্যক্তি);	निष्कर्मा (ब्यक्ति);	useless, worthless (person);
		2. बेकार, व्यर्थ, रद्दी (वस्तु)।	বাজে, ওছা, রদ্দী (বস্তু)	बाजे, ओछा, रद्‌दी (बस्तु)	unservicable, good for nothing (article).
नाखुश	वि.	अप्रसन्न, नाराज।	অখুশী, অপ্রসন্ন, বিরক্ত	अखुशी, अप्रसन्न बिरक्त	displeased, annoyed, unhappy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाखून	पु.	हाथों तथा पैरों की अंगुलियों के ऊपरी तल का वह सफेद अंश जो अधिक कड़ा तथा तेज़ धार वाला होता है।	नख	नख	nail (of the finger or toe).
नाग (नागिन स्त्री.)	पु.	1. काले रंग का, बड़ा और फनवाला सांप, करैत; 2. सांप, सर्प; 3. हाथी।	कालरंगेर फणाधर साप, केउटे; नाग, साप, सर्प; हाति	कालरङेर फनाधर साप, केउटे; नाग, साप, सर्प; हाति	a hooded snake, cobra; a serpent or snake in general; an elephant.
	वि.	क्रूर, घातक और दुष्ट (व्यक्ति)।	नाग, क्रूराचारी	नाग, क्रूराचारी	·cruel, tyrannical (person).
नागकेसर	पु.	एक सदाबहार वृक्ष और उसके सुगंधित फूल।	नागकेशर, नागेश्वर	नागकेशर, नागेश्बर	a small tree and its fragrant blossoms, Mesur Roxburghi or ferea.
नाग-दंत	पु.	1. हाथी-दांत; 2. दीवार पर गड़ी हुई खूंटी।	नागदन्त, हस्तिदन्त, हातिर दाँत; नागदन्त, गृहभित्तिलग्न काष्ठादिकीलक	नागदन्त, हस्तिदन्त, हातीर दांत; न काष्ठादिकीलक	elephant's tooth or tusk, ivory; a peg in the wall to hang th[illegible]s upon.
नागपंचमी	स्त्री.	श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जानेवाला एक त्योहार जिसमें नागों की पूजा करने का विधान है।	नागपञ्चमी, श्रावणमासेर शुक्लपञ्चमी (वा आषाढ़ मासेर कृष्णपञ्चमी) यखन मनसापूजा तथा नागपूजा हय	नागपंचमी, श्राबनमासेर शुक्लपंचमी (बा आषाढ़ मासेर कृष्नपंचमी) जखन मनसापूजा तथा नागपूजा हय	name of a Hindu festival celebrated on the fifth day in the light half of the month Sravan (on which day they worship snake).
नागफनी	स्त्री.	थूहर की जाति का एक पौधा जिसके चौड़े, मोटे पत्तों पर जहरीले कांटे होते हैं तथा जो सांप के फन की तरह होता है।	फणीमनसा	फनीमनसा	the prickly pear, Cactus (a prickly plant resembling the hood of a snake).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नागबेल	स्त्री.	1. पान की बेल; 2. किसी चीज पर बनाई जानेवाली लहरियेदार बेल जो देखने में सांप की चाल की तरह जान पड़े।	নাগবল্লরী; কোনো জিনিসের উপর করা আঁকা-বাঁকা লতা	नागबल्लरी; कोनो जिनिसेर उपर करा आंका-बांका लता	betel creeper; a wavy or zigzag decoration lace.
नागर	वि.	1. नगर-संबंधी, शहरी; 2. असैनिक; 3. चतुर, होशियार।	নাগর, নগরসম্বন্ধী, পৌর, নাগরিক; অসামরিক; নাগর, চতুর	नागर, नगरसम्बन्धी, पौर, नागरिक; असामरिक; नागर, चतुर	relating to a city, urban; civil, civilian; clever, sharp.
	पु.	गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति।	গুজরাতী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিশেষ	गुजराती ब्राह्मन सम्प्रदाय बिशेष	a subcaste of Brahmans of Gujarat.
नागरमोथा	पु.	एक प्रकार का तृण जिसकी पत्तियाँ मूँज या शर की पत्तियों की तरह होती हैं और दवाई के काम आती हैं।	নাগরমুথা, নাগরমুস্তা	नागरमुखा, नागरमुस्ता	a species of sweet smelling grass, Cyperus (rotundus), Cyperus searcosus
नागरिक	वि.	1. नगर में रहनेवाला; 2. नगर से संबंधित; 3. असैनिक।	নাগরিক, নগরবাসী; নগরসম্বন্ধীয়; অসামরিক	नागरिक, नगरबासी; नगरसम्बन्धीय; असामरिक	living in a city or town; pertaining to city or town; civil, civilian.
	पु.	किसी राज्य में जन्म लेनेवाला वह व्यक्ति जिसे उस राज्य में रहने, नौकरी करने, संपत्ति रखने आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं।	জন্মসূত্রে বা আইনসম্মত অন্যবিধ উপায়ে স্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রের প্রজা	जन्मसूत्रे बा आइनसम्मत अन्यबिध उपाये स्वीकृत कोनो राष्ट्रेर प्रजा	citizen.
नागरिकता	स्त्री.	(किसी राज्य के) नागरिक होने की अवस्था, पद या भाव।	নাগরিকতা, নাগরিকত্ব	नागरिकता, नागरिकत्व	citizenship.
नागरिकशास्त्र	पु.	वह शास्त्र जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख और उसके देश, जाति आदि के परस्पर संबंधों पर विचार होता है।	পৌরবিজ্ঞান	पौरबिज्ञान	civics.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नागरी	स्त्री.	1. नगर की रहनेवाली स्त्री ;	নাগরী, নগর-বাসিনী, নাগরিকা;	नागरी, नगर-बासिनी, नागरिका;	a woman living in a city or town;
		2. चतुर या होशियार स्त्री;	চতুর বা হুশিয়ার নারী;	चतुर बा हुशियार नारी;	clever, or crafty, or intriguing woman;
		3. देवनागरी नाम की लिपि।	দেবনাগর অক্ষর	देबनागर अक्षर	the Deva-nagari script, the most common Hindi character of writing.
नागवार	वि.	1. अच्छा न लगनेवाला, अप्रिय;	যাহা ভাল লাগেনা এমন, অপ্রিয়;	जाहा भाल लागेना एमन, अप्रिय;	unpleasant;
		2. असह्य;	অসহ্য;	असहय;	intolerable;
		3. अस्वीकार्य।	অস্বীকার্য	अस्वीकार्ज	unacceptable.
नागा	पु.	काम पर उपस्थित न होना, काम से गैरहाजिरी।	কাজে উপস্থিত না হওয়া, গরহাজিরি	काजे उपस्थित ना हओया गरहाजिरी	absence from work.
नागा	पु.	1. असम देश की एक पर्वतमाला;	নাগা, আসামের পর্বত বিশেষ;	नागा, आसामेर पर्बत बिशेष;	a mountain range in Assam;
		2. उक्त पर्वतमाला में रहनेवाली एक अर्धसभ्य जंगली जाति;	উক্ত পর্বতবাসী জাতিবিশেষ;	उक्त पर्बतबासी जातिबिशेष;	a barbarous tribe inhabiting the above mountain range in Assam;
		3. शैव साधुओं का एक प्रसिद्ध संप्रदाय;	শৈব সন্ন্যাসি সম্প্রদায়বিশেষ;	शैब सन्न्यासि सम्प्रदायबिशेष;	a Shaivite sect;
		4. उक्त संप्रदाय के साधु जो प्रायः बिलकुल नंगे रहते हैं।	শৈব নগ্ন সন্ন্যাসী	शैब नग्न सन्न्यासी	a member of this sect.
नागिन	स्त्री.	1. नाग की मादा;	নাগী, নাগিনী;	नागी, नागिनी;	she-cobra;
		2. सांप की मादा, सर्पिणी;	সর্পিণী	सर्पिनी	female serpent;
		3. क्रूर स्त्री।	ক্রূর স্ত্রী	क्रूर स्त्री	cruel woman.
नाच	पु.	नृत्य जो संगीत का एक प्रसिद्ध अंग है।	নাচ, নৃত্য	नाच, नृत्य	dance.
नाचगाना	पु.	1. नृत्य और गीत;	নাচগান;	नाचगान;	dance and song, a dancing entertainment;
		2. आमोद-प्रमोद, रंगरेली।	আমোদ-প্রমোদ, রংগরস	आमोद-प्रमोद, रङ्गरस	revelry, merriment.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाचघर	पु.	वह स्थान जहां नाचना-गाना आदि होता है।	নাচঘর, নৃত্যশালা	नाचघर, नृत्यशाला	dancing room, dancing-hall, ball-room.
नाचना	अ. क्रि.	1. संगीत के मेल में ताल-स्वर के अनुसार हावभावपूर्वक कूदना, फिरना तथा इसी प्रकार की और चेष्टाएँ करना;	নাচা, নৃত্যকরা;	नाचा, नृत्यकरा;	to dance;
		2. उछलना-कूदना, प्रसन्नतापूर्वक कूदना-फांदना;	লাফ ঝাঁপ দেওয়া, আনন্দে লাফা-লাফি করা;	लाफ झांप देओया, आनन्दे लाफा-लाफि करा;	to caper or frisk about;
		3. इधर-उधर घूमना, हिलना-डुलना आदि;	এদিক ওদিক ঘূরিয়া বেড়ানো;	एदिक ओदिक घुरिया बेड़ानो;	to run about, to move about;
		4. सांसारिक प्रपंचों या प्रयत्नों में लगे रहना;	সাংসারিক ব্যাপারে লাগিয়া থাকা;	सांसारिक ब्यापारे लागिया थाका;	to be entangled or engaged in worldly affairs;
		5. दूसरों के कहने पर चलना अथवा उनके इंगितों का अनुसरण करना।	পরের কথায় উঠা বসা	परेर कथाय उठा बसा	to act upon the instigation or dictates of another
नाचरंग	पु.	वह उत्सव या जलसा जिसमें नाचगाना हो, आमोद-प्रमोद।	জলসা, আমোদপ্রমোদ	जलसा, आमोदप्रमोद	a dancing entertainment, revelry, merriment
नाचीज	वि.	1. तुच्छ, हीन;	তুচ্ছ, হীন;	तुच्छ, हीन;	trifling;
		2. निकम्मा, रद्दी।	অকর্মণ্য, রদ্দী, বাজে	अकर्मन्य, रद्दी, बाजे	worthless.
नाज	पु.	अनाज, अन्न।	শস্য	शस्य	grain, corn.
नाज़	पु.	1. आकृष्ट करने या लुभाने के लिए दिखाये जानेवाले कोमल हावभाव, नखरा, ठसक;	ছলাকলা, হাবভাব;	छलाकला, हावभाव;	coquetry, playfulness, airs;
		2. अभिमान, गर्व;	দেমাক, গর্ব;	देमाक, गर्ब;	pride;
		3. घमंड, अहंकार।	দর্প, অহংকার;	दर्प, अहंकार	conceit.
नाज़-नखरा	पु.	किसी को आकृष्ट करने के लिए कुछ मानपूर्वक की जानेवाली मोहक चेष्टाएँ, ठसक, चोचला।	ছলাকলা, হাবভাব, ঢঙ	छलाकला, हावभाव ढड	coquetry, alluring gestures, airs and graces.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाजायज	वि.	1. जो उचित न हो, अनुचित;	যাহা উচিত নহে;	जहा उचित नहे;	improper, undue;
		2. जो नियम, विधि आदि के विरुद्ध हो, अवैध।	বিধিবিরুদ্ধ, অবৈধ	बिधिबिरुद्ध, अबैध	unlawful, illegal, illegitimate.
नाजुक	वि.	1. कोमल, सुकुमार;	কোমল, সুকুমার;	कोमल, सुकुमार;	delicate, tender;
		2. महीन, पतला;	মিহি, পাতলা;	मिहि, पातला;	thin, slender, slim;
		3. कमजोर, भंगुर;	কমজোর, ভংগুর;	कमजोर भङ्गुर;	fragile, frail;
		4. गूढ़ और सूक्ष्म (विचार या भाव);	গূঢ় ও সূক্ষ্ম (চিন্তা বা ভাব);	गूढ़ ओ सूक्ष्म (चिन्ता बा भाब);	subtle;
		5. संकटपूर्ण।	সঙ্কটপূর্ণ	सङ्कटपूर्न	critical.
नाजुक-मिज़ाज	वि.	1. बहुत ही कोमल और मृदु प्रकृतिवाला;	অতিশয় কোমল ও মৃদু স্বভাব, নরম স্বভাব;	अतिशय कोमल ओ मृदु स्वभाब, नरम स्वभाब;	of a sensitive or delicate disposition or temper, over-sensitive;
		2. चिड़चिड़ा, तुनकमिजाज।	রগ্‌চটা	रग्‌चटा	of a testy disposition, touchy, irritable.
नाटक	पु.	1. दृश्य-काव्य;	নাটক, দৃশ্যকাব্য;	नाटक, दृश्यकाब्य;	play, drama;
		2. रंगशाला में अभिनेताओं के द्वारा आकृति, हावभाव, देश और वचन आदि के अनुकरण के द्वारा किसी के जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन, अभिनय;	অভিনয়	अभिनय	acting;
		3. दिखावटी कार्य।	লোকদেখান কার্য	लोकदेखान कार्ज	show, pretence.
नाटककार	पु.	नाटक का रचयिता या लेखक।	নাটককার, নাট্যকার	नाटककार, नाट्यकार	playwright, dramatist.
नाटकशाला	स्त्री.	दे. 'नाट्यशाला'।	নাটকশালা	नाटकशाला	same as 'नाट्यशाला'.
नाटकीय	वि.	1. नाटक का, नाटक संबंधी, आकस्मिक रूप से तथा कौशलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जानेवाला (जो वस्तुतः एक नाटकीय विशेषता है);	নাটকীয়, নাটকসম্বন্ধী, অস্বাভাবিক ও আকস্মিক (নাটকীয় পরিবর্তন বা আবির্ভাব);	नाटकीय, नाटकसम्बन्धी, अस्बाभाबिक ओ आकस्मिक (नाटकीय परिबर्तन बा अबिर्भाब);	dramatic;
		2. अभिनययुक्त, अभिनयपूर्ण।	নাটকীয়, কৃত্রিম হাবভাবপূর্ণ	नाटकीय, कृत्रिम हाबभाबपूर्न	histrionic.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाटा	वि.	छोटे कद का, छोटा, ठिंगना।	বেঁটে	बेंटे	short, dwarfish, shortstatured, of stunted growth.
नाटिका	स्त्री.	कल्पित कथावाला एक प्रकार का लघु दृश्य-काव्य जिसमें स्त्री-पात्रों और नृत्यगीत आदि की बहुलता होती है, एक प्रकार की छोटी त्रासदी, कामदी या सुखान्तिकी।	নাটিকা, উপরূপকবিশেষ (প্রধানত: চার অঙ্কের) ক্ষুদ্র নাটক	नाटिका, उपरूपकबिशेष (प्रधानत: चार अङ्केर) क्षुद्र नाटक	a short or light comedy, one of the 'uparupakas' (the dramas of the second order.)
नाट्य	पु.	1. नटों का काम, अभिनय;	নাট্য, নটকর্ম, অভিনয়;	नाट्य, नटकर्म, अभिनय;	dramatic representation, gesticulation, acting;
		2. नाटक का, नाटक संबंधी;	নাটকসম্বন্ধী;	नाटकसम्बन्धी;	dramatic;
		3. अभिनयकला संबंधी;	অভিনয় সম্বন্ধী;	अभिनय सम्बन्धी;	histrionic;
		4. नाटक (समास में)।	নাট্য, নাটক	नाट्य, नाटक	drama (in comp.).
नाट्यकार	पु.	1. नाटक लिखनेवाला, नाटककार;	নাট্যকার, নাটক-রচয়িতা, নাট্টকে;	नाट्यकार, नाटक-रचयिता, नाटुके;	playwright, dramatist;
		2. नाटक करनेवाला, अभिनेता, नट।	অভিনেতা, নট	अभिनेता, नट	actor, performer (of a play).
नाट्यशाला	स्त्री.	विशिष्ट आकार-प्रकार का बना हुआ वह भवन जिसमें एक ओर अभिनय या नाटक करने का मंच तथा दूसरी ओर दर्शकों के बैठने के लिए स्थान होता है, रंगशाला।	নাট্যশালা, নাট্যগৃহ, রংগালয়, প্রেক্ষাগৃহ	नाट्यशाला, नाट्यगृह, रङ्गालय, प्रक्षागृह	theatre.
नाट्यशास्त्र	पु.	वह शास्त्र जिसमें नाचने-गाने और अभिनय आदि करने की कलाओं का विवेचन होता है।	নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যাদিবিষয়ক গ্রন্থ	नाट्यशास्त्र, नृत्यादिबिषयक ग्रन्थ	the dramatic science, dramaturgy, dramatics.
नाड़ा	पुं.	सूत की वह मोटी डोरी जिससे पेटीकोट, पाजामा आदि बाँधते हैं, इजारबंद, नीवी।	সায়া পাজামা ইত্যাদির ফিতা	साया पाजामा इत्यादिर फिता	a tape inserted in the upper part of trousers for binding it round the waist, trousers' string.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाड़ी	स्त्री.	1. शरीर के भीतर की वे नलियाँ जिनमें होकर रक्त बहता है;	নাড়ী, ধমনী, রক্তবাহী শিরা;	नाड़ी, धमनी, रक्तबाही शिरा;	an artery, vein;
		2. कलाई पर की वह नाड़ी जिसकी गति आदि देखकर रोगी की शारीरिक अवस्था विशेषतः ज्वर आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नब्ज।	মানবদেহের সুস্থতাদি জ্ঞাপক ধমনী–সাধারণতঃ মণিবন্ধের উপর এটিকে ধরিয়া পরীক্ষা করা হয়	मानबदेहेर सुस्थतादि ज्ञापक धमनी–साधारनतः मनिबन्धेर उपर एटिके धरिया परीक्षा करा हय	the pulse.
नाड़ीचक्र	पु.	हठयोग के अनुसार नाभिदेश में कल्पित एक अंडाकार गाँठ, जिससे निकल कर सब नाड़ियाँ फैली हुई मानी गई हैं।	নাড়ীচক্র, নাভিমন্ডলস্থ কুক্কুটাণ্ডতুল্য নাড়ীমূল	नाड़ीचक्र, नाभिमन्डलस्थ कुक्कुटाण्डतुल्य नाड़ीमूल	an oval-shaped centre of nerves in the navel of the body (Hathayoga).
नाड़ी-परीक्षा	स्त्री.	(वैद्य का) नब्ज देखना।	নাড়ী-পরীক্ষা, নাড়ী দেখা	नाड़ी-परीक्षा, नाड़ी देखा	feeling of the pulse (by a physician).
नाड़ी-संस्थान	पु.	नाड़ियों का जाल, नाड़ीतंत्र।	নাড়ীসংস্থান, নাড়ীসন্নিবেশ, নাড়ীজাল	नाड़ीसंस्थान, नाड़ीसन्निबेश, नाड़ीजाल	the whole system of arteries and veins.
नाता	पुं.	1. किसी प्रकार का संबंध या लगाव;	সম্বন্ধ;	सम्बन्ध;	connection;
		2. रिश्ता।	আত্মীয়তা, জ্ঞাতিত্ব	आत्मीयता, ज्ञातित्व	relation, kinship.
नाती (नातिन स्त्री.)	पु.	1. बेटी का बेटा, नवासा;	নাতি, দৌহিত্র;	नाति, दौहित्र;	daughter's son, grandson, grand daughter;
		2. लड़के का लड़का, पोता।	পৌত্র, নাতনী	पौत्र, नातनी	son's son,grandson.
नाते	क्रि. वि.	1. किसी प्रकार के संबंध के विचार से, व्याज से;	সম্বন্ধহেতু, ছলে;	सम्बन्धहेतु, छले;	by virtue of (relation etc.);
		2. वास्ते, के लिए, के कारण।	জন্যে, হেতু, কারণ	जन्ये, हेतु, कारन	for the sake of, for, because of

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नातेदार	पु.	रिश्तेदार, संबंधी।	জ্ঞাতি, আত্মীয়	ज्ञाति, आत्मीय	relative, kinsman.
नाथ	पु.	1. स्वामी, मालिक;	নাথ, স্বামী, প্রভু;	नाथ, स्वामी, प्रभु;	lord, master;
		2. विवाहिता स्त्री का पति।	পতি	पति	husband.
	स्त्री.	वश में रखने के लिए बैलों आदि के नथनों में डाली जानेवाली रस्सी।	গোমহিষাদির নাকের দড়ি	गोमहिषादिर नाकेर दड़ि	the nose-rope or nose-string of an ox etc.
नाथना	स.क्रि.	1. कुछ विशिष्ट पशुओं के नथने में छेद करना;	গরুমহিষাদির নাক ফুটো করা;	गरुमहिषादिर नाक फुटो करा;	to bore the nose or nostril (of a bullock);
		2. बैलों आदि के नथनों में रस्सी डालना;	বলদাদির নাকে দড়ি দেওয়া;	बलदादिर नाके दड़ि देओया;	to put a string or rope in the nose or nostrils (of a bullock);
		3. नत्थी करना;	নথীভুক্ত করা;	नथीभुक्त करा;	to attach;
		4. गूंथना, पिरोना;	গাঁথা;	गांथा;	to string (into one);
		5. वश में करना।	বশে আনা	बशे आना	to bring under subjection or control.
नाद	पुं.	1. आवाज, शब्द, जोर की वह आवाज या ध्वनि जो कुछ समय तक बराबर होती रहे;	নাদ, শব্দ, ধ্বনি;	नाद, शब्द, ध्वनि;	a sound in general, noise;
		2. स्वर (संगीत)।	সুর (সংগীত)	स्वर (सङ्गीत)	musical sound.
नादान	वि.	1. अवस्था में कम होने के कारण जिसे समझ न आई हो, ना-समझ;	বয়স অল্প হওয়ার জন্য যে বুঝিতে পারে না, অবোধ;	बयस अल्प हओयार जन्य जे बुझिते पारे ना, अबोध;	innocent;
		2. मूर्ख;	মূর্খ, অজ্ঞ;	मूर्ख, अज्ञ;	foolish, unwise;
		3. अकुशल, अनाड़ी।	অপটু, আনাড়ী	अपटु, आनाड़ी	unskilful, unskilled.
नादानी	स्त्री.	1. नादान होने की अवस्था या भाव, अबोधता;	অবোধত্ব	अबोधत्व;	ignorance, innocence;
		2. मूर्खता या मूर्खतापूर्ण कोई कार्य;	অজ্ঞতা, মূর্খতা;	अज्ञता, मूर्खता;	stupidity, foolishness;
		3. अनाड़ीपन, अकुशलता	আনাড়িপনা, অপটুতা	आनाड़िपना, अपटुता	unskilfulness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नादिया	पु.	1. दे. 'नंदी';	দ্রষ্টব্য 'নন্দী';	द्रष्टव्य 'नन्दी':	same as 'नंदी';
		2. वह विकृत या विलक्षण या अधिक अंग या अंगोंवाला साँड, जिसे अधकचरे ज्योतिषी या जोगी आदि अपने साथ लेकर भीख मांगनें निकलते हैं।	বিকৃত অংগ বা অধিক অংগ বিশিষ্ট ষাঁড়– ইহাকে লইয়া হাতুড়ে, জ্যোতিষী বা যোগীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়	बिकृत अङ्ग बा अधिक अङ्ग बिशिष्ट षांड़– इहाके लइया हातुड़े, ज्योतिषी बा जोगीरा भिक्षा करिया बेड़ाय	a show bull used by some quack astrologers etc. to obey specific commands and make certain answers etc. and thereby receive alms from the spectators.
नादिरशाही	स्त्री.	(नादिरशाह की तरह का) मनमाना जुल्म, अत्याचार, ज्यादती।	(নাদির শাহের মতো) যথেচ্ছ জুলুম, অত্যাচার	(नादिर शाहेर मतो) जथेच्छ जुलुम, अत्याचार	tyranny, highhandedness, oppression (like that of Nadirshah).
	वि.	(नादिरशाह की तरह) अत्याचारपूर्ण, जालिमाना, नृशंस, क्रूर।	(নাদির শাহের ধরণের) অত্যাচারপূর্ণ, নৃশংস, ক্রূর	(नादिर शाहेर धरनेर) अत्याचारपूर्न, नृशंस, क्रूर	tyrannous, oppressive, cruel (like Nadirshah).
नाधना	स. क्रि.	1. जोतना, जुए में लगाना;	জুতা;	जुता;	to yoke;
		2. कोई कार्य अनुष्ठित या आरंभ करना।	কোনো কাজ আরম্ভ করা	कोनो काज आरम्भ करा	to begin, to enter upon.
नानखताई	स्त्री.	मैदे, सूजी आदि का बना हुआ एक तरह का मीठा खस्ता पकवान।	এক প্রকার মিষ্টান্ন	एक प्रकार मिष्टान्न	a kind of sweetmeat.
नाना	पु.	माता का पिता, मातामह।	মাতামহ, দাদু, দাদামশাই	मातामह, दादु, दादामशाइ	maternal grandfather.
	वि.	अनेक प्रकार के, विविध, विभिन्न।	নানান, বহুপ্রকার, বিবিধ, বিভিন্ন	नानान, बहुप्रकार, बिबिध, बिभिन्न	of different kinds, various, sundry, manifold, diverse, miscellaneous.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नानाविध	वि.	अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के।	নানাবিধ, নানাপ্রকার, বিবিধ	नानाबिध, नानाप्रकार, बिबिध	of various sorts, miscellaneous, variegated.
नानी	स्त्री.	मां की मां, मातामही।	মাতামহী, দিদিমা	मातामही, दिदिमा	maternal grandmother.
नाप	स्त्री.	1. नापने की क्रिया या भाव, माप;	মাপা;	मापा;	measuring;
		2. किसी चीज की ऊँचाई, लंबाई-चौड़ाई आदि के विस्तार का परिमाण जो नापने पर जाना जाता है, माप;	মাপ;	माप;	measure, measurement;
		3. नापने का उपकरण, मापनी, नपुआ, नापना।	মাপার ফিতা ইত্যাদি উপকরণ	मापार फिता इत्यादि उपकरन	instrument for measuring, a measure or measurement.
नापजोख	स्त्री.	1. किसी चीज की लंबाई-चौड़ाई आदि नापने या किसी चीज या बात का गुरुत्व, मान, शक्ति आदि आँकने की क्रिया या भाव, नाप-तौल, माप;	মাপজোখ;	मापजोख;	measuring and weighing, measurement;
		2. परिमाण या मात्रा जो नाप या तौलकर स्थिर की जाए, माप और वजन, नाप-तौल;	মাপ ও ওজন;	माप ओ ओजन;	measure and weight;
		3. निर्धारण (शक्ति, सामर्थ्य आदि के), आँकने की क्रिया या भाव।	নির্ধারণ, (শক্তি, সামর্থ-আদির) পরিমাপ	निर्धारन, (शक्ति, सामर्थ-आदिर) परिमाप	assessment.
नापतौल	स्त्री.	1. कोई चीज नापने या तौलने की क्रिया या भाव, नापजोख;	মাপজোখ;	मापजोख;	measuring and weighing;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. नाप या तौल कर स्थिर की गई मात्रा या परिमाण, माप और वजन;	মাপ এবং ওজন;	माप एबं ओजन;	measure and weight;
		3. निर्धारण, (शक्ति, सामथ्र्य आदि के) आँकने की क्रिया या भाव।	পরিমাপকরণ	परिमापकरन	assessment.
नापना	स. क्रि.	नियत या निर्धारित माप, मान या माप-दंड की सहायता से किसी चीज की लम्बाई-चौड़ाई, गहराई-ऊँचाई, परिमाण, मात्रा आदि का ठीक ज्ञान प्राप्त करना, मापना।	মাপা	मापा	to measure.
नापसंद	वि.	1. जो अच्छा ना लगे, अप्रिय, अरुचिकर;	নাপছন্দ, অপছন্দ;	नापछन्द, अपछन्द;	not liked, not to one's liking, repulsive, disagreeable, displeasing;
		2. अस्वीकार्य।	অমনোনীত	अमनोनीत	unacceptable, disapproved of, not approved.
नापाक	वि.	1. अपवित्र, अशुद्ध; 2. गंदा, मैला;	নাপাক, অপবিত্র; নোংরা, ময়লা;	नापाक, अपबित्र; नोङरा, मयला;	not sacred, unholy; impure, unclean, dirty, filthy, polluted, defiled,
		3. लम्पट, व्यभिचारी।	লম্পট, ব্যভিচারী	लम्पट, ब्यभिचारी	lewd, licentious, unchaste.
नापित	पु.	नाई, हज्जाम।	নাপিত, নাই,	नापित, नाइ	barber, shaver.
नाबदान	पुं.	मकान की मोरी, पनाला।	নর্দমা, ড্রেইন, ড্রেন	नर्दमा, ड्रेइन, ड्रेन	drain, gutter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाबालिग	वि.	जो बालिग अर्थात् वयस्क न हो, अवयस्क।	নাবালক	नाबालक	minor, under age.
नाभि	स्त्री.	1. जरायुज जंतुओं के पेट के बीचों-बीच का गड्ढा जिससे गर्भावस्था में जरायुनाल जुड़ा रहता है, ढोंढ़ी, धुन्नी, तुन्नी, तुंदी;	নাভি, উদরের মধ্যভাগে ক্ষুদ্রা-কৃতি আবর্ত্তবিশেষ, নাই;	नाभि, उदरेर मध्यभागे क्षुद्रा-कृति आबर्त्तबिशेष, नाइ;	the navel;
		2. पहिए के बीच का गड्ढा जिसमें धुरा बैठाया जाता है;	চাকার মাঝের অংশ, চক্রাদির কেন্দ্রাংশ, চাকার হাঁড়ি;	चाकार माझेर अंश, चक्रादिर केन्द्रांश, चाकार हाड़ि;	the nave of a wheel, umbilicus, hub;
		3. किसी चीज का केंद्र या मध्य भाग।	কেন্দ্র, মধ্যবিন্দু	केन्द्र, मध्यबिन्दु	the centre, central point, focus.
नाभिच्छेदन	पु.	जरायुनाल काटने की क्रिया या भाव, नाल काटना।	নাভিচ্ছেদন, সদ্যোজাত শিশুর নাড়ীচ্ছেদ	नाभिच्छेदन, सद्योजात शिशुर नाड़ीच्छेद	cutting or separating the navel string or umbilical cord.
नामंजूर	वि.	जो मंजूर न किया गया हो, जो स्वीकृत न हुआ हो, अस्वीकृत।	নামঞ্জুর, অগ্রাহ্য, বাতিল, অননুমোদিত	नामंजुर, अग्राह्य, बातिल, अननुमोदित	not accepted or granted, not sanctioned, rejected, disapproved.
नामंजूरी	स्त्री.	मजूंर न होने की अवस्था या भाव, अस्वीकृति।	নামঞ্জুরী, অননুমোদন	नामंजुरी, अननुमोदन	non-acceptance, disapproval, rejection.
नाम	पुं.	1. वह शब्द या पद जिसका प्रयोग किसी प्राणी, तत्व या वस्तु अथवा उसके किसी वर्ग का बोध कराने के लिए उसके वाचक रूप में किया जाता है और जिससे वह लोक में प्रसिद्ध होता है, आख्या, अभिधान;	নাম, আখ্যা, সংজ্ঞা, অভিধান;	नाम, आख्या, संज्ञा, अभिधान;	name, personal name;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (पुस्तक आदि का) शीर्षक;	শিরনাম, শীর্ষক;	शिरनाम, शीर्षक;	title;
		3. उपाधि, पदवी;	উপাধি, পদবী;	उपाधि, पदवी;	appellation, designation;
		4. ख्याति, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा।	নাম, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, যশ	नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, जश	good name, reputation, fame, renown.
नामक	वि.	नाम का या नामवाला (समास में उत्तरपद के रूप में)।	নামক, বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যের পরবর্তী 'নাম'- শব্দের বিকল্পে এই রূপ হয়, আখ্যাত	नामक, बहुब्रीही समासे बिशेष्येर परबर्ती 'नाम'— शब्देर बिकल्पे एइ रूप हय, आख्यात	having or bearing the name, names (used as last member of compounds).
नामकरण	पुं.	1. किसी का नाम रखने या किसी को नाम देने की क्रिया या भाव;	নামকরণ, নাম রাখা, নাম দেওয়া;	नामकरन, नाम राखा, नाम देओया;	naming, making a name, nomenclature;
		2. एक संस्कार, जिसमें विधिवत् पूजा करके बच्चे का नाम रखा जाता है।	শিশুর নাম রাখার যথাশাস্ত্র সংস্কার বিশেষ	शिशुर नाम राखार जथाशास्त्र संस्कार बिशेष	the ceremony of naming a child after birth, baptism, baptismal ceremony.
नामजद	वि.	अपनी रुचि, इच्छा आदि के अनुसार चुना या नियुक्त किया हुआ, नामांकित, नामित, मनोनीत।	মনোনীত	मनोनीत	nominated.
नामजदगी	स्त्री.	नामजद अर्थात् नामांकित या मनोनीत करने या होने की क्रिया या भाव।	মনোনয়ন	मनोनयन	nomination.
नाम-धाम	पु.	व्यक्ति का नाम और उसका निवास-स्थान, नाम और पता-ठिकाना।	নামধাম, নাম ও ঠিকানা	नामधाम, नाम ओ ठिकाना	name and address, name and whereabouts.
नामधारी	वि.	नामधारक, नामवाला, नामक, नाम से प्रसिद्ध।	নামধারী, নামযুক্ত, নামবিশিষ্ট, নামধর	नामधारी, नामजुक्त, नामबिशिष्ट, नामधर	bearing the name (of), known by the name (of), named, being called by the name (of).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नामन	पु.	नामजदगी, मनोनयन।	মনোনয়ন	मनोनयन	nomination.
नामनिशान	पु.	1. ऐसा चिह्न या लक्षण जिससे किसी चीज या बात के अस्तित्व का प्रमाण मिलता हो;	নামচিহ্ন;	नामचिह्न;	sign, mark, trace;
		2. किसी चीज या बात के सूचक, अवशेष।	কোন বস্তু বা বিষয়ের নির্দেশক চিহ্ন	कोन बस्तु बा बिषयेर निदर्शक चिह्न	vestige.
नामपट्ट (नामपटल)	पु.	वह तख्ता जिस पर व्यक्ति, दुकान, संस्था आदि का नाम लिखा होता है।	নামফলক	नामफलक	sign-board.
नामर्द	पु.	1. नपुंसक;	নপুংসক;	नपुंसक;	impotent. emasculate.
		2. जिसमें पुरुषों जैसा हौसला न हो, भीरु, कायर।	ভীরু, কাপুরুষ	भीरु, कापुरुष	coward
नामलेवा	पु.	1. किसी के मरने पर उसका स्मरण करनेवाला;	কাহারো মৃত্যুর পর যে তাহার নাম করে;	काहारो मृत्युर पर जे ताहार नाम करे;	one who remembers a deceased;
		2. किसी के मर जाने पर उसके पीछे जीवित रहनेवाले उसके परिवार के व्यक्ति, संतान आदि, उत्तरजीवी।	মৃতব্যক্তির জীবিত আত্মীয় স্বজনাদি	मृतब्यक्तिर जीबित आत्मीय स्वजनादि	survivor.
नामवर	वि.	जिसका नाम आदर से लिया जाता हो, प्रसिद्ध, विख्यात।	নামী, নামকরা, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত	नामी, नामकरा, प्रसिद्ध, बिख्यात	famous, renowned, celebrated.
नामशेष	वि.	जो अस्तित्व में न रह गया हो, प्रत्युत् जिसका केवल नाम ही शेष रह गया हो, स्मृतिशेष, मृत।	নামশেষ, নামমাত্র যাহার শেষ, মৃত	नामशेष, नाममात्र जाहार शेष, मृत	having only the name left, remaining in name only, dead, deceased.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नामांकन	पु.	1. किसीका किसी पद, स्थान, निर्वाचन आदि के लिए आधिकारिक रूप से प्रस्तावित या नियुक्त किया जाना;	আধিকারিক রূপে কোনো পদের জন্য কাহারও নাম করা অথবা কাহাকেও মনোনয়ন করা;	आधिकारिक रूपे कोनो पदेर जन्य काहारओ नाम करा अथवा काहाकेओ मनोनयन करा;	nomination;
		2. नाम अंकित करने की क्रिया या भाव।	নাম অঙ্কিতকরণ	नाम अंकितकरन	inscription of name.
नामांकन-पत्र	पु.	वह पत्र जिसमें संबद्ध अधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि अमुक पद के लिए अमुक व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया है, और उस अधिकारी से तत्संबधी स्वीकृति के लिए प्रार्थना की जाती है।	মনোনয়নপত্র	मनोनयनपत्र	nomination paper.
नामा	पु.	1. एक विशेषणात्मक प्रत्यय जिसका अर्थ है नामक, नामधारी;	নামা, বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ-রূপে নাম শব্দের রূপ, নামক, নামধারী;	नामा, बहुब्रीहि समासे उत्तरपद-रूपे नाम शब्देर रूप, नामक,नामधारी;	an adjectival suffix, suffix meaning named, bearing the name;
		2. नकद रुपया-पैसा, धन, द्रव्य, नांवां।	নগদ টাকা পয়সা, ধন	नगद टाका पयसा, धन	money, cash.
नामाकूल	वि.	1. जो उपयुक्त न हो, अनुचित, असंगत;	যাহা উপযুক্ত নহে অনুচিত, অসংগত;	जाहा उपजुक्त नहे अनुचित, असंगत;	impertinent, improper, inappropriate;
		2. जो समझदार न हो, अविवेकी।	যে সমঝদার নহে, অবিবেচক	जे सझदार नहे, अबिबेचक	unreasonable, irrational.
नामावली	स्त्री.	ऐसी सूची जिसमें चीजों या व्यक्तियों के नाम दिए हुए हों।	নামাবলী, নামের তালিকা	नामाबली, नामेर तालिका	list of names.
नामित	वि.	मनोनीत, नामजद।	মনোনীত	मनोनीत	nominated, named.
नामी	वि.	1. प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात;	নামী, নামজাদা, খ্যাতিমান;	नामी, नामजादा, ख्यातिमान;	of good repute;
		2. नामवाला, नामक।	নামধারী	नामधारी	named, bearing the name (of).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नामीगिरामी	वि.	प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात।	প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, নামকরা, নামজাদা	प्रसिद्ध, बिख्यात, नामकरा, नामजादा	famous, renowned, reputed, eminent.
नामुनासिब	वि.	अनुचित, अनुपयुक्त, अशोभनीय।	অনুচিত, অনুপযুক্ত, অশোভন	अनुचित, अनुपजुक्त, अशोभन	improper, unsuitable, unbecoming, indecent.
नामुमकिन	वि.	जो संभव न हो, असंभव।	যাহা সম্ভবপর নহে, অসম্ভব	जाहा सम्भबपर नहे, असम्भब	impossible.
नामे	पु.	लेखा आदि में वह खाता, स्तंभ या मद जिसमें किसी पक्ष को दी गई रकम लिखी जाती है, 'जमा' का विपर्याय।	খরচের খাতা, খরচ	खरचेर खाता, खरच	debit.
	क्रि वि.	नाम खाते में, नाम देय खाते में।	খরচের ঘরে	खरचेर घरे	in debit (side).
नायक	पु.	1. लोगों को अपनी आज्ञा के अनुसार चलानेवाला व्यक्ति, नेता, मार्गदर्शक;	নায়ক, নেতা, পরিচালক;	नायक, नेता, परिचालक;	leader, guide;
		2. प्रधान (अधिकारी), अधिपति, स्वामी;	নায়ক, প্রভু, স্বামী;	नायक, प्रभु, स्बामी;	a chief, master, head, lord;
		3. छोटे या नीचे ओहदे का एक सैनिक कर्मचारी;	নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসার;	निम्नपदस्थ सामरिक अफिसार;	a military official of a low rank;
		4. काव्य, नाटक, उपन्यास आदि का प्रधान पुरुष पात्र (साहित्यशास्त्र);	কাব্য নাটকাদির প্রধান চরিত্র;	काब्य नाटकादिर प्रधान चरित्र;	(in rhet.), the hero (of a literary composition);
		5. शृंगार रस की कविताओं में आलंबन विभाव के अंतर्गत प्रेमी पुरुष या पति (साहित्यशास्त्र)।	(অলঙ্কারে) রতির আলম্বন, শৃংগারসাধক	(अलङ्कारे) रतिर आलम्बन, श्रृङ्गारसाधक	(in rhet) lover or husband (in the poems of erotic sentiment.).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नायब	वि.	जो किसी प्रधान अधिकारी का सहायक हो।	नायेब, अधम्तन कर्मचारी	नायेब, अधस्तन कर्मचारी	assistant, deputy.
	पु.	1. किसी का प्रतिनिधि बन कर काम करनेवाला;	प्रतिनिधि;	प्रतिनिधि;	a delegate;
		2. सहायक (अधिकारी)।	सहायक (अधिकारी)	सहायक (अधिकारी)	an assistant, a deputy.
	उप.	उप।	न्यूनता सूचक अव्याय	न्यूनता सूचक अव्यय	sub, deputy.
नायिका	स्त्री.	1. काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की मुख्य स्त्री-पात्र, प्रधान पात्री (साहित्यशास्त्र);	नायिका, काव्य नाटकादिर प्रधान स्त्रीचरित्र;	नायिका, काव्य नाटकादिर प्रधान स्त्रीचरित्र;	(in rhet.) the heroine (of a literary composition);
		2. शृंगार रस की कविताओं में आलंबन विभाव के अंतर्गत प्रेमिका स्त्री या पत्नी (साहित्यशास्त्र);	रतिर आलम्बन-रूपा नारी;	रतिर आलम्बन-रूपा नारी;	(in rhet) beloved or wife (in the poems of erotic sentiment);
		3. स्वामिनी;	कर्त्री, गृहस्वामिनी;	कर्त्री, गृहस्वामिनी;	a mistress;
		4. कुटनी;	कूटनी;	कुटनी;	procuress;
		5. स्त्रीनेता, नेत्री, वीरांगना।	नेत्री	नेत्री	female leader, heroine.
नारंगी	स्त्री.	नींबू की जाति का एक मझोला पेड़ और उसका फल जो मीठा, सुगन्धित और रसीला होता है।	नारंगी, नारंग, नारांगी, कमलालेबू	नारङ्गी, नारङ्ग, नाराङ्गी, कमलालेबु	orange (tree and its fruit).
	वि.	पीलापन लिए हुए लाल रंग का, नारंगी (फल) के छिलके के रंग का।	कमला रङेर	कमला रङेर	of orange colour.
नारा	पु.	1. किसी दल, समुदाय आदि की तीव्र अनुभूति और इच्छा का सूचक कोई पद या वाक्य जो लोगों को आकृष्ट करने के लिए उच्च स्वर से बोला जाए;	जिगीर, ध्वनि, स्लोगान;	जिगीर, ध्वनि, स्लोगान;	slogan;
		2. दे. नाड़ा।	द्रष्टव्य 'नाड़ा'	द्रष्टव्य 'नाड़ा'	same as 'नाडा'

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाराज	वि.	अप्रसन्न, रुष्ट नाखुश।	নারাজ, অসন্তুষ্ট	नाराज, असन्तुष्ट	displeased, offended, annoyed.
नाराजगी	स्त्री.	नाराज होने की अवस्था या भाव, अप्रसन्नता।	অপ্রসন্নতা, রুষ্টতা	अप्रसन्नता, रुष्टता	displeasure, annoyance.
नारियल	पु.	खजूर की जाति का एक ऊँचा पेड़ और उसका फल जिसकी ऊपरी खोपड़ी को तोड़ने पर अंदर से गिरी निकलती है।	নারিকেল, নারকেল, নারকল	नारिकेल, नारकेल, नारकल	cocoanut (tree and its fruit).
नारी	स्त्री.	मनुष्य जाति का लिंग के विचार से वह बर्ग जो गर्भधारण करके प्राणियों को जन्म देता है, औरत, स्त्री।	নারী, নৃজাতির বা নরজাতির স্ত্রী, স্ত্রী	नारी, नृजातिर बा नरजातिर स्त्री, स्त्री	woman, female.
नारीत्व	पु.	नारी या स्त्री होने का गुण या भाव, स्त्रीत्व।	নারীত্ব, নারীর স্বভাব, গুণ, ধর্ম	नारीत्व, नारीर स्बभाब,गुन, धर्म	womanhood, feminity, feminality.
नारेबाजी	स्त्री.	नारे लगाना, नारा लगाने की क्रिया।	জিগীর দেওয়া, স্লোগান দেওয়া	जिगीर देओया, स्लोगान देओया	slogan— shouting, raising slogan.
नाल	स्त्री.	1. कमल, कुमुद आदि फूलों की पोली लंबी डंडी, गेहूँ आदि पौधों के डंठल, कांड, डोंडी;	পদ্ম প্রভৃতির ফাঁপা, ডাঁটা, গম গাছ, ইত্যাদির কান্ড, ছোট গাছের শাখা;	पद्म प्रभृतिर फांपा, डांटा, गम गाछ इत्यादिर कांड, छोट गाछेर शाखा;	hollow tubular stalk (as of the lotus), pedundle;
		2. नली;	নল;	नल;	tube, pipe;
		3. लोहे का वह अर्द्ध-चंद्राकार टुकड़ा जो घोड़ों की टाप में या जूते की एड़ी में नीचे की ओर जोड़ा जाता है;	নাল, অশ্বাদির খুরে লাগাইবার লৌহফলক বিশেষ;	नाल, अश्बादिर खुरे लागाइबार लौहफलक बिशेष;	horse shoe, shoe;
		4. वह नली जो गर्भ के बच्चे की नाभि और मां के गर्भाशय से जुड़ी रहती है;	নাল, নাড়ী;	नाल, नाड़ी;	the navel – string;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		5. पत्थर का कुंडलाकार टुकड़ा जिसे कसरत करनेवाले अभ्यास के लिए उठाते हैं;	এক গোলাকার প্রস্তরখন্ড–ইহা ব্যায়ামগীরেরা অভ্যাসের জন্য উত্তোলন করে;	एक गोलाकार प्रस्तरखन्ड–इहा ब्यायामगीरेरा अभ्यासेर जन्य उत्तोलन करे;	a round heavy stone with a hole in the middle;
		6. बंदूक की नली।	বন্দুকের চোঙ	बन्दुकेर चोङ	barrel (of a gun).
नालबंदी	स्त्री.	घोड़ों के खुर या जूतों की एड़ी में नाल जोड़ने का काम।	নাল লাগান	नाल लागान	shoeing (a horse etc.).
नाला	पु.	वह गहरा तथा लंबा कृत्रिम जलमार्ग जो नहर आदि की अपेक्षा कम चौड़ा होता है तथा जिसमें बरसाती, गंदा या फालतू पानी बह कर किसी नदी में जा गिरता है।	নালা, জল নিকাশের খাত, বড় নর্দমা, ড্রেন	नाला, जल निकाशेर खात, बड़ नर्दमा, ड्रेन	a big drain, gutter, rivulet.
नालायक	वि.	1. जिसमें योग्यता का अभाव हो, अयोग्य;	নালায়েক, অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপদার্থ;	नालायेक, अजोग्य, अनुपजुक्त, अपदार्थ;	unworthy, unfit, incompetent;
		2. जो मूर्खतापूर्वक दुष्ट आचारण करता हो।	মূর্খ এবং দুষ্ট	मूर्ख एबं दुष्ट	mischievous and stupid.
नालायकी	स्त्री.	1. नालायक होने की अवस्था या भाव, अयोग्यता;	অযোগ্যতা, অনুপযুক্ততা;	अजोग्यता, अनुपजुक्तता;	unworthiness, worthlessness, unfitness, incompetence;
		2. मूर्खतापूर्वक किया गया दुष्ट आचरण।	মূর্খতা ও শয়তানি	मूर्खता ओ शयतानि	stupid mischief.
नालिश	स्त्री.	1. किसी के विरुद्ध दायर किया जानेवाला मुकद्दमा, दावा;	নালিশ, অভিযোগ, মকদ্দমা;	नालिश, अभिजोग, मकद्दमा;	law-suit;
		2. किसी के संबंध में की जानेवाली फरियाद, शिकायत।	ফরিয়াদ	फरियाद	complaint.
नाली	स्त्री.	1. छोटा नाला, मोरी;	নালী, ছোট নালা;	नाली, छोट नाला;	a drain, drain-pipe, sewer, scupper;
		2. पतला नल, नली।	ছোট চোঙ	छोट चोङ	a thin pipe.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाव	स्त्री.	नदी से पार उतरने की एक प्रसिद्ध सवारी, नौका, किश्ती।	নাও, নৌকা	नाओ, नौका	boat, ferry.
नाविक	पु.	वह जो नौका खेता हो, मल्लाह, मांझी।	নাবিক, নৌকা ইত্যাদি যে চালায়	नाबिक, नौका इत्यादि जे चालाय	sailor, seaman, boatman.
नाश	पु.	1. सत्ता से च्युत या रहित होने या करने की अवस्था, क्रिया या भाव, सर्वनाश, विनाश;	নাশ, লোপ, বিনাশ, বিলয়;	नाश, लोप, बिनाश, बिलय;	annihilation;
		2. रचनाओं के टूट-फूट कर ध्वस्त हाने की क्रिया, ध्वंस, विध्वंस, तबाही;	ধ্বংস, ক্ষয়;	ध्वंस, क्षय;	destruction, ruin, devastation;
		3. अपव्यय, बरबादी।	অপব্যয়	अपब्यय	waste, wastefulness.
नाशक	वि.	1. ध्वंस या नाश करनेवाला;	নাশক, বিনাশক, বিলোপক;	नाशक, बिनाशक, बिलोपक;	destructive, destroying, annihilating, devastating;
		2. मारने या वध करनेवाला;	বধকারী, নিধনকারী;	बधकारी, निधनकारी;	killing, killer;
		3. किसी दुष्प्रभाव आदि को दूर करनेवाला, प्रतिकारक, मारक;	প্রতীকারক;	प्रतीकारक;	remover, dispeller, antidote;
		4. अपव्ययी, उड़ाऊ।	অপব্যয়কারী	अपब्ययकारी	wasteful.
नाशकारी	वि.	दे. 'नाशक'।	দ্রষ্টব্য 'নাশক'	द्रष्टव्य 'नाशक'	same as 'नाशक'.
नाशपाती	स्त्री.	सेब की जाति का एक प्रसिद्ध पेड़ और उसका फल।	নাশপাতি, আপেলজাতীয় ফলবিশেষ	नाशपाति, आपेलजातीय फलबिशेश	pear.
नाशवान	वि.	दे. 'नश्वर'।	দ্রষ্টব্য 'নশ্বর'	द्रष्टव्य 'नश्बर'	same as 'नश्वर'.
नाश्ता	पु.	1. सवेरे या दोपहर के भोजन से पूर्व बासी मुँह किया जानेवाला जलपान, कलेवा;	প্রাতরাশ;	प्रातराश;	breakfast;
		2. अल्पाहार, जलपान।	জলখাবার	जलखाबार	light repast, refreshment.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नास	स्त्री.	सुँघनी, नसवार।	নাস, নস্য, নস্যি	नास, नस्य, नस्यि	snuff.
नासमझ	वि.	1. कम समझवाला, नादान, अबोध;	অবোধ, অবুঝ;	अबोध, अबुझ;	innocent, ignorant;
		2. जो समझदार न हो, मूर्ख, बेवकूफ।	যে সমজদার নয়, মূর্খ, বেঅকুব	जे समजदार नय, मूर्ख, बेअकुब	unwise, unintelligent.
नासमझी	स्त्री.	1. नासमझ होने की अवस्था या भाव, नादानी;	অবোধত্ব, অজ্ঞতা;	अबोधत्व, अज्ञता;	ignorance, innocence;
		2. गैरसमझदारी, मूर्खता, बेवकूफी।	মূর্খতা, বেওকুফি, বেওকুবি	मूर्खता, बेओकुफि, बेओकुबि	folly, stupidity, lack of understanding.
नासिका	स्त्री.	1. नाक;	নাসিকা, নাক;	नासिका, नाक;	the nose;
		2. हाथी की सूंड।	হাতীর শুঁড়	हातीर शुंड़	the trunk of an elephant.
नासूर	पुं.	एक प्रकार का घाव जिसका मुँह नली के आकार का होता है और जिसमें से बराबर मवाद निकलता रहता है, नाड़ी-व्रण।	পুঁজসহ নালীঘা	पुंजसह नालीघा	sinus, fistula, ulcer.
नास्तिक	पुं.	ईश्वर, वेद, परलोक, मत-मतांतरों आदि को न माननेवाला।	নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, যে পরলোক, বেদাদি শাস্ত্র মানে না	नास्तिक, निरीश्वरवादी, जे परलोक, बेदादि शास्त्र माने ना	an atheist, unbeliever one who denies the authority of the Vedas and future life or the existence of a supreme Ruler or Creator of the universe.
नास्तिकता	स्त्री.	नास्तिक होने की अवस्था या भाव।	নাস্তিকতা, নাস্তিক্য, নাস্তিকভাব	नास्तिकता, नास्तिक्य, नास्तिकभाव	atheism, infidelity, disbelief (in the existence of God etc.).
नाहक	क्रि.वि.	1. अनुचित रूप से;	নাহক, অন্যায়পূর্বক;	नाहक, अन्यायपूर्बक;	unjustly, wrongfully;
		2. अकारण, व्यर्थ।	অনর্থক, বৃথা, মিছামিছি, অহেতুক	अनर्थक, बृथा, मिछामिछि, अहेतुक	for nothing, without rhyme or reason, needlessly.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नाहर	पु.	1. सिंह, शेर; 2. साहसी और वीर पुरुष (ला०)।	সিংহ; বীরপুরুষ, সাহসী ব্যক্তি	सिंह; बीरपुरुष साहसी व्यक्ति	lion; a lion-like man, a courageous and brave man (fig.).
नाहीं	स्त्री.	'नहीं' करने या कहने की क्रिया या भाव, इनकार।	নাহি, অস্বীকৃতি	नाहि, अस्बीकृति	refusal, denial.
	अव्य.	नहीं।	নাহি, না, নাই	नाहि, ना, नाइ	no, not, nay.
निंदक	वि.	निंदा करनेवाला।	নিন্দক, নিন্দাকারী, নিন্দুক	निन्दक, निन्दाकारी, निन्दुक	censurer, slanderer, calumniator.
निंदनीय	वि.	निंदा किए जाने के योग्य (व्यक्ति या आचरण)।	নিন্দনীয়, নিন্দার্হ, দূষণীয়, গর্হিত	निन्दनीय, निन्दार्ह दूषनीय, गर्हित	deserving or liable to reproof or censure or blame, blameable, reprehensible, censurable.
निंदा	स्त्री.	1. किसी की बुराई का दूसरे के समक्ष किया जानेवाला वर्णन; 2. बदनामी, अपकीर्ति, अपमान।	নিন্দা, কুৎসা, কলঙ্ক; অপবাদ, অখ্যাতি	निन्दा, कुत्सा, कलङ्क; अपबाद, अख्याति	blame, censure, slander, reproof, condemnation; disparagement, defamation, disrepute, infamy
निंदा-प्रस्ताव	पु.	किसी सभा में उपस्थित किया जानेवाला वह प्रस्ताव जिसमें किसी अधिकारी, कार्यकर्त्ता या सदस्य के किसी काम के संबंध में असंतोष प्रकट करते हुए उसकी निंदा का उल्लेख किया जाता है।	নিন্দাপ্রস্তাব, কোনো সভায় উত্থাপিত নিন্দাসূচক প্রস্তাব	निन्दाप्रस्ताब, कोनो सभाय उत्थापित निन्दासूचक प्रस्ताब	censure-motion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निंदित	वि.	1. जिसकी निंदा हुई हो या की गई हो;	निन्दित, याहार निन्दा करा हइयाछे एमन;	निन्दित, जाहार निन्दा करा हइयाछे एमन;	blamed, censured, reproved, slandered, calumniated;
		2. दे. 'निंदनीय'।	द्रष्टव्य 'निन्दनीय'	द्रष्टव्य 'निन्दनीय'	same as 'निंदनीय'.
निंब	स्त्री.	दे. 'नीम'।	द्रष्टव्य 'नीम'	द्रष्टव्य 'नीम'	same as 'नीम'.
निंबकौड़ी (निंबकौरी, निमकौड़ी, निमकौरी)	स्त्री.	नीम का फल।	निमफल	नीमफल	the fruit of the neem tree.
नि:शंक	वि.	1. जिसे किसी प्रकार की शंका या संदेह न हो;	नि:शङ्क, याहार शङ्का नाइ;	नि:शङ्क, जाहार शङ्का नाइ;	free from doubt or suspicion;
		2. निर्भय, निर्भीक, निडर, साहसी, बेधड़क।	नि:शङ्क, निर्भीक, भयशून्य	नि:शङ्क, निर्भीक, भयशून्य	fearless, bold, daring, intrepid.
	क्रि. वि.	बिना किसी प्रकार की शंका या डर के, बेधड़क।	नि:शङ्के, नि:शङ्कचित्ते	नि:शङ्के, नि:शङ्कचित्ते	without misgiving or apprehension, fearlessly, unhesitatingly.
नि:शुल्क	वि.	1. जिस पर कोई शुल्क या कर न लगता हो;	नि:शुल्क, शुल्कमुक्त;	नि:शुल्क, शुल्कमुक्त;	duty free;
		2. जिसका शुल्क क्षमा कर दिया गया हो।	याहार वेतन लागेना, बिनावेतन	जाहार बेतन लागेना, बिनाबेतन	freed of fee, enjoying freeship.
	क्रि. वि.	बिना शुल्क के दिए हुए, बिना शुल्क के।	बिना शुल्के, बिना वेतने	बिना शुल्के, बिना बेतने	without giving any fee, without making any payment, free of charge.
नि:शेष	वि.	1. जिसका कुछ भी अंश बाकी न बचा हो, पूरा, समूचा, समग्र;	नि:शेष, शेषहीन, समस्त;	नि:शेष, शेषहीन, समस्त;	having no remainder, without leaving a residue, whole, complete, entire;
		2. पूरी तरह से समाप्त या सम्पन्न;	नि:शेष, सम्पूर्ण;	नि:शेष, सम्पूर्न;	wholly completed or finished;
		3. पूर्णतया नष्ट, व्यतीत या खर्च किया हुआ।	सम्पूर्णरूपे नष्ट, अतिक्रान्त वा व्ययित	सम्पूर्नरूपे नष्ट, अतिक्रान्त वा व्ययित	completely spent or consumed or destroyed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नि:श्रेयस	पु.	मोक्ष, मुक्ति, परमार्थ।	নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ, মুক্তি	नि:श्रेयस, मोक्ष, मुक्ति	final beatitude, absolution, ultimate bliss or supreme felicity in the life to come, summum bonum, highest good.
नि:श्वसन	पु.	सांस बाहर निकालने की क्रिया।	নিঃশ্বসন, প্রাণ-বায়ুর বহির্নিস্ঃরণ, নিঃশ্বাস ত্যাগ	नि:श्वासन, प्रान-बायुर बर्हिर्निस:रन, नि:श्वास त्याग	(the act or process of) expiration, breathing out.
नि:श्वास	पु.	वह हवा जो सांस लेने पर नाक के रास्ते बाहर निकाली जाती है।	নিঃশ্বাস, নাসিকা বা ফুসফুস হইতে নির্গত বায়ু	निश्वास, नासिका बा फुसफुस हइते निर्गत बायु	breathing out, expiration.
नि:संकोच	क्रि. वि.	संकोच के बिना, बेधड़क।	নিঃসঙ্কোচ, অসঙ্কোচে, অকুন্ঠিতভাবে	नि:सङ्कोच, असङ्कोचे, अकुन्ठितभाबे	unhesitatingly, without shame or reserve.
	वि.	जिसे संकोच न हो, संकोच-रहित।	সঙ্কোচহীন, কুন্ঠাহীন	सङ्कोचहीन, कुन्ठाहीन	unhesitating, having no hesitation.
नि:स्पृह	वि.	1. इच्छा या आकांक्षा से रहित; 2. स्वार्थ आदि की दृष्टि से जो किसी के प्रति उदासीन हो, नि:स्वार्थ भाववाला।	নিঃস্পৃহ, স্পৃহাহীন, ইচ্ছারহিত, বাসনাশূণ্য; উদাসীন, নিঃস্বার্থ	नि:स्पृह, स्पृहाहीन, इच्छारहित, बासनाशून्य; उदासीन, नि:स्बार्थ;	free from desire, out of coveting, not longing for; indifferent (to), selfless, having no selfish motives.
नि:स्वार्थ	वि.	स्वार्थ साधन की भावना से रहित, स्वार्थ से रहित (कार्य या व्यक्ति)।	নিঃস্বার্থ, স্বার্থহীন	नि:स्बार्थ, स्बार्थहीन	unselfish, selfless.
	अव्य.	बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के।	বিনা স্বার্থে	बिना स्बार्थे	without any selfishness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निकट	क्रि. वि.	समय या स्थान की दृष्टि से पास ही में, थोड़ी दूरी पर, समीप, करीब।	নিকট, সমীপে, অদূরে কাছে	निकट, समीपे, अदूरे काछे	at a short distance or in a short time, near, close, proximate.
	वि.	लगाव या संबंध की दृष्टि से समीप-स्थित, पास का, नजदीकी।	সমীপস্থ, সন্নিহিত, ঘনিষ্ট	समीपस्थ, सन्निहित, घनिष्ट	near, close (as relations etc.).
निकटता	स्त्री.	1. (समय या स्थान) निकट होने की अवस्था या भाव;	নিকটতা, নৈকট্য, সমীপতা;	निकटता, नैकट्य, समीपता;	proximity, nearness, closeness (of time and distance);
		2. ऐसी स्थिति जिसमें कोई निकट संबंध हो।	ঘনিষ্টতা	घनिष्टता	nearness or closeness (of relations etc.).
निकटवर्ती	वि.	1. निकटस्थ, सन्निकट;	নিকটবর্তী, নিকটস্থ, সন্নিহিত, আসন্ন;	निकटवर्ती, निकटस्थ, सन्निहित, आसन्न;	near, at hand, proximate, close;
		2. पड़ोसी, प्रतिवेशी।	পড়শী, প্রতিবেশী	पड़शी, प्रतिवेशी	living or situated near, neighbouring.
निकटस्थ	वि.	1. जो किसी के निकट रहता या होता हो, समीपस्थ, निकटवर्ती;	নিকটস্ত, নিকটবর্ত্তী, সমীপেষু;	निकटस्त, निकटवर्त्ती, समीपेषु;	near, at hand, proximate, close;
		2. संबंध आदि के विचार से पास का, नजदीकी।	নিকটস্থ, ঘনিষ্ট	निकटस्थ, घनिष्ट	near or close (as relations etc.).
निकम्मा	वि.	1. जिसके पास कोई काम-धंधा न हो, बेकार (व्यक्ति);	নিষ্কর্মা, অকর্মণ্য, বেকার;	निष्कर्मा, अकर्मन्य, बेकार;	without employment or work, unemployed, idle;
		2. (पदार्थ) जो किसी काम में आने योग्य न हो, रद्दी;	অকেজো;	अकेजो;	useless, worthless, good for nothing;
		3. जो कोई काम-धंधा करने योग्य न हो, अयोग्य, नालायक।	অযোগ্য, অপদার্থ, নালায়েক	अजोग्य, अपदार्थ, नालायेक	unworthy, incapable, worthless.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निकर	पु.	1. समूह, झुंड;	निकर, সমূহ, সঙ্ঘ;	निकर, समूह, सङ्घ;	a flock, a multitude;
		2. ढेर, राशि;	রাশি;	राशि;	a heap, pile, a bundle;
		3. कमर में पहनने का एक प्रकार का चौड़ी मोहरीवाला पहनावा जो घुटनों तक लंबा होता है।	হাফ্ প্যান্ট	हाफ् प्यान्ट	half pant.
निकल	स्त्री.	एक तरह की सफेद, मिश्रित धातु, जिसके सिक्के आदि ढाले जाते हैं।	নিকেল	निकेल	nickel.
निकलना	अ. क्रि.	1. भीतर से बाहर आना;	বাহির হওয়া;	बाहिर हओया;	to come out;
		2. कहीं छिपी चीज का प्राप्त होना;	লুকানো জিনিস প্রাপ্ত হওয়া;	लुकानो जिनिस प्राप्त हओया;	to be recovered;
		3. दिखाई पड़ना;	দৃষ্ট হওয়া;	दृष्ट हओया;	to appear;
		4. उदित होना;	উদিত হওয়া;	उदित हओया;	to rise;
		5. किसी प्रकार की मर्यादा सीमा, बंधन आदि से बाहर आना;	বন্ধনমুক্ত হওয়া, উদ্ধার পাওয়া	बन्धंनमुक्त हओया, उद्धार पाओया;	to get out (of), to escape;
		6. हल होना;	নিষ্পত্তি হওয়া, সমাধান হওয়া;	निष्पत्ति हओया, समाधान हओया;	to be solved, to be worked out;
		7. आविष्कृत होना, पता लगना;	আবিষ্কৃত হওয়া, সন্ধান হওয়া;	आविष्कृत हओया, सन्धान हओया;	to be invented, discovered, to be found out;
		8. दूर या अलग होना, संपर्क न रखना;	দূর বা আলগা হওয়া;	दूर वा आलगा हओया;	to leave, give up, to go away;
		9. उत्पन्न या उद्भूत होना;	উদ্ভূত হওয়া;	उद्भूत हओया;	to emanate;
		10. सार, तत्व, सत्त, रस आदि के रूप में बाहर आना;	সার, তত্ত্ব ইত্যাদি রূপে নিষ্কাসিত হওয়া;	सार, तत्व इत्यादि रूपे निष्कासित हओया;	to be extracted;
		11. ऊपर आना, उभड़ना, ऊपर उठना, प्रकट हो जाना;	উদ্গত হওয়া, উপরে উঠা, প্রকট হওয়া;	उद्गत हओया, उपरे उठा, प्रकट हओया;	to emerge;
		12. जारी होना;	জারি হওয়া;	जारि हओया;	to issue or be issued;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		13. खिसक जाना, चुपके से चला जाना;	নি:শব্দে চলিয়া যাওয়া;	नि:शब्दे चलिया जाओया;	to slink away;
		14. प्रकाशित होना;	প্রকাশিত হওয়া;	प्रकाशित हओया;	to be published, to be brought out;
		15. खपत या बिक्री होना;	কাটতি হওয়া, বিক্রি হওয়া;	कार्टति हओया, बिक्रि हओया;	to be consumed, to be sold;
		16. चलना, जाना या आगे बढ़ना;	অগ্রসর হওয়া;	अग्रसर हओया;	to proceed;
		17. गुजरना, बीतना;	সময় কাটা, দিন কাটা;	समय काटा, दिन काटा;	to pass away, to elapse;
		18. प्रमाणित या सिद्ध होना;	প্রমাণিত হওয়া, সিদ্ধ হওয়া;	प्रमानित हओया, सिद्ध हओया;	to result, to prove, to turn out;
		19. उच्चारित होना।	উচ্চারিত হওয়া	उच्चारित हओया	to find utterance, to be uttered or pronounced.
निकलवाना	स. क्रि.	किसी को कुछ निकालने में प्रवृत्त करना (निकालने का प्रेरणार्थक रूप)।	'নিকালনা'-র নিজন্ত রূপ	'निकालना'-र निजन्त रूप	causative form of निकालना, to cause to take out, issue, expel etc.
निकष	पु.	1. कसौटी जिस पर परखने के लिए सोना रगड़ा जाता है;	নিকষ, কষ্টিপাথর;	निकष, कष्टिपाथर;	touchstone;
		2. मानदण्ड, मानक।	মানদন্ড, মান	मानदन्ड, मान	criterion.
निकाय	पु.	1. समिति, संस्था;	নিকায়, সঙ্ঘ;	निकाय, सङ्घ;	a body, association;
		2. समूह, झुंड, वर्ग, समुदाय;	সমূহ;	समूह;	a group, class, a flock;
		3. ढेर, अम्बार, राशि।	রাশি	राशि	a heap, collection, an assemblage.
निकालना	स. क्रि.	1. भीतर से बाहर लाना;	বাহির করা;	बाहिर करा;	to take out;
		2. किसी चीज में पड़ी मिली या लगी चीज को अलग करना, हटाना;	পৃথক করা, আলগা করা;	पृथक करा, आलगा करा;	to separate, to remove;
		3. परिधि, मर्यादा, सीमा आदि से बाहर करना, निष्कासित करना;	উচ্ছেদ করা, বহিষ্কৃত করা;	उच्छेद करा, बहिष्कृत करा;	to oust, to expel;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. किसी छिपी या दबी चीज को प्राप्त करना, बरामद करना;	কোনো লুকান জিনিস খুঁজিয়া পাওয়া;	कोनो लुकानो जिनिस खुंजिया पाओया;	to recover, to receive back;
		5. अस्तित्व मिटाना, न रहने देना;	উখ্যাত করা, বিনাশ করা;	उख्यात करा, बिनाश करा;	to eradicate, to eliminate;
		6. किसी बड़ी राशि में से छोटी राशि अलग करना, घटाना;	বড় রাশি থেকে ছোট রাশি বিয়োগ করা, বাদ দেওয়া;	बड़ राशि थेके छोट राशि बियोग करा, बाद देओया;	to deduct, to exclude;
		7. पद, नौकरी, सेवा आदि से हटाना;	বরখাস্ত করা; নিজের সংরিক্ষত	बरखास्त करा; निजेर संरक्षित	to discharge, to dismiss;
		8. कहीं रखी हुई अपनी कोई चीज या उसका कुछ अंश अपने अधिकार में करना;	কোনো বস্তু থেকে কিছু অংশ বাহির করিয়া আনিয়া হাতে রাখা;	कोनो बस्तु थेके किछु अंश बाहिर करिया आनिया हाते राखा;	to withdraw, to take away, to retract, to draw;
		9. उद्धार करना, संकट आदि. की स्थिति दूर करना;	উদ্ধার করা, সংকটমুক্ত করা;	उद्धार करा, संकटमुक्त करा;	to rescue, to reclaim;
		10.बेच डालना;	বেচিয়া দেওয়া;	बेचिया देओया;	to sell;
		11. आविष्कृत करना, पता लगाना;	আবিষ্কার করা, সন্ধান করা, খোঁজ করা;	आविष्कार करा, सन्धान करा, खोंज करा;	to invent, to discover, to find out;
		12. (अर्थ आदि) स्पष्ट करना;	স্পষ্ট করা;	स्पष्ट करा;	to disclose, to open, to elicit, to express, to reveal;
		13. हल करना;	সমাধান করা;	समाधान करा;	to solve;
		14. प्रकाशित करना;	প্রকাশিত করা;	प्रकाशित करा;	to publish;
		15. उच्चारित करना, शब्द उत्पन्न करना;	উচ্চারণ করা, শব্দ করা;	उच्चारन करा, शब्द करा;	to utter, to give utterance to, to pronounce;
		16. गुजारना, व्यतीत करना;	কাটান, যাপন করা;	काटान, जापन करा;	to pass away;
		17. जारी करना;	জারি করা;	जारि करा;	to issue;
		18. सार, तत्व, सत्त, रस आदि के रूप में बाहर करना, निचोड़ना;	সারতত্ত্ব ইত্যাদি নিষ্কাসিত করা;	सारतत्व इत्यादि निष्कासित करा;	to extract, to draw;
		19. प्रदर्शनार्थ बाहर निकालना या ले जाना।	দেখানোর জন্য বাহির করা, প্রকট করা	देखानोर जन्य बाहिर करा, प्रकट करा	to bring out (as a procession), to manifest.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निकास	पु.	1. उद्गम स्थान;	উদ্‌গম স্থান;	उद्गम स्थान;	origin, extraction;
		2. घर आदि से निकलने का द्वार;	নিকাস, নিকাশ দ্বার;	निकास, निकाश द्वार;	gate, exit;
		3. वह मार्ग या विस्तार जिसमें से होकर कोई चीज आती-जाती हो, निर्गमद्वार, निर्गममार्ग;	নির্গমন পথ;	निर्गमन पथ;	exit, outlet, vent;
		4. आय का साधन, स्रोत;	আয়ের উপায়;	आयेर उपाय;	source;
		5. निकलने की क्रिया या भाव।	নিষ্কাসন, নিঃসরণ	निष्कासन, नि:सरन	clearance.
निकासी	स्त्री.	1. माल या पत्र-पेटी से पत्र आदि निकालने या निकलने की क्रिया या भाव;	নিষ্কাসন, বাহির করার কাজ, বহিঃকরণ;	निष्कासन, बाहिर करार काज, बहि:करन;	clearance;
		2. व्यक्ति का घर से बाहर निकलने, विशेषत: कामकाज या यात्रा के लिए बाहर निकलने का भाव, प्रस्थान;	যাত্রা, যাত্রা, প্রস্থান;	जात्रा, जात्रा, प्रस्थान;	out-going, departure;
		3. दुकानों में रखे हुए या कारखानों में तैयार होनेवाले माल का बाहर आना और बिकना, खपत, बिक्री;	কাটতি, বিক্রি;	काटति, बिक्रि;	sale, consumption;
		4. आय, आमदनी;	আয়, আমদানি;	आय, आमदानि;	income, profit;
		5. चुंगी;	চুংগি, কোনো সহরে আমদানি করা মালের উপর শুল্ক;	चुङ्गि, कोनो सहरे आमदानि करा मालेर उपर शुल्क;	tax collected on goods passing out of a town, transit-duty;
		6. (कारखानों आदि में) उत्पादित माल, उत्पादन, उत्पाद।	কারখানা ইত্যাদিতে উৎপন্ন মাল, উৎপাদন	क ारखाना इत्यादिते उत्पन्न माल, उत्पादन	out-put, produce, out-turn.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निकाह	पु.	(इस्लाम की धार्मिक पद्धति से होनेवाला) विवाह, विवाहोत्सव।	নিকা, মুসলমান শাস্ত্রমতে বিবাহ	निका, मुसलमान शास्त्रमते बिबाह	marriage, matrimony, nuptal, marriage-ceremony (according to Islamic rites).
निकुंज	पु.	उपवन, वन, वाटिका आदि में वृक्षों और लताओं द्वारा आच्छादित स्थान, कुंज।	নিকুঞ্জ, উদ্যানে বা বনে তরুলতা-বেষ্টিত স্থান, লতাগৃহ, কুঞ্জ	निकुंज, उद्याने बा बने तरुलता-वेष्टित स्थान, लतागृह, कुंज	a place overgrown with shrubs and creepers, an arbour, a bower.
निकृष्ट	वि.	1. अधम, नीच, कमीना (व्यक्ति);	নিকৃষ্ট, অধম, নীচ;	निकृष्ट, अधम, नीच;	low, base, vile;
		2. निम्न, अवर, घटिया (वस्तु आदि)।	অপকৃষ্ট, খারাপ	अपकृष्ट, खाराप	inferior, inferiormost.
निकृष्टता	स्त्री.	निकृष्ट होने की अवस्था या भाव, नीचता, कमीनापन।	নিকৃষ্টতা, নীচতা, অপকৃষ্টতা	निकृष्टता, नीचता, अपकृष्टता	lowness, baseness, vileness, contemptibleness.
निकेत	पु.	घर, रहने का स्थान।	নিকেত, গৃহ, বাসস্থান	निकेत, गृह, बासस्थान	house, habitation, mansion, abode, residence.
निकेतन	पु.	दे. 'निकेत'।	দ্রষ্টব্য 'নিকেত'	द्रष्टव्य 'निकेत'	same as 'निकेत'.
निक्षिप्त	वि.	1. फैंका हुआ;	নিক্ষিপ্ত;	निक्षिप्त;	thrown;
		2. अमानत या धरोहर के रूप में किसी के पास रखा हुआ;	নিক্ষিপ্ত, গচ্ছিত;	निक्षिप्त, गच्छित;	deposited;
		3. रखा हुआ, डाला हुआ।	ন্যস্ত, অর্পিত	न्यस्त, अर्पित	placed, laid.
निक्षेप	पु.	1. फैंकने की क्रिया या भाव;	নিক্ষেপ, ক্ষেপণ, প্রেরণ, ছুড়িয়া ফেলা;	निक्षेप, क्षेपन, प्रेरन, छुड़िया फेला;	throwing;
		2. जमा किया हुआ धन, अमानत या धरोहर के रूप में जमा किया हुआ धन या पदार्थ;	গচ্ছিত ধনাদি;	गच्छित धनादि;	deposit;
		3. कोई चीज कहीं जमा करने या किसी के पास धरोहर के रूप में रखने की क्रिया या भाव।	গচ্ছিত করণ	गच्छित करन	depositing.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निखट्टू	वि.	1. जो कुछ भी न कमाता हो, बेकार, बेरोजगार; 2. आलसी, आरामतलब।	যাহার কোনো উপার্জন নাই, বেকার; আলসে, কুঁড়ে	जाहार कोनो उपार्जन नाइ, बेकार; आलसे, कुंड़े	idle, unearning, unemployed; indolent, lazy.
	पु.	1. आलसी या आरामतलब व्यक्ति; 2. न कमानेवाला व्यक्ति, बेकार आदमी, बेरोजगार व्यक्ति।	আলসে বা কুঁড়ে লোক; উপার্জনহীন ব্যক্তি, বেকার লোক, রোজগারশূন্য ব্যক্তি	आलसे बा कुंड़े लोक; उपार्जनहीन ब्यक्ति, बेकार लोक, रोजगारशुन्य ब्यक्ति	idle fellow, idler, drone; one who earns nothing, unemployed person.
निखरना	अ. क्रि.	1. मैल आदि छंटकर साफ होना, खरा या वास्तविक रूप प्रकट होना; 2. रंग, रूप आदि का खिलना या साफ होना।	পরিষ্কৃত হওয়া, বিশুদ্ধ বা খাঁটি রূপে প্রকট হওয়া; রং রূপ ইত্যাদি খুলা হওয়া	परिष्कृत हओया, बिशुद्ध बा खाँटि रूपे प्रकट हओया; रङ रूप इत्यादि खुला हओया	to be cleaned, to be cleansed, to be crystallized; to become clear, elegant.
निखार	पु.	1. निर्मलता, चमक, क्रान्ति; 2. रमणीयता, चारुता।	নির্মলতা, দীপ্তি, কান্তি; রমণীয়তা, চারুতা	निर्मलता, दीप्ति, कान्ति; रमनीयता, चारुता	brightness, lustre; elegance.
निखारना	स क्रि.	1. ऐसी क्रिया करना जिससे कोई चीज निखर उठे, विशेष प्रक्रिया द्वारा मैल आदि हटाकर साफ और स्वच्छ करना;	পরিষ্কার করা, মাজাঘষা;	परिष्कार करा, माजाघषा;	to cleanse, to clean, to bleach;
		2. चमकाना, निर्मल करना।	চকচকে করা, নির্মল করা	चकचके करा, निर्मल करा	to brighten, to make clear.
निखिल	वि.	सारा, संपूर्ण, समस्त, अखिल।	নিখিল, সমগ্র, সর্ব, সমস্ত, সমুদয়	निखिल, समग्र, सर्ब, समस्त समुदय	complete, all, whole, entire.
निगम	पु.	1. वेद या उसका कोई भाग या अंश; 2. किसी नगर, बस्ती, स्थान आदि का प्रबंध करनेवाला व्यक्ति समूह, संघ या संस्था।	নিগম, বেদ, বেদের উদ্ধৃত শ্লোক; পৌরসভা, বণিকসঙ্ঘ, সঙ্ঘ	निगम, बेद, बेदेर उद्धृत श्लोक; पौरसभा, बनिकसङ्घ, सङ्घ	the Vedas or any portion thereof; corporation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निगमन	पु.	(न्याय में) वह कथन या प्रतिज्ञा जो हेतु, उदाहरण और उपनय तीनों से सिद्ध हुई या होती हो।	নিগমন, (ন্যায়ে) পঞ্চ অবয়বের শেষ অবয়ব	निगमन, (न्याये) पंच अबयबेर शेष अबयब	(in logic) the conclusion in a syllogism, deduction.
निगमित	वि.	1. जिसे निगम का रूप दिया गया हो;	নিগমিত, সঙ্ঘবদ্ধ;	निगमित, सङ्घबद्ध;	incorporated;
		2. (न्याय में) हेतु, उदाहरण और उपनय के माध्यम से निष्कर्ष रूप में प्राप्त या सिद्ध।	(ন্যায়শাস্ত্রে) নিগমের দ্বারা প্রাপ্ত	(न्यायशास्त्रे) निगमेर द्वारा प्राप्त	deduced (in logic).
निगरानी	स्त्री.	1. (वस्तु के संबंध में) इस प्रकार ध्यान रखना कि उसे किसी प्रकार की क्षति या व्यतिक्रम न होने पाए, देखरेख;	দৃষ্টি রাখা, দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান (বস্তুবিষয়ে);	दृष्टि राखा, देखाशोना, तत्त्वाबधान (बस्तुबिषये);	watchfulness, watch, guard;
		2. (व्यक्ति के संबंध में) किसी के कार्य, गतिविधि आदि पर इस प्रकार ध्यान रखना कि कोई अनौचित्य न होने पाए, पर्यवेक्षण।	নজর রাখা, দৃষ্টি রাখা, পর্যবেক্ষণ (ব্যক্তিবিষয়ে)	नजर राखा, दृष्टि राखा, पर्जबेक्षन (ब्यक्तिबिषये)	supervision.
निगलना	स. क्रि.	कोई ठोस चीज बिना चबाये ही गले के अंदर उतार लेना।	গিলিয়া ফেলা, গিলা	गिलिया फेला, गिला	to swallow, to gulp.
निगाली	स्त्री.	1. हुक्के की वह नली जिसे मुंह में लगाकर धुआं खींचा जाता है;	তামাক খাওয়ার ছোট নল;	तामाक खाओयार छोट नल;	inhaling pipe of a Hubble-bubble ('hookah');
		2. बांस की पतली नली।	বাঁশের সরু নল	बांसेर सरु नल	a small narrow bamboo pipe.
निगाह	स्त्री.	1. दृष्टि, नजर;	দৃষ্টি, নজর;	दृष्टि, नजर;	look, glance, sight;
		2. कृपादृष्टि;	কৃপাদৃষ্টি, নেক নজর;	कृपादृष्टि, नेक नजर;	kind glance, favourable attention;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. दृष्टिकोण, मत, राय, विचार;	দৃষ্টিভংগী, মত, রায়, বিচার;	दृष्टिभङ्गी, मत, राय, बिचार;	view, opinion, consideration, look, aspect (of);
		4. निगरानी, ध्यान।	তত্ত্বাবধান	तत्त्वावधान	watch, guard, observation, attention, custody, care.
निगूढ़	वि.	1. जिसका अर्थ छिपा हो, अव्यक्त, अप्रकट;	নিগূঢ়, অপ্রকাশিত, অতিশয় গভীর;	निगूढ़, अप्रकाशित, अतिशय गभीर;	latent, hidden, concealed;
		2. गुप्त;	গুপ্ত;	गुप्त;	secret;
		3. दुर्बोध, दुरूह।	দুর্জ্ঞেয়, জটিল	दुर्ज्ञेय, जटिल	abstruse, obscure.
निगोड़ा	वि.	1. निष्क्रिय, आलसी;	নিষ্কর্মা, আলসে;	निष्कर्मा, आलसे;	idle, indolent, worthless;
		2. स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त एक प्रकार की गाली जो वे अकर्मण्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त करती हैं;	নিষ্কর্মা আলসে লোকেদের মেয়েরা এই বলিয়া গালি দেন, কুঁড়ের বাদশা	निष्कर्मा आलसे लोकेदेर मेयेरा एइ बलिया गालि देन, कुंड़ेर बादशा;	term of abuse used by women for persons who are idle and indolent;
		3. अभागा, बदनसीब।	হতভাগা, পোড়াকপাল	हतभागा, पोड़ाकपाल	wretched, unfortunate.
निग्रह	पुं.	1. बंधन, रोक आदि के द्वारा किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति को स्वतंत्र आचरण न करने देना, अवरोध, नियंत्रण, रोकथाम;	নিগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, অবরোধ, শাসন;	निग्रह, नियन्त्रन, अबरोध, शासन;	keeping in check, control, restraining;
		2. आत्मदमन;	সংযম;	संजम;	self-control, self-repression, subdual;
		3. दंड, सजा;	নিগ্রহ, দন্ড, শাসন;	निग्रह, दन्ड, शासन;	punishment, chastisement;
		4. रोक कर या वश में रखनेवाली चीज, बात या तत्व, अवरोधक।	নিগ্রহ, নিরোধ, দমন	निग्रह, निरोध, दमन	restraint, check, control.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निचय	पु.	1. ढेर, राशि, समूह;	নিচয়, সমূহ, রাশীকৃত দ্রব্য;	निचय, समूह, राशीकृत द्रव्य;	a heap, pile, assemblage, group;
		2. संचय, संग्रह;	নিচয়, সঞ্চয়;	निचय, संचय;	collection, accumulation;
		3. सार-संग्रह।	সারসংগ্রহ	सारसंग्रह	a digest.
निचला	वि. (स्त्री. निचली)	अवस्था, पद, स्थिति आदि के विचार से निम्न स्तर पर या नीचे होनेवाला, नीचेवाला।	নিচু, নিম্ন	निचु, निम्न	lower.
निचाई	स्त्री.	1. निम्न स्थल पर होने की अवस्था या भाव;	নিম্নপদস্থতা, নিম্নতা;	निम्नपदस्था, निम्नता;	lowness;
		2. निम्न स्थल की ओर का विस्तार, ढाल।	ঢাল	ढाल	declivity, slope.
निचान	स्त्री.	1. नीचे वाले स्तर पर होने की अवस्था, क्रिया या भाव;	নিম্নতা;	निम्नता;	lowness;
		2. ऐसी भूमि जो अपेक्षाकृत नीची हो;	নিচু জমি;	निचु जमि;	low land;
		3. ढाल;	ঢাল;	ढाल;	declivity, slope;
		4. दे. 'नीचता'।	দ্র: 'নীচতা'	द्र: 'नीचता'	same as **'नीचता'**.
निचुड़ना	अ. क्रि.	1. आर्द्र या रस से भरी वस्तु में से तरल अंश का दबा कर निकाला जाना, निचोड़ा जाना;	নিষ্কাসিত হওয়া;	निष्कासित हओया;	to be squeezed or pressed, to be extracted;
		2. निचोड़ने या निचुड़ने पर धीरे-धीरे बहना, टपकना, रिसना, चूना।	নিংড়াইবার পর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া, চুয়ানো	निंड़ाइबार पर फोंटा फोंटा करिया पड़ा, चुयानो	to flow out gently, to trickle, ooze, drop.
निचोड़	पुं.	1. सारांश;	সারাংশ;	सारांश;	essence, substance, gist, end, termination (of an affair);
		2. वह अंश जो निचोड़ने पर निकले, सत्त, सत्व।	নিষ্কাসিত অংশ, সত্ত্ব	निष्कासित अंश, सत्त्व	that which is squeezed or pressed out, extract.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देबनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निचोड़ना	स. क्रि.	1. गीली या रस से भरी वस्तु में से उसका तरल अंश निकालने के लिए उसे ऐंठना, दबाना या मरोड़ना;	নংড়ানো;	निंड़ानो;	to squeeze, to press, to wring, to extract;
		2. उक्त प्रकार से पीड़ित करते हुए किसी चीज का सार भाग या सत्त निकालना, दबाकर या मरोड़कर रस आदि निकालना या चुआना;	নিংড়াইয়া রস ইত্যাদি বাহির করা;	निंड़ाइया रस इत्यादि बाहिर कार;	to squeeze out, to press out, to wring out;
		3. (लाक्षणिक अर्थ में) किसी का सर्वस्व लेकर उसे खोखला या निःसार कर देना।	কাহারো সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করা	काहारो सर्बस्व आत्मसात् करिया उक्त ब्यक्तिके अन्तःसारशून्य करा	to seize one's all, to take one's all, to usurp one's all.
निछावर (न्योछावर)	स्त्री.	1. बलिदान, उत्सर्ग, त्याग;	সমর্পন, উৎসর্গ, ত্যাগ;	समर्पन, उत्सर्ग, त्याग;	sacrifice, giving up;
		2. किसी के गुण, रूप, सुख-समृद्धि आदि को सुरक्षित रखने की कामना से तथा उसे नजर आदि के दूषित प्रभाव से बचाने के लिए उसके ऊपर से कोई चीज घुमाकर उस (चीज) का उत्सर्ग या दान;	নিছনি;	निछनि;	a propitiatory offering, an offering made to ward off an evil eye;
		3. उक्त प्रकार से निछावर की गई वस्तु या धन।	নিছনিরূপে ব্যবহৃত দ্রব্য	निछनिरूपे ब्यबहृत द्रब्य	the thing or money offered as above.
निज	वि.	किसी की दृष्टि से स्वयं उसका, अपना।	নিজ, স্বীয়, স্বকীয়, আপন	निज, स्वीय, स्वकीय, आपन	own, one's own, relating to one-self.
निजी	वि.	1. किसी की दृष्टि से स्वयं उससे संबंध रखनेवाला, निज का;	স্বীয়, স্বকীয়;	स्वीय, स्वकीय;	one's own, one's very own, relating to oneself, personal, individual;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. विशिष्ट लोगों से ही संबंधित, जिससे औरों का कोई संबंध न हो;	নিজস্ব;	निजस्व;	relating to particular persons, not related to others;
		3. अपने अधिकार में होनेवाला, व्यक्तिगत;	ব্যক্তিগত;	व्यक्तिगत;	private;
		4. गैर सरकारी, अशासनिक।	বেসরকারী	बेसरकारी	unofficial.
निठल्ला	वि	1. प्राय: खाली बैठा रहनेवाला, जो कोई काम न करता हो, अकर्मण्य;	যে কোনো কাজকর্ম করে না, অকর্মা;	जे कानो काजकर्मे करे ना अकर्मा;	idle, indolent, lazy, lolling;
		2. जिसके हाथ में कोई काम-धंधा न हो, बेकार, खाली।	যাহার হাতে কোনো কাজকর্ম নাই, বেকার	जाहार हाते कोनो काजकर्म नाइ, बेकार	out of work or employment, unemployed.
	पु.	आरामतलब व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति।	আলসে লোক, আরামপ্রিয় ব্যক্তি	आलसे लोक, आरामप्रिय व्यक्ति	idler.
निठुर	वि.	जिसे दूसरों के कष्ट, पीड़ा आदि की अनुभूति न होती हो, कठोर-हृदय, निष्ठुर।	নিঠুর, নিষ্ঠুর, নির্দয়, কঠোর	निठुर, निष्ठुर, निर्दय, कठोर	cruel, hard, obdurate, ruthless.
निठुरता	स्त्री.	निठुर होने की अवस्था या भाव, निष्ठुरता।	নিঠুরপনা, নিঠুরাই, নিষ্ঠুরতা	निठुरपना, निठुराइ, निष्ठुरता	hardness of heart, cruelty, ruthlessness, obduracy, relentlessness.
निठुराई	स्त्री.	दे. 'निठुरता'।	দ্রষ্টব্য 'নিঠুরতা'	द्रष्टव्य 'निठुरता'	same as 'निठुरता'
निडर	वि.	1. जिसे किसी आदमी या बात से बिलकुल डर न लगता हो, निर्भय, निर्भीक;	ভয়হীন, নির্ভয়, নির্ভীক;	भयहीन, निर्भय, निर्भीक;	fearless, dauntless;
		2. साहसी;	সাহসী;	साहसी;	bold, daring, intrepid;
		3. धृष्ट, ढीठ।	ধৃষ্ট, ঢেঁটা, ঢ্যাঁঠা	धृष्ट, ढेंटा, ढयांठा	impudent, insolent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निडरता	स्त्री.	निडर होने की अवस्था या भाव, निर्भीकता, साहस।	ভয়শূন্যতা, নির্ভয়, নির্ভীকতা, সাহস	भयशून्यता, निर्भय, निर्भीकता, साहस	fearlessness, dauntlessness, boldness.
निक्लान्त	वि.	1. बहुत अधिक थका हुआ; 2. जो विफल मनोरथ होने पर उत्साह-हीन हो गया हो।	খুব বেশী ক্লান্ত; ভগ্নোৎসাহ	खुब वेशी क्लान्त; भग्नोत्साह	languid, wearied; spiritless.
नितंब	पु.	जांघों की हड्डियों के ऊपर कमर का पिछला उभरा हुआ भाग, चूतड़।	নিতম্ব, পাছা, স্ত্রীকটির পশ্চাদভাগ	नितम्ब, पाछा, स्त्रीकटिर पश्चादभाग	the buttocks, hips.
नितंबिनी	स्त्री.	सुंदर नितंबोंवाली स्त्री, सुंदरी।	নিতম্বিনী, সুগঠিত বা স্থূল নিতম্ব-যুক্তা নারী, সুন্দরী নারী	नितम्बिनी, सुगठित बा स्थुल नितम्ब-जुक्ता नारी, सुन्दरी नारी	a woman with large and handsome hips, a beautiful woman.
नित	अव्य.	प्रतिदिन, हमेशा, नित्य।	নিত, প্রতিদিন, সর্বদা	नित, प्रतिदिन, सर्बदा	everyday, daily; continually.
नितांत	वि.	1. बहुत अधिक, असाधारण;	নিতান্ত, অত্যন্ত, অতিশয়, অতিমাত্র;	नितान्त, अत्यन्त, अतिशय, अतिमात्र;	extraordinary, excessive, very much;
		2. पूर्ण, सम्पूर्ण, पूरा।	পূর্ণ, সম্পূর্ণ, পুরা	पूर्न, सम्पूर्न, पुरा	absolute, complete.
	क्रि. वि.	बिलकुल, पूर्णतया, सर्वथा	একান্ত, বিলকুল	एकान्त, बिलकुल	absolutely, quitely.
नित्य	वि.	1. जो निरंतर या सदा बना रहे, अविनाशी, शाश्वत;	নিত্য, অনশ্বর, শাশ্বত, সনাতন;	नित्य, अनश्बर, शाश्बत, सनातन;	everlasting, eternal;
		2. नियमित, नित्य।	নিত্য, প্রাত্যহিক	नित्य, प्रात्यहिक	regular.
	क्रि. वि.	1. प्रतिदिन;	প্রত্যহ;	प्रत्यह;	everyday, daily;
		2. सदा, हमेशा।	সর্বদা, হামেশা	सर्बदा, हामेशा	constantly, always, ever.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नित्य-कर्म	पु.	1. वे धार्मिक कृत्य जो प्रतिदिन आवश्यक रूप से किये जाते हैं;	নিত্যকর্ম, দৈনিক-বিহিত কর্ম—পঞ্চযজ্ঞাদি, দৈনিক কর্ত্তব্য;	नित्यकर्म, दैनिक-बिहित कर्म—पंचजज्ञादि दैनिक कर्त्तब्य;	any daily and necessary rite, a constant act or duty;
		2. रोज का काम, प्रतिदिन किया जानेवाला काम।	প্রতিদিনের কাজ, দৈনন্দিন কর্তব্য	प्रतिदिनेर काज, दैनन्दिन कर्तब्य	daily chores.
नित्यता	स्त्री.	नित्य रहने की अवस्था या भाव।	নিত্যতা, সনাতনত্ব	नित्यता, सनातनत्व	eternity, perpetuity.
नित्य-प्रति	क्रि.वि	प्रतिदिन, हर रोज़।	প্রতিদিন, প্রত্যহ	प्रतिदिन, प्रत्यह	everyday, daily.
निथरना	अ.क्रि	तरल पदार्थ का ऐसी स्थिति में रहना या होना कि उसमें घुली या मिली हुई चीज अपने भारीपन के कारण उसके नीचे या तल में बैठ जाने पर तरल पदार्थ का साफ हो जाना।	থিতানো	थितानो	to be decanted, to be made clear or clean, to be purified (water or other liquid, by letting the feculent matter subside).
निथार	पु.	1. निथरने या निथारने की क्रिया या भाव, तरल पदार्थ में घुली या मिली चीज का नीचे बैठना;	থিতান, থিতানো;	थितान, थितानो;	decantation;
		2. इस प्रकार नीचे या तल में बैठी हुई मैल आदि।	থিতানোর পর তলানি	थितानोर पर तलानि	feculent matter subsiding beneath the water etc.
निथारना	स. क्रि.	कोई तरल पदार्थ इस प्रकार स्थिर करना कि उसमें मिली हुई चीज तल में बैठ जाए, मैल आदि नीचे बैठाकर तरल पदार्थ साफ करना।	থিতাইতে দেওয়া	थिताइते देओया	to decant, to make clear or clean, to purify (water or liquid by letting the feculent matter subside).
निदर्श	पुं.	नमूना, प्रतिदर्श।	নমুনা	नमुना	sample.
निदर्शक	पुं.	निदर्शन अर्थात् दिखाने या प्रदर्शित करनेवाला, प्रदर्शक।	প্রদর্শক	प्रदर्शक	demonstrator.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	वि.	निर्दिष्ट करनेवाला, दर्शानेवाला, किसी बात, तथ्य आदि की ओर संकेत करनेवाला, सूचक।	নিদর্শক, নির্দেশক, সূচক, অভিজ্ঞাপক	निदर्शक, निर्देशक, सूचक, अभिज्ञापक	pointing out, proclaiming, indicating, showing.
निदर्शन	पु.	1. दिखाने या प्रदर्शित करने की क्रिया या भाव, प्रदर्शन;	প্রদর্শন;	प्रदर्शन;	demonstration;
		2. उदाहरण, दृष्टांत;	নিদর্শন, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত;	निदर्शन, उदाहरन, दृष्टान्त;	instance, example, illustration, injunction;
		3. भौतिक विज्ञान, रेखागणित आदि में किसी मूल कथन को सिद्ध करने के लिए बनाई जानेवाली आकृतियां, चित्र;	পদার্থবিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত চিত্র;	पदार्थविज्ञान, ज्यामिति इत्यादिते व्यवहृत चित्र;	figure, illustration;
		4. किसी बात या तथ्य आदि को निर्दिष्ट या संकेतित करने की क्रिया या भाव।	সূচন	सूचन	pointing, showing, indicating.
निदाघ	पु.	1. गरमी, ताप, धूप;	নিদাঘ, উষ্ম, তাপ;	निदाघ, उष्म, ताप;	heat, warmth;
		2. गरमी का मौसम (ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने।)	গ্রীষ্মকাল	ग्रीष्मकाल	the hot season (May and June) corresponding to the months of ज्येष्ठ and आषाढ़
निदान	पु.	1. मूल कारण;	নিদান, মূলকারণ;	निदान, मूलकारन;	primary cause, the first or essential cause;
		2. चिकित्साशास्त्र में रोग की पहचान द्वारा रोग के कारणों का निश्चय।	রোগের কারণ বা লক্ষণ নির্ণয়	रोगेर कारन बा लक्षन निर्नय	(in medicine) inquiry into the causes of a disease by studying its symptoms, diagnosis (of a disease).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	क्रि. वि.	1. अंत में; 2. परिणामत:, इसलिए।	অন্তে, শেষে, নিদানে; ফলে, এই কারণে	अन्ते, शेषे, निदाने; फले, एइ कारने	in the end, at last, eventually, finally; consequently.
निदेश	पु.	1. यह कहना, बताना, समझाना या आदेश देना कि अमुक काम या बात इस प्रकार या इस रूप में होनी चाहिए, निर्देश;	নির্দেশ, নিদেশ;	निर्देश, निदेश;	direction;
		2. उक्त प्रकार से कही या समझाई गई बात या दिया गया आदेश, वह बात जिसके लिए निदेश दिया गया हो, निर्दिष्ट बात।	নির্দেশপত্র, নিদেশপত্র	निर्देशपत्र, निदेशपत्र	directive.
निदेशक	पु.	कोई काम कैसे, कहां और कब किया जाए—इस संबंध में जो दूसरों को सूचनाएं या आदेश देता हो, निर्देशक।	অধিকর্তা, পরিচালক	अधिकर्ता, परिचालक	director.
निदेशालय	पु.	निदेशक का कार्यालय।	অধিকর্তা বা পরিচালকের কার্যালয়	अधिकर्ता बा परिचालकेर कार्जालय	office of the director, directorate.
निद्रा	स्त्री.	कुछ घंटों तक होनेवाली शरीर की वह अवस्था जिसमें स्नायविक क्रियाएं रुकी रहती हैं, आंखें बंद रहती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और चेतना प्रायः लुप्त रहती है, नींद।	নিদ্রা, ঘুম, সুপ্তি	निद्रा, घुम, सुप्ति	sleep, slumber.
निद्रालु	वि.	जिसे बहुत नींद आ रही हो, उनींदा।	নিদ্রালু, যাহার ঘুম পাইয়াছে, নিদ্রাশীল	निद्रालु, जाहार घुम पाइयाछे, निद्राशील	sleepy, drowsy, slumberous, somnolent.
निद्रित	वि.	सोया हुआ, सुप्त।	নিদ্রিত, ঘুমন্ত, সুপ্ত	निद्रित, घुमन्त, सुप्त	asleep, slept, sleeping.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निधड़क	क्रि. वि.	बेधड़क, बेखटके।	নির্ভয়ে, বেধড়ক	निर्भये, बेधड़क	fearlessly, boldly, dauntlessly.
निधन	पुं.	मृत्यु, देहावसान।	নিধন, মৃত্যু, বিনাশ	निधन, मृत्यु, बिनाश	death, passing away.
निधान	पुं.	1. आश्रय, आधार;	নিধান, আশ্রয়;	निधान, आश्रय;	substratum;
		2. आधान, पात्र;	আধার, পাত্র;	आधार, पात्र;	receptacle, repository, abode, reservoir;
		3. निधि, भंडार।	নিধান, নিধি, ভান্ডার	निधान, निधि, भान्डार	treasure.
निधि	स्त्री.	1. खजाना, धनराशि;	নিধি, ধনাগার;	निधि, धनागार;	treasure;
		2. किसी विशेष कार्य के लिए अलग रखा या जमा किया हुआ धन;	তহবিল;	तहबिल;	fund;
		3. आश्रय-स्थान।	আধার	आधार	abode, receptacle, reservoir, repository.
निनाद	वि.	शब्द, विशेषत: उच्च या घोर शब्द।	নিনাদ, শব্দ, গর্জন	निनाद, शब्द, गर्जन	a loud sound, noise.
निन्यानवे (निनानवे)	वि.	जो गिनती में नब्बे से नौ अधिक हो।	নিরানব্বই	निरानब्बइ	ninety-nine.
	पुं.	निन्यानवे की सूचक संख्या।	(৯৯) এই সংখ্যা	(99) एइ संख्या	the number ninety-nine.
निपट	वि.	निरा, मात्र।	কেবল, মাত্র	केबल, मात्र	sheer, mere.
	क्रि. वि.	1. एकदम, बिलकुल, पूर्णतया;	একদম, সম্পূর্ণরূপে;	एकदम, सम्पूर्नरूपे;	quite, completely, absolutely;
		2. बहुत अधिक, नितांत।	নিপট, অধিক, অত্যন্ত, নিতান্ত	निपट, अधिक, अत्यन्त, नितान्त	very much, extremely, exceedingly.
निपटना (निबटना)	अ. क्रि.	1. पूरा होना, संपन्न होना;	সম্পূর্ণ হওয়া, সম্পন্ন হওয়া;	सम्पूर्न हओया, सम्पन्न हओया;	to be completed, to be finished, to be disposed of;
		2. फुरसत पाना, निवृत होना;	ফুরসৎ পাওয়া, নিবৃত্ত হওয়া;	फुरसत् पाओया, निवृत्त हओया;	to be relieved;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. विवाद आदि का निपटारा होना, तय होना;	বিবাদাদির নিষ্পত্তি হওয়া;	बिबादादिर निष्पत्ति हओया;	to be settled or decided;
		4. निपटारा करने के लिए किसी से जूझना या लड़ना;	হেস্তনেস্ত করার জন্য লড়াই করা;	हेस्तनेस्त करार जन्य लड़ाइ करा;	to settle score with, to face;
		5. ऋण आदि का चुकता होना।	ঋণ ইত্যাদি শোধ হওয়া	ऋन इत्यादि शोध हओया	to be repaid, to be settled (debt etc.).
निपटान	पु.	निपटाने की क्रिया, भाव या अवस्था।	সমাপ্তি, নিষ্পত্তি, মিটমাট, চুকা, চোকা	समाप्ति, निष्पत्ति, मिटमाट, चुका, चोका	disposal.
निपटाना (निबटाना)	स. क्रि.	1. कार्य आदि पूर्ण करना, संपादित या संपन्न करना;	সম্পূর্ণ করা, সম্পাদিত বা সম্পন্ন করা;	सम्पूर्न करा, सम्पादित बा सम्पन्न करा;	to complete, to finish, to dispose of;
		2. (झगड़ा आदि) खत्म करना, तय करना;	(ঝগড়া আদি) মিটানো;	(झगड़ा आदि) मिटानो;	to decide, to settle;
		3. ऋण, देन आदि चुकाना।	ঋণ আদি পরিশোধ করা, দেনা মিটানো	ऋन आदि परिशोध करा, देना मिटानो	to repay, to settle (debt etc.).
निपटारा (निबटारा)	पु.	1. निपटाने या निपटने की अवस्था, क्रिया या भाव;	মিটমাট করা, নিষ্পত্তি করা;	मिटमाट करा, निष्पत्ति करा;	disposal, finishing, etc.;
		2. निर्णय, फैसला;	নির্ণয়, ফয়সালা;	निर्नय, फयसाला;	decision;
		3. विवाद आदि का ऐसा अंत जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहें, समाधान;	বিবাদ মিটানো, মিটমাট হওয়া;	बिबाद मिटानो, मिटमाट हओया;	settlement (of a quarrel etc.), reconciliation;
		4. अंत, समाप्ति।	অন্ত, সমাপ্তি	अन्त, समाप्ति	conclusion, termination.
निपीड़न	पुं.	1. निचोड़ना;	নিপীড়ন, নিঙড়ান;	निपीड़न, निङ्ड़ान;	squeezing;
		2. दबाना, मलना-दलना।	নিপীড়ন, দলন, মর্দন	निपीड़न, दलन, मर्दन	pressing, compressing.
निपुण	वि.	प्रवीण, दक्ष, कुशल।	নিপুণ, পটু, দক্ষ, কুশল	निपुन, पटु, दक्ष, कुशल	clever, adroit, expert, skilful, dexterous.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निपुणता	स्त्री.	निपुण होने की अवस्था, गुण या भाव, दक्षता, प्रवीणता, कुशलता।	নিপুণতা, পটুতা, দক্ষতা, কুশলতা	निपुनता, पटुता, दक्षता, कुशलता	cleverness, adroitness, skilfulness, dexterity, expertness.
निपूता	वि. (पु.)	पुत्रहीन, नि:संतान (व्यक्ति)।	পুত্রহীন, অপুত্রক, নিঃসন্তান (ব্যক্তি) আঁটকুড়ে, আঁটকুড়া	पत्रहीन, अपुत्रक, नि:सन्तान. (व्यक्ति) आंटकुड़े, आंटकुड़ा	having no son, sonless, childless (man).
निपूती	वि. (स्त्री)	1. पुत्रहीन (स्त्री);	পুত্রহীনা, আঁটকুড়ী;	पुत्रहीना, आंटकुड़ी;	sonless, childless, issueless (woman);
		2. बाँझ, वंध्या (स्त्री.)।	বাঁঝা, বন্ধ্যা	वांझा, बन्ध्या	barren (woman).
निबंध	पुं.	वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो।	নিবন্ধ, প্রবন্ধ, রচনা	निबन्ध, प्रबन्ध. रचना	a kind of literary composition or treatise, an essay.
निबंधन	पुं.	1. बांधने की क्रिया या भाव;	নিবন্ধন, বন্ধন, গ্রন্থন;	निबन्धन, बन्धन, ग्रन्थन;	act of fastening, binding together;
		2. बंधन;	নিবন্ধন, পাশ;	निबन्धन, पाश;	link, connection;
		3. निबंध के रूप में लाने की क्रिया या भाव, व्यवस्थित लेखन।	নিবন্ধন, রচনা	निबन्धन, रचना	composing, writing.
निबद्ध	वि.	1. बंधा हुआ;	নিবদ্ধ, বদ্ধ;	निबद्ध, बद्ध;	bound, tied, joined or fastened together;
		2. गुंथा हुआ;	গ্রথিত;	ग्रथित;	intertwined;
		3. जड़ा हुआ;	খচিত;	खचित;	set or inlaid with;
		4. लिखित, रचित।	লিখিত, রচিত	लिखित, रचित	composed, written
निबाह	पुं.	1. निर्वाह, जीविका, जीवन-निर्वाह, भरणपोषण;	নির্বাহ, জীবিকা, জীবিকা-নির্বাহ, ভরণপোষণ;	निर्बाह, जीबिका, जीबिका-निर्बाह, भरनपोषन;	subsistence, maintenance, livelihood;
		2. कठिनता से, पर सहनशीलता-पूर्वक किया जानेवाला निर्वाह;	কষ্টেসৃষ্টে দিন চলা, কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ;	कष्टेसृष्टे दिन चला, काने रकमे जीबिका निर्बाह;	carrying on, pulling on;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. (प्रतिज्ञा आदि का) पालन, पूर्ति;	(প্রতিজ্ঞাদি) পালন বা পূরণ;	(प्रतिज्ञादि) पालन बा पूरन;	fulfilment, accomplishment;
		4. समायोजन, पटरी बैठना, सामंजस्य।	মিল, সামঞ্জস্য	मिल, सामंजस्य	accommodation, adjustment.
निबाहना	स. क्रि.	1. जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना;	জীবিকা নির্বাহ করা, দিন গুজরানো;	जीबिका निर्बाह करा, दिन गुजरानो;	to subsist, to sustain, to maintain, to support;
		2. कठिनता-पूर्वक गुजारा करना, किसी तरह निर्वाह करना;	কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করা, কোন রকমে চালান;	कष्टे सृष्टे जीबिका निर्बाह करा कोन रकमे चालान;	to carry on, to pull on;
		3. (प्रतिज्ञा आदि का) पालन करना, पूरा करना;	(প্রতিজ্ঞাদি) পূরণ করা, কথা রাখা;	(प्रतिज्ञादि) पूरन करा, कथा राखा;	to fulfil, to accomplish, to keep (promise etc.);
		4. पटरी बैठाना, समायोजन या सामंजस्य रखना।	মানাইয়া নেওয়া, খাপ খাওয়ানো	मानाइया नेओया, खाप खाओयानो	to accommodate, to adjust.
निबेड़ना	स. क्रि.	1. आपस में मिली हुई वस्तु को अलग करना, छाँटना;	বাছিয়া বাছিয়া পৃথক করা;	बाछिया बाछिया पृथक करा;	to pick, to separate by picking or selection;
		2. फँसी या लगी हुई वस्तु को अलग करना, सुलझाना, छुडाना;	পরস্পর সংলগ্ন বস্তু পৃথক করা;	परस्पर संलग्न बस्तु पृथक करा;	to separate, to disentangle, to unravel;
		3. (काम, झगड़ा आदि) निपटाना, सुलझाना;	মিটান, মিটমাট করা, কাজ চুকান;	मिटान, मिटमाट करा, काज चुकान;	to settle, to adjust, to decide;
		4. (दुख, संकट आदि) दूर करना, हटाना, निवारण करना, समाप्त करना।	দুঃখ সঙ্কটাদি দূর করা, নিবারণ করা	दु:ख, संकटादि दूर करा, निबारन करा	to put an end to, to remove, to prevent, to finish.
निबौली (निबौरी)	स्त्री.	नीम का फल।	নিমফল	निमफल	the fruit of the margosa (neem) tree.
निभना	अ. क्रि.	1. कार्य का किसी तरह पूरा होना, सम्पन्न होना;	কার্য সম্পূর্ণ হওয়া, কার্য সম্পন্ন হওয়া;	कार्ज सम्पूर्न हओया, कार्ज सम्पन्न हओया;	to be fulfilled, to be accomplished, to be performed or to be effected;
		2. परस्पर संबंध लगातार बनाए रहना;	পরস্পর সম্বন্ধ বজায় থাকা;	परस्पर सम्बन्ध बजाय थाका;	to last or continue mutual relations;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. गुजारा होना, जीवन निर्वाह होना;	গুজারান হওয়া, জীবিকা হওয়া;	गुजारान हओया, जीबिका हओया;	to subsist, to sustain;
		4. स्थिति या व्यक्ति के अनुरूप अपने को बनाए रहना या समय बिताते जाना।	খাপ খাওয়াইয়া চলা, মানাইয়া নেওয়া	खाप खाओयाइया चला, मानाइया नेओया	to be accommodated.
निभाना	स. क्रि.	1. उत्तरदायित्व, कार्य आदि का निर्वाह करना, पूरा करना, पालन करना;	কার্যাদি নির্বাহ করা, দায়িত্বপালন করা, পূর্ণ করা;	कार्जादि निर्बाह करा, दायित्व पालन करा, पूर्न करा;	to fulfil, to accomplish, to perform;
		2. थोड़ा-बहुत कष्ट सहते हुए ऐसा आचरण करना कि परस्पर संबंध बने रहें;	স্বীকার করিয়াও এমনভাবে চলা যাহাতে পরস্পর সম্বন্ধ বজায় থাকে;	स्वीकार करियाओ एमनभाबे चला जाहाते परस्पर सम्बन्ध बजाय थाके;	to continue mutual relation etc.;
		3. स्थिति के अनुरूप अपने को ढाल कर समय बिताना;	পরিস্থিতির সংগে নিজেকে খাপ-খাওয়াইয়া চলা;	परिस्थितिर सङ्गे निजेके खाप-खाओयाइया चला;	to accommodate, to adjust;
		4. जीवन का निर्वाह करना	জীবিকানির্বাহ করা;	जीबिकानिर्बाह करा;	to support, to maintain, to sustain, to subsist;
		5. किसी तरह कष्टपूर्वक जीवन चलाना।	কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করা	कायक्लेशे जीवन धारन करा	to carry on, to pull on, to manage.
निमंत्रण	पु.	किसी को किसी काम के लिए आदरपूर्वक बुलाने की क्रिया या भाव।	নিমন্ত্রণ, কোনো অনুষ্ঠানে সাদর আহ্বান	निमन्त्रन, कोनो अनुष्ठाने सादर आहबान	invitation.
निमंत्रण-पत्र	पु.	वह पत्र जिसमें यह लिखा रहता है कि आप अमुक समय पर हमारे यहां आने की कृपा करें।	নিমন্ত্রণপত্র, আহ্বানলিপি	निमन्त्रनपत्र, आहबानलिपि	invitation card; (letter of) invitation.
निमंत्रित	वि.	जिसे किसी काम के लिए निमंत्रण दिया गया हो या मिला हो।	নিমন্ত্রিত, আহূত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে	निमन्त्रित, आहूत, जाहाके निमन्त्रन करा हइयाछे	one who is invited.
निमग्न	वि.	1. कार्य, विचार आदि में पूर्णरूप से तन्मय, लीन, तल्लीन;	নিমগ্ন, নিবিষ্ট;	निमग्न, निबिष्ट;	absorbed, engrossed;
		2. (जल में) डूबा हुआ, मग्न।	যে বা যাহা ডুবিয়া আছে, সম্পূর্ণ নিমজ্জিত	जे बा जाहा डुबिया आछे, सम्पूर्न निमज्जित	submerged, immersed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निमज्जन	पु.	1. गोता लगाकर किया जानेवाला स्नान; 2. किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाने की क्रिया या भाव।	নিমজ্জন, অবগাহন; নিমজ্জন, ডুবানো, ডুবিয়া যাওয়া	निमज्जन, अबगाहन; निमज्जन, डुबानो, डुबिया जाओया	dip, plunge, diving bath; immersion, submersion.
निमज्जित	वि.	1. डूबा या डुबाया हुआ; 2. जो नहा चुका हो, विशेषतः गोता लगा कर नहाया हुआ।	নিমজ্জিত; যে অবগাহন করিয়াছে, যে ডুব দিয়া স্নান করিয়াছে	निमज्जित; जे अबगाहन करियाछे, जे डुब दिया स्नान करियाछे	submerged, immersed, sunken; bathed.
निमित्त	पु.	1. हेतु, कारण; 2. उद्देश्य; 3. मिस, बहाना; 4. वह कार्य या बात जिससे किसी दूसरे कार्य या बात का साधन होता है, साधक उपकरण, घटक; 5. नाममात्र के लिए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जबकि प्रेरक तत्व कोई और ही होता है।	নিমিত্ত, হেতু, কারণ; উদ্দেশ্য; ছুতা, বাহানা; যাহার দ্বারা কোনো কর্ম সাধিত হয়, সাধনদ্রব্য; নিমিত্তের ভাগী	निमित्त, हेतु, कारन; उद्देश्य; छुता, बाहाना; जाहार द्वारा कोनो कर्म साधित हय, साधनद्रब्य; निमित्तेर भागी	cause, reason; purpose, aim; any apparent cause, pretext; factor; instrument.
	अव्य	किसी काम या बात के उद्देश्य या विचार से, के वास्ते, के लिए।	জন্যে, উদ্দেশ্যে	जन्ये, उद्देश्ये	for the sake (of), for, on account (of).
निमिष	पु.	1. पलकों का गिरना या बंद होना, निमेष; 2. समय का उतना मान जितना एक बार पलक झपकने में लगता है, क्षण।	নিমিষ, নিমেষ, পলক, চোখের পাতা ফেলা; চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে	निमिष, निमेष, पलक, चोखेर पाता फेला; चोखेर पाता फेलिते जेटुकु समय लागे	shutting the eye, winking, twinkling of an eye, blink; twinkling of the eye as a measure of time, a moment.
निमीलन	पु.	1. आंखें बंद करना;	নিমীলন, মুদ্রিতকরণ, বোজা;	निमीलन, मुद्रितकरन, बोजा;	shutting the eyelids, winking, or closing the eye;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. मनुष्य की आँखें सदा के लिए बंद होना, मृत्यु;	মরণ;	मरन;	closing the eyes in death, death;
		3. बंद करना।	বন্ধ করা	बन्ध करा	closing, shutting.
निमीलित	वि.	1. बंद;	নিমীলিত, আবৃত;	निमीलित, आवृत;	shut, closed;
		2. झपकायी या झपकी हुई (आँख), बंद (आँख)।	মুদ্রিত	मुद्रित	twinkled, blinked, closed (eye).
निमेष	पु.	दे. 'निमिष'।	দ্রষ্টব্য 'নিমিষ'	द्रष्टव्य 'निमिष'	same as 'निमिष'.
निम्न	वि.	1. जो धरातल या स्तर से नीचा हो;	নিম্ন, নিচু, নীচু, নাবান, ঢালু;	निम्न, निचु, नीचु, नाबान, ढालु;	low, depressed;
		2. जो पद, स्थिति, श्रेणी आदि की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम ऊँचे स्तर पर हो, औरों से अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर रहने या होनेवाला, अवर;	নিম্নবর্তী, নিম্নপদস্থ;	निम्नवर्ती, निम्नपदस्थ;	lower;
		3. जिसमें तीव्रता, वेग, आदि साधारण से कम हो;	স্বাভাবিকের তুলনায় কম;	स्वाभाविकेर तुलनाय कम;	below normal, lower;
		4. तुच्छ, हीन;	নিম্ন, নিকৃষ্ট;	निम्न, निकृष्ट;	mean;
		5. निम्नलिखित, निम्नांकित, नीचे दिया हुआ।	নিম্নলিখিত	निम्नलिखित	following, given below.
निम्नलिखित	वि.	नीचे लिखा हुआ, नीचे दिया हुआ, निम्नांकित।	নিম্নলিখিত, যাহা নীচে লেখা আছে	निम्नलिखित, जाहा नीचे लेखा आछे	the following, mentioned below, undermentioned, noted below, given below.
निम्नांकित	वि.	दे. 'निम्नलिखित'।	দ্রষ্টব্য 'নিম্নলিখিত'	द्रष्टव्य 'निम्नलिखित'	same as 'निम्नलिखित'.
नियंता	पु.	1. नियंत्रण करने या रखनेवाला, वश में रखनेवाला;	নিয়ন্তা, যে নিয়ন্ত্রিত করে, নিয়ামক;	नियन्ता, जे नियंत्रित करे, नियामक;	controller, sustainer;
		2. प्रबंधक, शासक;	নিয়ন্তা, শাসক;	नियन्ता, शासक;	ruler, governor;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. घोड़े आदि को प्रशिक्षित करनेवाला, सुधानेवाला, चाबुकसवार।	যে ঘোড়া প্রভৃতিকে শিক্ষা দেয়	जे घोड़ा प्रभृतिके शिक्षा देय	tamer (esp. of horses).
नियंत्रक	पु.	नियंत्रण रखनेवाला।	নিয়ন্ত্রক	नियन्त्रक	controller.
नियंत्रण	पु.	1. किसी को मनमाने क्रियाकलाप आदि करने से रोकने के लिए उस पर कड़े बंधन लगाना, नियम आदि द्वारा रोकना या नियमित करना;	নিয়ন্ত্রন, নিয়মণ, সংযতকরণ;	नियन्त्रन, नियमन, संजतकरन;	check, restraint, restriction, control;
		2. व्यापारिक क्षेत्र में, शासन द्वारा किसी वस्तु के मूल्य और वितरण को नियमित और सुनिश्चित करना।	সরকার থেকে কোনো বস্তুর দর বাঁধিয়া জিনিষ বিতরণ সুনিশ্চিত করা, কন্ট্রোল	सरकार थेके कोनो बस्तुर दर बाँधिया जिनिष बितरन सुनिश्चित करा, कन्ट्रोल	checking the price and distribution of a commodity, control.
नियंत्रित	वि.	1. जिस पर नियंत्रण किया गया हो;	নিয়ন্ত্রিত, নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন;	नियन्त्रित, नियन्त्रन करा हइयाछे एमन;	controlled;
		2. जिसे नियम आदि में बांध कर सुव्यवस्थित किया गया हो;	নিয়মিত, সংযত;	नियमित, संजत;	restrained, checked, restricted, regulated;
		3. वश और अधिकार में रखा हुआ, अधिकार या वश में किया या लाया हुआ।	বশীকৃত, নিগৃহীত, দমিত	बशीकृत, निगृहीत, दमित	tamed, brought under control or rule, governed.
नियत	वि.	1. नियम विधान आदि के द्वारा स्थिर, निर्धारित, विहित;	নিয়ত, ব্যবস্থিত;	नियत, ब्यबस्थित;	prescribed;
		2. (व्यक्ति) जिसे किसी कार्य के लिए नियुक्त या मुकर्रर किया गया हो, काम पर लगाया हुआ;	নিযুক্ত;	निजुक्त;	posted, appointed;
		3. निश्चित, ठीक किया या ठहराया हुआ;	নিয়ত, নিশ্চিত, স্থির;	नियत, निश्चित, स्थिर;	fixed, decided settled;
		4. प्रदत्त, आबंटित।	প্রদত্ত	प्रदत्त	allotted.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नियतकालिक	वि.	निश्चित समय पर दुबारा होनेवाला, आवधिक, मियादी, आवर्ती।	নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঘটে এমন, মিয়াদী	निर्दिष्ट समय अन्तर अन्तर घटे एमन, मियादी	periodic, recurring at regular intervals.
नियति	स्त्री.	ईश्वर या प्रकृति का विधान जो पहले से नियत होता है, जिसके अनुसार संसार के सभी कार्य अवश्यंभावी रूप में स्वयमेव होते हैं, भाग्य, अदृष्ट, दैव, तकदीर।	নিয়তি, বিধাতার বিধান, ভাগ্য, অদৃষ্ট্য দৈব	नियति, बिधातार बिधान, भाग्य अदृष्ट, दैव	destiny, fate, luck, fortune (good or bad).
नियतिवाद	पु.	वह सिद्धांत जिसके अनुसार यह माना जाता है कि संसार के समग्र कार्यकलाप परंपरागत कारणों से अवश्यंभावी परिणाम के रूप में होते हैं तथा लौकिक कार्यों में मनुष्य का पुरुषार्थ गौण तथा ईश्वरेच्छा या प्राकृतिक विधान ही प्रबल होता है, नियति के अनुसार ही सब कार्य होते हैं—इस मान्यता से संबंधित सिद्धांत।	নিয়তিবাদ, নিমিত্তবাদ, সব ঘটনাই মানুষের ইচ্ছা-বহির্ভূত কোনো না কোনো নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত এই দার্শনিক মত	नियतिबाद, निमित्तवाद, सब घटनाइ मानुषेर इच्छा-बहिर्भूत कोनो ना कोनो निमित्त हइते उद्भूत एइ दार्शनिक मत	determinism.
नियतिवादी	वि.	नियतिवाद संबंधी।	নিয়তবাদী, নিয়তিবাদ সম্বন্ধী	नियतबादी, नियतिबाद सम्बन्धी	relating to determinism.
	पु.	नियतिवाद के सिद्धांत को माननेवाला या उसका अनुयायी।	যে ব্যক্তি নিয়তিবাদ মানেন বা অনুসরণ করেন	जे ब्यक्ति नियतिबाद मानेन बा अनुसरन करेन	determinist.
नियम	पु.	1. आचार-व्यवहार, रीति-नीति, आदि के संबंध में निश्चित की हुई बातें जिनका पालन करना आवश्यक हो;	নিয়ম, বিধান, ব্যবস্থা;	नियम, बिधान, ब्यबस्था;	rule;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. ऐसा निश्चित सिद्धांत जो परंपरा से चला आ रहा हो, परंपरा, दस्तूर, रिवाज;	নিয়ম, প্রথা, রেওয়াজ;	नियम, प्रथा, रेओयाज;	practice, usage;
		3. विधि, कानून;	বিধি, আইন;	बिधि, आइन;	law;
		4. कोई काम या बात नियमित रूप से या विशेष ढंग से करते रहने का क्रम;	ক্রম;	क्रम;	regularity;
		5. शर्त;	শর্ত;	शर्त;	condition, term;
		6. सिद्धांत, मत, उसूल।	সিদ্ধান্ত, মত	सिद्धान्त, मत	principle.
नियमतः	अव्य.	नियम के अनुसार।	নিয়ম অনুসারে	नियम अनुसारे	conforming to or in accordance with, a rule, regular.
नियमन	पुं.	1. ठीक तरह से काम चलाने के लिए कायदे-कानून बनाना, विनियमन;	নিয়মন, ব্যবস্থাপন;	नियमन, ब्यबस्थापन;	regulating, regulation;
		2. नियंत्रण, निग्रह;	নিয়ন্ত্রণ, নিগ্রহ;	नियन्त्रन, निग्रह;	control;
		3. नियम, बंधन आदि के द्वारा रोकना, निरोध।	সংযমন, বারণ	संजमन, बारन	restriction, limitation.
नियमबद्ध	वि.	1. नियम या नियमों में बंधा हुआ;	নিয়মবদ্ধ, নিয়মের দ্বারা বদ্ধ;	नियमबद्ध, नियमेर द्वारा बद्ध;	bound by rule or rules, regulated;
		2. जो किसी नियम के अनुसार होता आ रहा है, नियमित।	নিয়মানুযায়ী, নিয়মিত	नियमानुजायी, नियमित	regular.
नियमानुसार	क्रि. वि.	विनियम के अनुसार, नियमानुकूल।	নিয়মানুসারে, যথানিয়মে	नियमानुसारे, जथानियमे	conforming to or in accordance with a rule, regular.
नियमावली	स्त्री.	किसी संस्था आदि से संबंध रखनेवाले नियम या नियमों की विवरण-पुस्तिका।	নিয়মাবলী, নিয়মসমূহ	नियमाबली, नियमसमूह	rules, brochure of rules.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नियमित	वि.	1. नियमों के अनुसार स्थिर किया हुआ, नियमबद्ध, विनियमित;	নিয়মিত, নিয়মবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত;	नियमित, नियमबद्ध, नियन्त्रित;	bound by rules, regulated;
		2. जो सदा किसी नियम के रूप में होता आ रहा हो;	প্রত্যহ নির্দিষ্ট-ভাবে হয় এমন;	प्रत्यह निर्दिष्ट-भावे हय एमन;	regular;
		3. जो नियम, विधान आदि के अनुकूल हो;	নিয়মানুযায়ী, নিয়মিত, নিয়মানুগ;	नियमानुयायी, नियमित, नियमानुग;	conforming to or in accordance with a rule;
		4. जिसे सुचारु रूप दिया गया हो, व्यवस्थित।	নিয়মিত, ব্যবস্থিত	नियमित, व्यवस्थित	regularised.
नियामक	वि.	नियमों के क्षेत्र या बंधन में रखने या लानेवाला, नियमन करनेवाला;	নিয়ামক, নিয়ন্তা	नियामक, नियन्ता	regulating, regulative, regulator.
	पु.	नियंत्रित करनेवाला, नियंत्रक, शासक, व्यवस्थापक।	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, শাসক, ব্যবস্থাপক	नियन्त्रनकारी व्यक्ति, शासक, व्यवस्थापक	controller, ruler, manager.
नियामत (नेमत)	स्त्री.	1. अलभ्य या दुर्लभ पदार्थ, ऐसी बढ़िया चीज जो जल्दी न मिलती हो;	দুর্লভ পদার্থ, দুষ্প্রাপ্য বস্তু;	दुर्लभ पदार्थ, दुष्प्राप्य वस्तु;	rare gift;
		2. ईश्वर का दिया हुआ धन या वैभव, ईश्वर की अनुकंपा।	ঈশ্বরদত্ত ধন বা বৈভব, দৈব সম্পদ, ভগবৎকৃপা	ईश्वरदत्त धन वा वैभव, दैव सम्पद, भगवत्कृपा	divine blessing.
नियुक्त	वि.	1. किसी पद पर नियत किया हुआ;	নিযুক্ত, কৃতনিয়োগ, বহাল;	निजुक्त, कृतनियोग, बहाल;	appointed;
		2. किसी काम पर लगाया हुआ;	কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত, প্রবর্তিত;	कर्म सम्पादने नियोजित, प्रवर्त्तित;	employed;
		3. किसी स्थान पर या किसी कार्य विशेष के लिए तैनात किया हुआ;	বিশেষ কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে এমন;	विशेष काजे नियोग करा हइयाछे एमन;	posted, attached (to);
		4. ठहराया या निश्चित किया हुआ, स्थिर, निर्धारित।	স্থির, নির্ধারিত	स्थिर, निर्धारित	fixed, settled.
नियुक्ति	स्त्री.	1. किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियत या नियुक्त करने की क्रिया या भाव;	নিযুক্তি, নিয়োগ, বহাল করা;	निजुक्ति, नियोग, बहाल करा;	appointment;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी को किसी काम पर लगाने की क्रिया या भाव, नियोजन;	কাজে লাগাইয়া দেওয়া, নিয়োজন;	काजे लागाइया देओया, नियोजन;	employment, engagement;
		3. तैनाती।	তৈনাতী	तैनाती	posting.
नियोक्ता	पु.,वि.	1. नियोजक, मालिक; 2. नियुक्त करनेवाला, नियुक्ति प्राधिकारी।	নিয়োক্তা, নিয়োজক; নিয়োগকর্তা, নিয়োগকারী	नियोक्ता, नियोजक; नियोगकर्ता, नियोगकारी	employer, master; appointer, appointing authority.
नियोग	पु.	1. प्राचीन भारतीय आर्यों में प्रचलित एक प्रथा जिसके अनुसार किसी निःसन्तान विधवा को या पति के अक्षम होने पर उसकी पत्नी को अपने देवर या पति के सगोत्री किसी उपयुक्त व्यक्ति से संभोग कर संतान उत्पन्न करने की अनुमति थी;	নিয়োগ, বিধবায় বা অযোগ্যপতি সধবায় যথাবিধি পুত্রজননার্থ দেবরাদির প্রবর্তন;	नियोग, बिधबाय बा अजोग्यपति सधबाय जथाबिधि पुत्रजननार्थ देबरादिर प्रबर्तन;	a practice prevalent in ancient Aryans which permitted the wife of an impotent person or a childless widow to have intercourse with the brother or any near kinsman of her husband to raise up issue to him;
		2. आज्ञा, आदेश।	আজ্ঞা, আদেশ	आज्ञा, आदेश	order, command.
नियोजक	पु.	वह जो दूसरों को किसी काम पर लगाता हो।	নিয়োজক, নিয়োগকর্তা	नियोजक, नियोगकर्ता	employer.
नियोजन	पु.	1. नियोजित करने की क्रिया या भाव;	নিয়োজন, নিয়োগ;	नियोजन, नियोग;	employment;
		2. किसी निश्चित योजना के अनुसार काम करने की क्रिया या भाव, योजना बनाना।	পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, কোনো পরিকল্পনানুসারে কাজ করা	परिकल्पना प्रस्तुतकरन, कोनो परिकल्पनानुसारे काज करा	planning.
नियोजित	वि.	1. काम पर लगाया हुआ; 2. किसी योजना के अनुसार किया हुआ।	নিয়োজিত, নিযুক্ত; পরিকল্পনা অনুসারে কৃত	नियोजित, निजुक्त; परिकल्पना अनुसारे कृत	employed; planned.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निरंकुश	वि.	1. जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो;	নিরঙ্কুশ, বাধাহীন, অবাধ;	निरङ्कुश, बाधाहीन, अबाध;	uncontrolled, unfettered, unrestrained;
		2. स्वेच्छाचारी, मनमाना आचरण करनेवाला;	স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছচারী;	स्वेच्छाचारी, जथेच्छचारी;	unruly, self-willed, autocratic;
		3. मनमाना और अत्याचारपूर्ण शासन करनेवाला (शासक)।	স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী (শাসক)	स्वेच्छाचारी ओ अत्याचारी (शासक)	despotic.
निरंकुशता	स्त्री.	1. मनमाना और अत्याचार पूर्ण आचरण या व्यवहार, स्वेच्छाचारिता;	নিরঙ্কুশতা, স্বেচ্ছাচারিতা;	निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता;	arbitrariness, selfwilledness, unruliness;
		2. तानाशाही, निरंकुश शासन।	স্বৈরাচার, নিরঙ্কুশ, শাসন	स्वैराचार, निरङ्कुश शासन	despotism, absolutism.
निरंजन	पुं.	निर्गुण ब्रह्म जो माया या सांसारिक दोषों से परे है, परमात्मा।	নিরঞ্জন, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা	निरंजन; परब्रह्म, परमात्मा	an epithet of Supreme Being, God, (who is beyond the spell of Maya—the range of worldly flaws and defects).
	वि.	माया आदि के दोषों से रहित, विशुद्ध।	অজ্ঞানশূন্য উপাধিনিবর্তক	अज्ञानशून्य, उपाधिनिबर्तक	free from falsehood, free from attachment, pure.
निरंतर	वि.	जिसका क्रम बराबर चला गया हो, अंतर-रहित।	নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন, অবিরাম নিরবকাশ	निरन्तर, निरबछिन्न, अबिराम निरबकाश	continuous, perpetual, uninterrupted, incessant.
	क्रि. वि.	1. सदा, हमेशा;	নিরন্তর, সর্বদা হামেসা;	निरन्तर, सर्बदा, हामेसा;	always, ever;
		2. लगातार, बराबर।	অনবরত, বরাবর	अनबरत, बराबर	constantly, continually, incessantly, continuously.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निरक्षर	वि.	अनपढ़, जाहिल।	নিরক্ষর, বর্ণজ্ঞানহীন, মূর্খ;	निरक्षर, बर्नज्ञानहीन, मूर्ख;	not knowing the letters, illiterate, uneducated.
निरखना	स. क्रि.	1. ध्यानपूर्वक देखना; 2. निरीक्षण करने के लिए देखना।	নিরখা, নিরীক্ষণ করা; পর্যবেক্ষণ	निरखा, निरीक्षन करा; पर्जबेक्षन	to look at, to see, to observe, to view; to inspect, to scan, to examine closely.
निरत	वि.	1. किसी काम में लगा हुआ; 2. लीन, रत, तल्लीन।	নিরত, নিযুক্ত; একান্তরত	निरत, निजुक्त; एकान्तरत	engaged; absorbed, engrossed.
निरपराध	वि.	जिसने कोई अपराध न किया हो, निर्दोष।	নিরপরাধ, অপরাধ-শূন্য, নির্দোষ	निरपराध, अपराध शुन्य, निर्दोष	guiltless, innocent, faultless.
	क्रि. वि.	बिना किसी अपराध के।	বিনা দোষে	बिना दोषे	without (doing) any fault or guilt.
निरपवाद	वि.	1. बिना अपवाद का, अपवादरहित;	অপবাদহীন, অপবাদরহিত;	अपबादहीन, अपबादरहित;	not admitting of any exception, without exception;
		2. निर्दोष, निरपराध।	নির্দোষ, নিরপরাধ	निर्दोष, निरपराध	guiltless, faultless, blameless.
निरपेक्ष	वि.	1. जो किसी के अवलंब, आधार या आश्रय पर न हो;	নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন;	निरपेक्ष, स्बतंत्र, स्बाधीन;	absolute, independent;
		2. तटस्थ;	পক্ষপাতহীন;	पक्षपातहीन;	neutral;
		3. उदासीन;	উদাসীন;	उदासीन;	indifferent;
		4. जिसे किसी की चिंता या परवाह न हो;	কোনো কিছু চিন্তাভাবনা নাই;	कोनो किछु चिन्ताभाबना नाइ;	unconcerned, careless, negligent;
		5. जिसे किसी से किसी चीज की अपेक्षा न हो।	বিগতস্পৃহ, বীতরাগ	बिगतस्पृह, बीतराग	without expectation, disinterested.
निरभिमान	वि.	जिसे अभिमान या घमंड न हो।	নিরভিমান, নিরহংকার	निरभिमान, निरहंकार	free from conceit devoid of pride.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निरर्थक	वि.	1. (पद या शब्द) जिसका कोई अर्थ न हो;	নিরর্থক, অর্থহীন;	निरर्थक, अर्थहीन;	unmeaning, meaningless, non-sensical, conveying no reasonable meaning;
		2. व्यर्थ, निष्फल।	ব্যর্থ, নিষ্ফল	व्यर्थ, निष्फल	useless, vain, unprofitable.
	क्रि. वि.	बेकार में, बिना प्रयोजन के।	বৃথা	बृथा	in vain.
निरवलंब	वि.	जिसका कोई आश्रय या सहारा न हो, बेसहारा।	নিরবলম্ব, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, অবলম্বনশূন্য	निरबलम्ब, निराश्रय, निःसहाय, अबलम्बनशून्य	unsupported, without support, helpless.
निरसन	पु.	पहले के निश्चय, आज्ञा, अधिनियम आदि को साधिकार रद्द करना, मंसूखी।	নিরসন, প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ	निरसन, प्रत्याख्यान, निराकरन	cancellation, repeal, rescission.
निरस्त	वि.	जिसका निरसन हुआ हो।	নিরস্ত, নিরাকৃত	निरस्त, निराकृत	cancelled, repealed, rescinded.
निरस्त्र	वि.	1. जिसके पास अस्त्र न हो, अस्त्ररहित; 2. जिससे अस्त्र छीन या ले लिया गया हो।	নিরস্ত্র, অস্ত্রহীন; কৃতাস্ত্রহীন, যাহাকে অস্ত্রহীন করা হইয়াছে	निरस्त्र, अस्त्रहीन; कृतास्त्रहीन, जाहाके अस्त्रहीन करा हइयाछे	weaponless, unarmed; disarmed.
निरस्त्रीकरण	पु.	1. अस्त्रों से रहित करना; 2. आधुनिक राजनीति में, परस्पर युद्ध की संभावना कम करने के लिए देश का सैनिक बल कम करना।	নিরস্ত্রীকরণ; যুদ্ধ সম্ভারাদি হ্রাস করণ	निरस्त्रीकरन; जुद्ध सम्भारादि ह्रास करन	act of disarming; reduction of military power, disarmament.
निरा	वि.	1. विशुद्ध, अमिश्र; 2. पूरा; 3. केवल, सिर्फ, एकमात्र;	বিশুদ্ধ, অমিশ্র; পুরা, গোটা; কেবল, সেরেফ;	बिशुद्ध, अमिश्र; पुरा, गोटा; केबल, सेरेफ;	pure, unalloyed; entire, complete; only;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. (व्यक्ति) जिसमें कोई एक ही गुण या अवगुण हो, मात्र।	মাত্র	मात्र	mere.
निराई	स्त्री.	1. निराने की क्रिया या भाव; 2. निराने की मजदूरी।	নিড়ানো; নিড়ানোর মজুরী	निड़ानो; निड़ानोर मजुरी	act of weeding; wages paid for weeding.
निराकरण	पु.	1. उठाये हुए प्रश्न, आपत्ति आदि का तर्कपूर्वक खंडन, निवारण या परिहार करना; 2. अलग करना, हटाना, दूर करना; 3. अस्वीकृत करना, रद्द करना, निरस्त करना।	নিরাকরণ, নিরসন, খন্ডন, নিবারণ; দূরীকরণ; প্রতিষেধ, প্রত্যাখান	निराकरन, निरसन, खन्डन, निबारन; दूरीकरन; प्रतिषेध, प्रत्याखान	refutation, repudiating, contradicting, denying; removal, dispelling; cancellation, abrogation.
निराकार	वि.	जिसका कोई आकार न हो, आकार रहित, अमूर्त।	নিরাকার, আকারহীন, মূর্তিহীন	निराकार, आकारहीन, मूर्तिहीन	formless, shapeless, incorporeal.
	पु.	ब्रह्म ।	পরব্রহ্ম	परब्रह्म	the formless (God), the universal spirit, Almighty, Brahman.
निराकृत	वि.	1. जिसका निराकरण हो चुका हो, अस्वीकृत, निरस्त, रद्द किया हुआ; 2. जिसका खंडन हो चुका हो; 3. दूर किया हुआ, अलग किया हुआ।	নিরাকৃত, নিরাকরণ করা হইয়াছে এমন; খন্ডিত; দূরীকৃত	निराकृत, निराकरन करा हइयाछे एमन; खन्डित; दूरीकृत	cancelled, abrogated; removed, dispelled; refuted, repudiated contradicted, denied.
निराकृति	स्त्री.	1. दे. 'निराकरण'; 2. आकृतिरहित, निराकार।	দ্রষ্টব্য 'নিরাকরণ'; আকৃতিরহিত, নিরাকার	द्रष्टब्य 'निराकरण'; आकृतिरहित, निराकार	see 'निराकरण'; formless, shapeless.
निरादर	पु.	अपमान।	অপমান	अपमान	disrespect, dishonour.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निराधार	वि.	1. प्रमाणरहित, अमान्य, झूठा;	প্রমাণরহিত, মিথ্যা;	प्रमानरहित, मिथ्या;	without proof, false, hollow, baseless;
		2. जिसकी कोई जड़ या बुनियाद न हो, निर्मूल;	নিরাধার, আধারহীন;	निराधार, आधारहीन;	groundless, baseless, unfounded;
		3. जिसका कोई आधार या अवलंब न हो, आधार रहित।	অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন	अवलम्बनहीन, आश्रयहीन	without support or prop.
निराना	स. क्रि.	फसल को हानि पहुंचाने वाले निरर्थक पौधों तथा वनस्पतियों को खोदकर निकालना।	নিড়ানো	निड़ानो.	to weed.
निरापद	वि.	1. जिसके लिए कोई संकट न हो, सुरक्षित; 2. जिसमें कोई संकट न हो, या जिससे किसी प्रकार के संकट की संभावना न हो।	নিরাপদ, নির্বিঘ্ন; আপদহীন, বিপদমুক্ত	निरापद, निर्बिघ्न; आपदहीन, बिपदमुक्त	secure, safe, protected; without calamity, without trouble.
	क्रि. वि.	बिना किसी आपत्ति या संकट के।	নির্বিঘ্নে	निर्बिघ्ने	without any trouble.
निरामिष	वि.	जिसमें मांस न मिला हो, आमिषरहित (खाद्यपदार्थ)।	নিরামিষ, মাংসাদিখাদ্যহীন	निरामिष, मांसादिखाद्यहीन	without meat, fleshless, vegetarian.
निरामिष भोजी	वि.	जो मांस न खाता हो, शाकाहारी।	নিরামিষভোজী নিরামিষাশী	निरामिषभोजी, निरामिषाशी	who does not eat meat, vegetarian.
निरालंब	वि.	1. जिसका कोई आश्रय या सहारा न हो;	নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়;	निरालम्ब, निराश्रय, निःसहाय;	helpless, having no shelter or support, destitute;
		2. आधारहीन।	আধারহীন	आधारहीन	baseless.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निराला	वि.	विलक्षण, सब से भिन्न, अनोखा, अनूठा।	অনুপম, অপূর্ব, অতিসুন্দর	अनुपम, अपूर्व, अतिसुन्दर	strange, unique, uncommon, extraordinary, peculiar, curious, odd.
निरालोक	वि.	प्रकाशरहित, अंधकारपूर्ण, अंधेरा।	নিরালোক, অন্ধকার	निरालोक, अन्धकार	deprived of light, dark.
निरावरण	वि., पु.	1. आवरण रहित, खुला हुआ;	নিরাবরণ, আবরণশূন্য, উন্মুক্ত;	निराबरन, आबरनशून्य, उन्मुक्त;	without covering, uncovered, unveiled, open, exposed;
		2. आवरण या परदा हटाने की क्रिया या भाव, अनावरण।	আবরণশূন্যকরণ	आबरनशून्यकरन	act of unveiling, exposure, uncovering.
निराश	वि.	जिसे आशा न रह गई हो, जिसकी आशा नष्ट हो गई हो, हताश।	নিরাশ, আশাশূন্য, হতাশ	निराश, आशाशून्य, हताश	without hope, hopeless, despairing, disappointed, desperate, frustrated.
निराशा	स्त्री.	निराश होने की अवस्था या भाव, कुंठा।	নিরাশা, আশাহীনতা, নৈরাশ্য, হতাশা	निराशा, आशाहीनता, नैराश्य, हताशा	hopelessness, despair, frustration, disappointment.
निराशावाद	पु.	वह सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है कि संसार दुःखमय है और इसलिए अच्छी बातों की ओर से मनुष्य को किसी अच्छाई की आशा नहीं करनी चाहिए।	নৈরাশ্যবাদ, দুঃখবাদ	नैराश्यबाद, दुःखबाद	pessimism.
निराशावादी	पु.	वह जो निराशावाद के सिद्धांत को ठीक मानता हो, निराशावाद को माननेवाला।	নৈরাশ্যবাদী, দুঃখবাদী	नैराश्यबादी, दुःखबादी	pessimist.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	वि.	निराशावाद-संबंधी।	দুঃখবাদসম্বন্ধী	दुःखवादसम्बन्धी	pessimistic.
निराश्रय	वि.	जिसका कोई आश्रय या सहारा न हो, असहाय, निरवलंब।	নিরাশ্রয়, আশ্রয়হীন, সহায়হীন	निराश्रय, आश्रयहीन, सहायहीन	without shelter or refuge, destitute, helpless.
निराहार	पु.	कुछ न खाने-पीने अर्थात् भूखे रहने की अवस्था या भाव, उपवास, अनशन।	নিরাহার, অনাহার, অনশন, উপবাস	निराहार, अनाहार, अनशन, उपवास	fast.
	वि.	1. जिसने भोजन न किया हो, भूखा;	উপবাসী, অনাহারী;	उपवासी, अनाहारी;	one who has not taken his food, fasting, abstaining from food;
		2. (व्रत आदि) जिसके अनुष्ठान में भोजन न करने का विधान हो।	আহারবর্জিত (ব্রতাদি)	आहारवर्जित (व्रतादि)	foodless.
	क्रि.वि.	भूखे रह कर।	অনাহারে	अनाहारे	without food.
निरीक्षक	पु.	1. वह अधिकारी जो किसी काम का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हो, निरीक्षण करनेवाला अधिकारी;	পরিদর্শক;	परिदर्शक;	inspector;
		2. परीक्षा में छात्रों पर निगरानी रखनेवाला अधिकारी।	পরীক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, পরীক্ষাতদারককারী	परीक्षातत्त्वावधायक, परीक्षातदारककारी	invigilator.
निरीक्षण	पु.	1. यह देखना कि सब काम ठीक तरह से हुए हैं या नहीं अथवा सब बातें ठीक हैं या नहीं;	নিরীক্ষণ, পরিদর্শন;	निरीक्षण, परिदर्शन;	inspection;
		2. परीक्षा में छात्रों पर रखी जाने वाली निगरानी;	পরীক্ষাতত্ত্বাবধান, পরীক্ষাতদারক;	परीक्षातत्त्वावधान, परीक्षातदारक;	invigilation;
		3. देखना, दर्शन।	নিরীক্ষণ, মনোযোগ সহিত দর্শন	निरीक्षण, मनोयोग सहित दर्शन	looking at, seeing, beholding, observation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निरीक्षित	वि.	1. ज़िसका निरीक्षण हुआ हो;	নিরীক্ষিত;	निरीक्षत;	inspected, invigilated;
		2. देखा हुआ।	দৃষ্ট	दृष्ट	looked at, beheld observed.
निरीश्वर	वि.	वह व्यक्ति या सिद्धांत जो ईश्वर के अस्तित्व को न मानता हो, नास्तिक।	নিরীশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী	निरीश्बर, ईश्बरेर अस्तित्ब अस्बीकारकारी	Godless, atheistic
निरीश्वरवाद	पु.	ईश्वर का अस्तित्व न माननेवाला सिद्धांत।	নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ	निरीश्बरबाद, नास्तिक्यबाद	atheistic doctrine. atheism.
निरीश्वरवादी	पु., वि.	1. निरीश्वरवाद का अनुयायी;	নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক, নাস্তিক্যবাদী	निरीश्बरबादी, नास्तिक, नास्तिक्यबादी	holding atheistic doctrine, an atheist;
		2. निरीश्वरवाद-संबंधी।	নাস্তিক্যবাদী	नास्तिक्यबादी	atheistic.
निरीह	वि.	1. जिसे किसी तरह की इच्छा न हो, इच्छा रहित;	নিরীহ, স্পৃহাহীন;	निरीह, स्पृहाहीन;	desireless, indifferent;
		2. सीधासादा, बेचारा, निर्दोष।	গোবেচারা	गोबेचारा	simple, innocent, harmless.
निरुत्तर	वि.	1. उत्तर देने में असमर्थ;	নিরুত্তর, উত্তরহীন;	निरुत्तर, उत्तरहीन;	unable to answer back;
		2. जो किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण मौन हो गया हो।	নির্বাক্, নীরব	निर्बाक्, नीरब	answerless, without a reply, silenced, rendered wordless.
निरुत्साह	वि.	जिसमें उत्साह न रह गया हो, उत्साहहीन।	নিরুৎসাহ, উৎসাহরহীত, উৎসাহহীন	निरुत्साह, उत्साहरहित, उत्साहहीन	lacking spirit or courage, without enthusiasm.
	पु.	उत्साह का न होना, उत्साहहीनता।	নিরুৎসাহ, উৎসাহহীনতা	निरुत्साह, उत्साहहीनता	lack of enthusiasm spiritlessness.
निरुत्साहित	वि.	जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो या नष्ट कर दिया गया हो।	নিরুৎসাহিত, যাহার উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে	निरुत्साहित, जाहार उत्साह नष्ट हइया गियाछे	discouraged, demoralised, disheartened.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निरुद्देश्य	वि.	जिसका कोई उद्देश्य न हो।	নিরুদ্দেশ, উদ্দেশ্যহীন	निरुद्देश, उद्देश्यहीन	aimless.
	क्रि.वि.	बिना किसी उद्देश्य के, यों ही।	উদ্দেশ্যহীনভাবে	उद्देश्यहीनभावे	aimlessly.
निरुद्ध	वि.	रुका या रोका हुआ।	নিরুদ্ধ, অবরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত	निरुद्ध, अबरुद्ध, बाधाप्राप्त	obstructed, hindered, checked, restrained, curbed.
निरुद्यमी	वि.	जो कोई उद्यम या प्रयत्न न करता हो, फलतः आलसी, कामचोर, अकर्मण्य।	নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট	निरुद्यम, निश्चेष्ट	effortless, inactive, lazy, idle, non-industrious.
निरुद्योग	वि.	1. जो उद्योग या प्रयत्न न करता हो;	নিরুদ্যোগ, উদ্যোগহীন, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট;	निरुद्योग, उद्योगहीन, उद्यमहीन, निश्चेष्ट;	effortless, inactive, lazy, idle, non-industrious;
		2. जिसके पास कोई काम न हो।	বেকার	बेकार	having no work, without work or employment.
निरुद्वेग	वि.	उद्वेगरहित, उत्तेजना और क्षोभ से रहित, धीर और शांत।	নিরুদ্বেগ, উদ্বেগহীন, ধীর, শান্ত	निरुद्वेग, उद्वेगहीन, धीर, शान्त	free from excitement or perturbation, sedate, calm.
निरुपम	वि.	जिसकी कोई उपमा न हो, बढ़िया और बेजोड़।	নিরুপম, উপমাহীন, অতুলনীয়, অনুপম	निरुपम, उपमाहीन, अतुलनीय, अनुपम	peerless, matchless, incomparable.
निरुपयोगी	वि.	(पदार्थ) जिसका कोई उपयोग न हो, उपयोग के अयोग्य, निकम्मा।	অকেজো, অব্যবহার্য	अकेजो, अव्यबहार्ज	useless, unserviceable, worthless.
निरुपाधि	वि.	उपाधि रहित, निर्विशेष, निरपेक्ष।	নিরুপাধি, উপাধিরহিত নির্গুণ	निरुपाधि, उपाधिरहित, निर्गुन	without attributes or qualities, absolute, unconditional, categorical.
निरुपाय	वि.	1. जो कुछ उपाय न कर सके, असहाय;	নিরুপায়, উপায়হীন, সহায়হীন;	निरुपाय, उपायहीन, सहायहीन;	without expedients, helpless;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जिसका कुछ उपाय न हो।	প্রতিকারহীন	प्रतिकारहीन	irremediable, remediless, irretrievable.
	क्रिवि.	उपाय न रहने की दशा में, लाचारी की हालत में।	নিরুপায় হইয়া, দায়ে পড়িয়া	निरुपाय हइया दाये पड़िया	in the state of helplessness.
निरूपक	वि.	किसी बात का निरूपण करनेवाला।	নিরূপক, নিরূপণকারী, নির্দ্ধারক	निरूपक, निरूपनकारी, निर्द्धारक	representing, explaining, determining, demonstrating, characterising.
	पु.	वह (व्यक्ति) जो निरूपण करता हो।	নিরূপনকারী ব্যক্তি	निरूपनकारी व्यक्ति	one who represents, explains etc.
निरूपण	पुं.	1. सोच-विचार कर किसी बात या विषय का विवेचन करना;	নিরূপণ, নির্দ্ধারণ, নির্ণয়;	निरूपन, निर्द्धारन, निर्नय;	critical appreciation, evaluation;
		2. अपना मत दूसरों को समझाते हुए उनके सम्मुख रखना, प्रस्तुतीकरण, वर्णन, चित्रण;	অন্যের নিকট নিজের মত ব্যাখ্যাকরণ, বর্ণন, চিত্রণ;	अन्येर निकट निजेर मत व्याख्याकरन, बर्नन, चित्रन;	representation, explanation, characterisation, portrayal;
		3. निदर्शन।	নিরূপণ, নিদর্শন	निरूपन, निदर्शन	demonstration.
निरूपित	वि.	जिसका निरूपण हो चुका हो।	নিরূপিত, নিরূপণ করা হইয়াছে এমন	निरूपित, निरूपन करा हइयाछे एमन	represented, explained, evaluated, investigated, determined, demonstrated.
निरोध	पु.	1. रोकने की अवस्था, क्रिया या भाव, नियंत्रण;	নিরোধ, প্রতিবন্ধ, নিয়ন্ত্রণ;	निरोध, प्रतिबन्ध, नियन्त्रन;	restraining, restraint, check, control;
		2. रुकावट, रोक, अवरोध;	অবরোধ, বাধাদান;	अबरोध, बाधादान;	hindrance, obstruction;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. किसी उपद्रवी या संदिग्ध व्यक्ति को उसे उपद्रव करने से रोकने के लिए किसी घिरे हुए स्थान में शासन द्वारा रोक रखने की क्रिया या भाव, नजरबंदी।	নজরবন্দীকরণ	नजरबन्दीकरण	detention.
निरोधक	वि.	1. निरोध करने या रोकनेवाला, निवारक;	নিরোধক, নিরোধকারী;	निरोधक, निरोधकारी;	restraining, controlling, preventing, detaining;
		2. रुकावट उत्पन्न करनेवाला, बाधक।	প্রতিবন্ধক	प्रतिबन्धक	obstructing, hindering.
निर्ख	पु.	भाव, दर।	নিরিখ, দর, হার	निरिख, दर, हार	rate, quotation.
निर्गंध	वि.	गंधहीन।	নির্গন্ধ, গন্ধহীন	निर्गन्ध, गन्धहीन	void of smell or scent, scentless, inodorous, unfragrant.
निर्गत	वि.	1. बाहर निकला हुआ;	নির্গত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত;	निर्गत, निष्क्रान्त, निःसृत;	gone out, gone forth, issued;
		2. बाहर आया हुआ;	বহির্গত, বহির্ভূত, আবির্ভূত;	बहिर्गत, बहिर्भूत, आविर्भूत;	come forth, come out, appeared;
		3. दूर गया हुआ;	নির্গত, প্রস্থিত, প্রয়াত;	निर्गत, प्रस्थित, प्रयात;	gone away, departed;
		4. हटाया हुआ।	অপসারিত	अपसारित	removed.
निर्गम	पु.	1. बाहर निकलने की अवस्था, क्रिया या भाव;	নির্গম, নিষ্ক্রম, বহির্গমন, নিঃসরণ; নির্গমনপথ,	निर्गम, निष्क्रम, बहिर्गमन निःसरण; निर्गमनपथ,	going forth or out, going away;
		2. वह द्वार या मार्ग जिससे कोई चीज बाहर निकलती हो, निकास;	দ্বার;	द्वार;	door, outlet, exit;
		3. कारखाने या दूकान आदि से माल का बाहर आना और बिकना, निकासी;	কারখানা বা দোকানাদি থেকে মাল বাহির হওয়া;	कारखाना वा दोकानादि थेके माल बाहिर हओया;	clearance;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. आदेश आदि का जारी होना।	আদেশাদি জারি	आदेशादि जारि	issue.
निर्गमन	पु.	1. बाहर निकलने की क्रिया या भाव;	নির্গমন,বহির্গমন, নিষ্ক্রমণ;	निर्गमन, बहिर्गमन, निष्क्रमन;	going out or forth departure;
		2. वह द्वार या मार्ग जिससे होकर कुछ या कोई बाहर निकले, निकास।	নির্গমনপথ, দ্বার	निर्गमनपथ, द्वार	door, exit, outlet.
निर्गुण	वि.	जिसमें कोई गुण (सत्व, रज या तम) न हो।	নির্গুণ, গুণহীন, সত্ত্বাদিগুণরহিত	निर्गुन, गुनहीन, सत्त्वादिगुनरहित	devoid of all properties, without attributes.
	पु.	परमात्मा का वह रूप जो सत्व, रज और तम इन तीनों प्रकार के गुणों से रहित है, निर्गुण ब्रह्म।	পরমাত্মা, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম	परामात्मा, त्रिगुनातीत ब्रह्म	the Supreme Being beyond the attributes of any kind.
निर्गुणता	स्त्री.	1. निर्गुण अर्थात् तीनों गुणों से रहित होने की अवस्था या भाव;	নির্গুণতা, গুণহীনতা ত্রিগুণরাহিত্য;	निर्गुनता, गुनहीनता, त्रिगुनराहित्य;	absence of qualities, want of properties or attributes;
		2. तीनों गुणों (सत्व, रज और तम) से मुक्त होने की अवस्था या भाव।	নির্গুণতা, ত্রিগুণাতীততা	निर्गुनता, त्रिगुनातीतता	freedom from all qualities or attributes.
निर्गुणी	वि.	जिसमें कोई गुण या खूबी न हो।	নির্গুণী, সদ্গুণহীন	निर्गुनी, सद्गुनहीन	devoid of good qualities or virtues.
निर्घोष	वि.	जिसमें शब्द न हो या न होता हो, घोषरहित।	নির্ঘোষ, ঘোষহীন, নিঃশব্দ	निर्घोष, घोषहीन, निःशब्द	noiseless, soundless.
	पु.	1. घोर शब्द;	প্রচন্ড আওয়াজ, উচ্চ নিনাদ;	प्रचन्ड आओयाज, उच्च निनाद;	loud noise or sound;
		2. शब्द, आवाज।	শব্দমাত্র	शब्दमात्र	a sound in general noise.
निर्जन	वि.	1. जहां कोई मनुष्य न हो, एकांत (स्थान);	নির্জন, জনহীন, বিজন;	निर्जन, जनहीन, बिजन;	solitude, lonely (place);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उजड़ा हुआ और गैर-आबाद (प्रदेश)।	জনশূন্য (প্রদেশ)	जनशून्य (प्रदेश)	unpeopled, uninhabited, unfrequented, deserted, desolate (land or place).
निर्जल	वि.	1. जल-रहित;	জলহীন;	जलहीन;	without water, waterless;
		2. (क्रिया या प्रयोग) जिसमें जल की अपेक्षा न होती हो;	নীরস, শুষ্ক;	नीरस, शुष्क;	dry;
		3. (व्रत आदि) जिसमें जल तक पीना निषिद्ध हो।	নিরম্বু	निरम्बु	(fast etc.) in which even drinking of water is prohibited.
निर्जीव	वि.	1. प्राण या जीवन-रहित, जड़, अचेतन;	নির্জীব, প্রাণহীন;	निर्जीब, प्रानहीन;	inanimate, lifeless;
		2. मरा हुआ, मृत;	মৃত;	मृत;	dead;
		3. उत्साहहीन, ओज-रहित।	একান্ত অবসন্ন, উৎসাহহীন	एकान्त अबसन्न, उत्साहहीन	spiritless, without vigour.
निर्झर	पु.	झरना, जलप्रपात।	নির্ঝর, ঝরণা, উৎস	निर्झर, झरना, उत्स	waterfall, cataract, cascade.
निर्झरिणी	स्त्री.	झरने से निकलने वाली नदी।	নির্ঝরিণী, নদী	निर्झरिनी, नदी	stream, rivulet.
निर्णय	पु.	1. पक्ष-विपक्ष की बातों पर विचार कर स्थिर या प्रकट किया गया मत या निष्कर्ष, फैसला;	নির্ণয়, নির্ধারণ, অবধারণ;	निर्नय, निर्द्धारन, अबधारन;	verdict, judgement, decision, sentence;
		2. निश्चय, संकल्प;	নিশ্চয়;	निश्चय;	determination;
		3. निपटारा;	বিচার;	बिचार;	settlement;
		4. किसी बात या विषय पर विचार करके स्थिर किया हुआ मत, निष्कर्ष।	সিদ্ধান্ত	सिद्धान्त	conclusion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्णयात्मक	वि.	1. (घटना या बात) जिससे किसी विवादास्पद बात का निर्णय होता हो, निर्णायक;	নির্ণয়াত্মক, নির্ণায়ক, নির্ণয়কর;	निर्नयात्मक, निर्नायक, निर्नयकर;	decisive, deciding;
		2. निर्णय के रूप में होनेवाला, समापक, अंतिम।	সমাপ্তিকর, অন্তিম	समाप्तिकर, अन्तिम	final, conclusive, concluding.
निर्णायक	वि.	1. (घटना या बात) जिससे किसी झगड़े या बात का निर्णय होता है;	নির্ণায়ক, নির্ণয়কর;	निर्नायक, निर्नयकर;	decisive, deciding;
		2. अंतिम, समापक।	নির্ণায়ক, সিদ্ধান্তকর	निर्नायक, सिद्धान्तकर	concluding, conclusive:
	पु.	1. वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के विवाद का निर्णय करता हो;	বিচারক, নির্ণয়কারী ব্যক্তি;	बिचारक, निर्नयकारी ब्यक्ति;	judge;
		2. वह व्यक्ति जो खिलाड़ियों को खेल के नियमों के अनुसार खिलाता है और जिसका निर्णय अंतिम होता है।	রেফারী	रेफारी	umpire, referee.
निर्णीत	वि.	1. (विवाद) जिसके संबंध में निर्णय हो चुका हो, जिसका फैसला सुना दिया गया हो;	নির্ণীত, নির্ণয় করা হইয়াছে এমন;	निर्नीत, निर्नय करा हइयाछे एमन;	judged, decided, sentenced;
		2. निपटाया हुआ;	যাহা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে;	जाहा मिटाइया देओया हइयाछे;	settled, disposed of, decided;
		3. समाप्त, सम्पन्न।	স্থিরীকৃত, সিদ্ধান্তিত	स्थिरीकृत, सिद्धान्तित	brought to a conclusion, concluded.
निर्दय	वि.	दयाहीन, निष्ठुर, कठोर (कार्य या व्यक्ति)।	নির্দয়, দয়াহীন, নিষ্ঠুর	निर्दय, दयाहीन, निष्ठुर	pitiless, merciless, hard-hearted, heartless, unkind, ruthless, cruel (act or person).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्दयता	स्त्री.	निर्दय होने की अवस्था या भाव, कठोरता, निष्ठुरता।	নির্দয়তা, দয়াহীনতা, নিষ্ঠুরতা	निर्दयता, दयाहीनता, निष्ठुरता	pitilessness, unmercifulness, hard-heartedness, heartlessness, ruthlessness, cruelty.
निर्दयी	वि.	दे. 'निर्दय'।	দ্রষ্টব্য 'নির্দয়'	द्रष्टव्य 'निर्दय'	same as 'निर्दय'.
निर्दल	वि.	1. जिसमें दल या पत्ते न हों, दलरहित;	নির্দল, নিষ্পত্র;	निर्दल, निष्पत्र;	without leaves;
		2. दे. 'निर्दलीय'।	দ্রষ্টব্য 'নির্দলীয়'	द्रष्टव्य 'निर्दलीय'	same as 'निर्दलीय'
निर्दलीय	वि.	(सदस्य) जो किसी दल (पक्ष या वर्ग) में न हो, सब दलों से अलग, स्वतंत्र।	নির্দলীয়, কোনো দলভুক্ত নহে এমন, স্বতন্ত্র	निर्दलीय, कोनो दलभुक्त नहे एमन, स्वतन्त्र	non-party, independent (as member).
	पु.	वह सदस्य जो किसी दल का न हो, स्वतंत्र सदस्य।	যে-সদস্য কোনো দলভুক্ত নহেন	जे-सदस्य कोनो दलभुक्त नहेन	non-party member, independent.
निर्दिष्ट	वि.	1. कहा या बतलाया हुआ, उल्लिखित, वर्णित;	নির্দিষ্ট, কথিত, প্রদর্শিত;	निर्दिष्ट, कथित, प्रदर्शित;	specified, described, expressed, mentioned;
		2. जिसके प्रति निर्देश हुआ हो, संकेतित;	নির্দেশ করা হইয়াছে এমন;	निर्देश करा हइयाछे एमन;	pointed out, shown, indicated, referred (to), alluded;
		3. निश्चित किया या ठहराया हुआ, नियत;	নিরূপিত;	निरूपित;	fixed, allotted;
		4. जिसको निर्देश या निदेश दिया गया हो, निदेशित।	কৃতনির্দেশ, উপদিষ্ট	कृतनिर्देश, उपदिष्ट	directed.
निर्देश	पु.	1. उल्लेख, जिक्र, चर्चा, वर्णन;	নির্দেশ, উল্লেখ;	निर्देश, उल्लेख;	specifying, specification, mention;
		2. संकेत, इशारा, निर्देशन;	বিশেষভাবে প্রদর্শন;	बिशेषभावे प्रदर्शन;	pointing out, showing, indicating;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. इस प्रकार का उल्लेख या कथन कि यही वह है या वही यह है, हवाला, संदर्भ;	নজিরাদির উল্লেখ, নিদর্শ;	नजिरादिर उल्लेख, निदर्श;	reference;
		4. किसी काम को करने का ढंग बताना, समझाना।	আদেশ, উপদেশ	आदेश, उपदेश	direction.
निर्देशक	वि.	1. निर्देश करनेवाला; 2. संकेत करनेवाला, दिखानेवाला।	নির্দেশক, নির্দেষ্টা; বিশেষভাবে প্রদর্শক	निर्देशक, निर्देष्टा; बिशेषभाबे प्रदर्शक	directing, directive; pointing out, showing.
	पु.	1. वह व्यक्ति जिसका काम किसी प्रकार का निर्देश करना हो;	পরিচালক, অধিকর্তা;	परिचालक, अधिकर्ता;	director;
		2. मार्गदर्शक।	পথপ্রদর্শক	पथप्रदर्शक	guide.
निर्देश ग्रंथ	पु.	ऐसी पुस्तक जो सामान्यत: अध्ययन के लिए न लिखी गई हो, जिसका उपयोग विशेष अवसरों पर कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता हो।	নির্দেশগ্রন্থ, নির্দেশ-গ্রন্থ	निर्देशग्रन्थ, निर्देश-ग्रन्थ	reference-book.
निर्देशन	पु.	1. निर्देश करने की क्रिया या भाव, संकेत करना;	নির্দেশন, নির্দেশকরণ;	निर्देशन, निर्देशकरन;	pointing out, showing. indicating;
		2. यह बतलाना कि अमुक कार्य इस प्रकार या इस रूप में होना चाहिंए;	পরিচালন;	परिचालन;	direction;
		3. मार्गदर्शन;	পথপ্রদর্শন;	पथप्रदर्शन;	guidance;
		4. उद्धरणों, प्रसंगों आदि के संबंध में यह बताना कि इनकी विशेष जानकारी कहां से मिलेगी।	নিদর্শ	निदर्श	reference.
निर्देशिका	स्त्री.	ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न व्यवसायों या विषयों के संबंध में विशेष नियम या निर्देश दिए गए हों।	নির্দেশিকা, বিভিন্ন ব্যবসায় ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যজ্ঞাপক গ্রন্থ	निर्देशिका, बिभिन्न ब्यबसाय इत्यादि सम्बन्धे तथ्यज्ञापक ग्रन्थ	directory.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्दोष	वि.	1. जिसमें कोई अवगुण या बुराई न हो, दोषरहित; 2. निरपराध।	নির্দোষ, ত্রুটিশূন্য, দোষহীন; নিরপরাধ	निर्दोष, त्रुटिशून्य दोषहीन; निरपराध	faultless, defectless, flawless; guiltless, innocent, sinless, blameless.
निर्दोषता	स्त्री.	निर्दोष होने की अवस्था या भाव।	নির্দোষিতা, ত্রুটিশূন্যতা দ্বেষহীনতা, অপরাধহীনতা	निर्दोषता, त्रुटिशून्यता, द्वेषहीनता, अपराधहीनता	flawlessness, faultlessness, blamelessness, innocence etc.
निर्द्वन्द्व	वि.	1. जिसका कोई प्रतिद्वन्द्वी या विरोधी न हो; 2. जो सुख-दुख, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से रहित हो; 3. सब प्रकार से स्वच्छन्द।	নির্দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বরহিত, অবিরোধ, নির্বিবাদ; সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত; সর্বপ্রকারে মুক্ত বা স্বাধীন	निर्द्वन्द्व, द्वन्द्वरहित, अविरोध, निर्बिवाद; सुखदुःख, रागद्वेष इत्यादि थेके मुक्त; सर्बप्रकारे मुक्त बा स्वाधीन	not contested, undisputed; indifferent in regard to opposite feelings (pleasure or pain, like or dislike), neither glad nor sorry, free from either of two alternatives; not dependent upon another, independent.
	क्रि. वि.	बिना किसी द्वन्द्व या विघ्नबाधा के।	নির্বিবাদে, অবিরোধে	निर्बिबादे, अबिरोधे	freely, without any obstruction or obstacle.
निर्धन	वि.	गरीब, धनहीन।	নির্ধন, গরীব, ধনহীন	निर्धन, गरीब, धनहीन	poor, indigent, penniless.
निर्धनता	स्त्री.	गरीबी, धनहीनता, कंगाली।	নির্ধনতা, ধনহীনতা, দরিদ্রতা	निर्धनता, धनहीनता, दरिद्रता	poverty, indigence, misery.
निर्धारक	**पु.**	**वह जो किसी बात का निर्धारण या निश्चय करता हो।**	নির্ধারক, নির্ধারণকারী	निर्धारक, निर्धारनकारी	**one who determines/fixes/assesses/lays down.**

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्धारण	पु.	1. तय या निश्चित करना, दृढ़ धारणा बनाना;	নির্ধারণ, নির্ণয়;	निर्धारन, निर्नय;	determining, deciding;
		2. कर, मूल्य आदि निश्चित करना;	স্থিরীকরণ, নিরূপণ;	स्थिरीकरन, निरूपन;	fixing, settling (tax or price etc.);
		3. यह निश्चय करना कि अमुक काम से कितनी आय या कितना व्यय होना चाहिए;	আয়ব্যয় নির্ধারণ;	आयब्यय निर्धारन;	assessment;
		4. विहित करना।	ব্যবস্থা করা	ब्यबस्था करा	laying down, prescribing.
निर्धारित	वि.	1. जिसे कार्य का रूप देने के लिए निश्चय कर लिया गया हो;	নির্ধারিত, নির্ণীত, নিশ্চিত;	निर्धारित, निर्नीत, निश्चित;	determined, ascertained;
		2. जिसका मूल्य आदि निश्चित हो चुका हो;	নিরূপিত, স্থিরীকৃত;	निरूपित, स्थिरीकृत;	fixed, settled etc.
		3. जिसकी आय तथा व्यय आंका जा चुका हो;	আয়ব্যয় নির্ধারিত;	आयब्यय निर्धारित;	assessed;
		4. जिसका विधान किया जा चुका हो, विहित।	বিহিত	बिहित	laid down, prescribed.
निर्धारिती	पु.	वह जिसके संबंध में यह निर्धारित किया जाए कि उसे कितना कर आदि देना चाहिए।	নির্ধারী, যাহার সম্বন্ধে কোনো কর ধার্য হয়	निर्धारी, जाहार सम्बन्धे कोनो कर धार्ज हय	assessee.
निर्निमेष	वि.	जो पलक न गिराए, स्थिर दृष्टि।	নির্নিমেষ, পলকহীন, অনিমেষ	निर्निमेष, पलकहीन, अनिमेष	not twinkling, with fixed look, unwinking.
	क्रि.वि	एकटक, बिना पलक झपकाए।	পলকহীনভাবে, নির্নিমেষে	पलकहीनभाबे, निर्निमेषे	without blinking, without a wink.
निर्बंध	वि.	1. जो बंधन से रहित हो, मुक्त;	বন্ধনহীন, মুক্ত;	बन्धनहीन, मुक्त;	without binding or restriction, free;
		2. जो निषिद्ध न हो।	নিষিদ্ধ নহে এমন	निषिद्ध नहे एमन	uninhibited, unprevented.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	1. आग्रह;	নির্বন্ধ, আগ্রহ;	निर्बन्ध, आग्रह;	importunity, a pressing demand or request, urgency;
		2. रोक, निरोध, पाबंदी।	বাধা, নিষেধ	बाधा, निषेध	restraint, control, restriction
निर्बल	वि.	1. (शारीरिक दृष्टि से) कमजोर, बलहीन;	নির্বল, বলহীন;	निर्बल, बलहीन;	weak, feeble, frail;
		2. जिसे यथेष्ट अधिकार या सत्ता न प्राप्त हो, शक्तिहीन;	অশক্ত;	अशक्त;	powerless;
		3. जो प्रभावशाली या ओजस्वी न हो, जिसमें सजीवता न हो।	নিস্তেজ	निस्तेज	not vigorous, not forceful, spiritless.
निर्बलता	स्त्री.	1. निर्बल होने की अवस्था या भाव, कमजोरी;	দূর্বলতা;	दूर्बलता;	weakness, feebleness;
		2. शक्तिहीनता;	শক্তিহীনতা;	शक्तिहीनता;	powerlessness, impotence;
		3. प्रभावहीनता, ओजहीनता, निर्जीवता।	নিষ্প্রভতা, তেজোহীনতা	निष्प्रभता, तेजोहीनता	vigorlessness, forcelessness, spiritlessness.
निर्बाध	वि.	जिसमें किसी प्रकार की बाधा, रुकावट या बंधन न हो, मुक्त।	অবাধ;	अबाध;	unobstructed, without binding or restriction, free.
	क्रि. वि.	बिना किसी बाधा के।	অবোধে	अबोधे	without any obstruction or hindrance.
निर्बुद्धि	वि.	मूर्ख।	নির্বুদ্ধি, মূর্খ	निर्बुद्धि, मूर्ख	stupid, foolish.
निर्भय	वि.	दे. 'निडर'।	নির্ভয়, ভয়শূন্য	निर्भय, भयशून्य	see 'निडर.'
निर्भयता	स्त्री.	दे. 'निडरता'	নির্ভয়তা, ভয়শূন্যতা	निर्भयता, भयशून्यता	see 'निडरता.'
निर्भर	वि.	1. जो किसी दूसरे पर अवलंबित या आश्रित हो;	নির্ভরশীল;	निर्भरशील;	dependent;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आधारित;	আধারিত;	आधारित;	based (on);
		3. अच्छी या पूरी तरह भरा हुआ, पूरित।	নির্ভর, পরিপূর্ণ	निर्भर, परिपूर्न	full of, filled with.
निर्भरता	स्त्री.	निर्भर होने की अवस्था या भाव, परावलंबन।	নির্ভরতা, নির্ভর-শীলতা, অবলম্বন	निर्भरता, निर्भर-शीलता, अवलम्बन	dependence, reliance.
निर्भीक	वि.	1. जो बिना डरे या बिना किसी के दबाव में आए हुए बहादुरी से कोई काम करता हो, निडर, निर्भय;	নির্ভীক, ভয়হীন, নির্ভয়;	निर्भीक, भयहीन, निर्भय;	fearless, dauntless;
		2. (कार्य) जो भयरहित होकर किया गया हो।	নির্ভীক, নিঃশঙ্ক	निर्भीक, निःशङ्क	done without fear, daring.
निर्भीकता	स्त्री.	निर्भीक होने की अवस्था या भाव, निडरता, निर्भयता।	নির্ভীকতা, ভয়-শূন্যতা, নিঃশঙ্কতা	निर्भीकता, भय-शून्यता, निःशङ्कता	fearlessness, dauntlessness.
निर्भ्रांत	वि.	1. (बात या विषय) जिसमें किसी प्रकार का भ्रम न हो, असंदिग्ध;	অভ্রান্ত, নির্ভুল;	अभ्रान्त, निर्भुल;	unambiguous, categorical, unequivocal;
		2. (व्यक्ति) जिसे भ्रम न हो, निःसंशय।	নিঃসংশয়	निःशंशय	having no doubt, free from doubt.
निर्मम	वि.	1. निष्ठुर, निर्दय, हृदयहीन;	নির্মম, নির্দয়;	निर्मम, निर्दय;	cruel, heartless, ruthless;
		2. जिसमें ममत्व की भावना न हो, ममतारहित।	মমতাশূন্য, মমতাহীন	ममताशून्य, ममताहीन	devoid of affection or attachment.
निर्ममता	स्त्री.	निर्मम होने की अवस्था या भाव।	নির্মমতা, নির্দয়তা, মমতাহীনতা	निर्ममता, निर्दयता, ममताहीनता	cruelty, heartlessness, ruthlessness.
निर्मल	वि.	1. जिसमें मल या मलिनता न हो, साफ, स्वच्छ;	নির্মল, ময়লাশূন্য, স্বচ্ছ;	निर्मल, मयलाशून्य, स्वच्छ;	free from dirt or impurities, clear, clean, stainless, unsullied;
		2. निष्कलंक, दूषणरहित चरित्र;	অকলঙ্ক, নির্দোষ,	अकलंक, निर्दोष;	without a blemish, chaste, pure;
		3. दुर्भावरहित, निष्कपट, शुद्ध (हृदय)।	অকপট, পবিত্র, নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ	अकपट, पवित्र, निष्पाप, बिशुद्ध	without ill-will, pure, innocent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्मलता	स्त्री.	1. निर्मल होने की अवस्था या भाव, स्वच्छता;	নির্মলতা, ময়লাশূন্যতা, স্বচ্ছতা;	निर्मलता, मयलाशून्यता, स्वच्छता;	cleanliness, clearness, spotlessness, stainlessness;
		2. निष्कलंकता;	কলঙ্কহীনতা;	कलङ्कहीनता;	blemishlessness, chastity, purity;
		3. दुर्भाव से रहित होना, निष्कपटता, शुद्धता।	অকপটতা, পবিত্রতা, শুদ্ধতা	अकपटता, पवित्रता, शुद्धता	purity, innocence.
निर्मली	स्त्री.	1. रीठा;	রিঠা;	रिठा;	the seed of strychnos potatorum, clearing-nut, soap-nut;
		2. एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत और खेती के औजार बनाने के काम में आती है।	এক প্রকারের গাছ, এই গাছের কাঠ দালানের কাজে ও চাষের যন্ত্র তৈয়ারীর কাজে লাগে	एक प्रकारेर गाछ, एइ गाछेर काठ दालानेर काजे ओ चाषेर जन्त्र तैयारीर काजे लागे	a kind of timber wood tree.
निर्माण	पु.	1. बनाने या रचने की क्रिया, बनाना, रचना;	নির্মাণ, তৈয়ার, গঠন;	निर्मान, तैयार, गठन;	making, building, construction;
		2. अस्तित्व में लाना, उत्पन्न करना;	সৃষ্টি;	सृष्टि;	producing, forming, making, creation, formation;
		3. प्रणयन, रचना;	রচনা;	रचना;	composing, composition, compilation;
		4. तैयार करना;	প্রস্তুতকরণ;	प्रस्तुतकरन;	preparation;
		5. स्थापित करना, स्थापन, कायम करना;	প্রতিষ্ঠাকরণ;	प्रतिष्ठाकरन;	establishment;
		6. विनिर्माण।	নির্মিতি	निर्मिति	manufacture.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्माणात्मक	वि.	निर्माणोन्मुख, रचनात्मक (विध्वंसात्मक का विपर्याय)।	গঠনমূলক	गठनमूलक	formative, constructive (opposed to destructive).
निर्माता	पु., वि.	निर्माण करनेवाला, बनानेवाला, उत्पन्न करनेवाला, आदि।	নির্মাতা, নির্মাণকারী স্রষ্টা, প্রস্তুতকারী	निर्माता, निर्मानकारी स्रष्टा, प्रस्तुतकारी	maker, constructor, builder, creator, former, producer etc.
निर्माल्य	वि.	निर्मल, शुद्ध।	নির্মল, শুদ্ধ	निर्मल, शुद्ध	clean, pure, clear etc.
	पु.	निर्मलता।	নির্মলতা	निर्मलता	cleanness, purity, clearness, stainlessness.
निर्मित	वि.	जिसका निर्माण किया गया हो, बनाया हुआ, रचित, तैयार, उत्पादित, प्रणीत, स्थापित आदि।	নির্মিত, নির্মাণ করা হইয়াছে এমন	निर्मित, निर्मान करा हइयाछे एमन	constructed, built, formed, prepared, made, produced, composed, established etc.
निर्मुक्त	वि.	1. छोड़ा हुआ, मुक्त किया हुआ; 2. जो सभी प्रकार के बंधनों, सांसारिक राग-द्वेष आदि से रहित हो; 3. आवागमन के बंधन से मुक्त।	নির্মুক্ত, সম্যক মুক্ত; সংগরহিত; নিঃশেষে মুক্ত, বিমুক্ত	निर्मुक्त, सम्यक् मुक्त; सङ्गरहित, निःशेषे मुक्त, बिमुक्त	set free, freed, liberated; free from all bonds of life, worldly attachments etc.; emancipated from transmigration of soul.
निर्मुक्ति	स्त्री.	1. छुटकारा, मुक्ति; 2. बंदियों, विशेषत: राजनीतिक बंदियों को क्षमा करके एक साथ छोड़ देना;	নির্মুক্তি, মোচন, মুক্তি; সমস্ত বন্দী, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি;	निर्मुक्ति, मोचन, मुक्ति; समस्त बन्दी, बिशेषत: राजनैतिक बन्दीदेर मुक्ति;	freedom, liberation; amnesty;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. मोक्ष।	মোক্ষ	मोक्ष	emancipation from transmigration of soul.
निर्मूल	वि.	1. सर्वथा नष्ट, पूरी तरह विनष्ट;	নির্মূল, সমূলে বিনষ্ট, ছিন্নমূল;	निर्मूल, समूले बिनष्ट, छिन्नमूल;	eradicated, completely uprooted, destroyed or ruined;
		2. निराधार, बेसिर पैर का, बेबुनियाद;	অমূলক, ভিত্তিহীন;	अमूलक, भित्तिहीन;	baseless, unfounded (statement, charge etc.);
		3. बिना जड़ का।	মূলহীন	मूलहीन	rootless (as a tree).
निर्मूलन	पु.	1. पूर्ण रूप से नष्ट करने की क्रिया या भाव, पूर्ण विनाश, उन्मूलन; 2. निराधार या बेबुनियाद सिद्ध करना।	নির্মূলন, নির্মূলীকরণ, উৎপাটন, উৎসাদন; অমূলক প্রমাণ করা	निर्मूलन, निर्मूलीकरन, उत्पाटन, उत्सादन; अमूलक प्रमान करा	eradication, uprooting, extirpating; proving baseless or unfounded.
निर्मोह	वि.	1. मोह-रहित ; 2. दे. 'निर्मोही'।	নির্মোহ; দ্রষ্টব্য 'নির্মোহী'	निर्मोह; द्रष्टव्य 'निर्मोही'	free from illusion; see 'निर्मोही'
निर्मोही	वि.	जिसमें मोह या ममत्व न हो, किसी के प्रति अनुराग या स्नेह न रखनेवाला, निष्ठुर।	মোহমুক্ত, স্নেহপ্রীতিহীন, নিষ্ঠুর, নির্মম	मोहमुक्त, स्नेहप्रीतिहीन, निष्ठुर, निर्मम	free from attachment, without affection, unkind, stone-hearted.
निर्यात	पु.	1. माल बाहर भेजने की क्रिया या भाव;	রপ্তানি;	रप्तानि;	exportation;
		2. बाहर भेजा हुआ माल।	রপ্তানি মাল;	रप्तानि माल;	export.
	वि.	विदेशों में बिक्री के लिए भेजा जाने वाला (माल)।	রপ্তানি করা হইয়াছে এমন	रप्तानि करा हइयाछे एमन	exported.
निर्यातक	वि., पु.	निर्यात करनेवाला, बिक्री के लिए माल विदेश भेजने वाला।	রপ্তানিকারক	रप्तानिकारक	exporter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्लज्ज	वि.	1. जिसे शरम न हो, बेशरम, लज्जाहीन; 2. ढीठ, धृष्ट, अविनीत।	निर्लज्ज, लज्जा-हीन, বেহায়া; धृष्ट, অবিনীত	निर्लज्ज, लज्जा-हीन, बेहाया; धृष्ट, अबिनीत	shameless, brazen faced; immodest, impudent.
निर्लज्जता	स्त्री.	निर्लज्ज होने की अवस्था या भाव, बेशरमी, धृष्टता।	নির্লজ্জতা, লজ্জা-হীনতা, বেহায়াপনা	निर्लज्जता, लज्जा-हीनता, बेहायापना	shamelessness, immodesty.
निर्लिप्त	वि.	1. जो किसी से लगाव या संबंध न रखता हो, असंबद्ध;	নির্লিপ্ত, সম্বন্ধশূন্য, সংশ্রবশূন্য, সম্পর্কহীন;	निर्लिप्त, सम्बन्धशून्य, संश्रबशून्य, सम्पर्कहीन;	unconnected (with), unconcerned, not involved;
		2. सांसारिक माया-मोह, राग-द्वेष आदि से परे अथवा रहित, उदासीन।	আসক্তিশূন্য, উদাসীন	आसक्तिशून्य, उदासीन	indifferent, detached.
निर्लेप	वि.	1. निर्लिप्त; 2. दोष आदि से रहित;	নির্লেপ, নির্লিপ্ত; দোষাদিশূন্য;	निर्लेप, निर्लिप्त; दोषादिशून्य;	see 'निर्लिप्त'; faultless, unblemished, pure, stainless, sinless;
		3. जिस पर किसी प्रकार का लेप न हो।	লেপনরহিত, প্রলেপহীন	लेपनरहित, प्रलेपहीन	unsmeared, unanointed.
निर्लोभ	वि.	जिसे किसी प्रकार का लोभ न हो।	নির্লোভ, লোভহীন, লোভশূন্য	निर्लोभ, लोभहीन, लोभशून्य	without avarice or greed, unavaricious, uncovetous.
निर्लोभी	वि.	दे. 'निर्लोभ'।	দ্রষ্টব্য 'নির্লোভ'	द्रष्टव्य 'निर्लोभ'	see निर्लोभ.
निर्वचन	पु.	1. अपने दृष्टिकोण से किसी शब्द, पद या वाक्य की विवेचना या व्याख्या करना, अर्थनिर्णय;	নির্বচন, বিশেষরূপে কথন, নিরুক্তি;	निर्बचन, बिशेषरूपे कथन, निरुक्ति;	interpretation;
		2. समझाकर और निश्चित रूप से कोई बात कहना या बतलाना, निरूपण, प्रस्तुतीकरण।	নিরূপণ, ব্যাখ্যান	निरूपन, ब्याख्यान	explanation, representation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्वसन	वि.	जिसने वस्त्र धारण न किये हों, नंगा।	নির্বসন, নির্বস্ত্র, বিবসন	निर्बसन, निर्बस्त्र, बिबसन	not wearing clothes, unclothed, naked.
निर्वहण	पु.	निर्वाह, गुजर।	নির্বাহ	निर्बाह	maintaining, sustaining, subsistence.
निर्वाचक	पु.	निर्वाचन करनेवाला, मतदाता, मत देकर निर्वाचन करने या चुननेवाला।	নির্বাচক, নির্বাচনকারী	निर्बाचक, निर्बाचनकारी	elector.
निर्वाचक-मंडल	पु.	जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों का चुनाव करता है, निर्वाचक-समूह।	নির্বাচন-মন্ডলী, কেন্দ্রবিশেষের নির্বাচনাধিকার-প্রাপ্ত জনসমষ্টি	निर्बाचन-मन्डली, केन्द्रबिशेषेर निर्बाचनाधिकार-प्राप्त जनसमष्टि	electorate, electoral college.
निर्वाचक-सूची	स्त्री.	वह सूची जिसमें किसी क्षेत्र के मतदाताओं के नाम, उम्र, पेशे आदि लिखे-होते हैं, निर्वाचक नामावली, मतदाता-सूची।	ভোটার তালিকা	भोटार तालिक;	electoral roll.
निर्वाचन	पु.	किसी काम के लिए बहुतों में से एक या अधिक को चुनना, लोकतंत्री प्रणाली में, विशिष्ट अधिकार-प्राप्त मतदाताओं का कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना, चुनाव।	নির্বাচন অনেকের মধ্যে থেকে বাছিয়া লওয়া, ভোট দিয়া ব্যবস্থাপক সভাদির সদস্য করা	निर्बाचन अनेकेर मध्ये थेके बाछिया लओया, भोट दिया ब्यबस्थापक सभादिर सदस्य करा	election.
निर्वाचन-अधिकारी	पु.	किसी संस्था के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख करनेवाला अधिकारी, चुनाव-अधिकारी।	নির্বাচন-আধিকারিক	निर्बाचन-आधिकारिक	returning officer, election officer.
निर्वाचन-क्षेत्र	पु.	वह क्षेत्र या भूभाग जिसके नागरिक किसी विशिष्ट चुनाव में मत देने के अधिकारी होते हैं।	নির্বাচনক্ষেত্র, যে এলাকা হইতে কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত হন	निर्बाचनक्षेत्र, जे एलाका हइते कोनो प्रतिनिधि निर्बाचित हन	constituency.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्वाचित	वि.	जिसका निर्वाचन हुआ हो।	নির্বাচিত	निर्बाचित	elected.
निर्वाण	पुं.	1. मोक्ष, मुक्ति;	নির্বাণ, মোক্ষ, মুক্তি;	निर्बान, मोक्ष, मुक्ति;	final liberation or emancipation from matter and reunion with the supreme spirit, eternal bliss, salvation;
		2. बौद्ध दर्शन में व्यक्ति या सांसारिक अस्तित्व का शून्य स्थिति में पहुंचना, अस्तित्व का पूर्ण विनाश;	(বৌদ্ধ দর্শনে) শূন্যে বিলয় অস্তিত্বের পূর্ণবিলোপ	(बौद्ध दर्शने) शून्ये बिलय अस्तित्बेर पूर्नबिलोप	(with Buddhists) absolute extinction or annihilation, complete extinction of individual or worldly existence, liberation from existence;
		3. मृत्यु जीवन रूपी आग का बुझना, निर्वापण;	নির্বাণ, বিনাশ, অবসান;	निर्बान, बिनाश, अबसान;	dissolution, death, extinction of fire of life;
		4. आग या दीपक का बुझना, निर्वापण।	নিভিয়া যাওয়া, জ্বলনের শেষ	निभिया जाओया, ज्बलनेर शेष	extinction (of fire etc.).
निर्वात	वि.	1. जिसमें वात या वायु न रह गई हो, वात-रहित, वातरिक्त;	নির্বাত, বায়ুহীন, নিবাত;	निर्बात, बायुहीन, निबात;	vacuum;
		2. वायु से सुरक्षित, शांत, स्थिर;	বায়ুপ্রবাহ থেকে সুরক্ষিত, শান্ত, স্থির;	बायुप्रबाह थेके सुरक्षित, शान्त, स्थिर;	free or sheltered from wind, calm, still;
		3. जहां हवा न लग रही हो।	বায়ুপ্রবাহহীন	बायुप्रबाहहीन	devoid of wind, not windy.
निर्वासन	पुं.	1. बलपूर्वक किसी को किसी स्थान या भूभाग से निकालना, घर आदि से निकाल देना, निष्कासन;	নির্বাসন, পুরাদি হইতে বহিষ্করণ স্বগৃহ হইতে বহিষ্কার;	निर्बासन, पुरादि हइते बहिष्करन, स्बगृह हइते बहिष्कार;	expulsion, expelling from home etc.
		2. देश निकाले का दंड, देश-निकाला।	শাস্তি স্বরূপ স্বদেশ হইতে বহিষ্করণ	शस्ति स्बरूप स्बदेश हइते बहिष्करन	banishment, exile, expatriation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्वासित	वि.	1. जो किसी भूभाग से निकाल दिया गया हो;	निर्वासित, पुरादि হইতে বহিষ্কৃত;	निर्बासित, पुरादि हइते बहिष्कृत;	expelled;
		2. जिसे देश निकाले का दंड मिला हो।	শাস্তি স্বরূপ স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত	शास्ति स्वरूप स्वदेश हइते बहिष्कृत	exiled, expatriated, banished.
निर्वाह	पु.	1. गुजारा, निर्वाह;	নির্বাহ, সংসার চালান;	निर्बाह, संसार चालान;	maintenance, subsistence, sustenance;
		2. अधिकारों, कर्त्तव्यों आदि का किया जानेवाला पालन;	কার্যসম্পাদন;	कार्जसम्पादन;	accomplishing, performing, discharging, discharge;
		3. परस्पर संबंध बनाए रखने के लिए किसी दशा या स्थिति के अनुरूप अपने को ढालना या तत्संबंधी आचरण करना, सामंजस्य।	মানাইয়া চলা, মানাইয়া নেওয়া	मानाइया चला, मानाइया नेओया	adjustment, accommodation
निर्विकल्प	वि.	विकल्प, परिवर्तन या भेद से रहित, सदा एक रस और स्वरूप रहनेवाला, निश्चल, स्थिर।	নির্বিকল্প, বিকল্পহীন, অভ্রান্ত, নিঃসংশয়	निर्बिकल्प, बिकल्पहीन, अभ्रान्त, निःसंशय	not admitting an alternative, free from changes, unwavering, concentrated, resolute, determinate.
निर्विकार	वि.	1. जिसमें विकार या परिवर्तन न हो या न होता हो;	বিকারহীন, পরিবর্তনহীন;	बिकारहीन; परिबर्तनहीन;	unchanged, unchangeable, immutable, invariable;
		2. मनोविकार रहित।	নির্বিকার, মানসিক চাঞ্চল্যহীন	निर्बिकार, मानसिक चांचल्यहीन	passionless.
निर्विघ्न	वि.	विघ्न या बाधा से रहित।	নির্বিঘ্ন, বিঘ্নশূন্য, বাধাশূন্য	निर्बिघ्न, बिघ्नशून्य, बाधाशून्य	uninterrupted, unobstructed, free from impediments.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	क्रि. वि.	बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के, मुक्त रूप में।	निर्विघ्ने, निरुपद्रवे	निर्बिघ्ने, निरुपद्रबे	unobstructedly, freely, smoothly.
निर्विरोध	वि.	1. जिसका कोई विरोध न करे अथवा कोई विरोध न हो; 2. सर्वसम्मत।	निर्विरोध, निर्विवाद, विरोधहीन; सर्वसम्मत	निर्बिरोध, निर्बिबाद, बिरोधहीन; सर्बसम्मत	unopposed, uncontested; unanimous.
	क्रि. वि.	1. बिना किसी प्रकार के विरोध के; 2. सर्वसम्मति से।	निर्विवादे; सर्वसम्मतिक्रमे	निर्बिबादे; सर्बसम्मतिक्रमे	without any opposition; unanimously.
निर्विवाद	वि.	जिसके सही होने के संबंध में कोई विवाद या मतभेद न हो, सर्वस्वीकृत।	निर्विवाद, विवादहीन	निर्बिबाद, बिबादहीन	undisputed, not contradicted or disputed, universally acknowledged, not controversial, uncontrovertible.
	क्रि. वि.	बिना किसी प्रकार का विवाद किए।	निर्विवादे	निर्बिबादे	without any dispute or controversy, undisputedly.
निर्वीर्य	वि.	1. वीर्यहीन, बलहीन, नपुंसक, अशक्त; 2. उत्साहहीन, तेज या ओज से रहित।	निवीर्य, वीर्यहीन, दुर्वल; कापूरुष	निबीर्ज, बीर्जहीन, दुर्बल; कापुरुष	powerless, unmanly, impotent; without manly courage, vigorless, spiritless.
निर्वेग	वि.	1. वेग-हीन, आवेग या मनोवेग से रहित; 2. शांत, निश्चल, स्थिर।	आवेगहीन; शान्त, निश्चल, स्थिर	आवेगहीन; शान्त, निश्चल, स्थिर	without passion; not moving, quiet, calm.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निर्वेद	पु.	1. वैराग्य, विरक्ति (जिसे शांत रस का स्थायी भाव भी माना गया है);	निर्वेद, विषयवस्तुते वैराग्य;	निर्वेद, बिषयबस्तुते वैराग्य;	complete indifference to worldly objects (regarded as the feeling which gives rise to the sentiment called शांत (quietude);
		2. ग्लानि, दैन्य, अपने को तुच्छ समझने की भावना (जो तैंतीस संचारी भावों में से एक है);	तत्त्वज्ञान आपद् ईर्षादि हेतु स्वावमानना, आत्मग्लानि;	तत्त्वज्ञान, आपद् ईर्षादि हेतु स्वावमानना, आत्मग्लानि;	self-disparagement or humiliation (regarded as one of the 33 subordinate feelings);
		3. दु:ख, निराशा, अवसाद;	नैराश्य, विषाद;	नैराश्य, बिषाद;	depression of spirits, despondency;
		4. घृणा।	घृणा	घृना	disgust, loathing.
निर्वैयक्तिकता	स्त्री.	वैयक्तिक न होने की स्थिति या भाव, वस्तुगत दृष्टि, वस्तुनिष्ठता, आत्मपरक न होने का भाव।	नैर्व्यक्तिकता	नैर्व्यक्तिकता	the state of being impersonal, impersonal approach, non-individuality, objectivity, non-subjectivity.
निर्व्याज	वि.	1. छल-कपट से रहित, सच्चा;	निर्व्याज, छलनाशून्य सरल;	निर्व्याज, छलनाशून्य, सरल;	candid, upright, honest, plain, sincere;
		2. वास्तविक, शुद्ध, यथार्थ;	वास्तविक, शुद्ध, यथार्थ;	बास्तबिक, शुद्ध, जथार्थ;	without fraud, true, genuine, pure;
		3. स्वाभाविक, नैसर्गिक।	स्वाभाविक, नैसर्गिक	स्वाभाबिक, नैसर्गिक	natural.
निलंबन	पु.	किसी कार्य, पद आदि को अंतिम निर्णय के लिए कुछ समय के लिए रोक रखना, लटकाना, मुअत्तल रखना, मुअत्तली, अनुलंबन, स्थगन।	निलम्बन, कोनो व्यक्ति वा विषय सम्बन्धे सिद्धान्त स्थगित वा मुलतुवि राखा	निलम्बन, कोनो व्यक्ति बा बिषय सम्बन्धे सिद्धान्त स्थगित बा मूलतुबि राखा	suspension.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निलंबित	वि.	(कार्य, पद आदि) जिसका निलंबन किया गया हो, मुअतल, रोकेरखा हुआ, स्थगित।	নিলম্বিত, অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত, মুলতুবি, স্থগিত	निर्लम्वित, अस्थायीभावे पदच्युत, मुलर्तुवि, स्थगित	suspended.
निलय	पु.	1. रहने का स्थान;	নিলয়, বাসস্থান, আলয়, গৃহ;	निलय, बासस्थान, आलय, गृह:	abode, residence, habitat, dwelling;
		2. छिपने का स्थान, पक्षी का घोंसला या जानवर की मांद आदि।	নীড়াদি আশ্রয়স্থান	नीड़ादि आश्रयस्थान	a hiding or dwelling place, the lair of animals, a nest (of birds), nacelle.
निलीन	वि.	1. छिपा हुआ;	নিলীন, লুক্কায়িত;	निलीन, लुक्कायित:	shut or wrapt up, hidden into;
		2. विनष्ट;	নষ্ট;	नष्ट;	destroyed, perished;
		3. गला या पिघला हुआ।	বিগলিত	बिगलित	melted or fused into.
निवर्तन	पु.	1. घूम फिरकर अपने पहले स्थान पर वापस आना, लौटना;	নিবতন, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন;	निवर्तन, प्रत्याबर्तन, प्रत्यागमन:	returning, turning or coming back, return;
		2. अंदर की ओर घूमना या मुड़ना, अन्तर्वलयन;	অন্তর্মুখী আবর্তন	अन्तर्मुखी आवर्तन	curling inwards, involution;
		3. अंदर की ओर घूमकर या मुड़कर बना हुआ अंग, अन्तर्वलय।	ভিতরের দিকে মোড়া অংশ	भितरेर दिके मोड़ा अंश	the part curved inwards, involution.
निवल	वि.	कटौती या छूट देने के बाद बचा हुआ, शुद्ध, वास्तविक (लाभ आदि)।	নিট	निट	net (profit etc.).
निवात	वि.	1. निर्वात, जहां हवा न लगे या न लग रही हो;	নিবাত, নির্বাত, বায়ুশূন্য;	निबात, निर्वात, वायुशून्य:	not windy, devoid of wind;
		2. वायु से सुरक्षित, शांत, स्थिर।	বাতাস লাগে না বলিয়া স্থির	बातास लागे ना बलिया स्थिर	sheltered from wind, calm, still.
	पु.	वायु से सुरक्षित स्थान, वह स्थान जहां हवा न लग रही हो	যেখানে বাতাস লাগেনা এমন স্থান	जेखाने बातास लागेना एमन स्थान	place sheltered from the wind.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निवार (निवाड़)	स्त्री.	मोटे सूत की बनी हुई तीन-चार अंगुल चौड़ी वह पट्टी जिससे पलंग बुने जाते हैं।	নেয়ার, নেয়াড়, নেয়াল	नेयार, नेयाड़, नेयाल	thick and wide cotton tape used in weaving a bedstead.
निवारक	वि.	1. निवारण करनेवाला, रोकनेवाला;	নিবারক, নিবারণকারী;	निबारक, निबारनकारी;	preventive, preclusive, preventer;
		2. दूर करनेवाला, हटानेवाला;	যে দূরীকরণ করে;	जे दूरीकरन करे;	removing, remover, setting aside;
		3. निषेध करनेवाला।	নিষেধকারী	निषेधकारी	prohibitive, interdictory, prohibitor, forbidder.
निवारण	पुं.	1. रोकने की क्रिया या भाव, रोकथाम;	নিবারণ, বারণ, রোধকরণ;	निबारन, बारन, रोधकरन;	keeping off, preventing, warding off, prevention, preclusion;
		2. छुटकारा, निवृत्ति;	নিবৃত্তি, মোচন;	निबृत्ति, मोचन;	release, liberation;
		3. निषेध, मनाही;	নিষেধ;	निषेध;	prohibiting, prohibition;
		4. दूर करना, हटाना।	দূরীকরণ	दूरीकरन	removal.
निवाला	पुं.	कौर, ग्रास।	গ্রাস, কবল	ग्रास, कबल	a mouthful, a morsel.
निवास	पुं.	1. बसने या रहने की क्रिया या भाव;	নিবাস, বাস, অবস্থান;	निबास, बास, अबस्थान;	living, dwelling, residing;
		2. वास स्थान;	বাসস্থান;	बासस्थान;	residence, abode, habitation, resting place;
		3. घर, मकान।	গৃহ	गृह	house.
निवास-स्थान	पुं.	1. वह स्थान जहां कोई व्यक्ति रहता हो;	নিবাসস্থান, বাসস্থান;	निबासस्थान, बासस्थान;	dwelling-place, place of residence abode;
		2. घर, मकान।	আবাস	आबास	house, quarter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निवासी	वि. पु.	(स्थान विशेष में) रहनेवाला, निवास करनेवाला।	নিবাসী, বাসকারী, বাসিন্দা	निबासी, बासकारी, बासिन्दा	a resident, an inhabitant.
निबिड़	वि.	घना, सघन।	নিবিড়, ঘন, গাঢ়	निबिड़, घन, गाढ़	thick, dense.
निविदा	स्त्री.	वह पत्र जिसमें किसी प्रस्तावित कार्य के संबंध में यह लिखा रहता है कि हम इतने पारिश्रमिक पर अमुक रूप में यह काम पूरा कर देंगे और जो उपयुक्त अधिकारियों के सामने स्वीकृति के लिए रखा जाता है।	মূল্যবেদনপত্র, টেন্ডার	मूल्यबेदनपत्र, टेन्डार	a tender.
निवृत्त	वि.	1. जो कोई काम करके उससे छुट्टी पा चुका हो, मुक्त:	নিবৃত্ত, বিরত;	निबृत्त, बिरत;	freed from work, disencumbered;
		2. (कार्य) जो पूरा हो चुका हो;	নিবৃত, সমাপ্ত;	निबृत, समाप्त;	finished; completed;
		3. सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति से रहित;	নিবৃত্তিযুক্ত;	निबृत्तिजुक्त;	having no association with or interest in mundane affairs, abstaining from wordly acts, averted from, indifferent to, having renounced or given up;
		4. जिसने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया हो, सेवानिवृत्त।	অবসরপ্রাপ্ত	अवसरप्राप्त	retired (from service).
निवृत्ति	स्त्री.	1. (कार्य पूरा हो जाने पर उससे मिलने वाला) छुटकारा, मुक्ति;	নিবৃত্তি, বিরতি;	निवृत्ति, बिरति;	freedom from work, disencumberance;
		2. (कार्य की) पूर्ति;	সমাপ্তি;	समाप्ति;	finishing, completion;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. सांसारिक विषयों या कार्यों में प्रवृत्ति का अभाव, त्याग;	বিষয়-বিরাগ;	बिषय-बिराग;	resignation, discontinuance of worldly acts or quietism, separation from the world, repose, rest;
		4. नौकरी से अवकाश पाकर या अवधि पूरी हो जाने पर सदा के लिए हट जाना।	অবসরগ্রহণ	अबसरग्रहन	retirement (from service).
निवेदक	वि. पु.	जो नम्रतापूर्वक किसी से कोई बात कहे, निवेदन करनेवाला, प्रार्थी।	নিবেদক, নিবেদনকারী	निबेदक, निबेदनकारी	one who makes a request or submission, applicant, suppliant.
निवेदन	पु.	1. नम्रतापूर्वक किसीसे कोई बात कहना, प्रार्थना करना;	নিবেদন, বিনীত উক্তি;	निबेदन, बिनीत उक्ति;	requesting, submitting;
		2. नम्रतापूर्वक कही हुई बात जो प्राय: सुझाव के रूप में होती है;	আবেদন;	आबेदन;	request, submission, application, supplication, petition;
		3. अर्पण।	সমর্পণ	समर्पन	delivering, offering, presenting.
निवेदित	वि.	1. (बात) जो प्रार्थना के रूप में कही गई हो; 2. (पदार्थ) जो भेंट आदि के रूप में अर्पित किया गया हो, समर्पित।	নিবেদিত, আবেদন করা হইয়াছে এমন; উৎসর্গীকৃত, উৎসৃষ্ট	निबेदित, आबेदन करा हइयाछे एमन; उत्सर्गीकृत, उत्सृष्ट	requested, submitted; delivered, presented, given, offered.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निवेश	पुं.	1. किसी व्यापार, उद्योग आदि में धन या पूंजी लगाने का कार्य तथा इस प्रकार से लगाया हुआ धन, पूंजी आदि;	ব্যবসায়াদিতে টাকাকড়ি বিনিয়োগ, ব্যবসায়াদিতে লাগান টাকাকড়ি;	ब्यबसायादिते टाकाकड़ि बिनियोग, ब्यबसायादिते लागानं टाकाकड़ि;	investment;
		2. प्रवेश, पैठ।	নিবেশ, প্রবেশ	निबेश, प्रबेश	entering, entrance, penetration.
निशा	स्त्री.	रात्रि।	নিশা, রাত্রি	निशा, रात्रि	night.
निशाकर	पुं.	चंद्रमा।	নিশাকর, চাঁদ	निशाकर, चांद	the moon.
निशाचर	पुं.	राक्षस।	নিশাচর, রাক্ষস	निशाचर, राक्षस	a rakshas or demon, goblin, fiend, devil, an evil spirit.
निशान	पुं.	1. ऐसा प्राकृत या आकस्मिक लक्षण या चिह्न जिससे कोई चीज पहचानी जाए या किसी घटना आदि का परिचय या प्रमाण मिले;	নিশান, চিহ্ন, নিদর্শন, অভিজ্ঞান;	निशान, चिह्न, निदर्शन, अभिज्ञान;	sign, mark;
		2. पता, ठिकाना, सुराग;	পাত্তা, ঠিকানা;	पात्ता, ठिकाना;	trace, clue;
		3. झंडा, पताका;	পতাকা, ঝান্ডা;	पताका, झान्डा;	ensign, flag, banner, standard, emblem;
		4. दाग, धब्बा;	দাগ;	दाग;	stain, blemish, scar;
		5. किसी चीज से दबाकर बनाया जानेवाला चिह्न, छाप।	ছাপ	छाप	impression.
निशाना	पुं.	वह वस्तु या बिंदु जिस पर शस्त्र से आघात किया जाए, लक्ष्य।	নিশানা, লক্ষ্য, টিপ্	निशाना, लक्ष्य, टिप्	butt, target, mark, aim.
निशानी	स्त्री.	1. स्मृति, चिह्न, यादगार;	স্মৃতিচিহ্ন, স্মারকবস্তু;	स्मृतिचिह्न, स्मारकबस्तु;	token of remembrance, memento, keep sake, memorial;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पहचान का चिह्न, निशान;	নিশান;	निशान;	mark, mark of identification , sign, token;
		3. पता, ठिकाना, सुराग;	পাত্তা, ঠিকানা;	पात्ता, ठिकाना;	trace, clue;
		4. किसी चीज से दबाकर बनाया जानेवाला चिह्न, छाप।	ছাপ	छाप	impression.
निशानेबाज	पु.	**निशाने पर वार करनेवाला, अच्छा निशाना लगानेवाला।**	দক্ষ, লক্ষ্যভেদকারী	दक्ष, लक्ष्यभेदकारी	marksman, expert shot.
निशानेबाजी	स्त्री.	**निशाना लगाने का कार्य या कौशल।**	লক্ষ্যভেদ	लक्ष्यभेद	marksmanship.
निशि	स्त्री.	**रात्रि।**	নিশি, রাত্রি	निशि, रात्रि	night.
निशिदिन	क्रि.वि	**1. रात-दिन; 2. सर्वदा।**	নিশিদিন, রাত-দিন; সর্বক্ষণ	निशिदिन, रात-दिन; सर्वक्षन	day and night; always, ever.
निशीथ	पु.	**1. रात्रि; 2. आधीरात।**	নিশীথ, রাত্রি; অর্ধরাত্রি	निशीथ, रात्रि; अर्धरात्रि;	night in general; mid – night.
निश्चय	पु.	**1. कोई कार्य करने का अंतिम निर्णय या संकल्प करना, दृढ़ धारणा ;**	নিশ্চয়; স্থির ধারনা;	निश्चय, स्थिर धारना;	determination, resolution, resolve;
		2. निर्णय, फैसला;	সিদ্ধান্ত, নির্ণয়;	सिद्धान्त, निर्नय;	decision;
		3. निश्चितता, अवश्यंभाविता।	নিশ্চিততা	निश्चितता	certainty, positiveness, positive conclusion.
निश्चयात्मक	वि.	**निश्चय के रूप में होनेवाला, सुनिश्चित।**	নিশ্চয়াত্মক, সুনিশ্চিত	निश्चयात्मक, सुनिश्चित	definite, certain, positive.
निश्चल	वि.	**1. अचल, स्थिर;**	নিশ্চল, অচল, স্থির;	निश्चल, अचल, स्थिर;	immovable, steady, fixed, still;
		2. अपरिवर्तनशील।	অপরিবর্তনশীল	अपरिबर्तनशील	invariable, unchangeable;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निश्चलता	स्त्री.	1. निश्चल होने की अबस्था या भाब, अचलता, स्थिरता;	নিশ্চলতা, অচলতা, স্থিরতা;	निश्चलता, अचलता, स्थिरता;	immovability, steadiness;
		2. अपरिबर्तनशीलता।	অপরিবর্তনশীলতা	अपरिबर्तनशीलता	invariableness, changelessness.
निश्चायक	बि.	निश्चय करनेबाला।	নিশ্চায়ক, নিশ্চয়কারী	निश्चायक, निश्चयकारी	who or what ascertains or determines, decisive, conclusive.
निश्चेष्ट	बि.	1. चेष्टारहित, प्रयत्नरहित;	নিশ্চেষ্ট, চেষ্টারহিত;	निश्चेष्ट, चेष्टारहित;	incapable of motion, effortless;
		2. अचेत;	অচেতন;	अचेतन;	unconscious;
		3. निश्चल, अचल, स्थिर।	অচল	अचल	motionless, still.
निश्छल	बि.	छल-कपट से रहित, निष्कपट।	ছলনাহীন, অকপট	छलनाहीन, अकपट	guileless, without wile, straight-forward, honest.
निश्छलता	स्त्री.	निश्छल होने की अबस्था या भाब, निष्कपटता।	ছলনাহীনতা, অকপটতা	छलनाहीनता, अकपटता	guilelessness, straightforward-ness.
नि:श्वास	पु.	1. नाक या मुंह से बाहर निकलनेबाला श्वास, उच्छ्‌बास;	নিশ্বাস, নাসিকা হইতে বাহিরে নির্গত বায়ু, উচ্ছ্বাস;	निश्बास, नासिका हइते बाहिरे निर्गत बायु, उच्छ्‌बास;	expiration, exhalation;
		2. अंदर खींचा हुआ सांस बाहर निकालना या छोड़ना, नि:श्बसन, उच्छ्‌बसन;	নিঃশ্বাস, প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসরণ;	नि:श्बास, प्रानबायुर बहिर्निसःरन;	inhaling, exhaling, breathing out;
		3. गहरी या ठंडी सांस, उच्छ्‌बास।	দীর্ঘশ্বাস	दीर्घश्बास	a sigh.
निश्शंक	वि., क्रि.बि.	दे. 'नि:शंक'।	দ্রষ্টব্য 'নিঃশঙ্ক'	द्रष्टव्य 'नि:शंक'	see 'निश्शंक.'
निश्शब्द	वि.	1. शब्द या आबाज से रहित, कोलाहल से रहित, शांत;	নিঃশব্দ, শব্দহীন;	नि:शब्द, शब्दहीन;	without noise or sound, silent, quiet, still;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो शब्द न करता हो, जो न बोल रहा हो, मौन।	নীরব, মৌন	नीरब, मौन	voiceless, speechless, silent.
निश्शस्त्र	वि.	दे. 'निरस्त्र'।	দ্রষ্টব্য 'নিরস্ত্র'	द्रष्टव्य 'निरस्त्र'	see 'निरस्त्र'
निश्शस्त्रीकरण	पु.	दे. 'निरस्त्रीकरण'।	দ্রষ্টব্য 'নিরস্ত্রীকরণ'	द्रष्टव्य 'निरस्त्रीकरण'	see 'निरस्त्रीकरण'
निश्शेष	वि.	दे. 'नि:शेष'।	দ্রষ্টব্য 'নিঃশেষ'	द्रष्टव्य 'नि:शेष'	see 'निश्शेष'
निषंग	पुं.	तरकश।	নিষংগ, তূণীর	निषङ्ग, तूनीर	quiver.
निषाद	पुं.	1. एक प्राचीन अनार्य जंगली जाति जो आखेट या मछली पकड़ने आदि का काम करती थी;	নিষাদ, প্রাচীন বন্য জাতিবিশেষ ব্যাধ;	निषाद, प्राचीन बन्य जातिविशेष, ब्याध;	one of the wild, aboriginal tribes in India such as hunters, fishermen etc.;
		2. उक्त जाति का व्यक्ति;	নিষাদজাতির কোনো লোক;	निषादजातिर कोनो लोक;	member of the Nisada tribe;
		3. संगीत में सरगम का सातवां स्वर (नि) जो अन्य सब स्वरों से ऊँचा होता है।	সংগীতে সুরসপ্তকের সপ্তম সুর	संगीते सुरसप्तकेर सप्तम स्वर	(in music) the last or seventh note of the Hindusthani gamut.
निषिद्ध	वि.	1. जिसे उपयोग, प्रयोग या व्यवहार में लाने की मनाही हो;	নিষিদ্ধ, কৃতনিষেধ, নিবারিত;	निषिद्ध, कृतनिषेध, निबारित;	forbidden, prohibited, warded off, prevented, banned;
		2. शास्त्र द्वारा या धार्मिक दृष्टि से वर्जित, फलतः बुरा और त्याज्य।	অবিহিত	अविहित	tabooed, prohibited in the scriptures, worth forsaking or giving up.
निषेध	पु.	1. मनाही, वर्जन;	নিষেধ, বারণ, মানা;	निषेध, बारन, माना;	prohibition, inhibition, ban, taboo;
		2. इनकार, अस्वीकृति, प्रतिवाद।	অস্বীকৃতি, প্রতিবাদ	अस्वीकृति, प्रतिबाद	negation, refusal, denial.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निषेधक	वि.	निषेध या मनाही करनेवाला (व्यक्ति, आदेश आदि)।	নিষেধক, নিষেধকারী, নিবারক	निषेधक, निषेधकारी, निबारक	preventing, prohibiting, prohibitive, forbidding.
निषेध-पत्र	पुं.	वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम न करने के लिए आदेश दिया गया हो, प्रतिषेध लेख।	নিষেধাত্মক আদেশপত্র	निषेधात्मक आदेशपत्र	a prohibitory order, writ of prohibition.
निषेधाधिकार	पु.	किसी संस्था के सदस्यों के हाथ में रहने वाला वह अधिकार जिससे कोई स्वीकृत प्रस्ताव रोका जा सकता है, रोक-अधिकार।	প্রতিষেধ, ভিটো	प्रतिषेध, भिटो	veto.
निषेधात्मक	वि.	1. (कथन या विधान) जो निषेध या मनाही के रूप में हो;	নিষেধাত্মক, নিষেধক;	निषेधात्मक, निषेधक;	prohibitory, prohibitive;
		2. जो अस्वीकृति, प्रतिवाद, या इनकार के रूप में हो।	নকারাত্মক	नकारात्मक	expressing or implying denial, negative.
निष्कंटक	वि.	1. जिसमें किसी प्रकार के कंटक अर्थात् बाधा, आपत्ति या झंझट आदि न हों;	নিষ্কন্টক, কন্টকহীন, নির্বিঘ্ন;	निष्कन्टक, कन्टकहीन, निर्बिघ्न;	free from ills or trouble or obstacles, unobstructed, smooth, secure;
		2. शत्रुरहित, उपद्रव या खतरे आदि से रहित।	শত্রুহীন, নিরাপদ	शत्रुहीन, निरापद	free from enemies, free from danger or nuisance.
	क्रि.वि	1. बिना किसी प्रकार की बाधा या रुकावट के;	নির্বিঘ্নে, নিষ্কন্টকে;	निर्बिघ्ने, निष्कन्टके;	unobstructedly, smoothly, securely;
		2. बिना किसी प्रकार के बैर या शत्रुता की संभावना के, बेखटके।	নিরাপদে, নিষ্কন্টকে	निरापदे, निष्कन्टके	without fear of enmity, opposition or obstacle from any quarter, without danger or nuisance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निष्कंप	वि.	जिसमें कंपन न हो रहा हो, स्थिर।	নিষ্কম্প, কম্পনহীন, স্থির	निष्कम्प, कम्पनहीन, स्थिर	unwavering, unquivering, unflickering,not shaking or tremulous, steady.
निष्कपट	वि.	कपटरहित, निश्छल।	নিষ্কপট, কপটরহিত, সরল	निष्कपट, कपटरहित, सरल	guileless, sincere, straightforward, honest.
निष्कर्म	वि.	1. जो कोई कर्म न करता हो, निष्क्रिय; 2. जो कर्म करने पर भी उसमें आसक्त या लिप्त न होता हो, अकर्मा।	যে কোনো কর্ম করে না, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা; যে নিরাসক্তভাবে কর্ম করে	जे कोनो कर्म करे ना, निष्क्रिय, निष्कर्मा; जे निरासक्तभावे कर्म करे	inactive, renouncing the acts; working without attachment.
निष्कर्ष	पु.	1. विचार-विमर्श या सोच-विचार के उपरांत निकलनेवाला परिणाम या स्थिर होनेवाला सिद्धान्त, निश्चय; 2. किसी बात, वक्तव्य का सार, सारांश,निचोड़।	বিচার বিতর্কের দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্ত; নিষ্কর্ষ, সারাংশ, তাৎপর্য	बिचार बितर्केर द्वारा उपनीत सिद्धान्त; निष्कर्ष, सारांश, तात्पर्ज	conclusion, inference, decision; essence of anything, chief or main point, gist.
निष्कलंक	वि.	1. जिसमें या जिस पर कलंक न हो, दोषरहित, बेदाग; 2. कलंक अर्थात् दोष से रहित, निर्दोष, शुद्ध, निष्पाप।	নিষ্কলঙ্ক, অকলঙ্ক; নির্দোষ	निष्कलङ्क, अकलंक; निर्दोष	stainless, spotless, immaculate; without flaw or blemish, pure, chaste, sinless.
निष्काम	वि.	1. जो सब बातों से निर्लिप्त रहता हो, निःस्वार्थ, निःस्पृह, आसक्तिरहित;	নিষ্কাম, নিস্পৃহ, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত;	निष्काम, निस्पृह, फलाकाङ्क्षारहित;	free from wish or desire, desireless, free from all worldly desires;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. कामना, वासना या इच्छा से रहित, सांसारिक इच्छाओं से रहित।	যাহার কামনা বাসনা নাই, বিষয় ভোগেচ্ছাহীন	जाहार कामना बासना नाइ, बिषय भोगेच्छाहीन	disinterested, unselfish, indifferent, unattached, without attachment.
निष्कारण	वि.	1. जिसका कोई कारण न हो, कारणरहित, अकारण; 2. अनावश्यक।	নিষ্কারণ, কারণহীন, অকারণ; অনাবশ্যক	निष्कारन, कारनहीन, अकारन; अनाबश्यक	causeless, without reason; unnecessary, needless.
	क्रि.वि	व्यर्थ, बिलावजह।	নিষ্কারণে, অকারণে	निष्कारने, अकारने	without any cause or reason, causelessly, needlessly, in vain.
निष्कासन	पुं.	किसी को किसी पद, क्षेत्र, स्थान, वर्ग, दल आदि से निकालना, बाहर करना या हटाना।	নিষ্কাসন, বহিষ্করণ, দূরীকরণ	निष्कासन, बहिष्करन, दूरीकरन	expulsion, ejectment (from a place, office etc.).
निष्कासित	वि.	जिसका निष्कासन हुआ हो।	নিষ্কাসিত, বহিষ্কৃত, দূরীকৃত	निष्कासित, बहिष्कृत, दूरीकृत	expelled, turned out, ejected.
निष्कृत	वि.	1. हटाया हुआ;	নিষ্কৃত, দূরীকৃত;	निष्कृत, दूरीकृत;	taken away, removed;
		2. उपेक्षित, तिरस्कृत;	উপেক্ষিত, তিরস্কৃত;	उपेक्षित, तिरस्कृत;	disregarded, overlooked, ignored;
		3. जिसे छुटकारा मिला हो, मुक्त।	নির্মুক্ত	निर्मुक्त	redeemed, ridded or rid.
निष्कृति	स्त्री.	1. हटाने की क्रिया या भाव;	নিষ্কৃতি, দূরীকরণ;	निष्कृति, दूरीकरन;	removal, taking away;
		2. छुटकारा, मुक्ति;	নির্মুক্তি;	निर्मुक्ति;	riddance, redemption, salvation;
		3. तिरस्कार, उपेक्षा।	তিরস্কার, উপেক্ষা	तिरस्कार, उपेक्षा	neglect, disregard.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निष्क्रमण	पुं.	1. बाहर निकलना या आना, प्रस्थान करना;	নিষ্ক্রমণ, নির্গমন, বহির্গমন;	निष्क्रमन, निर्गमन, बहिर्गमन;	going forth or out, coming forth, departure;
		2. हिन्दुओं में एक संस्कार जिसमें चार महीने के शिशुओं को पहले-पहले घर से बाहर निकाल कर सूर्य के दर्शन कराते हैं;	শিশুর জন্মের চতুর্থ মাসে করণীয় সংস্কারবিশেষ;	शिशुर जन्मेर चतुर्थ मासे करनीय संस्कारबिशेष;	one of the Sanskaras or religious rites i.e. taking out a child for the first time into the open air;
		3. कोई स्थान, क्षेत्र आदि से निकलकर उसे खाली कर देना;	কোনো স্থান খালি করিয়া দেওয়া;	कोनो स्थान खालि करिया देओया;	evacuation, withdrawal (from a place);
		4. निकासमार्ग या द्वार।	প্রস্থানপথ	प्रस्थानपथ	exit, outlet.
निष्क्रांत	वि.	1. निकला हुआ;	নিষ্ক্রান্ত, নির্গত, বহির্গত;	निष्क्रान्त, निर्गत, बहिर्गत;	gone out, departed, come forth;
		2. निकाला हुआ;	বহিষ্কৃত;	बहिष्कृत;	taken out, ousted;
		3. जो किसी स्थान, क्षेत्र आदि से उसे खाली करके चला आया हो।	অপসৃত করা হইয়াছে এমন	अपसृत करा हइयाछे एमन	an evacuee.
निष्क्रिय	वि.	1. क्रिया, कार्य या व्यापार से रहित, निश्चेष्ट;	নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াহীন;	निष्क्रिय, क्रियाहीन;	inactive, inert, passive, non-working;
		2. प्रयत्नरहित, अकर्मण्य, आलसी।	অলস, নিষ্কর্মা	अलस, निष्कर्मा	idle, lazy, effortless.
निष्क्रियता	स्त्री.	1. निष्क्रिय होने की अवस्था या भाव, क्रियाहीनता, कार्य न करने का भाव, निश्चेष्टता;	নিষ্ক্রিয়তা, ক্রিয়াহীনতা;	निष्क्रियता, क्रियाहीनता;	inaction, inactivity, inertia, passivity;
		2. अकर्मण्यता, आलस्य, आरामतलबी।	আলস্য, অকর্মণ্যতা	आलस्य, अकर्मन्यता	idleness, laziness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निष्ठ	वि.	1. (यौगिक पदों के अंत में लगाया जानेवाला प्रत्यय) किसी काम या बात में पूरी तरह लगा रहनेवाला, तल्लीन, तत्पर;	নিষ্ঠ, বহুব্রীহি সমাসে উত্তর-পদরূপে 'নিষ্ঠা'-র রূপ (নিয়মনিষ্ঠ), নিরত, তৎপর;	निष्ठ, बहुव्रीहि समासे उत्तर–पदरूपे 'निष्ठा'-र रूप (नियमनिष्ठ), निरत, तत्पर;	(used as a suffix in compound words) engrossed (in), well disposed (towards), having readiness (to.);
		2. किसी के प्रति निष्ठा अर्थात् भक्ति, श्रद्धा या विश्वास रखनेवाला।	নিষ্ঠাযুক্ত, শ্রদ্ধান্বিত	निष्ठाजुक्त, श्रद्धान्बित	having faith or trust (in), devoted to, having allegiance to.
निष्ठा	स्त्री.	1. मन में होनेवाला दृढ़ निश्चय या विश्वास;	দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়, অবধারণ;	दृढ़ बिश्बास, निश्चय, अबधारन;	belief, firm adherance, faith;
		2. किसी बात या व्यक्ति के संबंध में होने वाली भावुकतापूर्ण मनोवृत्ति या आस्था, भक्ति, श्रद्धा;	শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরক্তি;	श्रद्धा, भक्ति, अनुरक्ति;	devotion;
		3. वफादारी, ईमानदारी, दल, स्वामी, देश आदि के प्रति होनेवाली भक्ति।	বিশ্বস্ততা, দল মালিক দেশ ইত্যাদির প্রতি ভক্তি	बिश्बस्तता, दल मालिक देश इत्यादिर प्रति भक्ति	allegiance, loyalty.
निष्ठावान्	वि.	1. किसी के प्रति निष्ठा रखनेवाला, वफादार, ईमानदार;	নিষ্ঠাবান, যাহার নিষ্ঠা আছে, ইমানদার;	निष्ठाबान, जाहार निष्ठा आछे, इमानदार;	loyal, faithful, fidel, having allegiance (to);
		2. भक्तिभावपूर्ण, भक्तिभावना रखनेवाला, श्रद्धावान्।	ধর্মীয় আচারপালনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন	धर्मीय आचारपालने श्रद्धासम्पन्न	devoted.
निष्ठित	वि.	1. अच्छी तरह टिका या ठहरा हुआ, दृढ़ता से स्थित;	নিষ্ঠিত, সম্যক্স্থিত, অবস্থিত;	निष्ठित, सम्यक्स्थित, अबस्थित;	firm, fixed;
		2. दे. 'निष्ठावान'।	দ্রষ্টব্য 'নিষ্ঠাবান্'	द्रष्टब्य 'निष्ठावान'	see 'निष्ठावान'.
निष्ठुर	वि.	1. जिसके हृदय में दया, ममता, मोह आदि न हो, निर्दय, हृदयहीन, क्रूर, नृशंस;	নিষ্ঠুর, অনুকম্পারহিত নির্দয়, ক্রূর, নির্মম, নৃশংস;	निष्ठुर, अनुकम्पारहित, निर्दय, क्रूर, निर्मम, नृशंस;	merciless, ruthless, hard-hearted, pitiless, cruel, brutal;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. रूक्ष, रूखा, कठोर, अप्रिय, कड़ा (बात, व्यवहार आदि)।	কঠোর, কঠিন, পরুষ	कठोर, कठिन, परुष	harsh (speech etc.)
निष्ठुरता	स्त्री.	1. निष्ठुर होने की अवस्था या भाव, निर्दयता, क्रूरता;	নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, ক্রূরতা;	निष्ठुरता, निर्दयता, क्रूरता;	ruthlessness, mercilessness, brutality, cruelty, heartlessness;
		2. वाणी या व्यवहार की रूक्षता, कठोरता, अप्रियता।	কঠোরতা	कठोरता	harshness (of speech etc.).
निष्णात	वि.	1. किसी बात या विषय का पूरा पंडित, अच्छा ज्ञाता या जानकार, विशेषज्ञ;	নিষ্ণাত, পারগত, পারগ, পারংগম, অভিজ্ঞ;	निष्नात, पारगत, पारग, पारङ्गम, अभिज्ञ;	deeply versed in, well conversant with, adept, learned, expert;
		2. निपुण, दक्ष।	নিপুণ, কুশল	निपुन, कुशल	clever, skilful, skilled.
निष्पंद	वि.	स्पंदनरहित, स्थिर।	নিষ্পন্দ, স্পন্দহীন, স্থির	निष्पन्द, स्पन्दहीन, स्थिर	unflickering, (fig.) motionless, still, steady, fixed.
निष्पक्ष	वि.	1. पक्षपातरहित;	পক্ষপাতহীন;	पक्षपातहीन;	unbiased, impartial;
		2. जो किसी पक्ष या दल में न हो, तटस्थ;	যে কোনো পক্ষ বা দলে নাই;	जे कोनो पक्ष बा दले नाइ;	neutral, non-aligned;
		3. जो आत्मपरक न हो, निर्वैयक्तिक।	নির্বৈয়ক্তিক	निर्बैयक्तिक	objective, impersonal.
निष्पक्षता	स्त्री.	1. निष्पक्ष होने की अवस्था या भाव, पक्षपातहीनता;	পক্ষপাতহীনতা;	पक्षपातहीनता;	unbiasedness, impartiality;
		2. किसी पक्ष या दल में न रहने की अवस्था या भाव, तटस्थता;	কোনো পক্ষ বা দলে না থাকার অবস্থা;	कोनो पक्ष बा दले ना थाकार अवस्था;	neutrality, non-alignment;
		3. निर्वैयक्तिकता, वस्तुनिष्ठता।	নির্বৈয়ক্তিকতা	निर्बैयक्तिकता	objectivity, the state of being impersonal.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निष्पत्ति	स्त्री.	1. परिपाक, पूर्णता, पूर्ण विकास;	নিষ্পত্তি, পরিপাক;	निष्पत्ति, परिपाक;	ripeness, maturity, perfection, consummation, full development;
		2. कार्यान्वयन, पालन, निष्पादन;	সমাপন, সমাপ্তি;	समापन, समाप्ति;	execution, implementation;
		3. उद्देश्य, कार्य आदि की सिद्धि, उपलब्धि।	সিদ্ধি	सिद्धि	completion, accomplishment, attainment, achievement.
निष्पन्न	वि.	1. भली–भाँति पूरा किया हुआ, कार्यान्वित;	নিষ্পন্ন, সম্পাদিত, সমাপ্ত;	निष्पन्न, सम्पादित, समाप्त;	executed, implemented;
		2. परिपक्व, पूर्ण, पूरी तरह विकसित;	পরিপক্ক, পূর্ণ;	परिपक्क, पूर्न;	ripe, mature, fully developed;
		3. सिद्ध, उपलब्ध;	সিদ্ধ;	सिद्ध;	completed, accomplished, attained, achieved;
		4. उत्पन्न, आविर्भूत।	জাত	जात	born, arisen, sprung up, produced.
निष्पादन	पुं.	आज्ञा, आदेश, नियम, निश्चय आदि के अनुसार कोई काम ठीक तरह से पूरा करना, तामील, कार्यान्वयन, पालन।	নিষ্পাদন, সম্পাদন, সাধন	निष्पादन, सम्पादन, साधन	execution, implementation.
निष्पादित	वि.	दे. 'निष्पन्न'।	দ্রষ্টব্য 'নিষ্পন্ন'	द्रष्टव्य 'निष्पन्न'	see 'निष्पन्न'.
निष्पाप	वि.	पापरहित।	নিষ্পাপ, পাপহীন	निष्पाप, पापहीन	sinless, guiltless, free from vice.
निष्प्रभ	वि.	1. प्रभा–हीन, द्युतिहीन, कांतिरहित;	নিষ্প্রভ, প্রভাহীন, দীপ্তিশূন্য;	निष्प्रभ, प्रभाहीन, दीप्तिशून्य;	deprived of light or radiance, lustreless;
		2. घबराया हुआ, हतप्रभ, किंकर्तव्यविमूढ़।	ম্লান, নিস্তেজ	म्लान, निस्तेज	put out of countenance, non-plussed disconcerted, out of wits.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निष्प्रभाव	वि.	1. प्रभावहीन, अप्रभावी;	প্রভাবহীন;	प्रभाबहीन;	ineffective;
		2. रद्द, अकृत, व्यर्थ, अमान्य, प्रभावशून्य।	বাতিল, ব্যর্থ	बातिल, ब्यर्थ	nullified, invalidated.
निष्प्रयोजन	वि.	1. प्रयोजनरहित; निरुद्देश्य,	নিষ্প্রয়োজন, অভিপ্রায়হীন;	निष्प्रयोजन, अभिप्रायहीन;	without a purpose or object, aimless;
		2. व्यर्थ का, निरर्थक, फजूल, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो।	অনাবশ্যক, নিরর্থক	अनाबश्यक, निरर्थक	vain, fruitless, useless.
	क्रि.वि.	बिना किसी प्रयोजन, मतलब के, अनावश्यक, व्यर्थ।	বিনা আয়োজনে, উদ্দেশ্যহীনভাবে	बिना आयोजने, उद्देश्यहीनभाबे	without any object, aimlessly, unnecessarily, in vain.
निष्प्राण	वि.	1. मरा हुआ, मृत;	নিষ্প্রাণ, প্রাণহীন;	निष्प्रान, प्रानहीन;	lifeless, dead;
		2. उत्साहहीन, जीवटरहित, कमजोर;	সজীবতাশূন্য;	सजीबताशून्य;	spiritless, without vigour, lifeless, weak, dull;
		3. जिसमें प्राण न हों, निर्जीव, जड़।	জড়	जड़	inanimate, insentient.
निष्फल	वि.	जिससे किसी फल की प्राप्ति या सिद्धि न हो, व्यर्थ, निरर्थक, विफल।	নিষ্ফল, ফলশূন্য, ব্যর্থ, নিরর্থক, বিফল	निष्फल, फलशून्य, ब्यर्थ, निरर्थक, बिफल	fruitless, unsuccessful, futile, vain.
निसबत (निस्बत)	स्त्री.	1. संबंध, लगाव, रिश्ता;	সম্বন্ধ;	सम्बन्ध;	relation, relationship, connexion;
		2. अनुपात, समानुपात (गणित);	অনুপাত;	अनुपात;	ratio, proportion (in maths.);
		3. तुलना, मुकाबला।	তুলনা	तुलना	comparison.
	क्रि.वि.	(किसी के) बारे में, संबंध में।	বিষয়ে, সম্বন্ধে	बिषये, सम्बन्धे	about.
निसर्ग	पुं.	1. स्वभाव, प्रकृति;	নিসর্গ, স্বভাব, প্রকৃতি;	निसर्ग, स्वभाब, प्रकृति;	nature, natural character, natural state or condition;
		2. सृष्टि।	সৃষ্টি	सृष्टि	creation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निसर्गतः	क्रि.वि.	स्वाभाविक रूप से, प्रकृति के अनुसार, स्वभावतः।	निসর্গতঃ, স্বভাবতঃ	निसर्गतः, स्वभावतः	by nature. naturally, spontaneously.
निसृत	वि.	1. निकला हुआ, बाहर आया हुआ;	निर्गত, বহির্গত;	निर्गत, बहिर्गतः;	gone away, come forth;
		2. किसी आवरण, स्थान आदि से बाहर निकाला हुआ।	निःসারিত, নিষ্কাসিত	निःसारित, निष्कासित	taken out, unsheathed.
निस्तब्ध	वि.	1. जो हिलता--डोलता न हो, स्तंभित, निश्चेष्ट;	নিস্তব্ধ, নিশ্চল, নিস্পন্দ, স্তম্ভিত;	निस्तब्ध, निश्चल, निस्पद, स्तम्भितः;	without motion, stopped, fixed, still, paralysed;
		2. कोलाहलरहित, शांत।	নীরব, নিঃশব্দ	नीरव, निःशब्द	without noise, quiet, silent.
निस्तब्धता	स्त्री.	खामोशी, सन्नाटा, नीरवता।	নিস্তব্ধতা, নীরবতা	निस्तब्धता, नीरवता	noiselessness, quietness.
निस्तार	पुं.	1. (संकट आदि से) छुटकारा, उद्धार;	নিস্তার, পরিত্রাণ, উদ্ধার;	निस्तार, परित्रान, उद्धारः;	getting rid of or away from, liberation, release, rescue, escape, acquittal;
		2. तैरकर पार होने की क्रिया या भाव;	নিস্তার, পার, তরণ;	निस्तार, पार, तरन;	crossing, passing over or across;
		3. काम पूरा करके उससे छुट्टी पाना।	অব্যাহতি	अव्याहति	relief.
निस्तारक	पुं.वि.	1. पार उतारनेवाला;	নিস্তারক, নিস্তারকারী;	निस्तारक, निस्तारकारी;	one who takes or carries across over or one who brings someone across;
		2. झंझटों, बंधनों आदि से छुड़ानेवाला।	পরিত্রাণকারী, উদ্ধারকারী	परित्रानकारी, उद्धारकारी	rescuing, releasing, saving, rescuer, deliverer, saviour.
निस्तारण	पुं.	1. बंधनों आदि से छुड़ाना, मुक्त करना;	ত্রাণকরণ;	त्रानकरन;	rescuing, delivering liberating, saving etc.;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. नदी आदि के पार करना या ले जाना;	পারকরা;	पारकरा;	passing or conveying across;
		3. कार्य आदि पूरा करना, निपटाना।	কার্যাদি সম্পূর্ণ করা	कार्जादि सम्पूर्न करा	disposal, settling, accomplishment.
निस्तीर्ण	वि.	1. जो पार उतर चुका हो;	উত্তীর্ণ;	उत्तीर्न;	crossed, passed over;
		2. जिसका संकट आदि से छुटकारा हो चुका हो, मुक्त;	সঙ্কটাদিমুক্ত;	सङ्कटादिमुक्त;	rescued, delivered, saved, liberated;
		3. पूरा किया हुआ।	সমাপ্ত, সম্পূর্ণ	समाप्त, सम्पूर्न	fulfilled, accomplished, disposed.
निस्तेज	वि.	1. जिसमें तेज न हो या आभा न हो;	নিস্তেজ, যাহার তেজ নাই;	निस्तेज जाहार तेज नाइ;	lustreless, pallied;
		2. उत्साहहीन, साहसरहित, जोशरहित।	নিরুৎসাহ	निरुत्साह	spiritless, dull, without vigour.
निस्पंद	वि.	दे. 'निष्पंद'।	দ্রষ্টব্য 'নিষ্পন্দ'	द्रष्टव्य 'निष्पन्द'	see 'निष्पंद'.
निस्पृह	वि.	दे. 'निःस्पृह'।	দ্রষ্টব্য 'নিঃস্পৃহ'	द्रष्टव्य 'निःस्पृह'	see 'निःस्पृह'.
निस्संकोच	वि.	संकोचरहित, लज्जारहित।	নিঃসঙ্কোচ, কুন্ঠাহীন	निःसङ्कोच, कुन्ठाहीन	without hitch or hesitation, unhesitating.
	क्रि. वि.	बेधड़क, बिना किसी संकोच के।	নিঃসঙ্কোচে	निःसङ्कोचे	unhesitatingly.
निस्संग	वि.	1. जो किसी से कोई संबंध न रखता हो;	নিঃসংগ, সম্পর্কহীন;	निःसङ्ग, सम्पर्कहीन;	not attached (to), unattached, unconnected, separated, separate;
		2. सांसारिक विषय-वासनाओं से रहित, उदासीन।	নিরাসক্ত, বিষয়াসক্তিহীন	निरासक्त, बिषयासक्तिहीन	without attachment, indifferent, one who has renounced all worldly attachments.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
निस्संतान	वि.	जिसे कोई संतान न हो।	নিঃসন্তান, সন্তানহীন	निःसन्तान, सन्तानहीन	destitute of offspring, without issue, childless.
	क्रि.वि.	बिना किसी संतान के।	নিঃসন্তান অবস্থায়	निःसन्तान अवस्थाय	without any child or issue.
निस्संदेह	वि.	जिसमें संदेह न हो, असंदिग्ध, निश्चित।	নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয়	निःसन्देह, निःसंशय	not doubtful, undoubted, certain.
	क्रि.वि.	1. बिना किसी प्रकार के संदेह के; 2. निश्चित रूप से, अवश्य।	নিঃসন্দেহে; নিশ্চিতরূপে	निःसन्देहे; निश्चितरूपे	doubtlessly, undoubtedly; surely, certainly.
निस्सरण	पुं.	1. निकलने की क्रिया या भाव; 2. निकलने का मार्ग या स्थान, निर्गम।	নিঃসরণ, নির্গমন, বহির্গমন; নির্গমপথ	निःसरन, निर्गमन, बहिर्गमन; निर्गमपथ	going forth or out, coming forth; exit or outlet.
निस्सार	वि.	1. सारहीन; 2. व्यर्थ, निरर्थक।	নিঃসার, অসার; অকিঞ্চিৎকর	निःसार, असार; अकिंचित्कर	unsubstantial; meaningless, worthless, vain.
निस्सारण	पुं.	1. निकालने की क्रिया या भाव; 2. रस, अर्क आदि निकालने की क्रिया या भाव, निष्कर्षण।	নিঃসারণ, বহিষ্করণ; নিষ্কাসন, নিঙ্ড়ান	निःसारन, बहिष्करन; निष्कासन, निङ्ड़ान	causing to go or come out; causing to flow out, extraction.
निस्सारित	वि.	निकाला हुआ, बाहर किया हुआ।	নিঃসারিত, বহিষ্কৃত, নিষ্কাশিত	निःसारित, बहिष्कृत, निष्काशित	caused to go or come out, caused to flow out, extracted.
निस्सीम	वि.	1. जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, अनंत;	নিঃসীম, সীমাহীন, অসীম, অনন্ত;	निःसीम, सीमाहीन, असीम, अनन्त;	having no boundaries or limits, unbounded, boundless, immeasurable, infinite;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बहुत अधिक।	অত্যন্ত বেশী	अत्यन्त बेशी	excessive, very much.
निस्स्वार्थ	वि.	जिसमें स्वयं अपने लाभ या हित का कोई विचार न हो, स्वार्थरहित।	নিঃস্বার্থ, স্বার্থহীন	निःस्वार्थ, स्वार्थहीन	selfless, unselfish.
	क्रि. वि.	बिना किसी स्वार्थ या मतलब के।	নিঃস্বার্থভাবে	निःस्वार्थभावे	without any self interest, selflessly.
निहत्था	वि.	जिसके हाथ में कोई शस्त्र न हो, शस्त्रहीन।	শস্ত্রহীন, নিরস্ত্র	शस्त्रहीन, निरस्त्र	without arms, unarmed.
निहाई	स्त्री	लोहारों और सुनारों का लोहे का वह टुकड़ा जिस पर वे धातु के टुकड़ों को रखकर हथौड़े से कूटते या पीटते हैं।	নিহাই, নেহাই	निहाइ, नेहाइ	anvil.
निहानी	स्त्री.	नक्काशी करने का एक उपकरण।	নক্শার কাজ করার বাটালি বিশেষ	नकशार काज करार बाटालि बिशेष	gouge.
निहायत	क्रि. वि.	बहुत अधिक, अत्यन्त।	নেহাৎ, অতিশয়, অত্যন্ত	नेहात्, अतिशय, अत्यन्त	very much, extremely, excessive.
निहारना	स.क्रि.	अच्छी तरह और ध्यानपूर्वक अथवा टक लगाकर देखना।	নিহারা, নিরীক্ষণ করা	निहारा, निरीक्षन करा	to look at, to see, to behold closely or attentively, to gaze at
निहाल	वि.	1. जो सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न हो गया हो; 2. धन, दौलत आदि मिलने पर जो मालामाल या समृद्ध हुआ हो, पूर्णकाम, सफल मनोरथ, तृप्त।	সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট, প্রসন্ন; পূর্ণকাম, সফল মনোরথ	सर्बप्रकारे सन्तुष्ट, प्रसन्न; पूर्नकाम, सफल मनोरथ	pleased, happy, delighted; prosperous, flourishing, fully satisfied, of fulfilled desires, gratified.
निहित	वि.	1. (चीज) जो किसी दूसरी चीज के अंदर स्थित हो और बाहर से न दिखाई देती हो, अंदर छिपा या दबा हुआ, अंतर्हित, प्रच्छन्न;	নিহিত, গুপ্ত, নিগূঢ়;	निहित, गुप्त, निगूढ़;	latent, inherent;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. दिया या सौंपा हुआ;	দত্ত, অর্পিত;	दत्त, अर्पित;	vested, delivered, entrusted, bestowed upon;
		3. विवक्षित, लक्षित, अंतर्निहित, ध्वनित (अर्थ);	অন্তর্নিহিত (অর্থ);	अन्तर्निहित (अर्थ);	implied (meaning)
		4. रखा या स्थापित किया हुआ।	নিহিত, রক্ষিত, স্থাপিত	निहित, रक्षित, स्थापित	placed, laid, deposited, vested.
नींद	स्त्री.	कुछ घंटों तक होने वाली शरीर की वह प्राकृतिक दशा या अवस्था जिसमें स्नायविक क्रियाएं रुकी रहती हैं, आखें बंद रहती हैं, मांस–पेशियां ढीली पड़ जाती हैं और बाह्य चेतना प्रायः लुप्त रहती है।	নিদ, (কেবল পদ্যে) নিদ্রা	निद, (केबल पद्ये) निद्रा	sleep.
नींव (नीव)	स्त्री.	1. धरातल या फर्श के नीचे जमीन के अंदर का वह ठोस आधार जिस पर से दीवार की जुड़ाई आरंभ होती है, जमीन के अंदर का दीवार का निचला हिस्सा, बुनियाद;	ভিত্তি;	भित्ति;	solid ground or base on which building rests, lowest part of building usually below ground level, foundation (of a wall etc.), base;
		2. लाक्षणिक अर्थ में वह आरंभिक और मौलिक कार्य जिसे आगे चलकर बहुत अधिक उत्कृष्ट और उन्नत रूप मिला हो, आधार मूलाधार।	মূল, আধার	मूल, आधार	ground, basis.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नीच	वि.	1. तुच्छ, कमीना, ओछा; 2. घटिया, निकृष्ट, अवर।	নীচ, হীন, অধম; নিকৃষ্ট, নিম্ন	नीच, हीन, अधम; निष्कृष्ट, निम्न	mean, base, vile; inferior, low, lowly.
नीचता	स्त्री.	1. बहुत ही हेय आचरण या व्यवहार, तुच्छता, कमीनापन, ओछापन;	নীচতা, হীনতা, ইতরতা, ক্ষুদ্রতা;	नीचता, हीनता, इतरता, क्षुद्रता;	vileness, baseness, meanness;
		2. घटियापन, निकृष्टता, अवरता।	হেয়তা, নিকৃষ্টতা	हेयता, निकृष्टता	lowliness, inferiority.
नीचा	वि.	1. जो किसी प्रसम धरातल या स्तर से निम्न स्तर पर स्थित हो;	নিচা, নিম্নস্থান;	निचा, निम्नस्थान;	low; low lying;
		2. जो ऊंचाई में सामान्य की अपेक्षा कम हो, अपेक्षाकृत कम ऊंचा;	নীচু, অপেক্ষাকৃত কম উঁচু;	नीचु, अपेक्षाकृत कम उंचु;	lower (in height etc.);
		3. अधिकार, पद, मर्यादा आदि की दृष्टि से जो औरों से घटकर हो, छोटा, अवर।	নিম্ন	निम्न	inferior, lower.
नीचाई (निचाई)	स्त्री.	अपेक्षाकृत नीचे होने की अवस्था या भाव, निचान।	নীচতা	नीचता	lowness.
नीचे	क्रि. वि.	1. किसी की तुलना में निम्न धरातल पर;	নীচে, নিম্নে;	नीचे, निम्ने;	beneath, down, below;
		2. अधोभाग में;	অধোভাগে;	अधोभागे;	in the lower part or portion;
		3. किसी की अधीनता या वश में।	কাহারো অধীনে	काहारो अधीने	subordinate to, under.
नीचे–ऊपर	क्रि. वि.	1. एक पर एक, क्रमशः;	উপর-নীচে একটি উপরে এবং একটি নীচে এই ভাবে;	उपर-नीचे एकटि उपरे एवं एकटि नीचे एइ भावे;	in succession, one above and the other below;
		2. अस्त–व्यस्त, उलटा–पुलटा।	উলটিপালটিভাবে	उलटिपालटिभावे	upside - down, topsy - turvy, in disorder.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नीड़	पुं.	चिड़ियों का घोंसला।	নীড়, পক্ষীর বাসস্থান	नीड़, पक्षीर बासस्थान	nest (of a bird).
नीति	स्त्री.	1. ऐसा आचार—व्यवहार जो सबकी दृष्टि में लोक या समाज के कल्याण के लिए आवश्यक और उचित ठहराया गया हो, सदाचार, सद्व्यवहार आदि के नियम या रीतियां, नैतिकता, औचित्य;	নীতি, ধর্মসংগত বা সমাজহিতকর বিধান;	नीति, धर्मसङ्गत बा समाजहितकर बिधान;	moral conduct, morality, ethics, expediency;
		2. राज्य या शासन की रक्षा और व्यवस्था के लिए स्थिर किए हुए सिद्धांत;	রাষ্ট্রনীতি;	राष्ट्रनीति;	policy, state policy statecraft;
		3. अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कौशल से किया जानेवाला आचरण, चालाकी;	উপায়;	उपाय;	craftiness, policy;
		4. आचार, व्यवहार आदि का ढंग, पद्धति या रीति।	শিষ্টাচরণের প্রণালী, রীতি	शिष्टाचरनेर प्रनाली, रीति	manner of conducting oneseif, behaviour, course of action.
नीतिज्ञ	वि.,पु.	1. नीति को जाननेवाला, नीतिवादी, सदाचारी;	নীতিবেত্তা, নীতিবাদী, সদাচারী;	नीतिबेत्ता, नीतिबादी, सदाचारी;	knowing what is right in morals, moralist;
		2. नीतिकुशल, राजनीति-विशारद, चतुर।	নীতিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, নীতিকুশল	नीतिज्ञ, नीतिशास्त्रे अभिज्ञ, नीतिकुशल	one versed in politics, a statesman, politician, politic, prudent.
नीतिमान्	वि.	1. नीतिपरायण, सदाचारी;	নীতিপরায়ণ, সদাচারী;	नीतिपरायन, सदाचारी;	knowing the rules of moral behaviour, moral person, moralist;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. राजनीतिकुशल, नीतिनिपुण, चतुर।	রাজনীতিকুশল, নীতিনিপুণ, চতুর	राजनीतिकुशल, नीतिनिपुन, चतुर	skilled in politics, politician, politic, prudent, sagacious.
नीतिवादी	पुं., वि.	1. जो नीति–शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार सब काम करता हो, सदाचारी, नीतिवाद का अनुयायी;	নীতিবাদী, নীতিপরায়ণ;	नीतिबादी, नीतिपरायन;	moralist, follower of moralism;
		2. नीतिवाद-संबंधी।	নীতিবাদ সম্পর্কিত	नीतिबाद सम्पर्कित	relating or pertaining to moralism.
नीतिशास्त्र	पुं.	वह शास्त्र जिसमें देश, काल और पात्र के अनुसार समाज के कल्याण के लिए उचित और ठीक आचार–व्यवहार करने के नियमों, सिद्धांतों आदि का विवेचन होता है।	নীতিশাস্ত্র, ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিচার-বিষয়ক শাস্ত্র	नीतिशास्त्र, न्याय-अन्याय भालमन्द कर्तव्याकर्तव्य बिषये बिचार-बिषयक शास्त्र	the science of morality, moral science, ethics.
नीबू(नींबू)	पुं.	एक पौधा तथा उसके फल जो गोलाकार या लंबोतरे तथा खट्टे रस से भरे होते हैं।	নেবু, লেবু	नेबु, लेबु	lemon, lime (tree and fruit).
नीम	पुं.	छोटी–छोटी पत्तियोंवाला एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी पतली शाखाओं की दातुन बनती है और जिसकी छाल और पत्तियां अनेक प्रकार के कृमियों की नाशक मानी गई हैं।	নীম, নিম, নিম্ববৃক্ষ, নিম গাছ	नीम, निम, निम्बबृक्ष, निम गाछ	margosa tree, neem tree.
नीम–हकीम	पुं.	बहुत कम जानकारी रखनेवाला चिकित्सक, (ला.) कच्चा जानकार।	হাতুড়ে চিকিৎসক আনাড়ি	हातुड़े चिकित्सक आनाड़ि	quack, empiric.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नीयत	स्त्री.	मनोगत या आंतरिक आशय, उद्देश्य या लक्ष्य, भावना, मंशा, इरादा।	মনোগত অভিলাষ, উদ্দেশ্য, মতলব	मनोगत अभिलाष, उद्देश्य, मतलब	motive, intention.
नीर	पु.	1. जल, पानी; 2. जल की तरह का तरल पदार्थ।	নীর, জল, বারি; জলের মতো তরল পদার্থ	नीर, जल, वारि; जलेर मतो तरल पदार्थ	water; water-like liquid.
नीरक्षीरविवेक	पु.	(मिले हुए पानी और दूध को अलग-अलग करने का ज्ञान या शक्ति) ऐसा विवेक या ज्ञान जो भले-बुरे, न्याय अन्याय आदि में ठीक, पूरा और स्पष्ट भेद या विभाग कर सके।	জলমিশান দুধ থেকে জল ও দুধ পৃথক্ করার জ্ঞান বা শক্তি, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ মিশান থাকিলে ন্যায় এবং অন্যায়, ভাল এবং মন্দ পৃথক্ করার শক্তি	जलमिशान दुध थेके जल ओ दुध पृथक् करार ज्ञान बा शक्ति, न्याय-अन्याय, भाल-मन्द मिशान थाकिले न्याय एवं अन्याय, भाल एवं मन्द पृथक् करार शक्ति	(lit. knowledge or power of discriminating water and milk mixed together) discriminatory power of distinguishing right and wrong, good and bad, just and unjust and so on, power of discrimination.
नीरज	पु.	1. जो जल से उत्पन्न हुआ हो; 2. कमल।	জলোৎপন্ন বস্তু; নীরজ, পদ্ম	जलोत्पन्न बस्तु; नीरज, पद्म	born or produced in water; a lotus (in general).
	वि.	जो जल से उत्पन्न हुआ हो।	জলোৎপন্ন	जलोत्पन्न	water-born, produced in water.
नीरधि	पुं.	समुद्र, सागर।	নীরধি, সমুদ্র	नीरधि, समुद्र	the ocean.
नीरव	वि.	1. निःशब्द, ध्वनि या आवाज़ से रहित; 2. चुप, मौन, शांत।	নীরব, নিঃশব্দ, রবশূন্য; চুপ, মৌনী	नीरव, निःशब्द, रबशून्य; चुप, मौनी	not making any noise, noiseless, soundless; silent, quiet, calm.
नीरवता	स्त्री.	1. चुप होने की अवस्था या भाव, मौन, शांति; 2. सन्नाटा, निःशब्दता।	নিরবতা, মৌন; নিঃশব্দতা	निरबता, मौन; निःशब्दता	silence, calmness; noiselessness, soundlessness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नीरस	वि.	1. फीका, स्वादहीन;	নীরস, স্বাদ রহিত;	नीरस, स्वाद रहित;	tasteless, flat, flavourless, insipid;
		2. रसहीन;	রসহীন;	रसहीन;	sapless, without juice;
		3. जिसमें कोई आकर्षक, मनोरंजक या रुचिकर तत्व या बात न हो;	যাহা মন আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না;	जाहा मन आकर्षन बा मुग्ध करे ना;	wanting in charms, charmless, uninteresting, prosaic;
		4. शुष्क, सूखा;	শুষ্ক;	शुष्क;	withered or dried up, dry;
		5. (ला.) सौंदर्यबोध की वृत्ति से रहित।	রসবোধবর্জিত	रसबोधवर्जित	(fig.) lacking aesthetic sense.
नीरा	स्त्री.	खजूर या ताड़ के वृक्ष का वह रस जो प्रातःकाल उतारा जाता है और जो पीने में स्वादिष्ट और गुणकारी होता है।	খেজুর বা তালের রস	खेजुर बा तालेर रस	juice of date-palm or palm tree.
नीरोग	वि.	रोगरहित, स्वस्थ।	নীরোগ, রোগহীন, সুস্থ	निरोग, रोगहीन, सुस्थ	free from sickness or disease, healthy, sound.
नील	वि.	गहरे आसमानी रंग का।	নীল, নীলবর্ণ	नील, नीलबर्न	blue.
	पुं.	एक प्रसिद्ध पौधा तथा उसके नीले रंग के फूलों से निकाला जानेवाला नीला रंग जो प्रायः धुलाई, रंगाई आदि के काम आता है।	নীলগাছ, নীলগাছ হইতে উৎপন্ন রঞ্জন দ্রব্য	नीलगाछ, नीलगाछ हइते उत्पन्न रंजन द्रव्य	indigo (the plant and the dye).
नीलकंठ	पुं.	1. एक प्रकार की छोटी चिड़िया जिसका गला और डैने नीले होते हैं;	নীলকন্ঠ, নীলবর্ণ কন্ঠবিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ;	नीलकन्ठ, नीलबर्न कन्ठबिशिष्ट पक्षिबिशेष;	(blue-necked) jay;
		2. शिव का एक नाम;	শিব;	शिब;	an epithet of Siva;
		3. मोर।	ময়ূর	मयुर	a peacock;
	वि.	जिसका कंठ नीला हो।	যাহার কন্ঠ নীল	जाहार कन्ठ नील	blue-necked.
नीलगाए	स्त्री.	नीलापन लिए भूरे रंग का एक वन्य पशु जो गाए के आकार का होता है।	নীল গাই, গোসদৃশ	नील गाइ, गोसदृश	blue bull.
नीलम	पुं.	नीले रंग का एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि।	নীলমণি, নীলা	नीलमनि, नीला	sapphire.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नीला	वि.	आकाश या नील की तरह के रंग का, आसमानी।	নীলবর্ণ	नीलबर्न	blue, azure.
नीलाथोथा	पुं.	तांबे का एक यौगिक, तूतिया।	তুঁতিয়া, তুঁতে	तुँतिया, तुँते	sulphate of copper.
नीलाम	पुं.	सार्वजनिक बिक्री का वह ढंग जिसमें सबसे अधिक दाम लगानेवाले के हाथ वस्तुएं बेची जाती हैं।	নীলাম, নিলাম	नीलाम, निलाम	auction, public sale.
नीलाम–घर	पुं.	वह स्थान जहां चीजें नीलाम की जाती हों।	যেখানে নিলাম করা হয় সেই স্থান	जेखाने निलाम करा हय सेइ स्थान	an auction room.
नीलामी	स्त्री.	1. नीलाम करने की क्रिया, ढंग व भाव;	নিলাম;	निलाम;	auctioning, auction;
		2. नीलाम के रूप में बिकनेवाला या बिका हुआ।	যাহা নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে বা হইবে	जाहा निलामे बिक्रय करा हइयाछे बा हइबे	sold or to be sold in auction.
नीलिमा	स्त्री.	नीलापन।	নীলিমা, নীলত্ব	नीलिमा, नीलत्ब	blueness, bluishness.
नीवी (वि)	स्त्री.	1. स्त्रियों की कमर में लपेटी हुई धोती की गाँठ;	নীবী, নারীর কটিবস্ত্র বন্ধন, কাছে পরিধেয় বস্ত্রের গিঁট বা বাঁধন;	नीवी, नारीर कटिबस्त्र बन्धन, काछे परिधेय बस्त्रेर गिंट बा बांधन;	the knot of the garment worn round a woman's waist;
		2. इजारबंद।	কটিবন্ধন	कटिबन्धन	a waist-cord.
नीहार	पुं.	1. कोहरा;	নীহার, কুজ্ঝটিকা;	नीहार, कुज्झटिका;	fog, mist;
		2. तुषार, पाला।	তুষার, হিম	तुषार, हिम	frost, heavy dew.
नीहारिका	स्त्री.	रात के समय आकाश में दिखाई पड़नेवाले घने कोहरे की तरह के प्रकाश-पुंज।	নীহারিকা	नीहारिका	nebula.
नुकती (नुगदी)	स्त्री.	महीन और मीठी बुंदिया जिसके प्रायः लड्डू बनाये जाते हैं।	বুঁদিয়া, বোঁদে	बुँदिया, बोंदे	a kind of small sweetmeat.
नुकसान	पुं.	1. किसी काम या व्यापार में होने वाला घाटा, हानि, कमी;	লোকসান, ক্ষতি;	लोकसान, क्षति;	loss, disadvantage;
		2. किसी प्रकार होनेवाली खराबी या विकार ;	অনিষ্ট;	अनिष्ट;	harm;
		3. क्षति जिससे किसी काम, बात या व्यवहार में कमी पड़ती या बाधा होती है।	হানি, ব্যাঘাত, বাধা	हानि, ब्याघात, बाधा	damage.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नुकीला (नोकीला)	वि.	1. जिसमें नोक हो;	ছুঁচাল;	छुंचाल;	pointed;
		2. तेज नोकवाला।	চোখা, তীক্ষ্ণ;	चोखा, तीक्ष्न;	having a sharp point, sharp pointed.
नुक्कड़	पुं.	1. मकान, गली या रास्ते का वह अंत या सिरा जहां कोई मोड़ पड़ता हो;	মোড়, বাঁক;	मोड़, बांक;	turning point (of a street etc.),end, turn;
		2. कोना, नोक की तरह आगे निकला हुआ कोना या सिरा।	কোণ	कोन	corner, projecting corner.
नुक्ता (नुकता)	पुं.	1. लेखन में अक्षरों के साथ लगाई जानेवाली बिंदी, बिंदु;	বিন্দু, লেখার সময় অক্ষরের সংগে যে-বিন্দু যোগ করা হয়;	बिन्दु, लेखार समय अक्षरेर सङ्गे जे-बिन्दु जोग करा हय;	a dot, a point;
		2. ऐब, दोष।	খুঁত, দোষ	खुंत, दोष	fault, flaw.
नुक्ताचीनी	स्त्री.	दूसरों की बुराइयां करना या ढूंढना, छिद्रान्वेषण।	পরের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান ছিদ্রান্বেষণ, পরচর্চা	परेर दोष-त्रुटिर अनुसंधान, छिद्रान्वेषन, परचर्चा	fault finding, carping, captiousness, cavil, criticism.
नुक्स	पु.	1. दोष, बुराई;	দোষ;	दोष;	fault, flaw, defect;
		2. कसर, कमी, त्रुटि।	কসুর,ত্রুটি	कसुर,त्रुटि	deficiency.
नुचवाना	स. क्रि.	किसी को कुछ नोचने में प्रवृत्त करना, नोचने का काम दूसरे से कराना।	অন্যকে দিয়া খামচানো, খাবলানো	अन्यके दिया खामचानो, खाबलानो	to cause to be scratched or pinched or plucked pulled, to cause to scratch or pinch or pluck or pull.
नुमाइंदगी	स्त्री.	प्रतिनिधि होने की अवस्था या भाव, प्रतिनिधित्व।	প্রতিনিধিত্ব	प्रतिनिधित्व	representation, delegacy.
नुमाइंदा	पुं.	वह जो दूसरों का प्रतिनिधित्व करता हो, प्रतिनिधि।	প্রতিনিধি	प्रतिनिधि	representative, delegate.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नुमाइश	स्त्री.	1. नाना प्रकार की कलात्मक, उपयोगी नई वस्तुओं का एक स्थान पर किया जानेवाला सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रदर्शनी;	প্রদর্শনী;	प्रदर्शनी;	exhibition;
		2. दिखावा, प्रदर्शन।	লোকদেখান, প্রদর্শন	लोकदेखान, प्रदर्शन	(fig) a show, display.
नुमाइशी	वि.	1. दिखावटी;	লোক দেখান;	लोक देखान;	showy, ostensible, ostentatious;
		2. नुमाइश–संबंधी;	প্রদর্শনী সম্পর্কিত;	प्रदर्शनी सम्पर्कित;	relating or pertaining to an exhibition;
		3. (वस्तु) जो नुमाइश में रखी गई हो या रखी जानी हो, प्रदर्शनार्थ रखी गई (वस्तु)।	যাহা লোককে দেখাইবার জন্য রাখা হইয়াছে এমন (জিনিস), প্রদর্শনযোগ্য	जाहा लोकके देखाइबार जन्य राखा हइयाछे एमन (जिनिस), प्रदर्शनजोग्य	meant for show, display or exhibition.
नुस्खा (नुसखा)	पु.	औषध तथा उसकी सेवनविधि के संबंध में दिया गया चिकित्सक का (प्रायः लिखित) निदेश।	ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র	औषधादिर व्यबस्थापत्र	recipe, prescription, direction of a physician for composition and use of medicine.
नूतन	वि.	1. नवीन, नया; 2. तुरंत या हाल का; 3. अनोखा, अनूठा	নূতন, নবীন; ইদানীন্তন; অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব	नूतन, नबीन; इदानीन्तन; अभिनब अदृष्टपूर्ब	new, novel, fresh; recent, modern; curious, strange.
नूतनता	स्त्री.	नूतन होने की अवस्था या भाव, नवीनता, नयापन।	নূতনতা, নতুনত্ব, নবীনতা	नूतनता, नतुनत्ब, नबीनता	newness, freshness, novelty.
नून–तेल	पु.	(मुहा.) (नमक और तेल) घर–गृहस्थी के लिए आवश्यक खाद्य–पदार्थ और शेष सामग्री।	নুন তেল, ঘর-গৃহস্থির অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী	नुन, तेल, घर-गृहस्थिर अत्याबश्यक खाद्यसामग्री	(lit . salt and oil) the necessaries of life.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नूपुर	पुं.	1. स्त्रियों के पैर का एक आभूषण, पायल, पैंजनी;	নূপুর পায়ের অলঙ্কারবিশেষ, মঞ্জীর;	नूपुर, पायेर अलङ्कारबिशेष, मंजीर;	ornament for the feet, anklet;
		2. घुंघरू।	ঘুঙুর	घुङुर	kind of tinkling ornament for the ankles, set of jingling bells worn around the ankles.
नूर	पुं.	1. ज्योति, प्रकाश; 2. आभा, चमक, दीप्ति।	নূর, জ্যোতি; দীপ্তি	नुर, ज्योति; दीप्ति	light; brilliance, lustre, resplendence.
नृतत्वशास्त्र	पुं.	वह शास्त्र जिसमें मानव जाति की उत्पत्ति और विकास आदि का विवेचन होता है, मानवविज्ञान।	নৃতত্ত্ব	नृतत्व	anthropology.
नृत्त	पुं.	(पारि) नाच, वह नाच जिसमें अंगों का विक्षेप भी किया जाता है।	নৃত্ত, নৃতি, নর্তন	नृत्त, नृति, नर्त्तन	Arc. dancing, (tech) a dance with deflexion of limbs, gesticulation.
नृत्य	पुं.	ताल, लय आदि के अनुसार शरीर के अंगों का किया जानेवाला संचालन, नाच।	নৃত্য, নাচ, তালমানাদিযুক্ত সবিলাস গাত্রবিক্ষেপ	नृत्य, नाच, तालमानादिजुक्त सबिलास गात्रबिक्षेप	dancing, a dance, gesticulation.
नृत्यगीत	पुं.	1. ऐसा नृत्य जिसमें नर्तक साथ–साथ गाते भी हैं;	গানের সহিত নাচ;	गानेर सहित नाच;	dance accompanied by music or song;
		2. नृत्य और गीत, नाचगाना।	নৃত্যগীত, নাচগান	नृत्यगीत, नाचगान	dancing and singing, dance and song or music.
नृत्यशाला	स्त्री.	नाचघर।	নৃত্যশালা,নাচঘর	नृत्यशाला नाचघर	dancing hall.
नृप	पुं.	राजा।	নৃপ, রাজা	नृप, राजा	ruler of men, king, monarch.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नृपति	पुं.	दे. 'नृप'।	দ্রষ্টব্য 'নৃপ'	द्रष्टव्य 'नृप'	see 'नृप'.
नृशंस	वि.	1. निर्दय, क्रूर;	নৃশংস, নিষ্ঠুর, ক্রূর;	नृशंस, निष्ठुर, क्रूर;	cruel, hardhearted, savage;
		2. अत्याचारी।	পরদ্রোহী, হিংস্র	परद्रोही, हिंस्र	tyrannous, atrocious.
नृशंसता	स्त्री.	1. नृशंस होने की अवस्था गुण या भाव, निर्दयता, क्रूरता;	নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা;	नृशंसता, निष्ठुरता, क्रूरता;	cruelty, hardheartedness, savagery;
		2. अत्याचार।	পরদ্রোহিতা	परद्रोहित	tyranny, atrocity.
ने	पर.	हिन्दी में सकर्मक भूतकालिक क्रिया के कर्त्ता के साथ लगनेवाली एक विभक्ति या परसर्ग, कर्ताकारक की विभक्ति या परसर्ग।	হিন্দীতে সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে কর্ত্তার সংগে যুক্ত বিভক্তিবিশেষ, কর্তৃকারকের বিভক্তিবিশেষ	हिन्दीते सकर्मक क्रियार अतीत काले कर्त्तार सङ्गे जुक्त बिभक्तिबिशेष, कर्तृकारकेर बिभक्तिबिशेष	post-position of the agent or active case in Hindi.
नेक	वि.	1. अच्छा, भला;	আচ্ছা, ভাল;	आच्छा, भाल;	good;
		2. सज्जन, शिष्ट;	সজ্জন, শিষ্ট;	सज्जन, शिष्ट;	gentle, virtuous;
		3. शुभ।	শুভ	शुभ	auspicious, lucky.
नेकचलन	वि.	जिसका आचरण उत्तम हो	শিষ্টাচারী	शिष्टाचारी	of good conduct.
नेकनामी	स्त्री.	सुनाम, सुख्याति, प्रतिष्ठा।	নেকনাম, সুনাম, সুখ্যাতি	नेकनाम, सुख्याति	good name, reputation.
नेकनीयत	वि.	1. जिसकी नीयत अच्छी हो, सदाशय;	যাহার উদ্দেশ্য ভাল, সদাশয়;	जाहार उद्देश्य भाल, सदाशय;	well-intentioned, well-meaning, bonafide;
		2. ईमानदार, सच्चा।	ইমানদার, সাচ্চা	इमानदार, साच्चा	honest, sincere.
नेकनीयती	स्त्री.	1. नेकनीयत होने की अवस्था या भाव, सदाशयता;	সদাশয়তা;	सदाशयता;	goodness of intention, good faith, bonafides;
		2. ईमानदारी, सच्चाई।	ইমানদারি	इमानदारि	honesty, sincerity
नेकी	स्त्री.	1. नेक होने की अवस्था या भाव, अच्छाई, सदाशयता, सज्जनता;	সদাশয়তা, সজ্জনতা, ভালমানুষী;	सदाशयता, सज्जनता, भालमानुषी;	goodness, piety, virtue, bonafides;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. परोपकार, भलाई।	পরোপকার, কল্যাণ	परोपकार, कल्यान	beneficence, benevolence, charity.
नेकी–बदी	स्त्री.	1. भलाई और बुराई; 2. शुभ और अशुभ कर्म, पाप–पुण्य।	ভাল এবং মন্দ ভাব বা অবস্থা; শুভ ও অশুভ কর্ম, পাপপুণ্য	भाल एवं मन्द भाव वा अवस्था; शुभ ओ अशुभ कर्म, पापपुन्य	good and evil, good and bad; virtue and vice.
नेग	पु.	मांगलिक और शुभ अवसरों पर संबंधियों, नौकरोंचाकरों आदि को दिया जाने वाला धन, उपहार आदि।	বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনাদিকে প্রদত্ত উপহার, ভৃত্যাদিকে প্রদত্ত বকশিস	बिबाहादि शुभ अनुष्ठाने आत्मीय स्वजनादिके प्रदत्त उपहार, भृत्यादिके प्रदत्त बकशिस	the customary presents at marriages and on other festive occasions made to relatives and dependants.
नेगचार	पु.	मांगलिक अवसरों पर नेग के रूप में थोड़ा–थोड़ा धन या उपहार देने की क्रिया, भाव या विधान।	মাংগলিক অনুষ্ঠানে সময় সময় অল্প অর্থাদি দান বা উপহার প্রদান	माङ्गलिक अनुष्ठाने समय समय अल्प अर्थादि दान वा उपहार प्रदान	act or ceremony of giving customary presents or gifts to relatives and dependants on festive occasions.
नेगी	पुं.	शुभ अवसरों पर नेग पाने का अधिकारी।	শুভ অনুষ্ঠানে উপহার বা অর্থাদি পাওয়ার অধিকার যাহার আছে এমন ব্যক্তি	शुभ अनुष्ठाने उपहार वा अर्थादि पाओयार अधिकार जाहार आछे एमन ब्यक्ति	one who claims or expects the customary presents or gifts on festive occasions.
नेजा	पु.	भाला, बरछा।	নেজা, বরশা	नेज़ा, बरशा	short spear, lance, javelin.
नेता	पुं.	1. किसी धार्मिक संप्रदाय या राजनीतिक या सामाजिक दल का वह व्यक्ति जो लोगों का मार्गदर्शन करता हो और लोगों को अपना अनुयायी बनाकर रखता हो;	নেতা, নায়ক, পরিচালক;	नेता, नायक, परिचालक;	one who leads or guides, a leader, a guide;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. अगुआ, अग्रगामी, किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम या सबसे आगे कोई काम करने वाला।	পথপ্রদর্শক, অগ্রণী	पथप्रदर्शक, अग्रनी	a pioneer.
नेतागीरी (नेतागिरी)	स्त्री.	नेता होने का भाव, कार्य या पद। (हीनार्थ में भी प्रयोग)	নেতাগিরি (তুচ্ছার্থে)	नेतागिरि (तुच्छार्थे)	leadership. (in a derogatory meaning also).
नेती	स्त्री.	1. मथानी चलाने की रस्सी;	মন্থনদন্ডের রজ্জু;	मन्थनदन्डेर रज्जु;	rope or string of a dolly or churning stick;
		2. मुंह और नाक के छिद्र से सूत आदि खींचना। (योग—क्रिया)	হঠযোগের অংগবিশেষ	हठजोगेर अङ्गविशेष	drawing of a thread through the nose and mouth. (yogic exercise)
नेतृत्व	पुं.	नेता बनकर किसी सम्प्रदाय या दल के मार्ग—दर्शन तथा उसके कार्यों के संचालन करने का कार्य, नेता का पद तथा कार्य।	নেতৃত্ব, নেতার পদ বা কাজ, পরিচালকত্ব, নায়কত্ব	नेतृत्व, नेतार पद बा काज, परिचालकत्व, नायकत्व	office or business of a leader, leader-ship, guidance.
नेत्र	पुं.	आंख।	নেত্র, আঁখি, চক্ষু	नेत्र, आंखि, चक्षु	eye.
नेत्रजल	पु.	आंसू।	নেত্রজল, অশ্রু	नेत्रजल, अश्रु	tears.
नेत्रदान	पु.	मृत्यु के बाद अपनी आंखों का किया जाने वाला दान ताकि वह नेत्रहीन लोगों को लगाई जा सकें।	নেত্রদান, অক্ষিদান	नेत्रदान, अक्षिदान	donation of the eyes.
नेपथ्य	पु.	1. रंगमंच का वह भाग जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है और जिसमें अभिनेता उपयुक्त वेश—भूषा आदि से सज्जित होते हैं;	নেপথ্য, রংগালয়ের সাজঘর;	नेपथ्य, रङ्गालयेर साजघर;	retiring-room, the space where the actors attire them-salves (which is always behind the curtain), the back of the stage, green room;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पहनने के कपड़े, (विशेषत: अभिनेताओं के कपड़े);	নেপথ্য, অভিনেতৃগণের বেশভূষা;	नेपथ्य, अभिनेतृगनेर बेशभूषा;	dress, apparel, costume, attire (particularly the costume of an actor);
		3. (tech.) सजावट, सज्जा।	সজ্জা	सज्जा	decoration.
नेफा	पु.	पायजामे, लहंगे आदि में इज़ारबंद डालने का स्थान।	পাজামা ইত্যাদিতে ফিতা লাগাইবার স্থান	पाजामा इत्यादिते फिता लागाइबार स्थान	the stitched hollow part in top of trousers etc. through which a tape or string is inserted for binding it round the waist.
नेम	पु.	1. नियम, कायदा, (विशेषता: धार्मिक कृत्य संबंधी);	নিয়ম, কায়দা;	नियम, कायदा;	rule, principle (of religious conduct);
		2. प्रथा, रीति, धार्मिक रीति;	প্রথা, রীতি, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান;	प्रथा, रीति, धर्मीय आचारानुष्ठान;	customs, religious practice;
		3. नियमित रूप से होती रहनेवाली बात, नित्यकर्म, नित्यचर्या।	যে-ব্যাপার নিয়মিত হয়, নিত্যচর্চা, নিয়মবিধি	जे-ब्यापार नियमित हय, नित्यचर्चा, नियमबिधि	routine.
नेम–धर्म	पु.	संध्या–वंदन, पूजन आदि धार्मिक कृत्य।	সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম	सन्ध्याह्निकादि नित्यकर्म	religious observances and practices.
नेमी	पुं.	बंधी हुई कार्य पद्धति, (fig) सिलसिला, परिपाटी	যাহা নিয়মিতরূপে অনুসরণ করা হয়;	जाहा नियमितरूपे अनुसरन करा हय;	routine.
	वि.	धार्मिक–कृत्य–संबंधी नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाला।	যে ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ক নিয়ম কঠোরভাবে পালন করে	जे धर्मानुष्ठान बिषयक नियम कठोरभावे पालन करे	who is regular in observing the rules of religious conducts, firm in religious observances and practices.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नेवला	पु.	चूहे के आकार का भूरे रंग का चार पैरोंवाला एक जंतु जो सांप को मार डालता है।	নেউল, বেজি	नेउल, बेजि	a mongoose, ichneumon.
नेस्त—नाबूद	वि.	जड़—मूल से नष्ट, समूल नष्ट, पूर्णतः विनष्ट।	নাস্তানাবুদ, পর্য্যুদস্ত, বিধ্বংস	नास्तानाबुद, पर्ज्युदस्त, बिध्वंश	completely destroyed, devastated.
नैतिक	वि.	1. नीति के अनुसार 'होने वाला;	নৈতিক, নীতিসম্বন্ধীয়;	नैतिक, नीतिसम्बन्धीय;	moral;
		2. नीति—युक्त आचरण या व्यवहार से संबंध रखनेवाला;	নীতিযুক্ত;	नीतिजुक्त;	pertaining to morality;
		3. नीतिसंबंधी, नीतिविषयक, नीतिशास्त्रीय।	নীতিশাস্ত্রানুযায়ী	नीतिशास्त्रानुजायी	ethical.
नैतिकता	स्त्री.	नीति—शास्त्र के सिद्धातों के अनुसार किया जानेवाला अच्छा आचरण।	নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্রানুমোদিত আচরণ	नैतिकता, नीतिशास्त्रानु-मोदित आचरन	moral conduct, morality.
नैपुण्य	पु.	दे. 'निपुणता'।	দ্রষ্টব্য 'নিপুণতা'	द्रष्टब्य 'निपुणता'	see 'निपुणता'.
नैमित्तिक	वि.	1. किसी निमित्त या प्रयोजन के उपस्थित होने पर किया जाने वाला या होने वाला, प्रासंगिक, आनुषंगिक;	নৈমিত্তিক, নিমিত্তজন্য, বিশেষ উদ্দেশে অনুষ্ঠেয়;	नैमित्तिक, निमित्तजन्य, बिशेष उद्देश्ये अनुष्ठेय;	functional, occasional, incidental;
		2. आकस्मिक।	আগন্তুক	आगन्तुक	accidental.
नैया	स्त्री.	दे. 'नाव'।	দ্রষ্টব্য 'নাব'	द्रष्टब्य 'नाव'	see 'नाव'.
नैयायिक	पुं	1. न्याय दर्शन का ज्ञाता, न्यायवेत्ता;	নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রবিৎ;	नैयायिक, न्यायशास्त्रबित्;	knowing the Nyaya philosophy.
		2. न्याय दर्शन का अनुयायी।	ন্যায়শাস্ত্রের অনুসরণকারী	न्यायशास्त्रेर अनुसरनकारी	a follower of the Nyaya system of philosophy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नैरंतर्य	पुं.	किसी का क्रम बराबर रहने का भाव या स्थिति, निरंतरता।	নিরন্তরতা, নিরবচ্ছিন্নতা	निस्तरता, नीरबच्छिन्नता	uninterruptedness, close succession, continuity.
नैराश्य	पुं.	1. निराश होने की अवस्था या भाव, नाउम्मेदी; 2. निराश होने के फल—स्वरूप होने वाली उदासी, अवसाद।	নৈরাশ্য, আশাহীনতা, নিরাশা, হতাশা; নিরাশভাব	नैराश्य, आशाहीनता, निराशा, हताशा; निराशभाव	hopelessnes, despair, frustration; dejection, sadness despondency.
नैर्ऋत्य	वि.	निर्ऋति संबंधी, दक्षिण—पश्चिमी।	নিঋতি, বিষয়ক, দক্ষিণপশ্চিমা	निऋति विषयक, दक्षिनपश्चिमा	south-western.
	पुं.	दक्षिण—पश्चिम की दिशा।	নৈঋত্য, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্	नैऋत्य, दक्षिन-पश्चिम दिक्	south-west direction.
नैवेद्य	पुं.	देवता या मूर्ति को भेंट की या चढ़ाई हुई खाद्यवस्तु, भोग।	নৈবেদ্য, দেবতাকে নিবেদনীয় সামগ্রী	नैबेद्य देवताके निबेदनीय सामग्री	offering of eatables presented to a deity or idol, oblation.
नैष्ठिक	वि.	1. निष्ठावान्, श्रद्धावान् धार्मिक निष्ठा से युक्त; 2. आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला।	নৈষ্ঠিক, নিষ্ঠাবান্, শ্রদ্ধাসম্পন্ন; মরণপর্যন্ত গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী	नैष्ठिक, निष्ठाबान्, श्रद्धासम्पन्न; मरनपर्जन्त गुरुकुलबासी ब्रह्मचारी	faithful, inspired by religious faith, devout; vowing perpetual abstinence and chastity.
नैसर्गिक	वि.	1. निसर्ग या प्रकृति से संबंध रखनेवाला या उससे होने वाला, प्राकृतिक, कुदरती; 2. स्वतः प्रसूत, सहज, स्वाभाविक, जन्मजात।	নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক; স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ	नैसर्गिक, प्राकृतिक; स्वाभाबिक, स्वभावसिद्ध	natural; inborn, innate, spontaneous.
नैहर	पुं.	विवाहिता स्त्री की दृष्टि से उसके पिता का घर, पीहर, मायका।	বিবাহিতা মেয়ের বাপের বাড়ী	बिवाहिता मेयेर बापेर बाड़ी	married woman's parental house, wife's paternal home.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नोक	स्त्री.	1. किसी चीज का आगे वाला वह सिरा जो पतला होता है;	সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, ডগা;	सूक्ष्म अग्रभाग, डगा;	point, tip;
		2. सिरा;	প্রান্ত, শেষদিক্;	प्रान्त, शेषदिक्;	end;
		3. अग्रभाग।	অগ্রভাগ	अग्रभाग	forepart.
नोक–झोंक	स्त्री.	परस्पर होने वाली झड़प, कहा–सुनी या वाद–विवाद जिसमें कटुता की मात्रा कम और आक्षेप तथा व्यंग्य की मात्रा अधिक हो।	বক্রোক্তিপূর্ণ উত্তরপ্রত্যুত্তর	बक्रोक्तिपूर्न उत्तरप्रत्युत्तर	sarcastic exchanges or comments, mock altercation, repartee, pleasantry.
नोकदार	वि.	जिसमें नोक हो, नोकवाला, अनीदार।	তীক্ষ্ণাগ্র, চোখা	तीक्ष्नाग्र, चोखा	pointed, sharp.
नोच	स्त्री.	1. झपटकर जबरदस्ती छीन लेने या छीनकर भागने की क्रिया या भाव;	ছোঁ মারিয়া নেওয়া বা লইয়া পলাইয়া যাওয়া;	छों मारिया नेओया बा लइया पलाइया जाओया;	grabbing, grab, snatching;
		2. नोचने की क्रिया या भाव।	আচড়ান, খামচান	आंचड़ान, खामचान	scratching, scratch, pinch, clawing.
नोच–खसोट	स्त्री.	1. दो जीवों का परस्पर लड़ते समय अपने–अपने दांतों, नाखूनों आदि से दूसरों के अंगों में से बाल, मांस आदि नोचना;	খামচাখামচি;	खामचाखामचि;	mutual scratching and tearing, pinching, plucking;
		2. छीना–झपटी, छीन–झपट।	কাড়াকাড়ি, ছিনতাই	काड़ाकाड़ि, छिनताइ	grabbing, snatching, plunder.
नोचना	स.क्रि.	1. जमी या लगीं हुई वस्तु को झटके से खींचकर अलग करना;	উপড়ানো;	उपड़ानो;	to pull out, pluck out;
		2. नख आदि से विदीर्ण करना।	আঁচড়ানো, খামচানো	आंचड़ानो, खामचानो	to pinch, to scratch, to claw.
नोट	पु.	1. ध्यान रखने के लिए लिख लेने का काम, टीप;	নোট, স্মারক লেখন;	नोट, स्मारक लेखन;	the act of noting or writing down;
		2. लिखी हुई संक्षिप्त चिट्ठी या परचा;	সংক্ষিপ্ত চিঠি;	संक्षिप्त चिठि;	brief statement or record, note;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. अभिप्राय, आशय, विचार आदि प्रकट करनेवाला छोटा लेख, टिप्पणी;	সংক্ষিপ্ত লেখন, টীকা, টিপ্পনী;	संक्षिप्त लेखन, टीका, टिप्पनी;	a short article, a note, annotation;
		4. सरकार की ओर से भिन्न–भिन्न धनराशियों के लिए जारी किया गया कागजी सिक्का।	নোট, পত্রমুদ্রা, সরকারী হুন্ডি	नोट, पत्रमुद्रा, सरकारी हुन्डि	currency note.
नोटिस	पु.	1. विज्ञप्ति, सूचना;	নোটিস, বিজ্ঞপ্তি;	नोटिस, बिज्ञप्ति;	notice, information;
		2. इश्तहार, विज्ञापन, सूचनापत्र।	বিজ্ঞাপন, ইশ্তাহার	बिज्ञापन, इश्ताहार	placard, notice.
नौ	वि.	1. जो गिनती में आठ से एक अधिक हो;	নৌ, নয়;	नौ, नय;	nine;
		2. नया, हाल का।	নয়া, নূতন	नया, नूतन	new, fresh (in comp).
	पुं.	1. समुद्र में चलने वाला जहाज, जलयान, पोत;	জলযান, পোত;	जलजान, पोत;	ship, vessel;
		2. नौ की सूचक संख्या।	(৯) এই সংখ্যা	(9) एइ संख्या	the number nine.
नौकर	पुं.	1. घर–गृहस्थी के छोटे–मोटे काम करने के लिए वेतन आदि पर नियुक्त मनुष्य, भृत्य, सेवक;	নোকর;	नोकर;	domestic attendant, servant;
		2. वह जो लिखा–पढ़ी, व्यवस्था आदि के कामों में सहायता देने या उन्हें सम्पन्न करने के लिए वेतन पर नियुक्त किया जाता या होता है, कर्मचारी।	কর্মচারী	कर्मचारी	employee.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नौकरचाकर	पुं.	सारे नौकर, सेवकगण, अनुचरवर्ग, परिजन।	চাকরবাকর	चाकरवाकर	the whole retinue of attendants, employees, servants, domestics.
नौकरशाही	स्त्री.	वह शासन प्रणाली जिसमें यह माना जाता है कि देश का वास्तविक शासन बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहता है।	আমলাতন্ত্র	आमलातन्त्र	bureaucracy.
नौकरानी	स्त्री.	घर—गृहस्थी का काम करने वाली दासी।	চাকরানী, দাসী	चाकरानी, दासी	woman servant, female domestic servant, waiting-woman.
नौकरी	स्त्री.	1. नौकर बनकर कार्यालय आदि में काम करते रहने की अवस्था या भाव, सेवा, राजसेवा;	নোকরি;	नोकरि;	service, public service;
		2. वह पद या काम जिसके लिए वेतन मिलता हो, रोजगार, काम;	চাকরি;	चाकरि;	employment, job;
		3. टहल, परिचर्या, चाकरी, सेवा।	পরিচর্যা, সেবা	परिचर्जा, सेबा	attendance.
नौकरीपेशा	पुं.	वह जो नौकरी करके जीविका चलाता हो।	চাকরিজীবি	चाकरिजीवि	(men) in-service.
नौका	स्त्री.	नाव, किश्ती।	নৌকা, নাও তরনী	नौका, नाओ, तरनी	a boat, ferry.
नौजवान	वि. पुं.	जिसमें युवास्था का आरंभ हुआ हो, जवान, युवक, नवयुवक।	নবযুবক, তরুণ, নৌজোয়ান, নওজোয়ান	नवजुबक, तरुन, नौजोयान, नओजोयान	youngman, youth, one in the bloom of youth, in the prime of life.
नौजवानी	स्त्री.	नौजवान होने की अवस्था या भाव, युवावस्था।	নবযৌবন, যুবাবস্থা	नबजौबन, जुबाबस्था	young age, bloom of youth, prime of life, youth.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नौटंकी	स्त्री.	साधारण जनता में अभिनीत होने वाला एक प्रकार का लोक–नाट्य जिसका कथानक प्राय: शृंगार और वीर.रस से युक्त होता है।	লোকনাট্যবিশেষ	लोकनाट्यबिशेष	a kind of folk drama.
नौ-निहाल	पुं.	1. होनहार पीढ़ी, नौजवान, नवयुवक, युवजन;	নবযুবক, যুবসম্প্রদায়;	नबजुबक, जुबसम्प्रदाय;	growing or rising generation, youth, young people;
		2. बच्चा।	বাচ্চা, শিশু	बाच्चा, शिशु	child, baby.
नौबत	स्त्री.	1. किसी अनिष्ट या अवांछनीय घटना के घटित होने की पारी या स्थिति, बारी, समय;	দুঃসময়;	दु:समय;	ominous turn, situation, occasion, a dreaded point of evil happening;
		2. (ला.) दुर्गति, दुर्दशा;	নৌবত, দুর্গতি, দুর্দশা;	नौबत, दुर्गति, दुर्दशा;	(fig) state of affairs, conditions (bad);
		3. नगाड़ा, शहनाई आदि मांगलिक बाजे जो मंदिरों, महलों आदि में नित्य या कुछ नियमित अवसरों पर बजा करते हैं;	নবত, নহবৎ;	नबत, नहबत्;	the auspicious musical instruments like Kettle drum, clarinet etc.
		4. नगाड़ा।	বড় নাগরা	बड़ नागरा	a large kettle drum.
नौलखा	वि.	1. जिसका मूल्य नौ-लाख रुपयों के बराबर हो;	নয় লাখী;	नय लाखी;	worth nine lac rupees:
		2. जड़ाऊ और बहुमूल्य।	জড়োয়া এবং বহুমূল্য	जड़ोया एबं बहुमूल्य	studded with jewels and valuables.
नौविज्ञान	पुं.	वह विज्ञान जिसमें समुद्र में जहाज आदि चलाने की कला या विद्या का विवेचन होता है।	নৌবিজ্ঞান, নৌবিদ্যা	नौबिज्ञान, नौबिद्या	nautical science.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
नौसादर	पुं.	एक प्रकार का तीक्ष्ण झालदार क्षार या नमक, जिसका उपयोग औषधों में होता है।	নিসাদল, নরসার	निसादल, नरसार	sal—ammoniac, ammonium chloride.
नौसिखिया	वि.,पुं.	जिसने हाल ही में कोई काम सीखा हो या सीखना आरंभ किया हो और फलत जो अभी तक उस काम में कुशल या निपुण न हुआ हो।	নূতন শিক্ষার্থী, শিক্ষানিবাস	नूतन शिक्षार्थी, शिक्षानिबास	a beginner, a novice, a fresher, a learner, not well-trained.
नौसेना	स्त्री.	वह सेना जो जहाजों पर रहती और समुद्र में रहकर शत्रुओं से युद्ध करती है, जल सेना।	নৌসেনা, নৌবাহিনী	नौसेना, नौबाहिनी	navy, naval force.
नौसेनाध्यक्ष	पु.	नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी।	নৌসেনাধ্যক্ষ	नौसेनाध्यक्ष	a chief of naval staff, admiral.
नौसेवा	स्त्री.	1. नौसेना में की जानेवाली सेवा या नौकरी;	নৌবাহিনীতে চাকরি;	नौबाहिनीते चाकरि;	naval service;
		2. नौसेना में काम करने वालों का समूह।	নৌবাহিনীর সেনানীবৃন্দ	नौबाहिनीर सेनानीवृन्द	naval staff.
नौसैनिक	पुं.	नौसेना या जल सेना का सैनिक।	নৌসৈনিক, নৌবাহিনীর সৈনিক	नौसैनिक, नौबाहिनीर सैनिक	naval soldier.
	वि.	नौसेना संबंधी।	নৌসেনা সম্বন্ধী	नौसेना सम्बन्धी	naval.
न्यस्त	वि.	1. रखा या स्थापित किया हुआ;	রক্ষিত, স্থাপিত;	रक्षित, स्थापित;	placed, laid, deposited, vested;
		2. न्यास या अमानत के रूप में रखा हुआ, जमा किया हुआ;	ন্যস্ত, ন্যাসরূপে রক্ষিত, গচ্ছিত;	न्यस्त, न्यासरूपे रक्षित, गच्छित;	deposited, trusted;
		3. दिया या सौंपा हुआ, निहित।	অর্পিত, দত্ত, নিহিত	अर्पित, दत्त, निहित	delivered, vested, bestowed, entrusted.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
न्याय	पुं.	1. ऐसा आचरण या व्यवहार जिसमें नैतिक दृष्टि से किसी प्रकार का अनौचित्य, पक्षपात या बेईमानी न हो, इंसाफ;	ন্যায়, নীতি, সুবিচার ঔচিত্য;	न्याय, नीति, सुबिचार औचित्य;	justice, equity, righteousness, honesty, fairness;
		2. विवाद आदि के प्रसंगों में आधिकारिक रूप में उचित–अनुचित का निर्णय तथा दंड आदि का निश्चय करना, निर्णयन;	বিচার;	बिचार;	judging, deciding, decreeing;
		3. उक्त के संबंध में आधिकारिक रूप से होनेवाला निर्णय या निश्चय, फैसला;	রায়, ফয়সালা, ফয়সলা;	राय, फयसाला, फयसला;	judicial decision,
		4. गौतम मुनि द्वारा प्रणीत न्याय–दर्शन;	গৌতমকৃত দর্শনবিশেষ;	गौतमकृत दर्शनबिशेष;	a system of Hindu philosophy founded by the sage Gautma, the Nyaya philosophy;
		5. तर्कशास्त्र।	তর্কশাস্ত্র	तर्कशास्त्र	the science of logic, logical philosophy.
न्यायपरता	स्त्री.	न्यायपरक या न्यायपरायण होने की अवस्था या भाव, न्यायपरायणता, न्यायशीलता, औचित्य, सच्चाई, ईमानदारी।	ন্যায়পরতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ন্যায়বত্তা	न्यायपरता, न्यायनिष्ठा, न्यायबत्ता	justness, justice, fairness, equitability, honesty.
न्याय–परायण	वि.	न्यायपूर्ण आचरण करने वाला, न्यायशील, सच्चा, ईमानदार।	ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়বান্	न्यायपरायन, न्यायनिष्ठ, न्यायबान्	just, fair, equitable, honest, righteous.
न्यायपरायणता	स्त्री.	दे. 'न्यायपरता'।	দ্রঃ 'ন্যায়পরতা'	द्रः 'न्यायपरता'	see 'न्यायपरता'.
न्यायमूर्ति	पुं.	उच्चतम न्यायलय के न्यायज्ञ या न्यायकर्ता की उपाधि।	সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি	सर्बोच्च बिचारालयेर बिचारपति	justice, a judge of supreme court.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
न्यायसंगत	वि.	1. जो न्याय की दृष्टि से ठीक हो, न्यायोचित, न्यायुय,न्यायपूर्ण, विधिसंगत;	ন্যায়সংগত, ন্যায়সম্মত, ন্যায্য;	न्यायसङ्गत, न्यायसम्मत, न्याज्य;	just, justified, lawful:
		2. उचित, यथोचित, तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण।	উচিত, যুক্তিযুক্ত	उचित, जुक्तिजुक्त	proper, equitable, fair.
न्यायाधिकरण	पुं.	विवादग्रस्त विषयों पर निर्णय देनेवाला न्यायालय या अधिकारी वर्ग।	ন্যায়পীঠ, বিচারসভা	न्यायपीठ, बिचारसभा	tribunal.
न्यायाधिपति	पुं.	दे. 'न्यायमूर्ति'।	দ্রঃ 'ন্যায়মূর্তি'	द्रः 'न्यायमूर्ति'	see 'न्यायमूर्ति.'
न्यायाधीश	पुं.	न्यायालय का वह अधिकारी जो विवादग्रस्त विषयों पर अपना निर्णय देता है।	ন্যায়ধীন, বিচারপতি	न्यायधीन, बिचारपति	judge.
न्यायालय	पुं.	वह स्थान जहां पर न्यायधीश न्याय करता हो, अदालत, कचहरी।	ন্যায়ালয়, বিচারালয়, আদালত	न्यायालय, बिचारालय, आदालत	court (of law).
न्यायिक	वि.	1. न्यायालय संबंधी, न्यायालय का, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या किया हुआ, अदालती;	ন্যায়িক, বিচারসংক্রান্ত;	न्यायिक, बिचारसंक्रान्त;	judicial, juridicial;
		2. न्यायसम्मत, न्यायपूर्ण, उचित।	ন্যায়সম্মত	न्यायसम्मत	just, justified, fair, equitable.
न्यायी	पुं.	वह जो न्याय करता हो, पक्षपातरहित, न्यायपरायण, इन्साफी, ईमानदार।	ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়পর, ন্যায়বান্	न्यायपरायन, न्यायपर, न्यायबान्	just. equitable, honest, fair, righteous.
न्यायोचित	वि.	न्यायसंगत, न्यायपूर्ण, सच्चा, पक्षपातरहित।	ন্যায়োচিত, ন্যায়সংগত, ন্যায্য	न्यायोचित, न्यायसङ्गत, न्याज्य	just, equitable, fair, right.
न्याय्य	वि.	दे. 'न्यायोचित'।	দ্রঃ 'ন্যায়োচিত'	द्रः 'न्यायोचित'	see 'न्यायोचित'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
न्यारा	वि.	1. पृथक्, अलग, जुदा;	পৃথক্, আলগা;	पृथक्, आलगा;	separate, separated;
		2. भिन्न, अन्य, दूसरा;	ভিন্ন, অন্য;	भिन्न, अन्य;	different, distinct;
		3. जो अपने किसी विलक्षण गुण या विशेषता के कारण औरों से भिन्न और श्रेष्ठ हो, निराला, अनोखा।	অসাধারণ, অপূর্ব, অদ্ভুত, বিলক্ষণ	असाधारन, अपूर्ब, अद्भुत, बिलक्षन	extraordinary, uncommon, rare, unique, novel.
न्यास	पुं.	1. कोई चीज कहीं जमा करके या बैठाकर रखना, स्थापित करना;	ন্যাস, স্থাপন;	न्यास, स्थापन;	placing, putting down or upon, planting;
		2. किसी चीज के कहीं रखे जाने के फलस्वरूप उस स्थान पर बननेवाला चिह्न या निशान;	কোনো জিনিস কোনো স্থানে রাখিলে তাহার উপর যে দাগ পড়ে;	कोनो जिनिस कोनो स्थाने राखिले ताहार उपर जे दाग पड़े;	hence, any impression, mark, stamp, print;
		3. धरोहर, अमानत, थाती;	গচ্ছিত রাখা;	गच्छित राखा ;	pledge, deposit;
		4. किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग किया हुआ वह धन या संपत्ति जो कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को इस दृष्टि से सौंपी गई हो कि वे दाता की इच्छा के अनुसार उसका उचित उपयोग और व्यवस्था करेंगे;	গচ্ছিত সম্পত্তি বা তাহার রক্ষার ভার;	गच्छित सम्पत्ति बा ताहार रक्षार भार;	trust;
		5. उक्त प्रकार के धन की व्यवस्था करनेवालों की समिति;	ন্যাস-সমিতি;	न्यास-समिति;	commitee of the trustees;
		6. चीजें चुन या सजाकर यथा- स्थान रखना, विन्यास।	ন্যাস, বিন্যাস	न्यास, बिन्यास	arrangement.
न्यासधारी	वि., पुं.	न्यास या धरोहर रखनेवाला।	ন্যাসরক্ষক, ন্যাসপাল	न्यासरक्षक, न्यासपाल	trustee.
न्यासी	वि., पुं.	वह जिसे किसी कार्य विशेष के लिए कुछ धन या संपत्ति सौंपी गई हो।	ন্যাসী, ন্যাসরক্ষক, ন্যাসধারক	न्यासी, न्यासरक्षक, न्यासधारक	trustee.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
न्यून	वि.	1. आवश्यकता या उचित से कम, थोड़ा;	নূ্যন, অপেক্ষাকৃত কম বা অল্প;	न्यून, अपेक्षाकृत कम वा अल्प;	less;
		2. किसी की तुलना में घटकर या हल्का;	অপকৃষ্ট;	अपकृष्ट;	lower, inferior;
		3. अपूर्ण;	ঊন;	ऊन;	deficient, wanting;
		4. छोटा।	আর	आर	small.
न्यूनतम	वि.	1. जो सबसे कम, थोड़ा या संक्षिप्त हो, अल्पतम, लघुतम, कम से कम;	নূ্যনতম, সব চেয়ে কম, সুল্পতম;	न्यूनतम, सब चेये स्वल्पतम;	minimum, minimal;
		2. जो सबसे घटकर हो, निम्नतम।	সবচেয়ে অপকৃষ্ট	सबचेये अपकृष्ट	lowest, inferiormost.
न्यूनता	स्त्री.	1. न्यून होने की अवस्था या भाव, अल्पता, कमी;	নূ্যনতা, অল্পতা, কমতি;	न्यूनता, अल्पता, कमति;	shortage, paucity, lack, scarcity;
		2. हीनता, घटकर होने की अवस्था या भाव;	অপকৃষ্টতা, হীনতা, অপকর্ষ;	अपकृष्टता, हीनता, अपकर्ष;	inferiority;
		3. त्रुटि, अपूर्णता।	ঊনতা	ऊनता	incompleteness, want, deficiency, defect.
न्यूनाधिक	वि.	जो कुछ बातों में कहीं कुछ कम और कुछ बातों में कहीं कुछ अधिक हो।	নূ্যনাধিক, কমবেশী	न्यूनाधिक, कमबेशी	more or less.
न्योतना	स.क्रि.	न्यौता या निमन्त्रण देना।	নিমন্ত্রণ করা	निमन्त्रन करा	to invite.
न्योतनी	स्त्री.	मंगल अवसरों पर दिया जानेवाला भोज।	উপলক্ষে যে-ভোজ দেওয়া হয়	उपलक्ष्ये जे-भोज देओया हय	a feast given on festive occasions.
न्योता	पुं.	1. घर पर होनेवाले किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए किसी से कहना, निमंत्रण;	নিমন্ত্রণ;	निमन्त्रन;	invitation;
		2. वह धन जो शुभ अवसरों पर इष्ट मित्रों के यहां से न्योता आने पर दिया या भेजा जाता है।	শুভ কর্মাদিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত উপহার	शुभ कर्मादिते निमन्त्रित ब्यक्तिदेर प्रदत्त उपहार	money given in lieu of invitation.
पंक	पुं.	कीचड़।	পঙ্ক, পাঁক, কাদা	पङ्क, पांक, कादा	mud.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पंकज	पुं.	कमल।	পঙ্কজ, পদ্ম	पङ्कज, पद्म	lotus.
पंक्ति	स्त्री.	1. वह समूह जिसमें प्राय: सजातीय पदार्थ या व्यक्ति एक दूसरे के पीछे या बगल में क्रमशः स्थित हों, श्रेणी, कतार;	পঙ্ক্তি, সারি, শ্রেণী;	पङ्ति, सारि, श्रेनी;	queue, series;
		2. भोज में एक साथ खानेवालों की पांत;	ভোজনার্থ ভোক্তগণ-শ্রেণী;	भोजनार्थ भोक्तगन-श्रेनी;	company of persons eating together;
		3. एक ही सीध में दूर तक बनी हुई रेखा, लकीर।	সোজা লাইন	सोजा लाइन	line, row.
पंक्तिबद्ध	वि.	जो एक सीध में खड़े या लगे हों अथवा खड़े किए या लगाए गये हों।	পঙ্ক্তিবন্ধ, সারিবন্ধ	पङ्तिबद्ध, सारिबद्ध	arranged in a line or row.
पंख	पुं.	पक्षियों का तथा कुछ जंतुओं का वह अंग जिससे वे उड़ते हैं।	পাখা	पाखा	wing, feather.
पंखड़ी (पांखुड़ी)	स्त्री.	फूल के अंग के रूप में होनेवाले वे कोमल दल जिनके संयोग से उसका मुख्य रूप बनता है।	পাপড়ি	पापड़ि	petal.
पंखा	पुं.	वह वस्तु जिससे हवा की जाती है।	পাখা	पाखा	fan.
पंखी	स्त्री.	1. छोटा पंखा;	ছোট পাখা;	छोट पाखा;	small fan;
		2. मुलायम और (हल्की) ऊन की बनी चादर।	মোলায়েম, হাল্কা পশমী চাদর	मोलायेम, हाल्का पशमी चादर	soft and light woollen sheet.
पंगत (पांति)	स्त्री.	भोज में एक साथ खानेवालों की पांत।	পংগত, ভোজন-কালে ভোক্তাদিগের পঙ্ক্তি	पङ्गत, भोजन-काले भोक्तादिगेर पङ्ति	row of people sitting down at a meal.
पंगु	वि.	जो पांव के बेकार होने से चल-फिर न सकता हो।	পংগু, খোঁড়া	पङ्गु, खोंड़ा	lame, crippled.
पंच	वि.	पांच।	পঞ্চ, পাঁচ	पंच, पांच	five.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पुं.	1, पांच या अधिक मनुष्यों का समूह; 2. पंचायत का सदस्य; 3. न्याय करनेवाली सभा; 4. आपस के झगड़ों का निर्णय करने के लिए चुना गया व्यक्ति।	পাঁচজনের অধিক লোকের সভা; পঞ্চায়েতের সদস্য; পঞ্চাইত, পঞ্চায়েত; সালিস, সালিশ	पांचजनेर अधिक लोकेर सभा; पंचायेतेर सदस्य; पंचाइत, पंचायेत; सालिस, सालिश	assembly of (originally) five men; member of the 'Panchayat'; body of arbitrators; juror.
पंचक	वि.	पांच अवयववाला।	পঞ্চ অবয়বযুক্ত	पंच अवयबजुक्त	consisting of five components.
	पु.	फलित ज्योतिष में धनिष्ठा से रेवती तक के पांच नक्षत्र जिसमें शुभ कार्य का आरंभ निषिद्ध है तथा किसी दुर्घटना का होना बहुत अशुभ माना जाता है।	পঞ্চক, ধনিষ্ঠাদি পঞ্চনক্ষত্র	पंचक, धनिष्ठादि पंचनक्षत्र	the pentad of five planets beginning from Dhanistha and ending in Rewati when auspicious ceremonies are not perfoı med.
पंचगुना	वि.	किसी एक अनुपात, मान या मात्रा में उसी जैसे पांच के बराबर हो जाना।	পাঁচগুণ	पांचगुन;	five-fold, quintuple.
पंच—तत्व	पुं.	पृथ्वी, जल, आग, वायु और प्रकाश-ये पांचों तत्व।	পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চভূত, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত	पंचतत्त्व, पंचभूत, क्षिति अप् तेज मरुत् ब्योम एइ पंच महाभूत	the five elements taken collectively i.e. the earth, water, fire, air and space.
पंचनामा	पुं.	1. वह पत्र जिस पर पंचों का निर्णय लिखा हो, 2. पत्र जिसके अनुसार दो विरोधी पक्षों ने अपना निर्णय कराने के लिए किसी को पंच चुना हो।	পঞ্চায়েতের লিখিত রায়; সালিসনামা	पंचायेतेर लिखित राय; सालिसनामा	arbitration bond, award; an agreement or deed according to which an arbitrator is appointed by the contending parties

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पंच–भूत	पुं.	भारतीय दर्शन के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी-ये पांच मूल तत्व जिनसे सृष्टि की रचना हुई है।	পঞ্চভূত, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম	पंचभूत, क्षिति अप् तेज मरुत ओ व्योम	the five elements: earth, air, fire, water and ether or space.
पंचम	वि.	1. पांचवां;	পঞ্চম, পাঁচের পূরক;	पंचम, पांचेर पूरक;	the fifth, forming a fifth part;
		2. संगीतशास्त्र में सरगम का पांचवां स्वर;	(সংগীতে) সুরসপ্তকের পঞ্চম সুর গা, পা;	(सङ्गीते) स्वरसप्तकेर पंचम स्वर गा पा;	the fifth note in kind of musical strain;
		3. व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण।	পঞ্চম বর্গের পঞ্চম অনুনাসিক বর্ণ	पंचम वर्गेर पंचम अनुनासिक वर्न	the fifth consonant of a class of Devnagari characters i.e. a nasal.
पंचमांगी	पुं.	किसी देश या राज्य का वह निवासी जो दूसरे देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करके अपने देश को हानि पहुंचाता हो, शत्रुओं के साथ मिला हुआ, देशद्रोही।	পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, দেশদ্রোহী	पंचम बहिनीर अन्तर्भुक्त ब्यक्ति, देशद्रोही	a fifth columnist, a traitor.
पंचमी	स्त्री.	1. पक्ष की पांचवीं तिथि;	পঞ্চমী;	पंचमी;	the fifth day of the half month;
		2. व्याकरण में अपादान कारक और उसकी विभक्ति।	ব্যাকরণে অপাদান কারকের বিভক্তি ও অপাদানকারক	ब्याकरने अपादान कारकेर बिभक्ति ओ अपादानकारक	the fifth or ablative case (or its termination), a word in the ablative.
पंच–मेल	वि.	1. जिसमें पांच तरह की चीजें मिली हों;	যাহাতে পাঁচ রকমের জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে এমন;	जाहाते पांच रकमेर जिनिस मिश्रित हइयाछे एमन;	mixture of five different ingredients, medley;
		2. जिसमें सब तरह की चीजें मिलीजुली हों।	পাঁচমিশালি, পাঁচমিশালী	पांचमिशालि, पांचमिशाली	hotch-potch.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय।
पंचशील	पुं.	1. बौद्धधर्म में सदाचार की पांच पालनीय मुख्य बातें—अस्तेय, अहिंसा, सत्य, बह्मचर्य और मादक पदार्थों का परित्याग;	পঞ্চশীল, অস্তেয়, অহিংসা, সত্য ব্রহ্মচর্য এবং মাদক বর্জন বৌদ্ধ ধর্মসম্মত এই পঞ্চ আচার;	पंचशील, अस्तेय, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्ज एबं मादक बर्जन बौद्ध धर्मसम्मत एइ पंच आचार;	the five chief principles of conduct of Buddhism;
		2. बांडुंग सम्मेलन में 1954 में पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित पांच राजनीतिक सिद्धान्त—पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और सहअस्तित्व।	পঞ্চশীল, জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক বানডুং সম্মেলনে প্রতিপাদিত পারস্পরিক সম্মান, অনাক্রমণ, অহস্তক্ষেপ, সমমর্যাদা ও সহ-অবস্থান—এই পাঁচটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত	पंचशील, जओहरलाल नेहुरु कर्तृक बानडुं सम्मेलने प्रतिपादित पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमन, अहस्तक्षेप, सममर्जादा ओ सह-अबस्थान—एइ पांचटि राजनैतिक सिद्धान्त	the five basic principles of international conduct designed to achieve and consolidate world-peace, first enunciated by Jawaharlal Nehru in Bandung Conference in 1954.
पंचांग	पुं.	वह पंजी या पुस्तिका जिसमें आकाशस्थ ग्रह—नक्षत्रों की दैनिक स्थिति बताई गई हो।	পঞ্চাংগ, পঞ্জিকা	पचांग, पजिका	almanac.
पंचांग—वर्ष	पुं.	पंचांग के अनुसार आदि से अंत तक संपूर्ण वर्ष।	পঞ্জিকাসম্মত বৎসর	पंजिकासम्मत बत्सर	calendar year.
पंचाट	पुं.	विवाद के संबंध में पंचों का किया हुआ निर्णय।	পাঁচজনের সিদ্ধান্ত	पांचजनेर सिद्धान्त	award, arbitral award.
पंचानवे	वि.	जो गिनती में नब्बे से पांच अधिक हो।	পঁচানব্বুই	पंचानब्बुइ	ninety-five.
	पुं.	पंचानवे की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है—95.	(৯৫) এই সংখ্যা	(95) एइ संख्या	the number ninety-five.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पंचामृत	पुं.	1. दूध, दही, घी, मधु और चीनी के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ जिसमें देवमूर्ति को स्नान कराया जाता है तथा पीछे प्रसाद में ग्रहण किया जाता है;	পঞ্চামৃত, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধুশর্করা– এই পঞ্চ অমৃতবৎ বস্তুর সমাহার;	पंचामृत, दधि, दुग्ध, घृत मधुशर्करा– एइ पंच अमृतबत् बस्तुर समाहार;	five kinds of divine food (viz. milk, coagulated or sour milk , butter, honey and sugar :
		2. वैद्यक में पांच औषधियां गिलोय, गोखरु, मुसली, गोरखमुंडी और शतावरी।	আয়ুর্বেদমতে গোক্ষুর, শতাবরী ইত্যাদি পাঁচটি ওষধি	आयुर्बेदमते गोक्षुर, शताबरी इत्यादि पांचटि ओषधि	in Indian ancient medical system particular five drugs.
पंचायत	स्त्री.	1. पंचों की सभा;	পঞ্চায়ত, পঞ্চাইৎ;	पंचायत, पंचाइत्;	village assembly;
		2. विवाद के संबंध में पंचों द्वारा किया जानेवाला विचार या निपटारा;	পঞ্চায়তি, পঞ্চায়তী, পঞ্চায়তের রায় বা সিদ্ধান্ত;	पंचायति, पंचायती, पंचायतेर राय बा सिद्धान्त;	arb' ration;
		3. बिरादरी या समाज के लोगों की वह सभा जिसमें झगड़ों पर विचार किया जाता है और उनका निबटारा किया जाता है।	পঞ্চায়ত, স্বজাতি বা সমব্যবসায়ীর বিবাদাদি নিষ্পত্তির জন্য বৈঠক	पंचायत, स्वजाति बा समव्यबसायीर बिबादादि निष्पत्तिर जन्य बैठक	a meeting of any particular society (generally as a court of enquiry), court of arbitration (consisting of five or more members).
पंचायती	वि.	1. पंचायत संबंधी, पंचायत का;	পঞ্চায়তী, পঞ্চায়েতী, পঞ্চায়ত-সম্বন্ধীয়	पंचायती, पंचायेती, पंचायत-सम्बन्धीय;	pertaining to 'panchayat' or community;
		2. जिस पर अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो;	যাহা কোনো ব্যক্তি বিশেষের নহে	जाहा कोनो ब्यक्ति बिशेषेर नहे	common, no body's business;
		3. जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित।	প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত	प्रतिनिधिदेर द्वारा परिचालित	public.
पंछी	पुं.	पक्षी, चिड़िया।	পক্ষী, পাখি	पक्षि, पाखि	bird.
पंजर	पुं.	1. हड्डियों का ढांचा; ठठरी, कंकाल;	পঞ্জর, পাঁজরা, কঙ্কাল;	पंजर, पांजरा, कङ्काल;	skeleton;
		2. पिंजरा।	পিঁজরা, খাঁচা	पिंजरा, खांचा	cage.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पंजा	पुं.	1. एक ही तरह की पांच वस्तुओं का समूह;	একই প্রকার পাঁচ বস্তুর সমবায়;	एकइ प्रकार पांच बस्तुर समबाय;	a collection of five things (of the same kind);
		2. हाथ या पैर का वह भाग जिसमें हथेली या तलवा और पांचों उंगलियां होती हैं;	পাঞ্জা, পঞ্চাংগুলি সহ করতল;	पांजा, पंचागुंलि सह करतल;	the five fingers or toes;
		3. उंगलियों और हथेलियों का संपुट जिससे चीजें उठाई या पकड़ी जाती हैं अथवा जिससे पशुपक्षी प्रहार करते हैं;	থাবা;	थाबा;	claw, paw;
		4. जूते का अगला भाग जिसमें पंजा रहता है।	জুতার অগ্রভাগ	जुतार अग्रभाग	the fore-part of a foot wear.
पंजी	स्त्री.	हिसाब या विवरण लिखने की पुस्तिका।	হিসাব বা বিবরণ লেখার বহি	हिसाब बा बिबरन लेखार बहि	register.
पंजीकरण	पुं.	किसी लेख या लेखे का पंजी में लिखा जाना।	নিবন্ধীকরণ, নিবন্ধন	निबन्धीकरन, निबन्धन	registration.
पंजीकार	पुं.	पंजी में लिखनेवाला, मुनीम, आय–व्यय आदि का लेखक।	হিসাব লেখক	हिसाब लेखक	clerk or registrar.
पंजीकृत	वि.	जिसका पंजीकरण हुआ हो।	নিবন্ধীকৃত	निबन्धीकृत	registered.
पंजीयन	पुं.	किसी लेख या लेखे का किसी कार्यालय की पंजी में (विशेषतया राजकीय पंजी में) लिखा जाना।	নিবন্ধন	निबन्धन	registration.
पंजीरी	स्त्री.	धनिया, सोंठ आदि का चीनी मिला हुआ चूर्ण और घी में भुना हुआ आटा जिसका प्रयोग प्रायः नैवेद्य के लिए करते हैं।	ধনিয়া শুঁঠ ও চিনি ঘিয়ে ভাজা মিশান আটার নৈবেদ্য বিশেষ	धनिया शुंठ ओ चिनि घियें भाजा मिशान आटार नैबेद्य बिशेष	a typical preparation of wheat-flour fried in ghee and sugar mixed with ground coriander seeds and dry ginger administered to

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
					puerperal woman or distributed as prasad.
पंडा	पुं.	तीर्थ, मंदिर या घाट पर धर्मकृत्य करानेवाला ब्राह्मण।	পান্ডা	पान्डा	Hindu priest functioning at river banks etc. where pilgrims congregate
पंडाल	पुं.	किसी संस्था, सभा आदि के अधिवेशन के लिए बना हुआ बड़ा मंडप।	প্যানডেল	प्यानडेल	huge pavilian, marquee.
पंडित	वि.	कुशल, दक्ष, निपुण।	পন্ডিত, কুশল	पन्डित, कुशल	learned (person).
	पु.	1. ब्राह्मणों के नाम के पूर्व लगनेवाली आदरसूचक उपाधि;	ব্রাহ্মণের নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মান সূচক উপাধি;	ब्राह्मनेर नामेर पूर्बे ब्यबहृत सम्मान सूचक उपाधि;	a title of respect of Hindus who are learned in the Brahmanical theology;
		2. शास्त्रों का ज्ञाता।	শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি	शास्त्रज्ञ ब्यक्ति	a learned man.
पंडिताई	स्त्री.	1. विद्वता, पांडित्य; 2. पंडितों की वृत्ति।	বিদ্যাবত্তা পন্ডিতাই	बिद्याबत्ता पंडिताइ	scholarship; the function or profession of a Pandit.
पंडिताऊ	वि.	पंडितों के ढंग का, पंडितों जैसा।	পন্ডিতী	पन्डिती	pedantic, befitting a 'pandit'.
पंथ	पुं.	1. मार्ग, रास्ता; 2. धार्मिक मत या संप्रदाय जिसमें विशेष प्रकार की साधना और उपासना पद्धति प्रचलित हो;	পন্থ, পথ; পন্ডিত, ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মমত;	पन्थ, पथ; पन्डित, धर्मसम्प्रदाय, धर्ममत;	path, road; sect, cult;
		3. सिखों का सम्प्रदाय।	শিখদের সম্প্রদায়	शिखदेर सम्प्रदाय	the Sikh panth.
पंद्रह	वि.	जो गिनती में दस से पांच अधिक हो।	পনের, পনর	पनेर, पनर	fifteen.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पुं.	उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है—15.	(১৫) এই সংখ্যা	(15) एइ संख्या	the number fifteen
पंद्रहवां	वि.	क्रम या गिनती में पंद्रह के स्थान पर पड़ने या होनेवाला।	পঞ্চদশতম	पंचदशतम	fifteenth.
पंप	पुं.	1. पानी आदि तरल पदार्थों को ऊपर खींचने की एक कल;	পাম্প, জল প্রভৃতি বাহির করিবার যন্ত্রবিশেষ;	पाम्प, जल प्रभृतिर बाहिर करिबार जन्त्रबिशेष;	pump (water-pump);
		2. साइकिल आदि की ट्यूब में हवा भरने का उपकरण;	সাইকেল ইত্যাদির টিউবে হাওয়া ভরিবার যন্ত্রবিশেষ;	साइकेल इत्यादिर टिउबे हाओया भरिबार जन्त्रबिशेष;	pump (cycle pump)
		3. एक प्रकार का जूता।	এক প্রকারের জুতা	एक प्रकारेर जुता	a kind of shoe.
पंसारी	पु.	नमक मिर्च आदि मसाले तथा साधारण जड़ी—बूटियां बेचनेवाला।	নুন লঙ্কা ইত্যাদি মসলা ও শিকর-বাকর বিক্রয়কারী	नुन लङ्का इत्यादि मसला ओ शिकर-बाकर बिक्रयकारी	grocer.
पंसेरी(पसेरी)	स्त्री.	पांच सेर की तौल या उसका बाट।	পসুরী, পশুরী, পসুরি	पसुरी, पशुरी, पसुरि	a weight of five sers or seers.
पकड़	स्त्री.	1. पकड़ने की क्रिया या भाव;	ধরা, আকড়াইয়া ধরা	धरा, आकड़ाइया धरा;	the act of holding, gripping etc.;
		2. कुश्ती में एक बार की भिडंत;	কুস্তিতে প্যাঁচ করিয়া জাপটাইয়া ধরা;	कुस्तिते प्यांच करिया जापटाइया धरा;	grip or hold in the game of wrestling;
		3. समझ, दोष या त्रुटि को पहचानने की क्षमता।	দোষত্রুটি ধরার ক্ষমতা	दोषत्रुटि धरार क्षमता	grasp,characteristic note.
पकड़ना	स.क्रि.	1. कोई चीज इस प्रकार हाथ में थामना कि वह गिरे नहीं या इधर—उधर न होने पाए;	শক্ত করিয়া ধরা, পাকড়ান;	शक्त करिया धरा, पाकड़ान;	to catch, to hold, to grasp;
		2. खोज निकालना, पता लगाना;	খুঁজিয়া বাহির করা;	खुंजिया बाहिर करा;	to find out, to discover;
		3. किसी काम में आगे बढ़े हुए की बराबरी में आ जाना;	অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহাকে ধরিয়া ফেলা;	अग्रसर हइया गियाछे ताहाके धरिया फेला;	to overtake;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. गिरफ्तार करना, बंदी बनाना।	গ্রেপ্তার করা, পাকড়ানো	ग्रेप्तार करा, पाकड़ानो	to capture, to apprehend.
पकड़वाना (पकड़ाना)	स.क्रि.	पकड़ने में प्रवृत्त करना या सहायता देना।	অন্যকে দিয়া পাকড়ানো	अन्यके दिया पाकड़ानो	to cause to seize, to get (one).
पकना	अ.क्रि.	1. अनाज, फल आदि का परिपक्व होना या उस अवस्था में पहुंचना जब वे खाने योग्य हो जाते हैं;	পাকা, পক্ব হওয়া;	पाका, पक्व हओया;	to ripen;
		2. आंच या गरमी खाकर गलना या नरम होना;	অগ্নিপক্ব হওয়া, সিদ্ধ হওয়া;	अग्निपक्व हओया, सिद्ध हओया;	to be cooked;
		3. (बालों का) सफेद होना;	শুভ্র হওয়া, পাকা (চুল পাকা);	शुभ्र हओया, पाका (चुल पाका);	to turn grey or white (hair);
		4. घाव, फोड़े, फुंसी आदि का ऐसी स्थिति में आना कि उनमें मवाद भर जाए।	ফোড়া পাকিয়া পুঁজে পূর্ণ হওয়া	फोड़ा पाकिया पुंजे पूर्न हओया	to suppurate.
पकवान	पुं.	घी या तेल में तले हुए पदार्थ।	পাকোয়ান, পক্বান্ন, মিষ্ট খাদ্যবিশেষ	पाकोयान, पक्वान्न, मिष्ट खाद्यविशेष	preservable dressed food.
पकवाना	स.क्रि.	पकाने का कार्य किसी दूसरे से कराना।	পাক করানো	पाक करानो	to cause to cook or dress
पका	वि.	जो पक गया हो।	পক্ব, পাকা	पक्व, पाका	cooked, ripe.
पकाना	स.क्रि.	1. ऐसी क्रिया करना जिससे कुछ पके, पकने में प्रवृत्त करना;	পাক করা, রাঁধা;	पाक करा, रांधा;	to cook;
		2. अन्न आदि आंच पर चढ़ा कर इस प्रकार उबालना या तपाना कि वे मुलायम होकर खाने योग्य हो जाए;	সিদ্ধ করা;	सिद्ध करा;	to boil, to bake;
		3. कच्चे फलों के सम्बन्ध में ऐसी क्रिया करना जिससे वे मीठे और मुलायम होकर खाने योग्य हो जाएं;	পাকানো	पाकानो	to ripen;

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. कच्ची मिट्टी के बने बरतनों तथा अन्य वस्तुओं को आग में रखकर मजबूत करना जिससे वे सहज में टूटें या गलें नहीं;	কাঁচা মাটির বাসন ইত্যাদি ভাঁটিতে পোড়ানো	कांचा माटिर बासन इत्यादि भाटिते पोड़ानो	to season;
		5. फोड़े आदि को पुलटिस बांधकर इस प्रकार मुलायम करना कि दूषित अंश ऊपर की त्वचा फाड़कर निकल सके।	ফোড়া ইত্যাদি পাকানো	फोड़ा इत्यादि पाकानो	to put (apply) poultice on a boil so that the pus may come out.
पकौड़ी	स्त्री.	घी या तेल में तली हुई बेसन या पिट्ठी की बड़ी।	ঘি বা তেলে ভাজা বেসনের তৈরী ফুলুরি খাদ্যবিশেষ	घि बा तेले भाजा बेसनेर तैरी फुलुरि खाद्यविशेष	a kind of dish made of peasemeal, pastry filled with pease-meal.
पक्का (स्त्री. पक्की)	वि.	1. अच्छी तरह से पक्का या पकाया हुआ;	পাকা, পরিপক্ব;	पाका, परिपक्व;	ripe;
		2. हर तरह से निश्चित और पूरा;	স্থায়ী;	स्थायी;	permanent, lasting;
		3. चतुर, दक्ष या प्रवीण;	পাকাপোক্ত;	पाकापोक्त;	expert;
		4. दृढ़, निश्चित, स्थिर।	মজবুত, অনড়	मजबुत, अनड़	strong, fix, firm.
पक्व	वि.	1. पका या पकाया हुआ;	পক্ব;	पक्व;	cooked, roasted;
		2. पक्का।	পরিণত, অভিজ্ঞ	परिनत, अभिज्ञ	ripe, mature.
पक्वता	स्त्री.	पक्व होने की अवस्था या भाव।	পক্বতা, পক্বত্ব	पक्वता, पक्वत्व	ripeness.
पक्वान्न	पुं.	पकाई हुई भोज्य वस्तु, पकवान।	পক্বান্ন, পাকোয়ান	पक्वान्न, पाकोयान	cooked or dressed food.
पक्वाशय	पुं.	पेट का वह भीतरी भाग जहां खाया हुआ अन्न जाकर पचता है।	পক্বাশয়, পাকাশয়, পাকস্থলী	पक्वाशय, पाकाशय, पाकस्थली	the stomach.
पक्ष	पुं.	1. जीव–जन्तुओं और मनुष्यों की दाहिनी या बाईं ओर का पार्श्व;	পক্ষ, পাখা, পাখীর ডানা;	पक्ष, पाखा, पाखीर डाना;	side;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पक्षियों का डैना;	পক্ষ, পার্শ্ব;	पक्ष, पार्श्व;	wing;
		3. चान्द्रमास के दो बराबर भागों में से प्रत्येक भाग जो प्रायः 15 दिनों का होता है;	চন্দ্রের হ্রাসকাল বা বৃদ্ধিকাল প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিকাল;	चन्द्रेर ह्रासकाल बा बृद्धिकाल प्रतिपदादि पंचदश तिथिकाल;	fortnight;
		4. किसी विचार, सिद्धांत या तथ्य आदि का एक अंग, एक पहलू;	বিতর্কবিষয়দ্বয়ের একতর বিষয়, তর্কে প্রশ্ন বা উত্তর;	बितर्कबिषयद्वयेर एकतर बिषय, तर्के प्रश्न बा उत्तर;	aspect;
		5. किसी विषय के सम्बन्ध में विभिन्न मत रखनेवालों का विशिष्ट वर्ग या दल;	পক্ষ, দল;	पक्ष, दल;	party;
		6. किसी प्रकार की प्रतियोगिता, विवाद आदि में सम्मिलित होने वाले दलों में से प्रत्येक दल।	পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি বা বিষয়ের একটি	परस्परबिरोधी ब्यक्ति बा बिषयेर एकटि	team.
पक्षधर	पुं.	विवाद आदि में किसी का पक्ष लेने वाला।	পক্ষাবলম্বী	पक्षाबलम्बी	supporter.
पक्षपात	पु.	न्याय, अन्याय का विचार त्यागकर अनुचित रूप से किसी पक्ष के प्रति होने वाली अनुकूल वृत्ति।	পক্ষপাত, অন্যায়পূর্বক পক্ষাবলম্বন	पक्षपात, अन्यायपूर्बक पक्षाबलम्बन	partiality, favouritism.
पक्षपाती	वि.	पक्षपात करने वाला।	পক্ষপাতী	पक्षपाती	partial, partisan.
पक्षाघात	पुं.	एक प्रकार का वात रोग जिसमें शरीर का दायां या बायां पार्श्व पूर्णतः बेकाम और शिथिल हो जाता है।	পক্ষাঘাত, বাতব্যাধিবিশেষ, দেহার্দ্ধের বা অবয়বের বিনাশ	पक्षाघात, ब्यातब्याधिबिशेष, देहार्द्धेर बा अबयबेर बिनाश	paralysis (of one side), hemiplegia.
पक्षी	पु.	चिड़िया।	পক্ষী, পাখী	पक्षी, पाखी	bird.
पखवाड़ा (पखवारा)	पु.	महीने का आधा भाग, पंद्रह दिनों का समय।	পক্ষ	पक्ष	fortnight.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पखारना	स.क्रि.	पानी से धोना, धोकर साफ करना।	পাখলা, পাখলানো	पाखला, पाखलानो	to wash, to cleanse,
पखावज	स्त्री.	मृदंग के आकार–प्रकार का परन्तु उससे छोटा एक प्रकार का बाजा।	পাখোয়াজ	पाखोयाज	a kind of drum.
पखावजी	वि.	1. पखावज सम्बन्धी; 2. पखावज बजाने वाला।	পাখোয়াজ-সম্বন্ধীয়; পাখোয়াজী	पाखोयाज-सम्बन्धीय; पाखोयाजी	pertaining to pakhawaj; one who beats or plays on the pakhawaj.
पग	पु.	पैर, पांव, डग।	পগ, পদ, পা	पग, पद, पा	foot, pace.
पगडंडी	स्त्री.	मनुष्यों के चलने से जंगल, खेत या मैदान में बना हुआ पतला रास्ता।	পায়েচলা পথ, পাকদন্ডী	पायेचला पथ, पाकदन्डी	footpath, track.
पगड़ी	स्त्री.	1. सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा; 2. दुकान, मकान आदि किराए पर लेते समय उसके मालिक को अनुकूल एवं संतुष्ट करने के लिए अवैध रूप से दिया जाने वाला धन।	পাগড়ী, পাগড়ি; সেলামি	पागड़ी, पागड़ि; सेलामि	a variety of turban; gratification money for letting out a house.
पगली	स्त्री.	पागल स्त्री।	পাগলী	पागली	mad (woman.)
पगहा	पुं.	ढोर बांधने की रस्सी।	পশুর বাঁধনদড়ি	पशुर बांधनदड़ि	a rope fastened round the neck or foot of an animal, a fetter.
पगार	पु.	1. वेतन; 2. पैरों से कुचलकर जोड़ाई के काम के लिए तैयार किया गया गारा।	বেতন; পা দিয়া মাড়াইয়া তৈরী করা কাদা	बेतन; पा दिया माड़ाइया तैरारी करा कादा	wages, salary; wet earth or clay for building or plastering a wall.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पचड़ा	पुं.	व्यर्थ की झंझट, बखेड़ा।	ঝঞ্ঝাট, বখেড়া	झंझाट, बखेड़ा	trouble, mess.
पचना	अ.क्रि.	1. पचाया जाना, हजम होना, खपना;	পরিপাক হওয়া, হজম হওয়া;	परिपाक हओया, हजम हओया;	to be digested;
		2. अधिक परिश्रम से क्षीण होना।	অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্বল হওয়া	अतिरिक्त परिश्रमे दुर्बल हओया	to labour hard, take pains.
पचपन	वि.	जो गिनती में पचास से पांच अधिक हो।	পঞ্চান্ন	पंच्चान्न	fiftyfive.
	पुं.	पचपन की बोधक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है–55.	(৫৫) এই সংখ্যা	(55) एइ संख्या	fiftyfive.
पचहत्तर (पछत्तर)	वि.	जो गिनती में सत्तर से पांच अधिक हो।	পচাত্তর	पचात्तर	seventyfive.
	पुं.	पचहत्तर की बोधक संख्या जो कि इस प्रकार लिखी जाती है–75.	(৭৫) এই সংখ্যা	(75) एइ संख्या	seventyfive.
पचाना	स.क्रि.	1. खाई हुई वस्तु को पक्वाशय की अग्नि से रस में परिणत करना;	পরিপাক করা, হজম করা;	परिपाक करा, हजम करा;	to digest;
		2. दूसरों का माल हजम करना;	অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা বা হজম করা;	अन्येर जिनिस आत्मसात् करा बा हजम करा;	to do away with the property of another o.shonestly or wrongfully, to embezzei;
		3. एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ को अपने में समा लेना या विलीन कर लेना।	এক পদার্থের অন্য পদার্থকে আত্মসাৎ করা	एक पदार्थेर अन्य पदार्थके आत्मसात् करा	to assimilate.
पचास	वि.	जो गिनती में चालीस से दस अधिक हो।	পঞ্চাশ	पंचास	fifty.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पुं.	पचास की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है-- 50.	(৫০) এই সংখ্যা	(50) एइ संख्या	fifty
पचासी	वि.	जो गिनती में अस्सी से पांच अधिक हो।	পঁচাশি	पंचाशि	eightyfive.
	पुं.	पचासी की बोधक संख्या जोकि इस प्रकार लिखी जाती है--85.	(৮৫) এই সংখ্যা	(85) एइ संख्या	eightyfive.
पच्चर (पच्चड़)	पुं.	1. बांस, लकड़ी आदि का वह छोटा पतला टुकड़ा जो दो काठ की चीजों में दरार को भरने के लिए ठोका जाता है;	কাঠের গোঁজ, গজাল, পেরেক;	काठेर गोंज, गजाल, पेरेक;	a slip of wood used to fill up a crevice or opening;
		2. अड़चन, बाधा, रुकावट।	বাধা	बाधा	obstacle.
पच्चीकारी	स्त्री.	एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की जड़ाई करने की क्रिया या भाव।	খচিত করণ	खचित करन	mosaic work, inlay work.
पच्चीस	वि.	जो गिनती में बीस से पांच अधिक हो।	পঁচিশ	पचिश	twentyfive.
	पुं.	पच्चीस की बोधक संख्या जोकि इस प्रकार लिखी जाती है– 25.	(২৫) এই সংখ্যা	(25) एइ संख्या	twentyfive.
पछताना	अ.क्रि.	अनुचित कार्य करने के बाद में उसके लिए दु:खी होना, पश्चाताप करना।	পস্তানো	पस्तानो	to repent.
पछतावा	पुं.	किसी कार्य के अनौचित्य के बोध से होनेवाली आत्मग्लानि, पश्चाताप।	অনুতাপ, পশ্চাত্তাপ	अनुताप, पश्चात्ताप	repentance, remorse, regret.
पछाहीं	वि.	1. पछाहं सम्बन्धी;	পশ্চিমা, পশ্চিম দিকের পশ্চিমে;	पश्चिमा, पश्चिम दिकेर पश्चिमे;	pertaining to the west;
		2. जो पछांह अर्थात् पश्चिम प्रदेश में रहता हो या होता हो।	পশ্চিম দেশীয়, পশ্চিমে	पश्चिम देशीय, पश्चिमे	one who lives in the west or is in the west.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पछाड़	स्त्री	1. शोक से मूर्छित होकर पीठ के बल गिर पड़ना, शोक से विह्वल होकर खड़े–खड़े गिर पड़ना;	মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাওয়া;	मुर्छित हइया पड़िया जाओया;	falling back in a swoon.
		2 पछाड़े जाने की क्रिया या भाव।	মূর্চ্ছা এবং পতন	मूर्च्छा एवं पतन	the act of falling.
पछाड़ना	स.क्रि.	1. कुश्ती आदि में किसी को जमीन पर चित्त गिराना;	পাছড়ানো, পটকানো;	पाछड़ानो, पटकानो;	to throw down;
		2. किसी को प्रतियोगिता आदि में परास्त करना।	পরাজিত করা	पराजित करा	to defeat.
पछीत	स्त्री.	मकान का पिछवाड़ा, पीछे का भाग।	বাড়ীর পিছন দিক্	बाड़ीर पिछन दिक्	rear wall or part of a house.
पछुआ	वि.	पश्चिम से आने वाली (वायु)।	পশ্চিমা (হাওয়া), পশ্চিমে (বাতাস)	पश्चिमा (हओआ), पश्चिमे (बातास)	westerly (wind).
पछोड़न	स्त्री.	अनाज पछोड़ने पर निकलने वाला कूड़ा–करकट।	শস্যাদি পাছড়াইলে যে তুষ-কুড়া বাহির হয়	शस्यादि पाछड़ाइले जे तुष-कुड़ा बाहिर हय	tne chaff which flies off in winnowing.
पछोड़ना (पछोरना)	स.क्रि.	अनाज आदि को सूप में रखकर इस प्रकार उछालना और हिलाना कि उससे कूड़ा–करकट निकल कर अलग हो जाए।	পাছড়ানো, কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া	पाछड़ानो, कुला दिया शस्यादि झाड़ा	to winnow (with a basket used for the purpose).
पजावा	पुं.	ईंट पकाने का भट्टा।	পাঁজা	पांजा	brick-kiln.
पट	पुं.	1. वस्त्र, कपड़ा;	পট, বস্ত্র, কাপড়;	पट, बस्त्र, कापड़;	garment, raiment, cloth;
		2. रंग–मंच का परदा;	যবনিকা;	जबनिका;	screen (of the stage);
		3. दरवाजा।	কপাট	कपाट	a door panel.
	वि.	1. जो पेट के बल स्थित हो, औंधा;	উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে এমন;	उपुड़ हइया पड़िया आछे एमन;	laying flat;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बिलकुल खाली पड़ा हुआ जिसमें या जिस पर कुछ भी न हो;	শূন্য;	शून्य;	empty;
		3. चौपट, बरबाद।	উৎসন্ন, বরবাদ	उत्सन्न, बरबाद	wiped out, destroyed.
	अव्य.	अतिशीघ्र, तत्काल।	চট্‌পট্ অতি দ্রুত	चट्पट् अति द्रुत	quick.
पटकना	स.क्रि.	1. किसी व्यक्ति या वस्तु को उठाकर झोंके के साथ पृथ्वी आदि पर गिराना;	পটকানো;	पटकानो;	to throw (one) down with violence;
		2. अपना कोई अंग जोर से किसी तल पर गिराना या रखना;	নিজের কোনো অংগ জোরে কিছুর উপর ঠোকা বা আছড়ান	निजेर कोनो अङ्ग जोरे किछुर उपर ठोका बा आछड़ान	to throw down;
		3. कुश्ती में प्रतिद्वन्द्वी को जमीन पर गिराना या पछाड़ना।	পটকানো, পাছড়ানো	पटकानो, पाछड़ानो	to knock down.
	अ.क्रि.	सूजन आदि का दबकर कम होना।	ফোলা ইত্যাদি কমিয়া যাওয়া	फोला इत्यादि कमिया जाओया	to abate, go down or subside (as swelling or tumour).
पटकनी	स्त्री.	पटकने की क्रिया या भाव, पटकान।	পটকান	पटकान	a throw or fall (in wrestling etc.), a knock-down.
पटका	पुं.	कमर में बांधने का दुपट्टा, कमरबंद।	পেটি, কোমরবন্ধ	पेटि, कोमरबन्ध	a cloth worn round the waist, girdle (specially of cloth).
पटना	अ.क्रि.	1. पाटा जाना, भर जाना;	ভরিয়া যাওয়া;	भरिया जाओया;	to be filled with;
		2. स्वभाव आदि में समानता होने के कारण आपस में बनना, अच्छे सम्बन्ध होना;	একই রকম স্বভাব ইত্যাদির জন্য পরস্পর বনিবনা;	एकइ रकम स्वभाव इत्यादिर जन्य परस्पर बनिबना;	agreeable relations;
		3. लेन–देन व्यवहार आदि में दोनों पक्षों के ब्यौरे की बातों में सहमति होना।	লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে দুই-পক্ষের একমত হওয়া	लेनदेन इत्यादि ब्यापारे दुइ-पक्षेर एकमत हओया	to agree (on certain things), to settle a matter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पटरा	पु.	1. काठ का लम्बा चौकोर और चौरस चीरा हुआ टुकड़ा, तख्ता;	পাটা, তক্তা;	पाटा, तक्ता;	a plank;
		2. खेत की मिट्टी बराबर करने का पाटा।	মই হিসাবে ব্যবহৃত মোটা পাটা	मइ हिसाबे ब्यबहृत मोटा पाटा	a long thick plank used as a harrow,
पटरानी	स्त्री.	राजा की प्रायः प्रथम और प्रमुख पत्नी।	পাটরানী	पाटरानी	queen consort.
पटरी	स्त्री.	1. छोटा पटरा;	ছোট পাটা;	छोट पाटा;	a small wooden plank;
		2. सड़क के दोनों किनारों पर ऊँचा और संकरा स्थान जो पैदल चलने वालों के लिए होता है;	ফুটপাত;	फुटपात;	rail, pedestrian footpath on either side of the road, a wooden strip;
		3. नहर के किनारों का रास्ता;	খালপাড়ের রাস্তা;	खालपाड़ेर रास्ता;	the banks of a canal;
		4. लोहे के लम्बे छड़ जिन पर रेलगाड़ी चलती है।	রেল লাইন	रेल लाइन	rails, railtrack.
पटल	पु.	1. छत, छाजन;	পটল, ছাদ;	पटल, छाद;	roof, thatch;
		2. लकड़ी का तख्ता;	তক্তা;	तक्ता;	table, a wooden plank;
		3. तह, परत;	স্তর, পরত;	स्तर, परत;	layer.
		4. (पा.) संसद या विधान–सभा की बेन्च।	(পারিভাষিক) সংসদ বা বিধান সভার ডেস্ক	(पारिभाषिक) संसद बा विधान सभार डेस्क	(tech.) desk in parliament or legislative assembly.
पटवारी	पु.	गांव की जमीन और उसकी मालगुजारी का लेखा रखने वाला एक सरकारी कर्मचारी।	পাটোয়ারী	पाटोयारी	a govt. functionary at the village level who keeps land records.
पटसन	पु.	1. सन या सनई नामक एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल के रेशों से रस्सी, बोरे, गलीचे आदि बनाए जाते हैं;	পাট;	पाट;	jute, sunn.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उक्त पौधों के रेशे।	পাটের আঁশ	पाटेर आंश	sunn, hemp.
पटाक्षेप	पु.	1. परदा गिरना या गिराना;	যবনিকা পতন বা যবনিকা পাতন, পটাব-তরণ বা পটাবতারণ	जबनिका पतन बा जबनिका पातन, पटाब-तरन बा पटाबतारन	ringing down the curtain or pushing aside of the stage curtain;
		2. किसी घटना या बात की होनेवाली समाप्ति।	কোনো বিষয়ের সমাপ্তি	कोनो बिषयेर समाप्ति	closing of an affair.
पटाखा (पटाका)	पु.	1. आतिशबाजी में एक प्रकार की गोली जिसे जमीन पर पटकने से जोर का शब्द होता है;	পটকা;	पटका;	cracker;
		2. आतिशबाजी में होने वाला उक्त प्रकार का शब्द।	পটাস করিয়া ফাটার শব্দ;	पटास करिया फाटार शब्द;	the report of a cracker.
पटान	स्त्री.	पाटने की क्रिया या भाव।	সমতল করণ	समतल करन	the act of settling a thing.
पटाना	स.क्रि.	1. पाटने का कार्य किसी अन्य से कराना;	সমতল করান, ছাদ পিটান;	समतल करान, छाद पिटान;	to get the thing settled by someone;
		2. बातचीत के द्वारा किसी को अपने अनुकूल करके क्रय–विक्रय आदि के लिए राजी करना।	পটানো, রাজী করানো	पटानो राजी करानो	to settle, to conclude, to persuade, to bring round.
पटाव	पुं.	1. पाटने की क्रिया, ढंग या भाव;	আচ্ছাদন;	आच्छादन;	roofing, (the work) covering;
		2. पाटकर बराबर किया हुआ स्थान।	সমতল করা স্থান	समतल करा स्थान	a levelled place.
पटिया	स्त्री.	1. पत्थर का आयताकार चौरस या लंबोतरा टुकड़ा जो साधारणतः डेढ़ दो इंच से कम नहीं होता;	পট্টিকা, গোল চৌকো বা লম্বাটে পাথরের টুকড়া;	पट्टिका, गोल चौको बा लम्बाटे पाथरेर टुकड़ा;	wooden or stone slab;
		2. काठ की तख्ती जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं;	স্লেটরূপে ব্যবহৃত কাঠের পাটা;	स्लेटरूपे ब्यबहृत काठेर पाटा;	a slip of board (used as a slate for writing on), tablet, slate;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. खाट की पाटी।	চারপায়ার পাশের লম্বা কাঠ	चारपायार पाशेर लम्बा काठ	the sides of a charpai (cot).
पटु	वि.	कुशल, निपुण, प्रवीण।	পটু, দক্ষ, নিপুণ	पटु, दक्ष, निपुन	skilled, dexterous.
पटुआ	पु.	पाट या सन का पौधा।	পাট বা সনের গাছ	पाट बा सनेर गाछ	the plant Hibiscus Cannabinus, Jute.
पटुता	स्त्री.	कुशलता, निपुणता।	পটুতা, দক্ষতা, নিপুণতা	पटुता, दक्षता, निपुनता	skilfulness, cleverness.
पट्ट	पु.	लकड़ी आदि का वह बड़ा टुकड़ा जिस पर नाम आदि लिखा जाता है अथवा सूचनाएं आदि लगाई जाती हैं।	পট্ট, প্লেট, ফলক	पट्ट, प्लेट, फलक	plate, board.
पट्टा	पु.	1. (पा.) अचल संपत्ति के उपयोग का अधिकार पत्र;	পাট্টা;	पाट्टा;	title deed, lease;
		2. पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि के गले में पहनाई जाने वाली चमड़े की पट्टी;	পোষা কুকুর ইত্যাদির গলায় বাঁধার চামড়ার পেটি;	पोषा कुकुर इत्यादिर गलाय बांधार चामड़ार पेटि;	dog - collar;
		3. चमड़े का कमरबंद;	চামড়ার পেটি;	चामड़ार पेटि;	belt (leather);
		4. बैठने के लिए बना हुआ काठ का पटरा।	পিঁড়ি	पिंड़ि	a board on which Hindus sit whilst eating their meals.
पट्टाधारी	पु.	(पा.) व्यक्ति जिसने किसी निश्चित अवधि के लिए कुछ शर्तों पर जमीन या सम्पत्ति भोग्यार्थ प्राप्त की हो।	পাট্টাধারী, যে-ব্যক্তির নামে জমির পাট্টা আছে	पाट्टाधारी, जे-व्यक्तिर नामे जमिर पाट्टा आछे	lease-holder.
पट्टी	स्त्री.	1. लकड़ी की लंबी और चौरस पटरी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं;	বালক বালিকার হাতের লেখা অভ্যাসের জন্য কাষ্ঠফলক;	बालक बालिकार हातेर लेखा अभ्यासेर जन्य काष्टफलक;	wooden plate (for beginners to write on);
		2. बुरी नीयत से दी जाने वाली सलाह;	কুপরামর্শ;	कुपरामर्श;	misguidance;

हिंदी शब्द	व्या. को	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. कपड़े, काठ, धातु आदि का लम्बोतरा, कम चौड़ा और पतला टुकड़ा;	পটি;	पटि;	strap, strip;
		4. मध्ययुग में किसी संपत्ति अथवा उससे होनेवाली आय का वह अंश जो उसके हिस्सेदार को मिलता था।	মধ্যযুগে অংশীদারের প্রাপ্য এজমালি সম্পত্তির অংশ বা উক্ত সম্পত্তির আয়ের অংশ	मध्यजुगे अंशीदारेर प्राप्य एजमालि सम्पत्तिर अंश बा उक्त सम्पत्तिर आयेर अंश	co-share (particularly in landed property).
पट्टीदार	पु.	(पा.) संयुक्त संपत्ति के किसी भाग का स्वामी, बराबर का हकदार।	অংশীদার	अंशीदार	co-sharer, partner.
पट्टेदार	पु.	भागी, हिस्सेदार (जमीन आदि में)।	(জমি-প্রভৃতির) ভাগী অংশীদার	(जमि-प्रभृतिर) भागी अंशीदार	co-sharer, partner, (in landed property etc.).
पट्ठा	पु.	1. कुश्ती लड़नेवाला या पहलवान;	কুস্তিগীর, পালোয়ান;	कुस्तिगीर, पालोयान;	wrestler;
		2. एक प्रकार का चौड़ा गोटा;	জরির পাড়;	जरिर पाड़;	lace, broad brocade;
		3. किसी प्रकार का हलदार मोटा और लंबा पत्ता।	মোটা লম্বা পাতা বিশেষ	मोटा लम्बा पाता बिशेष	a long pointed leaf.
पठन	पुं.	पढ़ने की क्रिया या भाव, पढ़ना।	পঠন, পাঠ	पठन, पाठ	reading.
पठन-पाठन	पुं.	पढ़ना और पढ़ाना।	পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা	पठन-पाठन, अध्ययन, अध्यापना	reading and studying.
पठार	पु.	वह ऊंचा विस्तृत मैदान जो समीपवर्ती निचले प्रदेशों में ढालुए अंश से मिला रहता है तथा जिसका ऊपरी भाग बहुत अधिक चौड़ा तथा चपटा होता है।	মালভূমি, অধিত্যকা	मालभूमि, अधित्यका	plateau.
पड़ता	पु.	1. किसी माल की खरीद या तैयारी का खर्च;	পড়তা, পণ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের মোট খরচ;	पड़ता, पन्य संग्रह ओ उत्पादनेर मोट खरच;	purchase or manufacturing cost;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बिक्री के दामों में से लागत निकाल कर होने वाली बचत।	লাভাংশ, ডিভিডেন্ড	लाभांश, डिभिडेन्ट	dividend.
पड़ताल	स्त्री.	1. अच्छी तरह की जाने वाली छानबीन या देखभाल,	ভালরকম তদন্ত;	भालरकम तदन्त;	investigation;
		2. पटवारी या कानूनगो द्वारा की जानेवाली खेतों की एक विशेष प्रकार की जांच जिसमें बोई हुई फसल बोनेवाले का नाम, सिंचाई आदि का ब्यौरा लिखा जाता है।	পাটোয়ার বা কানূনগো দ্বারা কৃত জমির পরিমাণ, চাষীর নাম, সেঁচ ইত্যাদির বিবরণ যাহাতে থাকে এমন কাগজ	पाटोयार बा कानुनगो द्वारा कृत जमिर परिमान, चाषीर नाम, सेंच इत्यादिर बिबरन जाहाते थाके एमन कागज	remeasurement (of a field).
पड़ती (परती)	स्त्री.	वह खेत जिसे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट ऋतु में जोता-बोया न गया हो।	ফেলিয়া রাখা জমি	फेलिया राखा जमि	uncultivated or fallow land, waste-land.
पड़ना	अ.क्रि.	1. गिरना;	পড়া;	पड़ा;	to drop;
		2. शरीक होना;	শরিক হওয়া;	शरीक हओया;	to participate;
		3. बिना उद्देश्य के कहीं टिकना, ठहरना;	কোথাও পড়িয়া থাকা;	कोथाओ पड़िया थाका;	to halt, encamp, camp;
		4. लेटना;	শুয়া;	शुआ;	to lie down;
		5. बीमार होना;	পীড়িত হওয়া;	पीड़ित हओया;	to fall ill;
		6. उत्कट अभिलाषा अथवा प्रवृत्ति का होना।	উৎকট ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হওয়া	उत्कट इच्छा बा प्रबृत्ति हओया	to be keen (after), to hanker (after).
पड़वा	पु.	प्रत्येक पक्ष की प्रथम तिथि।	প্রতিপদ	प्रतिपद	the first day of each lunar fortnight.
पड़ाव	पु.	1. मार्ग में पड़ने वाला वह स्थान जहां यात्री रात बिताने, विश्राम आदि करने के लिए रुकते हैं;	চটি, সরাই;	चटि, सराइ;	halting place;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. सेना, काफिले आदि का मार्ग में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना।	সৈন্যদল, যাত্রীদল ইত্যাদির যাত্রাপথে কোথাও অবস্থান	सैन्यदल, जात्रीदल इत्यादिर जात्रापथे कोथाओ अबस्थान	encampment.
पड़िया	स्त्री.	भैंस का मादा बच्चा।	মহিষের মাদা বাচ্চা	महिषेर मादा बाच्चा	she-calf of a buffalow, a young buffalo.
पड़ोस (पड़ौस)	पु.	किसी प्रदेश, स्थान आदि से सटा हुआ अथवा उसके आसपास का स्थान।	পড়স, প্রতিবেশ, নিকটবর্তী স্থান	पड़स, प्रतिबेश, निकटबर्ती स्थान	neighbourhood, vicinity.
पड़ोसिन	स्त्री.	पड़ौस में रहनेवाली स्त्री।	প্রতিবেশিনী	प्रतिबेशिनी	a female neighbour.
पड़ोसी (पड़ौसी)	पु.	पड़ौस में रहनेवाला।	প্রতিবেশী, পড়সী	प्रतिबेशी, पड़सी	neighbour.
पढ़ना	स.क्रि.	1. लिखे हुए अक्षरों या शब्दों का क्रम से उच्चारण करना;	পড়া, পাঠ করা;	पड़ा, पाठ करा;	to read;
		2. अंकित, मुद्रित या लिखित चिह्नों, वर्णों आदि को देखते हुए उनका अर्थ और आशय जानना तथा समझना;	পড়িতে পারা, পাঠোদ্ধার করা;	पड़िते पारा, पाठोद्धार करा;	to make out, to decipher, to talk;
		3. किसी विषय या शास्त्र के बारे में जानने के लिए उसका विधिवत् अध्ययन करना;	অধ্যয়ন করা;	अध्ययन करा;	to study;
		4. नया सबक सीखना।	নূতন পাঠ গ্রহণ	नूतन पाठ ग्रहन	to learn (new thing).
पढ़वाना	स.क्रि.	किसी को पढ़ने या पढ़ाने में प्रवृत्त करना।	পড়ানো, অধ্যয়ন করানো	पड़ानो, अध्ययन करानो	to cause (one) to be taught.
पढ़ाई	स्त्री.	1. पढ़ने की क्रिया या भाव; 2. पढ़ाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक;	অধ্যয়ন, পাঠ; পড়ানো, পড়াইবার পারিশ্রমিক;	अध्ययन, पाठ; पड़ानो, पड़ाइबार पारिश्रमिक;	study; tuition fee;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. पढ़ाया जानेवाला विषय या सिखलाई जानेवाली कला।	পাঠ্য বিষয়, শিক্ষণীয় শিল্প	पाठ्य बिषय, शिक्षनीय शिल्प	education, learning.
पढ़ाना	स.क्रि.	शिक्षा देना, कोई विषय या बात सिखाना।	পড়ানো	पड़ानो	to teach, to instruct.
पणन	पु.	1. खरीदने, बेचने की क्रिया;	ক্রয়বিক্রয়;	क्रयविक्रय;	purchasing, buying;
		2. बाजी या शर्त लगाने की क्रिया या भाव।	বাজি রাখা, বাজি ধরা, পণ রাখা	बाजि राखा, बाजि धरा, पन राखा	betting.
पण्य	पु.	1. विक्रय वस्तु, सौदा;	পণ্য বিক্রেয় বস্তু, বেসাত, সওদা;	पन्य बिक्रेय बस्तु, बेसात, सओदा;	saleable thing, commodity;
		2. व्यापार, रोजगार;	ব্যবসায়;	ब्यबसाय;	trade, business;
		3. दुकान।	দোকান, বিপণি	दोकान, बिपनि	shop.
	वि.	क्रय-विक्रय के योग्य।	ক্রয়বিক্রয়যোগ্য	क्रयबिक्रयजोग्य	marketable.
पतंग	पु.	1. सूर्य;	পতংগ, সূর্য;	पतङ्ग, सूर्ज;	the sun;
		2. चिड़िया, पक्षी।	পক্ষী	पक्षी	bird.
	स्त्री.	बांस की कमानियों के ढाँचे पर कागज मढ़कर बनाई हुई वस्तु जिसे तागे से बांधकर हवा में उड़ाते हैं।	ঘুড়ি	घुड़ि	paper kite.
पतंगबाज	पु.	जिसे पतंग उड़ाने का शौक या व्यसन हो।	যে ব্যক্তির ঘুড়ি উড়াইবার শখ আছে	जे ब्यक्तिर घुड़ि उड़ाइबार शख आछे	kite-flier.
पतंगा	पु.	1. एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा;	পতংগ;	पतंग;	moth;
		2. चिनगारी।	স্ফুলিংগ	स्फुलिङ्ग	a spark (of fire), a live coal.
पतझड़	पु.	1. शिशिर ऋतु जिसमें पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं;	হিমঋতু;	हिमऋतु;	autumn;
		2. उन्नति के उपरांत होनेवाला ह्रास।	বৃদ্ধির পরবর্তী হ্রাস	बृद्धिर परबर्ती ह्रास	defoliation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पतन	पुं.	1. ऊपर से नीचे आने या गिरने का भाव, अधोगति;	পতন, অধোগতি, অবনতি;	पतन, अधोगति, अबनति;	downfall, fall;
		2. स्तुत्य आचरण को छोड़कर हीन आचरण में प्रवृत होना;	অধ:পতন, স্খলন;	अध:पतन, स्खलन;	falling from dignity, virtue;
		3. जाति, राष्ट्र आदि का ऐसी स्थिति में आना कि उसकी प्रभुता और महत्ता नष्टप्राय हो जाए।	দুর্দশাপ্রাপ্তি	दुर्दशाप्राप्ति	decline.
पतला	वि.	1. कृश, संकरा, बारीक; 2. जो गाढ़ा न हो, जिसमें जलीय अंश का आधिक्य हो।	পাতলা, সরু, মিহি; ঘন নহে এমন, তরল, পাতলা	पातला, सरु, मिहि; घन नहे एमन, तरल पातला	thin, fine, flimsy; liquid, diluted.
पतवार	स्त्री.	नाव में पीछे की ओर लगी हुई वह तिकोनी लकड़ी जिसके द्वारा नाव को इधर-उधर घुमाते हैं और मोड़ते हैं।	হাল	हाल	rudder, helm.
पता	पु.	1. किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का ऐसा परिचय जो उसे पाने, ढूंढने या उसके पास तक समाचार पहुंचाने में सहायक हो;	পাত্তা, উদ্দেশ, খোঁজ;	पात्ता, उद्देश, खोंज;	whereabouts;
		2. पत्र आदि की पीठ पर लिखा जाने वाला पाने वाले का नाम आदि जिसके सहारे वह उसके पास पहुंच जाता है;	ঠিকানা;	ठिकाना;	address;
		3. किसी अज्ञात व्यक्ति, विषय आदि के संबंध में ऐसी जानकारी जो अभी तक प्राप्त न हुई हो और जिसे प्राप्त करना अभीष्ट या आवश्यक हो।	সংবাদ, খবর	संबाद, खबर	information, knowledge.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पताका	स्त्री.	लकड़ी आदि के डंडे के सिरे पर पहनाया जानेवाला वह तिकोना या चौकोना कपड़ा जिस पर प्रायः किसी राजा, राष्ट्र या संघ आदि का बोधक चिन्ह बना रहता है।	পতাকা, নিশান, কেতন	पताका, निशान, केतन	flag, banner.
पता-ठिकाना	पुं.	दे. 'पता'।	দ্রষ্টব্য 'পতা'	द्रष्टव्य 'पता'	see 'पता'.
पति	पुं.	1. किसी वस्तु का मालिक या स्वामी;	পতি, অধিকারী;	पति, अधिकारी;	master;
		2. स्त्री की दृष्टि से वह पुरुष जिसके साथ उसका विधिवत् विवाह हुआ हो।	স্বামী, ভর্তা, বর	स्वामी, भर्त्ता, बर	husband.
पतित (स्त्री. पतिता)	वि.	1. ऊपर से नीचे आया या गिरा हुआ;	পতিত, পড়িয়া গিয়াছে এমন;	पतित पड़िया गियाछे एमन;	dropped, descended;
		2. जाति, धर्म, आचार आदि से च्युत;	ভ্রষ্ট, চ্যুত;	भ्रष्ट, च्युत;	fallen (in a moral sense);
		3. बहुत बड़ा अधम, नीच या पापी।	কলুষিত, পাপী	कलुषित पापी	wicked, sinner.
पतिव्रत	पुं.	पति के प्रति अनन्य निष्ठा या भक्ति।	পতির প্রতি অনন্য নিষ্ঠা ও ভক্তি	पतिर प्रति अनन्य निष्ठा ओ भक्ति	fidelity to husband, chastity.
पतिव्रता	वि.	पति में अनन्य श्रद्धा, अनुराग रखनेवाली साध्वी स्त्री।	পতিব্রতা, পতিপরায়ণ সাধ্বী	पतिव्रता, पतिपरायन साध्वी	faithful wife, virtuous wife.
पतीला	पुं.	तांबे, पीतल, आदि का ऊचें तथा खड़े किनारेवाला और गोल घेरेवाला एक प्रसिद्ध बरतन।	তামা পিতলাদির ডেক	तामा पितलादिर डेक	copper or brass pot or pan with-a wide mouth, cauldron.
पतीली	स्त्री.	छोटा पतीला।	ডেকচী	डेकची	cooking vessel, kettle.
पतुरिया	स्त्री.	वेश्या, कुलटा, दुश्चरित्रा।	বেশ্যা, কুলটা	वेश्या, कुलटा	prostitute, harlot.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पतोहू	स्त्री.	पुत्रवधू।	পুত্রবধূ	पुत्रबधु	son's wife, daughter-in-law.
पत्तन	पु.	1. वायु अथवा जलपोतों के ठहरने का स्थान;	বন্দর	बन्दर	port;
		2. नगर, शहर।	পত্তন, নগর	पत्तन, नगर	town, city.
पत्तल	स्त्री.	1. पलाश, महुए आदि के पत्तों की सीकों से जोड़कर थाली के सदृश बनाया हुआ गोलाकार आधार;	পাতা;	पाता;	plate made of leaves;
		2. पत्तल में रखी हुई खाद्य सामग्री;	খাদ্য, খাবার;	खाद्य, खाबार;	food served on such a plate;
		3. उतना भोजन जितना एक साधारण आदमी करता हो।	এক জনের খোরাক	एक जनेर खोराक	a meal sufficient for a person.
पत्ता	पु.	1. पेड़ों की शाखाओं में लगने वाले चपटे पतले लचीले अवयव जिनके कारण छाया होती है;	পাতা, পত্র;	पाता, पत्र;	leaf;
		2. ताश।	তাস	तास	playing cards.
पत्ती	स्त्री.	1. छोटा पत्ता;	ছোট পাতা;	छोट पाता;	small leaf,
		2. साझे का हिस्सा;	ভাগ, হিস্‌সা অংশ;	भाग, हिस्सा, अंश;	share;
		3. लकड़ी, धातु आदि का छोटा पत्ता।	পাতলা পাত	पातला पात	a leaf or thin plate (of metal).
पत्थर	पु.	1. धातु से भिन्न-कड़ा ठोस और भारी भूद्रव्य जो प्रायः खानों या पर्वतों को काटकर निकाला जाता है;	প্রস্তর, পাথর;	प्रस्तर, पाथर;	stone;
		2. पत्थर के समान कड़ा और भारी।	পাথরের মতো শক্ত ও ভারী	पाथरेर मतो शक्त ओ भारी	ırd and heavy.
पत्नी	स्त्री.	पुरुष की दृष्टि से वह स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हुआ हो, भार्या।	পত্নী, সহধর্মিণী, ভার্যা, জায়া, স্ত্রী	पत्नी, सहधर्मिनी, भार्जा, जाया, स्त्री	wife.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पत्नीव्रत	पु.	विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से सम्बन्ध न रखने का व्रत।	পত্নীব্রত, পত্নীপরায়ণ পত্নীনিষ্ঠ	पत्नीव्रत, पत्नीपरायन, पत्नीनिष्ठ	vow to be loyal to one's wife, fidelity (to one's wife).
पत्र	पु.	1. वृक्ष का पत्ता;	পত্র, পর্ণ, পাতা;	पत्र, पर्न, पाता;	leaf (of a tree);
		2. चिट्ठी;	চিঠি;	चिठि;	letter ;
		3. किसी धातु की पट्टी या पत्तर;	ধাতুর পাত;	धातुर पात;	any thin leaf or plate of metal;
		4. पुस्तक आदि का पृष्ठ, पन्ना;	পুস্তকের পাতা বা পৃষ্ঠা;	पुस्तकेर पाता बा पृष्ठा;	page;
		5. कागज या धातु की पट्टी जिस पर किसी व्यवहार के विषय में कोई प्रामाणिक लेख लिखा हो या खुदवाया गया हो;	লেখ্য, দলিল;	लेख्य, दलिल;	paper;
		6. समाचारपत्र या अखबार;	সংবাদপত্র;	संबादपत्र;	newspaper;
		7. पंख।	পাখা, পক্ষ	पाखा, पक्ष	the wing of a bird, pinion, feather.
पत्रकार	पु.	वह व्यक्ति जो समाचारपत्रों को नित्य नए समाचारों की सूचना देता, उन पर टीका-टिप्पणी करता अथवा उनको सम्पादित करता हो।	সাংবাদিক	सांबादिक	journalist.
पत्रकारिता	स्त्री.	1. पत्रकार होने की अवस्था या भाव;	সাংবাদিকতা;	सांबादिकता;	state of being a journalist;
		2. वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों आदि का विवेचन होता है।	সাংবাদিকতা বিদ্যা	सांबादिकता बिद्या	journalism.
पत्र-पत्रिका	स्त्री.	दैनिक समाचार-पत्र एवं मासिक, पाक्षिक अथवा साप्ताहिक प्रकाशित होने वाले प्रकाशन।	পত্রপত্রিকা, দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি পত্রিকা	पत्रपत्रिका, दैनिक साप्ताहिक इत्यादि पत्रिका	periodicals (magazines etc.)
पत्र-पुष्प	पु.	1. सामान्य या तुच्छ उपहार;	সামান্য বা তুচ্ছ উপহার;	सामान्य बा तुच्छ उपहार;	token gift etc;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. सत्कार या पूजा की बहुत ही साधारण सामाग्री।	অতিথি সৎকারাদির অতি সাধারণ বস্তু	अतिथि सत्कारादिर अति साधारन बस्तु	token of hospitality.
पत्रमित्र	पु.	दूरस्थ ऐसे व्यक्ति जिनकी मित्रता पत्रव्यवहार के कारण ही होती है, साक्षात्कार के कारण नहीं।	পত্রমিত্র	पत्रमित्र	pen-friend.
पत्रवाहक	पुं.	पत्र ले जानेवाला।	পত্রবাহক, লিপিবাহক	पत्रबाहक, लिपिबाहक	bearer of letter, postman.
पत्रव्यवहार	पु.	परस्पर एक दूसरे को पत्र लिखना अथवा आए हुए पत्रों के उत्तर देना।	পত্রব্যবহার, চিঠির আদানপ্রদান	पत्रब्यबहार, चिठिर आदानप्रदान	correspondence.
पत्रा	पुं.	पंचांग, तिथि-पत्र।	পঞ্জিকা	पंजिका	almanac, ephemeris, calendar.
पत्राचार	पु.	पत्रव्यवहार।	পত্রব্যবহার	पत्रब्यबहार	correspondence.
पत्रिका	स्त्री.	1. प्रायः नियमित रूप से निकलने वाली ऐसी पुस्तिका जिसमें विभिन्न विषयों पर लेख, कहानियां आदि होती हैं, 2. चिट्ठी, खत; 3. कोई छोटा लेख।	পত্রিকা, খবরের কাগজ মাসিক দৈনিক ইত্যাদি; পত্রিকা, লিপি, চিঠি; নাতিদীর্ঘ রচনা	पत्रिका, खबरेर कागज मासिक दैनिक इत्यादि; पत्रिका, लिपि, चिठि; नातिदीर्घ रचना	magazine, periodical, journal; letter; document.
पत्री	स्त्री.	1. चिट्ठी, खत; 2. कोई छोटा लेख।	চিঠি; নাতিদীর্ঘ রচনা	चिठि; नातिदीर्घ रचना	note, letter; document.
पथ	पु.	1. मार्ग, रास्ता, राह; 2. कार्य या व्यवहार की पद्धति।	পথ, মার্গ, রাস্তা; উপায়, ব্যবস্থা, বিধান	पथ, मार्ग, रास्ता; उपाय, ब्यबस्था, बिधान	path, way, road; method.
पथ-प्रदर्शक	पु.	राह दिखाने वाला, किसी कार्य या व्यवहार की पद्धति बताने वाला।	পথপ্রদর্শক, যে পথ দেখায়	पथप्रदर्शक, जे पथ देखाय	guide.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पथ-प्रदर्शन	पु.	पथ-प्रदर्शन का कार्य या भाव।	পথ-প্রদর্শন, পথ দেখান	पथप्रदर्शन, पथ देखान	guidance.
पथभ्रष्ट	वि.	1. जो मार्ग भूल गया हो;	পথভ্রষ্ট, পথভ্রান্ত;	पथभ्रष्ट, पथभ्रान्त;	one who has gone out of track;
		2. न्याय मार्ग अथवा आचरण से विमुख।	বিপথগামী	बिपथगामी	fallen.
पथराना	अ.क्रि.	1. सूखकर पत्थर की तरह कड़ा हो जाना;	শুখাইয়া পাথরের মতো শক্ত হওয়া	शुखाइया पाथरेर मतो शक्त हओया	to become hard;
		2. पत्थर की तरह स्तबुध और चेतना-शून्य हो जाना, जड़ हो जाना।	পাথর হইয়া যাওয়া	पाथर हइया जाओया	to harden into stone;
पथराव	पु.	1. किसी पर बार-बार पत्थर के टुकड़े फैंके जाने की क्रिया;	প্রস্তরবৃষ্টি হওয়া;	प्रस्तरवृष्टि हओया;	stoning, pelting stones;
		2. पत्थर की तरह स्तबुध और चेतनाशून्य होने की दशा या भाव।	পাষাণের মতো হইয়া যাওয়া	पाषानेर मतो हइया जाओया	condition or state of being stony.
पथरी	स्त्री.	एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के टुकड़ों के समान कोई चीज उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप पेशाब रुक रुक कर और कष्ट से होता है, कभी-कभी बन्द भी हो जाता है।	পাথরি	पाथरि	stone.
पथरीली	वि.	जिसमें पत्थर के टुकड़े मिले हों, पत्थर के टुकड़ों से युक्त।	পাথুরে	पाथुरे	stony, rocky.
पथिक	पु.	बटोही, राही।	পথিক, পথচারী	पथिक, पथचारी	traveller, wayfarer.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पथ्य	वि.	1. (आहार-व्यवहार) जो स्वास्थ्य, विशेषतः रोगी की स्वास्थ्य-रक्षा के विचार से आवश्यक या उचित हो;	পথ্য, স্বাস্থ্যকর (আহার);	पथ्य, स्वास्थ्यकर (आहार);	light (meal, diet);
		2. लाभदायक, हितकर।	উপকারক, হিতকর	उपकारक, हितकर	proper, suitable.
	पु.	1. वह हल्का भोजन जो अस्वस्थ या रोगी व्यक्ति को दिया जाए;	রোগীর পক্ষে উপযোগী খাদ্য;	रोगीर पक्षे उपजोगी खाद्य;	wholesome food (for a patient);
		2. स्वास्थ्य के लिए हितकर खानपान और रहन-सहन।	স্বাস্থ্যকর দ্রব্য	स्वास्थ्यकर द्रब्य	diet conducive to health.
पथ्यापथ्य	पु.	रोग की अवस्था में हितकर और अहितकर।	পথ্যাপথ্য	पथ्यापथ्य	wholesome and unwholesome.
पद	पु.	1. कदम, पांव, पैर;	পদ, পা, চরণ;	पद, पा, चरन;	foot, footstep, step;
		2. चलते समय दो पैरों के बीच में होने वाली दूरी;	পদক্ষেপ;	पदक्षेप;	pace, stride;
		3. जगह, स्थान;	স্থান;	स्थान;	place;
		4. छंद, श्लोक आदि का चतुर्थांश;	শ্লোকচরণ, কবিতার পঙ্‌ক্তি;	श्लोकचरन, कबितार पंक्ति;	a quarter or line of stanza, verse;
		5. वाक्य का अंश या खंड;	বিভক্তিযুক্ত শব্দ;	बिभक्तिजुक्त शब्द;	part, portion or division (as of a sentence);
		6. वह स्थान जिस पर रहकर कोई विशिष्ट कार्य करता हो, ओहदा, उपाधि।	কার্যাধিকার, চাকরি	कार्जाधिकार, चाकरि	designation, status, rank, post.
पदक	पु.	सोने, चांदी या किसी और धातु का बना हुआ वह गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी व्यक्ति अथवा समाज को विशिष्ट योग्यतापूर्ण कार्य करने पर उसका सम्मान करने के लिए दिया जाता है, तमगा।	পদক, প্রশংসা বা সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণাদি ধাতু নির্মিত চাকতি বিশেষ, মোডেল	पदक प्रशासा बा सम्मानेर निदर्शनस्वरूप स्वर्नादि धातु निर्मित चाकति बिशेष, मोडेल	medal.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पदचिह्न	पुं.	चलने से जमीन पर पड़नेवाली छाप।	পদচিহ্ন, পায়ের দাগ	पदचिह्न, पायेर दाग	foot-print, foot-mark.
पदच्युत	वि.	जो अपने पद या दर्जे से हटा दिया गया हो, जिसका पद छीन लिया गया हो।	পদচ্যুত, কর্মচ্যুত, বরখাস্ত	पदच्युत, कर्मच्युत, बरखास्त	dismissed, discharged from office.
पद-त्याग	पुं.	अपना पद या ओहदा छोड़ देना।	পদত্যাগ, আধিপত্য, কর্মভার বা চাকরি ত্যাগ	पदत्याग, आधिमत्य, कर्मभाब बा चाकरि त्याग	renunciation, abandonment of an office.
पद-दलित	वि.	1. पैरों से कुचला या रौंदा हुआ; 2. जिसे समाज ने दबाकर बहुत हीन अवस्था में रखा हो और उन्नति का अवसर न दिया हो।	পদদলিত পায়ের তলায় পিষ্ট; সমাজ যাকে হীন পতিত অবস্থায় রেখেছে	पददलित पायेर तलाय पिष्ट; समाज जाके हीन पतित अबस्थाय रेखेछे	trodden under foot; down-trodden.
पदनाम	पुं.	किसी पदाधिकारी के पद का सूचक नाम।	পদসূচক আখ্যা	पदसूचक आख्या	designation.
पदयोजना	स्त्री.	पदों या शब्दों को जोड़ना, चुन-चुन कर रखना।	পদযোজনা, পদসংযোজন	पदजोजना, पदसंजोजन	arrangement of words.
पदविन्यास	पुं.	पदों या शब्दों के वाक्य में ठीक प्रकार से बैठाने या रखने की क्रिया या भाव।	পদবিন্যাস, বাক্যের পদের যথাযথ স্থানে প্রয়োগ	पदबिन्यास, बाक्येर पदेर जथाजथ स्थाने प्रयोग	disposition of words.
पदवी	स्त्री.	राज्य, संस्था आदि की ओर से किसी को दी जाने वाली आदर या योग्यता-सूचक उपाधि, खिताब।	পদবী, উপাধি, খেতাব	पदबी, उपाधि, खेताब	title.
पदाधिकार	पुं.	किसी पद पर काम करने वाले को प्राप्त होनेवाला अधिकार।	পদাধিকার, বিশেষ পদে থাকার জন্য প্রাপ্ত অধিকার	पदाधिकार, बिशेष पदे थाकार जन्य प्राप्त अधिकार	the power which the person has while working in a certain capacity.
पदाधिकारी	पुं.	वह जो किसी पद पर नियुक्त हो।	পদাধিকারী	पदाधिकारी	officer.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पदार्थ	पु.	1. चीज, वस्तु; 2. पद या शब्द का अर्थ।	পদার্থ, দ্রব্য, বস্তু; শব্দের অর্থ	पदार्थ, द्रब्य, बस्तु; शब्देर अर्थ	thing or object; meaning of a word.
पदार्पण	पु.	प्रवेश, आगमन।	পদার্পণ, প্রবেশ	पदार्पन, प्रबेश	arrival, stepping-in.
पदावधि	स्त्री.	किसी पद पर किसी व्यक्ति के काम करते रहने की अवधि।	কোনো পদে কাহারও কার্যকাল	कोनो पदे काहारओ कार्जकाल	tenure, term of office.
पदावनति	स्त्री.	ऊंचे पद से हटाकर नीचे पद पर कर दिया जाना।	পদাবনতি	पदाबनति	reversion.
पदावली	स्त्री.	1. पदों या शब्दों की परम्परा, प्रयुक्त शब्द समूह; 2. गाये जानेवाले गीतों, भजनों आदि का संग्रह।	পদাবলী, বিভক্তিযুক্ত শব্দসমূহ; সংগীতাবলী, গানসমূহ	पदाबली, बिभक्तिजुक्त शब्दसमूह; संगीताबली, गानसमूह	series of verses or words; collection of devotional songs.
पदेन	क्रि.वि.	पद पर रहने के नाते से, पद पर आरुढ होने के अधिकार से।	পদাধিকার বলে	पदाधिकार बले	ex-officio.
पदोन्नति	स्त्री.	पद की वृद्धि, तरक्की।	পদোন্নতি, চাকরিতে বা পদের উন্নতি	पदोन्नति चाकरिते बा पदेर उन्नति	promotion, rise in rank or status.
पद्धति	स्त्री.	1. पथ, मार्ग, रास्ता; 2. रीति, प्रणाली, तरीका।	পদ্ধতি, পথ, মার্গ; রীতি, প্রণালী	पद्धति, पथ, मार्ग; रीति, प्रनाली;	path, road, course; method, system.
पद्म	पु.	1. कमल; 2. एक संख्या।	পদ্ম, কমল; শত নিখর্ব বা দশ শঙ্খ সংখ্যা	पद्म, कमल; शत निखर्ब्ब बा दश शङ्ख संख्या	lotus; a particular high number.
पद्मासन	पु.	एक प्रकार का योगासन जिसमें पालथी मारकर तनकर बैठते हैं।	পদ্মাসন, যোগের আসন-বিশেষ	पद्मासन, जोगरे आसन-बिशेष	particular posture in religious meditation.
पद्य	पुं.	गुण, मात्रा आदि के नियमों के अनुसार होनेवाली साहित्यिक रचना, छंदोबद्ध रचना।	ছন্দোবদ্ধ রচনা, কবিকৃতি	छन्दोबद्ध रचना, कबिकृति	verse, poetry, a literary composition.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पधारना	अ.क्रि.	1. पदार्पण करना;	পদার্পণ করা;	पदार्पन करा;	to arrive, to sit, to sit down, to take a seat;
		2. गमन करना, चला जाना।	গমণ করা	गमन करा	(to go) set out.
पनघट	पु.	वह घाट जहां से लोग पानी भरते हैं।	জলের ঘাট	जलेर घाट	a place for drawing water, village well etc.
पनचक्की	स्त्री.	पानी के बहाव के जोर से चलनेवाली आटा आदि पीसने की चक्की।	জলের স্রোত-ধারার সাহায্যে যে-কল চলে	जलेर स्रोत-धारार साहाज्ये जे-कल चले	water-mill, flour-mill.
पनडुब्बी	स्त्री.	पानी के अन्दर-अन्दर चलने वाला एक प्रकार का जहाज।	ডুবো জাহাজ	डुबो जाहाज	submarine.
पनपना	अ.क्रि.	1. फलना-फूलना, हराभरा होना;	ফনফনাইয়া উঠা;	फनफनाइया उठा;	to flourish;
		2. फिर से स्वस्थ होना;	সুস্থ হইয়া উঠা;	सुस्थ हइया उठा;	to recover;
		3. अच्छी स्थिति में आने लगना।	অবস্থার উন্নতি হইতে থাকা	अबस्थार उन्नति हइते थाका	to prosper.
पनबिजली	स्त्री.	पानी के प्रवाह से तैयार की जानेवाली बिजली।	জলবিদ্যুৎ	जलबिद्युत	hydro-electricity.
पनवाड़ी	पु.	तमोली, पान लगाकर बेचनेवाला।	পানবিক্রেতা, তাম্বুলী	पानबिक्रेता, ताम्बुली	betel vendor.
पना	पुं.	भुने हुए आम, इमली आदि का बनाया जानेवाला एक प्रकार का खट्टा-मीठा शरबत।	পোড়া আমের পানা	पोड़ा आमेर पाना	a typical beverage prepared from baked mango with the addition of tamarind and cumin seed etc.
पनाह	स्त्री.	1. शत्रु आदि से बचाव, शरण;	আশ্রয়, শরণ;	आश्रय, शरन;	refuge;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बचाव या रक्षा की जगह, शरण लेने की जगह।	আশ্রয়স্থান	आश्रयस्थान	shelter.
पनिहारिन	स्त्री.	घरों में पानी भरने का काम करनेवाली।	গৃহকর্মে নিযুক্ত যে নারী কলসী ইত্যাদিতে জল ভরিয়া আনে	गृहकर्मे निजुक्त जे नारी कलसी इत्यादिते जल भरिया आने	woman carrying waterpots on her head as a means of livelihood.
पनीर	पु.	फटे या फाड़े हुए दूध का गाढ़ा अंश जो उसका पानी निकालने पर बचा रहता है, पानी निकालने के बाद दही का गाढ़ा भाग।	পনির, ছানা	पनिर, छाना	cheese.
पन्ना	पु.	1. हरे रंग का एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रत्न;	পান্না;	पान्ना;	emerald;
		2. पुस्तक आदि का पृष्ठ;	বইয়ের পাতা;	बइयेर पाता;	leaf of a book;
		3. आम आदि का पना।	আম ইত্যাদির পানা;	आम इत्यादिर पाना;	a typical beverage prepared from baked mango with the addition of tamarind and cumin seed etc.
पन्नी	स्त्री.	1. रांगे, पीतल आदि का पत्तर जिसे शोभा आदि के लिए अन्य वस्तुओं पर चिपकाते हैं;	রাংতা;	रांता;	plated multicoloured paper or thin layer used in decorating different things;
		2. एक तरह का रंगीन कागज।	এক রকম চকচকে রংগীন কাগজ	एक रकम चकचके रङ्गीन कागज	a kind of coloured paper.
पपड़ी	स्त्री	1. किसी वस्तु की सूखकर ऐंठी हुई ऊपरी परत;	শুখাইয়া পাতলা আবরণ;	शुखाइया पातला आबरन;	thin crust;
		2. घाव का खुरंड;	মামড়ি;	मामड़ि;	scale, dry incrustation formed over a healing wound;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. वृक्ष की सूखकर चिटकी हुई छाल।	গাছের শুক্না ছাল	गाछेर शुक्ना छाल	bark.
पपीता	पु.	एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फल मीठे और लंबोतरे होते हैं।	পেঁপে	पेंपे	papaya.
पपीहा	पु.	हलके काले रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो बसंत और पावस में मीठे बोल बोला करता है।	পাপিয়া	पापिया	a species of cuckoo
पयाल	पु.	धान, कोदों आदि के ऐसे डंठल जिनमें से दाने झाड़ लिए गए हों।	পোয়াল	पोयाल	straw, long grass (used for thatching).
पयोधर	पुं.	1. बादल; 2. स्तन।	পয়োধর, মেঘ; স্ত্রীস্তন	पयोधर, मेघ; स्त्रीस्तन	cloud; woman's breast or an udder.
परंतु	अव्य.	इतना होने पर भी, लेकिन।	পরন্তু, কিন্তু	परन्तु, किन्तु	but, however.
परंतुक	पु.	किसी दस्तावेज में दी गई कोई शर्त, किसी कथन को सीमित करनेवाला वाक्य।	দলিলাদির শর্ত, অনুবিধি	दलिलादिर शर्त अनुबिधि	proviso.
परंपरा	स्त्री.	1. सिलसिला, अविच्छिन्न क्रम; 2. वह कार्य जो बहुत दिनों से एक ही रूप में होता चला आ रहा हो और इसीलिए सर्वमान्य हो, प्रथा।	পরম্পরা, ধারা, অনুক্রম; প্রথা	परम्परा, धारा, अनुक्रम; प्रथा	tradition; custom.
परंपरागत	वि.	(कार्य, नीति या रिवाज) जो पूर्वजों की देखा-देखी किया जाए, परंपरा से प्राप्त।	পরম্পরাগত, পরম্পরায় আগত, কুলক্রমাগত	परम्परागत, परम्पराय आगत, कुलक्रमागत	traditional.
परंपरावादी	वि.	परंपरा का अनुयायी एवं समर्थक।	পরম্পরাবাদী	परम्पराबादी	traditionalist.
परकार	पु.	वृत्त की परिधि बनाने का एक उपकरण।	বৃত্তাঙ্কনযন্ত্র, কম্পাস	बृत्ताङ्कनजन्त्र, कम्पास	compass.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परकीय	वि.	दूसरे का, पराया।	পরকীয়, অন্যের অন্যসম্বন্ধীয়	परकीय, अन्येर अन्यसम्बन्धीय	belonging to another or a stranger.
परकीया	स्त्री.	वह नायिका जो परपुरुष से प्रेम करती है तथा अपने पति की अवहेलना करती है, (साहित्य में) तीन प्रकार की नायिकाओं में से एक।	পরকীয়া, যে প্রণয়িণী নিজের বিবাহিতা পত্নী নয়, ত্রিবিধ নায়িকার একতমা	परकीया, जे प्रनयिनी निजेर बिबाहिता पत्नी नय, त्रिबिध नायिकार एकतमा	a woman carrying on a love affair out of wedlock, an adulteress, (in traditional Indian poetics) one of the three types of heroines.
परकोटा	पुं.	गढ़ आदि की रक्षा के लिए चारों ओर उठाई गई दीवार।	দুর্গাদির প্রাকার	दुर्गादिर प्राकार	percinct, boundary.
परख	स्त्री.	1. गुण, दोष के निर्णय की दृष्टि से किसी वस्तु की परीक्षा;	পরখ, পরীক্ষা, যাচাই বিচার;	परख, परीक्षा, जाचाइ बिचार;	test, examination;
		2. गुण, दोष, भलाई, बुराई आदि पहचानने की शक्ति।	বিচারশক্তি, যাচাই করিবার ক্ষমতা;	बिचारशक्ति, जाचाइ करिबार क्षमता;	distinguishing faculty.
परखना	स.क्रि.	गुण-दोष के निर्धारण के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को भली-भांति देखना।	পরখ, পরখা	परख, परखा	to test, to examine.
परखाधीन	वि.	नियुक्ति को नियमित करने से पूर्व का वह समय या उससे संबंधित व्यक्ति जिसमें उसकी योग्यता, उपयुक्तता आदि का मूल्यांकन किया जाता है।	পরীক্ষাধীন	परीक्षाधीन	on probation.
परगना	पु.	किसी जिले का वह भूभाग जिसके अन्तर्गत बहुत से ग्राम हों।	পরগণা, গ্রাম সমষ্টি, জেলার অংশ	परगना, ग्राम समष्टि, जेलार अंश	sub-division.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परचून	पु.	आटा, दाल, चावल आदि फुटकर।	আটা, দাল, চাল ইত্যাদি দ্রব্য	आटा, दाल, चाल इत्यादि द्रव्य	provisions, grocery.
परचूनिया	वि.	परचून संबंधी।	আটা,দাল ইত্যাদি সম্বন্ধীয়	आटा,दाल इत्यादि सम्बन्धीय	pertaining to grocery.
	पु.	परचून का काम करनेवाला।	মুদি	मुदि	one who sells flour, meal, pulse, grocer.
परछदी (परछती)	स्त्री.	1. कमरे आदि में सामान रखने के लिए छत के नीचे छाई हुई छोटी पाटन या टांड, मियानी;	ঢাকা, তাক;	ढाका, ताक;	a small sized plank fixed in a wall of a room for storing things over;
		2. फूंस आदि की छाजन।	মাটির দেওয়ালের উপর ছাউনি	माटिर देओयालेर उपर छाउनि	a small thatch over mudwalls.
परछाई	स्त्री.	प्रकाश के सामने आने से पीछे की ओर अथवा पीछे की ओर प्रकाश होने पर आगे की ओर बननेवाली किसी वस्तु की छायामय आकृति, जल-दर्पण आदि में पड़नेवाली किसी की छायाकृति।	ছায়া	छाया	shadow, reflection.
परजीवी	वि.	जिसका जीवित रहना दूसरों पर अवलंबित हो, दूसरों पर आश्रित हो।	পরজীবী, যে পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে	परजीवी, जे परके आश्रय करिया बाँचिया थाके	parasitic.
	पु.	वे वनस्पतियां या कीड़े-मकौड़े जो दूसरे वृक्षों या जीव-जंतुओं के शरीर पर रहकर उनका रस या खून चूस कर जीते तथा पलते हैं।	পরাংগপুষ্ট জীব, যে অন্য উদ্‌ভিদ বা প্রাণীর দেহে বাস করিয়া ঐ দেহের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে	पराङ्गपुष्ट जीब, जे अन्य उद्‌भिद बा प्रानीर देहे बास करिया ऐ देहेर द्वारा पुष्टिलाभ करे	parasite.
परतंत्र	वि.	अधीन, परवश।	পরতন্ত্র, পরাধীন	परतन्त्र, पराधीन	dependent, s[1]

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परतंत्रता	स्त्री.	परतंत्र होने की अवस्था या भाव।	পরাধীনতা, পরবশ্যতা	पराधीनता, परबश्यता	dependence, subjection.
परत	स्त्री.	तह।	পরত, স্তর, ভাঁজ	परत, स्तर, भांज	layer, fold.
परती	स्त्री.	वह जमीन जो जोती बोई न जाती हो।	পতিত জমি	पतित जमि	fallow land, uncultivated waste land.
परदा (पर्दा)	पुं.	1. कपड़ा या इसी तरह की कोई और चीज जो आड़ या बचाव करने के लिए बीच में फैलाकर टांगी या लटकायी जाए;	পরদা, বস্ত্রাদি দ্বারা নির্মিত আবরণ;	परदा, बस्त्रादि द्वारा निर्मित आबरन;	curtain;
		2. अभिनय, खेल-तमाशों में वह कपड़ा जो दर्शकों के सामने लटका रहता है और जिस पर कुछ दृश्य अंकित होते हैं या प्रतिबिम्बित होते हैं;	আবরণপট, যবনিকা;	आबरनपट, जबनिका;	screen;
		3. भेद, रहस्य;	রহস্য;	रहस्य;	secret, mystery;
		4. एक प्रथा जिसके अनुसार भले घर की स्त्रियां आड़ में घूंघट करके रहती हैं तथा पर-पुरुषों और बड़ों के सामने नहीं होती हैं।	অন্তঃপুরে অবরোধমধ্যে বাস, ঘোমটা, বোরখা	अन्तःपुरे अबरोधमध्ये बास, घोमटा, बोरखा	veil.
परदादा (परदादी)	पुं. (स्त्री.)	पिता का दादा, प्रपितामह।	প্রপিতামহ	प्रपितामह	paternal great grand father.
परदा-नशीन	वि.	जो बड़ों तथा पर-पुरुषों से परदा करती हो।	পরদানশীন, যে-মহিলা ভিতরে থাকেন	परदानशीन, जे-महिला भितरे थाकेन	(a woman) who keeps herself concealed behind a veil, veiled.
परदेश (परदेस)	पुं.	अपने देश से भिन्न दूसरा देश।	পরদেশ, বিদেশ, অন্যদেশ	परदेश, बिदेश, अन्यदेश	foreign country

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परदेशी (परदेसी)	त्रि.	वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आया या रहता हो।	পরদেশী, বিদেশী	परदेशी, बिदेशी	foreigner, stranger.
परनाना (परनानी)	पु. (स्त्री)	नाना का पिता।	প্রমাতামহ	प्रमातामह	maternal great grand father.
परनाला (स्त्री. परनाली)	पु.	वह बड़ी नाली जिससे होकर गंदा पानी बहता है।	পয়োনালী, নর্দমা	पयोनाली, नर्दमा	drain pipe.
परपोता (स्त्री परपोती)	पु.	पोते का पुत्र, प्रपौत्र।	প্রপৌত্র	प्रपौत्र	a great grandson.
पर-ब्रह्म	पु.	निर्गुण या निरुपाधि ब्रह्मा, परमेश्वर।	পরব্রহ্ম, নির্গুণ বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম	परब्रह्म, निर्गुन बा निरुपाधिक ब्रह्म	the Supreme Spirit or Brahma, God.
परम	वि.	1. उच्च, उत्कृष्ट; 2. मुख्य, प्रधान; 3. अत्यधिक, हद दर्जे तक।	পরম, শ্রেষ্ঠ; প্রধান; অত্যন্ত চরম	परम, श्रेष्ठ; प्रधान; अत्यन्त चरम	highest, best, most; chief, principal; extreme (limit).
परम-तत्व	पु.	1. दर्शन शास्त्र और विज्ञान के अनुसार वह मूल तत्व जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं का सृष्टिकर्ता माना गया है, पदार्थ;	পরমতত্ত্ব, মূলপ্রকৃতি;	परमतत्त्व, मूलप्रकृति;	the essential element;
		2. ब्रह्म।	সর্বাতীত তত্ত্ব	सर्बातीत तत्त्व	God, Brahma.
परम-पद	पु.	मोक्ष, मुक्ति।	পরমপদ, মোক্ষ, মুক্তি	परमपद, मोक्ष, मुक्ति	the highest state or position, liberation, salvation.
परम-हंस	पु.	1. परमात्मा, परमेश्वर; 2. संन्यासियों का एक भेद जिन्हें दंड शिखा सूत्र आदि धारण करना आवश्यक नहीं होता।	পরমহংস; নির্বিকার শুদ্ধচিত্ত সমদর্শী ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগিপুরুষ	परमहंस; निर्बिकार शुद्धचित्त समदर्शी ब्रह्मानन्दे मग्न जोगिपुरुष	God; an ascetic of the highest order.
परमाणु	पु.	किसी तत्व का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े न हो सकते हों।	পরমাণু, মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ	परमानु, मौल पदार्थेर सूक्ष्मतम अंश	atom.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परमात्मा	पु.	ईश्वर, परब्रह्म।	পরমাত্মা, ঈশ্বর	परमात्मा, ईश्वर	God.
परमार्थ	पु.	1. परोपकार; 2. मोक्ष।	পরোপকার; পরমার্থ, মোক্ষ	परोपकार; परमार्थ, मोक्ष	the highest good; the best end, salvation.
परमार्थी	वि.	1. दूसरों की भलाई करनेवाला, परोपकारी; 2. मुमुक्षु, मोक्ष चाहनेवाला; 3. परमार्थ संबंधी।	পরোপকারী; মুমুক্ষ, মোক্ষকামী; পরমার্থ-বিষয়ক	परोपकारी; मुमुक्ष, मोक्षकामी; परमार्थ-बिषयक	virtuous person; pursuing the highest purpose; pertaining to the highest truth.
परमेश्वर	पु.	परमात्मा।	পরমেশ্বর	परमेश्बर	God.
परराष्ट्र	पु.	अपने राष्ट्र को छोड़कर अन्य राष्ट्र।	পররাষ্ট্র, বিদেশী রাষ্ট্র	परराष्ट्र, बिदेशी राष्ट्र	another country.
परला	वि.	1. उधर का या उस ओर का; 2. बहुत ही बढ़ा-चढ़ा।	অপর দিকের, ওদিকের; অত্যন্ত অধিক	अपर दिकेर, ओदिकेर; अत्यन्त अधिक	of the other side or end, next in order; of the first order.
पर-लोक	पु.	इस लोक से भिन्न दूसरा लोक।	পরলোক, লোকান্তর	परलोक, लोकान्तर	the other world.
परवरिश	स्त्री.	पालन-पोषण।	প্রতিপালন, পরবস্তি	प्रतिपालन, परबस्ति	bringing up, fostering.
परवर्ती	वि.	काल-क्रम या घटना-क्रम की दृष्टि से बाद में या पीछे होनेवाला।	পরবর্তী, পিছনে বা পরে অবস্থিত	परबर्ती, पिछने बा परे अबस्थित	later, subsequent.
परवल	पु.	एक प्रसिद्ध लता और उसका फल जिसकी तरकारी बनती है।	পটল	पटल	a kind of vegetable.
परवश	वि.	1. जो दूसरे के वश में हो, परतंत्र; 2. जो दूसरे पर निर्भर करता हो।	পরবশ, পরাধীন, পরতন্ত্র; পরনির্ভর	परबश, पराधीन, परतन्त्र; परनिर्भर	under another's control, dependent; depending on the will of another.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परवशता	स्त्री.	परवश होने की स्थिति तथा भाव।	পরবশতা, পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা	परवशता, पराधीनता, परतन्त्रता	dependence on another, subjection.
परवाना	पु.	1. लिखित आज्ञा, अनुमति-पत्र;	পরওয়ানা, লিখিত, আদেশ;	परओयाना, लिखित, आदेश;	warrant, order;
		2. पतंगा, विशेषत: वह जो दीपक की लौ के चारों तरफ मंडराता हो और उसी में जल मरता हो;	পতংগ;	पतङ्ग;	moth;
		3. वह व्यक्ति जो किसी पर अत्यन्त मुग्ध हो और उसके लिए अपने को बलिदान कर दे।	(কাব্যে) প্রেম-মুগ্ধ ব্যক্তি যে প্রেমের জন্য প্রাণবলি দেয়	(काव्य) प्रेम-मुग्ध व्यक्ति जे प्रेमेर जन्य प्रानबलि देय	(poet.) a lover.
परवाह	स्त्री.	1. चिंता, फिक्र; 2. कोई काम (विशेषत : अनुपयुक्त या अनुचित काम) करते समय मन में होनेवाला यह विचार कि इस काम से बड़ों के मान को ठेस तो नहीं लगेगी।	পরোয়া, চিন্তা; ভয়, ডর, আশঙ্কা	परोया, चिन्ता; भय, डर, आशङ्का	anxiety, worry; care, heed.
परसर्ग	पु.	आधुनिक भाषा-विज्ञान में, ने, को, के, से, में आदि संज्ञा-विभक्तियाँ जिनके संबंध में कहा जाता है कि ये प्रकृति के साथ सटाकर नहीं बल्कि प्रकृति से हटाकर लिखी जानी चाहिए।	প্রত্যয়, বিভক্তি	प्रत्यय, बिभक्ति	a postposition (i.e. ने, को, के, से, में).
परसाल	अव्य.	1. गतवर्ष, पिछले साल; 2. आगामी वर्ष, अगले साल।	গতবৎসর; আগামী বৎসর, পরের বছর	गतबत्सर; आगामी बत्सर, परेर बछर	last year; coming year, next year.
परसों	अव्य.	1. बीते हुए दिन से ठीक पहलेवाला दिन; 2. अगले दिन से एक दिन आगे।	পরশু, গত পরশু; আগামী পরশু	परशु, गत परशु; आगामी परशु	day before yesterday; day after tomorrow.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परस्पर	क्रि. वि.	एक दूसरे के साथ, आपस में।	পরস্পর	परस्पर	mutual, reciprocal.
परहेज	पु.	1. निषिद्ध वस्तुओं से बचना, कुपथ्य से बचना; 2. संयमपूर्वक रहना।	নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার; সংযম	निषिद्ध बस्तु परिहार; संजम	abstinence, avoidance; control of the passions.
पराठा (परांठा) (परौंठा)	पु.	घी लगाकर तवे पर सेंकी जानेवाली एक प्रकार की चपाती।	পরটা, পরোটা	परटा, परोटा	pan cake like preparation with wheat flour.
पराकाष्ठा	स्त्री.	चरम सीमा, हद।	পরাকাষ্ঠা	पराकाष्ठा	climax.
पराक्रम	पु.	सामर्थ्य, बल, विक्रम, शौर्य।	পরাক্রম, সামর্থ্য, বল, বিক্রম	पराक्रम, सामर्थ्य, बल, बिक्रम	ability, bravery, valiance, gallantry.
पराक्रमी	वि.	पराक्रमवाला, शूर, पुरुषार्थी।	পরাক্রমশালী, বলশালী	पराक्रमशाली, बलशाली	brave, valiant.
पराग	पु.	फूल के लम्बे केसरों पर जमा रहनेवाली धूल।	পরাগ, ফুলের রেণু	पराग, फुलेर रेनु	the pollen of a flower.
पराङ्मुख	वि.	1. जो पीछे की ओर मुंह फेरे हुए हो; 2. उदासीन।	পরাঙ্মুখ, যে মুখ ফিরাইয়া আছে; উদাসীন	पराङ्मुख, जे मुख फिराइया आछे; उदासीन	having the face turned away; shunning.
पराजय	स्त्री.	हार, विजय का उलटा।	পরাজয়, হার	पराजय, हार	defeat.
पराजित	वि.	हाराया या हारा हुआ	পরাজিত	पराजित	defeated.
परात	स्त्री.	थाली के आकार का ऊँचे किनारोंवाला बड़ा बरतन।	পরাত, বড় থালাবিশেষ	परात, बड़ थालाविशेष	large shallow circular vessel of metal.
पराधीन	वि.	जो दूसरे के अधीन हो।	পরাধীন, পরের অধীন	पराधीन, परेर अधीन	dependent on another.
पराधीनता	स्त्री.	पराधीन होने की अवस्था या भाव।	পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা	पराधीनता, परतन्त्रता	dependence on another, subjection.
पराभव	पु.	1. हार, पराजय; 2. तिरस्कार, अनादर।	পরাভব, হার; তিরস্কার, অবজ্ঞা	पराभव, हार; तिरस्कार, अबज्ञा	defeat; contempt, disregard disrespect.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पराभूत	वि.	1. पराजित, परास्त;	পরাভূত, পরাজিত,. পরাস্ত;	पराभूत, पराजित, परास्त;	defeated, overcome;
		2. तिरस्कृत।	তিরস্কৃত	तिरस्कृत	treated with contempt, degraded, dishonoured.
परामर्श	पु.	1. किसी विषय में दूसरे से ली जानेवाली सलाह;	পরামর্শ, কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমত;	परामर्श, कर्तब्य सम्बन्धे अभिमत;	advice;
		2. विवेचन, विचार;	বিবেচনা, যুক্তি;	बिबेचना, जुक्ति;	consultation;
		3. पकड़ना, खींचना, स्पर्श करना।	গ্রহণ, আকর্ষণ	ग्रहन, आकर्षन	seizing, pulling, touching.
परामर्श-दाता	पु.	दूसरों को सलाह देनेवाला।	পরামর্শদাতা	परामर्शदाता	adviser, counsel.
परायण	वि.	1. किसी काम या बात में अच्छी तरह लगा हुआ, निरत;	পরায়ণ, আসক্ত, নিরত;	परायन, आसक्त, निरत;	absorbed in;
		2. किसी के प्रति पूर्ण निष्ठा या भक्ति रखनेवाला।	তন্নিষ্ঠ, একান্ত অনুরক্ত, অত্যানুরক্ত	तन्निष्ठ, एकान्त अनुरक्त, अत्यानुरक्त	devoted.
पराया	वि.	1. दूसरे का, अपने से भिन्न;	পরের, পর;	परेर, पर;	pertaining to another;
		2. आत्मीय या स्वजन से भिन्न।	আত্মীয়স্বজন নয় এমন, অনাত্মীয়	आत्मीयस्बजन नय एमन, अनात्मीय	not one's own.
परावर्तन	पु.	1. प्रत्यावर्तन, लौटकर पीछे आना;	পরাবর্তন, প্রত্যাবর্তন;.	परावर्तन, प्रत्याबर्तन;	turning back and round;
		2. उलटने पर फिर ज्यों का त्यों हो जाना।	উল্টাইয়া গিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা	उल्टाइया गिया पूर्बाबस्थाय फिरिया आसा	to come into the same position after turning (as it was before).
परास	पु.	1. उतना क्षेत्र जहां तक किसी क्रिया का प्रभाव या फल होता है;	প্রভাবক্ষেত্র;	प्रभाबक्षेत्र;	distance;
		2. उतना क्षेत्र जितने में कोई चीज पाई जाती है;	এলাকা–যেখানে কিছু পাওয়া যায়	एलाका–जेखाने किछु पाओया जाय	region;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. उतना अवकाश या दूरी जितनी कोई चलाई या फैंकी जानेवाली चीज पार करती हो।	যতদূর কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা যায় ততদূর পর্যন্ত স্থান	जतदूर कोनो बस्तु निक्षेप करा जाय ततदूर पर्जन्त स्थान	the range or distance of anything thrown.
परास्त	वि.	हारा या हराया हुआ, पराजित।	পরাস্ত, পরাজিত, পরাভূত	परास्त, पराजित, पराभूत	defeated.
परिंदा	पु.	पक्षी, चिड़िया।	পাখী	पाखी	bird.
परिकर	पु.	1. घर या परिवार के लोग; 2. आस-पास या संग-साथ रहनेवाले लोग; 3. एक प्रकार का अर्थालंकार जहां किसी विशेष्य से पहले किसी विशिष्ट अभिप्राय में विशेषण लगाए जाते हैं।	পরিকর, পরিবার; সহকারী, সহচর; অর্থালঙ্কার বিশেষ প্রকৃতার্থবোধক বহুবিশেষণযুক্ত বিচিত্র বর্ণনাকে 'পরিকর' কহে	परिकर, परिवार; सहकारी, सहचर; अर्थालङ्कार विशेष प्रकृतार्थबोधक बहुविशेषनजुक्त बिचित्र बर्ननाके 'परिकर' कहे	family members; colleague; (in rhet) a parlic figure in which many significant epithets or adjectives are employed one after the other to give force to a statement.
परिकलन	पु.	गणित में वह गणना जो कुछ जटिल होती है तथा जिसमें कुछ विशिष्ट तथा निश्चित क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है।	গণিতের জটিল গণনাবিশেষ	गनितेर जटिल गननाबिशेष	calculation.
परिकल्पना	स्त्री.	1. जिस बात की बहुत कुछ संभावना हो उसे पहले ही मान लेना या उसके नाम रूप आदि की कल्पना कर लेना; 2. केवल तर्क के लिए कोई बात मान लेना; 3. कुछ विशिष्ट आधारों पर कोई बात ठीक या सही मान लेना;	সম্ভবপর বিষয়ের কল্পনা; তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া; নির্ধারণ;	सम्भवपर बिषयेर कल्पना; तर्केर खातिरे किछु मानिया लओया; निर्द्धारन;	to assume; reckoning, calculation; deciding, determining;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. गणित में कोई विशिष्ट मान या राशि निकलने से पहले उसके लिए कोई निश्चित मान, राशि या चिह्न अवधारित करना।	(গণিতে) প্রাক্-প্রত্যয়, প্রাক্প্রমাণ	(गनिते) प्राक्-प्रत्यय, प्राक्प्रमान	presumption.
परिक्रमा	स्त्री.	1. किसी तीर्थ, देवता या मंदिर के चारों ओर श्रद्धा, भक्ति से चक्कर लगाने की क्रिया;	পরিক্রমা, প্রদক্ষিণী-করণ, তীর্থস্থান প্রদক্ষিণ;	परिक्रमा, प्रदक्षिनी-करन, तीर्थस्थान· प्रदक्षिन;	the going round a person or an idol to the right as an indication of reverence;
		2. इस प्रकार से लगाया हुआ फेरा, प्रदक्षिणा;	প্রদক্ষিণ;	प्रदक्षिन;	walking round or about, circuit, circum - ambulation;
		3. उक्त प्रकार से चक्कर लगाने के लिए नियत मार्ग।	প্রদক্ষিণপথ	प्रदक्षिनपथ	a covered way round temple.
परिगणना	स्त्री.	अच्छी तरह गिनना।	পরিগণনা	परिगनना	calculation.
परिगणित	वि.	1. जिसकी परिगणना की गई हो;	পরিগণিত, সংখ্যাত;	परिगनित, संख्यात;	calculated;
		2. जिसका उल्लेख या परिगणन किसी अनुसूची में हुआ हो, अनुसूचित।	তালিকাভুক্ত	तालिकाभुक्त	scheduled.
परिग्रह	पु.	1. स्वीकार करना, ग्रहण करना;	পরিগ্রহ, স্বীকার, গ্রহণ;	परिग्रह, स्वीकार, ग्रहन;	taking, accepting, receiving;
		2. धन आदि का संग्रह;	আয়ত্তীকরণ;	आयत्तीकरन;	possession, property;
		3. पत्नी, भार्या;	পত্নী;	पत्नी;	wife;
		4. परिवार के लोग;	পরিবার, পরিজন;	परिबार, परिजन;	house-hold, family;
		5. सेना का पिछला भाग।	সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ	सैन्यपश्चाद्भाग	the rear or reserve of an army.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिचय	पुं.	1. जान-पहचान; 2. किसी व्यक्ति के नाम-धाम या गुणकर्म आदि से संबंध रखनेवाली सब या कुछ बातें जो किसी को बताई जाएं; 3. किसी विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान।	পরিচয়; নাম ধাম বংশ প্রভৃতির বিবরণ; পরিজ্ঞান	परिचय; नाम धाम वंश प्रभृतिर विवरन; परिज्ञान	acquaintance; introduction; familiarity.
परिचय-पत्र	पुं.	किसी अधिकारी या व्यक्ति का दिया हुआ वह पत्र जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना परिचय देने के लिए दिखाता है।	পরিচয়পত্র, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি কাহারও পরিচয় দিয়া যে-পত্র দেন	परिचयपत्र, कोनो बिशिष्ट व्यक्ति काहारओ परिचय दिया जे-पत्र देन	a letter of introduction.
परिचर	पुं.	भृत्य, सेवक।	পরিচর, ভৃত্য	परिचर, भृत्य	attendant, servant.
परिचर्या	स्त्री.	सेवा, खिदमत, रोगी की सुश्रूषा।	পরিচর্যা, সেবা, শুশ্রূষা	परिचर्जा, सेबा, शुश्रूषा	attendance, attending on a patient.
परिचायक	पुं.	परिचय करानेवाला, बतानेवाला।	পরিচায়ক, পরিচয়দানকারী	परिचायक, परिचयदानकारी	one who or that which introduces.
परिचारक	पुं.	1. सेवक; 2. रोगी की सेवा करनेवाला, तीमारदार।	পরিচারক, সেবক; রোগীর শুশ্রূষাকারী	परिचारक, सेबक; रोगीर शुश्रूषाकारी	attendant; male nurse.
परिचारिका	स्त्री.	सेविका, टहल करनेवाली।	পরিচারিকা, সেবিকা	परिचारिका, सेबिका	a female attendant, nurse.
परिचालन	पुं.	1. चलाना; 2. उचित रूप से किसी कार्य का निर्वाह करना।	পরিচালন, চালনাকরণ; যথাযথভাবে কার্যনির্বাহ	परिचालन, चालनाकरन; जथाजथभावे कार्जनिर्बाह	steering (navigation); operation.
परिचित	वि.	जाना-पहचाना।	পরিচিত, জানা-শোনা এমন, চেনা	परिचित, जाना-शोना एमन, चेना	acquainted, familiar.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिच्छेद	पु.	ग्रन्थों आदि का ऐसा विभाग जिसमें किसी विषय या उसके अंग का स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन या विवेचन किया गया हो, अध्याय, प्रकरण।	পরিচ্ছেদ, গ্রন্থাদির অধ্যায়	परिच्छेद, ग्रन्थादिर अध्याय	a section or chapter of a book.
परिजन	पु.	1. परिवार के सदस्य;	পরিজন, পরিবারের লোক;	परिजन, परिबारेर लोक;	family, household, members;
		2. अनुगामी और अनुचरवर्ग।	পরিচারক	परिचारक	attendants, followers.
परिणत	वि.	1. जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, रूपान्तर या विकार हुआ हो;	পরিণত, অবস্থান্তর-প্রাপ্ত;	परिनत, अबस्थान्तर-प्राप्त;	changed or transformed into;
		2. जिसकी पूरी वृद्धि हो चुकी हो, परिपक्व, पुष्ट।	পরিপক্ব, পরিণতিপ্রাপ্ত	परिपक्ब, परिनतिप्राप्त	developed, ripened mature.
परिणति	स्त्री.	1. परिणत होने की अवस्था या भाव;	পরিণতি, পরিবর্তন;	परिनति, परिबर्तन;	change;
		2. रूपान्तर को प्राप्त होना;	অবস্থান্তর-প্রাপ্তি;	अबस्थान्तर-प्राप्ति;	transformation, culmination;
		3. पूर्णवृद्धि, परिपाक;	পরিপক্বতা;	परिपक्बता;	ripeness, maturity;
		4. परिणाम।	পরিণাম, পরিণাম	परिनाम, परिनाम	result.
परिणय	पु.	विवाह।	পরিণয়, বিবাহ	परिनय, बिबाह	marriage.
परिणाम	पु.	नतीजा, निष्कर्ष।	পরিণাম, ফল, পরিণতি	परिनाम, परिनति	result, consequence, effect.
परिणीत (स्त्री. परिणीता)	वि.	जिसका परिणय हो चुका हो, विवाहित।	পরিণীত, বিবাহিত	परिनीत, बिबाहित	married.
परिताप	पु.	1. अत्यधिक ताप;	পরিতাপ, অত্যন্ত তাপ;	परिताप, अत्यन्त ताप;	extreme or scorching heat;
		2. घोर व्यथा, संताप;	বিশেষ দুঃখ;	बिशेष दुःख;	pain, agony;
		3. पछतावा, पश्चाताप।	খেদ, মনস্তাপ	खेद, मनस्ताप	repentance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परितोष	पु.	1. निश्चिन्तता युक्त सुख जो कामना या साध पूरी होने पर होता है, पूर्ण तृप्ति;	পরিতোষ, পরিতৃপ্তি, গভীর তৃপ্তি;	परितोष, परितृप्ति, गभीर तृप्ति;	complete satisfaction;
		2. प्रसन्नता, खुशी।	পরিতোষ, হর্ষ	परितोष, हर्ष	delight.
परित्यक्त (स्त्री. परित्यक्ता)	वि.	जिसे पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया हो।	পরিত্যক্ত, বর্জিত	परित्यक्त, बर्जित	left, quitted.
परित्याग	पु.	पूरी तरह त्याग देना, एकदम छोड़ देना।	পরিত্যাগ, ত্যাগ, বিসর্জন	परित्याग, त्याग, बिसर्जन	abandoning, deserting.
परित्राण	पु.	कष्ट, विपत्ति, आदि से की जानेवाली पूर्ण रक्षा।	পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ	परित्रान, परिरक्षन	protection.
परिधान	पु.	पोशाक, पहनावा, पहनने के वस्त्र।	পরিধান, পোষাক, পরিধেয় বস্ত্রাদি	परिधान, पोषाक, परिधेय बस्त्रादि	dress, clothes, garment.
परिधि	स्त्री.	1. वृत्त बनानेवानी रेखा; 2. किसी वस्तु की रक्षा के लिए बनाया हुआ घेरा, बड़ी चारदीवारी;	পরিধি; বেষ্টনী, বৃতি;	परिधि; बेष्टनी, बृति;	circumference; boundary;
		3. वह गोलाकार मार्ग जिस पर कोई चीज चलती या चक्कर लगाती हो।	কোন বস্তু যে বৃত্তাকার পথে চলে বা ঘোরে	कोन बस्तु जे बृत्ताकार पथे चले बा घोरे	perimeter.
परिनिष्ठित	वि.	1. पूर्णतया निपुण;	পরিনিষ্ঠিত, সুনিপুণ;	परिनिष्ठित, सुनिपुन;	completely skilled in;
		2. (कार्य) जो संपन्न किया जा चुका हो, निपटाया हुआ;	পরিসমাপ্ত;	परिसमाप्त;	completed work;
		3. एक सर्वमान्य आदर्श (जैसे भाषा)।	প্রমাণ, প্রামাণিক	प्रमान, प्रामानिक	standard (language).
परिपक्व	वि.	1. अच्छी तरह पका हुआ; 2. जिसका पूरा विकास हो चुका हो;	পরিপক্ব; পরিণত;	परिपक्व; परिनत;	ripe; developed, matured;
		3.कुशल, दक्ष, निपुण।	বিচক্ষণ	बिचक्षन	skilled.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिपक्वता	स्त्री.	परिपक्व होने की अवस्था या भाव।	পরিপক্বতা, সুপক্বতা, পরিণতি	परिपक्वता, सुपक्वता, परिनति	ripeness, maturity, full development.
परिपत्र	पु.	वह आधिकारिक पत्र जो सभी संबद्ध अधिकारियों, सदस्यों, आदि को सूचनार्थ भेजा जाता है, गश्ती चिट्ठी।	পরিপত্র, সরকারী ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি	परिपत्र, सरकारी घोषना बा विज्ञप्ति	circular.
परिपथ	पु.	1. विद्युत-धारा का मार्ग;	তড়িৎ-বর্তণী;	तड़ित्-बर्तनी;	electric circuit;
		2. अनेक नगरों, देशों, स्थलों आदि में बारी-बारी से होते हुए जाने के लिए पहले से नियत किया हुआ मार्ग।	ঘোরান পথ	घोरान पथ	circuit.
परिपाक	पु.	1. अच्छी तरह से पकना या पकाया जाना;	পরিপাক, সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া;	परिपाक, सम्पूर्न सिद्ध हओया;	being completely cooked;
		2. पूर्ण विकास या प्रौढ़ता को प्राप्त होना;	পরিণতি;	परिनति;	ripening, maturity;
		3. परिणाम, फल।	পরিণাম, ফল	परिनाम, फल	result, consequence.
परिपाटी	स्त्री.	1. जाति, समाज आदि में कोई काम करने का विशिष्ट या बंधा हुआ ढंग अथवा शैली, प्रथा, रीति;	পরিপাটী, পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম;	परिपाटी, पद्धति, रीति, नियम;	convention, custom;
		2. चला आता हुआ क्रम, सिलसिला।	পরিপাটী, অনুক্রম, ক্রম	परिपाटी, अनुक्रम, क्रम	succession, arrangement.
परिपूर्ण	वि.	1. जो सब प्रकार से पूर्ण हो; 2. जो पूरा हो चुका हो अथवा किया जा चुका हो।	পরিপূর্ণ; সম্পূর্ণ	परिपूर्न; सम्पूर्न	perfect, complete; full.
परिप्रेक्ष्य	पु.	1. दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि;	দৃষ্টিভংগি, পটভূমিকা;	दृष्टिभङ्गि, पटभूमिका;	view-point, background;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. चित्रकला में दृश्यों, पदार्थों, व्यक्तियों का ऐसा अंकन या चित्रण जिसमें उनका पारस्परिक अन्तर ठीक उसी रूप में दिखाई देता हो जिस रूप में वह साधारणतः आंखों से देखने पर दिखाई देता है।	পারপ্রেক্ষিত	परिप्रेक्षित	perspective.
परिभाषा	स्त्री.	1. किसी का ऐसा नपा तुला परिचय जिससे उसके स्वरूप, गुण, वैशिष्ट्य आदि का यथार्थ ज्ञान हो जाए, लक्षण;	পরিভাষা, সংজ্ঞা;	परिभाषा, संज्ञा;	definition;
		2. कला या विद्या के क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला शब्द या संज्ञा;	বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা সংজ্ঞা;	बिशेष अर्थबोधक शब्द बा संज्ञा;	a word or noun used in a particular sense;
		3. अपने उपयोग के लिए शास्त्रकारों द्वारा रची हुई विशिष्ट संज्ञा।	শাস্ত্রকারের সংজ্ঞা বিশেষ	शास्त्रकारेर संज्ञा बिशेष	technical term.
परिभ्रमण	पुं.	1. चारों ओर घूमना;	পরিভ্রমণ, চতুর্দিকে ভ্রমণ;	परिभ्रमन, चतुर्दिके भ्रमन;	going about, moving to and fro;
		2. विज्ञान में किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना।	বিবর্তন, ঘূর্ণন	बिबर्तन, घूर्नन	rotation, revolution.
परिमल	पुं.	1. कुमकुम, चंदन आदि के मर्दन से उत्पन्न सुगंध;	পরিমল, চন্দন কুঙ্কুমাদি;	परिमल, चन्दन, कुङ्कुमादि;	fragrance;
		2. सुगंध, सुवास।	সৌরভ	सौरभ	aroma.
परिमाण	पुं.	1. माप;	মাপ;	माप;	measure;
		2. तौल;	পরিমাণ, ওজন;	परिमान, ओजन;	weight;
		3. मात्रा;	মাত্রা;	मात्रा;	quantity;
		4. चारों ओर का विस्तार, घेरा।	বিস্তার	बिस्तार	circumference.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिमाप	पुं.	1. मापने या नापने की क्रिया या भाव;	পরিমাপ, মাপা, পরিমাণ, নিরূপণ;	परिमाप, मापा, परिमान, निरूपन;	act of measuring;
		2. लंबाई-चौड़ाई आदि का नाप या लेखा;	আকার;	आकार;	dimension;
		3. वह उपकरण जिससे कोई चीज मापी या नापी जाए;	পরিমাপ-সাধন পাত্র;	परिमाप-साधन पात्र;	scale;
		4. ज्यामिति में किसी आकृति, क्षेत्र या तल को चारों ओर से घेरनेवाली बाहरी रेखा अथवा ऐसी रेखा की लंबाई या विस्तार।	পরিধি মাপক, পরিমিতি	परिधि मापक, परिमिति	perimeter.
परिमार्जन	पुं.	1. त्रुटियां या दोष दूर करना, सुधारना;	ত্রুটি বা দোষ দূরকরণ;	त्रुटि बा दोष दूरकरन;	improvement;
		2. साफ करना, स्वच्छ करना।	পরিষ্কার করা, মাজা	परिष्कार करा, माजा	cleansing.
परिमार्जित	वि.	जिसका परिमार्जन किया गया हो या हुआ हो।	যাহার পরি-মার্জন করা হইয়াছে	जाहार परि-मार्जन करा हइयाछे	improved, cleaned.
परिमित	वि.	1. सीमित;	পরিমিত;	परिमित;	limited;
		2. मापा हुआ, तौला हुआ;	কৃতপরিমাণ, মাপা;	कृतपरिमान, मापा;	measured, weighed;
		3. जो परिमाण में आवश्यकता से न अधिक हो न कम।	প্রয়োজনের অনধিক, প্রয়োজনানুরূপ	प्रयोजनेर अनधिक, प्रयोजनानुरूप	moderate.
परियोजना	स्त्री.	किए जानेवाले कार्य के संबंध में नियमित और व्यवस्थित रूप से स्थिर किया हुआ विचार और स्वरूप।	পরিকল্প	परिकल्प	scheme.
परिरक्षण	पुं.	हर तरह से रक्षा करना।	পরিরক্ষণ, সর্বথা রক্ষণ, সংরক্ষণ	परिरक्षन, सर्बथा रक्षन, संरक्षन	guarded in every respect.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिवर्तन	पुं.	1. अदल-बदल, विनिमय; 2. किसी की आकृति, रूप, गुण, स्थिति आदि में होनेवाला फेरफार।	পরিবর্তন; বিপরিণাম, অবস্থান্তর	परिबर्तन; बिपरिनाम, अबस्थान्तर	exchange; change.
परिवर्तनशील	वि.	परिवर्तन जिसका स्वभाव हो।	পরিবর্তনশীল	परिबर्तनशील	changeable.
परिवर्तित	वि.	1. जिसका विनिमय किया गया हो;	পরিবর্তিত;	परिबर्तित;	exchanged;
		2. जिसमें हेरफेर हुआ हो या किया गया हो, रूप या आकार में बदला हुआ।	বিপরিণত, অবস্থান্তরপ্রাপ্ত	बिपरिनत, अबस्थान्तरप्राप्त	changed, undergone variation.
परिवर्धन	पुं.	1. आकार-प्रकार, विषय-वस्तु आदि में की जानेवाली वृद्धि;	পরিবর্ধন, বৃদ্ধিসাধন, বাড়ান;	परिबर्धन, बृद्धिसाधन, बाड़ान;	enlargement;
		2. इस प्रकार बढ़ाया हुआ अंश।	বাড়ান অংশ	बाड़ान अंश	enlarged portio
परिवर्धित	वि.	बढ़ा या बढ़ाया हुआ, जिसका परिवर्धन किया गया हो या हुआ हो।	পরিবর্ধিত, যাহা বাড়ান হইয়াছে	परिबर्धित, जाहा बाड़ान हइयाछे	enlarged.
परिवहन	पुं.	माल, यात्रियों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य जो आजकल रेलों, मोटरों, जहाजों आदि द्वारा किया जाता है।	পরিবহন, লোকজন মালপত্র বহন-পূর্বক স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া	परिबहन, लोकजन मालपत्र बहन-पूर्बक स्थानान्तरे लइया जाओया	transport.
परिवाद	पुं.	निंदा, शिकायत।	পরিবাদ, নিন্দা, অপবাদ	परिबाद, निन्दा, अपबाद	complaint, censure.
परिवार	पुं.	1. कुटुंब, आश्रितजन;	পরিবার;	परिबार;	family;
		2. किसी विशिष्ट गुण, संबंध आदि के विचार से चीजों का बननेवाला वर्ग;	একই গুণ বা ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর বর্গ;	एकइ गुन बा धर्मबिशिष्ट बस्तुर बर्ग;	class;
		3. अनुचर।	অনুচর	अनुचर	attendant or follower.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिवार-नियोजन	पुं.	बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दाम्पत्य-जीवन के संबंध में की जानेवाली वह योजना जिससे लोग आवश्यकता अथवा औचित्य से अधिक संतान उत्पन्न न करें।	পরিবার-পরিকল্পনা	परिबार-परिकल्पना	family planning.
परिवेश	पुं.	1. वातावरण; 2. तेजस्वी पुरुषों, देवताओं आदि के चित्रों में उनके मुखमंडल के चारों ओर दिखलाया जानेवाला प्रकाशमान घेरा; 3. बदली के समय सूर्य या चन्द्रमा के चारों ओर दिखाई देनेवाला घेरा।	পরিবেশ, প্রতিবেশ; দেবতা, পবিত্রাত্মা ব্যক্তি প্রভৃতির মস্তক–বেষ্টনকারী জ্যোতিশ্চক্র; সূর্য ও চন্দ্রের পরিধি বা মন্ডল	परिबेशे, प्रतिबेश; देबता, पबित्रात्मा ब्यक्ति प्रभृतिर मस्तक–बेष्टनकारी ज्योतिश्चक्र; सूर्ज ओ चन्द्रेर परिधि बा मन्डल	environment; halo (of lustre etc.); the disc of the sun and the moon.
परिव्राजक	पुं.	1. वह संन्यासी जो परिव्रज्या का व्रत ग्रहण करके सदा इधर-उधर भ्रमण करता रहे; 2. संन्यासी।	পরিব্রাজক, অনবরত পর্যটনকারী ভিক্ষু; সন্ন্যাসী	परिब्राजक, अनबरत पर्जटनकारी भिक्षु; सन्न्यासी	wandering religious mendicant. ascetic.
परिशिष्ट	पुं.	पुस्तकों आदि के अंत में दिया गया वह पूरक भाग जिसमें वे बातें दी जाती हैं जो मूल में आने से रह गई हों अथवा मूल में दी गई बातों का स्पष्टीकरण दिया गया हो।	পরিশিষ্ট গ্রন্থাদির শেষে মূলগত অথবা মনের স্পষ্টীকরণার্থ যে অংশ সংযুক্ত হয়	परिशिष्ट ग्रन्थादिर शेषे मूलगत अथबा मनेर स्पष्टीकरनार्थ जे अंश संजुक्त हय	appendix.
परिशीलन	पुं.	मनन-पूर्वक किया जानेवाला गंभीर अध्ययन।	পরিশীলন, পর্যালোচন	परिशीलन, पर्जालोचला	study, critical study.
परिश्रम	पुं.	मानसिक या शारीरिक श्रम, मेहनत।	পরিশ্রম, খাটুনি, মেহনত	परिश्रम, खाटुनि, मेहनत	labour, hard work

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परिश्रमी	वि.	पूरी शक्ति लगाकर काम करनेवाला, मेहनती।	পরিশ্রমী, শ্রমশীল, খাটিয়ে, মেহনতী	परिश्रमी, श्रमशील, खाटिये, मेहनती	laborious, painstaking, hardworking, diligent.
परिषद्	स्त्री.	सभा।	পরিষৎ, সভা	परिषत्, सभा	council, association.
परिष्कार	पु.	1. अच्छी तरह ठीक और साफ करने की क्रिया या भाव, गंदगी, मिलावट, मैल आदि निकालकर किसी चीज को स्वच्छ बनाना;	পরিষ্কার, পরিষ্করণ, নির্মলীকরণ;	परिष्कार, परिष्करन, निर्मलीकरन;	refining;
		2. त्रुटियां, दोष आदि दूर करके सुंदर सुरुचिपूर्ण और स्वच्छ बनाना;	দোষাদির সংস্কার, শোধন;	दोषादिर संस्कार, शोधन;	embellishment;
		3. शोभा, सजावट।	শোভন, মন্ডন	शोभन, मन्डन	decoration.
परिष्कृत	वि.	1. जिसका परिष्कार किया गया हो;	পরিষ্কৃত;	परिष्कृत;	purified;
		2. संवारा या सजाया हुआ, अलंकृत;	মন্ডিত, অলঙ্কৃত;	मन्डित, अलंकृत;	adorned, decorated;
		3. सुधारा हुआ।	সংস্কৃত, শোধিত	संस्कृत, शोधित	improved.
परिसंवाद	पु.	दो या अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होनेवाला विचारपूर्ण वाद-विवाद।	আলাপ-আলোচনা, বিচারবিতর্ক	आलाप-आलोचना, बिचारबितर्क	discussion, symposium.
परिसमापन	पु.	1. समाप्त करना;	পরিসমাপণ, সমাপ্তীকরণ;	परिसमापन, समाप्तीकरन;	the act of finishing completely;
		2. किसी चलते हुए काम का विधिवत् समाप्त होना;	পরিসমাপ্তি;	परिसमाप्ति;	termination;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. किसी ऋण-ग्रस्त संस्था का कारबार बन्द करते समय किसी सरकारी अधिकारी या किसी आदाता द्वारा उसकी परिसंपद् का लेनदारों में किसी विशिष्ट अनुपात से बांटा जाना।	যখন কোনো কারবার বন্ধ হইয়া যায় বিধিসম্মত ভাবে পাওনাদারের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিবিতরণ	जखन कोनो कारबार बन्ध हइया जाय बिधिसम्मत भाबे पाओनादारेर मध्ये उक्त प्रतिष्ठानेर सम्पत्तिबितरन	liquidation.
परिसर	पु.	नगर, पर्वत आदि के आस-पास की भूमि।	পরিসর	परिसर	environs.
परिसीमन	पु.	किसी क्षेत्र, विषय आदि की सीमाएं निर्धारित करना।	সীমা নির্ধারণ	सीमा निर्धारन	delimitation.
परिसीमा	स्त्री.	अंतिम या चरम सीमा, हद।	পরিসীমা, অবধি, অন্তিম সীমা	परिसीमा, अबधि, अन्तिम सीमा	extreme limit.
परिस्थिति	स्त्री.	आसपास चारों ओर की स्थिति, हालत।	পরিস্থিতি, পারি-পার্শ্বিক অবস্থা	परिस्थिति, पारि-पाशिर्वक अबस्था	circumstance.
परिहार	पु.	1. त्रुटियों, दोषों विकारों आदि का किया जानेवाला अंत या निराकरण;	পরিহার, দোষ ত্রুটি ইত্যাদির নিরাকরণ;	परिहार, दोष त्रुटि इत्यादिर निराकरन;	rectifying (a flaw, error etc.);
		2. छोड़ने, त्यागने या दूर करने की क्रिया या भाव।	পরিবর্জন, পরিত্যাগ	परिबर्जन, परित्याग	abstaining, refraining.
परिहार्य	वि.	परिहार करने योग्य, त्यागने या निवारण करने योग्य।	পরিহার্য, পরিহারযোগ্য, বর্জনীয়, পরিত্যাজ্য	परिहार्ज, परिहारजोग्य, बर्जनीय, परित्याज्य	to be avoided, that can be abstained, refrained.
परिहास	पु.	हंसी, मजाक।	পরিহাস, ঠাট্টা	परिहास, ठाट्टा	joke, fun.
परी	स्त्री.	1. वह कल्पित स्त्री जो परों की सहायता से आकाश में उड़ती है;	পরী, পক্ষযুক্ত অপ্সরাবিশেষ;	परी, पक्षजुक्त अप्सराबिशेष;	fairy,
		2. अति रूपवती स्त्री।	অতি সুন্দরী নারী	अति सुन्दरी नारी	beautiful woman.
परीक्षक	पु.	1. परीक्षा करने या लेनेवाला; 2. जांचने, परखनेवाला।	পরীক্ষক; অন্বেষণকারী, দোষগুণবিচারক	परीक्षक; अन्बेषनकारी, दोषगुनबिचारक	examiner; one who tests, investigates, investigator.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परीक्षण	पु.	1. परीक्षा करने या लेने की क्रिया;	পরীক্ষণ, পরীক্ষাকরণ;	परीक्षन, परीक्षाकरन;	the act or process of examination, examining;
		2. जांच, परख।	দোষগুণ বিচার	दोषगुन, विचार	testing.
परीक्षा	स्त्री.	1. किसी के गुण, दोष, योग्यता, शक्ति आदि की सच्ची जानकारी के लिए उसे अच्छी तरह देखना भालना;	পরীক্ষা, দোষ গুণ যোগ্যতা ইত্যাদির সঠিক বিচার;	परीक्षा, दोष गुन जोग्यता इत्यादिर सठिक बिचार;	trial by ordeal of various kinds;
		2. प्रमाण आदि के द्वारा किसी वस्तु के तत्व का निश्चय करना;	প্রমাণাদি সহযোগে তত্ত্বাবধারণ;	प्रमानादि सहजोगे तत्त्वावधारन;	test;
		3. किसी वस्तु का ऐसा प्रयो जो उसके बारे में कोई विशेष बात निश्चित करने के लिए किया जाए;	প্রয়োগমাধ্যমে ফল নির্ণয়;	प्रयोगमाध्यमे फल निर्नय;	experiment;
		4. विद्यार्थियों या उम्मीदवारों की योग्यता की वह विशेष प्रकार की जांच जिसमें उनसे मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं।	মৌখিক বা লিখিত প্রশ্ন মাধ্যমে ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয় কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়	मौखिक वा लिखित प्रश्न माध्यमे छात्रेर बिद्याबत्ता निर्नय कर्मप्रार्थीर जोग्यता निर्नय	examination, test.
परीक्षार्थी	पु.	परीक्षा देनेवाला।	পরীক্ষার্থী	परीक्षार्थी	examinee.
परुष	वि.	जो गुण, प्रकृति, स्वभाव, आदि की दृष्टि से कड़ा, रुक्ष तथा मृदुताहीन हो, कठोर और ककर्श।	পরুষ, কর্কশ, কঠোর	परुष, कर्कश, कठोर	hard, rough, coarse.
परे	क्रि.वि.	1. दूर, और आगे, सीमा से बाहर;	পরে, অনন্তর, পশ্চাতে, বাহিরে;	परे, अनन्तर, पश्चाते, बाहिरे;	at a distance, beyond;
		2. तुलना आदि के विचार से ऊँची स्थिति में या बढ़कर।	অন্য বস্তুর তুলনায় যাহা উঁচুতে আছে	अन्य बस्तुर तुलनाय जाहा उंचुते आछे	beyond.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
परेशान	वि.	1. उद्विग्न, विकल, व्याकुल; 2. दूसरों द्वारा तंग किया या सताया हुआ।	উদ্বিগ্ন, বিহ্বল; হয়রান, নাকাল	उद्विग्न, बिह्वल; हयरान, नाकाल	worried; troubled, harassed.
परेशानी	स्त्री.	1. परेशान होने की अवस्था या भाव; 2. वह बात या विषय जिससे कोई परेशान हो, काम में होनेवाला कष्ट या झंझट।	উদ্বেগ, বিহ্বলতা, ব্যাকুলতা; হয়রানি	उद्वेग, बिह्बलता, ब्याकुलता; हयरानि	state of worry; trouble.
परोक्ष	वि.	1. जो आंखों के सामने न हो; 2. अनुपस्थित, गैरहाजिर; 3. जो उचित और स्पष्ट रूप से न होकर किसी प्रकार के घुमाव-फिराव या हेरफेर से हो।	পরোক্ষ; অনুপস্থিত; সরাসরি নহে এমন	परोक्ष; अनुपस्थित; सरासरि नहे एमन	out of or beyond the range of sight; absent; indirect.
	पु.	1. आंखों के सामने न होने की स्थिति या भाव, अनुपस्थिति; 2. व्याकरण में पूर्ण भूतकाल।	দৃষ্টিগোচর নয় এমন অবস্থা, অনুপস্থিতি; পুরাঘটিত অতীতকাল	दृष्टिगोचर नय एमन अबस्था, अनुपस्थिति; पुराघटित अतीतकाल	absence; (in gram). perfect past tense.
परोक्षी	पु.	किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया अधिकार, अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने के हेतु प्राधिकृत व्यक्ति।	অন্যের হইয়া কোনো কাজ করার জন্য প্রদত্ত অধিকার	अन्येर हइया कोनो काज करार जन्य प्रदत्त अधिकार	proxy.
परोपकार	पु.	दूसरों के हित का काम, दूसरे की भलाई।	পরোপকার, পরের হিতসাধন	परोपकार, परेर हितसाधन	benevolence.
परोपकारी	वि.	दूसरे की भलाई करनेवाला।	পরের হিতকারী	परेर हितकारी	benevolent.
परोपजीवी	वि.	दूसरों के भरोसे जीवन निर्वाह करनेवाला।	পরোপজীবী;	परोपजीबी	parasitic.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	ऐसे कीड़े-मकौड़े या वनस्पतियां जो दूसरे जीव-जन्तुओं या वृक्षों के अंगों पर रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं।	পরজীবী পোকামাকড় বা গাছ	परजीवी पोकामाकड़ वा गाछ	parasite.
परोसना (परसना)	स. क्रि.	खानेवाले की थाली में या पत्तल में खाद्य पदार्थ रखना।	পরিবেষণ করা	परिबेषन करा	to serve food.
पर्चा (परचा)	पु.	1. कागज का टुकड़ा; 2. कागज के टुकड़े पर लिखी हुई छोटी चिट्ठी या सूचना; 3. विद्यार्थियों की परीक्षा में आनेवाला प्रश्नपत्र; 4. अखबार।	চিরকুট; চিট; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র; খবরের কাগজ	चिरकुट; चिट; परीक्षार प्रश्नपत्र; खबरेर कागज	slip of paper; chit; paper, question paper; newspaper.
पर्ची (परची)	स्त्री.	छोटा परचा।	ছোট 'পরচা'	छोट 'परचा'	slip of paper.
पर्णकुटी	स्त्री.	वह झोंपड़ी जिसकी छाजन पत्तों की बनी हो।	পর্ণকুটীর, পাতার ঘর	पर्नकुटीर, पातार घर	hut made of leaves.
पर्णशय्या	स्त्री.	पत्तों का बिछावन या बिस्तर।	পর্ণশয্যা, পত্র-রচিত শয়নস্থান	पर्नशज्या, पत्र-रचित शयनस्थान	bed or couch of leaves.
पर्णशाला	स्त्री.	पर्णकुटी।	পর্ণশালা, পর্ণকুটীর	पर्नशाला, पर्नकुटीर	hut made of leaves.
पर्यन्त	अव्य.	तक।	পর্যন্ত, অবধি	पर्जन्त, अबधि	till, upto, as far as.
पर्यटक	वि.पु.	दूसरे देशों में घूमने-फिरने वाला, पर्यटन करनेवाला।	পর্যটক, পরিভ্রমণকারী	पर्जटक, परिभ्रमनकारी	tourist.
पर्यटन	पु.	अनेक महत्वपूर्ण स्थल देखने तथा मन-बहलाव के लिए अधिक विस्तृत भूभाग में किया जानेवाला भ्रमण।	পর্যটন, পরিভ্রমণ	पर्जटन, परिभ्रमन	touring, travelling over.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पर्यवसान	पु.	1. अंत, समाप्ति; 2. अर्थ, आशय आदि के संबंध में होनेवाला ठीक ज्ञान या निश्चय।	পর্যবসান; সঠিক নির্ধারণ	पर्जबसान; सठिक निर्धारन	end, termination; conclusion.
पर्यवेक्षक	पु.	वह अधिकारी जो किसी काम के ठीक तरह से होते रहने की देखरेख पर नियुक्त हो।	পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক	पर्जबेक्षक, तत्त्वावधायक	supervisor.
पर्यवेक्षण	पु.	बराबर यह देखते रहना कि कोई काम ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं।	পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান	पर्जबेक्षन, तत्त्वावधान	supervision.
पर्याप्त	वि.	जितना आवश्यक हो उतना सब, यथेष्ट, काफी।	পর্যাপ্ত, যথেষ্ট, প্রচুর	पर्जाप्त, जथेष्ट, प्रचुर	enough, sufficient.
पर्याय	पु.	समानार्थक शब्द।	পর্যায়, সমানার্থবোধক শব্দ	पर्जाय, समानार्थबोधक शब्द	synonym, equivalent.
पर्यायवाची	वि.	समानार्थक।	পর্যায়বাচী	पर्जायबाची	synonymous.
पर्यालोचन	पु.	सम्यक् विवेचन।	পর্যালোচন	पर्जालोचन	thorough review.
पर्यावरण	पु.	किसी व्यक्ति या विषय की परिस्थिति, वातावरण।	পরিস্থিতি, পরিবেশ	परिस्थिति, परिबेश	circumstance, environment.
पर्यावर्तन	पु.	1. वापस आना, लौटना; 2. अदला-बदली, विनिमय।	প্রত্যাবর্তন; বদলাবদলি	प्रत्याबर्तन; बदलाबदलि	coming back, return; exchange.
पर्व	पु.	1. उत्सव, त्योहार; 2. जोड़, गांठ; 3. ग्रंथ का कोई विशिष्ट खंड या भाग।	পর্ব, উৎসব; জোড়, গ্রন্থি, গাঁঠ; গ্রন্থাংশ	पर्ब, उत्सब; जोड़, ग्रन्थि, गांठ; ग्रन्थांश	festival; knot; section.
पर्वत	पु.	पहाड़।	পর্বত, পাহাড়	पर्बत, पाहाड़	mountain.
पर्वत-माला	स्त्री.	पहाड़ों की श्रेणी।	পর্বতমালা, পর্বতশ্রেণী	पर्बतमाला, पर्बतश्रेनी	chain of mountains.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पलंग	पु.	बड़ी और बढ़िया चारपाई	পালঙ্ক, পালংগ	पालङ्क, पालङ्ग	bedstead.
पल	पु.	समय का एक लघु विभाग जो 24 सेकेंड के बराबर होता है।	সময়ের ক্ষীণ বিভাগ, ২৪ সেকেন্ড	समयेर क्षीन विभाग, 24 सेकेन्ड	measure of time equal to twenty-four seconds;
पलक	स्त्री.	आंख के ऊपर का वह पतला आवरण जिसके गिरने से आंख बंद होती है और उठने से खुलती है।	পলক, চক্ষুর পাতা	पलक, चक्षुर पाता	eye-lash.
पलटन	स्त्री.	1. सैनिकों का बड़ा दस्ता जिसका नायक लेफ्टीनैंट होता है;	পলটন, পদাতিক, সৈন্যবিভাগ-বিশেষ;	पलटन, पदातिक, सैन्यविभाग-विशेष;	platoon;
		2. किसी प्रकार के प्राणियों का बहुत बड़ा झुंड।	জন্তুজানোয়ারের বড় দল, পাল	जन्तुजानोयारेर बड़ दल, पाल	in large number.
पलटना	अ. क्रि.	1. एकदम बदल जाना;	পালটানো;	पालटानो;	to alter;
		2. उलटा या औंधा होना;	উলটান;	उलटान;	to over-turn;
		3. घूमना या मुड़ना;	ঘুরিয়া যাওয়া;	घुरिया जाओया;	to turn, barter;
		4. वापस आना या लौटना;	ফিরিয়া আসা;	फिरिया आसा;	to return;
		5. मुकरना।	অস্বীকার করা	अस्बीकार करा	to deny, to refuse.
	स.क्रि.	1. पूर्णतया परिवर्तित कर देना, बदल देना;	পালটানো, বদলাইয়া দেওয়া;	पालटानो, बदलाइया देओया;	to change, to alter;
		2. उलटा या औंधा करना;	উলটাইয়া দেওয়া;	उलटाइया देओया;	to turn over;
		3. एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ग्रहण करना, अदल-बदल करना।	পালটানো, বদলাবদলি করা, অদলবদল করা	पालटानो, बदलाबदलि करा, अदलबदल करा	to exchange, to barter.
पलटा	पु.	1. लोहे, पीतल या काठ की चपटी कलछी;	লোহা, পিতল ইত্যাদির খুন্তি;	लौहा, पितल इत्यादिर खुन्ति;	an iron pan or ladle with a long handle (used to turn cakes when cooking);
		2. पलटने का कार्य या भाव;	পালটানো, ফিরানো;	पालटानो, फिरानो;	going or turning back;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. संगीत में वह स्थिति जिसमें बड़ी और लम्बी तानें लेते समय ऊंचे स्वरों से पलटकर नीचे स्वरों पर आते हैं।	সংগীতের কলা-কৌশল বিশেষ, উঁচু সুর থেকে নীচু সুরে নামিয়া আসা	संगीतेर कला-कौशल विशेष, उंचु स्वर थेके नीचु स्वरे नामिया आसा	(music) while taking long tan s the singer touches the lower.
पलटाना	स. क्रि.	1. पलटने में प्रवृत्त करना;	ফিরান, ঘুরাইয়া দেওয়া	फिरान, घुराइया देओया	to send back, to cause to turn;
		2. लौटाना, वापिस करना;	ফিরাইয়া দেওয়া;	फिराइया देओया;	to return;
		3. बदलना।	পরিবর্তিত করা	परिबर्तित करा	to convert, to drive back.
पलटाव	पु.	पलटे जाने की क्रिया या भाव।	পাল্টে যাওয়ার অবস্থা	पाल्टे जाओयार अबस्था	the state of turning back.
पलड़ा	पु.	तराजु के दोनों लटकते हुए भागों में से एक।	পাল্লা	पाल्ला	pan of a balance.
पलथी	स्त्री.	दाहिने और बाएं पैरों के पंजों को क्रम से बायीं और दाहिनी जांघों के नीचे दबाकर बैठने का एक आसन।	সুখাসন	सुखासन	cross-legged sitting posture.
पलना	अ.क्रि.	1. पाला-पोसा जाना;	লালিতপালিত হওয়া;	लालितपालित हओया;	to be brought up;
		2. विशिष्ट परिस्थितियों में रह कर बड़ा होना।	বিশেষ পরিবেশে বড় হওয়া	बिशेष परिबेशे बड़ हओया	to be nourished, to be reared.
पलस्तर	पु.	1. मजबूती तथा सुरक्षा के लिए बालू, सीमेंट आदि का दीवारों,छतों आदि पर किया जानेवाला मोटा लेप;	পলস্তারা, পলস্তরা;	पलस्तारा, पलस्तरा;	plaster;
		2. किसी चीज के ऊपर लगाया जानेवाला कोई मोटा लेप।	কোনো জিনিসের উপর লাগাইবার ঘন প্রলেপ	कोनो जिनिसेर उपर लागाइबार घन प्रलेप	plaster.
पलायन	पु.	भागने की क्रिया या भाव, भागना।	পলায়ন, চম্পট দেওয়া	पलायन, चम्पट देओया	fleeing, escape.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पलायनवाद	पु.	वह वाद या सिद्धान्त जिसमें जीवन की वास्तविकता और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया जाता है।	যে-মতবাদ পলায়নী মনোবৃত্তির সমর্থক	जे-मतबाद पलायनी मनोबृत्तिर समर्थक	escapism.
पलायनवादी	वि.	पलायनवाद संबंधी।	পলায়নবাদ সম্পর্কিত	पलायनबाद सम्पर्कित	pertaining to escapism.
	पु.	पलायनवाद के सिद्धान्त को माननेवाला या उसका अनुयायी।	পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন	पलायनी मनोबृत्ति सम्पन्न	escapist or the follower of escapism.
पलाश(पलास)	पु.	1. एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसमें गहरे लाल रंग के अर्ध-चंद्राकार फूल लगते हैं, इसके सूखे लचीले पत्तों से दोने, पत्तल आदि बनाई जाती हैं;	পলাশ, কিংশুকবৃক্ষ;	पलाश, किंशुकबृक्ष;	kind of tree or its leaves;
		2. उक्त वृक्ष का फूल।	উক্ত বৃক্ষের ফুল	उक्त बृक्षेर फुल	its purple coloured flowers.
पलीता	पु.	1. चिराग की बत्ती;	পলিতা;	पलिता;	wick;
		2. बत्ती के आकार का बारूद लगा हुआ एक छोटा डोरा जो पटाखों आदि में लगा रहता है और जिसके जलाने पर पटाखा चलता है;	পটকা ইত্যাদির মুখে সংলগ্ন সলিতা;	पटका इत्यादिर मुखे संलग्न सलिता;	igniter;
		3. नारियल आदि की छाल या रेशों को कूटकर और बटकर बनाई हुई वह बत्ती जिससे बंदूक या तोप के रंजक में आग लगाई जाती है;	কামান বা বন্দুকের বারুদ আগুন ধরাইবার সলিতা বিশেষ;	कामान बा बन्दुकेर बारुद आगुन धराइबार सलिताबिशेष;	gun-cotton;
		4. बत्ती के आकार में लपेटा हुआ वह कागज जिस पर कोई मंत्र लिखा हो।	সলিতার আকারে পাকান কাগজে লেখা মন্ত্র	सलितार आकारे पाकान कागजे लेखा मन्त्र	a paper spell with spell and prayers written on it

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पलेथन (परथन)	पु.	वह सूखा आटा जिसे लोई पर लगाकर रोटी बेलते हैं।	রুটি বেলার সময় লেচির উপর যে শুকনা আটা লাগান হয়	रुटि बेलार समय लेचिर उपर जे शुकना आटा लागान हय	dry flour put under and over dough when it is rolled.
पलोटना	स.क्रि.	सेवाभाव से किसी के पैर दबाना।	পা টিপা	पा टिपा	to tread gently.
पल्लव	पुं.	नया और कोमल पत्ता।	পল্লব, বৃক্ষাদির নূতন পাতা	पल्लब, बृक्षादिर नूतन पाता	a new tender leaf.
पल्लवित	वि.	1. जो नए-नए पत्तों से युक्त हो अथवा जिसमें नए-नए पत्ते निकल रहे हों;	পল্লবিত, পল্লবযুক্ত;	पल्लबित, पल्लबजुक्त;	having or growing new leaves;
		2. हरा-भरा तथा लहलहाता हुआ, समृद्ध	সতেজ সবুজ, সমৃদ্ধ	सतेज सबुज, समृद्ध	thriving, prosperous.
पल्ला	पु.	1. कपड़े का छोर, (दामन);	কাপড়ের প্রান্ত;	कापड़ेर प्रान्त;	length end of gar ment;
		2. स्त्रियों की चादर, साड़ी आदि का वह अंश जो उनके सिर पर रहता है तथा जिसे खींचकर वे घूंघट करती हैं;	আঁচল;	आंचल;	the end of a saree etc. used as a head-cover;
		3. अनाज आदि बांधने का कपड़ा या चादर;	শস্যাদি বাঁধিয়া নিবার জন্য কাপড় বা চাদর;	शस्यादि बाँधिया निबार जन्य कापड़ बा चादर;	a piece of cloth or 'chadar' to hold corn etc.;
		4. तराजू, किवाड़ आदि के दो हिस्सों में से कोई एक।	তোলপাল্লা, দরজা-জানলার পাল্লা	तौलपाल्ला, दरजा-जानलार पाल्ला	pan of a balance, door panel.
पल्लू	पु.	1. आंचल, छोर;	আঁচল, প্রান্ত;	आंचल, प्रान्त;	end of a (female) garment;
		2. स्त्रियों का घूंघट;	ঘোমটা;	घोमटा;	used as a head cover and veil;
		3. चौड़ी गोट [illegible]टी।	চওড়া পাড়	चओड़ा पाड़	broad border (Gota).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पल्ले	क्रि. वि.	प्राप्ति, स्थिति आदि के विचार से अधिकारवश या स्वत्व में, पास में या हाथ में।	হাতে, অধিকারে	हाते, अधिकारे	in hand.
पल्लेदार	पु.	माल ढोनेवाला मजदूर।	মুটিয়া, মোটবহনকারী	मुटिया, मोटबहनकारी	porter, carrier of heavy burden.
पवन	पु.	वायु, हवा।	পবন, বায়ু	पबन, बायु	air, breeze, wind.
पवन-चक्की	स्त्री.	पवन के वेग से चलनेवाली चक्की।	বাতাচক্র	वाताचक्र	a wind-mill.
पवित्र	वि.	1. (पदार्थ) जो धार्मिक उपचारों से इस प्रकार शुद्ध किया गया हो या अपने गुणों के कारण इतना शुद्ध माना जाता हो कि पूजा-पाठ, यज्ञ आदि के काम में लाया जा सके;	পবিত্র, পূত, পরিশোধিত;	पवित्र, पूत, परिशोधित;	sacred, sacrosanct;
		2. (व्यक्ति) निश्छल, धार्मिक तथा सद्वृत्तिवाला;	ধার্মিক, সদ্বৃত্তিসম্পন্ন;	धार्मिक, सद्वृत्तिसम्पन्न;	holy;
		3. स्वच्छ, निर्मल;	স্বচ্ছ, নির্মল;	स्वच्छ, निर्मल;	pure;
		4. दोष, पाप आदि से रहित।	নির্দোষ, নিষ্পাপ	निर्दोष, निष्पाप	sinless, free from sensual properties.
पवित्रता	स्त्री.	पवित्र होने की अवस्था या भाव।	পবিত্রতা, পবিত্র হওয়ার অবস্থা	पबित्रता, पबित्र हओयार अबस्था	purity, cleanness.
पशमीना	पुं.	1. पशम;	পশম;	पशम;	fine soft wool;
		2. बढ़िया, मुलायम ऊन का कपड़ा।	পশমিনা পশমী কাপড়বিশেষ	पशमिना, पशमी कापड़विशेष	cloth made of such wool.
पशु	पु.	1. चार पैरों से चलनेवाला कोई दुमदार जंतु, जानवर;	পশু, লাংগুল-বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু, জানোয়ার;	पशु, लाङ्गुल-बिशिष्ट चतुष्पद जन्तु, जानोयार;	animal, cattle, beast;
		2. मूर्ख, विवेकहीन मनुष्य।	মূঢ়	मूढ़	a fool.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पशुचिकित्सा	स्त्री.	चिकित्सा-शास्त्र की वह शाखा जिसमें पशु-पक्षियों आदि के रोगों के निदान और चिकित्सा का विवेचन होता है।	পশুপক্ষীর চিকিৎসা-শাস্ত্র	पशुपक्षीर चिकित्सा-शास्त्र	veterinary scienc
पशुता	स्त्री.	1. पशु होने की अवस्था या भाव; 2. पशुओं का सा व्यवहार या स्वभाव।	পশুতা, পশুত্ব; পশুর মতো ব্যবহার বা স্বভাব	पशुता, पशुत्व; पशुर मतो ब्यबहार बा स्बभाब	the state of bein animal; bestiality, (beastliness).
पशुधन	पु.	वे पालतू पशु जो किसी व्यक्ति या समाज आदि के आर्थिक उत्पादन, सुरक्षा आदि में योग देते हों।	পশুসম্পত্তি	पशुसम्पत्ति	livestock.
पशुपाल (पशुपालक)	पु.	पशुओं को पालनेवाला।	পশুপাল	पशुपाल	cattle-breeder.
पशुपालन	पु.	जीविका निर्वाह के लिए पशुओं को पालने की क्रिया या भाव।	পশুপালন, জীবিকা নির্বাহের জন্য পশুর প্রতিপালন	पशुपालन, जीबिका निर्बाहेर जन्य पशुर प्रतिपालन	cattle-breeding, animal husband
पश्चात्	अव्य.	पीछे, बाद में, उपरान्त।	পশ্চাৎ, পিছে, পরে, পিছনে	पश्चात्, पिछे, परे, पिछने	after, after-warc behind.
पश्चात्ताप	पु.	किसी कार्य से अनौचित्य का भान होने पर मन में होनेवाला दुख, पछतावा।	পশ্চাত্তাপ্ অনুতাপ	पश्चात्ताप्, अनुताप	regret, repentan
पश्चिम	पु.	वह दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, पूर्व दिशा के सामने वाली दिशा।	পশ্চিম, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়	पश्चिम, जे दिके सूर्ज अस्त जाय	west.
पश्चिमी	वि.	1. पश्चिमी दिशा सम्बन्धी; 2. पश्चिम के देशों में होनेवाला या वहां से आनेवाला।	পশ্চিম দিক্-সম্বন্ধী; পশ্চিম দেশে ঘটিত, পশ্চিম দেশাগত	पश्चिम दिक्-सम्बन्धी; पश्चिम देशे घटित पश्चिम देशागत	pertaining to w western.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पसन्द	स्त्री.	1. मन को भला तथा रुचिकर प्रतीत होनेवाला कार्य, वस्तु या व्यक्ति;	পসন্দ, পছন্দ, রুচি;	पसन्द, पछन्द, रुचि;	liking;
		2. वरण करने, चुनने या वरीयता देने की क्रिया, प्रवृत्ति या भाव।	বাছাই, অধিকতর গুরুত্ব আরোপ	बाछाइ, अधिकतर गुरुत्व आरोप	choice, preference
पस	पु.	मवाद, घाव, फोड़े आदि से निकलनेवाला लसीला तरल श्वेत पदार्थ।	পুঁজ	पुंज	pus.
पसरना	अ. क्रि.	1. आगे की ओर बढ़ना, फैलना;	প্রসারিত হওয়া, ছড়াইয়া যাওয়া;	प्रसारित हओया, छड़ाइया जाओया;	to be spread out, to stretch out;
		2. हाथ-पैर फैलाकर या अधिक जगह घेरते हुए बैठना या लेटना।	হাত পা ছড়াইয়া বসা বা শোয়া	हात पा छड़ाइया बसा बा शोया	to stretch oneself.
पसली	स्त्री.	स्तनपायी जीवों की छाती के दोनों ओर की गोलाकार हड्डियों में से एक।	পাঁজড়া, পাজরা, পাঁজড়, পাঁজর	पांजड़ा, पाजरा, पांजड़, पांजर	rib.
पसाना	स. क्रि.	1. पके हुए चावलों में से मांड निकालना;	ফেন গালা, মাড় গালা;	फेन गाला, माड़ गाला;	to remove the scum of boiling rice;
		2. किसी वस्तु में से जलीय अंश निकालना।	কোনো বস্তুর জলীয় অংশ নিষ্কাসন করা	कोनो वस्तुर जलीय अंश निष्कासन करा	to pour off the water in which any edible (as rice) has been boiled.
पसारना	स. क्रि.	1. अधिक विस्तृत करना;	পসারা;	पसारा;	to expand;
		2. फैलाना;	ছড়াইয়া দেওয়া;	छड़ाइया देओया;	to spread;
		3. आगे बढ़ाना।	অগ্রসর করিয়া দেওয়া	अग्रसर करिया देओया	to stretch out.
पसारा	पु.	फैलाव।	বিস্তৃতি, বিস্তার	बिस्तृति, बिस्तार	spread, extension.
पसीजना	अ. क्रि.	1. अधिक गरमी या ताप के प्रभाव से किसी घन या ठोस पदार्थ में से जलकण निकलना;	ঘর্মাক্ত হওয়া;	घर्माक्त हओया;	to perspire, to ooze;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. दया आ जाना।	দয়ার্দ্র হওয়া	दयार्द्र हओया	to be compassionate.
पसीना	पु.	गरमी अथवा श्रम के कारण शरीर या उसके अंग में से निकलनेवाले जलकण।	ঘাম, ঘর্ম	घाम, घर्म	perspiration, sweat.
पसोपेश	पु.	1. कोई काम करने के समय मन में होनेवाला भाव कि आगे बढ़ें या पीछे हटें, असमंजस, आगा-पीछा, सोचविचार;	ইতস্তত;	इतस्तत;	being in a fix, hesitation;
		2. इस बात का विचार कि यह काम करने पर क्या लाभ अथवा क्या हानि होगी, ऊंच-नीच।	দ্বিধা, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা	द्विधा, अग्रपश्चात् चिन्ता	indecision.
पस्त	वि.	1. हारा हुआ;	পরাজিত;	पराजित;	defeated;
		2. थका हुआ, शिथिल।	ক্লান্ত, শ্রান্ত	क्लान्त, श्रान्त	weary.
पहचान (पहिचान)	स्त्री.	1. पहचानने की क्रिया या भाव;	চিনা;	चिना;	the act of recognition;
		2. कोई ऐसा चिह्न या लक्षण जिससे पता चले कि यह अमुक व्यक्ति या वस्तु है;	যাহা দ্বারা সনাক্ত করা যায় এমন কোনো চিহ্ন;	जाहा द्वारा सनाक्त करा जाय एमन कोनो चिह्न;	identification mark;
		3. कभी के देखे हुए या जाने हुए व्यक्ति या पदार्थ को दुबारा देखने पर उसे उसी रूप में जान लेने की क्रिया या भाव;	চিনা, পরিচিত বা পূর্বদৃষ্ট বলিয়া জানা;	चिना, परिचित बा पूर्बदृष्ट बलिया जाना;	recognising or knowing again;
		4. परख, परखने की शक्ति;	পরীক্ষা, পরীক্ষা করার শক্তি;	परीक्षा, परीक्षा करार शक्ति;	test, power of distinguishing;
		5. परिचय।	পরিচয়	परिचय	acquaintance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पहचानना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते ही उसके चिह्नों, लक्षणों या रूपरंग के आधार पर यह जान लेना कि यह अमुक व्यक्ति या वस्तु है, यह समझना कि यह वही वस्तु या व्यक्ति है जिसे मैं पहले से जानता हूँ;	চিহ্ন লক্ষণাদির দ্বারা চিনিয়া লওয়া;	चिह्न लक्षनादिर द्वारा चिनिया लओया;	to recognise;
		2. गुण दोष जानना, किसी के गुणदोष से अच्छी तरह परिचित होना;	দোষগুণ জানা, স্বভাব বুঝা;	दोषगुन जाना, स्बभाब बुझा;	to know, understand;
		3. एक वस्तु का दूसरी वस्तु या वस्तुओं से भेद करना, अंतर समझना या जानना, बिलगाना।	বাছাই করা, স্বাতন্ত্র্য কিংবা পার্থক্য নির্ণয় করা	बाछाइ करा, स्बातन्त्र्य किंबा पार्थक्य निर्नय करा	to distinguish, discern.
पहनना	स. क्रि.	शरीर या अंग पर (विशेषकर कपड़े, गहने आदि) धारण करना।	পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা;	परिधान करा, अङ्गे धारन करा;	to put on, to wear.
पहनाना (पहराना)	स. क्रि.	दूसरे को अपने हाथों से कपड़े, गहने आदि धारण कराना।	পরানো, পরান	परानो, परान	to clothe.
पहनावा (पहरावा)	पु.	1. पहनने के कपड़े, पोशाक;	পরার কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ;	परार कापड़, पोशाकपरिच्छद;	dress, garment;
		2. किसी जाति, देश आदि के लोगों द्वारा सामान्यतः पहने जानेवाले वस्त्र।	কোনো এক দল লোকের সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ	कोनो एक दल लोकेर साधारन पोशाक परिच्छद	ways of dressing up.
पहर	पु.	तीन घंटे का समय।	প্রহর, তিন ঘন্টা কাল	प्रहर, तिन घन्टा काल	measure of time equal to three hours.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पहरा	पु.	1. नियम विरुद्ध कार्य न होने देने के लिए तथा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति हानि न होने देने के लिए एक या अनेक व्यक्तियों का नियुक्त होना;	প্রহরা, প্রহরী নিযুক্ত;	प्रहरा, प्रहरी निजुक्त;	guard;
		2. निगरानी, देखरेख;	পাহারা, চৌকি;	पाहारा, चौकि;	watch;
		3. रक्षकदल;	রক্ষকদল;	रक्षकदल;	group of guards;
		4. रक्षकदल का फेरा।	চৌকিদারদের রোঁদ	चौकीदारदेर रोंद	beat time, period.
पहरेदार	पु.	पहरा देने वाला, रक्षक।	পাহারাদার, পাহারাওয়ালা	पाहारादार, पाहाराओयाला	watchman, sentry guard.
पहल	स्त्री.	1. किसी नए कार्य का पहली बार होने वाला आरम्भ;	আরম্ভ, সূত্রপাত;	आरम्भ, सूत्रपात;	beginning, commencement;
		2. किसी कार्य, बात आदि का किसी एक पक्ष की ओर से होने वाला आरम्भ जिसमें बाद के प्रभाव का उत्तरदायित्व उसी पक्ष पर माना जाता है, छेड़।	এমন কোনো কাজ বা বিষয়ের সূত্রপাত, যাহার দায়িত্ব যে সূত্রপাত করিয়াছে তাহারই	एमन कोनो काज बा बिषयेर सूत्रपात जाहार दायित्व जे सूत्रपात करियाछे ताहारइ	initiative.
पहलवान	पु.	1. कुश्ती लड़ने वाला मजबूत और कसरती आदमी;	পালোয়ান, মল্ল, কুস্তিগীর	पालोयान, मल्ल, कुस्तिगीर;	wrestler;
		2. हृष्ट-पुष्ट और बलवान आदमी।	হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ পুরুষ	हृष्टपुष्ट बलबान् पुरुष	strong man.
पहलवानी	स्त्री.	1. पहलवान होने की अवस्था या भाव;	পালোয়ানি;	पालोयानि;	wrestling;
		2. कुश्ती लड़ने का काम या पेशा।	কুস্তি লড়ার কাজ বা ব্যবসায়	कुस्ति लड़ार काज बा ब्यबसाय	the job or profession of wrestling.
पहला (पहिला)	वि.	1. समय के विचार से जो और सब से आदि में हुआ हो।	পহেলা, প্রথম;	पहेला, प्रथम;	first;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी चीज विशेषत: किसी वर्गीकृत चीज के आरंभिक अंश या वर्ग से संबंध रखने वाला;	প্রারম্ভিক, প্রাথমিক;	प्रारम्भिक, प्राथमिक;	primary;
		3. वर्तमान से पूर्व का।	আগেকার	आगेकार	former, prior.
पहलू	पुं.	1. किसी व्यक्ति या वस्तु का दायां या बायां अंग (पार्श्व, बगल);	পার্শ্ব, পাশ;	पार्श्व, पाश;	side;
		2. अच्छाई-बुराई, गुणदोष आदि की दृष्टि से किसी बात या विषय का कोई पक्ष।	ভালমন্দ দোষগুণ ইত্যাদির বিচারে কোনো বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক্	भालमन्द दोषगुन इत्यादिर बिचारे कोनो बस्तुर भिन्न भिन्न दिक्	aspect.
पहले	क्रि. वि.	1. आदि में, शुरु में;	গোড়াতে;	गोड़ाते;	in the beginning;
		2. स्थिति या काल के अनुसार प्रथम, आगे या पूर्व;	আগে, পূর্বে;	आगे, पूर्बे;	before, first, previously;
		3. पुराने जमाने में।	প্রাচীন কালে	प्राचीन काले	in olden times.
पहले-पहल	क्रि. वि.	सबसे पहले, पहली बार।	সর্বপ্রথম, প্রথমবার	सर्वप्रथम, प्रथमबार	first of all, for the first time.
पहलौंठा	वि.	जो पहले जन्मा हो,	প্রথমজাত	प्रथमजात	first born.
(स्त्री. पहलौंठी)		प्रथम प्रसव।	প্রথম প্রসব	प्रथम प्रसब	
पहाड़	पु.	1. चट्टानों का वह प्राकृतिक पुंज जो जमीन की सतह से बहुत ऊंचा होता है;	পাহাড়, পর্বত;	पाहाड़, पर्बत;	mountain;
		2. (ला०) किसी वस्तु का बहुत ऊंचा ढेर;	স্তূপ;	स्तूप;	a huge heap (of anything);
		3. (ला०) बहुत कठिन और दुष्कर कार्य।	অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্কর কার্য	अत्यन्त कठिन ओ दुष्कर कार्ज	difficult and hard task..
पहाड़ा	पु.	किसी अंक की गुणन सूची, गुणनसारणी।	নামতা	नामता	multiplication table.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पहाड़ी	वि.	1. पहाड़ सम्बन्धी;	পাহাড়ী, পাহাড়সম্বন্ধীয়;	पाहाड़ी, पाहाड़सम्बन्धीय;	pertaining to the hill;
		2. जिसमें पहाड़ हों;	যেখানে পাহাড় আছে;	जेखाने पाहाड़ आछे;	hilly;
		3. पहाड़ पर या उसके आसपास रहने वाला।	পাহাড়ে বা তাহার আশেপাশে অবস্থিত	पाहाड़े बा ताहार आसेपाशे अबस्थित	living on or near the mountain.
	स्त्री.	छोटा पहाड़।	ছোট পাহাড়	छोट पाहाड़	small hill.
पहिया	पु.	1. गाड़ी, कल आदि का वह गोलाकार अवयव जिससे धुरी पर घूमने से वह कल या गाड़ी चलती है;	গাড়ীর চাকা;	गाड़ीर चाका;	wheel;
		2. यंत्रों आदि में लगा हुआ उक्त आकार का गोल चक्कर जिसमें उस यंत्र की कोई क्रिया सम्पन्न होती है।	যন্ত্রাদিতে লাগান চাকা	जन्त्रादिते लागान चाका	wheel.
पहुंच	स्त्री.	1. पहुंचने की क्रिया या भाव;	পৌঁছান;	पौंछान;	the act of reaching;
		2. (शास्त्र आदि में) पैठ, प्रवेश, ज्ञान या परिचय; समझने की सामर्थ्य;	(শাস্ত্রাদিতে) প্রবেশ, প্রবেশের সামর্থ্য;	(शास्त्रादिते) प्रबेश, प्रबेशेर सामर्थ्य;	access;
		3. पहुंच जाने की खबर या सूचना।	পৌঁছসংবাদ, পৌঁছখবর	पौंछसंबाद, पौंछखबर	arrival, intimation of arrival.
पहुंचना	अ. क्रि.	1. एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान को प्राप्त होना;	পৌঁছান, পৌঁছানো;	पौंछान, पौंछानो;	to reach, to arrive at;
		2. किसी स्थान या पद आदि को प्राप्त होना।	কোনো স্থান বা পদ প্রাপ্ত হওয়া	कोनो स्थान बा पद प्राप्त हओया	to attain, to achieve.
पहुंचा	पु.	कलाई के ऊपर और कुहनी के नीचे का भाग।	কবজি, মণিবন্ধ	कबजि, मनिबन्ध	wrist.
पहुंचाना	स. क्रि.	1. किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना;	এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া;	एक स्थान हइते स्थानान्तरे पौंछाइया देओया;	to carry, to convey, to transmit, to lead, to reach (another);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी व्यक्ति के संग चलकर उसे नियत स्थान तक छोड़ने जाना।	কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া	कोनो ब्यक्तिके निर्दिष्ट स्थाने पौंछाइया देओया	accompany to (a place).
पहुंची	स्त्री.	कलाई पर पहनने का एक प्रकार का गहना।	কবজির অলঙ্কার-বিশেষ পঁইছা	कबजिर अलङ्कार-बिशेष, पंइछा	wrist ornament.
पहेली	स्त्री.	1. किसी की बुद्धि या समझ की परिक्षा लेने के लिए एक प्रकार की प्रश्नात्मक उक्ति या कथन जिसमें किसी वस्तु का भ्रामक या टेढ़ा-मेढ़ा लक्षण देकर उसे अभिप्रेत वस्तु का नाम बताने को कहते हैं;	ধাঁধা;	धांधा;	puzzle; quiz, riddle;
		2. दुर्ज्ञेय और विकट प्रश्न या बात।	দুর্জ্ঞেয় এবং উৎকট প্রশ্ন বা বাক্য	दुर्ज्ञेय एबं उत्कट प्रश्न बा बाक्य	anigma.
पांच	वि.	जो गिनती में चार से एक अधिक हो।	পাঁচ, পঞ্চসংখ্যক	पांच, पंचसंख्यक	five,
	पु.	उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है – 5	(৫) এই সংখ্যা	(5) एइ संख्या	the number five.
पांचभौतिक	वि.	1. जिसका सम्बन्ध पंचभूतों से हो, 2. पंचभूतों से मिलकर बना हुआ।	পঞ্চভূত সম্বন্ধীয়; পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত	पंचभूत सम्बन्धीय; पंचभूत द्वारा गठित	pertaining to five elements; composed of the five elements or containing five elements.
पांचवां	वि.	गिनती या क्रम में पांचवें स्थान पर पड़नेवाला।	পঞ্চম	पंचम	fifth.
पांजना	स. क्रि.	लोहे, पीतल आदि की वस्तुओं को टांका देकर जोड़ना, झालना।	ঝালা, ঝালাই করা	झाला, झालाइ करा	to close or fill in (a hole) esp. in metal, to solder.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पांडित्य	पु.	ज्ञान, विद्वता।	পান্ডিত্য, জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা	पान्डित्य, ज्ञान, विद्याबत्ता	scholarship, learning.
पांडु	वि.	हलके पीले रंग का।	পান্ডু	पान्डु	yellowish.
	पु.	1. सफेद पीला रंग;	শ্বেতপীতবর্ণ;	श्वेतपीतबर्न;	yellowish white, white pale, jaundiced;
		2. त्वचा के पीले पड़ने का एक रोग, पीलिया।	ন্যাবা, নেবা, কামলা	न्याबा, नेबा, कामला	jaundice.
पांडुरोग	पु.	एक प्रसिद्ध रोग जिसमें सारा शरीर पीला पड़ जाता है।	পান্ডুরোগ, ন্যাবা, নেবা	पान्डुरोग, न्याबा, नेबा	yellow disease, jaundice.
पांडुलिपि	स्त्री.	पुस्तक की हस्तलिखित प्रति।	পান্ডুলিপি	पान्डुलिपि	manuscript.
पांति (पांत)	स्त्री.	पंक्ति, कतार, पंगत।	পাঁতি, পঙ্ক্তি, সারি	पाँति, पङ्क्ति, सारि	line, row.
पांव	पु.	वह अंग जिसके बल प्राणी खड़े होते हैं और चलते हैं, पैर।	পা	पा	foot.
पांवड़ा	पु.	वह कपड़ा जो किसी आदरणीय व्यक्ति के मार्ग में पांव रखकर चलने के लिए बिछाया जाता है।	কোনো মান্য ব্যক্তির চলার পথে যে কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়	कोनो मान्य ब्यक्तिर चलार पथे जे कापड़ बिछाइया देओया हय	cloth or carpet spread to walk on, red carpet.
पाई	स्त्री.	1. खड़ी या सीधी लकीर;	দাঁড়ি, চিহ্ন;	दाँड़ि चिह्न;	a small vertical line used in writing or printing in Devanagari characters, a full stop;
		2. तांबें का एक पैसे से भी छोटा पुराना सिक्का।	মুদ্রাবিশেষ–পুরাতন তামার পয়সার 1/3, পাইপয়সা	मुद्राबिशेष–पुरातन तामार पंयसार 1/3, पाइपयसा	old copper coin smaller in value than the old paisa.
पाकर (पाकड़)	पुं.	बरगद की जाति का एक बड़ा पेड़।	পাকুড়	पाकुड़	the waved-leaved fig-tree.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाकशास्त्र	पु.	वह शास्त्र जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों या व्यंजन बनाने की कला, प्रक्रिया का विवेचन होता है।	পাকশাস্ত্র, রন্ধনশাস্ত্র	पाकशास्त्र, रन्धनशास्त्र	cooking, cookery.
पाक्षिक	वि.	1. पक्ष सम्बन्धी;	পাক্ষিক, পক্ষসম্বন্ধী;	पाक्षिक, पक्षसम्बन्धी;	belonging to a fortnight;
		2. प्रत्येक पक्ष में होने वाला।	প্রত্যেক পক্ষে হয় এমন, পক্ষভব	प्रत्येक पक्षे हय एमन, पक्षभव	fortnightly.
पाखंड	पु.	1. दिखावटी उपासना या भक्ति;	লোকদেখান উপাসনা বা ভক্তি;	लोकदेखान उपासना बा भक्ति;	any one who falsely assumes the characteristics of an orthodox Hindu, Jain or Buddhist, false doctrine, heresy;
		2. पूजा-पाठ आदि का आडंबर, ढकोसला, ढोंग।	পূজাপাঠ ইত্যাদির আড়ম্বর, ঢঙ্, ভন্ডামি;	पूजापाठ इत्यादिर आड़म्बर, ढङ्, भन्डामि;	hypocrisy, simulation.
पाखंडी	वि.	1. बनावटी धार्मिकता, सदाचार आदि दिखाने वाला;	যার ধার্মিকতা সদাচার প্রভৃতি লোকদেখান;	जार धार्मिकता सदाचार प्रभृति लोकदेखान;	one who adopts the external marks or characteristics of a tribe or sect but does not conform to the orthodox tenets of the Hindu faith nor respect the ordinances of the Vedas:
		2. दूसरों को ठगने या धोखा देने के लिए आडंबर या ढोंग करनेवाला।	অন্যকে ধোকা দেওয়ার জন্য যে আড়ম্বর করে	अन्यके धोका देओयार जन्य जे आड़म्बर करे	dissembling, hypocritical.
पाखाना	पु.	1. शौचालय, वह स्थान जहां मलत्याग किया जाए;	পায়খানা, পাইখানা;	पायखाना, पाइखाना;	latrine;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. शरीर का वह मल जो भोजन आदि पचने के उपरांत गुदा के रास्ते बाहर निकलता है।	মল	मल	faeces.
पाग	स्त्री.	पगड़ी।	পাগ, পাগড়ী	पाग, पागड़ी	a turban.
	पु.	वह खाद्य पदार्थ जो चाशनी या शीरे में पकाकर तैयार किया गया हो।	চিনির রসে পাক করা খাদ্য দ্রব্য	चिनिर रसे पाक करा खाद्य द्रव्य	anything which is boiled in sugar syrup,sugar-coated.
पागना	स. क्रि.	खाने की किसी वस्तु को चाशनी या शीरे में कुछ देर डुबाकर रखना ताकि शीरे या चाशनी का लेप उस वस्तु पर चढ़ जाए।	কোন চিনির রসের প্রলেপ লাগান মিষ্টান্ন	कोन चिनिर रसेर प्रलेप लागान मिष्टान्न	to dip in or coat with syrup to form a cake or crystallized sugar.
पागल	वि.	जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो किसी तीव्र मनोविकार के कारण ज्ञान या विवेक खो बैठा हो, विक्षिप्त, सनकी।	পাগল, উন্মাদ, বাতুল, খেপা	पागल, उन्माद, बातुल, खेपा	mad, insane, lunatic.
पागलखाना	पु.	वह स्थान जहां पागल व्यक्तियों को रखकर उनकी चिकित्सा की जाती है।	পাগলাগারদ	पागलागारद	lunatic asylum.
पागलपन	पु.	1. पागल होने की अवस्था या भाव, उन्माद, मूर्खता;	উন্মত্ততা, মূর্খতা;	उन्मत्तता, मूर्खता;	foolishness;
		2. वह आचरण, कार्य या बात जो पागल लोग साधारणतः करते हों।	পাগলামি	पागलामि	madness, lunacy, insanity.
पाचक	पुं.	पकाने वाला, पचाने वाला,	পাচক, রন্ধনকারী	पाचक, रन्धनकारी	cook,
	वि.	वह दवा जो खाई हुई चीज पचाती या पाचनशक्ति बढ़ाती हो।	পরিপাককারক ঔষধ, হজমি ঔষধ	परिपाककारक औषध, हर्जमि औषध	digestive, causing digestion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाचन	पु.	1. पकाने या पचाने की क्रिया; 2. जठराग्नि द्वारा भोजन का पचाया जाना।	পাচক, পাক পরিপাক; হজম	पाचक, पाक, परिपाक; हजम	causing to cook or boil or digest; the act of digestion in the stomach.
पाचनशक्ति	स्त्री.	खाए हुए पदार्थ को पचाने की शक्ति या सामर्थ्य, हाजमा।	পাচনশক্তি, হজমশক্তি	पाचनशक्ति, हजमशक्ति	the digestive power.
पाजामा (पायजामा, पैजामा)	पु.	एक तरह का सिला हुआ वस्त्र जो कमर से एड़ी तक का भाग ढकने के लिए पहना जाता है और जो ऊपरी भाग के नेफे में नाला डालकर पहना जाता है।	পাজামা, পায়জামা, ঢিলা ট্রাউজারবিশেষ	पाजामा, पायजामा, ढिला ट्राउजारविशेष	pyjamas.
पाजी	वि.	दुष्ट, बदमाश, लुच्चा।	পাজী, দুষ্ট	पाजी, दुष्ट	mean, wicked.
पाजीपन	पु.	दुष्टता, बदमाशी।	দুষ্টতা,বদমায়েশি, পেজোমি	दुष्टता, बदमायेशि, पेजोमि	meanness, wickedness.
पाजेब	स्त्री.	पैरों में पहनने का स्त्रियों का एक प्रसिद्ध गहना।	নূপুর	नुपुर	anklet.
पाट	पु.	1. विस्तार, फैलाव, चौड़ाई; 2. चक्की के दोनों पल्लों में से हर एक; 3. किसी प्रकार का तख्ता, पटिया या शिला।	বিস্তার, চওড়াই, পাটা; জাঁতার প্রত্যেক পাট; পাটা	बिस्तार, चओड़ाइ पाटा; जांतार प्रत्येक पाट; पाटा	width, breadth; grindstone (one circular panel only); slab, plank.
पाटना	स.	1. किसी गड्ढे या नीची भूमि को भर कर आसपास की जमीन के बराबर कर देना, भर देना;	কোনো গর্ত বা নীচু জমি ভরাট করা;	कोनो गर्त बा नीचु जमि भराट करा;	to cover with earth, etc.;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. कमरे के संबंध में उसकी चारों ओर की दीवारों के ऊपरी भाग के खुले अवकाश को बंद करने के लिए उस पर छत या पाटन बनाना;	ছাদ, বানানো;	छाद, बानानो;	to roof;
		3. ढकना;	ঢাকা;	ढाका;	to cover ;
		4. किसी वस्तु की भरमार कर देना, ढेर लगा देना।	কোনো বস্তুর ঢেরি করা, গাদা করা	कोनो बस्तुर ढेरि करा, गादा करा	to stock, heap.
पाटा	पु.	1. बैठने का काठ का पीढ़ा;	পাটা, পিঁড়ি;	पाटा, पिंड़ि;	plank seat;
		2. वह आयताकार लकड़ी जिसकी सहायता से जोते हुए खेत की मिट्टी के ढेले तोड़कर उसे समतल करते हैं;	চষা জমি সমান করার জন্য পাটাবিশেষ মই;	चषा जमि समान करार जन्य पाट्याबिशेष मइ;	rectangular plank for levelling the ploughed fields;
		3. लकड़ी का वह छोटा टुकड़ा जिसकी सहायता से राज लोग दीवारों का पलस्तर समतल करते हैं;	রাজমিস্ত্রির পলস্তারা ঘষার কাষ্ঠফলক;	राजमिस्त्रिर पलस्तारा घषार काष्ठफलक;	small plank used by the mason for levelling the plaster;
		4. दो दीवारों के बीच में ताला, पटिया आदि लगाकर बनाया हुआ आधार स्थान।	দুই দেওয়ালের মাঝখানে পাথর ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত তাক	दुइ देओयालेर माझखाने पाथर इत्यादि द्वारा प्रस्तुत ताक	basement made with the help of planks on both sides of the walls.
पाटी	स्त्री.	1. खाट के ढांचे के दाहिने बाएं लगाई जानेवाली लकड़ियां;	খাটিয়ার দুই লম্বা কাষ্ঠখন্ড, বাজু;	खाटियार दुइ लम्बा काष्ठखन्ड, बाजु;	side pieces of a bedstead;
		2. लकड़ी का वह लंबोतरा टुकड़ा जिस पर बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है, तख्ती;	যে কাষ্ঠফলকের উপর শিশুরা হাতের লেখা অভ্যাস করে	जे काष्ठफलकेर उपर शिशुरा हातेर लेखा अभ्यास करे	a kind of wooden board on which children learn to write;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. मांग के दोनों ओर गोंद, जल तेल आदि की सहायता से कंघी द्वारा बैठाये हुए बाल जो देखने में पटरी की तरह बराबर मालूम हों, पट्टी, पटिया;	মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া চুল দুইধারে পাট করিয়া রাখা;	माथार माझखाने सिंथि काटिया चुल दुइधारे पाट करिया राखा;	parting of the hair in the middle of the head;
		4. चटाई।	চেটাই, মাদুর	चेटाइ, मादुर	mat.
पाठ	पु.	1. पढ़ने की क्रिया या भाव;	পাঠ, পঠন, পড়া;	पाठ, पठन, पड़ा;	reading;
		2. नियमपूर्वक अथवा श्रद्धाभक्ति से पुण्यफल प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई धर्मग्रन्थ पढ़ने की क्रिया या भाव;	পুণ্যফল প্রত্যাশায় নিয়ম ক্রমে কিংবা সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্মগ্রন্থ পাঠ;	पुन्यफल प्रत्याशाय नियम क्रमे किंबा सश्रद्धचित्ते धर्मग्रन्थ पाठ;	religious text;
		3. किसी विषय का उतना अंश जितना एक बार में पढ़ाया जाए, सबक;	এক কাঠের পাঠ্যাংশ;	एक काठेर पाठ्यांश;	lesson;
		4. पाठ्य-पुस्तक का वह अंश जो किसी एक विषय से सम्बन्धित हो;	পাঠ্যপুস্তকের কোন বিশেষ বিষয়সম্পর্কিত অংশ;	पाठ्यपुस्तकेर कोन बिशेष बिषयसम्पर्कित अंश;	text;
		5. वाक्य, पद्य आदि का लिखित रूप।	বাক্য পদ্য আদির লিখিত রূপ	बाक्य, पद्य आदिर लिखित रूप	the original writing of oral learning.
पाठक	पु.	पढ़ने या पढ़ानेवाला।	পাঠক, পাঠকারী	पाठक, पाठकारी	reader, teacher.
पाठभेद	पु.	वह भेद या अंतर जो एक ही ग्रंथ की दो प्रतियों के पाठ में कहीं-कहीं मिलता है।	পাঠভেদ, পাঠান্তর, লিখিত অংশের ভিন্ন রূপ	पाठभेद, पाठान्तर, लिखित अंशेर भिन्न रूप	varying version in the different scripts of works ascribed to the same author.
पाठशाला	स्त्री.	वह स्थान जहां विद्यार्थियों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है।	বিদ্যালয়	बिद्यालय	school.
पाठांतर	पु.	एक ही पुस्तक की विभिन्न हस्तलिखित या संपादित प्रतियों में शब्दों अथवा उनके वर्णों के क्रम में होनेवाला भेद।	পাঠান্তর, পুথি অথবা মুদ্রিত গ্রন্থে প্রাপ্তব্য পাঠভেদ	पाठान्तर, पुथि अथबा मुद्रित ग्रन्थे प्राप्तब्य पाठभेद	a variation in the text of a book or manuscript.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाठ्य	वि.	पढ़ने या पढ़ाने योग्य।	পাঠ্য, পাঠ অথবা পাঠনযোগ্য	पाठ्य, पाठ अथबा पाठनजोग्य	readable, worth reading.
पाठ्यक्रम	पुं.	वे सब विषय तथा उनकी पुस्तकें जो किसी विशिष्ट परीक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हों।	পাঠ্যক্রম, বিশিষ্ট পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী	पाठ्यक्रम, बिशिष्ट परीक्षार जन्य निर्दिष्ट पाठ्यसूची	syllabus, course of study.
पाठ्यचर्या	स्त्री.	वह पुस्तिका जिसमें किसी विश्वविद्यालय अथवा स्कूल आदि की विभिन्न परीक्षाओं के लिए निर्धारित विषयों तथा तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रमों का उल्लेख होता है।	কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয় ও তৎসম্পর্কিত পাঠ্যক্রম নির্দেশক পুস্তিকা	कोनो शिक्षा प्रतिष्ठानेर बिभिन्न परीक्षार जन्य निर्धारित बिषय ओ तत्सम्पर्कित पाठ्यक्रम निर्देशक पुस्तिका	course of study, curriculum.
पाठ्यपुस्तक	पुं.	किसी संस्था या परीक्षा समिति की ओर से किसी कक्षा के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित पुस्तक।	পাঠ্যপুস্তক, পঠনীয় পুস্তক	पाठ्यपुस्तक, पठनीय पुस्तक	text book.
पाठ्यविवरण	पुं.	पाठ्यक्रम का संक्षिप्त रूप।	পাঠ্যসূচী	पाठ्यसूची	syllabus.
पाड़	पुं.	1. धोती, साड़ी आदि का किनारा;	পাড়, পরিধেয় বস্ত্র আদির প্রাঁত;	पाड़, परिधेय बस्त्र आदिर प्रांत;	border of cloth (dhoti, sari, etc.);
		2. मचान;	মাচান;	माचान;	scaffold;
		3. इमारत आदि बनाने के लिए खड़ा किया जानेवाला लकड़ियों का ढांचा;	ভারা;	भारा;	builder's staging;
		4. वह तख्ता जिस पर अपराधी को फांसी देने के समय खड़ा करते हैं।	ফাঁসি দিবার সময় যে তক্তার উপরে দাঁড় করান হয়	फांसि दिबार समय जे तक्तार उपरे दांड़ करान हय	scaffolding platform.
पाड़ा	पुं.	1. भैंस का बच्चा;	মহিষের বাছুর;	महिषेर बाछुर;	male buffalo-calf;
		2. टोला, मुहल्ला (पारा)।	পাড়া, পল্লী, মহল্লা	पाड़ा, पल्ली, महल्ला	a part or locality of a city or town.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाणिग्रहण	पु.	विवाह।	পাণিগ্রহণ	पानिग्रहन	marriage.
पातक	पु.	पाप, ऐसा पाप जिसका फल भोगने नरक में जाना पड़ता हो।	পাতক, পাপ	पातक, पाप	sin.
पातकी	पुं.	बहुत बड़ा पापी।	পাতকী, পাপী	पातकी, पापी	a sinner.
पाताल	पु.	1. पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से सबसे नीचे का लोक;	পাতাল, নিম্নতম ভুবন;	पाताल, निम्नतम भुबन;	nether region of world;
		2. बहुत अधिक गहरा और नीचा स्थान।	পৃথিবীর অধো-দেশস্থ স্থান, ভূগর্ভ	पृथिबीर अधो-देशस्थ स्थान, भूगर्भ	the lower region.
पातिव्रत (पातिव्रत्य)	पु.	पतिव्रता होने की अवस्था, गुण और भाव, पति के प्रति होनेवाली पूर्ण निष्ठा की भावना।	পাতিব্রত্য, পতিব্রতাধর্ম, পতিপরায়ণতা	पातिब्रत्य, पतिब्रताधर्म, पतिपरायनता	fidelity to a husband.
पात्र	पु.	1. वह आधान जिसमें कुछ खाया-पिया जा सके;	পাত্র, আধার, ভান্ড;	पात्र, आधार, भान्ड;	utensil, container;
		2. कोई वस्तु पाने का अधिकारी व्यक्ति;	যোগ্য ব্যক্তি;	जोग्य ब्यक्ति;	eligible or worthy (person);
		3. उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक आदि में वे व्यक्ति जो कथावस्तु की घटनाओं के घटक होते हैं तथा जिनके क्रिया-कलाप में कथावस्तु की सृष्टि और उसका परिपाक होता है।	কথাসাহিত্য-নাটকাদিতে বর্ণিত চরিত্র	कथासाहित्य-नाटकादिते बर्नित चरित्र	character (in a play etc.).
पात्रता	स्त्री.	पात्र होने की अवस्था, गुण या भाव, योग्यता।	পাত্রতা, যোগ্যতা	पात्रता, जोग्यता	state of deserving, eligibility.
पाथना	स. क्रि.	गीली मिट्टी, गोबर आदि को हाथों से थपथपाते हुए अथवा सांचों में डालकर छोटे-छोटे पिंड बनाना।	ঘুঁটে দেওয়া	घुंटे देओया	to make cow-dung into cakes for fuel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाथेय	पु.	वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राह में खाने के लिए अपने साथ ले जाता है, रास्ते का भोजन।	পথে আহারোপযোগী দ্রব্য	पथे आहारोपजोगी द्रव्य	provisions for a journey.
पाद	पु.	1. चरण, पैर, पांव;	পাদ, চরণ, পা;	पाद, चरन, पा;	foot or leg;
		2. किसी वस्तु का चौथाई भाग;	চতুর্থাংশ, সিকিভাগ;	चतुर्थांश, सिकिभाग;	a quarter, a fourth part;
		3. छंद, श्लोक आदि का चौथा भाग।	শ্লোকের চতুর্থাংশ	श्लोकेर चतुर्थांश	a verse or line.
पाद-टिप्पणी	स्त्री.	किसी ग्रन्थ के पृष्ठ के निचले भाग में सूचना, निर्देश आदि के लिए दी गई टिप्पणी।	পাদটীকা	पादटीका	foot note.
पादरी	पु.	ईसाइयों का धर्मगुरु या पुरोहित।	পাদরী, খ্রীষ্টান ধর্মযাজক	पादरी, ख्रीष्टान धर्मजाजक	padri, christian missionary.
पादुका	स्त्री.	1. खड़ाऊँ;	পাদুকা, খড়ম;	पादुका, खड़म;	a wooden shoe (sandal);
		2. पैरों में पहनने का कोई उपकरण।	পাদত্রাণ, জুতা	पादत्रान, जुता	a shoe.
पान	पु.	1. तरल पदार्थ को पीने की क्रिया या भाव;	পান, তরলপদার্থ গলাধঃকরণ;	पान, तरलपदार्थ गलाधःकरन;	drinking;
		2. मद्य या शराब पीना;	মদ্যপান;	मद्यपान;	drinking spiritous liquors;
		3. पीने का कोई तरल पदार्थ ;	পানীয়, পেয় দ্রব্যমাত্র;	पानीय, पेय द्रव्यमात्र;	a drink, beverage;
		4. एक लता जिसके पत्ते सुपारी कत्था आदि के साथ मुख शुद्धि के लिए खाए जाते हैं ;	তাম্বুললতা;	ताम्बुललता;	betel-leaf;
		5. इस लता का पत्ता;	তাম্বুল,	ताम्बुल;	leaf of betel plant;
		6. इस आकार की कोई रचना।	পানের আকারের কোনো জিনিস	पानेर आकारेर कोनो जिनिस	any construction resembling a leaf.
पानगोष्ठी	स्त्री.	मद्यपान के लिए आयोजित गोष्ठी।	মদ্যপানচক্র	मद्यपानचक्र	cocktail party.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पानदान	पु.	पान के पत्ते और उसका मसाला रखने का डिब्बा, पान के बीड़े रखने का डिब्बा।	পানদান পানের ডিবা	पानदान पानेर डिबा	betel-leaf receptacle.
पाना	स.	1. कोई वस्तु प्राप्त करना, हासिल करना;	পাওয়া, আদায় করা;	पाओया, आदाय करा;	to get, to acquire;
		2. फल या परिणाम के रूप में कुछ प्राप्त करना;	ফল লাভ করা;	फल लाभ करा;	to obtain;
		3. ऐसी स्थिति में होना कि किसी के द्वारा भेजी हुई वस्तु अपने तक पहुंच या मिल जाए;	অপরের প্রেরিত কোনো কিছু পাওয়া;	अपरेर प्रेरित कोनो किछु पाओया;	to receive;
		4. ज्ञान आदि की मानसिक उपलब्धि करना, जान लेना, समझ जाना;	জ্ঞানাদির উপলব্ধি করা, সম্যক জানা;	ज्ञानादिर उपलब्धि करा, सम्यक जाना;	to attain;
		5. अचानक पहुंचने पर किसी को किसी विशिष्ट स्थिति में देखना।	কাহাকেও কোনো বিশেষ অবস্থায় পাওয়া	काहाके ओ कोनो बिशेष अवस्थाय पाओया	to pick up.
पानी	पु.	1. वह निर्गन्ध, पारदर्शी और वर्णहीन तरल अथवा द्रव पदार्थ जो झील, नदियों आदि में भरा रहता है;	পানি, জল;	पानि, जल;	water;
		2. उक्त तत्व का कोई ऐसा रूप जो किसी दूसरे पदार्थ में से अपने आप या उबालने आदि पर निकला हो और उस पदार्थ के अंश से युक्त हो;	কোনো বস্তু থেকে নিষ্কাশিত জলীয় অংশ;	कोनो बस्तु थेके निष्कासित जलीय अंश;	liquid substance;
		3. मान, प्रतिष्ठा, इज्जत;	মান, সম্মান;	मान, सम्मान;	honour, self-respect;
		4. आब, कांति , चमक;	আভা, ইজ্জৎ ঔজ্জ্বল্য	आभा, इज्जत, औज्ज्वल्य;	lustre, sparkle, polish, brightness;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		5. तलवार आदि शस्त्रों की धार का वह काला हलका रंग जिससे उनकी अच्छाई जानी जाती है।	তালোয়ার আদি ধারালো অস্ত্রের হালকা রঙ	तालोयार आदि धारालो अस्त्रेर हालका रङ्	edge of the sword etc.
पानीदार	वि.	1. कांतिमान, आबदार; 2. स्वाभिमानी, मान-प्रतिष्ठा आदि पर आंच न आने देनेवाला।	কান্তিমান; মানী	कान्तिमान; मानी	lustrous; respectable, honourable.
पानीदेवा	पु.	तर्पण करनेवाला, पुत्रादि।	তর্পণকারী, পুত্রাদি	तर्पनकारी, पुत्रादि	one whose duty is to offer libation of water to a deceased person.
पाप	पु.	1. धर्म और नीति के विरुद्ध किया जानेवाला ऐसा निंदनीय आचरण अथवा कृत्य जो बुरा माना जाता हो और जिसके फलस्वरूप मनुष्य को नरक भोगना पड़ता हो;	পাপ, পাতক;	पाप, पातक;	sin, vice;
		2. अपराध, जुर्म, कसूर; 3. कोई ऐसा काम या बात जिससे मनुष्य को बहुत कष्ट उठाना पड़े।	অপরাধ, দুষ্কৃত; অনিষ্ট, অশুভ	अपराध, दुष्कृत; अनिष्ट, अशुभ	guilt, crime; evil.
पाप-कर्म	पु.	ऐसा कर्म जिसे करने में पाप लगे, धर्मविरुद्ध कर्म।	পাপকর্ম, ধর্মবিরুদ্ধ কার্য	पापकर्म, धर्मबिरुद्ध कार्ज	sin, sinful deed.
पापड़	पु.	उड़द या मूंग आदि के आटे से तैयार की जाने वाली एक प्रकार की पतली मसालेदार चपाती जिसे तलकर या भून कर खाते हैं।	পাঁপড়, পাঁপর	पांपड़, पांपर	salted thin crisp cake made of ground pulses.
	वि.	पापड़ की तरह पतला सूखा और भुरभुरा।	পাঁপড়ের মতো পাতলা মচমচে	पांपड़ेर मतो पातला मचमचे	thin (like crisp cake made of ground pulses).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पापाचार	पु.	पापपूर्ण आचरण।	পাপাচার, পাপকর্ম	पापाचार, पापकर्म	following evil or sinful courses, sinful conduct.
पापात्मा	पुं.	जिसका मन सदा पापकर्मों की ओर रहता हो।	পাপাত্মা, পাপাশয়	पापात्मा, पापाशय	sinner.
पापी	वि.	1. पाप करनेवाला; 2. निर्दय, क्रूर, निष्ठुर।	পাপী, পাপকারী; নির্দয়, ক্রূর	पापी, पापकारी; निर्दय, क्रूर	sinner; wicked, cruel.
पाबंद	वि.	1. किसी प्रकार के बन्धन में पड़ा हुआ;	বন্ধনযুক্ত, বদ্ধ;	बन्धनजुक्त, बद्ध;	tied, fettered;
		2. पूर्णरूप से किसी नियम, वचन, सिद्धान्त आदि का ठीक समय पर पालन करनेवाला;	কোনো নিয়ম সিদ্ধান্তাদির যে যথাযথ অনুসরণ করে;	कोनो नियम सिद्धान्तादिर जे जथाजथ अनुसरन करे;	bound, habitual to, accustomed to;
		3. जो उक्त के आधार पर कोई काम करने के लिए बाध्य या विवश हो।	আইনতঃবাধ্য	आइनतःबाध्य	restrained.
पाबंदी	स्त्री.	पाबंद होने की अवस्था, क्रिया या भाव।	বন্ধন, বদ্ধতা	बन्धन, बद्धता	restriction, control, ban.
पामर	वि.	1. नीच, दुष्ट, अधम, पापी;	পামর, নীচ, নরাধম, পাপী;	पामर, नीच, नराधम, पापी;	low, wicked;
		2. मूर्ख।	মূর্খ	मूर्ख	fool, idiot.
पायँचा	पु.	पायजामे का पैर।	পায়জামার পা	पायजामार पा	leg of a pair of trousers or drawers
पायँता (पायँती)	पु. स्त्री.	1. पलंग या चारपाई का वह भाग जिस पर पैर रहते हैं;	পালঙ্ক বা চারপায়ার পায়ের দিক্;	पालङ्क बा चारपायार पायेर दिक्;	the lower part of a bedstead;
		2. वह दिशा जिधर सोने वाले के पैर हों।	শয়নকারীর পা যেদিকে থাকে সেই দিক্	शयनकारीर पा जेदिके थाके सेइ दिक्	foot or bottom of a bed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पायदान (पावदान)	पु.	1. गाड़ी में वह अंग या स्थान जिस पर पैर रखकर उसमें सवार होते हैं ;	পাদান, পাদানি;	पादान, पादानि;	foot-board;
		2. जटा, मूँज, तार आदि का वह चौकोर टुकड़ा जो कमरों के दरवाजे के पास पैर पोंछने के लिए रखा जाता है।	পাপোশ	पापोश	door-mat.
पायल	स्त्री.	पैर में पहनने का एक गहना।	পায়ের অলঙকার-বিশেষ, নূপুর	पायेर अलङ्कार-बिशेष, नूपुर	anklet, ankle ornament.
पाया	पु.	1. पलंग, कुरसी चौकी आदि का पैर;	পায়া;	पाया;	leg of a piece of furniture;
		2. खंभा, स्तम्भ।	থাম, স্তম্ভ	थाम, स्तम्भ	pillar.
पारंगत	वि.	जिसने किसी विद्या या शास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।	পারংগম, অভিজ্ঞ, নিপুণ	पारङ्गम, अभिज्ञ, निपुन	adept, expert.
पार	पु.	1. नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का किनारा;	পার, নদী ইত্যাদির অপর তীর;	पार, नदी इत्यादिर अपर तीर;	(opposite) bank, shore etc.;
		2. दूर तक फैली हुई वस्तु के दो किनारों में से कोई एक;	প্রান্তভাগ;	प्रान्तभाग;	end (of something);
		3. किसी तल या पृष्ठ के किसी बिन्दु के विचार से उसके विपरीत तल या पृष्ठ का कोई बिन्दु या स्थान।	সীমা	सीमा	limit, side.
पारगमन	पुं.	एक स्थान या स्थिति से दूसरे स्थान या स्थिति में जाने की क्रिया, भाव या स्थिति।	পারগমন, উত্তীর্ণ হওয়া	पारगमन, उत्तीर्न हओया	transmission, going across.
पारण	पुं.	1. किसी व्रत या उपवास के बाद का पहला भोजन,	পারণ, উপবাসের প্রথম ভোজন;	पारन, उपबासेर प्रथम भोजन;	eating and drinking after a fast;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आजकल किसी प्रस्तावित विधान अथवा विधेयक के सम्बन्ध में उसे विचार पूर्वक निश्चित और स्वीकृत करने की क्रिया या भाव।	কোনো প্রস্তাবিত আইন যথারীতি বিচার-বিবেচনার পর গ্রহণ করা	कोनो प्रस्तावित आइन जथारीति बिचार-बिवेचनार पर ग्रहन करा	passing (of a bill etc.).
पारद	पु.	पारा।	পারদ, পারা	पारद, पारा	mercury.
पारदर्शक	वि.	प्रकाश की किरणें जिसे पार करके दूसरी ओर जा सकती हों और इसीलिए जिसके इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हों।	স্বচ্ছ	स्वच्छ	transparent.
पारदर्शी	वि.	1.दूरदर्शी; 2. पारदर्शक।	পারদর্শী; স্বচ্ছ	पारदर्शी; स्वच्छ	far-sighted; transparent, transparency.
पारपत्र	पु.	वह राजकीय अधिकारपत्र जो किसी राज्य की प्रजा को विदेश यात्रा के समय प्राप्त करना पड़ता है और जिसे दिखाकर उसमें उल्लिखित देशों में भ्रमण कर सकते हैं।	ছাড়পত্র	छाड़पत्र	passport.
पारमार्थिक	वि.	1. परमार्थ सम्बन्धी, परमार्थ का;	পারমার্থিক, পরমার্থসম্বন্ধী;	पारमार्थिक, परमार्थसम्बन्धी;	relating to a high and spiritual object;
		2. परमार्थ का शुभ फल दिलानेवाला।	পারমার্থিক শুভ ফল দাতা	पारमार्थिक शुभ फल दाता	spiritual, charitable.
पारलौकिक	वि.	परलोक सम्बन्धी, परलोक का।	পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধী	पारलौकिक, पारलोकसम्बन्धी	relating to the next world.
	पु.	अंत्येष्टि क्रिया।	পারলৌকিক কার্য	पारलौकिक कार्ज	funeral.
पारस	पु.	1. एक कल्पित पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है;	পরশ পাথর স্পর্শমণি;	परश पाथर स्पर्शमनि;	philosopher's stone, touch-stone;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पारस के समान उत्तम और लाभदायक पदार्थ।	স্পর্শমণির মতো লাভজনক বস্তু	स्पर्शमनिर मतो लाभजनक बस्तु	excellent like paras.
पारस्परिक	वि.	आपस का, आपसी।	পারস্পরিক	पारस्परिक	mutual.
पारा	पु.	एक प्रसिद्ध चमकीली, सफेद और भारी धातु।	পারা, পারদ	पारा, पारद	mercury.
पारायण	पु.	1. नियमित रूप से किसी धार्मिक ग्रंथ का किया जानेवाला पाठ;	অবিচ্ছেদে কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ;	अविच्छेदे कोनो धर्मग्रन्थ पाठ;	the act of reading religious book;
		2. किसी ग्रंथ का आद्यंत पाठ।	কোনো গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ	कोनो ग्रन्थेर आद्यन्त पाठ	reading a book from beginning to end.
पारावार	पु.	1. समुद्र; 2. दोनों किनारे, ओर-छोर।	পারাবার, সমুদ্র; তটদ্বয়, একূল-ওকূল	पारावार, समुद्र; तटद्वय, एकुल-ओकुल	the sea, ocean; the two banks.
पारित	वि.	जिसका पारण हुआ हो, (प्रस्ताव या विधेयक) जो विधिपूर्वक किसी संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया हो।	যে প্রস্তাব বা আইন যথারীতি গৃহীত হইয়াছে/স্বীকৃত হইয়াছে	जे प्रस्ताव बा आइन जथारीति गृहीत हइयाछे/स्वीकृत हइयाछे	passed.
पारितोषिक	पु.	1. वह धन जो किसी को देकर परितुष्ट किया जाता है;	পারিতোষিক, বকশিশ;	पारितोषिक, बकशिश;	reward (in terms of money);
		2. वह वस्तु या धन जो प्रतियोगिता आदि में विजयी होने पर अथवा विशेष योग्यता दिखाने पर उत्साह बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पुरस्कार, इनाम।	পুরস্কার	पुरस्कार	reward, prize.
पारिभाषिक	वि.	1. परिभाषा-सम्बन्धी;	পারিভাষিক, পরিভাষাসম্বন্ধী;	पारिभाषिक, परिभाषासम्बन्धी;	pertaining to definition;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (शब्द) जो किसी शास्त्र या विषय में अपना साधारण से भिन्न कोई अर्थ रखता हो।	(শব্দ) যা কোনো শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ অর্থ যোজনা করে	(शब्द) जा कोनो शास्त्र सम्पर्के बिशेष अर्थ जोजना करे	technical.
पारिश्रमिक	पुं.	किए गए परिश्रम के बदले में मिलनेवाला धन, मजूरी, मेहनताना।	পারিশ্রমিক, পরিশ্রমের মূল্য মজুরি	पारिश्रमिक, परिश्रमेर मूल्य मजुरि	remuneration.
पारी	स्त्री.	1. क्रमानुसार आने या मिलनेवाला अवसर, बारी;	পালা, পালি;	पाला, पालि;	turn, shift;
		2. गेंद-बल्ले के खेल में प्रत्येक दल को बल्लेबाजी करने के लिए मिलनेवाला अवसर।	ক্রিকেট খেলায় এক দলের ব্যাট্ করার পালা	क्रिकेट खेलाय एक दलेर ब्याट् करार पाला	innings.
पार्थक्य	पुं.	1. पृथक् होने की अवस्था या भाव;	পার্থক্য, পৃথকত্ব;	पार्थक्य, पृथकत्व;	the act of separation;
		2. भेद, अन्तर;	ভেদ, তফাত;	भेद, तफात;	difference;
		3. जुदाई, बिलगाव।	বিচ্ছেদ	बिच्छेद	separation.
पार्थिव	वि.	1. पृथ्वी सम्बन्धी;	পার্থিব;	पार्थिब;	relating to earth;
		2. पृथ्वी में उत्पन्न;	পৃথিবীজাত;	पृथिबीजात;	springing or derived from the earth;
		3. पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुओं का बना हुआ;	পৃথিবীজাত দ্রব্য প্রস্তুত, মৃন্ময়;	पृथिबीजात द्रब्य प्रस्तुत मृन्मय;	earthen, earthly;
		4. पृथ्वी पर शासन करने वाला;	রাজা;	राजा;	lord of the earth, king;
		5. राजकीय।	রাজকীয়	राजकीय	royal, princely.
पार्श्व	पुं.	1. छाती के दाएं बाएं का भाग, बगल;	বগল;	बगल;	armpit;
		2. अगल-बगल की जगह।	পাশ, সন্নিহিত স্থান	पाश, सन्निहित स्थान	side, part of the body below the arm-pit.
पार्श्वगायक	पुं.	गान-विद्या में अपटु अभिनेता के बदले	নেপথ্যগায়ক	नेपथ्यगायक	playback singer,

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
(पार्श्वगायिका स्त्री.)		नेपथ्य से गायन करनेवाला व्यक्ति।			back-stage singer.
पार्श्ववर्ती	वि.	1. किसी के पास या साथ रहनेवाला;	পার্শ্ববর্তী, পার্শ্বচর;	पाश्र्वबती, पाश्र्वचर;	standing by the side, an attendant;
		2. किसी के पार्श्व में आसपास या इधर-उधर होने या रहनेवाला।	পার্শ্বে অবস্থিত, সন্নিকৃষ্ট	पाश्र्वे अबस्थित, सन्निकृष्ट	adjacent.
पार्षद	पु.	1. सभासद;	পার্ষদ, সভাসদ্‌;	पार्षद, सभासद्;	a member of an assembly;
		2. किसी देवता का अनुचर।	দেবতার অনুচর	देबतार अनुचर	retinue (of a god).
पार्सल (पारसल)	पु.	डाक या रेल द्वारा किसी के पास भेजी जानेवाली गठरी या पोटली।	পার্সেল	पार्सेल	parcel.
पाल	पु.	1. फलों को गरमी पहुँचाकर पकाने के लिए पत्तों आदि से ढककर रखने की विधि;	জাগ, পাতা ইত্যাদির চাপে ফল পাকাইবার প্রকরণ;	जाग, पाता इत्यादिर चापे फल पाकाइबार प्रकरन;	the process of ripening fruits by keeping them between layers of straw, leaves etc.;
		2. ऐसा स्थान जहां फल आदि रखकर उक्त प्रकार से पकाए जाते हैं;	জাগ দিয়া ফল পাকাইবার স্থান;	जाग दिया फल पाकाइबार स्थान;	the place where the fruits are kept for ripening;
		3. नाव के मस्तूल के सहारे ताना जानेवाला वह कपड़ा जिसमें हवा के भरने से नाव चलती है;	পাল, বাতাসের সাহায্যে নৌকাদি চালাইবার জন্য মাস্তলে বদ্ধ প্রসারিত বস্ত্র;	पाल, बातासेर साहाज्ये नौकादि चालाइबार जन्य मास्तले बद्ध प्रसारित बस्त्र;	sail;
		4. धूप आदि में बचाव के लिए टांगा जानेवाला कपड़ा आदि;	রোদ, আটকাইবার জন্য টাংগান কাপড়;	रोद, आटकाइबार जन्य टाङ्गान कापड़;	cloth hanged to avoid sun, etc.;
		5. खेमा, तम्बू शामियाना;	শমিয়ানা;	शमियाना;	tent;
		6. गाड़ी पालकी आदि को ऊपर से ढकने का कपड़ा।	গাড়ী, পালকী ইত্যাদি আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র	गाड़ी, पालकी इत्यादि आच्छादन करिबार बस्त्र	cover.
पालक	वि.	पालन करनेवाला।	পালক, রক্ষক	पालक, रक्षक	protector.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	1. एक प्रकार का प्रसिद्ध साग;	পালং শাক;	पालं शाक;	spinach;
		2. राजा;	রাজা;	राजा;	king;
		3. घोड़े का साईस।	অশ্বরক্ষক, সইস	अश्वरक्षक, सइस	horsekeeper.
पालकी	स्त्री.	एक तरह की सवारी जिसे आदमी कंधे पर ढोते हैं।	পালকী, পালকি, শিবিকা	पालकी, पालकि, शिबिका	palanquin.
पालतू	वि.	(पशु-पक्षियों के संबंध में) जो पकड़कर घर में रखा तथा पाला गया हो (जंगली से भिन्न)।	গৃহপালিত, পোষা	गृहपालित, पोषा	domesticated, tame, pet.
पालथी	स्त्री.	बैठने का एक आसन जिसमें दाहिने और बाएं पैरों के पजें क्रम से बायीं और दायीं जांघ के नीचे दबे रहते हैं।	সুখাসন	सुखासन	a cross-legged sitting posture.
पालन	पु.	1. भरण-पोषण, परवरिश;	পালন, ভরন-পোষণ;	पालन, भरन-पोषन;	upbringing;
		2. आज्ञा, कर्त्तव्य आदि का निर्वाह करना;	মান্যকরণ;	मान्यकरन;	maintaining, observing, keeping;
		3. रक्षा करना, रक्षण;	রক্ষণ;	रक्षन;	protecting;
		4. निभाना।	ব্যত্যয় বা অন্যথা হইতে না দেওয়া	ब्यत्यय बा अन्यथा हइते ना देओया	keeping (a vow etc.).
पालना	स. क्रि.	1. भरण-पोषण करना, परवरिश करना;	পালা, প্রতিপালন করা;	पाला, प्रतिपालन करा;	to bring up, to rear (n);
		2. आज्ञा आदि को निबाहना, उल्लंघन न करना;	মান্য করা, পালন করা;	मान्य करा, पालन करा;	to observe;
		3. पशुपक्षी आदि को आहार आदि देकर अपने यहां रखना।	পশুপক্ষীদিগকে পালন করা, পোষা	पशुपक्षीदिगके पालन करा, पोषा	to tame, to domesticate, to pet.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	एक तरह का छोटा झूला जिसमें बच्चों को झुलाया या सुलाया जाता है।	দোলনা	दोलना	cradle.crib.
पाला	पु.	1. हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण जो अधिक ठंड पड़ने पर सफेद तह के रूप में जमीन पर जम जाते हैं, हिम, तुषार;	হিম, তুষার;	हिम, तुषार;	frost;
		2. बहुत अधिक सर्दी ;	খুব বেশী শীত;	खुब बेशी शीत;	very cold;
		3. किसी प्रकार के व्यवहार का अवसर;	কোনো কাজ করার সুযোগ;	कोनो काज करार सुजोग;	opportunity (in dealing with);
		4. कबड्डी आदि खेलों में दो पक्षों को विभाजित करनेवाली सीमा जो प्रायः लकीर के रूप में होती है।	কপাটী ইত্যাদি খেলায় দুইপক্ষের মধ্যবর্তী সীমারেখা	कपाटी इत्यादि खेलाय दुइपक्षेर मध्यबर्ती सीमारेखा	line of demarcation (in Kabaddi etc.).
पाव	पु.	1. किसी पदार्थ का चौथाई भाग या अंश;	পোয়া, চতুর্থাংশ, সিকিভাগ;	पोया, चतुर्थांश सिकिभाग;	one-fourth;
		2. एके सेर का चौथा भाग, चार छटांक की एक तौल।	সেরের চতুর্থাংশ	सेरेर चतुर्थांश	one-fourth of a seer.
पावक	पु.	अग्नि, आग।	পাবক, অগ্নি	पाबक, अग्नि	fire.
पावती	स्त्री.	किसी वस्तु के पहुंचने की लिखित सूचना या प्राप्ति की स्वीकृति।	রসিদ	रसिद	receipt.
पावन	वि.	पवित्र, पवित्र करनेवाला।	পাবন, পবিত্রকারী	पाबन, पवित्रकारी	holy, sacred.
पावनता	स्त्री.	पावन होने की अवस्था या भाव।	পাবনতা, পবিত্রতা	पाबनता, पबित्रता	holiness.
पावना	पु.	वह रुपया या द्रव्य जो दूसरे से पाना हो।	পাওনা	पाओना	money due to be realised, dues.
पावस	पु.	वर्षाऋतु।	বর্ষাকাল	बर्षाकाल	rainy season.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पाश	पु.	1. वह चीज जिसमें किसी को फंसाया या बांधा जाए;	পাশ, বন্ধনরজ্জু	पाश, बन्धनरज्जु;	tie, bond, chain, fetter;
		2. पशु-पक्षियों को फंसाकर पकड़ने का जाल, फंदा।	ফাঁদ, ফাঁস, জাল	फांद, फांस, जाल	trap or net for catching birds and beasts.
पाशविक	वि.	पशुओं की तरह का।	পাশবিক, পশুবৎ	पाशबिक, पशुबत्	brutal, beastlike.
पाशविकता	स्त्री.	पशुता, बर्बरता।	পাশবিকতা, পশুত্ব, বর্বরতা	पाशबिकता, पशुत्व, बर्बरता	brutality, barbarianism, barbarousness.
पाश्चात्य	वि.	1. पश्चिम का, पश्चिमी;	পাশ্চাত্য, পশ্চিমদেশভব;	पाश्चात्य, पश्चिमदेशभब;	belonging to west, western;
		2. पीछे का, पिछला।	পশ্চাদবর্তী, পরবর্তী	पश्चादबर्ती, परबर्ती	hinder, posterior, later.
पाषाण	पु.	पत्थर, शिला।	পাষাণ, পাথর	पाषान, पाथर	stone.
पाषाण-हृदय	वि.	जिसका हृदय बड़ा कठोर हो।	পাষাণহৃদয়, কঠিনহৃদয়	पाषानहृदय, कठिनहृदय	stone-hearted, hard-hearted.
पासंग	पु.	1. तराजू के दोनों खाली पलड़ों का सूक्ष्म अन्तर;	তুলাদন্ডের ফের;	तुलादन्डेर फेर;	counter - weight;
		2. दोनों पलड़ों को बराबर करने के लिए हलके पलड़े की ओर रखी जानेवाली वस्तु।	তুলাদন্ডের ফের ভাংগিবার জন্য হালকা পাথর ইত্যাদি	तुलादन्डेर फेर भाङ्गिबार जन्य हालका पाथर इत्यादि	something placed on one pan of a scale to counter-balance the other.
पास	क्रि. वि.	1. समीप, नजदीक;	পাশ, নিকট;	पाश, निकट;	near, nearby;
		2. अधिकार में, कब्जे में	অধিকারে, দখলে	अधिकारे, दखले	at hand.
पासा (पांसा)	पु.	1. चौसर आदि के खेल में फेंका जानेवाला हाथी दांत आदि का टुकड़ा जिस पर एक से छः तक बिंदियां अंकित होती हैं;	পাশা, অক্ষ;	पाशा, अक्ष;	dice;
		2. पासों से खेला जानेवाला खेल;	অক্ষক্রীড়া, পাশাখেলা;	अक्षक्रीड़ा, पाशाखेला;	game in which dice is thrown.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. उक्त आकार का सोने या चांदी का टुकड़ा।	পাশার আকারের সোনা বা রূপার খন্ড	पाशार आकारेर सोना बा रूपार खन्ड	lump or cube of anything (as metal).
पाहुना	पु.	1. मेहमान, अतिथि;	অতিথি;	अतिथि;	guest;
		2. जामाता।	জামাতা	जामाता	son-in-law.
पिंजरा (पिंजड़ा)	पु.	धातु,बांस आदि की तीलियों का बना हुआ एक प्रकार का बक्सा जिसमें पशु-पक्षी आदि बंद करके रखे जाते हैं।	পিঞ্জর, খাঁচা	पिंजर, खांचा	cage.
पिंड	पु.	1. किसी द्रव्य का ठोस गोला;	পিন্ড, ঢেলা;	पिन्ड, डेला;	clod, lump;
		2. जौ के आटे, भात आदि का बनाया हुआ गोला जो श्राद्ध में पितरों के लिए समर्पित किया जाता है;	পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ঢেলা;	पितृगनेर उद्देश्ये प्रदत्त अन्नेर डेला;	ball of rice or flour offered to the pitras or deceased ancestors;
		3. शरीर, देह।	শরীর, দেহ	शरीर, देह	the body.
पिंडज	पु.	प्राणी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाला जीव, जरायुज।	পিন্ডজাত, জরায়ুজ	पिन्डजात, जरायुज	any creature born of or with a body, viviparous.
पिंडदान	पु.	कर्मकाण्ड के अनुसार पितरों को पिंड देने का कर्म जो श्राद्ध में किया जाता है।	পিন্ডদান, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উদ্দেশ্য পিন্ড উৎসর্গ করার অনুষ্ঠানবিশেষ	पिन्डदान, हिन्दु शास्त्रानुसारे उद्देश्य पिन्ड उत्सर्ग करार अनुष्ठानबिशेष	the offering of sraddha oblation on the evening of of new moon.
पिंडली	स्त्री.	टांग का पिछली ओर का मांसल भाग।	পিন্ডিকা, পায়ের ডিম	पिन्डिका, पायेर डिम	calf of the leg.
पिघलना	अ. क्रि.	1. गर्मी पाकर किसी ठोस पदार्थ का तरल होना;	গরমে জিনিষ গলিয়া যাওয়া;	गरमे जिनिष गलिया जाओया;	to melt;
		2. दया से आर्द्र होना।	দয়ার্দ্র হওয়া	दयार्द्र हओया	to show pity.
पिचकना	अ. क्रि.	उभरे या फूले हुए अंग का भीतर की ओर दबना, उभार कम होना।	শরীরের ফোলা স্থানের ফোলা বসিয়া যাওয়া	शरीरेर फोला स्थानेर फोला बसिया जाओया	to shrivel, to be squeezed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पिचकाना	स. क्रि.	उभरे या फूले हुए अंग को भीतर की ओर दबाना, पिचकने में प्रवृत्त करना।	ফোলা স্থানে চাপ দেওয়া, চাপ দিয়া বসাইয়া দেওয়া	फोला स्थाने चाप देओया, चाप दिया बसाइया देओया	to press together, to cause to sink or go down, to reduce a swelling.
पिचकारी	स्त्री.	नली के आकार का एक उपकरण जिसके मुंह पर एक या अनेक छेद होते हैं जिनके मार्ग से नली में भरा हुआ तरल पदार्थ दबाव से दूर तक फेंका जाता है।	পিচকারী, জলাদি তরল দ্রব্য বেগে নিঃসারিত করার যন্ত্র-বিশেষ, সিরিঞ্জ	पिचकारी, जलादि तरल द्रव्य बेगे निःसारित करार जन्त्र-विशेष सिरिंज	syringe.
पिचपिचाना	अ. क्रि.	किसी छेद में तरल पदार्थ का पिचपिच शब्द करते हुए रिसना या निकलना।	প্যাচ প্যাচ করা, পেঁচ পেঁচ করা	प्याच प्याच करा, पेंच पेंच करा	to sweat, moist or wet.
पिच्छल (पिच्छिल)	वि.	फिसलनेवाला, चिकना।	পিছিল, পিছল, হড়হড়ে	पिछिल, पिछल, हड़हड़े	slippery, lubricious.
पिछड़ना	अ. क्रि.	प्रतियोगिता आदि में पीछे रह जाना।	পিছাইয়া পড়া	पिछाइया पड़ा	to lag, to lag behind.
पिछलगा	वि.	1. दीनभाव से किसी के पीछे-पीछे लगा रहनेवाला;	অনুবর্তী, অনুগামী;	अनुबर्ती, अनुगामी;	follower;
		2. शक्ति, सामर्थ्य आदि के अभाव में, स्वतंत्र न रह सकने के कारण किसी का अनुगमन या अनुसरण करनेवाला;	অনুচর, অনুসরণকারী, লেজুড়, পিছোড়া;	अनुचर, अनुसरनकारी, लेजुड़, पिछोड़ा;	hanger-on;
		3. आश्रित।	আশ্রিত	आश्रित	dependent.
पिछलग्गू	वि.	पिछलगा।	অনুবর্তী, অনুগামী	अनुबर्ती, अनुगामी	follower, dependent, lackey.
पिछला	वि.	1. पीछे की ओर पड़नेवाला, जो पीछे की ओर हो;	পিছন দিকের;	पिछन दिकेर;	back part or partition;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो क्रम में किसी के पीछे हो;	পশ্চাদ্বর্তী;	पश्चाद्वर्ती;	hind, rear;
		3. बाद का, परवर्ती;	পরবর্তী;	परबर्ती;	last;.
		4. गुजरा हुआ, बीता हुआ।	অতীত, বিগত	अतीत, विगत	past.
पिछवाड़ा	पु.	मकान का पिछला भाग, घर के पीछे की ओर का भाग।	বাড়ীর পিছনের দিক্	बाड़ीर पिछनेर दिक्	backyard.
पिछाड़ी	स्त्री.	1. पृष्ठभाग, पीछे का भाग;	পশ্চাদ্ভাগ;	पश्चाद्भाग;	rear;
		2. घोड़े के पिछले दोनों पैर बांधने की रस्सी।	ঘোড়ার পিছনের পা দুটি বাঁধার দড়ি	घोड़ार पिछनेर पा दुटि बांधार दड़ि	rope for fettering a horse from the rear legs.
पिटना	अ. क्रि.	1. पीटा जाना, मार खाना;	পিটুনি দেওয়া, মার খাওয়া;	पिटुनि देओया, मार खाओया;	act of being beaten;
		2. प्रतियोगिता आदि में हारना;	প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে হারা;	प्रतिजोगित इत्यादिते हारा;	to be defeated;
		3. कुछ खेलों में मोहरे का मारा जाना।	কোনো খেলায় ঘুঁটি মারা যাওয়া	कोनो खेलाय घुंटि मारा जाओया	to be beaten.
पिटवाना	स. क्रि.	1. किसी के पीटे जाने का कारण होना;	পিটানো;	पिटानो;	to cause to be beaten;
		2. पीटने का काम किसी दूसरे से कराना।	অন্যকে দিয়া পিটান	अन्यके दिया पिटान	to cause to beat.
पिटाई	स्त्री.	1. पीटने की क्रिया;	পিটানো, পিটুনি;	पिटानो, पिटुनि;	act of beating;
		2. पीटने की मजदूरी या पारिश्रमिक;	পিটানর মজুরী;	पिटानर मजुरी;	wages for beating, thrashing;
		3. किसी पर अच्छी तरह पड़नेवाली मार।	আচ্ছা করিয়া পিটুনি, ধোলাই	आच्छा करिया पिटुनि, धोलाइ	good beating.
पिटारा (स्त्री. पिटारी)	पु.	बांस आदि की तीलियों से बना हुआ एक ढक्कनदार पात्र।	পেটরা	पेटरा	basket.
पिट्ठू	पु.	1. पीछे-पीछे चलनेवाला, अनुगामी;	যে পিছনে পিছনে চলে;	जे पिछने पिछने चले;	follower;
		2. खुशामदी।	খোশামুদে	खोशामुदे	lackey.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पितर	पु.	परलोकवासी पूर्वज जिनका कर्मकाण्ड के अनुसार श्राद्धादि किया जाता है।	পিতৃগণ, পিতৃপুরুষেরা	पितृगन, पितृपुरुषेरा	forefathers.
पिता	पु.	संबंध के विचार से वह पुरुष जिसने किसी को जन्म दिया हो।	পিতা, জনক, জন্মদাতা	पिता, जनक, जन्मदाता	father.
पितामह (स्त्री. पितामही)	पु.	पिता का पिता, दादा।	পিতামহ, পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা	पितामह, पितार पिता, ठाकुरदादा	paternal grand-father.
पितृ-पक्ष	पु.	1. आश्विन मास का कृष्णपक्ष जिसमें पितरों का श्राद्ध किया जाता है;	পিতৃপক্ষ, চান্দ্রভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ– যে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করা হয়	पितृपक्ष, चान्द्रभाद्र मासेर कृष्नपक्ष– जे पितृपुरुषदेर तर्पन करा हय	the dark fortnight of the month of Ashwina when oblations are offer.ed to the manes for thier spiritual grati-fication;
		2. पिता का कुल।	পিতৃকুল	पितृकुल	paternal side.
पितृ-विसर्जन	पु.	आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन पितरों की विदाई का कृत्य।	আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের অমা-বস্যায় পিতৃপুরুষ-দের বিদায় দেওয়ার অনুষ্ঠান, এক প্রকার শ্রাদ্ধ	आश्विनेर कृष्नपक्षेर अमा-बस्याय पितृपुरुष-देर बिदाय देओयार अनुष्ठान, एक प्रकार श्राद्ध	rites performed on the fifteenth day of the fortnight of the month of Ashwin which marks dark farewell to the manes.
पित्त	पु.	शरीर के तीन प्रसिद्ध दोषों में से एक जो नीलापन लिए पीले रंग का और कड़वा होता है।	পিত্, যকৃত্ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ	पित्, जकृत हइते निःसृत तिक्त रसबिशेष	bile, skin-rash.
पित्तप्रकोप	पु.	पित्त का बढ़ जाना या कुपित हो जाना।	পিত্তপ্রকোপ, পিত্তদোষ	पित्तप्रकोप, पित्तदोष	excess and vitiation of the bile humour.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पित्ताशय	पु.	शरीर के अंदर यकृत के पीछे की ओर रहनेवाला थैली के आकार का वह अंग जिसमें पित्त रहता है।	পিত্তাশয়, পিত্তকোষ	पित्ताशय, पित्तकोष	gall-bladder.
पित्ती	स्त्री.	पित्त की अधिकता या रक्त के अधिक ऊष्ण होने से उत्पन्न होनेवाला एक रोग जिसमें शरीर पर लाल चकते पड़ जाते हैं और जिसमें बड़ी खुजली होती है।	পিত্তজনিত রোগবিশেষ আমবাত	पित्तजनित रोगविशेष आमबात	urticaria.
पिद्दी	स्त्री.	1. बया की जाति की एक छोटी चिड़िया; 2. अति तुच्छ और नगण्य व्यक्ति।	বাবুই-জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ; অতি তুচ্ছ ও নগন্য ব্যক্তি;	बाबुइ-जातीय क्षुद्र पक्षी बिशेष; अति तुच्छ ओ नगन्य ब्यक्ति;	the brown-backed Indian robin; insignificant creature.
पिनक	स्त्री.	1. पिनकने की क्रिया या भाव; 2. अफीमची की वह अवस्था जिसमें वह नशे की अधिकता के कारण सिर झुकाकर बैठे रहने की दशा में बेसुध या सोया हुआ-सा रहता है।	ঝিমানি, ঝিমুনি নেশার আবেশে চক্ষু মুদিয়া ঢোলা, ঝিমুনি	झिमानि, झिमुनि नेशार आबेशे चक्षु मुदिया ढोला, झिमुनि	state of drowsiness; state of being intoxicated.
पिपासा	स्त्री.	1. पीने की इच्छा, प्यास, तृष्णा; 2. कोई वस्तु पाने की इच्छा, लोभ।	পিপাসা, পানেচ্ছা, তৃষ্ণা; লাভেচ্ছা, লোভ	पिपासा, पानेच्छा, तृष्ना; लाभेच्छा, लोभ	thirst; desire (in general), greed.
पिपासु	वि.	1. पीने की इच्छा रखनेवाला, प्यासा, 2. जिसके मन में किसी प्रकार की उग्र कामना या लोभ हो।	পিপাসু, পান করিতে ইচ্ছুক; প্রবল আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, উগ্র বাসনাযুক্ত	पिपासु, पान करिते इच्छुक; प्रबल आकाङ्क्षाजुक्त, उग्र बासनाजुक्त	thirsting; possessed of a yearning or craving.
पिपीलिका	स्त्री.	चींटी।	পিপীলিকা, পিঁপড়া	पिपीलिका, पिंपड़ा	ant.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पिरोना	स. क्रि.	1. किसी छेदवाली वस्तु में धागा डालना; 2. छेदवाली बहुत सी वस्तुओं को एक साथ धागे में बांधना।	ছুঁচ ইত্যাদিতে সূতা পরানো; গাঁথা	छुंच इत्यादिते सुता परानो; गाथा	to thread or needle; to string.
पिलना	अ. क्रि.	1. पूरी शक्ति से किसी काम में लगना या जुटना, किसी ओर वेग से प्रवृत्त होना;	পূর্ণশক্তিতে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া;	पुर्नशक्तिते काजे झांपाइया पड़ा;	to fall upon;
		2. ऊख आदि का पेरा जाना;	আখ ইত্যাদি মাড়াই হওয়া;	आख इत्यादि माड़ाइ हओया;	to be crushed;
		3. भिड़ जाना।	মেহনত করা	मेहनत करा	to toil, to work hard.
पिलपिला	वि.	इतना नरम कि स्पर्श-मात्र से उसका रस या गूदा बाहर निकलने लगे।	তুলতুলে	तुलतुले	flabby.
पिलाना	स. क्रि.	1. किसी को पीने में प्रवृत्त करना;	পান করানো;	पान करानो;	to cause to drink, to take (an animal) to water;
		2. किसी छेद में कोई पदार्थ विशेषतः कोई तरल पदार्थ डालना।	কোন ছিদ্রে তরল পদার্থ ঢালা	कोन छिद्रे तरल पदार्थ ढाला	to pour through, to fill through.
पिल्ला	पुं.	कुत्ते का बच्चा।	কুকুরছানা	कुकुरछाना	pup, puppy.
पिशाच	पुं.	1. एक निम्न देवयोनि जो वीभत्स कर्म करनेवाले माने जाते हैं, प्रेत;	পিশাচ, বীভৎস কর্মকারক নিম্নবর্গীয়;	पिशाच, बीभत्स कर्मकारक निम्नबर्गीय;	devil;
		2. वीभत्स कर्म करनेवाला दुष्ट व्यक्ति।	নীচ নিষ্ঠুর জঘন্য প্রকৃতির মানুষ	नीच निष्ठुर जघन्य प्रकृतिर मानुष	malevolent.
पिशुन	वि.	चुगलखोर।	পিশুন	पिशुन	backbiter.
पिशुनता	स्त्री.	चुगलखोरी।	চুকলি, কুৎসারটনা	चुकलि, कुत्सारटना	backbiting.
पिष्टपेषण	पुं.	1. पिसी हुई वस्तु को फिर से पीसना;	পিষা হইয়াছে এমন জিনিস আবার পিষা;	पिषा हइयाछे एमन जिनिस आबार पिषा;	grinding flour or what is already ground;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उक्त के आधार पर किए हुए कार्य को पुनः करने में व्यर्थ परिश्रम करना, निरर्थक कार्य करना।	যে কাজ একবার করা হইয়াছে তাহাই আবার করার ব্যর্থ পরিশ্রম	जे काज एकबार करा हइयाछे ताहाइ आबार करार ब्यर्थ परिश्रम	useless labour, repetition.
पिसना	अ.क्रि.	1. पीसा जाना, चूर्ण किया जाना;	পেষাই করা, চূর্ণ করা;	पेषाइ करा, चूर्न करा;	to be ground (powdered);
		2. इस प्रकार कुचला या दबाया जाना कि बहुत छोटे-छोटे खंड हो जाएं;	এমনভাবে চাপ দেওয়া যাহাতে টুকরা টুকরা হইয়া যায়;	एमनभाबे चाप देओया जाहाते टुकरा टुकरा हइया जाय;	to press in such a way that it becomes small pieces;
		3. बहुत अधिक कष्ट पाना;	খুব কষ্ট পাওয়া;	खुब कष्ट पाओया;	to be reduced to distress;
		4. घोर परिश्रम करना।	কঠোর পরিশ্রম করা	कठोर परिश्रम करा	to labour hard.
पिसवाना	स. क्रि.	पीसने में प्रवृत्त करना, किसी से पीसने का काम कराना।	পিষাই করানো	पिषाइ करानो	to cause to be ground.
पिसाई	स्त्री.	1. पीसने की क्रिया, भाव या मजदूरी; 2. बहुत अधिक परिश्रम।	পিষাই, পিষণ, পিষণের মজুরি; অত্যন্ত পরিশ্রম	पिषाइ, पिषन, पिषनेर मजुरि; अत्यन्त परिश्रम	grinding, grinding charges; hard work.
पिसान	पु.	पीसा हुआ अन्न विशेषतः गेहूँ या जौ का आटा।	পিষাই শস্য বিশেষত: গম বা যবের আটা	पिषाइ शस्य बिशेषत: गम बा जबेर आटा	any finely ground substance, particularly the flour of wheat.
पिसाना	स. क्रि.	पीसने का काम कराना।	পিষানো	पिषानो	to get ground.
पिस्ता	पु.	एक प्रकार का प्रसिद्ध मेवा।	পেস্তা	पेस्ता	pistachio nut.
पिस्तौल	स्त्री.	गोली चलाने की एक प्रकार की छोटी जेबी बन्दूक, तमंचा।	পিস্তল	पिस्तल	pistol.
पिस्सू	पु.	एक प्रकार का छोटा उड़नेवाला कीड़ा जो खून चूसता है।	পিষু, রক্তশোষকক্ষুদ্র মক্ষিকাবিশেষ	पिषु, रक्तशोषकक्षुद्र मक्षिकाबिशेष	flea.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पीक	स्त्री.	चबाए हुए पान का रस, पान का थूक।	পিক	पिक	spittle of chewed betel-leaf.
पीकदान	पु.	पान की पीक थूकने का एक प्रकार का पात्र, उगालदान।	পিকদানি	पिकदानि	cuspidor.
पीछा	पु.	1. किसी वस्तु या व्यक्ति का पिछला भाग;	পশ্চাদ্‌ভাগ;	पश्चाद्‌भाग;	rear, back part;
		2. पीछे-पीछे चलकर किसी के साथ लगे रहने की क्रिया या भाव।	পিছনে লাগিয়া থাকা	पिछने लागिया थाका	pursuit, chase.
पीछे	क्रि. वि.	1. पीठ की ओर, पृष्ठदेश में;	পিছে, পিঠের দিকে, পিছনে;	पिछे, पिठेर दिके पिछने;	behind;
		2. देशकाल के अनुसार किसी के पश्चात् या उपरान्त;	পরে;	परे;	after;
		3. किसी के कारण या खातिर, निमित्त, लिए, वास्ते।	কারণে, নিমিত্ত, জন্য	कारने, निमित्त, जन्य	for.
पीटना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु पर आघात करना, अथवा चोट पहुंचाना;	পিটা, আঘাত করা;	पिटा, आघात करा;	to beat, to thrash;
		2. शतरंज आदि खेलों में विपक्षी की गोट या मोहरा मारना;	দাবা প্রভৃতি খেলায় বিপক্ষের ঘুঁটি মারিয়া দেওয়া;	दाबा प्रभृति खेलाय बिपक्षेर घुंटि मारिया देओया;	to defeat;
		3. जैसे-तैसे कमा लेना;	যে কোনো প্রকারে উপার্জন করা;	जे कोनो प्रकारे उपार्जन करा;	to earn through hard labour;
		4. जैसे-तैसे कोई काम पूरा करना।	যে কোনো প্রকারে কাজ সম্পূর্ণ করা	जे कोनो प्रकारे काज सम्पून करा	to complete by dint of hard work.
पीठ	स्त्री.	1. किसी प्राणी के शरीर का कमर से लेकर गरदन तक का पीछे का भाग जिसके बीचों-बीच रीढ़ की हड्डी होती है;	পিঠ, পিষ্ঠ;	पिठ, पिष्ठ;	back;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी वस्तु का ऊपरी भाग;	কোনো বস্তুর উপরের দিক্;	कोनो बस्तुर उपरेर दिक्;	upper portion (of a thing);
		3. पहनने के कपड़ों का वह भाग जो पीठ पर पड़ता है।	পরিধেয় বস্ত্রের যে-অংশ পিঠের উপর পড়ে থাকে	परिधेय बस्त्रेर जे-अंश पिठेर उपर पड़े थाके	back (of clothes).
	पु.	1. लकड़ी, धातु आदि का बना हुआ बैठने का आसन;	আসন বিশেষ, পিঁড়ি;	आसन विशेष, पिंड़ि;	seat made of wood, steel, etc.;
		2. वह स्थान जहां बैठकर किसी प्रकार का उपदेश, शिक्षा आदि दी जाती हो;	উপদেষ্টার আসন, বেদী;	उपदेष्टार आसन, बेदी;	seat;
		3. न्यायाधीश या न्यायाधीशों का वर्ग।	বিচারক, বিচারমন্ডলী	बिचारक, बिचारमन्डली	bench.
पीठिका	स्त्री.	1. धातु, काष्ठ आदि का विशेष प्रकार का आसन, छोटा पीढ़ा, पीढ़ी;	পীঠিকা, ছোট পিঁড়ি, পিঁড়ি;	पीठिका, छोट पिंड़ि, पिंड़ि;	wooden or steel seat, small seat;
		2. पुस्तक का विशष्टि अंश या विभाग।	পুস্তকের বিভাগ	पुस्तकेर बिभाग	introduction, prolegomenon, etc. (of a book).
पीठी	स्त्री.	भीगी हुई दाल को पीसने पर तैयार होनेवाला रूप।	ডালবাটা	डालबाटा	pulse steeped in water and then peeled and ground.
पीड़न	पु.	1. व्यक्तियों के संबंध में किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना, तकलीफ देना;	পীড়ন, কষ্ট দেওয়া, নির্যাতন;	पीड़न, कष्ट देओया, निर्जातन;	inflicting pain;
		2. वस्तुओं के संबंध में जोर से कसना, दबाना या पीसना।	পোষণ, পেষণ, মর্দন, চাপ	पोषन, पेषन, मर्दन, चाप	act of tightening, pressing or grinding.
पीड़ा	स्त्री.	शारीरिक या मानसिक कष्ट, त्वचा का दर्द।	পীড়া, ব্যথা, ক্লেশ, কষ্ট বেদনা	पीड़ा, ब्यथा, क्लेश कष्ट बेदना	pain, ache, agony.
पीड़ित	वि.	1. जो किसी प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त हो अथवा जिसे पीड़ा पहुंचाई गई हो;	পীড়িত, পীড়াগ্রস্ত, ক্লেশগ্রস্ত ব্যথিত;	पीड़ित, पीड़ा-ग्रस्त, क्लेशग्रस्त, ब्यथित;	pained;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जिसे दबाया या पीसा गया हो।	নিপীড়িত, মর্দিত	निपीड़ित, मर्दित	oppressed.
पीढ़ा	पु.	लकड़ी आदि का बना हुआ चौकी के आकार का छोटा और कम ऊँचा आसन।	পিঁড়া, জলচৌকি	पिंड़ा, जलचौकि	seat, stool.
पीढ़ी	स्त्री.	1. किसी कुल या वंश की परंपरा में क्रम से आगे बढ़नेवाली संतान की प्रत्येक कड़ी या स्थिति;	বংশানুক্রম (পুরুষ), প্রজন্ম,	बंशानुक्रम (पुरुष), प्रजन्म;	generation;
		2.वंश-क्रम में प्रत्येक शृंखला के सब लोग;	বংশের সন্তানসন্ততি;	बंशेर सन्तानसन्तति;	pedigree;
		3. किसी विशिष्ट समय का वह सारा जनसमुदाय जिनकी अवस्था में अधिक छोटाई-बड़ाई न हो।	সমতাযুক্ত, সমকালীন, ব্যক্তিবর্গ	समताजुक्त, समकालीन, ब्यक्तिबर्ग	generation.
पीत	वि.	पीला, पीले रंग का।	পীত, হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট, হলদে	पीत, हरिद्राबर्न विशिष्ट, हलदे	yellow, yellow colour.
पीतज्वर	पु.	पीला बुखार।	পীতজ্বর	पीतज्वर	yellow fever.
पीतल	पु.	एक प्रसिद्ध मिश्र धातु जो तांबे और जस्ते के मेल से बनती है।	পিতল	पितल	brass.
पीतांबर	पु.	1. पीले रंग का वस्त्र; 2. एक प्रकार की रेश्मी धोती जो हिन्दु लोग प्रायः पूजपाठ के समय पहनते हैं।	পীতাম্বর; হিন্দুরা পূজা করিবার সময় পরেন এমন হরিদ্রাবর্ণের পট্টবস্ত্র	पीताम्बर; हिन्दुरा पूजा करिबार समय परेन एमन हरिद्राबर्नेर पट्टबस्त्र	yellow cloth; yellow silken dhoti worn by Hindu s during worship, etc.
पीनस	पु.	1. सर्दी या जुकाम; 2. एक रोग जिसमें नाक से दुर्गन्धमय गाढ़ा पानी निकलता है।	শীত, সর্দি; শ্লেষ্মারোগ	शीत, सर्दि; श्लेष्मारोग	cold; catarrh.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पीना	स. क्रि.	1. किसी द्रव पदार्थ को घूंट घूंट करके पेट में पहुंचाना;	একটু একটু চুমুক দিয়া পান করা;	एकटु एकटु चुमुक दिया पान करा;	to sip.
		2. शराब पीना;	মদ্যপান করা;	मद्यपान करा;	to drink;
		3. किसी बात को सह लेना;	কোনো কথা হজম করিয়া লওয়া;	कोनो कथा हजम करिया लओया;	to tolerate, endure;
		4. किसी बात को प्रकट न होने देना;	কোনো কথা প্রকাশ হইতে না দেওয়া;	कोनो कथा प्रकाश हइते ना देओया;	to conceal (a secret etc.);
		5. ध्यान से सुनना।	মনোযোগ সহকারে শোনা, কথা গিলা	मनोजोग सहकारे शोना, कथा गिला	to listen attentively.
पीप	स्त्री.	घाव में से निकलनेवाला सफेद लेसदार तरल पदार्थ, मवाद।	পূঁজ	पुंज	pus.
पीपल	पु.	बरगद की जाति का एक पेड़ जो पवित्र माना जाता है।	পিপুল	पिपुल	peepal tree.
पीपा (पीपी स्त्री.)	पुं.	लकड़ी, लोहे आदि का ढोल के आकार का एक बड़ा पात्र जिसमें तेल आदि रखा जाता है।	পিপা, পিপে	पिपा, पिपे	can, canister, tin.
पीयूष	पु.	अमृत, सुधा।	পীযূষ, অমৃত	पीयूष, अमृत	nectar.
पीर	पु.	1. महात्मा और सिद्ध पुरुष;	পীর, মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ;	पीर, महात्मा, सिद्धपुरुष;	spiritual guide;
		2. मुसलमानों का धर्मगुरु;	মুসলমান ধর্মগুরু;	मुसलमान धर्मगुरु;	Muslims' saint;
		3. पीड़ा, दुःख।	পীড়া, দুঃখ	पीड़ा, दुःख	pain, affliction.
पील पांव	पु.	**एक रोग जिसमें पैर या घुटने के नीचे का भाग सूज जाता है और सूजकर हाथी के पांव की तरह मोटा हो जाता है।**	গোদ, শ্লীপদ	गोद, श्लीपद	elephantiasis.
पीलवान	पु.	**हाथीवान, महावत।**	মাহুত	माहुत	elephant driver.
पीला	वि.	**1. हल्दी के रंग का;**	হলদে;	हलदे;	yellow;
		2. आभा से रहित, निष्प्रभ।	আভাহীন, নিষ্প্রভ	आभाहीन, निष्प्रभ	pale, allid.
पीलापन	पु.	**पीले होने की अवस्था, गुण या भाव।**	পীততা	पीतता	yellowness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पीलिया	पु.	एक प्रकार का रोग जिसमें मनुष्य का शरीर और आँखें पीली पड़ जाती हैं।	কামলা, নেবা	कामला, नेबा	jaundice.
पीसना	स. क्रि.	रगड़कर या दबाव पहुँचा-कर किसी बड़ी वस्तु को चूरे के रूप में बदलना।	পিষা	पिषा	to powder, to grind.
पीहर	पु.	विवाहिता स्त्री की दृष्टि में उसके माता-पिता का घर।	বিবাহিতা মেয়েদের বাপের বাড়ী, পিতৃগৃহ	बिबाहिता मेयेदेर बापेर बाड़ी, पितृगृह	married woman's parental house or family.
पुंज	पुं.	1. ढेर; 2. राशि, समूह।	পুঞ্জ, স্তূপ; রাশি, সমূহ	पुञ्ज, स्तुप; राशि, समूह	heap; collection.
पुंजित	वि.	राशिकृत, संचित, एकत्र किया हुआ।	পুঞ্জিত, রাশীকৃত, সঞ্চিত	पुञ्जित, राशीकृत, संचित	heaped, collected, accumulated.
पुंजीभूत	वि.	पुंज या ढेर के रूप में बना या लगा हुआ।	পুঞ্জীভূত, রাশীভূত	पुञ्जीभूत, राशीभूत	heaped together, massed together.
पुंलिंग (पुल्लिंग)	पु.	व्याकरण में संज्ञा शब्दों के दो वर्गों में से एक जिसकी संज्ञाएं नरों की सूचक होती हैं अथवा ऐसी चीजों की सूचक होती हैं जो पुरुष वर्ग की समझी जाती हैं।	পুলিংগ (ব্যাকরণে) শব্দের পুরুষবাচকত্ব, পুংবাচক শব্দ	पुलिङ्ग (ब्याकरने) शब्देर पुरुषबाचकत्व, पुंबाचक शब्द	masculine gender (in grammar).
पुआल (पयाल)	पु.	पके हुए धान, कोदों आदि के वे डंठल जिनसे दाने अलग कर दिए गए हों।	পোয়াল	पोयाल	paddy-straw.
पुकार	स्त्री.	1. किसी का नाम लेकर बुलाने की क्रिया या भाव; 2. आत्मरक्षा या सहायता आदि के लिए दूसरों को आर्त्तस्वर से बुलाना; 3. कष्ट-निवारण के लिए किसी के प्रति की गई प्रार्थना, फरियाद।	নাম ধরিয়া ডাকা; সাহায্যের জন্য আর্ত্ত চিৎকার; কষ্ট নিবারণের জন্য প্রার্থনা	नाम धरिया डाका; साहाज्येर जन्य आर्त्त चित्कार; कष्ट निबारनेर जन्य प्रार्थना	call; cry; petition.

हिंदी शब्द	व्या.. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुकारना	स. क्रि.	1. किसी को नाम लेकर बुलाना; 2. रक्षा या बचाव के लिए किसी को आर्त्तस्वर से बुलाना; 3. फरियाद करना।	নাম ধরিয়া ডাকা; রক্ষার্থ আর্ত চিৎকার করা; নালিশ করা	नाम धरिया डाका; रक्षार्थ आर्त चित्कार करा; नालिश करा	to call; to cry out; to lodge a complaint.
पुखराज	पु.	पीले रंग का एक प्रसिद्ध रत्न।	পোখরাজ	पोखराज	topaz
पुख्ता	वि.	1. मजबूत, पक्का, सख्त; 2. पूरी तरह से निश्चित या स्थिर किया हुआ; 3. पूरी उमर का प्रौढ़; 4. जानकार, अनुभवी।	পোক্ত, মজবুত; দৃঢ়; পূর্ণবয়স্ক প্রৌঢ়; অভিজ্ঞ, পাকাপোক্ত	पोक्त, मजबुत; दृढ़; पूर्नबयस्क प्रौढ़; अभिज्ञ, पाकापोक्त	strong, solid; firm, lasting; mature; expert.
पुचकार	स्त्री.	प्यार जताने के लिए होठों से निकाला हुआ चूसने का सा शब्द, चुमकार।	মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া আদর	मुखे चुक् चुक् शब्द करिया आदर	fondle, caress.
पुचकारना	स. क्रि.	ओठों से चूमने का सा शब्द उत्पन्न करते हुए किसी के प्रति लाड-चाव प्रकट करना।	মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া আদর করা	मुखे चुक् चुक् शब्द करिया आदर करा	to fondle, to caress.
पुच्छलतारा	पु.	यदा-कदा दीखनेवाला एक विशेष प्रकार का तारा जिसके पीछे झाड़ू के आकार का भाप का सा पदार्थ जुड़ा दिखाई देता है, धूमकेतु।	ধূমকেতু	धूमकेतु	comet, meteor.
पुछल्ला	पु.	1. लम्बी पूंछ; 2. पूंछ की तरह पीछे जुड़ी हुई कोई वस्तु; 3. साथ में लगी रहनेवाली अप्रिय या अनावश्यक वस्तु।	লম্বা লেজ; লেজের মতো কোনো বস্তু; লেজুড়, যে লেজের মতো সব সময় পিছনে লাগিয়া থাকে	लम्बा लेज; लेजेर मतो कोनो बस्तु; लेजुड़, जे लेजेर मतो सब समय पिछने लागिया थाके	long tail; any tail-like structure; one who always tails after.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुजवाना	स. क्रि.	1. किसी को पूजा करने में प्रवृत्त करना;	পূজা করানো;	पूजा करानो;	to cause to worship;
		2. अपनी आवभगत या पूजा कराना।	নিজের অভ্যর্থনা করানো	निजेर अभ्यर्थना करानो	to cause to treat.
पुजाना	स. क्रि.	पुजवाना।	পূজা করানো	पूजा करानो	to cause to worship.
पुजापा	पु.	1. पूजन की सामग्री;	পূজোপকরণ, পূজার জিনিস;	पूजोपकरन, पूजार जिनिस;	articles used in a worship, offering;
		2. वह पात्र जिसमें पूजन की सामग्री रखी जाती है।	যে-পাত্রে পূজার জিনিস রাখা হয়	जे-पात्रे पूजार जिनिस राखा हय	apparatus of worshipping.
पुजारी	पु.	1. पूजा करनेवाला;	পূজারী, পূজাকারী;	पूजारी, पूजाकारी;	worshipper, adorer;
		2. ऐसा व्यक्ति जो किसी देवप्रतिमा की पूजा-सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया हो।	দেবপূজায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, পূজারী ব্রাহ্মণ	देवपूजाय निजुक्त ब्राह्मन, पूजारी ब्राह्मन	Hindu priest.
पुट	पु.	1. किसी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज की जमाई या लगाई हुई हल्की परत;	পাতলা, প্রলেপ, কলাই	पातला, प्रलेप, कलाइ;	plating;
		2. किसी चीज़ में दूसरी चीज़ की हलकी मिलावट।	অল্প সংমিশ্রণ	अल्प संमिश्रन	slight mixture.
पुटकी	स्त्री.	1. छोटी गठरी, पोटली;	পুঁটলি;	पुंटलि;	small bundle;
		2. आकस्मिक मृत्यु;	আকস্মিক মৃত্যু;	आकस्मिक मृत्यु;	accidental death;
		3. आकस्मिक दैवी विपत्ति।	দৈব দুর্বিপাক	दैब, दुर्बिपाक	divine wrath.
पुट्ठा	पु.	1. कमर के पास का चूतड़ का ऊपरी भाग;	নিতম্বশীর্ষ;	नीतम्बशीर्ष;	hip;
		2. चौपायों का विशेषकर घोड़ों का चूतड;	চতুষ্পদ বিশেষতঃ ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগ	चतुष्पद बिशेषतः घोड़ार पश्चाद्भाग;	rump;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. पुस्तक की जिल्द या मोटाई का वह पिछला भाग जिसके अन्दर उसकी सिलाई रहती है।	বাঁধান বইয়ের পিছন দিক্	बांधान बइयेर पिछन दिक्	back portion of binding of a book.
पुड़िया	स्त्री.	1. वह कागज या पत्ता जिसमें कोई दवा या अन्य वस्तु लपेटकर रखी गई हो;	পুরিয়া কাগজের মোড়ক;	पुरिया कागजेर मोड़क;	small paper packet;
		2. पुड़िया में लपेटी हुई दवा या ऐसी ही अन्य कोई वस्तु;	কাগজে মোড়া ঔষধ বা অনুরূপ কোনো বস্তু;	कागजे मोड़ा औषध बा अनुरूप कोनो बस्तु;	powder (medicine) wrapped up in paper;
		3 किसी के पास होने वाली सारी पूंजी या सम्पत्ति।	কাহারও সমগ্র সম্পত্তি	काहारओ समग्र सम्पत्ति	wealth.
पुण्य	वि.	1. पवित्र, शुद्ध; 2. मंगलकारक; 3. धर्मविहित और उत्तम फल देनेवाला।	পূণ্য, পবিত্র, শুদ্ধ; শুভ; ধর্মবিহিত উত্তম ফলদাতা	पुन्य, पवित्र, शुद्ध; शुभ; धर्मबिहित उत्तम फलदाता	holy, sacred, pure; auspicious; meritorious action, good deed.
	पु.	1. धार्मिक दृष्टि में कुछ विशिष्ट अवसरों पर कुछ विशिष्ट कर्म करने से प्राप्त होनेवाला शुभफल;	ধর্মকর্মজনিত শুভফল;	धर्मकर्मजनित शुभफल;	fruit or reward of virtue;
		2. शुभकर्मों का संचित रूप जिसका आगे चलकर उत्तम फल मिलता हो।	সুকৃত	सुकृत	virtue, religious merit.
पुण्यतिथि	स्त्री.	1. ऐसा शुभ दिन जिसमें धर्म, लोकोपकार आदि की दृष्टि से अच्छे कर्म करने का विधान हो;	ধর্মকর্মাদি করার পক্ষে শুভদিন;	धर्मकर्मादि करार पक्षे शुभदिन;	auspicious day;
		2. किसी महापुरुष के निधन की वार्षिक तिथि।	কোনো মহাপুরুষের তিরোভাব-দিবস	कोनो महापुरुषेर तिरोभाव-दिबस	anniversary (of death).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुण्यात्मा	पु.	पुण्यकर्म करनेवाला, धर्मात्मा।	পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান্ ধার্মিক	पुन्यात्मा, पुन्यबान, धार्मिक	pure-souled, holyman.
पुतला	पु.	लकड़ी, धातु, कपड़े आदि की बनी हुई पुरुष की प्रतिमा।	কাষ্ঠাদি নির্মিত পুরুষ পুতুল	काष्ठादि निर्मित पुरुष पुतुल	effigy, dummy.
पुतली	स्त्री.	1. आंख के बीच का वह काला भाग जिसके मध्य में रूप ग्रहण करनेवाली इंद्रिय होती है;	পুতলি, চক্ষুর তারা অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ডল;	पुतलि, चक्षुर तारा अर्थात् कृष्नमन्डल;	pupil of eye;
		2. लकड़ी, धातु, कपड़े आदि की बनी हुई स्त्री की प्रतिमा।	কাষ্ঠাদি নির্মিত মেয়েপুতুল	काष्ठादि निर्मित मेयेपुतुल	puppet, doll.
पुतलीघर	पु.	वह कारखाना जहां यंत्रों से सूत बनाया और कपड़ा बुना जाता है।	কাপড়ের কল	कापड़ेर कल	cloth mill.
पुताई	स्त्री.	1. पोतने की क्रिया या भाव;	চুনকাম;	चुनकाम;	white-wash, act of white-washing;
		2. उक्त का पारिश्रमिक।	চুনকাম করার মজুরি	चुनकाम करार मजुरि	wages for white-wash.
पुत्र	पु.	पत्नी से उत्पन्न नर संतान, बेटा।	পুত্র, সুত, তনয়, ছেলে, নন্দন	पुत्र, सुत, तनय, छेले, नन्दन	son.
पुत्रवती	स्त्री.	पुत्रवाली स्त्री।	পুত্রবতী, পুত্রের জননী	पुत्रबती, पुत्रेर जननी	a woman blessed with a son or sons.
पुत्रवधू	स्त्री.	पुत्र की पत्नी, पतोहू।	পুত্রবধূ, পুত্রের স্ত্রী	पुत्रबधू, पुत्रेर स्त्री	daughter-in-law, son's wife.
पुत्री	स्त्री.	कन्या, बेटी।	পুত্রী, কন্যা, মেয়ে	पुत्री, कन्या, मेये	daughter.
पुदीना (पोदीना)	पु.	एक प्रसिद्ध छोटा पौधा जिसकी पत्तियां अच्छी गंधवाली होती हैं और चटनी आदि में पीसकर खाई जाती हैं।	পুদিনা, সুগন্ধি শাকবিশেষ	पुदिना, सुगन्धि शाकबिशेष	mint.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुनः	अ. क्रि.	एक बार और, फिर, दोबारा।	পুনঃ৺ আরেকবার আবার	पुनः, आरेकबार, आबार	once more, again.
पुनः पुनः	क्रि. वि.	बार बार, कई बार।	পুনঃ পুনঃ, বার বার, বারংবার	पुनः पुनः, बार बार, बारंबार	again and again, repeatedly.
पुनःस्थापन	पु.	जो पहले अपने स्थान से हटाया गया हो उसे फिर उसी के स्थान पर रखना या स्थापित करना।	পুনঃস্থাপন, পূর্বেকার পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা	पुनःस्थापन, पूर्बेकार पदे पुनराय प्रतिष्ठित करा	reinstatement.
पुनरागमन	पु.	फिर से आना, लौटना।	পুনরাগমন, প্রত্যাগমন	पुनरागमन, प्रत्यागमन	coming again, return.
पुनरावलोकन	पुं.	फिर से या दोबारा देखना।	পুনরাবোলকন, আরেক বার দেখা	पुनराबलोकन, आरेक बार देखा	revision.
पुनरावृत्ति	स्त्री.	1. दोहराना; 2. फिर से आना, लौटना।	পুনরাবৃত্তি; প্রত্যাবর্তন	पुनरावृत्ति; प्रत्याबर्तन	rep[illegible]on; return.
पुनरीक्षण	पु.	किए हुए काम को जांचने के लिए फिर से देखना।	পুনরীক্ষণ, পুনরায় দেখা	पुनरीक्षन, पुनराय देखा	review.
पुनरीक्षित	वि.	जिसका पुनरीक्षण किया गया हो या हो चुका हो।	পুনরীক্ষিত	पुनरीक्षित	reviewed, revised.
पुनरुक्ति	स्त्री.	1. एक बार कही हुई बात या शब्द को फिर कहना; 2. इस प्रकार दोबारा कही हुई बात।	পুনরুক্তি, দ্বিতীয়বার উক্তি; পুনঃকথিত বিষয়	पुनरुक्ति, द्वितीयबार उक्ति; पुनःकथित विषय	said again, repeated; repetition.
पुनरुज्जीवित	वि.	जिसे फिर से जीवित किया गया हो या जिसने फिर से जीवन प्राप्त किया हो।	পুনরুজ্জীবিত, যে পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছে	पुनरुज्जीबित, जे पुनराय जीबन लाभ करियाछे	revived.
पुनरुत्थान	पु.	1. जिसका एक बार पतन या ह्रास हो चुका हो उसका फिर से उठकर उन्नति करना; 2. गिरे हुए को फिर से उठना।	পুনরুত্থান, পুনরায় উত্থান; পুনরভ্যুদয়	पुनरुत्थान, पुनराय उत्थान; पुनरभ्युदय	renaissance; rising again.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुनरुद्धार	पुं.	टूटी-फूटी या नष्ट हुई वस्तु को फिर से ठीक या उसे यथावत् करना।	ট্টাফুটা বা নষ্ট জিনিস আবার ঠিক করা	टुटाफुटा बा नष्ट जिनिस आबार ठिक करा	restoration, renovation.
पुनर्जन्म	पु.	मरने के बाद फिर से उत्पन्न होना, दुबारा शरीर धारण करना।	পুনর্জন্ম, মৃত্যুর পর পুনরায় উৎপত্তি বা জন্ম	पुनर्जन्म, मृत्युर पर पुनराय उत्पत्ति बा जन्म	rebirth (transmigration.).
पुनर्जीवन	पु.	फिर से प्राप्त होनेवाला जीवन।	পুনর্জীবন, পুনঃপ্রাপ্ত জীবন	पुनर्जीबन, पुनःप्राप्त जीबन	revival.
पुनर्निर्माण	पु.	टूटी-फूटी वस्तु का फिर से होनेवाला निर्माण।	পুনর্নির্মাণ	पुनर्निमान	reconstruction.
पुनर्मुद्रण	पु.	1. एक बार छपी हुई वस्तु का फिर से उसी रूप में छपना;	পুনর্মুদ্রণ;	पुनर्मुद्रन;	impression
		2. पुस्तकों आदि का इस प्रकार छपकर तैयार होनेवाला संस्करण।	পুস্তকাদির পুনরায় মুদ্রিত সংস্করণ	पुस्तकादिर पुनराय मुद्रित संस्करन	reprint.
पुनर्वास	पु.	उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाना।	পুনর্বাসন	पुनर्बासन	rehabilitation.
पुनर्विवाह	पु.	एक बार विवाह हो चुकने पर दोबारा होनेवाला विवाह।	পুনর্বিবাহ, দ্বিতীয়বার বিবাহ	पुनर्बिबाह, द्बितीयबार बिबाह	remarriage.
पुनीत	वि.	पवित्र।	পবিত্র	पबित्र	pure, holy.
पुरखा	पु.	पूर्वज, पूर्व-पुरुष।	পূর্বজ, পূর্ব-পুরুষ	पूर्बज, पूर्ब-पुरुष	ancestor, fore-father.
पुरजा (पुर्जा)	पु.	1. कागज का टुकड़ा;	কাগজের টুকরা;	कागजेर टुकरा;	a scrap (com. of paper), piece, bit;
		2. कागज के टुकड़े पर लिखी कोई बात या सूचना;	চিট, চিরকুট;	चिट, चिरकुट;	chit;
		3. किसी बड़े यंत्र का कोई अंग या अंश।	কোনো বড় যন্ত্রের অংশ	कोनो बड़ जन्त्रेर अंश	component, part.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुरबिया	वि.	पूरब का।	পূর্ব দেশের	पूर्व देशेर	eastern.
पुरबाई (पुरवा, पुरवैया)	स्त्री.	पूरब की ओर से बहनेवाली हवा।	পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বাতাস	पूर्बदिक हइते प्रबाहित बातास	easterly (wind).
पुरस्कार	पु.	अच्छी तरह कोई प्रशस्त और कठिन कार्य करने पर आदर या सत्कार के रूप में दिया जानेवाला धन या पदार्थ, इनाम।	পুরস্কার, পারিতোষিক	पुरस्कार, पारितोषिक	prize, award, reward.
पुरस्कृत	वि.	1. जिसे पुरस्कार मिला हो; 2. आगे किया हुआ।	পুরস্কৃত, পারিতোষিক প্রাপ্ত; অগ্রে কৃত	पुरस्कृत, पारितोषिक प्राप्त; अग्रे कृत	honoured, rewarded; placed in front.
पुरातत्व	पु.	वह विद्या जिसमें मुख्यतः इतिहासपूर्व काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता है।	পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন যুগের বৃত্তান্ত	पुरातत्त्व, प्राचीन जुगेर बृत्तान्त	archaeology.
पुरातन	वि.	पुराना, प्राचीन।	পুরাতন, পুরানো, প্রাচীন	पुरातन, पुरानो, प्राचीन	belonging to the past, ancient.
पुराना	वि.	1. जो प्रस्तुत समय से बहुत पहले का हो; 2. जो बहुत दिनों का हो जाने के कारण अच्छी दशा में न रह गया हो या ठीक तरह से और पूरा काम न दे सकता हो; 3. पूर्ण अनुभवी, परिणत-बुद्धि; 4. जिसका रिवाज अब उठ गया हो।	পুরাতন; জীর্ণ; অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ; সেকেলে	पुरातन; जीर्न; अभिज्ञ, बिज्ञ; सेकेले	old, ancient; worn out; experienced; out-of-date, old-fashioned.
पुरी	स्त्री.	1. नगरी, शहर;	পুরী, নগরী, শহর;	पुरी, नगरी, शहर;	city, town;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. दशनामी संन्यासियों का एक भेद,	দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপাধিবিশেষ;	दशनामी सन्न्यासी सम्प्रदायेर उपाधिविशेष;	name of one of the 10 orders of mendicants;
		3. जगन्नाथ पुरी।	ওড়িশার জগন্নাথক্ষেত্র	ओडि़शार जग्गनाथक्षेत्र	the city of Puri in Orissa.
पुरुष	पु.	1. मानव जाति का नर प्राणी, मर्द, आदमी;	পুরুষ, নর;	पुरुष, नर;	male, man;
		2. वह प्रधान सत्ता जो सारे विश्व में आत्मा के रूप में वर्तमान है (सांख्य);	সমগ্র বিশ্বের আত্মারূপে বর্তমান (সাংখ্য নির্দিষ্ট) প্রধান সত্তা;	समग्र विश्वेर आत्मारूपे बर्तमान (सांख्य निर्दिष्ट) प्रधान सत्ता;	the soul and original source of the universe, (Samkhya);
		3. व्याकरण में, वक्ता की दृष्टि से किया जानेवाला सर्वनामों का वर्गीकरण।	(ব্যাকরণে) আমি তুমি সে ইত্যাদির ভেদ	(ब्याकरने) आमि तुमि से इत्यादिर भेद	a person (in grammar).
पुरुषत्व	पु.	1. पुरुष होने की अवस्था, गुण या भाव;	পুরুষত্ব, পুরুষের গুণ;	पुरुषत्व, पुरुषेर गुन;	the state of man;
		2. पौरुष, मर्दानगी।	পৌরুষ	पौरुष	manliness, valour.
पुरुषार्थ	पु.	1. मनुष्य के जीवन का प्रधान उद्देश्य, वह वस्तु या प्रयोजन जिसकी प्राप्ति या सिद्धि के लिए मनुष्य को उद्योग करना चाहिए (पुरुषार्थ चार माने गए हैं – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष);	পুরুষার্থ, পুরুষের অভীষ্ট প্রয়োজন ধর্মার্থকামমোক্ষ– এই চতুর্বর্গ;	पुरुषार्थ, पुरुषेर अभीष्ट प्रयोजन धर्मार्थकाममोक्ष– एइ चतुर्बर्ग;	any object of human pursuit, any one of the four objects or aims of man or of the soul;
		2. उद्योग, उद्यम।	উদ্যোগ, উদ্যম	उद्योग, उद्यम	(human) effort or exertion.
पुरुषार्थी	वि.	पुरुषार्थ करनेवाला, उद्योगी, परिश्रमी।	উদ্যোগশীল, পরিশ্রমী	उद्योगशील, परिश्रमी	industrious, painstaking, laborious.
पुरोहित	पु.	वह कर्मकांण्डी ब्राह्मण जो अपने यजमान के यहां मुंडन यज्ञोपवीत, विवाह आदि	পুরোহিত, পুরুত,	पुरोहित, पुरुत	Hindu-priest.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		संस्कार कराता है तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर दान-दक्षिणा आदि लेता है।			
पुरोहिताई	स्त्री.	पुरोहित का काम, पद, या भाव, यजमानों को धार्मिक कृत्य कराने का काम या वृत्ति।	পৌরোহিত্য, পুরুতের কাজ, পুরুতগিরি	पौरोहित्य, पुरुतेर काज, पुरुतगिरि	the office or functions of the officiating priest.
पुल	पुं.	खाइयों, नदी -नालों आदि के ऊपर आर-पार जोड़कर बनाई हुई वह वस्तु, या रचना जिसपर से होकर गाड़ियां और व्यक्ति इधर-उधर आते-जाते हैं, सेतु।	পুল, সেতু, সাঁকো	पुल, सेतु, सांको	bridge.
पुलक	पुं.	प्रेम, भय, हर्ष आदि मनोविकारों के कारण शरीर में होनेवाला रोमांच।	পুলক, রোমাঞ্চ	पुलक, रोमांच	erection of the hair of the body, thrill of joy, delight.
पुलकना	अ. क्रि.	प्रेम, हर्ष आदि से पुलकित होना।	পুলকিত হওয়া, রোমাঞ্চিত হওয়া	पुलकित हओया, रोमांचित हओया	to experience a thrill of joy, to be delighted.
पुलकित	वि.	जिसे रोमांच हुआ हो, हर्षविह्वल।	পুলকিত, রোমাঞ্চিত, আনন্দিত	पुलकित, रोमांचित, आनन्दित	having the hair of the body erect, thrilled with joy.
पुलटिस	स्त्री.	हलवे की तरह पकाई हुई अलसी आदि का लेप जो फोडों आदि को पकाने के लिए उन पर बाँधा जाता है।	পুলটিস, ফোড়া ইত্যাদির জন্য তপ্ত পুরু প্রলেপ	पुलटिस, फोडा इत्यादिर जन्य तप्त पुरु प्रलेप	poultice.
पुलाव	पुं.	मांस और चावल एक में पकाकर तैयार किया जानेवाला विशेष प्रकार का व्यंजन।	পোলাও, পলান্ন	पोलाओ, पलान्न	spiced rice preparation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुलिंदा	पु.	कागज,कपड़े आदि में बंधी हुई गठरी।	পুলিন্দা, পুঁটলি, বান্ডিল	पुलिन्दा, पुंटलि, बान्डिल	bundle, sheaf.
पुलिन	पु.	नदी आदि का किनारा, विशेषत: रेतीला किनारा।	পুলিন, তীর, সৈকত, চড়া	पुलिन, तीर, सैकत, चड़ा	beach.
पुलिया	स्त्री.	छोटा पुल।	ছোট পুল	छोट पुल	culvert, small bridge.
पुलिस	स्त्री.	1. वह राजकीय विभाग जिसका मुख्य काम शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना है और जो अपराधों को रोकता है, अपराधियों को पकड़ता है तथा न्यायालय द्वारा दण्डित कराता है;	পুলিস, গ্রাম নগরাদির শান্তিরক্ষার্থ তথা অপরাধ নিরোধার্থ সরকারী বিভাগ;	पुलिस, ग्राम नगरादिर शान्तिरक्षार्थ तथा अपराध निरोधार्थ सरकारी विभाग;	police department;
		2. उक्त विभाग का कर्मचारी,सिपाही।	পুলিস বিভাগে নিযুক্ত সিপাহী	पुलिस विभागे निजुक्त सिपाही	police.
पुश्त	स्त्री.	1. वंशपरम्परा की प्रत्येक श्रेणी या स्थान, पीढ़ी;	পুরুষ;	पुरुष;	generation;
		2. पशुओं, मनुष्य आदि की पीठ;	পশু মনুষ্য ইত্যাদির পীঠ;	पशु मनुष्य इत्यादिर पीठ;	the back;
		3. किसी वस्तु का पिछला भाग, पृष्ठ देश।	পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠদেশ	पश्चाद्भाग, पृष्ठदेश	the back portion.
पुश्ता	पु.	ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि की वह वास्तु रचना जो नदियों के किनारे पानी की बाढ़ रोकने अथवा किसी दीवार आदि की मजबूती के लिए उसमें पार्श्व में खड़ी की जाती है।	পোস্তা	पोस्ता	embankment.
पुश्तैनी	वि.	1. जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो;	পূর্বপুরুষগত;	पूर्वपुरुषगत;	ancestral;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो कई पीढ़ियों तक चला जाए।	বংশগত, বংশানুক্রমিক	बंशगत, बंशानुक्रमिक	hereditary.
पुष्कल	वि.	भरपूर, पर्याप्त, प्रचुर।	পুষ্কল, প্রভূত	पुष्कल, प्रभूत	much, abundant.
पुष्ट	वि.	1. जिसका अच्छी तरह पोषण हुआ हो; 2. मोटा-ताजा, बलवान; 3. कथन या बात जो प्रमाणों से सिद्ध होती हो।	পুষ্ট, পোষণহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; মোটাসোটা; প্রমাণসিদ্ধ	पुष्ट, पोषनहेतु बृद्धिप्राप्त; मोटासोटा; प्रमानसिद्ध	nourished; fat, strong; confirmed.
पुष्टई	स्त्री.	बलवर्धक औषध या बस्तु।	পুষ্টিকর (ঔষধ বা বস্তু)	पुष्टिकर (औषध बा बस्तु)	nourishment, nutrition (medicine or a thing).
पुष्टि	स्त्री.	1. दृढ़ या मजबूत होने की अवस्था या भाव; 2. समर्थन, तर्क या प्रमाण द्वारा सिद्धि।	দৃঢ়তা; সমর্থন	दृढ़ता; समर्थन	strengthening; confirmation.
पुष्टिकर	वि.	पुष्ट करनेवाला, बलवर्धक।	পুষ্টিকর, পুষ্টিজনক	पुष्टिकर, पुष्टिजनक	nourishing, causing to grow or thrive.
पुष्टिकारक	वि.	पुष्टि करनेवाला।	পুষ্টিকারক	पुष्टिकारक	confirmatory.
पुष्टिमार्ग	पु.	श्री वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत मत की साधना-व्यवस्था जिसमें भक्त कर्म निरपेक्ष होकर भगवान श्रीकृष्ण को आत्मसमर्पण करता है तथा कर्मों के फल की कामना नहीं करता है।	পুষ্টিমার্গ, বল্লভাচার্য প্রবর্তিত শুদ্ধাদ্বৈত মতের সাধনা–এর সার কথা শ্রীকৃষ্ণসমীপে ভক্তের নিষ্কামভাব সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ	पुष्टिमार्ग, बल्लभाचार्ज प्रबर्तित शुद्धाद्वैत मतेर साधना–एर सार कथा श्रीकृष्नसमीपे भक्तेर निष्कामभाब सम्पूर्न आत्मसमर्पन	name of a Vaisnava sect founded by Vallabhacharya.
पुष्टिकरण	पु.	किसी कही हुई बात या किए हुए काम को ठीक मानते हुए उसकी पुष्टि करना।	সমর্থন	समर्थन	confirmation.
पुष्प	पु.	फूल, कुसुम।	পুষ্প, ফুল, কুসুম	पुष्प, फुल, कुसुम	a flower.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पुष्पवर्षा	स्त्री.	फूलों की ऊपर से की जानेवाली या होनेवाली वर्षा।	পুষ্পবর্ষা	पुष्पबर्षा	flowers showered upon (a hero on any great) occasion).
पुष्पवाटिका	स्त्री.	ऐसा छोटा उद्यान जिसमें फूलों के अनेक पेड़-पौधे हों।	পুষ্পবাটিকা, ফুলের বাগান	पुष्पबाटिका, फुलेर बागान	a flower garden.
पुष्पांजलि	स्त्री.	फूलों से भरी हुई अंजलि जो किसी देवता या महा-पुरुष को अर्पित की जाती है।	পুষ্পাঞ্জলি, দেবতা কিংবা মহাপুরুষে অঞ্জলিপূর্ণ ফুল	पुष्पाञ्जलि, देबता किंबा महापुरुषे अंजलिपूर्न फुल	presenting flowers or a nosegay in both hands open and hollowed.
पुष्पिका	स्त्री.	1. किसी ग्रंथ के किसी अध्याय का वह समापक वाक्य या पद्य जिसमें प्रतिपाद्य की समाप्ति की सूचना रहती है तथा जिसमें प्राय: लेखक का नाम एवं रचना-संवत् भी रहता है;	পুষ্পিকা, গ্রন্থাদির শেষে বা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর সমাপ্তি নির্দেশক গদ্য পদ্য রচনা;	पुष्पिका, ग्रन्थादिर शेषे बा प्रत्येक अध्यायेर शेषे प्रदत्त प्रतिपाद्य बिषय-बस्तुर समाप्ति निर्देशक गद्य पद्य रचना;	division of a book, chapter;
		2. दांत का मैल;	দন্তমল;	दन्तमल;	the tartar of the teeth;
		3. लिंग का मैल।	লিংগমল	लिङ्मल	the mucus of the gland penis or urethra.
पुष्पित	वि.	1. फूलों से युक्त, फूलों से लदा हुआ;	পুষ্পিত, কুসুমিত;	पुष्पित, कुसुमित;	bearing flowers, flowered;
		2. उन्नत और समृद्ध।	উন্নত ও সমৃদ্ধ	उन्नत ओ समृद्ध	abounding or rich-in.
पुष्पोद्यान	पु.	पुष्पवाटिका, फूलों का बगीचा।	পুষ্পোদ্যান, ফুলবাগান	पुष्पोद्यान, फुलबागान	a flower-garden.
पुस्तक	स्त्री.	हाथ से लिखे या छपे हुए पन्नों का जिल्द बंधा हुआ रूप, किताब।	পুস্তক, গ্রন্থ, বই	पुस्तक, ग्रन्थ, बइ	book.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण.	अंग्रेजी पर्याय
पुस्तकाकार	पु., वि.	जो पुस्तक के आकार या रूप में हो।	পুস্তকাকার, গ্রন্থাকার	पुस्तकाकार, ग्रन्थाकार	in shape of a book.
पुस्तकाध्यक्ष	पु.	पुस्तकालय का प्रधान अधिकारी।	গ্রন্থাগারিক	ग्रन्थागारिक	librarian.
पुस्तकालय	पु.	वह स्थान जिसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें संगृहीत हों।	পুস্তকালয়, গ্রন্থাগার	पुस्तकालय, ग्रन्थागार	library.
पुस्तकीय	वि.	1. पुस्तक संबंधी;	পুস্তক সম্বন্ধী;	पुस्तक सम्बन्धी;	pertaining to a book;
		2. पुस्तकों से प्राप्त होनेवाला।	পুস্তকে প্রাপ্ত	पुस्तके प्राप्त	found in the books.
पुस्तिका	स्त्री.	छोटी पुस्तक।	পুস্তিকা	पुस्तिका	booklet.
पूंछ	स्त्री.	1. पशु-पक्षी आदि के शरीर का वह लचीला भाग जो गुदा के ऊपर रीढ़ की हड्डी की संधि में से निकलकर कुछ दूर तक जाता है या लटकता रहता है, दुम;	পুচ্ছ, লাংগুল, লেজ;	पुच्छ, लाङ्गुल, लेज;	tail;
		2. किसी पदार्थ का पिछला भाग;	পশ্চাদ্‌ভাগ;	पश्चाद्‌भाग;	back portion (of a thing);
		3. पूंछ की तरह जुड़ी हुई वस्तु।	লেজুড়	लेजुड़	a tail like object attached with something.
पूंजी	स्त्री.	1. वह धन जिससे कोई व्यवसाय आरंभ किया गया हो, मूलधन;	পুঁজি, পুঁজী, ব্যবসায়ে নিযুক্ত মূলধন;	पुंजि, पुंजी, ब्यबसाये निजुक्त मूलधन;	capital, assets;
		2. संचित धन।	সঞ্চিত ধন	सञ्चित धन	wealth.
पूंजीदार	पु.	1. जिसके पास अधिक संपत्ति हो;	ধনীব্যক্তি;	धनीब्यक्ति;	wealthy person;
		2. वह जो आर्थिक लाभ के लिए किसी विशेष उद्योग या व्यवसाय में धन लगाता हो।	পুঁজিপতি, লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটায়	पुंजिपति, लाभेर उद्देश्ये कोनो ब्यबसाये जे मूलधन खाटाय	capitalist.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूंजीदारी	स्त्री.	पूंजीदार होने की अवस्था या भाव।	পুঁজিপতিত্ব	पुंजिपतित्व	the state of being a capitalist.
पूंजीपति	पु.	पूंजीदार।	পুঁজিপতি	पुंजिपति	capitalist.
पूंजीवाद	पु.	आधुनिक अर्थशास्त्र में वह आर्थिक प्रणाली या व्यवस्था जिसमें देश के प्रमुख उत्पत्ति एवं वितरण के साधनों पर पूंजीपतियों का व्यक्तिगत रूप से पूरा अधिकार होता है। इसमें धनवान लोग उत्पादन के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं।	পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র	पुंजिबाद, धनतन्त्र	capitalism.
पूंजीवादी	वि.	पूंजीवाद संबंधी।	ধনতন্ত্র সম্পর্কিত, পুঁজিবাদ সম্বন্ধী	धनतन्त्र सम्पर्कित पुंजिबाद सम्बन्धी	pertaining to capitalism.
	पु.	पूंजीवाद को माननेवाला या उसका अनुयायी।	পুঁজিবাদী, ধনতন্ত্রের সমর্থক বা অনুসরণকারী	पुंजीबादी, धनतन्त्रेर समर्थक बा अनुसरनकारी	one who believes in capitalism or follower of capitalism.
पूआ	पु.	पूरी की तरह का एक मीठा पकवान जो आटे में गुड या चीनी मिलाकर तलने से बनता है।	মালপুয়া	मालपुया	sweet fried small cake.
पूछ	स्त्री.	1. पूछने या पूछे जाने का भाव या क्रिया;	প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা;	प्रश्न, जिज्ञासा;	inquiry (after);
		2. आदर, कद्र।	সম্মান, কদর	सम्मान, कदर	(commanding of) respect.
पूछताछ	स्त्री.	किसी बात की पक्की जानकारी के लिए उसके विषय में एक या अनेक व्यक्तियों से बार-बार पूछना या प्रश्न करना।	জিজ্ঞাসাবাদ, অনুসন্ধান	जिज्ञासाबाद, अनुसन्धान	enquiry, investigation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूछना	स. क्रि.	1. किसी बात की जिज्ञासा से कोई प्रश्न करना;	জিজ্ঞাসাবাদ করা;	जिज्ञासाबाद करा;	to enquire;
		2. परीक्षा आदि के प्रसग में किसीके सामने इसलिए कुछ प्रश्न रखना कि वह उनका उत्तर दें;	প্রশ্ন করা;	प्रश्न करा;	to question;
		3. जवाब-तलब करना।	কৈফিয়ৎ তলব করা	कैफियत् तलब करा	to interrogate.
पूजक	पु.	पूजा करनेवाला, उपासक।	পূজক, উপাসক	पूजक, उपासक	worshipper.
पूजन	पु.	1. पूज्य वस्तु की की जानेवाली आराधना या वंदना;	আরাধন, পূজা;	आराधन, पूजा;	worshipping;
		2. आदर, सम्मान।	সমাদর, সম্মাননা	समादर, सम्मानना	treating with respect or hospitality.
पूजना	स. क्रि.	1. देवी-देवता को प्रसन्न एवं संतुष्ट करने के लिए यथाविधि पत्र-पुष्प अर्पित करना, ध्यान करना;	পূজা করা, অর্চনা করা;	पूजा करा, अर्चना करा;	to worship, to adore, to venerate;
		(ला.) 2. घूस देना, जेब गरम करना।	(আলঙ্কারিক) ঘুষ দেওয়া	(आलङ्कारिक) घुष देओया	(fig) to bribe.
पूजनीय	वि.	पूजा करने योग्य, आदर के योग्य।	পূজনীয়, পূজ্য, মাননীয় শ্রদ্ধেয়	पूजनीय, पूज्य, माननीय श्रद्धेय	venerable, deserving of honour.
पूजा	स्त्री.	1. पत्र-पुष्प आदि के समर्पण के साथ किसी विशिष्ट देवी-देवता का ध्यान, स्मरण आदि करने का कृत्य, अर्चना;	পূজা, অর্চনা, আরাধনা;	पूजा, अर्चना, आराधना;	worship, veneration, adoration;
		2. आदर-सत्कार, खातिरदारी;	সম্মাননা, সংবর্ধনা;	सम्मानना, संबर्धना;	honour;
		3. घूस, रिश्वत;	ঘুষ (আলঙ্কারিক);	घुष (आलङ्कारिक);	bribery;
		4. ताड़न, पिटाई।	প্রহার	प्रहार	beating.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूजित	वि.	जिसकी पूजा की गई हो।	পূজিত, অর্চিত	पूजित, अर्चित	worshipped.
पूज्य	वि.	1. पूजा किए जाने के योग्य;	পূজ্য পূজনীয়;	पूज्य, पूज्यनीय;	venerable, adorable;
		2. आदर आदि के योग्य, आदरणीय।	সম্মানযোগ্য, শ্রদ্ধেয়	सम्मानजोग्य, श्रद्धेय	deserving of honour.
पूज्यपाद	वि.	परमपूज्य और मान्य।	পূজ্যপাদ, অত্যন্ত পূজনীয়	पूज्यपाद, अत्यन्त पूजनीय	most respectable, most honourable.
पूज्यवर	वि.	पूज्यों में श्रेष्ठ।	পূজ্যবর, মান্যবর	पूज्यबर, मान्यबर	most honourable.
पूड़ी (पूरी)	स्त्री.	एक प्रकार का प्रसिद्ध व्यंजन जिसे साधारण रोटी आदि की तरह बेलकर घी या तेल में पकाते हैं।	লুচি	लुचि	unleavened fried cake.
पूत	पु.	पुत्र, बेटा।	পূত, পুত্র	पुत, पुत्र	son.
	वि.	पवित्र, शुद्ध, साफ किया हुआ।	পবিত্র, বিশুদ্ধ	पबित्र, बिशुद्ध	pure, cleaned.
पूनम	स्त्री.	पूर्णिमा।	পূর্ণিমা	पूर्निमा	full moon.
पूनी	स्त्री.	धुनी हुई रुई की मोटी बत्ती जो सूत कातने के काम में आती है।	(তুলার) পাঁজ	(तुलार) पांज	cotton-roll prepared for spinning.
पूरक	वि.	पूर्ति करनेवाला, कमी, त्रुटि आदि को दूर करनेवाला।	পূরক, পূর্তিকারক	पूरक, पूर्त्तिकारक	supplementary.
	पुं.	एक प्रकार का प्राणायाम जिसमें प्राणवायु को नाक द्वारा अन्दर पहुंचाते हैं।	প্রাণায়ামে বাহ্যবায়ুর অন্তঃপ্রবেশন	प्रानायामे बाह्यबायुर अन्त:प्रबेशन	closing the right nostril with the forefinger and then drawing up air through the left and then closing the left nostril and drawing up air through the right (as a religious exercise).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूरब	पु.	वह दिशा जिसमें सूर्य का उदय होता है।	পূরব, পূর্ব	पूरब, पूर्ब	east.
पूरबी	वि.	पूरब संबंधी, पूरब का।	পূর্বে, পূর্বদেশীয়	पूर्बे, पूर्बदेशीय	pertaining to east, eastern.
पूरा	वि.	1. जिसमें कोई भी स्थान खाली न बचा हो;	পুরা, পরিপূর্ণ, ভরতি;	पुरा, परिपूर्न, भरति;	full;
		2. जितना आवश्यक,उचित या संभव हो, भरपूर;	যাহা কম বা বেশী নয়, যথাপরিমাণ;	जाहा कम वा बेशी नय, जथापरिमान;	adequate;
		3. समग्र, समूचा, सारा;	সমগ্র, গোটা;	समग्र, गोटा;	whole;
		4. जो अधूरा न हो, समाप्त;	সম্পূর্ণ;	सम्पूर्न;	complete,
		5. (कामना या इच्छा) सिद्ध होना, सफल होना।	সফল, সিদ্ধ	सफल, सिद्ध	fulfilled.
पूरित	वि.	पूर्ण किया या भरा हुआ, परिपूर्ण।	পূরিত, ভরতি পরিপূর্ণ	पूरित, भरति, परिपूर्न	filled, completed.
पूर्ण	वि.	1. जो पूरी तरह से भरा हुआ हो;	পূর্ণ, ভরা, ভরতি;	पूर्न, भरा, भरति;	full;
		2. किसी बात या तत्व से भरा हुआ;	পূরিত, ভরা;	पूरित, भरा;	filled with or full of;
		3. समूचा, समस्त, सारा, संपूर्ण;	সমগ্র, অখন্ড, সমস্ত;	समग्र, अखन्ड, समस्त;	complete, all, entire;
		4. हर तरह से ठीक और पूरा;	যাহাতে কোনো কমতি ঘাটতি নাই;	जाहाते कोनो कमति घाटति नाइ;	perfect;
		5. सिद्ध, सम्पन्न।	সিদ্ধ, সফল	सिद्ध, सफल	fulfilled.
पूर्णकाम	वि.	जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों।	পূর্ণকাম, আপ্তকাম	पूर्नकाम, आप्तकाम	one whose wishes are fulfilled, gratified.
पूर्णचन्द्र	पु.	पूर्णिमा का चन्द्रमा जो अपनी सब कलाओं से पूर्ण होता है।	পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ	पूर्नचन्द्र, पूर्निमार चांद	the full moon.
पूर्णतः	क्रि. वि.	पूरी तरह से।	পূর্ণতঃ, সম্পূর্ণরূপে, পুরাপুরি	पूर्नतः, सम्पूर्नरूपे, पुरापुरि	completely, fully, wholly.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूर्णतया	क्रि. वि.	पूरी तरह से, पूर्णरूप से।	সম্পূর্ণরূপে, পুরাপুরি	सम्पूर्नरूपे, पुरापुरि	completely.
पूर्णता	स्त्री.	1. पूर्ण होने की अवस्था या भाव;	পূর্ণতা, পূর্ণত্ব;	पूर्नता, पूर्नत्व;	fullness;
		2. ऐसी स्थिति जिसमें किसी प्रकार की कमी या त्रुटि न हो।	কোনো প্রকার কমতি বা ঘাটতি না থাকা	कोनो प्रकार कमति बा घाटति ना थाका	perfection.
पूर्णमासी	स्त्री.	शुक्लपक्ष की अन्तिम तिथि जिसमें चन्द्रमा अपनी सोलहों कलाओं से युक्त हो जाता है।	পূর্ণমাসী, পূর্ণিমা	पूर्नमासी, पूर्निमा	fifteenth day of the bright half of lunar month.
पूर्णविराम	पु.	वाक्य की समाप्ति का सूचक चिह्न जो कि खड़ी पाई के रूप में होता है।	দাঁড়ি, ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণযতিচিহ্ন, ফুলস্টপ	दाँड़ि, इंरेजि भाषाय ब्यबहृत पूर्नजतिचिह्न, फुलस्टप्	full stop.
पूर्णांक		1. पूरी संख्या;	পূর্ণাঙ্ক, পূর্ণরাশি;	पूर्नाङ्क, पूर्नराशि;	a full figure or number;
		2. अविभक्त संख्या;	অবিভক্ত সংখ্যা;	अबिभक्त संख्या;	non-fractional number;
		3. किसी प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित अंक।	পূর্ণমান	पूर्नमान	full marks.
पूर्णाहुति	स्त्री.	1. होम कर्म की अंतिम आहुति;	পূর্ণাহুতি, হোমান্তে হোমদ্রব্যসমূহের আহুতি;	पूर्नाहुति, होमान्ते होमद्रब्यसमूहेर आहुति;	the burnt offering which concludes or completes a ceremony;
		2. किसी कार्य का वह अंग जिसमें वह पूर्णता को प्राप्त हो, अंतिम कृत्य।	কোনো কর্মের সমাপ্তি কালে করণীয় ক্রিয়া	कोनो कर्मेर समाप्ति काले करनीय क्रिया	finishing touch.
पूर्णिमा	स्त्री.	पूर्णमासी।	পূর্ণিমা, পূর্ণমাসী	पूर्निमा, पूर्नमासी	the day of fullmoon.
पूर्ति	स्त्री.	1. पूरे या पूर्ण होने की क्रिया या भाव;	পূর্তি, পূরণ;	पूर्ति, पूरन;	fulfilment;
		2. कमी पूरी करने का काम;	ভরতি করণ;	भरति करन;	filling up;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. अर्थशास्त्र में वे वस्तुएं जो किसी विशिष्ट मूल्य पर बिकने के लिए बाजार में आई हों।	আমদানি	आमदानि	supply.
पूर्व	वि.	1. जो किसी से पहले अस्तित्व में आया हो या बना हो;	আদ্য, আদি, প্রথম;	आद्य, आदि, प्रथम;	first;
		2. जो सबसे आगे, सामने या पहले हो।	সর্বাগ্র, সম্মুখ	सर्वाग्र, सम्मुख	being before or in front (of).
	पु.	वह दिशा जिसमें सूर्योदय होता है, पश्चिम के सामने की दिशा।	পূর্ব, পূর্বদিক্, প্রাচী	पूर्व, पूर्वदिक्, प्राची	east.
	क्रि. वि.	पहले, पेश्तर।	প্রথমে, আগে	प्रथमे, आगे	before, prior, beforehand.
पूर्वकालिक	वि.	पूर्वकाल सम्बन्धी, पुराना, पहले का।	পূর্বকালিক, পূর্বকালীন	पूर्वकालिक, पूर्वकालीन	belonging to former times.
पूर्वकालीन	वि.	पुराने जमाने का, प्राचीन।	পূর্বকালীন, পূর্বকালিক	पूर्वकालीन, पूर्वकालिक	see 'पूर्वकालिक'.
पूर्वग्रह (पूर्वाग्रह)	पु.	किसी अनिश्चित या विवादास्पद विषय के संबध में वह आग्रहपूर्ण धारणा जो पहले से बिना जाने या समझे-बूझे मन में स्थिर कर ली गई हो।	বদ্ধমূল ধারণা, পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত বিশেষ মনোভাব	बद्धमूल धारना पूर्व थेके स्थिरीकृत विशेष मनोभाव	prejudice, bias.
पूर्वज	पु.	दादा-परदादा आदि पूर्व पुरुष, पुरखा।	পূর্বজ, পূর্বপুরুষ	पूर्बज, पूर्बपुरुष	ancestor, forefather.
पूर्वजन्म	पु.	वर्तमान जन्म से पहले का जन्म, पिछला जन्म।	পূর্বজন্ম, এই জন্মের পূর্ববর্তী জন্ম	पूर्बजन्म, एइ जन्मेर पूर्बवर्ती जन्म	former birth, previous birth.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूर्वपक्ष	पुं.	1. किसी शास्त्रीय विषय के सम्बन्ध में उठाया हुआ ऐसा, प्रश्न, बात या शंका जिसका दूसरे पक्ष को समाधान करना पड़े	পূর্বপক্ষ, তর্কশাস্ত্রে শাস্ত্রীয় প্রশ্ন;	पूर्बपक्ष, तर्कशास्त्रे शास्त्रीय प्रश्न;	first objection to an assertion in any discussion;
		2. किसी बात का वह पूर्व रूप जिसमें सभी संभावित शंकाओं को उठाया जाता है और फिर एक-एक करके इनका खण्डन करते हुए पीछे सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की जाती है;	বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়;	बिचारेर जन्य उपस्थापित बिषय;	proposition, assertion;
		3. अभियोग में वादी द्वारा उपस्थित किया हुआ मत;	বাদিপক্ষের অভিযোগ;	बादिपक्षेर अभिजोग;	first statement of the plaintiff;
		4. चंद्र मास का कृष्णपक्ष।	কৃষ্ণপক্ষ	कृष्नपक्ष	the fortnight of waning moon.
पूर्वराग	पु.	नायक नायिका में श्रवण, दर्शन आदि के कारण मिलन से पूर्व उत्पन्न होनेवाला अनुराग।	পূর্বরাগ, শ্রবণ বা দর্শনহেতু জাতানুরাগ নায়ক নায়িকার মিলনপূর্ব দশা-বিশেষ	पूर्बराग, श्रबन बा दर्शनहेतु जातानुराग नायक नायिकार मिलनपूर्ब दशा-बिशेष	earliest or incipient affection, love between two persons which springs from previous cause.
पूर्वरूप	पु.	1. वह रूप जो पहले रहा हो; 2. ऐसा लक्षण जिसमें किसी भावी वस्तु के आगमन की सूचना मिले, आरंभिक लक्षण, आसार।	পূর্বরূপ; পূর্বাভাস	पूर्बरूप; पूर्बाभास	previous form; symptom of something imminent.
पूर्ववत्	वि.	पहले की ही तरह।	পূর্ববৎ	पूर्बबत्	as before.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूर्ववर्ती	वि.	जो पहले से वर्तमान हो या रह चुका हो, पूर्व में या पहले रहने या होनेवाला, पुराने समय की घटनाओं का विवरण।	পূর্ববর্তী, পূর্বস্থ, আগেকার, অতীত কালের	पूर्बबर्ती, पूर्बस्थ, आगेकार, अतीत कालेर	existing before, happening before.
पूर्ववृत्त	पु.	पूर्वकाल की बातें, इतिहास।	পূর্ববৃত্ত, পূর্ব-সংঘটিত বিষয়	पूर्बबृत्त, पूर्ब-संघटित बिषय	former event, antecedent.
पूर्वसूचना	स्त्री.	पहले से दी जानेवाली सूचना या चेतावनी।	পূর্বসূচনা, পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ	पूर्बसूचना, पूर्बाभास, सतर्कीकरन	information given beforehand, warning.
पूर्वानुमान	पुं.	किसी भावी काम या बात के स्वरूप आदि के संबंध में पहले से किया जानेवाला अनुमान या कल्पना।	আগে থেকে অনুমান, পূর্বপরিকল্পনা	आगे थेके अनुमान, पूर्बपरिकल्पना	forecast.
पूर्वापर	वि.	आगे और पीछे का।	পূর্বপর, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী	पूर्बपर, पूर्बबर्ती ओ परबर्ती	prior and subsequent.
पूर्वार्द्ध (पूर्वार्ध)	पु.	शुरू का आधा हिस्सा।	পূর্বার্দ্ধ	पूर्बार्द्ध	the first half.
पूर्वाह्न	पु.	दिन का पहला भाग, दिन के पहले दो प्रहर।	পূর্বাহ্ন, দিনের প্রথম ভাগ	पूर्बाह्न, दिनेर प्रथम भाग	earlier part of the day, forenoon.
पूर्वी	वि.	पूर्व दिशा से सम्बन्ध रखनेवाला, पूरब का।	পূর্বদেশীয়, পূর্বদিক্‌সম্বন্ধী	पूर्बदेशीय, पूर्बदिक्सम्बन्धी	eastern, oriental.
पूर्वोक्त	वि.	जिसका जिक्र पहले आ चुका हो, जो पहले कहा जा चुका हो।	পূর্বোক্ত, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে	पूर्बोक्त, पूर्बे जाहा बला हइयाछे	afore-mentioned, aforesaid.
पूर्वोत्तर	वि.	पूर्व और उत्तर के बीच का।	পূর্বোত্তরাস্থিত	पूर्बोत्तबास्थित	north-eastern.
पूर्वोपाय	पु.	रक्षा व्यवस्था आदि का ध्यान रखते हुए पहले से किया जानेवाला उपाय।	পূর্বে চিন্তিত ব্যবস্থা, সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা	पूर्बे चिन्तित ब्यबस्था सतर्कता-मूलक ब्यबस्था	precautionary measure.
पूला (पूली-स्त्री.)	पु.	घास, तिनकों आदि का बना हुआ गट्ठर।	পূল, পূলক, গুচ্ছ	पूल, पूलक, गुच्छ	small bundle of grass or straw.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पूस	पु.	पौष मास, अगहन और माह के बीच का मास।	পৌষ	पौष	tenth month of Indian calendar.
पृथक्	वि.	अलग, जुदा, भिन्न।	আলাদা, ভিন্ন	आलादा, भिन्न	separate, different.
पृथक्करण	पु.	पृथक् या अलग करने की क्रिया या भाव।	পৃথকীকরণ, বিযুক্ত বা আলাদা করণ	पृथकीकरन, बिजुक्त बा आलादा करन	separating, separation.
पृथ्वी (पृथिवी)	स्त्री.	1. धरती, जमीन; 2. सौर जगत् का पांचवां सबसे बड़ा ग्रह जिसमें हम लोग रहते हैं;	পৃথ্বী, ধরিত্রী, ধরা; ভূমন্ডল, জগৎ;	पृथ्वी, धरित्री, धरा; भूमन्डल, जगत्;	earth, world; largest fifth planet of solar family;
		3. पंचमहाभूतों में से एक।	পঞ্চম ভূত ক্ষিতি	पञ्चम भूत क्षिति	earth is considered as one of the five primary elements.
पृथ्वीपति	पु.	राजा।	পৃথ্বীপতি, রাজা	पृथ्वीपति, राजा	king, lord of the earth.
पृष्ठ	पु.	1. पीठ, किसी वस्तु का पिछला तल या भाग;	পৃষ্ঠ, পিঠ, পিছন দিক্;	पृष्ठ, पिठ, पिछन दिक्;	back, the hinder part or rear of any thing;
		2. किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सतह;	উপরিভাগ, তল;	उपरिभाग, तल;	upper side, surface;
		3. पुस्तक के पन्ने का एक ओर का भाग।	পৃষ্ঠা	पृष्ठा	page.
पृष्ठपोषक	वि.	सहायता करनेवाला, रक्षक।	পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, সমর্থক	पृष्ठपोषक, सहायक, समर्थक	one who supports or backs, helper.
पृष्ठभूमि	स्त्री.	1. पहले की वे सब बातें और परिस्थितियाँ जिनके आगे या सामने कोई विशेष बात या घटना हो और जिनके साथ मिलान करने पर उस बात या घटना का रूप स्पष्ट होता है, पहले की बातें।	পটভূমি, পটভূমিকা;	पटभूमि, पटभूमिका;	background;
		2. पिछला भाग।	পশ্চাদ্ভাগ	पश्चाद्भाग	rear portion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पृष्ठांकन	पु.	लेनदेन के दस्तावेजों की पीठ पर यह लिखना कि इसका भुगतान अमुक व्यक्ति या संस्था को दे दिया जाए।	পৃষ্ঠলেখ, অধালেখ	पृष्ठलेख, अधालेख	endorsement.
पृष्ठांकित	वि.	जिसकी पीठ पर पृष्ठांकन किया गया हो।	পৃষ্ঠলিখিত, অধোলিখিত	पृष्ठलिखित, अधोलिखित	endorsed.
पेंग (पींग)	स्त्री.	झूलने के समय झूले या हिंडोले का आगे-पीछे जाना।	দোল, দোলন	दोल, दोलन	swinging.
पेंच (पेच)	पु.	1. एक प्रकार की कील जिसमें चूड़ियाँ बनी रहती हैं;	পেঁচ, স্ক্রু;	पेंच, स्क्रु;	screw;
		2. चाल, घुमाव-फिराव, चालाकी से भरी हुई युक्ति	কূট চাল, চক্রান্ত, ফিকির;	कूट चाल, चक्रान्त, फिकिर;	trick;
		3. चारों ओर लपेटी जानेवाली चीज का प्रत्येक फेरा या लपेट;	পাক, মোচড়;	पाक, मोचड़;	turn, winding;
		4. लड़ाई जानेवाली पतंगों की डोर का एक दूसरे से उलझना;	ঘুড়ির পরস্পর জড়াজড়ি;	घुड़िर परस्पर जड़ाजड़ि;	entwining of the threads of two flying kites;
		5. एक आभूषण जो पगड़ी में आगे की ओर लगाया जाता है।	পাগড়িতে লাগান হয় এমন অলঙ্কার-বিশেষ	पागड़ीते लागान हय एमन अलङ्कार-बिशेष	kind of ornament worn on the pagdi
पेंदा (पेंदी-स्त्री.)	पु.	1. किसी गहरी वस्तु का निचला भाग जिसके बल पर वह स्थित होती है;	ভিত;	भित;	base;
		2. किसी गहरी वस्तु का तला।	কোনো গভীর বস্তুর তলা	कोनो गभीर बस्तुर तला	bottom.
पेंसिल	स्त्री.	एक प्रकार की लेखनी जो लकड़ी या किसी धातु के पोले लंबोतरे टुकड़े में विशेष प्रकार के मसाले की सलाई बैठाकर तैयार की जाती है।	পেনসিল	पेनसिल	pencil.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पेचकश	पु.	1. वह उपकरण जिससे पेचों को घुमा-घुमाकर जड़ते या निकालते हैं;	স্ক্রু আঁটিবার যন্ত্রবিশেষ, পেঁচকষ;	स्क्रू आंटिवार जन्त्रबिशेष पेंचकष;	screw-driver;
		2. एक प्रकार का चक्रदार उपकरण जिससे बोतल का कार्क निकाला जाता है।	বোতলের বা শিশির কর্ক খুলিবার যন্ত্র বিশেষ	बोतलेर वा शिशिर कर्क खुलिबार जन्त्र बिशेष	cork-screw.
पेचदार	वि.	1. जिसमें किसी तरह का पेच लगा हो;	স্ক্রুযুক্ত, যাহাতে পেঁচ-কাটা রহিয়াছে;	स्क्रूजुक्त, जाहाते पेंच-काटा रहियाछे;	fitted with a screw;
		2. जिसमें कोई उलझन या झमेला हो।	যাহাতে পেঁচ লাগিয়া গিয়াছে	जाहाते पेंच लागिया गियाछे	intricate.
पेचिश	स्त्री.	एक उदर-रोग जिसमें पेट में ऐंठन होती है और पाखाने में आंव आती है।	আমাশয়	आमाशय	dysentery.
पेचीदगी	स्त्री.	1. पेचीदा होने की अवस्था या भाव;	পেঁচান, পেঁচানো;	पेंचान, पेंचानो;	being twisted, twisting;
		2. उलझन।	পেঁচাল ব্যাপার	पेंचाल ब्यापार	complication.
पेचीदा	वि.	घुमाव-फिराववाला, उलझन वाला, कठिन, जटिल।	পেঁচাল, জটিল	पेंचाल, जटिल	complicated, intricate.
पेट	पु.	1. शरीर के मध्य भाग का वह सामनेवाला अंग जो छाती के नीचे और पेड़ू के ऊपर रहता है;	পেট, উদর, জঠর;	पेट, उदर, जठर;	belly, stomach, abdomen;
		2. गर्भ अथवा गर्भाशय;	গর্ভ;	गर्भ;	womb;
		3. किसी वस्तु के बीच का खोखला भाग।	শূন্যগর্ভ স্থান	शून्यगर्भ स्थान	cavity.
पेटपूजा	स्त्री.	भोजन करना, खाना।	পেটপূজা	पेटपूजा	eating.
पेटी	स्त्री.	1. छोटा पिटारा, छोटा संदूक;	পেটিকা;	पेटिका;	small box or chest;
		2. कमर में बांधने का तसमा, कमरबंद।	পেটী, পেটি, কোমরবন্ধ	पेटी, पेटि, कोमरबन्ध	belt, girdle.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पेटीकोट	पु.	छोटे घेरवाला एक प्रकार का घाघरा जिसे स्त्रियां साड़ी या धोती के नीचे पहनती हैं।	পেটিকোট, সায়া	पेटिकोट, साया	petticoat.
पेटू	वि.	1. बहुत अधिक खानेवाला; 2. जिसे सदा खाने की चिंता लगी रहे।	পেটুক; যে সদাই উদরাভরণে ব্যস্ত	पेटुक; जे सदाइ उदराभरने ब्यस्त	excessive eater; gluttonous.
पेठा	पु.	1. सफेद कुम्हड़ा; 2. उक्त की बनी मिठाई या मुरब्बा।	চাল কুমড়া, চালকুমড়ার মিঠাই ও মোরব্বাবিশেষ	चाल कुमड़ा; चालकुमड़ार मिठाइ ओ मोरब्बाविशेष	species of gourd; kind of sweetmeat prepared of (white) gourd.
पेड़	पु.	वृक्ष।	বৃক্ষ	बृक्ष	tree.
पेड़ा	पु.	खोए और खांड या चीनी से बनी हुई एक गोलाकार चिपटी टिकिया के आकार की मिठाई।	পেড়া, ক্ষীরের মিঠাইবিশেষ	पेड़ा क्षीरेर मिठाइविशेष	kind of sweetmeat.
पेडू	पु.	शरीर का नाभि और उपस्थ के बीच का भाग।	নাভি ও উপস্থের মধ্যবর্তী দেহাংশ	नाभि ओ उपस्थेर मध्यबर्ती देहांश	part of the body lying between the navel and the pubic region.
पेय	वि.	पिए जाने के योग्य।	পেয়, পানীয়	पेय, पानीय	drinkable.
पेरना	स. क्रि.	1. वनस्पति, बीजों आदि में से उनका तरल अंश निकालने के लिए उन्हें कोल्हू आदि में डालकर दबाना; 2. किसी को बहुत अधिक कष्ट देना।	নিষ্কাশন করা, ঘানি বা উক্ত-প্রকার যন্ত্রে পিষিয়া তৈলাদি নিষ্কাশন করা; পিষা, পীড়ন করা	निष्काशन करा, घानि बा उक्त-प्रकार जन्त्रे पिषिया तैलादि निष्काशन करा; पिषा, पीड़न करा	to crush (sugarcane, linseed etc.); to torment.
पेलना	स. क्रि.	1. दबाकर या ढकेलकर किसी को कहीं धंसाना; 2. बल-प्रयोग करना;	চাপ দিয়া বা ঠেলা দিয়া ভিতরে ঢুকান; বলপ্রয়োগ করা;	चाप दिया बा ठेला दिया भितरे ढुकना; बलप्रयोग करा;	to thrust in, to penetrate, to exercise force, to impel;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. किसी पर आक्रमण करने के लिए हाथी आदि को आगे बढ़ाना।	উদ্দেশ্যে হাতী প্রভৃতি আগাইয়া দেওয়া	उद्देश्ये हाती प्रभृति आगाइया देओया	drive on forcibly (elephant etc.).
पेश	अव्य.	सामने, आगे, समक्ष।	পেশ, সম্মুখে, সমক্ষে	पेश, सम्मुखे, समक्षे	in front of, before
पेश करना	स. क्रि.	प्रस्तुत करना, सामने उपस्थित करना।	পেশ করা, সম্মুখে স্থাপন করা	पेश करा, सम्मुखे स्थापन करा	to present, to put forth.
पेशकश	स्त्री.	1. उपहार, भेंट;	উপহার, ভেট;	उपहार, भेट;	present (to a superior);
		2. प्रस्ताव, तजवीज।	প্রস্তাব	प्रस्ताव	proposal.
पेशकार	पु.	1. पेश करनेवाला, आगे रखनेवाला;	পেশকার,যে কর্মচারী কাগজপত্রাদি পেশ করেন;	पेशकार,जे कर्मचारी कागजपत्रादि पेश करेन;	person who introduces, puts forth (a thing etc.);
		2. न्यायालय में वह कर्मचारी जो न्यायाधीश के समक्ष मुकदमों के कागज-पत्र प्रस्तुत करता है।	যিনি আদালতে বিচারকের সামনে মোকদ্দমার কাগজপত্র উপস্থিত করেন	जिनि आदालते बिचारकेर सामने मोकद्दमार कागजपत्र उपस्थित करेन	court-clerk.
पेशगी	स्त्री.	मूल्य, पारिश्रमिक आदि का वह अंश जो कोई वस्तु खरीदने से पहले अथवा कोई काम करने से पहले ही दिया जाता है, अग्रिम, अगाऊ, वेतन का वह भाग जो नियत तिथि से पूर्व ही दे दिया जाता है।	অগ্রিম, আগাম, বায়না, দাদন	अग्रिम, आगाम, बायना, दादन	advance, earnest money.
पेशा	पुं.	वह व्यवसाय या धंधा जिससे किसी की जीविका चलती हो।	পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায়	पेशा, बृत्ति, ब्यबसाय	occupation, trade, profession.
पेशाब	पु.	मूत, मूत्र।	পেশাব, প্রস্রাব, মূত্র	पेशाब, प्रस्राब, मूत्र	urine.
पेशाबघर	पु.	पेशाब करने के लिए बनाया हुआ स्थान।	প্রস্রাবাগার	प्रस्रावागार	urinal.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पेशी	स्त्री.	1. पेश होने की अवस्था या भाव;	পেশ করা (যেমন বিচারকের সম্মুখে মোকদ্দমার নথিপত্র);	पेश करा (जेमन बिचारकेर सम्मुखे मोकद्दमार नथिपत्र);	being put before, coming before (as a case before a judge);
		2. न्यायाधीश के सामने मुकदमे का पेश होना;	বিচারকের কাছে মোকদ্দমা পেশ হওয়া;	बिचारकेर काछे मोकद्दमा पेश हओया;	hearing of a law suit;
		3. शरीर के अन्दर मांस के रेशों की वह गुलथी जिससे भिन्न-भिन्न अंगों को मोड़ने, सिकोड़ने आदि में सहायता मिलती है।	পেশী, যাহার সংকোচন প্রসারণে অংগ চালিত হয় দেহের এরূপ মাংসল অংশবিশেষ	पेशी, जाहार संकोचन प्रसारने अङ्ग चालित हय देहेर एरूप मांसल अंशविशेष	muscle.
पेशेवर	पु.	पेशे के तौर पर कोई कार्य करनेवाला।	পেশাদার	पेशादार	professional.
पैंठ	स्त्री.	1. ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थान पर लगनेवाला वह अस्थायी बाजार जो सप्ताह के किसी एक दिन लगा करता है;	গ্রামাঞ্চলের সাপ্তাহিক হাট;	ग्रामांचलेर साप्ताहिक हाट;	temporary market;
		2. बाजार लगने का दिन।	হাটের দিন	हाटेर दिन	marketing day.
पैंतरा	पु.	1. तलवार आदि चलाने या कुश्ती आदि लड़ने में भिड़ने या वार करने से पहले एक दूसरे से बचते हुए कुशलतापूर्वक घूम-फिरकर विभिन्न मुद्राओं में स्थित होना;	পাঁয়তারা;	पांयतारा;	preparatory attitudes or movements of a wrestler;
		2. चालाकी से भरी हुई कोई चाल।	শঠতাপূর্ণ চাল, চালবাজি	शठतापूर्न चाल, चालबाजि	stratagem.
पैंतरेबाज	पु.	1. वह जो कुश्ती लड़ने या हथियार आदि चलाने का ठीक ढंग जानता हो;	যে ব্যক্তি পাঁয়তারা করতে যান,	जे ब्यक्ति पांयतारा करते जान;	person who knows the way of wrestling or using the arms;
		2. चालबाज।	চালবাজ, চালিয়াৎ	चालबाज, चालियात्	strategist, dodger.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पैंतरेबाजी	स्त्री.	पैंतरेबाज होने की अवस्था, कला या भाव।	চালবাজি, চালিয়াতি	चालबाजि, चालियाति	strategy, dodge.
पैंतालीस	वि.	जो संख्या में चालीस से पांच अधिक हो, चालीस और पांच।	পয়তাল্লিশ	पयताल्लिश	forty-five.
	पु.	चालीस और पांच के योग की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है – 45	(৪৫) এই সংখ্যা	(45) एइ संख्या	number forty-five.
पैंती	स्त्री.	तांबे आदि की बनी मुंदरी जिसे पवित्रता की दृष्टि से अनामिका में पहनते हैं।	অনামিকায় পরা হয় এমনি একটি পবিত্র তামার আংটি	अनामिकाय परा हय एमनि एकटि पबित्र तामार आंटि	a copper ring considered to be very holy worn in the ring finger.
पैंतीस	वि.	जो संख्या में तीस से पांच अधिक हो, तीस और पांच।	পঁয়ত্রিশ	पयंत्रिश	thirty-five.
	पु.	तीस और पांच के योग की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है – 35.	(৩৫) এই সংখ্যা	(35) एइ संख्या	the number thirty-five.
पैंसठ	वि.	जो संख्या में साठ से पांच अधिक हो, साठ और पांच।	পঁয়ষট্টি	पंयषट्टि	sixty-five.
	पु.	साठ और पांच के योग की संख्या जोकि इस प्रकार लिखी जाती है – 65	(৬৫) এই সংখ্যা	(65) एइ संख्या	the number sixty-five.
पैगंबर	पु.	मनुष्यों के पास ईश्वर का संदेश पहुँचानेवाला, ईश्वर का दूत।	পয়গম্বর, ঈশ্বর প্রেরিত দূত	पयगम्बर, ईश्वर प्रेरित दूत	prophet.
पैगाम	पु.	किसी को किसी के द्वारा भेजा जानेवाला संदेश या समाचार।	অন্যের মারফত প্রেরিত বার্তা	अन्येर मारफत प्रेरित बार्ता	message.
पैठ	स्त्री.	प्रवेश, पहुंच, गति।	প্রবেশ, গতি	प्रबेश, गति	access (to).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पैठना	अ. क्रि.	किसी स्थान विशेषत: किसी गहरे स्थान के अन्दर प्रवेश करना, घुसना।	ভিতরে প্রবেশ করা	भितरे प्रवेश करा	to have access, to enter.
पैड़ी	स्त्री.	मकानों आदि में ऊपर चढ़ने की सीढ़ी।	পৈঠা, সিঁড়ি	पैठा, सिंड़ि	staircase.
पैतृक	वि.	1. पिता सम्बन्धी;	পৈতৃক, পিতৃসম্বন্ধীয়;	पैतृक, पितृसम्बन्धीय;	relating to father;
		2. पूर्वजों के समय से चला आया हुआ, पुरखों का।	পূর্বপুরুষাগত	पूर्वपुरुषागत	ancestral.
पैदल	वि.	पांव-पांव चलनेवाला, बिना सवारी के चलनेवाला।	পয়দল, পায়দল	पयदल, पायदल	pedestrian.
	पु.	1. वह सिपाही जिसे सवारी न मिलती हो और जो पैदल ही चलता हो;	পদাতিক;	पदातिक;	footman, infantryman;
		2. पांव-पांव चलना;	পায়ে হাঁটা;	पाये हांटा;	to walk on foot;
		3. शतरंज का एक मुहरा जो सीधे चलता है और आड़े मारता है।	দাবার বড়ে	दाबार बड़े	piece of chess which goes straight, pawn.
पैदाइश	स्त्री.	उत्पत्ति, प्रादुर्भाव।	উৎপত্তি, প্রাদুর্ভাব	उत्पत्ति, प्रादुर्भाव	birth, production.
पैदाइशी	स्त्री.	जन्मजात, कुदरती।	জন্মগত, স্বাভাবিক	जन्मगत, स्वाभाविक	inborn, natural.
पैदा करना	स. क्रि.	1. उत्पन्न करना;	উৎপন্ন করা;	उत्पन्न करा;	to produce, to make, to manufacture;
		2. कमाना, अर्जन करना।	কামান	कामान	to earn.
पैदावार	स्त्री.	अन्न आदि जो खेत में बोने से प्राप्त होता है, फसल।	ফসল, শস্য	फसल, शस्य	crop, land-produce.
पैना (पैनी स्त्री.)	वि.	जिसकी धार बहुत तेज हो, तीक्ष्ण।	অত্যন্ত ধারাল, তীক্ষ্ণ	अत्यन्त धाराल, तीक्ष्न	sharp, cute.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पैबंद	पु.	फटे हुए कपड़े की मरम्मत करने के लिए ऊपर से लगाया जानेवाला कपड़े का टुकड़ा।	তালি	तालि	patch.
पैमाइश	स्त्री.	1. नापने या मापने की क्रिया या भाव;	মাপ;	माप;	measurement;
		2. विशेष रूप से जमीनों आदि का क्षेत्रफल जानने के लिए की जानेवाली नाप।	জরিপ	जरिप	survey of land.
पैमाना	पु.	1. वह साधन जिससे कोई वस्तु नापी जाए, नाप;	যাহা দ্বারা কোনো জিনিস মাপা যায়;	जाहा द्वारा कोनो जिनिस मापा जाय;	scale, measure (for dry or we goods);
		2. शराब पीने का पात्र।	মদ্যপাত্র	मद्यपात्र	peg (for drinking liquor).
पैर	पु.	1. शरीर का वह अंग जिस पर खड़े होने की दशा में शरीर का सारा भार रहता है तथा जिससे प्राणी चलते हैं, पांव, चरण;	পদ, পা;	पद, पा;	foot;
		2. पैर का निशान, चरण- चिह्न;	চরনচিহ্ন;	चरनचिह्न;	foot-mark, foot-print;
		3. वह स्थान जहां खेत से फसल काटकर दाने निकालने के लिए फैलाई जाती है, खलिहान।	খামার	खामार	threshing floor.
पैरवी	स्त्री.	अभियोग या मुकदमे के सम्बन्ध में की जानेवाली कारवाइयां जो जीतने या अपना पक्ष प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए की जाती हैं।	পক্ষসমর্থন, বাদী বা বিবাদীর পক্ষসমর্থন	पक्षसमर्थन, बादी वा बिबादीर पक्षसमर्थन	advocacy, pursuing a case etc.
पैरवीकार	पु.	पैरवी करनेवाला।	উকিল	उकिल	advocate, pleader.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पैरा	पु.	लेख आदि का वह अंश जिसमें कोई बात कही गई हो और जिसकी पहली पंक्ति आरंभ में कुछ जगह छोड़कर लिखी गई हो।	প্যারা অনুচ্ছেদ	प्यारा, अनुच्छेद	para, paragraph.
पैरोकार	पु.	पैरवीकार।	যে-ব্যক্তি কোনো পক্ষ সমর্থন করে	जे-ब्यक्ति कोनो पक्ष समर्थन करे	one who looks after a law-suit.
पैशाचिक	वि.	1. पिशाच सम्बन्धी;	পৈশাচিক, পিশাচ সম্বন্ধীয়;	पैशाचिक, पिशाच सम्बन्धीय;	relating to fiend, fiendish, demonic;
		2. पिशाचों की तरह का और वीभत्स।	পিশাচসুলভ	पिशाचसुलभ	demonical, horrible.
पैसा	पु.	1. तांबे का सिक्का (रुपये का सौवां भाग);	পয়সা;	पयसा;	paisa (hundredth part of a rupee);
		2. धन-सम्पत्ति।	অর্থ, ধন	अर्थ, धन	money, wealth.
पोंगा	वि.	निरा मूर्ख, नासमझ।	নিরেট মূর্খ, অবুঝ	निरेट मूर्ख, अबुझ	hollow, block-head.
पोंगापंथी	वि.	मूर्खतापूर्ण।	মূর্খতাপূর্ণ	मूर्खतापूर्न	foolish, stupid.
	स्त्री.	मूर्खतापूर्ण आचरण या व्यवहार।	মূর্খতাপূর্ণ আচরণ বা ব্যবহার	मूर्खतापूर्न आचरन बा ब्यबहार	stupidity, foolishness.
पोंछना (पोछना)	स. क्रि.	किसी वस्तु पर हाथ, कपड़ा आदि फेरकर उस पर लगा हुआ तरल पदार्थ उठा लेना या धूल आदि साफ कर देना।	পোঁছা, মোছা, কাপড় ইত্যাদি দিয়া ঘসা	पोंछा, मोछा कापड़ इत्यादि दिया घसा	to wipe, to clean.
	पु.	पोंछने के काम आनेवाला कपड़ा।	ঝাড়ন	झाड़न	duster.
पोखर (पोखरा)	पु.	वह गहरा तथा विस्तृत गड्ढा जिसमें बरसाती पानी जमा होता हो, छोटा ताल।	পুকুর	पुकुर	pond.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पोटली	स्त्री.	छोटी गठरी, छोटे से वस्त्र में कस कर बांधी हुई छोटी सी वस्तु।	পুঁটলি	पुंटलि	small bundle.
पोत	पु.	1. कपड़े की बुनावट; 2. जहाज।	কাপড়ের বুনানি; পোত, জাহাজ	कापड़ेर बुनानि; पोत जाहाज	texture; a ship.
	स्त्री.	कांच का छोटा दाना।	পুঁতি	पुंति	small glass bead.
पोतना	स. क्रि.	किसी तरल पदार्थ को अन्य वस्तु पर फैलाकर लगाना, किसी वस्तु पर किसी गीले या सूखे पदार्थ को इस प्रकार लगाना कि उसकी उस पर तह जम जाए।	কোনো তরল জিনিস অন্য জিনিসের গায়ে মাখান, লেপা, প্রলেপ দেওয়া	कोनो तरल जिनिस अन्य जिनिसेर गाये माखान, लेपा, प्रलेप देओया	to besmear, to whitewash.
पोतपरिवहन	पु.	जलमार्ग यातायात।	পোত পরিবহন	पोत परिबहन	shipping.
पोता (पोती स्त्री.)	पु.	बेटे का बेटा।	পৌত্র, পৌত্রী	पौत्र, पौत्री	grand-son,
पोताई (पुताई)	स्त्री.	पोतने की क्रिया, भाव या मजदूरी।	চুনকাম বা চুনকাম করার মজুরি	चुनकाम बा चूनकाम करार मजुरि	the act of white-washing, price paid for whitewashing.
पोथी	स्त्री.	पुस्तक, ग्रन्थ।	পুথি, পুস্তক	पुथि, पुस्तक	book.
पोना	स. क्रि.	1. आटे की लोई से रोटी बनाना; 2. रोटी पकाना या सेंकना; 3. पिरोना।	আটার লেচি দিয়া রুটি গড়া; রুটি সেঁকা; গাঁথা	आटार लेचि दिया रुटि गड़ा; रुटि सेंका; गाथा;	to spread doughed flour into a bread (in order to bake it); to bake the 'Roti'; to thread, to string, to needle (pearls, beads etc.).
पोप	पु.	ईसाइयों के रोमन कैथोलिक संप्रदाय का प्रधान धर्माचार्य।	পোপ, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু	पोप रोमान क्याथलिक सम्प्रदायेर प्रधान धर्मगुरु	the Pope.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पोपला	वि.	1. जो अन्दर से बिलकुल खाली हो;	ফোঁপরা, শূন্যগর্ভ;	फोंपरा, शून्यगर्भ;	empty;
		2. बिना दांत का (मुंह)।	ফোকলা	फोकला	toothless, one who has lost his teeth.
पोपलीला	स्त्री.	धर्म का आडंबर, आडंबरपूर्ण कार्य।	ধার্মিকতার আড়ম্বর	धार्मिकतार आड़म्बर	show of religiosity.
पोर	स्त्री.	1. उंगली, अंगूठे आदि का कोई जोड़;	আংগুলের গাঁট;	आङ्गुलेर गांट;	a joint in any finger or thumb etc.;
		2. उक्त दो जोड़ों के बीच का भाग या विस्तार;	আংগুলের দুই গাঁটের মধ্যবর্তী স্থান;	आङ्गुलेर दुइ गांटेर मध्यबर्ती स्थान;	space between the joints of a finger etc.;
		3. जोड़ोंवाली किसी वस्तु के जोड़ों के बीच का भाग।	কোনো বস্তুর দুই জোড়ের মধ্যবর্তী স্থান	कोनो बस्तुर दुइ जोड़ेर मध्यबर्ती स्थान	space between two joints or articulations.
पोल	स्त्री.	1. किसी वस्तु के भीतर की खाली जगह;	কোনো বস্তুর ভিতরের খালি জায়গা;	कोनो बस्तुर भितरेर खालि जायगा;	emptiness, hollowness;
		2. ऐसी स्थिति जो ऊपर से देखने में तो आडंबर पूर्ण लगे किन्तु जिसमें सार कुछ भी न हो, निस्सारता।	অন্তঃসার-শূন্যতা;	अन्तःसार-शून्यता;	illusion.
	पु.	नगर का मुख्य प्रवेशद्वार।	নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার	नगरेर प्रधान प्रवेशद्वार	main gate or an entrance of a city.
पोला	वि.	1. जो भीतर से खाली हो;	ফোঁপরা, শূণ্যগর্ভ;	फोंपरा, शून्यगर्भ;	empty;
		2. जिसके अंदर उचित या पूरा भराव न हो, जो कड़ा या ठोस न हो;	ফাঁপা, যাহা শক্ত নহে;	फांपा, जाहा शक्त नहे;	soft, flabby;
		3. जिसमें विशेष तत्व या सार न हो।	অসার	असार	hollow.
पोशाक	स्त्री.	1. पहनावा, लिबास;	পোশাক, পরিচ্ছদ;	पोषाक, परिच्छद;	dress;
		2. पहनने के कपड़े।	জামাকাপড়	जामाकापड़	attire.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पोषक	वि.	पोषण करनेवाला, बढ़ानेवाला।	পোষাক, পোষণকারী, বর্ধক	पोषाक, पोषनकारी, बर्धक	one who feeds or nourishes.
पोषण तत्व	पुं.	पोषण करनेवाले अंश, विटामिन।	খাদ্যপ্রাণ, ভিটামিন	खाद्यप्रान, भिटामिन	vitamins.
पोषण	पु.	1. लालन-पालन; 2. किसी काम या बात की पुष्टि या समर्थन।	পোষণ, পালন; সমর্থন	पोषन, पालन; समर्थन	bringing up; to support.
पोसना	स. क्रि.	आहार आदि देकर बड़ा करना, पालन करना।	পোষা	पोषा	to bring up.
पोस्त (पोस्ता)	पु.	एक प्रकार का पौधा जिसके डोडों से अफीम तैयार की जाती है।	পোস্ত, আফিম-ফলের বীজ	पोस्त, आफिम-फलेर बीज	poppy plant.
पोस्ती	वि.	1. अफीम का सेवन करनेवाला; 2. काहिल, अकर्मण्य, आलसी।	আফিমখোর; অলস, অকর্মণ্য	आफिमखोर; अलस, अकर्मन्य	opium addict; lazy, indolent.
	पु.	एक खिलौना जो नीचे की ओर भारी होता है और लिटाने पर फिर खड़ा हो जाता है।	এক প্রকার খেলনা যা নীচের দিকে ভারি হয়–শুইয়ে দিলে উঠে দাঁড়ায়	एक प्रकार खेलना जा नीचेर दिके भारि हय–शुइये दिले उठे दांड़ाय	a kind of toy.
पौ	पु.	1. सूर्योदय से पहले दिखाई देनेवाला हलका प्रकाश; 2. पासे का वह तल जिसमें एक बिंदी रहती है; 3. पौसला, प्याऊ।	সূর্যোদয়ের পূর্বে আলোর সামান্য আকাশ; পাশার সেই দিক্ যাহাতে বিন্দু আছে; জলসত্র	सूर्जोदयेर पूर्बे आलोर सामान्य आकाश; पाशार सेइ दिक् जाहाते बिन्दु आछे; जलसत्र	the dim light before sunrise, early dawn; the one or ace on dice; shed on the road-side for accommodating travellers with water.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
पौआ (पौवा)	पुं.	1. एक सेर का चौथाई भाग;	পোয়া, এক সেরের সিকি ভাগ;	पोया, एक सेरेर सिकि भाग;	weight or measure of a quarter of a seer;
		2. इस मान का बटखरा या पात्र।	এক পোয়া ওজনের বাটখারা বা পাত্র	एक पोया ओजनेर बाटखारा बा पात्र	quart measure.
पौत्र	स्त्री.	बेटे का बेटा।	পৌত্র, পুত্রের পুত্র	पौत्र, पुत्रेय पुत्र	grand-son, son's son.
पौध	स्त्री.	1. नया निकलता हुआ छोटा पौधा जिसे प्रायः गमलों और क्यारियों में पोसा जाता है तथा बाद में दूसरी जगह लगा दिया जाता है;	গাছের চারা,	गाछेर चारा;	young plants (for transplantation);
		2. नई पीढ़ी।	নূতন পুরুষ	नूतन पुरुष	new generation.
पौधा	पुं.	छोटा पेड़, नया पेड़।	চারাগাছ	चारागाछ	plant, young plant.
पौना (पौन)	वि.	तीन चौथाई, पूरे एक में चौथाई कम।	পৌনে তিন-চতুর্থাংশ, সিকি-কম	पौने, तिन-चतुर्थांश, सिकि-कम	three fourth, three quarters.
	पुं.	1. पौने का पहाड़ा;	যে গুণন-সারণীতে পৌণে-র গুণিতক লিপিবদ্ধ হয়;	जे गुनन-सारनीते पौने-र गुनितक लिपिबद्ध हय;	a multiplication table in which the multiples of 3/4 are recorded;
		2. एक प्रकार की कलछी।	বড় হাতা	बड़ हाता	a ladle with a long handle.
पौर	पुं.	नगर-निवासी, नागरिक।	পৌর, নগরবাসী	पौर, नगरबासी	citizen.
	वि.	पुर सम्बन्धी, नगर का।	নগর, পুর সম্বন্ধীয়	नगर, पुर सम्बन्धीय	relating to a city or town.
पौराणिक	वि.	पुराण सम्बन्धी, पुराण का।	পৌরাণিক, পুরাণসম্বন্ধীয়	पौरानिक, पुरानसम्बन्धीय	relating to or belonging to the Puranas, mythological.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	पुराण का जानकार व्यक्ति, पुराणवाचक।	পুরাণবেত্তা, পুরাণকথক	पुरानबेत्ता, पुरानकथक	well-read in the Puranas.
पौरुष	पु.	पुरुषार्थ, पराक्रम,उद्यम।	পৌরুষ, পুরুষকার, পরাক্রম, উদ্যম	पौरुष, पुरुषकार, पराकम, उद्यम	effort, heroism, valour.
पौरुषेय	वि.	मनुष्यकृत, मनुष्य का बनाया हुआ, मानवीय।	পৌরুষেয়, মনুষ্যকৃত	पौरुषेय, मनुष्यकृत	the work of man, manmade, human.
पौरोहित्य	पु.	पुरोहित का पद या कर्म।	পৌরোহিত্য, পুরোহিতের কর্ম	पौरोहित्य, पुरोहितेर कर्म	priesthood and its functions.
पौर्वात्य	वि.	पूर्व दिशा का।	পূর্বদিকের	पूर्बदिकेर	eastern, belonging to east.
पौर्वापर्य	पु.	1. पूर्व और पर अर्थात् आगे-पीछे होने की अवस्था या भाव; 2. अनुक्रम, सिलसिला।	পৌর্বাপর্য, পূর্বাপরসম্বন্ধ; অনুক্রম, যথাক্রম	पौर्बापर्ज, पूर्बापरसम्बन्ध; अनुक्रम, जथाक्रम	the relation of prior and posterior; due order, succession.
पौष	पु.	अगहन के बाद और माघ से पहले का महीना।	পৌষ, নবম চান্দ্রমাস, অগ্রহায়ণের পরবর্তী এবং মাঘের পূর্ববর্তী মাস	पौष, नबम चान्द्रमास, अग्रहायनेर परबर्ती एबं माघेर पूर्बबर्ती मास	the ninth solar month of the Hindus (Dec. Jan., the full moon of which is near Pushya).
पौष्टिक	वि.	पुष्ट बनानेवाला, शक्ति-वर्धक।	পুষ্টিকর	पुष्टिकर	nutritive, nutritious.
प्याऊ	पु.	वह स्थान जहां राह चलते लोगों को पानी आदि पिलाया जाता है।	জলসত্র	जलसत्र	water-booth.
प्याज	पु.	तेज गंधवाला एक प्रसिद्ध मूल जिसका स्वाद तीखा होता है।	পেঁয়াজ, পিঁয়াজ	पेंयाज, पियांज	onion.
प्यादा	पु.	1. वह सैनिक जो पैदल चलता हो;	পেয়াদা, পিয়াদা;	पेयादा, पियादा;	foot-soldier;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पैदल चलनेवाला व्यक्ति;	পদাতিক;	पदातिक;	footman, pedestrian;
		3. शतरंज का एक मोहरा जो सीधे चलता है और तिरछा मारता है;	বড়ে,	बड़े;	pawn (in chess);
		4. हरकारा।	হরকরা, পিওন	हरकरा, पित्तन	a peon.
प्यार	पु.	1. प्रेम, महब्बत; 2. प्रेमपूर्वक किया जानेवाला स्पर्श, चुम्बन आदि।	পেয়ার, প্রেম; প্রেমভরে স্পর্শ, চুম্বন আদি	पेयार, प्रेम; प्रेमभरे स्पर्श, चुम्बन आदि	love, affection; a kiss.
प्यारा	वि.	1. जो प्रेम का पात्र हो; 2. जो देखने में अच्छा और भला लगे;	প্রিয়, প্রেমাস্পদ; যে দেখিতে সুন্দর;	प्रिय, प्रेमास्पद; जे देखिते सुन्दर;	beloved, dear; lovely;
		3. जिसके प्रति बहुत अधिक ममता हो।	যে অতিশয় স্নেহের পাত্র, স্নেহাস্পদ	जे अतिशय स्नेहेर पात्र, स्नेहास्पद	darling.
प्याला	पु.	कटोरी के आकार का एक प्रसिद्ध पात्र जो नीचे की अपेक्षा ऊपर से कुछ अधिक चौड़ा होता है, जिसमें प्राय: चाय आदि पीते हैं।	পিয়ালা, পেয়ালা, পানপাত্র, কটোরা, বাটি	पियाला, पेयाला, पानपात्र, कटोरा, बाटि	cup, a drinking vessel.
प्यास	स्त्री.	1. वह स्थिति जिसमें जल या कोई अन्य तरल पदार्थ पीने की उत्कट इच्छा होती है, जो शरीर में जलीय अंश की कमी हो जाने पर होती है;	পিয়াস, পিপাসা, তৃষ্ণা;	पियास, पिपासा, तृष्णा;	thirst, desire to drink;
		2. प्रबल इच्छा या कामना।	প্রবল ইচ্ছা	प्रबल इच्छा	longing, craving.
प्यासा	वि.	1. जिसे प्यास लगी हो; 2. जिसे कोई प्रबल कामना या इच्छा हो।	পিয়াসী, পিপাসার্ত; প্রবল ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী	पियासी, पिपासार्त्त; प्रबल इच्छाजुक्त, अभिलाषी	thirsty; desiring, longing.
प्रकट	वि.	जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो।	আবির্ভূত, ব্যক্ত	आबिर्भूत, ब्यक्त	manifest, emergent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रकटित	वि.	प्रकाशित, प्रकट किया हुआ।	প্রকটিত, প্রকাশিত	प्रकटित, प्रकाशित	made public, disclosed, revealed.
प्रकरण	पु.	1. प्रसंग, संदर्भ;	প্রকরণ, প্রসংগ;	प्रकरन, प्रसङ्ग;	context;
		2. किसी ग्रंथ या पुस्तक का वह भाग जिसमें किसी एक विषय का प्रतिपादन हो, परिच्छेद;	গ্রন্থাদির অধ্যায় বা অংশ;	ग्रन्थादिर अध्याय बा अंश;	chapter;
		3. नाटक का एक भेद।	নাটকের প্রকারভেদ, দশরূপকের একটি	नाटकेर प्रकारभेद, दशुरपकेर एकटि	a kind of drama with a fictitious plot.
प्रकर्ष	पुं.	1. उत्कर्ष, उत्तमता;	প্রকর্ষ, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা;	प्रकर्ष, उत्कर्ष, श्रेष्ठता;	eminence, excellence;
		2. अधिकता, बहुतायत।	আধিক্য	आधिक्य	intensity, excess.
प्रकांड	वि.	1. उत्तम, सर्वश्रेष्ठ;	উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ;	उत्तम, सर्बश्रेष्ठ;	outstanding, eminent;
		2. बहुत बड़ा।	প্রকান্ড, বিশাল	प्रकान्ड, बिशाल	huge, large.
प्रकार	पु.	1. भेद;	প্রকার, ভেদ;	प्रकार, भेद;	description;
		2. प्रक्रिया, ढंग;	রীতি, প্রণালী;	रीति, प्रनाली;	manner;
		3. किस्म।	কিসিম, রকম	किसिम, रकम	kind, type.
प्रकाश	पु.	ज्योतिष्मान् पदार्थों से उत्पन्न होनेवाली वह शक्ति जो ईथर या आकाश तत्व के द्वारा चारों ओर फैलती है, उजाला।	কিরণ, প্রভা, দীপ্তি	किरन, प्रभा, दीप्ति	light.
प्रकाशक	वि.	1. प्रकाशन करनेवाला;	প্রকাশক, প্রকাশকারক, দীপক;	प्रकाशक, प्रकाशकारक, दीपक;	one who or that which illuminates, an illuminator;
		2. प्रकट करनेवाला, अभिव्यक्त करनेवाला।	প্রকটয়িতা, ব্যাখ্যাতা	प्रकटयिता, ब्याख्याता	one who discloses, discloser.
	पु.	पुस्तक आदि को छपवाकर प्रकट करनेवाला।	পুস্তকাদি প্রকাশকারক	पुस्तकादि प्रकाशकारक	publisher.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रकाशन	पु.	1. प्रकाश में या सबके सामने लाने की क्रिया या भाव; 2. ग्रन्थ आदि छपवाकर बेचने या प्रचार करने का व्यवसाय; 3. प्रकाशित की जानेवाली कोई पुस्तक।	প্রকাশন, প্রকটন, প্রকাশকরণ; পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কনপূর্বক সাধারণে প্রকাশ; প্রকাশ করা হইবে এমন কতিপয় পুস্তক	प्रकाशन, प्रकटन, प्रकाशकरन; पुस्तकादिर मुद्राङ्कनपूर्बक साधारने प्रकाश; प्रकाश करा हइबे एमन कतिपय पुस्तक	the act of bringing a thing into light; publishing; publication.
प्रकाशमान	वि.	चमकता हुआ, चमकीला।	প্রকাশমান	प्रकाशमान	glowing, shining.
प्रकाशवर्ष	पु.	आकाशस्थ पिंडों या तारों की दूरी नापने का एक मान जो प्रकाश की गति के विचार से स्थिर किया गया है और जो उतनी दूरी का सूचक है जितनी प्रकाश एक वर्ष में पार करता है।	আলোকবর্ষ	आलोकवर्ष	light year.
प्रकाशस्तंभ	पु.	समुद्र में बना हुआ वह स्तंभ जिसमें बहुत तीव्र प्रकाश की व्यवस्था होती है जिससे जलयान, वायुयान आदि रात के समय मार्ग का निश्चय करते हैं।	আলোকস্তম্ভ, বাতিঘর	आलोकस्तम्भ, बातिघर	light-house.
प्रकाशित	वि.	1. प्रकाश से युक्त किया अथवा प्रकाश में लाया हुआ; 2. प्रकट किया हुआ; 3. (ग्रन्थ आदि) छपवाकर सबके सामने लाया हुआ।	প্রকাশিত, উদ্ভাসিত, ব্যক্ত; প্রকটিত; মুদ্রাঙ্কণপূর্বক সাধারণ প্রচারিত	प्रकाशित, उद्भासित, व्यक्त; प्रकटित; मुद्राङ्कनपूर्बक साधारन प्रचारित	with light, brought to light; revealed; published.
प्रकीर्ण	वि.	1. फैलाया हुआ, बिखेरा हुआ; 2. मिला-जुला, जिसमें अनेक प्रकार की चीजें हों।	প্রকীর্ণ, বিকীর্ণ, ছড়ান; মিশ্রিত, নানা জাতীয় জিনিসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এমন	प्रकीर्न, बिकीर्न, छड़ान; मिश्रित, नाना जातीय जिनिसेर मिश्रन घटियाछे एमन	spread out, scattered; a miscellany.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रकृत	वि.	1. जिसका प्रसंग छिड़ा हो 2. स्वाभाविक; 3. साधारण, सहज।	আরব্ধ; প্রকৃত, স্বাভাবিক; সহজ	आरब्ध; प्रकृत, स्वाभाबिक; सहज	commenced; natural; normal.
प्रकृति	स्त्री.	1. स्वभाव, मिजाज; 2. जगत का उपादान कारणरूप मूलतत्व; 3. भारतीय राजनीति में अमात्य, सुहृद, आदि राज्यांग; 4. व्याकरण में वह मूल शब्द जिसमें प्रत्यय आदि लगाए जाते हैं।	প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র; সৃষ্টির আদিকরণ; ভারতীয় রাজনীতি অনুসারে অমাত্য; বিভক্তিহীন ও প্রত্যয়াদিহীন মূল শব্দ ও ধাতু	प्रकृति, स्वभाव, चरित्र; सृष्टिर आदिकरन; भारतीय राजनीति अनुसारे अमात्य; बिभक्तिहीन ओ प्रत्ययादिहीन मूल शब्द ओ धातु	temperament, disposition; nature, original or primary substance; king's minister; (in grammar) the crude or elementary form of a word.
प्रकृतिस्थ	वि.	जो अपने स्वभाव या स्वरूप में स्थित हो, क्षोभ आदि विकार से रहित।	প্রকৃতিস্থ, স্বভাবস্থিত	प्रकृतिस्थ, स्वभावस्थित	composed, normal.
प्रकृष्ट	वि.	1. उत्तम, श्रेष्ठ; 2. प्रधान, मुख्य; 3. खींचा या बढ़ाया हुआ।	প্রকৃষ্ট, উত্তম; প্রধান, মুখ্য; টানা হইয়াছে এমন	प्रकृष्ट, उत्तम; प्रधान, मुख्य; टाना हइयाछे एमन	best, excellent; principal, chief; drawn forth.
प्रकोप	पुं.	1. अत्यधिक कोप; 2. किसी बीमारी का जोर; 3. किसी रोग की तीव्र अवस्था।	প্রকোপ, অতিক্রোধ; প্রাবল্য (রোগের); রোগের উগ্রতা	प्रकोप, अतिक्रोध: प्राबल्य (रोगेर); रोगेर उग्रता	wrath, rage; epidemic; an attack (medic).
प्रकोष्ठ	पु.	1. बांह का कलाई से लेकर कुहनी तक का भाग; 2. इमारत के भीतर का आंगन; 3. मुख्य द्वार के पास का कमरा;	প্রকোষ্ঠ, কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত; ভিতরের দিকের উঠান; সিংদরজার পাশের ঘর	प्रकोष्ठे, कनुइ हइते मनिबन्ध पर्जन्त हात; भितरेर दिकेर उठान; सिंदरजार पाशेर घर;	the fore-arm, the part above the wrist; courtyard; room near the gate of a palace;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. आजकल संसद्, विधान-सभा आदि के बाहर का वह कमरा, बरामदा या प्रांगण जहां बैठकर सदस्य परस्पर बातचीत करते हैं तथा पत्रकारों आदि से मिलते हैं।	লবি, উপশালা	लबि, उपशाला	lobby.
प्रक्रम	पु.	1. क्रम, सिलसिला; 2. कोई वस्तु बनाने या तैयार करने की सारी क्रियाएं, प्रक्रिया;	প্রক্রম, ক্রম, পরম্পরা; প্রক্রিয়া;	प्रक्रम, क्रम, परम्परा; प्रक्रिया;	sequence; process;
		3. वह उपाय या योजना जो कोई कार्य आरम्भ करने से पहले की जाए।	কার্যাদি সাধনের পূর্বকল্পিত প্রণালী	कार्जादि साधनेर पूर्वकल्पित प्रनाली	method.
प्रक्रिया	स्त्री.	1. कोई काम करने या वस्तु बनाने की वह निश्चित और विशिष्ट क्रिया या प्रकार जिससे वह ठीक तरह से सम्पन्न या प्रस्तुत की जा सके;	প্রক্রিয়া, কার্যসাধনের জন্য বিশেষপ্রকার অনুষ্ঠান;	प्रक्रिया, कार्जसाधनेर जन्य विशेषप्रकार अनुष्ठान;	process;
		2. व्याकरण में शब्द अथवा उसके प्रयोग का किया जानेवाला साधन।	(ব্যাকরণে) শব্দে বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগের নিয়ম	(ब्याकरने) शब्दे बिभक्ति ओ प्रत्यय जोगेर नियम	(in gram) rules for the inflexion of words.
प्रक्षालन	पु.	पानी से साफ करना, धोना।	প্রক্ষালন, ধৌতকরণ, ধোয়া	प्रक्षालन, धौतकरन, धोया	to wash with water, to wash.
प्रक्षिप्त	वि.	1. फेंका हुआ, डाला हुआ; 2. पीछे से जोड़ा या मिलाया हुआ।	প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত; পরে সংযোজিত	प्रक्षिप्त, निक्षिप्त; परे संजोजित	thrown or cast at; interpolated.
प्रक्षेप	पु.	1. फेंकना, डालना; 2. पुस्तक आदि का वह अंश जो बाद में जोड़ा या मिलाया गया हो;	প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ; কোনো রচনার মধ্যে পরবর্তী সংযোজন;	प्रक्षेप, निक्षेप; कोनो रचनार मध्ये परबर्ती संजोजन;	throwing, casting; interpolation;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. व्यापार में लगा हुआ किसी हिस्सेदार का मूलधन।	যৌথব্যবসায়ে কোনো অংশীদারের মূলধন	जौथब्यबसाये कोनो अंशीदारेर मूलधन	the sum deposited by each member of a commercial company.
प्रक्षेपण	पु.	फेंकना, डालना।	প্রক্ষেপণ, নিক্ষেপ	प्रक्षेपन, निक्षेप	throwing.
प्रखर	वि.	तीक्ष्ण, प्रचण्ड, उग्र।	প্রখর, সুতীক্ষ্ণ	प्रखर, सुतीक्ष्न	sharp, acute, fierce.
प्रखरता	स्त्री.	प्रखर होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা, প্রচন্ডতা	प्रखरता, तीक्ष्नता, प्रचन्डता	sharpness, acuteness, fierceness.
प्रख्यात	वि.	बहुत प्रसिद्ध।	প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ	प्रख्यात, प्रसिद्ध	famous.
प्रगति	स्त्री.	आगे बढ़ना, उन्नति।	প্রগতি, অগ্রগতি	प्रगति, अग्रगति	progress.
प्रगतिवाद	पु.	एक आधुनिक साहित्यिक वाद जिसका मुख्य उद्देश्य जनवादी शक्तियों को संघटित करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थवाद के लक्षित उद्देश्यों की सिद्धि करना है।	প্রগতিবাদ, আধুনিক সাহিত্যিক মতবাদবিশেষ	प्रगतिबाद, आधुनिक साहित्यिक मतबादबिशेष	progressivism.
प्रगतिवादी	वि.	प्रगतिवाद सम्बन्धी, प्रगतिवाद का।	প্রগতিবাদী, প্রগতিবাদ, সম্বন্ধী	प्रगतिबादी, प्रगतिबाद सम्बन्धी	pertaining to progressivism.
	पु.	प्रगतिवाद का अनुयायी या समर्थक।	প্রগতিবাদের সমর্থক ব্যক্তি	प्रगतिबादेर समर्थक ब्यक्ति	a progressivist.
प्रगतिशील	वि.	जो आगे बढ़ रहा हो या उन्नति कर रहा हो।	প্রগতিশীল, প্রগতিপরায়ণ	प्रगतिशील, प्रगतिपरायन	progressive.
प्रगल्भ	वि.	1. चतुर, दक्ष; 2. बोलने में संकोच न करनेवाला, वाचाल; 3. धृष्ट, उद्धत।	প্রগল্ভ, চতুর; যে অসঙ্কোচে কথা বলে, বাচাল; ধৃষ্ট, উদ্ধত	प्रगल्भ, चतुर; जे असङ्कोचे कथा बले, बाचाल; धृष्ट, उद्धत	skilful; outspoken, bold in speech, precocious; audacious, arrogant.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रगल्भता	स्त्री.	प्रगल्भ होने की अवस्था या भाव।	প্রগলম্ভতা, ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা	प्रगलम्भता, धृष्टता, दाम्भिकता	audacity, arrogance.
प्रगाढ़	वि.	1. बहुत अधिक; 2. घना; 3. बहुत गाढ़ा या गहरा।	প্রগাঢ়, সমধিক; ঘন; গভীর	प्रगाढ़, समधिक; घन; गभीर	much; dense; profound, deep.
प्रचंड	वि.	अति तीव्र, घोर, भीषण।	প্রচন্ড, তীব্র, ভীষণ	प्रचन्ड, तीब्र, भीषन	excessively violent, furious.
प्रचंडता	स्त्री.	प्रचंड होने का भाव या स्थिति।	প্রচন্ডতা	प्रचन्डता	violence.
प्रचलन	पु.	1. प्रथा, रिवाज; 2. उपयोग, व्यवहार आदि में आना।	প্রথা; প্রচলন, প্রবর্তন, চলন	प्रथा; प्रचलन, प्रबर्तन, चलन	custom; usage, currency.
प्रचलित	वि.	1. जो उपयोग, व्यवहार आदि में आ रहा हो; 2. जिसका प्रचलन हो; 3. कार्य या व्यवहार के रूप में चलाया या लाया हुआ।	প্রচলিত, যাহা চলিতেছে; প্রচলিত; চালু	प्रचलित, जाहा चलितेछे; प्रचलित; चालु	in usage; current; in force.
प्रचार	पुं.	1. किसी वस्तु या बात का बार-बार व्यवहार में आना या चलता रहना; 2. वह प्रयास जो किसी सिद्धान्त आदि को जनता में फैलाने के लिए विशेषरूप से किया जाता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य किसी वस्तु को लोकप्रिय बनाना अथवा उसे हेय सिद्ध करना होता है; 3. प्रसिद्धि।	প্রচার, কোনো বিষয়ের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা প্রচলন কোনো কিছু চালু করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বিজ্ঞপ্তিদান; প্রসিদ্ধি	प्रचार, कोनो बिषेयर पुनः पुनः ब्यबहार बा प्रचलन कोनो किछु चालु करिबार उद्देश्ये बिशेषभाबे बिज्ञप्तिदान; प्रसिद्धि	prevalence, currency; propaganda; publicity.
प्रचारक	पु.वि.	प्रचार करनेवाला।	প্রচারক	प्रचारक	propagator.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रचारित	वि.	जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो।	প্রচারিত, যাহা প্রচার করা হইয়াছে	प्रचारित, जाहा प्रचार करा हइयाछे	made public or known, circulated.
प्रचुर	वि.	बहुत अधिक, प्रभूत।	প্রচুর, ঢের, প্রভূত	प्रचुर, ढेर, प्रभूत	abundant, plentiful.
प्रचुरता	स्त्री.	प्रचुर होने का भाव, आधिक्य।	প্রচুরতা, প্রাচুর্য	प्रचुरता, प्राचुर्ज	abundance, plenty.
प्रच्छन्न	वि.	ढका हुआ, छिपा हुआ।	প্রচ্ছন্ন, আবৃত	प्रच्छन्न, आबृत	covered, hidden.
प्रजनन	पु.	1. अपने ही जैसे नये जीवों को जन्म देकर अपने वंश या वर्ग की वृद्धि करना, सन्तान उत्पन्न करना;	প্রজনন, সন্তান উৎপাদন;	प्रजनन, सन्तान उत्पादन;	reproduction;
		2. जीवों का होनेवाला जन्म;	জন্ম, সংঘটন;	जन्म, संघटन;	bringing forth;
		3. पशुओं आदि को पालपोसकर उनकी उन्नति और वृद्धि करना।	পশুপালন-প্রজননাদি	पशुपालन-प्रजननादि	breeding.
प्रजा	स्त्री.	1. किसी राज्य या राष्ट्र की जनता;	প্রজা, রাষ্ট্রের অধীন জনসমূহ;	प्रजा, राष्ट्रेर अधीन जनसमूह;	subjects, public;
		2. संतान, औलाद।	সন্তান, পুত্রাদি	सन्तान, पुत्रादि	issues,children.
प्रजातंत्र	पु.	प्रजा या प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन-व्यवस्था।	প্রজাতন্ত্র	प्रजातन्त्र	democracy.
प्रजापति	पु.	सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा।	প্রজাপতি, জীবগণের স্রষ্টা	प्रजापति, जीबगनेर स्रष्टा	lord of creatures, Brahma.
प्रज्ञा	स्त्री.	बुद्धि, विवेक, मति, समझ।	বৃদ্ধি, মতি, ধী	बद्धि, मति, धी	intelligence, discrimination, understanding.
प्रज्ञाचक्षु	पु.	अंधा व्यक्ति।	অন্ধ	अन्ध	blind.
प्रज्वलित	वि.	1. जलता हुआ, दहका हुआ;	প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত, জ্বলন্ত;	प्रज्वलित, प्रदीप्त, ज्वलन्त;	burning, flaming;
		2. चमकीला।	সমুজ্জ্বল	समुज्ज्वल	bright, shining.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रण	पु.	दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा।	পণ, দৃঢ় নিশ্চয়, প্রতিজ্ঞা	पन, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा	determination, pledge, vow.
प्रणति	स्त्री.	1. झुकने की क्रिया या भाव; 2. प्रणाम; 3. नम्रता।	প্রণতি, প্রণমন; প্রণাম; নম্রতা	प्रनति, प्रनमन; प्रनाम; नम्रता	act or process of bowing; salutation; humility.
प्रणय	पु.	प्रेम, प्रीति।	প্রণয়, প্রেম, প্রীতি	प्रनय, प्रेम, प्रीति	love, affection.
प्रणयन	पु.	साहित्यिक ग्रंथ, लेख आदि प्रस्तुत करना या लिखना।	প্রণয়ন, রচনা	प्रनयन, रचना	writing (to write or bring forward literary books, articles, etc.).
प्रणयी	पु.	प्रेम करनेवाला, अनुरागी, चाहनेवाला।	প্রণয়ী, প্রেমপাত্র, প্রেমিক পুরুষ	प्रनयी, प्रेमपात्र, प्रेमिक पुरुष	lover.
प्रणाम	पु.	नमस्कार, अभिवादन।	প্রণাম, নমস্কার, আনত হইয়া অভিবাদন	प्रनाम, नमस्कार आनत हइया अभिवादन	salutation, term used in greeting elders.
प्रणाली	स्त्री.	1. पद्धति, रीति, ढंग; 2. पानी बहने का कृत्रिम नाला, परनाला।	প্রণালী, রীতি, পদ্ধতি; জলনালী	प्रनाली, रीति, पद्धति; जलनाली	system, method, channel; drain.
प्रणीत	वि.	बनाया हुआ, निर्मित, रचा हुआ।	প্রণীত, কৃত, নির্মিত, রচিত	प्रनीत, कृत, निर्मित रचित	made, produced.
प्रणेता	पु.	1. पुस्तक या ग्रंथ का रचयिता; 2. किसी सिद्धांत या मत का प्रवर्तक।	প্রণেতা, প্রণয়ন-কারী, রচয়িতা; কোনো সিদ্ধান্ত বা মতের প্রবর্তক	प्रनेता, प्रनयन-कारी, रचयिता; कोनो सिद्धान्त बा मतेर प्रवर्त्तक	author; promulgator of a doctrine.
प्रताप	पु.	1. पौरुष, वीरता; 2. प्रभाव।	প্রতাপ, পৌরুষ; প্রভাব	प्रताप, पौरुष; प्रभाव	courage, heroism; glory, dignity.
प्रतापवान	वि.	प्रतापी।	প্রতাপবান্	प्रतापवान्	glorious, dignified.
प्रतापी	वि.	प्रतापशाली।	প্রতাপশালী	प्रतापशाली	glorious, dignified.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतारण	पु.	वंचना, ठगी, धोखा।	প্রতারণ, প্রবঞ্চনা,	प्रतारन, प्रबञ्चना	deceit, fraud.
प्रतारणा	स्त्री.	दे. 'प्रतारण'।	দ্রষ্টব্য 'প্রতারণ'	द्रष्टव्य 'प्रतारण	see 'प्रतारण'.
प्रतारित	वि.	जो ठगा गया हो, छला हुआ।	প্রতারিত, যে ঠকিয়াছে, প্রবঞ্চিত	प्रतारित, जे ठकियाछे, प्रबञ्चित	deceived, cheated.
प्रति	स्त्री.	1. चित्र, पुस्तक, लेख आदि की बहुत सी छपी अथवा लिखी हुई नकलें या प्रतिकृतियों में से हर एक;	চিত্র, পুস্তক, প্রতিকৃতি ইত্যাদির এক-খানি বা একখন্ড;	चित्र, पुस्तक, प्रतिकृति इत्यादिर एक-खानि बा एकखन्ड;	copy;
		2. किसी वस्तु की कोई नकल या अनुकृति।	নকল, অনুকৃতি, কপি	नकल, अनुकृति, कपि	copy.
	अव्य.	1. किसी की ओर या दिशा में;	প্রতি, অভিমুখে, দিকে;	प्रति, अभिमुखे, दिके;	towards, in the direction;
		2. किसी को उद्दिष्ट या लक्षित करते हुए;	কাহারো সম্পর্কে বা বিষয়ে;	काहारो सम्पर्के बा बिषये;	regarding;
		3. अनेक में से हर एक और अलग-अलग।	প্রত্যেক	प्रत्येक	each or every.
	उप.	एक उपसर्ग जो शब्दों के पहले आकर विरोध, विपरीतता, बदला, वीप्सा, सादृश्य, सामना, सामुख्य, खंडन, मुकाबला, जोड़ आदि का द्योतन करता है	উপসর্গ বিশেষ, এটি বিরোধ, বৈপরীত্য, বিনিময়, বীপ্সা, সাদৃশ্য, অভিমুখ্য ইত্যাদি অর্থ সূচক	उपसर्ग विशेष, एटि बिरोध, वैपरीत्य, बिनिमय, बीप्सा, सादृश्य, अभिमुख्य इत्यादि अर्थ सूचक	prefix, denoting opposition, similarity etc.
प्रतिकार	पु.	1. मुआवजा, क्षति-हानि आदि के बदले दिया जानेवाला धन;	বিনিময়, ক্ষতিপূরণ	बिनिमय, क्षतिपूरन	compensation;
		2. बदला चुकाने के लिए किया जानेवाला कार्य, बदला;	প্রতিকার, প্রতিশোধ;	प्रतिकार, प्रतिशोध;	revenge;
		3. चिकित्सा, इलाज;	রোগাদির চিকিৎসা;	रोगादिर चिकित्सा;	treatment;
		4. किसी बात को दबाने या रोकने आदि के लिए किया जानेवाला उपाय या प्रयत्न।	প্রতিবিধান	प्रतिबिधान	counter-action

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिकूल	वि.	जो अनुकूल न हो, विपरीत।	প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত	प्रतिकूल, बिरुद्ध, बिपरीत	unfavourable, adverse.
प्रतिकूलता	स्त्री.	प्रतिकूल होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা	प्रतिकूलता, बिरुद्धता	unfavourableness, adverseness.
प्रतिकृति	स्त्री.	1. किसी वस्तु के आकार प्रकार आदि के अनुरूप बनी या बनाई हुई दूसरी वैसी ही वस्तु;	প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি প্রতিরূপ;	प्रतिकृति, प्रतिमूर्ति, प्रतिरूप;	prototype, replica,
		2. चित्र, तस्वीर।	চিত্র, আলেখ্য	चित्र, आलेख्य	picture.
प्रतिक्रिया	स्त्री.	किसी कार्य के परिणाम के रूप में होनेवाला कार्य।	প্রতিক্রিয়া	प्रतिक्रिया	reaction.
प्रतिक्रियात्मक	वि.	प्रतिक्रिया से युक्त।	প্রতিক্রিয়াত্মক	प्रतिक्रियात्मक	reactionary.
प्रतिक्रियावादी	वि.	इस मत या सिद्धान्त को माननेवाला कि जो बातें पहले से चली आ रही हैं उनमें परिवर्तन या सुधार करनेवालों का विरोध करना चाहिए।	প্রতিক্রিয়াবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিবিরোধী	प्रतिक्रियाबादी, प्रतिक्रियाशील, प्रगतिविरोधी	reactionary, reactionist.
प्रतिघात	पु.	1. आघात के बदले किया गया आघात;	প্রতিঘাত, আঘাতের বদলে আঘাত;	प्रतिघात, आघातेर बदले आघात;	counter-attack;
		2. आघात लगने पर उसके फलस्वरूप आप से आप होनेवाला दूसरा आघात।	প্রত্যাঘাত	प्रत्याघात	blow in return.
प्रतिच्छवि	स्त्री.	1. प्रतिबिंब, परछाँई; 2. चित्र, तस्वीर।	প্রতিচ্ছবি; চিত্র	प्रतिच्छबि; चित्र	reflection, shadow; picture, image.
प्रतिच्छाया	स्त्री.	1. प्रतिबिंब, परछाँई; 2. प्रतिकृति, चित्र।	প্রতিচ্ছায়া; প্রতিকৃতি, চিত্র	प्रतिच्छाया; प्रतिकृति, चित्र	reflection, shadow; facsimile.
प्रतिज्ञा	स्त्री.	किसी कार्य को करने, न करने आदि का दृढ़ संकल्प, शपथ, सौगंध।	প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সঙ্কল্প, অংগীকার, শপথ	प्रतिज्ञा, दृढ़सङ्कल्प, अङ्गीकार, शपथ	pledge, vow.
प्रतिज्ञान	पु.	1. प्रतिज्ञा;	প্রতিজ্ঞা;	प्रतिज्ञा;	pledge, vow;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी बात के संबंध में शपथ या सौगंध न खाकर सत्यनिष्ठापूर्वक कोई बात कहना।	হলফ, হলপ	हलफ, हलप	affirmation.
प्रतिदान	पु.	1. किसी ली हुई वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना;	প্রতিদান, তুল্যরূপ দান, বিনিময়;	प्रतिदान, तुल्यरूप दान, बिनिमय;	barter, exchange;
		2. किसी से ली हुई वस्तु उसे वापस करना या लौटाना।	দানের বদলে দান, প্রত্যর্পণ	दानेर बदले दान, प्रत्यर्पन	giving back, return.
प्रतिद्वंद्व	पुं.	दो समान व्यक्तियों या शक्तियों का पारस्परिक विरोध, बराबरवालों का झगड़ा या मुकाबला।	প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিরূপ দ্বন্দ্ব, পরস্পর দ্বন্দ্ব, প্রতিস্পর্ধা	प्रतिद्वन्द्ब, प्रतिरूप द्वन्द्ब, परस्पर द्वन्द्ब, प्रतिस्पर्धा	conflict, competition.
प्रतिद्वंद्विता	स्त्री.	प्रतिद्वंद्वी होने की अवस्था या भाव।	প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরস্পর বিরোধ, প্রতিযোগিতা	प्रतिद्वन्द्विता, परस्पर बिरोध, प्रतिजोगिता	mutual conflict, rivalry, competition.
प्रतिद्वंद्वी	पु.	1. वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के मुकाबले की हो;	প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিকূল ব্যক্তি বা বস্তু প্রতিপন্ন;	प्रतिद्वन्द्वी, प्रतिकूल व्यक्ति बा वस्तु प्रतिपन्न;	antagonist;
		2. एक व्यक्ति की दृष्टि से दूसरा व्यक्ति जो एक ही वस्तु को उसकी तरह प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा हो।	প্রতিযোগী	प्रतिजोगी	rival, contestant.
प्रतिध्वनि	स्त्री.	किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़नेवाला उसी से उत्पन्न तदनुरूप शब्द, गूंज।	প্রতিধ্বনি, যে শব্দ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে	प्रतिध्वनि, जे शब्द प्रतिहत हइया फिरिया आसे	echo, reverberation.
प्रतिध्वनित	वि.	जो प्रतिध्वनि के रूप में शब्द करता हो, गूँजा हुआ।	প্রতিধ্বনিত, যাহা প্রতিধ্বনিরূপে শ্রুত	प्रतिध्वनित, जाहा प्रतिध्वनिरूपे श्रुत	echoed, reverberated.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिनायक	पु.	नाटक आदि में नायक का प्रतिद्वंद्वी।	প্রতিনায়ক	प्रतिनायक	hero's rival, competitor.
प्रतिनिधान	पु.	वह व्यक्ति या व्यक्तियों का दल जो इस प्रकार बनाकरकहीं भेजा जाए, प्रतिनिधि मण्डल।	প্রতিনিধিমন্ডল	प्रतिनिधिमन्डल	deputation.
प्रतिनिधि	पु.	1. वह व्यक्ति जो दूसरों की ओर से कहीं भेजा जाए अथवा उनकी तरफ से कार्य करे;	প্রতিনিধি, বদলি;	प्रतिनिधि, बदलि;	proxy;
		2. वह जिसे देखकर उसी के वर्ग,जाति आदि के व्यक्तियों के स्वरूप, आचार-विचार आदि का अनुमान लगाया जा सके।	প্রতিভূ	प्रतिभू	representative.
प्रतिनिधित्व	पु.	प्रतिनिधि होने की अवस्था या भाव, प्रतिनिधि होने का काम।	প্রতিনিধিত্ব, প্রতিনিধির অবস্থা, প্রতিনিধির কাজ	प्रतिनिधत्व, प्रतिनिधिर अवस्था, प्रतिनिधिर काज	representation.
प्रतिनियुक्त	वि.	प्रतिनिधि या अधीनस्थ अधिकारी के रूप में बनाकर कहीं भेजा हुआ।	প্রতিনিধি হিসাবে কোথাও প্রেরিত	प्रतिनिधि हिसाबे कोथाओ प्रेरित	deputed.
प्रतिनियुक्ति	स्त्री.	प्रतिनियुक्त किए जाने की अवस्था या क्रिया।	প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ	प्रतिनिधिरूपे नियोग	deputation.
प्रतिपक्ष	पु.	1. मुकाबले का विरोधी पक्ष; 2. विरोधी पक्ष द्वारा कही हुई बात या उसके द्वारा उपस्थित किया हुआ मत।	প্রতিপক্ষ, প্রতি-কূল পক্ষ, বিপক্ষ; বিরোধী পক্ষের মত	प्रतिपक्ष, प्रति-कूल पक्ष, बिपक्ष; बिरोधी पक्षेर मत	contesting or opposite party; opinion expressed by the opposite party.
प्रतिपक्षी	वि.	शत्रु, विरोधी।	শত্রু, বিরোধী	शत्रु, बिरोधी	opponent, adversary.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिपदा	स्त्री.	पक्ष की पहली तिथि।	প্রতিপদ, পক্ষের প্রথম তিথি	प्रतिपद, पक्षेर प्रथम तिथि	first day of a lunar fortnight.
प्रतिपादक	पु.	प्रतिपादन करनेवाला।	প্রতিপাদক, যে প্রতিপাদন করে	प्रतिपादक, जे प्रतिपादन करे	exponent, one who sets forth (a principle, theory etc.).
प्रतिपादन	पु.	1. किसी विषय का सप्रमाण कथन, निरूपण, विषय का स्थापन; 2. आरम्भ करना।	প্রতিপন্ন করণ, যুক্তি প্রমাণের সাহায্য অবধারণ; আরম্ভ	प्रतिपन्न करन, जुक्ति प्रमानेर साहाज्य अवधारन; आरम्भ	explaining, exposition; commencement.
प्रतिपादित	वि.	जिसका प्रतिपादन किया गया हो।	প্রতিপাদিত	प्रतिपादित	set forth, interpreted.
प्रतिपाद्य	वि.	जिसका प्रतिपादन किया जा सकता हो, या किया जाने को हो।	প্রতিপাদ্য, প্রতিপাদনীয়,	प्रतिपाद्य, प्रतिपादनीय	to be treated discussed.
प्रतिपूर्ति	स्त्री.	किसी व्यक्ति या मद से लेकर व्यय किया हुआ धन उसे देकर या उसमें जमा कर उसकी पूर्ति करना।	পরিশোধ	परिशोध	reimbursement.
प्रतिफल	पु.	1. परिणाम, नतीजा; 2. वह जो बदले में किया जाए, पुरस्कार।	পরিণাম, ফল; প্রতিদান, পুরস্কার	परिनाम, फल; प्रतिदान, पुरस्कार	result; return, reward.
प्रतिबंध	पु.	1. वह बंधन या रोक जो किसी काम, बात या व्यक्ति पर लगाई जाए, मनाही; 2. किसी काम या बात में लगाई हुई शर्त।	প্রতিবন্ধ, বাধা; কোনো কাজ বা বিষয় সম্পর্কে শর্ত	प्रतिबन्ध, बाधा; कोनो काज बा बिषय सम्पर्के शर्त	ban, restriction; condition.
प्रतिबिंब	पु.	परछाईं, प्रतिच्छाया।	প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া	प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाया	reflection, reflected image.
प्रतिबिंबित	वि.	जिसका प्रतिबिंब पड़ा हो, दर्पण आदि में प्रतिफलित।	প্রতিবিম্বিত	प्रतिबिम्बित	reflected.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिबोध	पुं.	1. जागरण, जागना;	জাগরণ;	जागरन;	awakening, waking;
		2. ज्ञान, चातुर्य।	জ্ঞান, প্রবোধ	ज्ञान, प्रबोध	perception, knowledge.
प्रतिभा	स्त्री.	असाधारण बुद्धिबल, विलक्षण बौद्धिक शक्ति।	প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আবিষ্কার	प्रतिभा, तीक्ष्न बुद्धि, आबिष्कार	genius, brilliance.
प्रतिभावान	वि.	प्रतिभायुक्त।	প্রতিভাবান	प्रतिभाबान	genius, brilliant.
प्रतिभाशाली	वि.	प्रतिभावान।	প্রতিভাশালী	प्रतिभाशाली	genius, brilliant.
प्रतिभू	पु.	जमानत करनेवाला, जामिन।	প্রতিভূ, জামিন	प्रतिभू, जामिन	surety, bail.
प्रतिभूति	स्त्री.	1. कोई काम या वचन आदि पूरा करने के लिए दिया गया आश्वासन या जमा की गई वस्तु या धन;	জামিন বা জমানত;	जामिन बा जमानत;	security, bail;
		2. प्रतिभू के द्वारा दी गई जमानत।	যিনি জমানত দেন	जिनि जमानत देन	surety.
प्रतिमा	स्त्री.	मूर्ति, अनुकृति।	প্রতিমা, মূর্তি, প্রতিকৃতি	प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति	idol, statue, picture.
प्रतिमान	पु.	वह वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हों।	প্রতিমান, আদর্শ	प्रतिमान, आदर्श	model.
प्रतियोगिता	स्त्री.	किसी विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि या फल की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों में परस्पर होनेवाला मुकाबला।	প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা	प्रतिजोगिता, प्रतिद्वन्द्विता	competition, match, tournament.
प्रतियोगी	पु.	1. प्रतियोगिता करनेवाला व्यक्ति;	প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী;	प्रतिजोगी, प्रतिद्वन्द्वी;	competitor;
		2. विरोधी, शत्रु।	বিরোধী, শত্রু	बिरोधी, शत्रु	competitor, rival, opponent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिरक्षा	स्त्री.	रक्षण, हिफाजत।	প্রতিরক্ষা	प्रतिरक्षा	defence.
प्रतिरूप	पु.	वह जो रूप या आकृति में किसी के समान हो, चित्र, तस्वीर।	প্রতিরূপ, তল্য-মূর্তি, প্রতিমূর্তি, প্রতিবিম্ব	प्रतिरूप, तल्य-मूर्ति, प्रतिमूर्ति, प्रतिबिम्ब	likeness, prototype.
	वि.	नकली, जाली।	নকল, জাল	नकल, जाल	counterfeit.
प्रतिरोध	पु.	1. रोक, रुकावट, बाधा;	প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধ বাধা;	प्रतिरोध, प्रतिबन्ध, बाधा;	ban, hindrance;
		2. आवेग, आक्रमण आदि को रोकने के लिए किया जानेवाला कार्य।	আক্রমণাদি প্রতিহত করার জন্য কার্য	आक्रमनादि प्रतिहत करार जन्य कार्ज	counteraction.
प्रतिलिपि	स्त्री.	किसी लिखी हुई चीज की नकल।	প্রতিলেখ, নকল	प्रतिलेख, नकल	copy, facsimile.
प्रतिलोम	वि.	विपरीत, उलटा।	বিপরীত, উল্টা	बिपरीत, उल्टा	opposite to the natural course or order, converse.
प्रतिवाद	पु.	1. किसी बात के विरुद्ध कही जानेवाली बात;	বিরুদ্ধ-উক্তি, বিরুদ্ধবাদ;	बिरुद्ध-उक्ति, बिरुद्धबाद;	counter-statement
		2. विरोध, खण्डन।	বিরোধ, খন্ডন	बिरोध, खन्डन	refutation.
प्रतिवादी	पु.	प्रतिवाद करनेवाला।	যে প্রতিবাদ করে, বাদীর বিরোধী পক্ষ	जे प्रतिबाद करे, बादीर बिरोधी पक्ष	defendent, respondent.
प्रतिवेदन	पु.	1. किसी योजना आदि के सम्बन्ध में छानबीन करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो कहीं भेजा जाता है;	কার্যাদির বিবরণী, রিপোর্ট;	कार्जादिर बिबरनी, रिपोर्ट;	report;
		2. प्रार्थना।	আবেদন	आबेदन	representation.
प्रतिशत	क्रि. वि.	हर सौ पर, फीसदी।	প্রতিশত, শতকরা	प्रतिशत, शतकरा	per-cent.
प्रतिशोध	पु.	बदला, प्रतिकार।	প্রতিশোধ	प्रतिशोध	revenge.
प्रतिश्रुत	वि.	(व्यक्ति) जिसने किसी बात की कोई प्रतिज्ञा की हो।	প্রতিশ্রুত অংগীকারবদ্ধ	प्रतिश्रुत, अङ्गीकारबद्ध	the person who has taken pledge.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिषिद्ध	वि.	जिसे करने से किसी को रोका गया हो।	নিষিদ্ধ	निषिद्ध	forbidden.
प्रतिषेध	पु.	निषेध, मनाही।	প্রতিষেধ, নিষেধ	प्रतिषेध, निषेध	prohibition.
प्रतिष्ठा	स्त्री.	1. आदर, सम्मान, ख्याति;	প্রতিষ্ঠা, গৌরব, খ্যাতি;	प्रतिष्ठा, गौरव, ख्याति;	high position, fame, glory, renown;
		2. अच्छी तरह स्थापित किया जाना, स्थापना;	সুসংস্থাপন;	सुसंस्थापन;	installation;
		3. मान-मर्यादा।	মান-মর্যাদা	मान-मर्जादा	dignity, status, establishment.
प्रतिष्ठान	पु.	1. स्थापित करने की क्रिया या भाव;	প্রতিষ্ঠান, সংস্থাপন;	प्रतिष्ठान, संस्थापन;	fixing, placing;
		2. किसी उद्योग व्यवसाय आदि का कार्यालय या स्थान;	সংস্থা;	संस्था;	site, situation, institute;
		3. (विशेष अर्थ) निहित स्वार्थों की एक परम्पराबद्ध व्यवस्था।	কায়েমি স্বার্থ-শ্লিষ্ট পরম্পরিত ব্যবস্থা	कायेमि स्वार्थ-शिलष्ट परम्परित ब्यबस्था	establishment (special meaning).
प्रतिष्ठापन	पु.	स्थापित करने की क्रिया या भाव।	সংস্থাপন	संस्थापन	fixing, placing.
प्रतिष्ठापित	वि.	जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो।	যাহার সংস্থাপন করা হইয়াছে	जाहार संस्थापन करा हइयाछे	set up, fixed.
प्रतिष्ठित	वि.	1. प्रसिद्ध, ख्यात, आदर-प्राप्त;	প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিমান;	प्रतिष्ठित, ख्यातिमान;	honourable;
		2. जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो, स्थापित।	যাহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে	जाहा प्रतिष्ठा करा हइयाछे	established, installed.
प्रतिस्थापन	पु.	1. किसी वस्तु के नष्ट हो जाने या हट जाने पर उसके स्थान पर वैसी ही दूसरी वस्तु रखना;	প্রতিস্থাপন, পুনরায় স্থাপন;	प्रतिस्थापन, पुनराय स्थापन;	replacement;
		2. किसी व्यक्ति के हट जाने पर काम चलाने के लिए उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखना।	কোনো ব্যক্তির অন্য ব্যক্তিকে তাহার কাজে সাময়িকভাবে বহাল	कोनो ब्यक्तिर अन्य ब्यक्तिके ताहार काजे सामयिकभाबे बहाल	substitution (substitute).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतिस्पर्धा	स्त्री.	लाग डाट, होड़।	প্রতিস্পর্ধা, প্রতিযোগিতা	प्रतिस्पर्धा, प्रतिजोगिता	rivalry, competition,
प्रतिस्पर्धी	पुं.	होड़ करनेवाला, प्रतिद्वंद्वी।	প্রতিস্পর্ধী,	प्रतिस्पर्धी	a rival, competitor.
प्रतिहस्ताक्षर	पुं.	किसी के हस्ताक्षर के अनुमोदन या समर्थन के लिए किसी बड़े अधिकारी का हस्ताक्षर करना।	প্রতিস্বাক্ষর	प्रतिस्वाक्षर	counter-signature.
प्रति-हस्ताक्षरित	वि.	जिस पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों।	প্রতিস্বাক্ষরিত	प्रतिस्वाक्षरित	counter-signed.
प्रतिहारी	पुं.	द्वारपाल, दरबान।	প্রতিহারী, দ্বারপাল, দারোয়ান	प्रतिहारी, द्वारपाल, दारोयान	door keeper, watchman.
प्रतिहिंसा	स्त्री.	हिंसा के बदले में की जानेवाली हिंसा।	প্রতিহিংসা, হিংসার বদলে হিংসা	प्रतिहिंसा, हिंसार बदले हिंसा	counter-violence.
प्रतीक	पुं.	1. वह गोचर या दृश्य वस्तु जो किसी अगोचर या अप्रस्तुत वस्तु के बहुत कुछ अनुरूप होने के कारण उसके गुण रूप का परिचय कराने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करती हो;	প্রতীক, প্রতিমা, নিদর্শন;	प्रतीक, प्रतिमा, निदर्शन;	a symbol;
		2. किसी बात का द्योतक;	দ্যোতক;	द्योतक;	signifier;
		3. साहित्य में वह वस्तु जो अपने आकस्मिक सादृश्य अथवा तर्कसंगत संबंध के आधार पर किसी दूसरी वस्तु का स्थान ग्रहण करती है।	সাংকেতিকতা প্রতীকিতা (সাহিত্য)	सांकेतिकता, प्रतीकिता (साहित्य)	symbol (literature).
प्रतीकवाद	पुं.	साहित्य में अभिव्यंजना की वह विशिष्ट प्रणाली जिसके अनुसार प्रतीकों के आधार पर भावों, विषयों, वस्तुओं आदि का बोध कराया जाता है।	প্রতীকবাদ, প্রতীকিতা	प्रतीकवाद प्रतीकिता	symbolism.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रतीकात्मक	वि.	1. जो प्रतीकों से सम्बद्ध हो; 2. (रचना) जिसमें प्रतीकों की सहायता से भावों, विषयों आदि का बोध कराया गया हो।	প্রতীকাত্মক, প্রতীকবিষয়ক; যে রচনায় প্রতীকের সাহায্যে ভাবপ্রকাশাদি করা হয়	प्रतीकात्मक, प्रतीकबिषयक; जे रचनाय प्रतीकेर साहाय्ये भावप्रकाशादि करा हय	related to symbol; symbolic.
प्रतीक्षा	स्त्री.	इंतजार।	প্রতীক্ষা, অপেক্ষা, প্রত্যাশা	प्रतीक्षा, अपेक्षा, प्रत्याशा	waiting for, expectation.
प्रतीक्षालय	पु.	वह स्थान जहां बैठकर किसी से मिलने या यान आदि पर सवार होने के लिए इंतजार किया जाता है।	প্রতীক্ষালয়, প্রতীক্ষাকক্ষ, ওয়েটিং রুম	प्रतीक्षालय, प्रतीक्षाकक्ष, ओयेटिं रूम	waiting-room.
प्रतीत	वि.	अनुमान के आधार पर जान पड़नेवाला।	প্রতীত, প্রতীতি বা বিশ্বাস জন্মিয়াছে এমন	प्रतीत, प्रतीति बा बिश्बास जन्मियाछे एमन	apparent, experienced, roughly inferred.
प्रतीति	स्त्री.	ज्ञान, बोध, जानकारी।	প্রতীতি, জ্ঞান, বোধ	प्रतीति, ज्ञान, बोध	knowledge, ascertainment, clear or distinct perception or apprehension.
प्रतीयमान	वि.	1. जिसकी प्रतीति हो रही हो, जो जान पड़ता हो, जो समझ में आ रहा हो; 2. (रूप) जो वास्तविक से भिन्न होने पर भी देखने में कुछ वास्तविक-सा जान पड़ता हो।	প্রতীয়মান, যাহা বোধগম্য হইতেছে; বাস্তবিক না হলেও বাহ্যত: যাহা বাস্তবিকের মতো মনে হয়	प्रतीयमान, जाहा बोधगम्य हइतेछे; बास्तबिक ना हलेओ जाहा बाह्यत बास्तबिकेर मतो मने हय	appearing to be, inferred to be, believed to be; apparent.
प्रत्यंकन	पु.	किसी चित्र के ऊपर पतला या पारदर्शक कागज रखकर उसकी हूबहू नकल तैयार करना।	প্রত্যঙ্কন, কোনো চিত্রের উপর পাতলা কাগজ রাখিয়া উহার হুবহু নকল করা	प्रत्यङ्कन, कोनो चित्रेर उपर पातला कागज राखिया उहार हुबहु नकल करा	tracing (on transparent paper).
प्रत्यंग	पु.	शरीर अथवा किसी वस्तु का कोई गौण अंग।	প্রত্যংগ, শাখা অংগ ক্ষুদ্র অংগ	प्रत्यङ्ग, शाखा अङ्ग, क्षुद्र अङ्ग	minor parts of the body.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रत्यंचा	स्त्री.	धनुष की डोरी।	ধনুর ছিলা, জ্যা	धनुर छिला, ज्या	bow-string.
प्रत्यक्ष	वि.	जो आंखों के सामने हो, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो।	প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর, মূর্ত, স্পষ্ট	प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर, मूर्त, स्पष्ट	present before the eyes, visible, perceptible.
प्रत्यक्ष कर	पु.	वह कर जो उपभोक्ताओं तथा करदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता हो, किसी माध्यम से नहीं।	প্রত্যক্ষ কর, যে কর সরাসরি দিতে হয়	प्रत्यक्ष कर, जे कर सरासरि दिते हय	direct tax.
प्रत्यक्ष ज्ञान	पु.	इंद्रियों के द्वारा होनेवाला किसी वस्तु या विषय का ज्ञान।	প্রত্যক্ষজ্ঞান, চাক্ষুষজ্ঞান, ইন্দ্রিয়গম্য জ্ঞান	प्रत्यक्षज्ञान, चाक्षुषज्ञान, इन्द्रियगम्य ज्ञान	knowledge obtained by direct perception, perception.
प्रत्यक्षदर्शी	वि.	जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना या बात देखी हो।	প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষদর্শনকারী	प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शनकारी	an eye witness.
प्रत्यक्षीकरण	पु.	किसी वस्तु या विषय को ऐसा रूप देना कि वह प्रत्यक्ष हो जाए, कोई बात या विषय प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना।	প্রত্যক্ষীকরণ, অপ্রত্যক্ষ বিষয় বা বস্তু প্রত্যক্ষ করণ	प्रत्यक्षीकरन, अप्रत्यक्ष विषय वा बस्तु प्रत्यक्ष करन	making manifest or apparent, presenting.
प्रत्यभिज्ञा	स्त्री.	1. कभी देखे हुए व्यक्ति या पदार्थ को पुन: देखने पर होनेवाला यह ज्ञान कि यह अमुक व्यक्ति या पदार्थ है, पहचान; 2. यह ज्ञान कि परमेश्वर और जीवात्मा एक है।	প্রত্যভিজ্ঞা, পূর্বসংস্কারসহকৃত জ্ঞান অর্থাৎ তাহা ইহাই এইরূপ প্রত্যক্ষতাগম্য বোধ; পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক এই জ্ঞান	प्रत्यभिज्ञा, पूर्वसंस्कारसहकृत ज्ञान अर्थात् ताहा इहाइ एइरूप प्रत्यक्षतागम्य बोध; परमात्मा ओ जीबात्मा एक एइ ज्ञान	identification; regaining knowledge or recognition.
प्रत्यभिज्ञान	पु.	1. पहचान; 2. वह वस्तु या चिह्न जिससे कोई पहचाना जाए।	প্রত্যভিজ্ঞান; সনাক্তকরণ যোগ্য চিহ্নাদি	प्रत्यभिज्ञान; सनाक्तकरन जोग्य चिहनादि	recognition; identification mark.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रत्यय	पु.	1. व्याकरण में वह अक्षर या अक्षरसमूह जो धातुओं अथवा विकारी शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थों में विशेष्ता उत्पन्न करता है;	প্রত্যয়, (ব্যাকরণে) শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হইয়া যে শব্দাংশ বিশেষ অর্থ উৎপন্ন করে;	प्रत्यय, (ब्याकरने) शब्द बा धातुर शेषे जुक्त हइया जे शब्दांश बिशेष अर्थ उत्पन्न करे;	(in Gram.) an affix to roots and words forming derivatives and inflections;
		2. विश्वास, धारणा।	বিশ্বাস	बिश्बास	idea, belief, credit.
प्रत्यय-पत्र	पु.	किसी राज्य के सर्वप्रथम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा से युक्त वह प्रमाणपत्र जो इस बात का परिचायक होता है कि अमुक व्यक्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।	প্রত্যায়িত পরিচয়পত্র	प्रत्यायित परिचयपत्र	credentials, letter of credence.
प्रत्ययवाद	पु.	दार्शनिक क्षेत्र में यह मान्यता या सिद्धान्त कि यह दृश्य जगत् किसी चेतन सत्ता की सृष्टि है, अतः मनुष्य को बौद्धिक विचारों का आधार छोड़कर शाश्वत विचारों का आश्रय लेना चाहिए, आदर्शवाद।	এই দৃশ্যজগৎ বোধাতীত চিরায়ত চৈতন্য সত্তার রচনা–এইরূপ (দার্শনিক) ভাব, আদর্শবাদ	एइ दृश्यजगत् बोधातीत चिरायत चैतन्य सत्तार रचना–एइरूप (दार्शनिक) भाब, आदर्शबाद	idealism (ideaism).
प्रत्याक्रमण	पु.	जवाबी हमला।	প্রত্যাক্রমণ	प्रत्याक्रमन	counter-attack.
प्रत्याख्यान	पु.	1. खंडन, विरोध;	প্রত্যাখ্যান, নিরসন;	प्रत्याख्यान, निरसन;	refutation;
		2. अनादर या अवज्ञापूर्वक कोई चीज़ लेने से इन्कार करना।	অনাদর, অবজ্ঞাপূর্বক অগ্রাহ্যকরণ	अनादर, अबज्ञापूर्बक अग्राह्यकरन	rejection, refusal.
प्रत्यारोप	पु.	आरोप के बदले में लगाया गया आरोप।	পাল্টা অভিযোগ	पाल्टा अभिजोग	counter-charge.
प्रत्यालोचन	पु.	1. किसी किए हुए निर्णय को फिर से देखना कि वह ठीक है या नहीं;	পর্যালোচন, পুনর্বিচার;	पर्जालोचन, पुनर्बिचार;	review;
		2. आलोचना की भी की जानेवाली आलोचना।	সমালোচনা	समालोचना	criticism.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रत्यावर्तन	पु.	लौट आना, वापस आना।	প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন	प्रत्याबर्तन, प्रत्यागमन	coming back, returning.
प्रत्याशा	स्त्री.	1. आशा, उम्मीद; 2. किसी बात के संबंध में पहले से की जानेवाली ऐसी आशा या उसके संबंध की कल्पना जिसके घटित होने की बहुत कुछ संभावना हो।	প্রত্যাশা কোনো বিষয়ে পূর্ববিধি কোনো ফললাভের কামনা	प्रत्याशा कोनो बिषये पूर्बाबधि कोनो फललाभेर कामना	hope, expectation; anticipation.
प्रत्याशित	वि.	जिसकी पहले से आशा या अपेक्षा की गई हो, जिसका पहले से अनुमान किया गया है।	প্রত্যাশিত, প্রত্যাশা করা হইয়াছে এমন, সম্ভাবিত	प्रत्याशित, प्रत्याशा करा हइयाछे एमन, सम्भाबित	anticipated.
प्रत्याशी	वि.	आशा करनेवाला।	প্রত্যাশী	प्रत्याशी	hoping, expecting.
	पु.	जो किसी पद की प्राप्ति के लिए इच्छुक हो, उम्मीदवार।	উমেদার	उमेदार	candidate.
प्रत्युत	अव्य.	1. बल्कि, वरन्; 2. इसके विपरीत।	পত্যুত পরন্তু; পূর্বোক্তির বৈপরীত্য সূচক	प्रत्युत, परन्तु; पूर्बोक्तिर बैपरीत्य सूचक	but, even; on the other hand, on the contrary.
प्रत्युत्तर	पु.	उत्तर का उत्तर।	প্রত্যুত্তর	प्रत्युत्तर	rejoinder, a reply.
प्रत्युत्थान	पु.	1. किसी के स्वागत और सत्कार के लिए खड़े होना; 2. विरोध का सामना करने के लिए खड़े होना।	প্রত্যুত্থান, আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ান; অভ্যুত্থান	प्रत्युत्थान, आगत ब्यक्तिर सम्मानार्थ उठिया दांड़ान; अभ्युत्थान	rising to welcome a visitor; rising against.
प्रत्युत्पन्नमति	वि.	जिसे तत्काल उचित युक्ति या उत्तर सूझ जाए।	প্রত্যুৎপন্নমতি, যাহার মতি তৎকালোচিত	प्रत्युत्पन्नमति, जाहार मति तत्कालोचित	ready minded, sharp, ready-witted.
प्रत्युपकार	पु.	उपकार के बदले किया जानेवाला उपकार।	প্রত্যুপকার	प्रत्युपकार	a good turn in return for another.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रत्येक	वि.	दो या दो से अधिक में से एक एक, हर एक।	প্রত্যেক, এক-এক প্রতিজন	प्रत्येक, एक-एक प्रतिजन	each, each and every.
प्रथम	वि.	1. गणना या क्रम में जिसका स्थान पहला हो;	প্রথম, আদি, অগ্রে গণ্য;	प्रथम, आदि, अग्रे गन्य;	first;
		2. जो महत्व आदि में सबसे बढ़कर हो।	শ্রেষ্ঠ, প্রধান	श्रेष्ठ, प्रधान	chief, principal.
	क्रि. वि.	आगे, पहले।	অগ্রে, প্রথমে	अग्रे, प्रथमे	ahead, formerly.
प्रथमतः	क्रि. वि.	सबसे पहले।	প্রথমতঃ, প্রথমে	प्रथमतः, प्रथमे	firstly.
प्रथमता	स्त्री.	1. प्रथम होने की अवस्था या भाव;	প্রথমত্ব;	प्रथमत्व;	state of being first;
		2. औरों की अपेक्षा पहला अवसर या स्थान मिलने की अवस्था या भाव, प्राथमिकता।	অগ্রাধিকার;	अग्राधिकार;	priority.
	अव्य.	साधारण रूप में देखने पर।	প্রথম দর্শনে উদ্ভূত	प्रथम दर्शने उद्भूत	prima facie.
प्रथम पुरुष	पु.	व्याकरण में वे सर्वनाम जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है।	প্রথম পুরুষ (ব্যাকরণে)	प्रथम पुरुष (ब्याकरने)	the first person of the pronoun.
प्रथा	स्त्री.	रीति, परिपाटी।	প্রথা, রীতি, পদ্ধতি, ধারা	प्रथा, रीति, पद्धति, धारा	custom, convention.
प्रदक्षिणा	स्त्री.	किसी पवित्र स्थान या पदार्थ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए चारों ओर इस प्रकार घूमना कि वह पवित्र स्थान या पदार्थ बराबर दाहिनी ओर रहे, परिक्रमा।	প্রদক্ষিণ, পবিত্র স্থান অথবা পদার্থদিকে স্বীয় দক্ষিণে রাখিয়া উহার চারিদিকে ঘোরা, দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা	प्रदक्षिन पबित्र स्थान अथबा पदार्थदिके स्बीय दक्षिने राखिया उहार चारिदिके घोरा, दक्षिनाबर्ते परिक्रमा	reverential salutation by circumambulation from left to right (so that the right side is towards the person or object saluted), going round (an object).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रदत्त	वि.	प्रदान किया हुआ।	প্রদত্ত, সমর্পিত	प्रदत्त, समर्पित	given away, bestowed.
प्रदर	पु.	स्त्रियों का एक रोग जिसमें उनके गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का लेसदार पदार्थ बहता है।	প্রদর, স্ত্রীরোগবিশেষ	प्रदर, स्त्रीरोगबिशेष	leucorrhoea
प्रदर्शक	वि.	1. प्रदर्शन करनेवाला; 2. दिखानेवाला।	প্রদর্শক; দর্শয়িতা	प्रदर्शक; दर्शयिता	one who exhibits showman.
प्रदर्शन	पु.	1. दिखलाने की क्रिया, दिखाना; 2. असन्तोष, दुख आदि व्यक्त करने के लिए व्यक्तियों का सामूहिक रूप से संबद्ध अधिकारियों के अन्याय के विरोध में नारे आदि लगाते हुए निकाले जानेवाला जलूस।	প্রদর্শন, দেখান; বিক্ষোভ প্রদর্শন, দলবদ্ধভাবে অসন্তোষাদি প্রকাশ করার জন্য মিছিল	प्रदर्शन, देखान; बिक्षोभ प्रदर्शन, दलबद्धभावे असन्तोषादि प्रकाश करार जन्य मिछिल	displaying, exhibition; demonstration.
प्रदर्शनी	स्त्री.	वह स्थान जहां तरह-तरह की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएं।	প্রদর্শনী, যেখানে বিবিধ বস্তু দেখান হয়	प्रदर्शनी, जेखाने बिबिध बस्तु देखान हय	exhibition, exposition.
प्रदाता	पु.	देनेवाला, प्रदान करनेवाला।	প্রদাতা, দাতা, প্রদানকারী	प्रदाता, दाता, प्रदानकारी	giver, bestower.
प्रदान	पु.	देने की क्रिया या भाव।	প্রদান, অর্পণ, দান	प्रदान, अर्पन, दान	giving, granting, bestowing.
प्रदीप	पु.	दीपक, चिराग।	প্রদীপ, দীপ	प्रदीप, दीप	lamp, light.
प्रदीप्त	वि.	1. जलता हुआ, जलाया हुआ; 2. उज्ज्वल, चमकीला; 3. उत्तेजित, जगाया हुआ।	প্রদীপ্ত, জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত; সমুজ্জ্বল; উত্তেজিত	प्रदीप्त, ज्वलन्त, प्रज्वलित; समुज्ज्वल; उत्तेजित	lighted, illuminated; radiant, shining; roused.
प्रदेश	पु.	1. भूभाग का कोई खण्ड विशेष;	প্রদেশ স্থান	प्रदेश, स्थान	region;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी संघ या राज्य की कोई इकाई।	রাষ্ট্রের বিভাগবিশেষ;	राष्ट्रेर बिभागबिशेष;	province.
प्रदोष	पु.	1. सूर्य के अस्त होने का समय;	প্রদোষ, সন্ধ্যা, সূর্যাস্তকাল;	प्रदोष, सन्ध्या, सूर्जास्तकाल;	evening, nightfall;
		2. प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को किया जानेवाला उपवास या व्रत जिसमें सूर्यास्त से कुछ पहले ही शिव का पूजन करके भोजन किया जाता है।	প্রতি ত্রয়োদশীতে পালনীয় উপবাসান্বিত ব্রতবিশেষ	प्रति त्रयोदशिते पालनीय उपबासान्बित ब्रतबिशेष	the fast undertaken on the 13th day of each lunar fortnight.
प्रधान	वि.	सबसे बड़ा, मुख्य।	প্রধান, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য	प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य	chief, head, principal, president.
	पु.	नेता, सरदार, किसी सभा आदि का सभापति।	নায়ক, সর্দার, সভাপতি	नायक, सर्दार, सभापति	leader, president.
प्रधान कार्यलय	पु.	किसी व्यापारिक या अन्य संस्थान का मुख्य कार्यालय जहां से शाखा-कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है।	সদর কার্যালয়	सदर कार्जालय	headquarter.
प्रधानता	स्त्री.	प्रधान होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রধানতা, প্রাধান্য, প্রধানত্ব	प्रधानता, प्राधान्य, प्रधानत्व	pre-eminence, principalship. chiefship.
प्रधान मंत्री	पु.	1. किसी देश का सबसे बड़ा मंत्री;	প্রধানমন্ত্রী, কোনো রাষ্ট্রের মন্ত্রীমুখ্য;	प्रधानमन्त्री, कोनो राष्ट्रेर मन्त्रीमुख्य;	prime minister;
		2. वह सबसे बड़ा मंत्री जिसके अधीन और भी कई विभागीय मंत्री हों।	মুখ্য সচিব	मुख्य सचिब	general-secretary, secretary general.
प्रधानाचार्य	पु.	किसी महाविद्यालय का सर्वप्रमुख अध्यापक।	কলেজের অধ্যক্ষ	कलेजेर अध्यक्ष	principal.
प्रधानाध्यापक	पु.	किसी विद्यालय का सबसे बड़ा अध्यापक।	প্রধানশিক্ষক	प्रधानशिक्षक	headmaster.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रफुल्ल	वि.	(फूल) जो खिला हुआ हो, विकसित।	প্রস্ফুটিত, বিকশিত	प्रस्फुटित, बिकशित	full-blown.
प्रबंध	पु.	1. व्यवस्था; 2. निबन्ध।	উপায়, ব্যবস্থা; প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রচনা	उपाय, व्यबस्था; प्रबन्ध, निबन्ध, रचना	arrangement, management; literary composition.
प्रबन्धक	पु.	1. प्रबन्ध या व्यवस्था करनेवाला; 2. किसी कार्यालय आदि का व्यवस्थापक।	যে ব্যবস্থা করে, ব্যবস্থাপক; ম্যানেজার	जे ब्यबस्था करे, ब्यबस्थापक; म्यानेजार	organiser; manager.
प्रबन्ध-काव्य	पु.	काव्य का एक भेद जिसमें कोई कथा या घटना क्रमबद्ध रूप में कही गई हो।	কাব্যের প্রকারভেদ, কাহিনীকাব্য	काब्येर प्रकारभेद, काहिनीकाब्य	epic.
प्रबन्ध संपादक	पु.	पत्र-पत्रिकाओं की कार्यालयीय व्यवस्था का संपादक, अधिकारी।	সংবাদপত্রাদির কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক সম্পাদক	संबादपत्रादिर कार्जालयेर ब्यबस्थापक सम्पादक	managing editor.
प्रबन्ध-समिति	स्त्री.	किसी संस्था, सभा आदि के चुने हुए लोगों की वह समिति जो उसकी सब बातों की व्यवस्था करती है।	পরিচালক সমিতি, ম্যানেজিং কমিটি	परिचालक समिति, म्यानेजिं कमिटि	managing committee.
प्रबल	वि.	1. जिसमें बहुत अधिक बल हो; 2. बहुत जोरों का, घोर या भारी।	প্রবল, মহাবল, অত্যন্ত বলশালী; প্রচন্ড	प्रबल, महाबल, अत्यन्त बलशाली; प्रचन्ड	very strong, mighty, cogent; powerful.
प्रबुद्ध	वि.	1. जागा हुआ, जाग्रत, जो होश में हो; 2. पंडित, ज्ञानी।	প্রবুদ্ধ, উদ্বুদ্ধ, জাগরিত; পন্ডিত, জ্ঞানী	प्रबुद्ध, उद्बुद्ध, जागरित; पन्डित, ज्ञानी	awakened (who is in his senses), conscious; learned, enlightened.
प्रबोध	पु.	1. जागना, जागरण;	প্রবোধ, জাগরণ;	प्रबोध, जागरन;	awaking (from sleep or ignorance), becoming conseious;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी विषय का ठीक और पूरा ज्ञान।	প্রকৃষ্ট জ্ঞান	प्रकृष्ट ज्ञान	real knowledge.
प्रभंजन	पु.	प्रचंड वायु, वैज्ञानिक क्षेत्र में, मुख्यतः वह बहुत तेज हवा जो 100 मील प्रति घंटे के हिसाब से चलती हो।	প্রভঞ্জন, প্রচন্ড বায়ু, ঝড়	प्रभंजन, प्रचन्ड वायु, झड़	hurricane.
प्रभा	स्त्री.	प्रकाश, दीप्ति।	প্রভা, প্রকাশ	प्रभा, प्रकाश	light, radiance.
प्रभात	पु.	प्रातःकाल।	প্রভাত, প্রাতঃকাল	प्रभात, प्रातःकाल	day-break, dawn, morning.
प्रभातफेरी	स्त्री	प्रचार के उद्देश्य से विशेष प्रकार के नारे लगाते हुए, गाते बजाते हुए सवेरे बस्तियों में चक्कर लगाना।	প্রভাতফেরী, প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকার ধ্বনি ও গানবাজনা সহযোগে ভোরবেলা জনস্থান পরিক্রমা	प्रभातफेरी, प्रचारेर उद्देश्ये बिशेष प्रकार ध्वनि ओ गानबाजना सहजोगे भोरबेला जनस्थान परिक्रमा	singing or slogan raising groups going round in the morning (to celebrate as an important event or for propaganda purposes).
प्रभाती	स्त्री.	प्रभात के समय गाए जानेवाले गीत।	প্রভাতী, প্রভাতে গেয় সংগীত	प्रभाती, प्रभाते गेय सङ्गीत	song in a tune or ragini peculiar to morning.
प्रभामंडल	पु.	दिव्य पुरुषों और देवताओं आदि के मुख के चारों ओर का वह आभायुक्त मण्डल जो चित्रों, मूर्तियों आदि में दिखाया जाता है।	জ্যোতিচক্র	ज्योतिचक्र	a circle or halo of light (generally shown in pictures, statues, etc. of great persons or God etc.).
प्रभाव	पु.	1. सामथ्र्य, प्रताप; 2. फल, परिणाम, असर।	প্রভাব, সামর্থ্য; ফল, পরিণাম	प्रभाव, सामर्थ्य; फल, परिनाम	influence; effect, impact.
प्रभावकारी	वि.	असरदार।	ফলদায়ক	फलदायक	effective.
प्रभाव-क्षेत्र	पु.	आधुनिक राजतंत्र में वह प्रदेश जो किसी प्रबल और	কোনো বড় রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা ভূখন্ড	कोनो बड़ राष्ट्रेर प्रभाबाधीन अपेक्षाकृत क्षुद्र राष्ट्र बा भूखन्ड	sphere of influence.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		बड़े राज्य के प्रभाव या दबाव में रहता हो और जिस पर किसी दूसरे राष्ट्र का प्रभाव या हस्तक्षेप सहन न किया जाता हो।			
प्रभावशाली	वि.	प्रभाववाला।	প্রভাবশালী, প্রভাবসম্পন্ন	प्रभावशाली, प्रभावसम्पन्न	effective, influential, impressive.
प्रभावित	वि.	जिस पर किसी का प्रभाव पड़ा हो।	প্রভাবিত, প্রভাবের দ্বারা বশীভূত	प्रभावित, प्रभावेर द्वारा वशीभूत	influenced.
प्रभावी	वि.	प्रभावयुक्त, असरदार।	প্রভাবযুক্ত	प्रभावजुक्त	effective.
प्रभु	पु.	1. ईश्वर; 2. शासक, राजा; 3. स्वामी या श्रेष्ठ पुरुष का संबोधन।	প্রভু, ঈশ্বর; শাসক, রাজা; মহাপুরুষ	प्रभु, ईश्वर; शासक, राजा; महापुरुष	God; ruler, king; Lord, master.
प्रभुता	स्त्री.	1. प्रभु होने की अवस्था या भाव; 2. गौरव, महत्व।	প্রভুতা, প্রভুত্ব, প্রভুর ভাব; গৌরব, মহত্ত্ব	प्रभुता, प्रभुत्व, प्रभुर भाव; गौरव, महत्त्व	lordship, supremacy; greatness, importance.
प्रभुसत्ता	स्त्री.	सर्वप्रधान सत्ताधारी होने की अवस्था, गुण या भाव।	সার্বভৌমত্ব	सार्वभौमत्व	sovereignty.
प्रभूत	वि.	बहुत अधिक, प्रचुर।	প্রভূত, অত্যন্ত	प्रभूत, अत्यन्त	plenty, abundant.
प्रभृति	अव्य.	इत्यादि, वगैरह।	প্রভৃতি, ইত্যাদি, এইরূপ সক	प्रभृति, इत्यादि, एइरूप सव	etcetera (used at the end of comp.).
प्रभेद	पु.	भेद, प्रकार, किस्म।	রকম, প্রকার, কিসিম	रकम, प्रकार, किसिम	variety, types, kinds.
प्रमत्त	वि.	1. नशे में चूर; 2. असावधान, प्रमादयुक्त।	প্রমত্ত, অতিশয় মত্ত, মাতাল; অমনোযোগী	प्रमत्त, अतिशय मत्त, माताल; अमनोजोगी	drunk, intoxicated; inattentive.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रमाण	पु.	1. नाप या तौल;	প্রমাণ, প্রকৃষ্ট-মান সাধন	प्रमान, प्रकृष्ट-मान साधान	measure of any kind;
		2. वह साधन जिसके सहारे कोई बात सिद्ध की जाए, सबूत;	যাহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়, সাক্ষ্য;	जाहा द्वारा निश्चय बोध हय, साक्ष्य;	proof, testimony;
		3. जिसका वचन या निर्णय यथार्थ या आप्त माना जाए।	যাহার অভিমত প্রমাণযোগ্য মনে করা হয়	जाहार अभिमत प्रमानजोग्य मने करा हय	authority, one whose word is an authority.
प्रमाणन	पु.	कथन, लेख आदि के संबंध में यह कहना या सिद्ध करना कि यह ठीक और प्रामाणिक है।	প্রমাণীকরণ, যথার্থ সাব্যস্ত করণ	प्रमानीकरन, जथार्थ साब्यस्त करन	certification.
प्रमाणपत्र	पु.	वह पत्र या लेख जो किसी बात का प्रमाण माना जाए।	প্রমাণপত্র, সার্টিফিকেট	प्रमानपत्र, सार्टिफिकेट	certificate.
प्रमाणित	वि.	1. प्रमाण द्वारा सिद्ध;	প্রমাণিত;	प्रमानित;	proved;
		2. जिसके संबंध में किसी आधिकारिक व्यक्ति ने यह लिखा हो कि यह प्रामाणिक या सही है।	প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত	प्रामानिक बलिया स्थिरीकृत	authenticated.
प्रमाणीकरण	पु.	प्रमाणन।	প্রত্যয়ীকরণ	प्रत्ययीकरन	attestation, act or process of proving, certifying etc.
प्रमाणीकृत	वि.	जो प्रमाण के रूप में मान लिया गया हो या सिद्ध हो चुका हो।	প্রমাণীকৃত, প্রমাণিত, প্রত্যয়িত	प्रमानीकृत, प्रमानित, प्रत्ययित	attested, proved, certified.
प्रमाद	पु.	1. गफलत, लापरवाही, अनवधानता;	প্রমাদ, অমনোযোগ, অনবধান;	प्रमाद, अमनोजोग, अनवधान;	negligence, carelessness, inadvertence;
		2. नशा, उन्माद।	প্রমত্ততা	प्रमत्तता	intoxication, insanity.
प्रमादी	वि.	1. प्रमादयुक्त;	প্রমাদী, প্রমাদশীল;	प्रमादी, प्रमादशील;	negligent;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पागल।	প্রমত্ত, উন্মাদ	प्रमत्त, उन्माद	insane.
प्रमुख	वि.	1. प्रथम, मुख्य; 2. श्रेष्ठ, सम्मान्य, प्रतिष्ठित।	প্রমুখ, প্রথম; শ্রেষ্ঠ	प्रमुख, प्रथम; श्रेष्ठ	first, chief;. best, respectable, honourable.
प्रमुखता	स्त्री.	प्रमुख होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রমুখতা, প্রমুখত্ব	प्रमुखता, प्रमुखत्व	superiority, predominance.
प्रमेय	वि.	1. जिसका अवधारण हो सके, जो समझ में आ सके; 2. जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके।	প্রমেয়, অবধার্য; যাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে	प्रमेय, अबधार्ज; जाहा प्रमान करा जाइते पारे	(the thing) which can be understood; (the thing)to be proved.
	पु.	जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना आवश्यक हो।	উপপাদ্য	उपपाद्य	theorem.
प्रमेह	पु.	एक रोग जिसमें शरीर की धातुएं अनेक रूपों में पैशाब के रास्ते निकला करती हैं।	প্রমেহ, মূত্ররোগবিশেষ	प्रमेह, मूत्ररोगबिशेष	a urinary disease.
प्रमोद	पु.	हर्ष, आनन्द।	প্রমোদ, হর্ষ	प्रमोद, हर्ष	merriment, joy.
प्रयत्न	पु.	1. किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जानेवाला प्रयास, कोशिश; 2. व्याकरण में गले और मुख के अन्दर की वह क्रिया या चेष्टा जो ध्वनियों के उच्चारण के लिए होती है।	প্রযত্ন, প্রকৃষ্ট যত্ন, প্রয়াস; (ব্যাকরণে) স্পৃষ্টতাদি বর্ণগুণ	प्रजत्न, प्रकृष्ट जत्न, प्रयास; (ब्याकरने) स्पृष्टतादि बर्नगुन	effort, attempt; mode of articulation.
प्रयत्नशील	वि.	किसी प्रकार के प्रयत्न या उद्योग में लगा हुआ।	প্রযত্নশীল, যত্নবান	प्रजत्नशील, जत्नबान	one who makes efforts, diligent.
प्रयाण	पु.	1. गमन, प्रस्थान; 2. युद्ध के लिए किया गया प्रस्थान;	প্রয়াণ, গমণ, প্রস্থান; যুদ্ধযাত্রা;	प्रयान, गमन, प्रस्थान; जुद्धजात्रा;	setting out, departure; the march (of an army);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. संसार से विदा होना।	মরন, ইহলোক হইতে প্রস্থান	मरन, इहलोक हइते प्रस्थान	death, departure (from the world)
प्रयाणगीत	पु.	युद्धभूमि की ओर प्रस्थान करते समय या किसी प्रकार के संघर्ष के लिए आगे बढ़ते समय मिलकर गाया जानेवाला गीत।	রণসংগীত	रनसङ्गीत	marching song.
प्रयास	पु.	प्रयत्न, कोशिश।	প্রয়াস, প্রযত্ন	प्रयास, प्रजत्न	effort, endeavour
प्रयुक्त	वि.	जिसे प्रयोग या व्यवहार में लाया गया हो अथवा लाया जा रहा हो।	প্রযুক্ত, যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে,ব্যবহৃত	प्रजुक्त, जाहा प्रयोग करा हइयाछे, व्यबहृत	used, employed.
प्रयोक्ता	पु.	किसी वस्तु को प्रयोग में लानेवाला।	প্রয়োক্তা প্রয়োগকারী	प्रयोक्ता, प्रयोगकारी	one who uses or employs.
प्रयोग	पु.	1. किसी चीज या बात को आवश्यकता अथवा अभ्यासवश काम में लाना, इस्तेमाल, व्यवहार;	প্রয়োগ, ব্যবহার;	प्रयोग, व्यबहार;	use;
		2. (अस्त्र-शस्त्र) चलाना या छोड़ना;	অস্ত্রাদিমোচন, অস্ত্রাদিপ্রেরণ;	अस्त्रादिमोचन, अस्त्रादिप्रेबन;	hurling, casting;
		3. अमल में लाना या बरतना;	ব্যবহার;	व्यबहार;	application;
		4. आजकल वैज्ञानिक क्षेत्रों में, किसी प्रकार का अनुसंधान करने या कोई नई बात ढूंढ निकालने के लिए की जानेवाली कोई परीक्षणात्मक क्रिया अथवा उसका साधन।	পরীক্ষা-নিরীক্ষা	परीक्षा-निरीक्षा	experiment.
प्रयोगवाद	पु.	भाषा, विषय, छंद आदि संबंधी पुरानी परंपरा के विरोधी नए-नए प्रयोग	প্রয়োগবাদ, নিত্যনূতন প্রয়োগ-প্রকরণ মূলক আধুনিক সাহিত্য-কৃতির প্রবণতা–চমৎকার	प्रयोगबाद, नित्यनूतन प्रयोग–प्रकरन मूलक आधुनिक साहित्य-कृतिर प्रबनता–चमत्कार	experimentalism.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		करते रहने की आधुनिक साहित्यिकों की प्रवृत्ति जिसमें पाठकों को चौंका देने की अत्यधिक लालसा निहित होती है।	উৎপাদনই যার প্রধান উদ্দেশ্য	उत्पादनइ जार प्रधान उद्देश्य	
प्रयोगवादी	वि.	प्रयोगवाद-संबंधी।	'প্রয়োগবাদ' সম্পর্কিত	'प्रयोगबाद' सम्पर्कित	pertaining to experimentalism.
	पु.	जो प्रयोगवाद का पोषक या समर्थक हो।	প্রয়োগবাদে'র পোষাক বা সমর্থক	प्रयोगबादे'र पोषाक बा समर्थक	experimentalist.
प्रयोगशाला	स्त्री.	वह स्थान जहां पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र आदि विषयक तथ्यों को समझने या नई बातों का पता लगाने की दृष्टि से विविध प्रयोग किए जाते हैं।	প্রয়োগশালা, পরীক্ষাগার, ল্যাবরেটরি	प्रयोगशाला, परीक्षागार, ल्याबरेटरि	laboratory.
प्रयोजन	पु.	1. प्रवृत्ति का कारणभूत उद्देश्य, हेतु; 2. अर्थ, अभिप्राय; 3. उपयोग।	প্রয়োজন, হেতু, কারণ; অর্থ, অভিপ্রায়; প্রয়োগকরণ	प्रयोजन, हेतु, कारन; अर्थ, अभिप्राय; प्रयोगकरन	intention, motive, purpose; signification; use.
प्रयोज्य	वि.	जो प्रयोग में लाया जाने को हो अथवा लाया जा सके।	প্রয়োজ্য, প্রয়োগ করার যোগ্য, যাহা প্রয়োগ করিতে হইবে	प्रयोज्य, प्रयोग करार जोग्य, जाहा प्रयोग करिते हइबे	to be used or employed or practised.
प्रलयंकर	वि.	प्रलयकारी, सर्वनाशकारी।	প্রলয়ঙ্কর	प्रलयङ्कर	catastrophical.
प्रलय	पु.	1. संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश; 2. भयंकर नाश या बरबादी।	প্রলয়, সৃষ্টিনাশ, জগতের ধ্বংস; ব্যাপক ধ্বংস	प्रलय, सृष्टिनाश, जगतेर ध्वंस; व्यापक ध्वंस	universal dissolution or destruction; devastation.
प्रलाप	पु.	मानसिक विकार या शारीरिक कष्ट के कारण पागलों की तरह बेसिर पैर की बात करना, बकवास।	প্রলাপ, অনর্থক বাক্য, উন্মত্তাদিবৎ বচন, ভুল বকা	प्रलाप, अनर्थक बाक्य, उन्मत्तादिबत्-वचन, भुल बका	delirium.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रलेख	पु.	दस्तावेज, अनुबंधपत्र।	দলিল	दलिल	document.
प्रलोभन	पु.	1. लालच; 2. ललचानेवाली वस्तु।	প্রলোভন; লোভজনক বিষয়	प्रलोभन; लोभजनक विषय	temptation; causing to lust after, tempting.
प्रवंचना	स्त्री.	ठगी, धोखेबाजी, धूर्तता।	প্রবঞ্চনা, প্রতারণা	प्रबंचना, प्रतारना	deceit, fraud.
प्रवक्ता	वि.	प्रवचन करनेवाला।	প্রবক্তা, ব্যাখ্যাতা	प्रवक्ता, व्याख्याता	one who tells or imparts or relates
	पु.	वह जो किसी शासक-मंडल, संस्था आदि की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बात कहता या मत प्रकट करता हो।	মুখপাত্র	मुखपात्र	spokesman.
प्रवचन	पु.	1. धार्मिक, नैतिक आदि गंभीर विषयों में परोपकार की दृष्टि से कही जानेवाली अच्छी तथा विचारपूर्ण बातें; 2. उपदेशपूर्ण भाषण; 3. किसी विषय को अच्छी तरह और पांडित्यपूर्वक समझाना।	প্রবচন, প্রকৃষ্ট বচন, বেদার্থ যাহা দ্বারা উক্ত হয়, সদালাপ; উপদেশাত্মক বাণী; ব্যাখ্যান	प्रबचन, प्रकृष्ट बचन, बेदार्थ जाहा द्वारा उक्त हय, सदालाप; उपदेशात्मक बानी; व्याख्यान	a (religious) discourse; sermon; explanation, interpretation.
प्रवण	वि.	किसी काम या बात की ओर प्रवृत्त।	প্রবণ, ঝোঁকযুক্ত, অভিমুখ	प्रबन, झोंकजुक्त, अभिमुख	inclined towards.
प्रवणता	स्त्री.	प्रवण होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রবণতা, প্রবণত্ব, অভিমুখতা, ঝোঁক	प्रबनता, प्रबनत्व, अभिमुखता, झोंक	inclination, propensity.
प्रवर	वि.	1. सबसे अच्छा, बढ़कर या श्रेष्ठ; 2. अवस्था या वय में सबसे बड़ा; 3. अधिकार, योग्यता आदि में सबसे बड़ा माना जाने वाला।	প্রবর, অত্যুৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্টবর	प्रबर, अत्युत्कृष्ट, श्रेष्ठ; ज्येष्ठ; उत्कृष्ट, प्रकृष्टबर	best, excellent; senior; superior.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रवर समिति	स्त्री.	किसी विषय की छानबीन करने के लिए या उसके बारे में निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई गई वह समिति जिसमें विशेष योग्यतावाले व्यक्ति रखे जाते हैं।	কোনো বিষয়ে তদন্তের বা পরামর্শ দানের জন্য বাছাই-করা সদস্যদের লইয়া গঠিত সমিতি	कोनो बिषये तदन्तेर बा परामर्श दानेर जन्य बाछाइ-करा सदस्यदेर लइया गठित समिति	select committee.
प्रवर्तक	पु.	1. किसी काम या बात का आरंभ या प्रचलन करने वाला;	প্রবর্তক, প্রবর্তয়িতা, প্রবর্তনকারী;	प्रवर्तक, प्रवर्तयिता, प्रवर्तनकारी;	a pioneer;
		2. प्रेरित करनेवाला।	প্রেরয়িতা	प्रेरयिता	one who inspires.
प्रवर्तन	पु.	1. प्रवृत्त करना, आरम्भ करना, चलाना;	আরম্ভ করণ, প্রচলিত করণ;	आरम्भ करन, प्रचलित करन;	act of pioneering;
		2. प्रेरित करना, उभारना;	প্রেরণ;	प्रेरन;	prompting, inciting;
		3. जारी करना।	জারি করা	जारि करा	to issue, to enforce.
प्रवाद	पु.	लोगों में प्रचलित बात, किंवदंती।	প্রবাদ, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী	प्रबाद, जनश्रुति, किंबदन्ती	saying.
प्रवास	पु.	परदेश में रहना, विदेशवास।	দেশান্তরে বাস, বিদেশস্থিতি	देशान्तरे बास, बिदेशस्थिति	the act of dwelling abroad.
प्रवासित	वि.	देश से निकाला हुआ।	নির্বাসিত	निर्बासित	exiled.
प्रवासी	वि.	परदेश में रहनेवाला; जो प्रवास में हो।	প্রবাসী, বিদেশবাসী, দেশান্তরস্থিত	प्रबासी, बिदेशबासी देशान्तरस्थित	who dwells abroad.
प्रवाह	पु.	1. बहने की क्रिया या भाव;	প্রবহণ;	प्रबहन;	flowing or streaming forth;
		2. बहाव, जल आदि की धारा;	প্রবাহ, স্রোত, ধারা;	प्रबाह, स्रोत, धारा;	flow, running water, current;
		3. किसी वस्तु का अटूट क्रम;	অবিচ্ছেদ গতি;	अबिच्छेद गति;	an unbroken sequence;
		4. शवादि को नदी के पानी में बहा देना।	শবাদি নদীর স্রোতে ভাসান	शबादि नदीर स्रोते भासान	to float the corpse in the water.
प्रवाहिका	स्त्री.	पेचिश, संग्रहणी रोग।	গ্রহণীরোগ	ग्रहनीरोग	diarrhoea.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रवाहित	वि.	बहाया हुआ।	প্রবাহিত	प्रबाहित	flowed.
प्रविष्ट	वि.	1. अन्दर गया हुआ, अन्दर पहुँचा हुआ;	প্রবিষ্ট, যে প্রবেশ করিয়াছে ভিতরে গত;	प्रबिष्ट, जे प्रबेश करियाछे भितरे गत;	one who has entered or gone or come into;
		2. जिसकी प्रविष्टि हुई हो।	প্রবেশিত	प्रबेशित	admitted.
प्रविष्टि	स्त्री.	1. प्रवेश;	প্রবেশ;	प्रबेश;	entrance.
		2. बही आदि में लेखे, विवरण आदि लिखना;	লিপিবদ্ধকরণ, খাতায় উঠান;	लिपिबद्धकरन, खाताय उठन;	entry (in the register etc.);
		3. इस प्रकार लिखी जाने-वाली कोई बात, विवरण या रकम।	লিপিভুক্ত বিষয়, খাতায় উঠান হইয়াছে এমন বস্তু	लिपिभुक्त बिषय, खाताय उठान हइयाछे एमन बस्तु	particulars to be entered (in the register etc.).
प्रवीण	वि.	निपुण, कुशल।	প্রবীণ	प्रबीन	proficient, skilled.
प्रवीणता	स्त्री.	निपुणता, कौशल।	প্রবীণতা	प्रबीनता	proficiency, skill.
प्रवृत्त	वि.	प्रवृत्तियुक्त, लगा हुआ, रत।	প্রবৃত্ত, প্রবৃত্তিযুক্ত, আরব্ধ, রত	प्रबृत्त, प्रबृत्तिजुक्त, आरब्ध, रत	engaged (in), occupied (with).
प्रवृत्ति	स्त्री.	1. मन का किसी विषय की ओर झुकाव;	প্রবৃত্তি, প্রবণতা, ঝোঁক;	प्रबृत्ति, प्रबनता, झोंक;	trend, tendency;
		2. किसी नियम का किसी प्रसंग में लागू होना।	প্রবর্তন	प्रबर्तन	the applicability or validity of a rule.
प्रवृत्ति मार्ग	पु.	जीवन यापन का वह प्रकार जिसमें मनुष्य सांसारिक कार्यों और बंधनों में पड़ा रहता है।	প্রবৃত্তিমার্গ, সংসার-জীবন, ভোগের পথ	प्रबृत्तिमार्ग, संसार-जीबन, भोगेर पथ	(the path of) active association with and interest in mundane affairs.
प्रवेश	पुं.	1. अन्दर जाने की क्रिया या भाव;	প্রবেশ, ঢোকা;	प्रबेश, ढोका;	entering, entrance;
		2. किसी विशिष्ट संस्था आदि में भरती होना;	কোনো প্রতিষ্ঠানা-দিতে ভর্তি হওয়া;	कोनो प्रतिष्ठाना-दिते भर्ति हओया;	admission;
		3. गति, पहुंच;	প্রবেশ;	प्रबेश;	access, approach;
		4. किसी विषय की होने वाली प्राथमिक या साधारण जानकारी।	কোনো বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান	कोनो बिषयेर प्राथमिक ज्ञान	preliminary knowledge (of a subject).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रवेश-द्वार	पु.	भीतर जाने का द्वार या रास्ता।	ভিতরে যাইবার দ্বার, প্রবেশপথ	भितरे जाइबार द्वार, प्रवेशपथ	entrance gate.
प्रवेश-पत्र	पु.	वह पत्र जिसके द्वारा कहीं प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो।	প্রবেশপত্র, অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র, পাস	प्रवेशपत्र, अनुमतिपत्र, छाड़पत्र, पास	pass.
प्रवेश-शुल्क	पु.	प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए दिया जानेवाला धन।	প্রবেশশুল্ক, প্রবেশমূল্য	प्रवेशशुल्क, प्रवेशमूल्य	admission fee.
प्रवेशिका	स्त्री.	1. प्रवेशपत्र या प्रवेश-शुल्क;	টিকিট, পাস;	टिकिट, पास;	pass or admission fee;
		2. आरम्भिक शिक्षा के उपरान्त ली जानेवाली परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता है।	প্রবেশিকা, উচ্চতর শিক্ষা-প্রাপ্তির জন্য ভর্তি হইবার জন্য প্রথমে যে-পরীক্ষা দিতে হয়	प्रवेशिका, उच्चतर शिक्षा-प्राप्तिर जन्य भर्ति हइवार जन्य प्रथमे जे-परीक्षा दिते हय	preliminary test.
प्रव्रजन	पु.	1. संन्यास लेना; 2. अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने के लिए जाना।	প্রব্রজন; বিদেশে বসবাস করিতে যাওয়া	प्रव्रजन; विदेशे बसबास करिते जाओया	renunciation; migration.
प्रशंसक	पु.	प्रशंसा करनेवाला।	প্রশংসক, প্রশংসাকারী	प्रशंसक, प्रशंसाकारी	admirer, one who praises.
प्रशंसनीय	वि.	प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा का अधिकारी या पात्र।	প্রশংসনীয়, প্রশংসার যোগ্য	प्रशंसनीय, प्रशंसार जोग्य	to be praised, praiseworthy, laudable.
प्रशंसा	स्त्री.	गुणों का बखान, गुणकीर्तन, तारीफ।	প্রশংসা, গুণকীর্তন, সুখ্যাতি, তারিফ	प्रशंसा, गुनकीर्त्तन, सुख्याति, तारिफ	praise, admiration, commendation.
प्रशंसित	वि.	जिसकी प्रशंसा की गई हो।	প্রশংসিত, প্রশংসাপ্রাপ্ত	प्रशंसित, प्रशंसाप्राप्त	praised, admired, commended.
प्रशमन	पु.	1. शांत करना;	প্রশমন, শান্তকরণ;	प्रशमन, शान्तकरन;	restoration of peace;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. रोग आदि को दबाना; 3. नाशन, ध्वंस।	রোগ ইত্যাদি দমন; নাশান, সংহার	रोग इत्यादिदमन; नाशान, संहार	curing, healing; killing, slaughter.
प्रशस्त	वि.	1. जिसकी प्रशंसा की गई हो या हुई हो; 2. श्रेष्ठ, उत्तम; 3. विस्तृत, लंबा-चौड़ा।	প্রশস্ত, যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট; বিস্তৃত, আয়ত	प्रशस्त, जाहार प्रशंसा करा हइयाछे; श्रेष्ठ, उत्कृष्ट; बिस्तृत, आयत	praised, commended; excellent, best; vast, spacious.
प्रशस्ति	स्त्री.	1. प्रशंसा, स्तुति; 2. किसी की प्रशंसा में लिखी गई कविता;	প্রশস্তি, প্রশংসা; চরিতাকীর্তন;	प्रशस्ति, प्रशंसा; चरिताकीर्तन;	praise, admiration; panegyric or small poem written in praise of anyone;
		3. ग्रन्थों के आदि अथवा अंत का वह भाग जिसमें उनके कर्ता, रचनाकाल, विषय आदि का उल्लेख रहता है।	গ্রন্থের রচনাকাল, বিষয় ইত্যাদি উল্লেখ	ग्रन्थेर रचनाकाल, बिषय इत्यादिर उल्लेख	introduction, preface.
प्रशस्य	वि.	प्रशंसनीय, स्तुत्य।	প্রশস্য, প্রশংসনীয়, স্তুতিযোগ্য	प्रशस्य, प्रशंसनीय, स्तुतिजोग्य	praiseworthy, commendable.
प्रशांत	वि.	बहुत अधिक शांत या स्थिर।	প্রশান্ত, অতিশয় শান্ত বা স্থির	प्रशान्त, अतिशय शान्त बा स्थिर	tranquillized, composed.
प्रशाखा	स्त्री.	बड़ी शाखा में निकली हुई छोटी शाखा।	প্রশাখা, শাখা-নিঃসৃত শাখা	प्रशाखा, शाखा-निःसृत शाखा	small branch or twig.
प्रशासक	पु.	शासन करनेवाला अधिकारी।	প্রশাসক, শাসনকর্তা	प्रशासक, शासनकर्ता	administrator.
प्रशासकीय	वि.	दे० 'प्रशासनिक'।	দ্র: 'প্রশাসনিক'	द्र: 'प्रशासनिक'	see 'प्रशासनिक'.
प्रशासन	पु.	सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से किया जानेवाला कार्य, शासन।	প্রশাসন শাসনকার্য	प्रशासन, शासनकार्ज	administration, rule.
प्रशासनिक	वि.	प्रशासन-संबंधी, प्रशासन का।	প্রশাসনিক, প্রশাসন সম্বন্ধী	प्रशासनिक, प्रशासन सम्बन्धी	administrative.
प्रशासित	वि.	जिसका शासन हो रहा हो।	প্রশাসিত, শাসিত	प्रशासित, शासित	governed, administered.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रशिक्षक	पु.	प्रशिक्षण देनवाला।	প্রশিক্ষক, যিনি প্রশিক্ষণ দেন	प्रशिक्षक, जिनि प्रशिक्षन देन	instructor (one who instructs).
प्रशिक्षण	पु.	किसी व्यावहारिक या प्रायोगिक शिक्षा-पद्धति से दी जानेवाली या प्राप्त की जानेवाली विशेष शिक्षा।	প্রশিক্ষণ, ব্যাবহারিক তথা প্রয়োগিক পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ শিক্ষা	प्रशिक्षन, ब्यावहारिक तथा प्रयोगिक पद्धति अनुसारे बिशेष शिक्षा	training.
प्रशिक्षणार्थी (प्रशिक्षार्थी)	पु.	प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक या उम्मीदवार।	প্রশিক্ষণার্থী	प्रशिक्षनार्थी	trainee.
प्रशिक्षित	वि.	जिसने किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	प्रशिक्षनप्राप्त	trained (one who has taken special training).
प्रशीतक	पु.	एक विशिष्ट प्रकार की लोहे की अलमारी जिसमें औषध, खाद्य-पदार्थ आदि ठंडे रखने और विकृत होने से बचाने के लिए रखे जाते हैं।	শৈত্যশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রবিশেষ, ফ্রিজ	शैत्यशक्तिसम्पन्न जन्त्रबिशेष, फ्रिज	refrigerator.
	वि.	बहुत अधिक ठंडा करने या रखनेवाला।	যাহা খুব বেশী ঠান্ডা করে বা রাখে	जाहा खुब बेशी ठान्डा करे बा राखे	refrigerant.
प्रशीतन	पु.	बहुत अधिक ठंडा करना या रखना।	খুব বেশী ঠান্ডা করা বা রাখা	खुब बेशी ठान्डा करा बा राखा	refrigeration.
प्रश्न	पुं.	1. वह बात जिसका उत्तर अभीष्ट हो या दिया जाता हो; 2. समस्या।	প্রশ্ন, জিজ্ঞাসিত বিষয়, যাহা জিজ্ঞাসা করা হয়; সমস্যা	प्रश्न, जिज्ञासित विषय, जाहा जिज्ञासा करा हय; समस्या	question, interrogation, query; problem.
प्रश्न-चिह्न	पु.	1. लेखन आदि में प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में लगाया जोनवाला विराम चिह्न; 2. विकट समस्या जिसका कोई उपाय न सूझ रहा हो।	প্রশ্নচিহ্ন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন; বিরাট সমস্যা	प्रश्नचिह्न, प्रश्नबोधक चिह्न; बिराट समस्या	mark of interrogation; insoluble problem

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रश्नावली	स्त्री.	1. प्रश्नों की सूची; 2. किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाली वह सूची जो आधिकारिक रूप से किसी बात की जांच करने या अभिमत प्राप्त करने के लिए संबद्ध लोगों के पास भेजी जाती है।	প্রশ্নাবলী; কোনো বিষয় সম্বন্ধে অভিমত জানার জন্য যে প্রশ্নমালা সংসৃষ্ট ব্যক্তির নিকট যথারীতি প্রেরিত হয়	प्रश्नाबली; कोनो बिषय सम्बन्धे अभिमत जानार जन्य जे प्रश्नमाला संसृष्ट ब्यक्तिर निकट जथारीति प्रेरित हय	list of questions; questionnaire.
प्रश्नोत्तर	पु.	प्रश्न और उसका उत्तर।	প্রশ্নোত্তর, প্রশ্ন ও উত্তর	प्रश्नोत्तर, प्रश्न ओ उत्तर	question and answer.
प्रश्नोत्तरी	स्त्री.	किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों और उनके उत्तरों का संग्रह, विशेषत: ऐसा संग्रह जिसमें इस प्रकार किसी विषय का स्वरूप स्पष्ट किया गया हो।	কোনো বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের সংগ্রহ– যাহাতে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে	कोनो बिषये प्रश्न ओ उत्तरेर संग्रह– जाहाते बिषयटि स्पष्ट हइया उठे	catechism.
प्रश्रय	पु.	सहारा, आश्रय।	সহায়তা, আশ্রয়	सहायता, आश्रय	support, shelter.
प्रश्वास	पु.	बाहर आती हुई सांस।	নিঃশ্বাস	निःश्वास	breathing out.
प्रसंग	पु.	1. विषय का तारतम्य, प्रकरण; 2. मैथुन।	প্রসংগ, আলোচ্য বিষয়; মৈথুন	प्रसङ्ग, आलोच्य बिषय; मैथुन	context; intercourse.
प्रसंगवश	क्रि. वि.	प्रसंग उपस्थित होने पर।	প্রসংগক্রমে	प्रसंगक्रमे	incidentally.
प्रसन्न	वि.	1. संतुष्ट और प्रफुल्लित; 2. निर्मल, स्वच्छ।	প্রসন্ন, সন্তুষ্ট; নির্মল, স্বচ্ছ	प्रसन्न, सन्तुष्ट; निर्मल, स्बच्छ	pleased, happy; pure, clear.
प्रसन्नता	स्त्री.	1. प्रसन्न होने की अवस्था या भाव, हर्ष; 2. स्वच्छता, निर्मलता।	প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা, হর্ষ; স্বচ্ছতা	प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष; स्बच्छता	cheerfulness; clearness, purity.
प्रसव	पु.	1. बच्चा जनना; 2. उत्पत्ति, बच्चों का होनेवाला जन्म;	প্রসব; উৎপত্তি, শিশুজন্ম;	प्रसब; उत्पत्ति, शिशुजन्म;	delivery; birth;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. जन्मा हुआ बच्चा, संतान।	সদ্যোজাত শিশুসন্তান	सद्योजात, शिशुसन्तान	children.
प्रसाद	पु.	1. देवी-देवता को भोग लगाई गई वस्तु जो भक्त-जनों में बांटी जाती है;	প্রসাদ, দেবনিবেদিত দ্রব্য, দেবনৈবেদ্য;	प्रसाद, देबनिबेदित द्रब्य, देबनैबेद्य;	offering to an idol (and later distributed amongst devotees);
		2. स्वच्छता, निर्मलता;	স্বচ্ছতা, নির্মলতা;	स्बच्छता, निर्मलता;	clearness, purity;
		3. कृपा, अनुग्रह;	কৃপা, অনুগ্রহ;	कृपा, अनुग्रह;	boon, blessing;
		4. महात्मा या गुरु की जूठन;	গুরু বা তত্তুল্য ব্যক্তির ভুক্তাবশেষ;	गुरु बा तत्तुल्य ब्यक्तिर भुक्ताबशेष;	the remnant of food left by a spiritual teacher;
		5. काव्य का एक गुण जिससे रचना का आशय समझने में कुछ भी कठिनता नहीं होती तथा उससे हृदय में उद्दीप्त भावों का संचार अनायास हो जाता है।	কাব্যাদির মনোহর প্রাঞ্জলতা-গুণ	काब्यादिर मनोहर प्रांजलता-गुन	lucidity (of the style of writing etc.).
प्रसाधन	पु.	1. बनाव-श्रृंगार;	প্রসাধন;	प्रसाधन;	make-up;
		2. श्रृंगार की सामग्री;	অলঙ্করণসামগ্রী;	अलङ्करनसामग्री;	toilet;
		3. किसी चीज को अच्छी तरह काट-छांटकर अथवा परिष्कृत करके काम में आने के योग्य बनाना;	সংস্কার;	संस्कार;	dressing;
		4. वे पदार्थ या सामग्री जो किसी काम के लिए आवश्यक और उपयोगी हों, उपस्कर, साधन।	সাজসরঞ্জাম	साजसरंजाम	equipment.
प्रसार	पु.	1. फैलाने की क्रिया;	প্রসার, বিস্তার, প্রসারণ;	प्रस्तार, बिस्तार, प्रसारन;	spreading or stretching out;
		2. फैलाव, संचार।	আয়তন	आयतन	extent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रसारण	पु.	1. आकाशवाणी द्वारा समाचार, गीत आदि का लोगों को सुनाने के लिए प्रस्तुत करना; 2. फैलाना।	আকাশবাণী দ্বারা সমাচার, সংগীত ইত্যাদির প্রচার; সম্প্রসারণ, প্রসার, বিস্তার	आकाशबानी द्वारा समाचार, सङ्गीत इत्यादिर प्रचार; सम्प्रसारन, प्रसार बिस्तार	broadcasting; expanding, expansion.
प्रसारित	वि.	1. आकाशवाणी के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ; 2. फैलाया हुआ।	আকাশবানী-প্রচারিত; প্রসারিত, বিস্তৃত	आकाशबानी-प्रचारित; प्रसारित, बिस्तृत	broadcast; expanded.
प्रसिद्ध	वि.	ख्यात, मशहूर।	প্রসিদ্ধ, খ্যাত, ব্যাপকভাবে পরিচিত	प्रसिद्ध, ख्यात, ब्यापकभाबे परिचित	famous, well-known.
प्रसिद्धि	स्त्री.	प्रसिद्ध होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রসিদ্ধি, খ্যাতি	प्रसिद्धि, ख्याति	fame, renown.
प्रसुप्त	वि.	1. सोया हुआ; 2. निष्क्रिय, निश्चेष्ट।	প্রসুপ্ত, সুনিদ্রিত; নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট	प्रसुप्त, सुनिद्रित; निष्क्रिय, निश्चेष्ट	asleep; dormant.
प्रसूत	वि.	उत्पन्न, संजात।	প্রসূত, উৎপন্ন, সঞ্জাত	प्रसूत, उत्पन्न, सञ्जात	born, brought forth, delivered.
प्रसूता	स्त्री.	वह स्त्री जिसे कुछ ही काल पूर्व बच्चा पैदा हुआ हो।	প্রসূতা, কৃতপ্রসবা, জাতাপত্যা	प्रसूता, कृतप्रसबा, जातापत्या	a woman who has brought forth a child recently.
प्रसूति	स्त्री.	1. प्रसव, उत्पत्ति; 2. संतान।	প্রসব, উৎপত্তি; সন্তান	प्रसब, उत्पत्ति; सन्तान	delivering, bringing forth; child.
प्रसूति-गृह	पु.	बच्चा जनने का घर या स्थान।	প্রসূতিগৃহ, সূতিকাগার	प्रसूतिगृह, सूतिकागार	maternity home.
प्रसून	पुं.	पुष्प, फूल।	প্রসূন, পুষ্প, ফুল	प्रसून, पुष्प, फुल	flower, blossom.
प्रस्तर-कला	स्त्री.	पत्थरों को काट-छांटकर उनकी विशिष्ट आकृतियाँ आदि बनाने की कला या विद्या।	ভাস্কর্য	भास्कर्ज	sculpture.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रस्ताव	पु.	1. वह नई बात जो किसी के सामने इस उद्देश्य से विचारार्थ रखी जाए कि यदि वह उसे उपयुक्त समझे तो मान ले और उसके अनुसार कार्य करे;	প্রস্তাব, যথাযোগ্য বিবেচনা এবং উপযুক্তবোধে অনুসরণজন্য উপস্থাপিত নূতন প্রসংগ;	प्रस्ताब, जथाजोग्य बिबेचना एबं उपजुक्तबोधे अनुसरनजन्य उपस्थापित नूतन प्रसङ्ग;	resolution, proposal;
		2. सभा के सामने रखी हुई बात ताकि यदि अधिकांश सदस्य मान लें तो भविष्य में उसके अनुसार कार्य हो।	কোনো সভায় আলোচনা ও গ্রহণের জন্য উত্থাপিত বিষয়	कोनो सभाय आलोचना ओ ग्रहनेर जन्य उत्थापित बिषय	motion.
प्रस्तावक	पु.	प्रस्ताव करनेवाला।	প্রস্তাবক	प्रस्ताबाक	one who proposes.
प्रस्तावना	स्त्री.	1. आरंभ;	প্রস্তাবনা, আরম্ভ;	प्रस्ताबना, आरम्भ;	beginning;
		2. नाटक के आरंभ में सूत्रधार का नटी, विदूषक आदि के साथ होनेवाला संलाप जिसमें परिचय आदि रहता है;	সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার নটনটী ইত্যাদির কথোপকথনচ্ছলে প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা;	संस्कृत नाटके सूत्रधार नटनटी इत्यादिर कथोपकथनच्छले प्रस्तुत बिषयेर अबतारना;	introductory dialogue (the prologue) at the beginning of a drama between the manager and one of the actors, which after giving an account of the author and his qualifications introduces the audience to the incidents of the drama;
		3. किसी ग्रन्थ का वह आरंभिक वक्तव्य जिसमें उससे सम्बन्धित कुछ मुख्य बातों का विवेचन किया जाता है।	গ্রন্থের ভূমিকা	ग्रन्थेर भूमिका	introduction.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रस्तावित	वि.	जिसके लिए या जिसके विषय में प्रस्ताव हुआ हो या किया गया हो।	প্রস্তাবিত, প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন, উত্থাপিত	प्रस्तावित, प्रस्ताव करा हइयाछे एमन, उत्थापित	proposed.
प्रस्तुत	वि.	1. जो इस समय उपस्थित या वर्तमान हो, मौजूद;	প্রস্তুত উপস্থিত;	प्रस्तुत उपस्थित;	present;
		2. प्रकरण-प्राप्त, प्रासंगिक;	প্রাকরণিক;	प्राकरनिक;	relevant;
		3. उद्यत, तैयार।	উদ্যত, তৈয়ার	उद्यत, तैयार	ready, produced.
प्रस्तोता	वि.	प्रस्तावक, प्रस्तुत करनेवाला।	প্রস্তাবক, প্রস্তাবকারী	प्रस्तावक, प्रस्तावकारी	one who proposes or presents.
प्रस्थान	पु.	1. यात्रा आरंभ करना, रवानगी;	প্রস্থান, যাত্রা, প্রয়াণ;	प्रस्थान, जात्रा, प्रयान;	departure;
		2. युद्ध-यात्रा, कूच;	যুদ্ধ-যাত্রা;	जुद्ध-जात्रा;	march, the march of an army;
		3. आस्तिक हिन्दुओं की एक प्रथा जिसमें शुभ मुहूर्त में यात्रा आरंभ न कर सकने पर प्रतीक रूप में गंतव्य स्थान की दिशा में कहीं कुछ रख दिया जाता है।	আস্তিক হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথা	आस्तिक हिन्दुदेर मध्ये प्रचलित एकटि प्रथा	formality of starting (for journey by keeping some part of luggage away from house).
प्रस्थापन	पु.	1. प्रमाणों आदि से सिद्ध करते हुए कोई विषय किसी के सामने उपस्थित करना;	প্রস্থাপন, প্রকৃষ্টভাবে স্থাপন;	प्रस्थापन, प्रकृष्टभाबे स्थापन;	proving, demonstrating;
		2. मशीनों, यंत्रों आदि को किसी स्थान पर लगाना।	যন্ত্রাদি স্থাপন	जन्त्रादि स्थापन	installation.
प्रस्फुटन	पु.	1. (फूलों का) खिलना;	প্রস্ফুটন, বিকাসন, (ফুল) ফোটা;	प्रस्फुटन, बिकासन, (फुल) फोटा;	opening up, blooming;
		2. प्रकट होना, व्यक्त होना।	সুস্পষ্ট হওয়া, সুব্যক্ত হওয়া	सुस्पष्ट हओया, सुब्यक्त हओया	becoming distinct.
प्रस्फुटित	वि.	खिला हुआ, विकसित।	প্রস্ফুটিত, বিকসিত	प्रस्फुटित, बिकसित	bloomed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रहर	पु.	दिन का आठवां भाग।	প্রহর, দিবসের অষ্টম ভাগ	प्रहर, दिवसेर अष्टम भाग	the eighth part of a whole day.
प्रहरी	पु.	1. पहरेदार; 2. पहर-पहर पर घंटा बजानेवाला कर्मचारी।	প্রহরী, পাহারাওয়ালা; ঘড়িয়াল	प्रहरी, पाहाराओयाला; घड़ियाल	watchman, bellman; one who announce the hours by striki a bell.
प्रहसन	पु.	एक प्रकार का रूपक जो भाण की तरह हास्य रस-प्रधान होता है। इसका विषय प्रायः कवि-कल्पित होता है तथा उसमें हेय आचार-विचार की खिल्ली उड़ाई जाती है।	প্রহসন, হাস্যরসাত্মক নাটকবিশেষ	प्रहसन, हास्यरसात्मक नाटकविशेष	kind of comedy or farce.
प्रहार	पु.	आघात, वार।	প্রহার, আঘাত	प्रहार, आघात	stroke, blow.
प्रहेलिका	स्त्री.	पहेली।	প্রহেলিকা	प्रहेलिका	riddle, puzzle.
प्रांगण	पु.	मकान के आगे या अंदर छोड़ा हुआ खुला स्थान, आंगन।	প্রাংগন, উঠান, অংগন	प्राङ्गन, उठान, अङ्गन	court-yard.
प्रांजल	वि.	सरल, सुबोध (भाव या भाषा)।	প্রাঞ্জল, সরল, সুখবোধ্য	प्राञ्जल, सरल, सुखबोध्य	lucid, clear language etc.
प्रांत	पु.	1. किसी देश का कोई बड़ा भाग, प्रदेश; 2. छोर, किनारा, सिरा।	প্রদেশ; প্রান্ত, কিনারা, ধার	प्रदेश; प्रान्त, किनारा, धार	province, territory; edge, border.
प्रांतीय	वि.	प्रांत संबंधी, प्रांत का।	প্রাদেশিক	प्रादेशिक	pertaining to a province, provincial.
प्रांतीयता	स्त्री.	अपने प्रांतवासियों के प्रति मोह या पक्षपात की भावना जिसके कारण	প্রাদেশিকতা	प्रादेशिकता	provincialism.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		अन्य प्रांतवासियों के प्रति उदासीनता या उपेक्षा दिखाई जाती है।			
प्राइमर	स्त्री.	किसी भाषा की वर्णमाला आदि सिखानेवाली प्रारंभिक पुस्तक।	প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক	प्राथमिक पाठ्यपुस्तक	primer.
प्राइमरी	वि.	आरंभिक, प्राथमिक।	প্রাইমারী	प्राइमारी	primary.
प्राकार	पु.	नगर या किले के चारों ओर रक्षा के लिए बनाई गई दीवार, परकोटा।	প্রাকার, বেষ্টন প্রাচীর	प्राकार, बेष्टन प्राचीर	surrounding wall of city, fort etc.
प्राकृत	स्त्री.	संस्कृत से भिन्न एक भाषा जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में स्त्री तथा अन्य निम्न-वर्गीय पात्रों आदि के मुख से कराया जाता है।	প্রাকৃত, প্রাচীন ভারতে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কথ্য ভাষা– নাটকাদিতে এই ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় স্ত্রী এবং নিম্ন-বর্গীয় চরিত্রের মুখে	प्राकृत, प्राचीन भारते जन-साधारनेर मध्ये प्रचलित कथ्य भाषा– नाटकादिते एइ भाषार प्रयोग लक्ष्य करा जाय स्त्री एबं निम्न-बर्गीय चरित्रेर मुखे	an ancient language of India, different from Sanskrit, generally used in Sanskrit plays for dialogues spoken by females and other low characters.
	वि.	1. प्रकृति संबंधी, प्रकृति का;	প্রকৃতিসম্বন্ধী, প্রাকৃতিক;	प्रकृतिसम्बन्धी, प्राकृतिक;	pertaining to nature;
		2. असंस्कृत, जो अपने उसी मूल रूप में हो जिसमें उसे प्रकृति ने उत्पन्न किया हो;	প্রকৃতিসিদ্ধ, মূলভূত;	प्रकृतिसिद्ध, मूलभुत;	natural, original;
		3. उजड्ड, अशिक्षित;	অমার্জিত, অশিক্ষিত, অসংস্কৃত বুদ্ধি;	अमार्जित अशिक्षित, असंस्कृत बुद्धि;	uncivilized, uneducated;
		4. स्वाभाविक;	স্বাভাবিক;	स्वाभाबिक;	natural;
		5. साधारण, मामूली।	সাধারণ	साधारन	ordinary.
प्राकृतिक	वि.	1. नैसर्गिक, प्रकृति से उद्भूत;	প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক;	प्राकृतिक, नैसर्गिक;	natural, derived from nature;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव से संबंध रखनेवाला।	প্রকৃতিসিদ্ধ	प्रकृतिसिद्ध	pertaining to human nature.
प्राक्कथन	पु.	पुस्तक के विषय आदि के संबंध में प्रारंभ में कही जानेवाली बात, प्रस्तावना।	প্রস্তাবনা	प्रस्तावना	foreword.
प्राक्कलन	पु.	अनुमान या संभावना के आधार पर पहले से किया जानेवाला आकलन या गणना, तखमीना।	কোনো ব্যাপারের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব	कोनो ब्यापोरेर सम्भाब्य ब्ययेर हिसाब	estimate.
प्रागैतिहासिक	वि.	क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होनेवाले लिखित इतिहास से पूर्वकाल का।	প্রাগৈতিহাসিক	प्रागैतिहासिक	pre-historic.
प्राचार्य	पु.	प्रधानाचार्य।	প্রধান আচার্য	प्रधान आचार्ज	principal.
प्राची	स्त्री.	पूर्व दिशा।	প্রাচী, পূর্বদিক্	प्राची, पूर्बदिक्	the east.
प्राचीन	वि.	पहले का, पुराना।	পুরাতন, প্রাচীন	पुरातन, प्राचीन	ancient, old.
प्राचीनता	स्त्री.	प्राचीन होने का भाव, पुरानापन।	প্রাচীনত্ব, সেকেলেপনা	प्राचीनत्व, सेकेलेपना	antiquity, oldness.
प्राचीर	स्त्री.	नगर, किले आदि के चारों ओर रक्षा के लिए बनाई दीवार, परकोटा, चहारदीवारी।	প্রাচীর, প্রাকার, দেওয়াল	प्राचीर, प्राकार, देओयाल	surrounding wall of city, fort etc., parapet.
प्राचुर्य	पु.	आधिक्य, बहुतायत।	প্রাচুর্য, আধিক্য	प्राचुर्ज, आधिक्य	abundance, plenty.
प्राच्य	वि.	पूरब का, पूरबी।	পূর্বদিকস্থ	पूर्बदिकस्थ	of the east, eastern.
प्राण-त्याग	पु.	मृत्यु, मर जाना।	প্রাণত্যাগ, মৃত্যু, জীবনযাত্রা সমাপন	प्रानत्याग, मृत्यु, जीवनजात्रा समापन	abandonment of life, death.
प्राण-दण्ड	पु.	गंभीर अपराध के लिए किसी को दी जानेवाली मौत की सजा।	প্রাণদন্ড, মৃত্যুদন্ড	प्रानदन्ड, मृत्युदन्ड	capital punishment.

हिंदी शब्द	व्या· कोटि·	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्राणदान	पु.	1. किसी में प्राण डालना या उसे प्राणों से युक्त करना; 2. किसी के प्राणों की रक्षा करना।	প্রাণদান, প্রাণসঞ্চার; প্রাণরক্ষা, জীবনরক্ষা	प्रानदान, प्रानसञ्चार; प्रानरक्षा, जीवनरक्षा	restoration of life; gift of life, i.e. saving a person's life.
प्राणधारी	पु.	जीव, प्राणी।	প্রাণধারী, প্রাণধারণকারী, প্রাণী	प्रानधारी, प्रानधारनकारी, प्रानी	living being, organism, a creature.
प्राणपण	पु.	जान की बाजी।	প্রাণপণ	प्रानपन	at the stake of one's life.
प्राणप्रतिष्ठा	स्त्री.	1. किसी में प्राण डालकर उसे सजीव बनाना; 2. नवीन देव-प्रतिमा का एक संस्कार जिसमें मंत्रों द्वारा प्रतिमा में देवता का आह्वान किया जाता है और उसके बाद ही वह पूजा के उपयुक्त होती है।	প্রাণপ্রতিষ্ঠা, জীবণকরণ; মন্ত্রপাঠ দ্বারা প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার	प्रानप्रतिष्ठा, जीबनकरन; मन्त्रपाठ द्वारा प्रतिमाय प्रानसञ्चार	infusion, injectmen of Life; ceremony of consecrating an idol.
प्राणवायु	स्त्री.	1. प्राण; 2. एक प्रकार की प्रसिद्ध गैस जो प्राणियों, वनस्पतियों आदि को जीवित रखने के लिए परम आवश्यक मानी जाती है, आक्सीजन।	প্রাণবায়ু, প্রাণ; অম্লজান	प्रानवायु, प्रान; अम्लजान	vital breath; oxygen.
प्राणशक्ति	स्त्री.	जीवनशक्ति।	প্রাণশক্তি	प्रानशक्ति	vitality.
प्राणांत	पु.	मृत्यु, मौत।	প্রাণান্ত, মৃত্যু	प्रानान्त, मृत्यु	life-end, death.
प्राणायाम	पु.	श्वासप्रश्वास की गति का नियमन।	প্রাণায়াম	प्रानायाम	exercising control over the process of breathing.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्राणाहुति	स्त्री.	1. भोजन के आरंभ में पांच ग्रास पांचों प्राणों के निमित्त मंत्रोच्चारण पूर्वक खाना; 2. प्राणों का बलिदान, शहादत।	ভোজনের প্রারম্ভে মন্ত্রোচ্চারপূর্বক পঞ্চ প্রাণের নামে পঞ্চগ্রাস অন্ন ভক্ষণ; প্রাণাহুতি, প্রাণবলিদান	भोजनेर प्रारम्भे मन्त्रोच्चारपूर्वक पन्च प्रानेर नामे पंचग्राम अन्न भक्षन; प्रानाहुति, प्रानवलिदान	an oblation to the five 'Pranas'; sacrifice of life, martyrdom.
प्राणिविज्ञान	पु.	आधुनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों की जातियों, वर्गों आदि का अध्ययन होता है।	প্রাণিবিদ্যা	प्रानिविद्या	zoology.
प्राणी	पु. वि.	जीवधारी, प्राणधारी।	প্রাণী, প্রাণবান্, প্রাণধারণকারী,	प्रानी, प्रानवान्, प्रानधारनकारी,	living creature, animal.
प्राणोत्सर्ग	पु.	1. प्राणत्याग, मृत्यु; 2. प्राणों का बलिदान, शहादत।	প্রাণোৎসর্গ; প্রাণবলিদান	प्रानोत्सर्ग; प्रानबलिदान	death; sacrifice of life, martyrdom.
प्रातः	पु.	सवेरा, प्रातःकाल।	প্রাতঃ সকালবেলা	प्रातः सकालबेला	early morning.
प्रातःकाल	पु.	पौ फटने का समय, सूर्योदय से कुछ पहले और कुछ बाद का समय।	প্রাতঃকাল, প্রভাত, ভোরবেলা	प्रातःकाल, प्रभात, भोरबेला	early morning, day-break.
प्रातःकालीन	वि.	प्रातःकाल संबंधी, प्रातःकाल का।	প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন	प्रातःकालीन, प्रभातकालीन	pertaining to early morning.
प्रातःस्मरणीय	वि.	जिसे प्रातःकाल स्मरण करना उचित हो अर्थात् परम पूज्य और श्रेष्ठ।	প্রাতঃস্মরণীয়	प्रातःस्मरनीय	worthy of being remembered every morning, revered.
प्रातराश	पु.	सवेरे का हलका भोजन, कलेवा।	প্রাতরাশ, প্রাতভোজন	प्रातराश, प्रातभोजन	breakfast.
प्राथमिक	वि.	1. क्रम, गिनती आदि के विचार से आरंभ में आने या पड़नेवाला; 2. आरंभ में घटित होनेवाला।	প্রাথমিক, আদ্য, আদিম; আরম্ভকালীন	प्राथमिक, आद्य, आदिम; आरम्भकालीन	first; occurring in the first place.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्राथमिक उपचार	पु.	किसी के अचानक घायल होने या बीमार पड़ने की स्थिति में योग्य चिकित्सक उपलब्ध होने से पूर्व किया जानेवाला उपचार जो रोग को बढ़ने न दे, घायल की मलहम-पट्टी।	প্রাথমিক সাহায্য, প্রাথমিক চিকিৎসা	प्राथमिक साहाज्य, प्राथमिकचिकित्सा	first aid.
प्राथमिकता	स्त्री.	1. प्रथम स्थान में होने या रखे जाने की अवस्था या भाव;	প্রাথমিকতা, প্রাথমিকত্ব;	प्राथमिकता, प्राथमिकत्व;	precedence;
		2. किसी कार्य या बात में किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से पूर्व मिलने या दिया जानेवाला अवसर।	অগ্রাধিকার	अग्राधिकार	priority.
प्राथमिक शिक्षा	स्त्री.	आरंभ में दी जानेवाली शिक्षा, विशेषतः छोटे बालकों को आरंभिक कक्षाओं में दी जानेवाली शिक्षा जिसमें उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है।	প্রাথমিক শিক্ষা, (শিশুদের) প্রারম্ভিক শিক্ষা	प्राथमिक शिक्षा, (शिशुदेर) प्रारम्भिक शिक्षा	primary education.
प्रादुर्भाव	पु.	जन्म धारण कर अस्तित्व में आने का भाव, प्रकट होना, उत्पत्ति।	প্রাদুর্ভাব, আবির্ভাব, প্রকটন, উৎপত্তি	प्रादुर्भाब, आबिर्भाब, प्रकटन, उत्पत्ति	coming into existence, appearance.
प्रादुर्भूत	वि.	जिसका **प्रादुर्भाव** हुआ हो।	প্রাদুর্ভূত, আবির্ভূত	प्रादुर्भूत, आबिर्भूत	appeared, become visible or manifest.
प्रादेशिक	वि.	प्रदेश संबंधी, प्रदेश का।	প্রাদেশিক, প্রদেশসম্বন্ধীয়, দেশের অংশবিশেষের সংগে সম্পর্কিত	प्रादेशिक, प्रदेशसम्बन्धीय, देशेर अंशबिशेषेर सङ्गे सम्पर्कित	pertaining to region or territory, regional, territorial.
प्राधान्य	पु.	प्रधान होने की अवस्था या भाव।	প্রাধান্য, আধিপত্য শ্রেষ্ঠত্ব	प्राधान्य, आधिपत्य, श्रेष्ठत्व	predominance, superiority.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्राधिकरण	पु.	1. प्राधिकार देना; 2. प्राधिकारी का कार्यालय या पद।	প্রাধিকার অর্পণ; কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির পদ বা কার্যালয়	प्राधिकार अर्पन; कर्तृत्वसम्पन्न ब्यक्तिर पद बा कार्जालय	authorization; office or post of the authority.
प्राधिकार	पु.	1. वह विशिष्ट अधिकार या शक्ति जिसके अनुसार औरों को कुछ करने की आज्ञा या आदेश दिया जा सकता है, उसका पालन कराया जा सकता है और महत्वपूर्ण बातों का अन्तिम निर्णय किया जा सकता है;	অধিকার;	अधिकार;	authority;
		2. वह अधिकार जिससे अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिनसे कठिनाइयों, बाधाओं आदि से सहज में बचा जा सकता है।	বিশেষাধিকার	बिशेषाधिकार	privilege.
प्राधिकारी	पु.	राज्य अथवा शासन का वह अधिकारी जिसे किसी क्षेत्र या विभाग में अधिकार प्राप्त हो।	অধিকারী	अधिकारी	authority.
प्राधिकृत	वि.	जिसे कोई प्राधिकार प्रदान किया गया हो।	প্রদত্তাধিকার	प्रदत्ताधिकार	authorized.
प्राध्यापक	पु.	महाविद्यालय में किसी विषय की शिक्षा देनेवाला अध्यापक।	উপাধ্যায়, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক	उपाध्याय, महाबिद्यालयेर शिक्षक	lecturer.
प्राप्त	वि.	पाया हुआ, जो मिला हो, लब्ध, उपस्थित।	প্রাপ্ত, যাহা পাওয়া গিয়াছে	प्राप्त, जाहा पाओया गियाछे	got, obtained, acquired, present.
प्राप्ति	स्त्री.	1. हाथ में आने या मिलने की क्रिया, अवस्था या भाव;	প্রাপ্তি, পাওয়া;	प्राप्ति, पाओया;	gain, that which is received;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. लाभ, फायदा;	লাভ, সুবিধা;	लाभ, सुबिधा;	advantage, profit;
		3. किसी वस्तु या बात के उपस्थित होने या पास पहुंचने की क्रिया या भाव।	উপস্থিতি	उपस्थिति	receipt.
प्राप्य	वि.	1. प्राप्त करने योग्य;	প্রাপ্য, প্রাপ্তিযোগ্য;	प्राप्य, प्राप्तिजोग्य;	attainable, procurable;
		2. जो मिल सके।	লভ্য	लभ्य	available.
प्राबल्य	पु.	1. प्रबलता;	প্রাবল্য, প্রবলতা;	प्राबल्य, प्रबलता;	intensity, force;
		2. प्रधानता।	প্রাধান্য	प्राधान्य	predominance.
प्रामाणिक	वि.	1. जो प्रमाण के रूप में माना जाता हो या माना जा सकता हो;	প্রামাণিক, প্রমাণরূপে গ্রাহ্য;	प्रामानिक, प्रमानरूपे ग्राह्य;	authoritative;
		2. जो शास्त्रों आदि से प्रमाणित या सिद्ध हो।	শাস্ত্রসমর্থিত প্রমাণসিদ্ধ	शास्त्रसमर्थित प्रमानसिद्ध	established by proof, authentic.
प्राय:	क्रि. वि.	1. लगभग, करीब-करीब;	প্রায়, কাছাকাছি;	प्राय, काछाकाछि;	almost;
		2. अक्सर, अधिकतर।	সাধারণত:	साधारनत:	generally,usually.
प्रायद्वीप	पु.	स्थल का वह भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो और एक ओर स्थल से लगा हो।	উপদ্বীপ	उपद्वीप	peninsula.
प्रायश्चित्त	पु.	1. पाप का मार्जन करने के लिए किया जानेवाला शास्त्रविहित कर्म;	প্রায়শ্চিত্ত, পাপশোধনার্থ কর্ম;	प्रायश्चित, पापशोधनार्थ कर्म;	religious act to atone for sin;
		2. पछताना, अपने से कोई गलत या अनुचित कार्य हो जाने पर अफसोस करना।	অনুতাপ	अनुताप	expiation, atonement.
प्रायोगिक	वि.	1. प्रयोग संबंधी;	প্রায়োগিক, প্রয়োগসম্বন্ধীয়;	प्रायोगिक, प्रयोगसम्बन्धीय;	pertaining to experiment;
		2. क्रियात्मक या व्यावहारिक;	ব্যাবহারিক;	ब्यावहारिक;	practical;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. उपयोगी, ठीक या मान्य सिद्ध करने के लिए जिसका प्रयोग या परीक्षा मात्र हो रही हो;	পরীক্ষামূলক;	परीक्षामूलक;	experimental;
		4. प्रयोग के रूप में किया जानेवाला या काम में लाया जानेवाला।	ফলিত	फलित	applied.
प्रारंभ	पु.	1. शुरु होना या जारी होना;	প্রারম্ভ, আরম্ভ;	प्रारम्भ, आरम्भ;	commencement;
		2. किसी कार्य या बात का शुरु का अंश।	সূত্রপাত	सूत्रपात	starting point.
प्रारंभिक	वि.	आरंभ का, आरंभ में होनेवाला।	প্রারম্ভিক, আরম্ভকালীন	प्रारम्भिक, आरम्भकालीन	initial.
प्रारब्ध	पु.	पूर्वजन्म अथवा पूर्वकाल में किए वे अच्छे या बुरे कर्म जिनका फल वर्तमान में भोगा जा रहा हो, भाग्य।	প্রারব্ধ, পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যাহার ভোগ সুরু হইয়াছে	प्रारब्ध, पूर्वजन्मार्जित कर्मफल जाहार भोग सुरु हइयाछे	destiny, fate.
प्रारूप	पु.	1. किसी कथन, वक्तव्य पत्र आदि का मसौदा;	খসড়া, মুসাবিদা;	खसड़ा, मुसाविदा;	draft;
		2. प्रस्तावित निर्माण की रूपरेखा।	রূপরেখা	रूपरेखा	outline.
प्रार्थना	स्त्री.	1. नम्रतापूर्वक निवेदित कोई बात, निवेदन;	প্রার্থনা, নিবেদন;	प्रार्थना, निवेदन;	request;
		2. अपने अथवा किसी और के कल्याण की कामना भक्ति और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से करना;	ভগবানের কাছে কোনো অভীষ্ট সিদ্ধির কামনা;	भगबानेर काछे कोनो अभीष्ट सिद्धिर कामना;	prayer;
		3. याचना।	যাচ্ঞা	जाञ्चा	petition.
प्रार्थनापत्र	पु.	वह पत्र या लेख जिसमें किसी प्रकार की प्रार्थना या निवेदन किया गया हो।	দরখাস্ত, আরজি	दरखास्त, आरजि	application.
प्रार्थी	वि.	1. प्रार्थना करनेवाला;	প্রার্থী, প্রার্থনাকারী;	प्रार्थी, प्रार्थनाकारी;	one who prays, requests;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. प्रार्थनापत्र देनेवाला;	আবেদনকারী;	आवेदनकारी;	one who has given his application;
		3. उम्मीदवार।	উমেদার	उमेदार	applicant.
प्राविधिक	वि.	1. कला-शिल्प यंत्रादि से संबंधित;	কারুশিল্প বা যন্ত্র-কৌশল সংক্রান্ত;	कारुशिल्प वा जन्त्र-कौशल संक्रान्त;	technical;
		2. किसी कार्य की विशिष्ट तथा व्यावहारिक प्रक्रियाओं से संबंध रखनेवाला, तकनीकी।	প্রায়োগিক, প্রযুক্তিসংক্রান্ত	प्रायोगिक, प्रजुक्तिसंक्रान्त	technical.
प्रासंगिक	वि.	प्रसंगप्राप्त, प्रसंगोचित।	প্রাসংগিক	प्रासङ्गिक	relevant.
प्रासाद	पुं.	1. राजभवन;	প্রাসাদ, রাজভবন;	प्रासाद, राजभवन;	palace;
		2. आलीशान इमारत।	বৃহৎ অট্টালিকা	बृहत् अट्टालिका	palatial building.
प्रिय	वि.	जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो, मन को अच्छा लगनेवाला।	প্রিয়, প্রীতিভাজন, প্রেমাস্পদ যাহা ভাল লাগে	प्रिय, प्रीतिभाजन, प्रेमास्पद जाहा भाल लागे	dear, darling.
प्रियजन	पुं.	1. स्नेहपात्र व्यक्ति;	প্রিয়জন, স্নেহভাজন ব্যক্তি;	प्रियजन, स्नेहभाजन व्यक्ति;	dear person, beloved one;
		2. सगे-संबंधी।	আত্মীয় বন্ধু	आत्मीय बन्धु	near and dear ones.
प्रियतम	पुं.	स्त्री का पति, स्वामी।	প্রিয়তম, পতি, স্বামী	प्रियतम, पति, स्वामी	husband.
	वि.	परमप्रिय।	পরমপ্রিয়	परमप्रिय	dearest.
प्रियतमा	स्त्री.	1. पत्नी;	প্রিয়তমা, পত্নী;	प्रियतमा, पत्नी;	wife;
		2. प्रेमिका।	প্রেমিকা	प्रेमिका	beloved.
प्रियदर्शी	वि.	सबको स्नेह की दृष्टि से देखनेवाला।	প্রিয়দর্শী, যে সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে	प्रियदर्शी, जे सकलके प्रीतिर चक्षे देखे	showing love to all, loving all.
प्रियवर	वि.	बहुत प्रिय (पत्रों आदि में संबोधन के रूप में प्रायः प्रयुक्त)।	প্রিয়বর, অত্যন্ত প্রিয় (সাধারণত: পত্রাদিতে সম্বোধন-রূপে ব্যবহৃত হয়)	प्रियवर अत्यन्त प्रिय (साधारनतः पत्रादिते सम्बोधन-रूपे ब्यवहृत हय)	dear (generally used in letters etc., to address a person).
प्रिया	स्त्री.	1. पत्नी, भार्या;	প্রিয়া, স্ত্রী, পত্নী;	प्रिया, स्त्री, पत्नी;	wife;
		2. प्रेमिका।	দয়িতা, প্রেমিকা	दयिता, प्रेमिका	beloved, darling.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रीत	वि.	1. जिसके मन में प्रीति उत्पन्न हुई हो; 2. जो किसी पर प्रसन्न हुआ हो।	প্রীত, প্রীতিযুক্ত, আনন্দিত, হৃষ্ট; প্রীত, সন্তুষ্ট	प्रीति, प्रीतिजुक्त, आनन्दित, हृष्ट; प्रीत, सन्तुष्ट	joyful; pleased.
प्रीतम	पु., वि.	प्रियतम।	প্রিয়তম	प्रियतम	lover, beloved.
प्रीति	स्त्री.	1. प्रेम, प्यार; 2. आमोद, प्रसन्नता।	প্রীতি, প্রেম, প্রণয়; আমোদ, আহ্লাদ	प्रीति, प्रेम, प्रनय; आमोद, आह्लाद	love, affection; pleasure, joy.
प्रीतिकर	वि.	हर्ष या प्रेम उत्पन्न करनेवाला।	প্রীতিকর, প্রীতিজনক	प्रीतिकर, प्रीतिजनक	inspiring love or affection.
प्रीतिपात्र	वि.	प्यारा, प्रेम-भाजन।	প্রীতিপাত্র, প্রীতি-ভাজন, প্রণয়াস্পদ	प्रीतिपात्र, प्रीति-भाजन, प्रनयास्पद	beloved person or thing.
प्रीतिभोज	पु.	किसी मांगलिक या सुखद अवसर पर बंधु-बांधवों तथा इष्टमित्रों को अपने यहां बुलाकर कराया जानेवाला भोजन।	প্রীতিভোজ, আনন্দউৎসব উপলক্ষে ভোজ	प्रीतिभोज, आनन्दउत्सव उपलक्षे भोज	banquet.
प्रूफ	पु.	किसी छपनेवाली सामग्री का वह आरंभिक नमूना जिसमें छपाई संबंधी सारी अशुद्धियां ठीक की जाती हैं।	প্রুফ্ (মুদ্রণে) টাইপসমূহ হইতে গৃহীত প্রতিলিপি	प्रुफ् (मुद्रने) टाइपसमूह हइते गृहीत प्रतिलिपि	proof.
प्रूफ-रीडर	पु.	वह जो छपनेवाली सामग्री का प्रूफ देखकर छापे की अशुद्धियां ठीक करता है।	প্রুফরীডার	प्रुफरीडार	proof reader.
प्रेक्षक	पु.	1. वह जो खेल-तामशा आदि चाव से या ध्यानपूर्वक देखता हो, दर्शक; 2. वह जो किसी कार्य या बात को विशेष उद्देश्य से ध्यानपूर्वक देखता रहता हो।	প্রেক্ষক, দর্শক; পর্যবেক্ষক	प्रेक्षक, दर्शक; पर्जवेक्षक	spectator; observer.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रेक्षण	पु.	किसी कार्य या बात को किसी विशेष उद्देश्य से ध्यानपूर्वक देखते रहने का भाव।	পর্যবেক্ষণ	पर्जवेक्षन	observance.
प्रेक्षागृह	पु.	नाटकों के अभिनय आदि के लिए बनी हुई रंगशाला।	প্রেক্ষাগৃহ, প্রেক্ষাগার, রংগালয়	प्रेक्षागृह, प्रक्षागार, रङ्गालय	theatre, auditorium.
प्रेत	पु.	मृतात्मा, वह योनि जिसमें मनुष्य मरने के उपरांत सपिंड होने तक रहता है।	প্রেত, ভূত, মৃতব্যক্তির আত্মা	प्रेत, भुत, मृतव्यक्तिर आत्मा	ghost, goblin, spirit of the dead.
प्रेम	पु.	प्यार, अनुराग।	প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ	प्रेम, प्रनय, अनुराग	love, affection.
प्रेमपात्र	पु.	वह व्यक्ति, जिससे प्रेम किया जाए।	প্রেমপাত্র, প্রণয়পাত্র, প্রেমাস্পদব্যক্তি	प्रेमपात्र, प्रनयपात्र, प्रेमास्पदब्यक्ति	beloved, dear.
प्रेमालाप	पु.	प्रेमपूर्वक की जानेवाली बातचीत, एक दूसरे से प्रेम करनेवाले दो या अधिक व्यक्तियों की बातचीत।	প্রেমালাপ, প্রণয়ী, প্রণয়িণীর প্রণয়-সূচক কথাবার্তা	प्रेमालाप, प्रनयी, प्रनयिनीर प्रनय-सूचक, कथावार्ता	love talk, cordial talk.
प्रेमिका	स्त्री.	1. वह स्त्री जो किसी से प्रेम करे; 2. वह स्त्री जिससे कोई व्यक्ति प्रेम करे।	প্রেমিকা, অনুরাগিণী; প্রণয়িণী	प्रेमिका, अनुरागिनी; प्रनयिनी	woman who loves someone; beloved (female).
प्रेमी	पु.	किसी से प्रेम करनेवाला।	প্রেমী, প্রেমিক	प्रेमि, प्रेमिक	lover.
प्रेय	वि.	1. बहुत प्यारा, विशेष प्रिय; 2. चाहने योग्य।	প্রেয়, প্রিয়; বাঞ্ছনীয়	प्रेय, प्रिय; बाञ्छनीय	dearer, beloved; desired.
	पु.	1. स्त्री का पति या स्वामी; 2. धार्मिक क्षेत्र में यह कामना कि हम स्वर्ग प्राप्त करके अनेक प्रकार के सुख भोगें।	পতি, স্বামী; স্বর্গসুখপ্রাপ্তির বাসনা	पति, स्वामी; स्वर्गसुखप्राप्तिर वासना	husband; desire to attain heavenly pleasures.
प्रेयसी	स्त्री.	1. पत्नी, भार्या; 2. प्रेमिका।	প্রেয়সী, পত্নী, ভার্যা; প্রিয়া, দয়িতা	प्रेयसी, पत्नी, भार्जा; प्रिया, दयिता	wife; beloved.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रेरणा	स्त्री.	1. किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव; 2. मन में उत्पन्न होनेवाला वह भाव या विचार जिसके संबंध में यह कहा जा सकता हो कि वह दैवी साधन या कृपा से उत्पन्न हुआ है।	প্রেরণা, প্রবর্তন, কোনো কাজে প্রবৃত্তিসঞ্চার; বিশেষ কোনো কাজে অন্তরে অনুভূত ঐশ্বরিক শক্তি বা আবেগ	प्रेरना, प्रबर्तन, कोनो काजे प्रबृत्तिसञ्चार; बिशेष कोनो काजे अन्तरे अनुभूत ऐश्वरिक शक्ति बा आबेग	inducing; inspiration.
प्रेरणाप्रद	वि.	प्रेरणा देनेवाला।	প্রেরণাপ্রদ	प्रेरनाप्रद	giving inspiration.
प्रेरित	वि.	1. किसी कार्य में प्रवृत किया हुआ; 2. जिसे किसी प्रकार की प्रेरणा मिली हो।	প্রেরিত, প্রবর্তিত; অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত	प्रेरित, प्रबर्तित; अनुप्रेरनाप्राप्त	induced; inspired.
प्रेषक	पु.	भेजनेवाला।	প্রেষক, প্রেরক	प्रेषक, प्रेरक	despatcher, consignor.
प्रेषण	पु.	रवाना करना, भेजना।	প্রেষণ, প্রেরণ	प्रेषन, प्रेरन	despatch, consignment, transmission.
प्रेषणीयता	स्त्री.	किसी बात या पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा कुछ कहीं से कहीं पहुँचता हो।	প্রেষণীয়তা, প্রেরণীয়তা	प्रेषनीयता, प्रेरनीयता	communication.
प्रेषित	वि.	रवाना किया हुआ, भेजा हुआ।	প্রেষিত, প্রেরিত	प्रेषित, प्रेरित	despatched, consigned, transmitted.
प्रोत्साहन	पुं.	1. उत्साह या हिम्मत बढ़ाना; 2. प्रोत्साहित करने के लिए कही जानेवाली बात।	প্রোৎসাহন, উৎসাহদান; উৎসাহসূচক কথাবার্তা	प्रोत्साहन, उत्साहदान; उत्साहसूचक कथाबार्ता	encouragement, boosting up; incentive.
प्रोत्साहित	वि.	जिसको बढ़ावा दिया गया हो, जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो।	প্রোৎসাহিত, উৎসাহপ্রাপ্ত	प्रोत्साहित, उत्साहप्राप्त	encouraged, given incentive.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्रौढ़	वि.	1. अच्छी या पूरी तरह से बढ़ा हुआ;	প্রৌঢ়, প্রবৃদ্ধ;	प्रौढ़, प्रवृद्ध;	full grown;
		2. आरंभिक अवस्था पार करके मध्य अवस्था में पहुँचा हुआ (व्यक्ति);	মধ্যবয়স্ক;	मध्यवयस्क;	adult;
		3. पुष्ट, परिपक्व;	পুষ্ট, পরিপক্ক;	पुष्ट, परिपक्क;	mature;
		4. निपुण, दक्ष, परिणत बुद्धि।	নিপুণ, পরিণতবুদ্ধি	निपुन, परिनतबुद्धि	over clever.
प्रौढ़ता	स्त्री.	प्रौढ़ होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব	प्रौढ़ता, प्रौढ़त्व	maturity.
प्रौढ़ा	स्त्री.	वह स्त्री जिसकी उम्र अधिक हो चली हो।	প্রৌঢ়া, অধিকবয়স্কা	प्रौढ़ा, अधिकवयस्का	grown-up woman.
प्लीहा	स्त्री.	1. पेट के अन्दर तिल्ली नामक अंग जो पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है और रक्त बनाने में सहायक होता है;	প্লীহা, পীলা;	प्लीहा, पीला;	spleen;
		2. उक्त अंग के सूजकर बढ़ने का एक रोग।	প্লীহাবৃদ্ধিরোগ	प्लीहावृद्धिरोग	disease of the spleen.
प्लेग	पु.	एक विशिष्ट प्रकार का घातक संक्रामक रोग जिसमें रोगी को तीव्र ज्वर होता है तथा बांह या जांघ में गिलटी निकलती है।	প্লেগ, মহামারিবিশেষ	प्लेग, महामारिविशेष	plague.
प्लेट	स्त्री.	1. धातु के पत्तर या मिटटी की बनी हुई एक प्रकार की छोटी थाली; तश्तरी;	প্লেট, থালা রেকাবী ডিশ প্রভৃতি বাসন;	प्लेट, थाला रेकाबी डिश प्रभृति बासन;	plate (made of china, etc.);
		2. कपड़ों में डाली जानेवाली एक प्रकार की सिकुड़न जो कहीं शोभा के लिए और कहीं उसे छोटा करने के लिए डाली जाती है।	জামা ইত্যাদিতে কুঁচির মতো ভাজ, প্লিট	जामा इत्यादिते कुँचिर मतो भाज, प्लिट	plate (in sewn clothes).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
प्लेटफार्म	पु.	1. जमीन से कुछ ऊंचा चौकोर तथा समतल चबूतरा;	প্লেটফর্ম;	प्लेटफर्म;	platform;
		2. स्टेशन में अन्दर प्रवेश के लिए एक प्रकार का टिकट।	প্লেটফরম্ টিকেট	प्लेटफरम टिकेट	platform ticket.
फंकी	स्त्री.	1. कोई चीज फांकने की क्रिया या भाव;	কোনো জিনিষ মুখে নিক্ষেপ করণ;	कोनो जिनिष मुखे निक्षेप करन;	act of chucking (dry grain, powder);
		2. वह चीज जो फांककर खायी जाए।	যে-বস্তু মুখে নিক্ষেপ করিয়া খাওয়া হয়	जे-बस्तु मुखे निक्षेप करिया खाओया हय	mouthful of dry grain, powder.
फंदा	पु.	1. रस्सी आदि में किसी प्रकार की गांठ लगाकर बनाया जानेवाला घेरा जो किसी चीज को फंसाकर रखने या बांधने के काम आता है;	ফাঁদ, ফাঁস;	फांद, फांस;	moose, snare;
		2. कोई ऐसी कपटपूर्ण बात या योजना जिसका मुख्य प्रयोजन किसी को फंसाना होता है;	কূটকৌশল, ফন্দি, ছল;	कूटकौशल, फन्दि, छल;	trick, ruse, subterfuge;
		3. कुछ खाने या पीने के समय अचानक हंसने आदि के कारण खाद्य या पेय पदार्थ का गले में अटक या रुक जाना;	বিষম লাগা;	बिषम लागा;	obstruction in the windpipe;
		4. कोई ऐसी बात या कठिन स्थिति जिसमें पड़कर मनुष्य विवश हो जाता है और कष्ट भोगता है।	বিপদ, সমস্যা	बिपद, समस्या	difficulty, perplexity, mess.
फंदेदार	वि.	जिसमें फंदा लगा या बना हो।	ফাঁদযুক্ত	फांदजुक्त	loopy, knotty.

हिंदी शब्द	व्या· को·	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फंसना	अ. क्रि.	1. किसी प्रकार के जाल या फंदे में इस तरह पड़ जाना कि छुटकारा न मिल सके;	ফাঁদে পড়া;	फादे पड़ा;	to be taken in a noose, to be ensnared;
		2. एक चीज का दूसरी चीज में डलकर अटक जाना;	জড়াইয়া পড়া, জটপাকান;	जड़ाइया पड़ा, जटपाकान;	to be embroiled;
		3. किसी कार्य में व्यस्त रहना;	কোনো কাজ আটক পড়া;	कोनो काज आटक पड़ा;	to be involved, to be entangled (in some work);
		4. किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में आना और छला जाना;	কথার প্যাঁচে পড়িয়া প্রতারিত হওয়া;	कथार प्यांचे पड़िया प्रतारित हओया;	to be taken in, to be wheedled;
		5. पर-पुरुष या पर-स्त्री के प्रेम में पड़ने के कारण उससे ऐसा अनुचित संबंध स्थिर होना जो जल्दी छूट न सके।	অবৈধ প্রণয়ে জড়াইয়া পড়া	अबैध प्रनये जड़ाइया पड़ा	to be caught up or entangled (in a love affair).
फंसाना	स. क्रि.	1. किसी को प्रयास द्वारा अपने फंदे या जाल में लाना;	ফাঁদে ফেলা, ফাঁসানো;	फादे फेला, फांसानो;	to ensnare, to entrap, to bait;
		2. कोई चीज इस प्रकार अटकाना या किसी दूसरी चीज में उलझाना कि वह जल्दी न छूट सके;	এক জিনিসের সংগে অন্য জিনিসের জটপাকান;	एक जिनिसेर सङ्गे अन्य जिनिसेर जटपाकान;	to embroil;
		3. धन आदि किसी ऐसे व्यक्ति को देना या ऐसे काम में लगाना कि उसकी वापसी संभव न हो;	ধনাদি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া বা এমন কোনো কাজে লাগান যে তা আর ফেরৎ পাওয়া সম্ভবপর নয়;	धनादि एमन कोनो ब्यक्तिके देओया बा एमन कोनो काजे लागान जे ता आर फेरत् पाओया सम्भवपर नय;	to get stuck up or blocked (as money etc.);
		4. चाल, ठगी या धोखे से स्वार्थ साधना।	চালিয়াতি	चालियाति	to implicate, to entangle.
फकत	अव्य.	बस इतना ही।	বস্, এই পর্যন্ত, আর নয়	बस्, एइ पर्जन्त, आर नय	only, merely, simply.
	वि.	केवल, सिर्फ, मात्र।	কেবল, সেরেফ, মাত্র	केबल, सेरेफ, मात्र	only, alone.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फकीर	पु.	1. भीख मांगनेवाला;	ফকির, ভিক্ষুক;	फकिर, भिक्षुक;	beggar, mendicant;
		2. संत;	সন্ত, সন্ন্যাসী;	सन्त, सन्न्यासी;	saint, ascetic;
		3. निर्धन व्यक्ति।	নিঃস্ব, দরিদ্র	निःस्व, दरिद्र	pauper.
फकीरी	स्त्री.	1. ऐसी अवस्था जिसमें कोई भीख मांगकर गुजारा करता हो;	ফকিরী, ভিক্ষুকবৃত্তি;	फकिरी, भिक्षुकबृत्ति;	beggary, mendicity;
		2. कंगलापन;	কাঙালপনা;	काङालपना;	indigence, penury, poverty;
		3. फकीरों या संतों का जीवन।	ফকীরের-সন্তের জীবন	फकीरेर-सन्तेर जीबन	life of an ascetic or saint.
फक्कड़	वि.	1. (ऐसा व्यक्ति) जो फाकों या उपवासों के बावजूद खुश रहता हो;	উপবাসী থাকিলেও যার আনন্দের অভাব হয় না;	उपबासी थाकिलेओ जार आनन्देर अभाब हय ना;	indigent and carefree;
		2. (ऐसा व्यक्ति) जो भविष्य की परवाह न करके लापरवाही से धन उड़ाता हो।	যে ভবিষ্যতের কোনো চিন্তাভাবনা না করিয়া ধন উড়াইয়া দেয়	जे भबिष्यतेर कोनो चिन्ताभाबना ना करिया धन उड़ाइया देय	reckless and spendthrift.
फक्कड़बाज	पु.	वह व्यक्ति जो बहुत गाली-गुफ्तार बकता हो या अश्लील बातें करता हो।	যে খুব গালিগালাজ করে ও অশ্লীল কথা বলে	जे खुब गालिगालाज करे ओ अश्लील कथा बले	one who indulges in low and obscene language, an indecent prater.
फक्कड़बाजी	स्त्री.	फक्कड़बाज का काम।	ফক্কড়বাজের কাজ, ফক্কড়ি	फक्कड़बाजेर काज, फक्कड़ि	act or behaviour of a prater.
फगुआ	पु.	1. होली;	ফাগুয়া, হোলি;	फागुया, होली;	Holi festival;
		2. होली के अवसर पर होनेवाला आमोद-प्रमोद;	হোলির আমোদপ্রমোদ;	होलिर आमोदप्रमोद;	merriment and fanfare signifying the Holi festival;
		3. फाग।	হোলির গান	होलिर गान	song of the Holi festival.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फजीहत	स्त्री.	1. बहुत अधिक दुर्दशा; 2. बहुत ही घृणित और हेय रूप से होनेवाला झगड़ा या तकरार।	অত্যন্ত দুর্দশা; অত্যন্ত জঘন্য ঝগড়া বা তকরার	अत्यन्त दुर्दशा; अत्यन्त जघन्य झगड़ा वा तकरार	disgrace, ignominy, infamy; heinous and hated quarrel or wrangle.
फजूल (फिजूल)	वि.	निरर्थक।	নিরর্থক	निरर्थक	unnecessary, futile, useless.
फजूलखर्च (फिजूलखर्च)	वि.	अधिक खर्च करनेवाला, अपव्ययी।	অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী	अमितव्ययी, अपव्ययी	extravagant, prodigal, lavish.
फजूलखर्ची (फिजूलखर्ची)	स्त्री.	बहुत अधिक व्यय करना।	অত্যধিক খরচ করা	अन्यधिक खरच करा	extravagance, prodigality, dissipation.
फटकना	स. क्रि.	1. सूप आदि के द्वारा अन्न साफ करना; 2. कपड़े को इस प्रकार झाड़ना कि उसमें से लगी हुई धूल या सिलवटें निकल जाएं।	কুলা ইত্যাদি দিয়া ধান্যাদি ঝাড়া; কাপড় ইত্যাদির ধূলা ঝাড়া	कुला इत्यादि दिया धान्यादि झाड़ा; कापड़ इत्यादिर धूला झाड़ा	to winnow, to sift; to dust, to shake or knock off (as dust from clothes).
	अ.क्रि.	किसी का इस प्रकार जाकर उपस्थित होना कि लोग उसकी उपस्थिति अनुभव करने लगें।	কোথাও এমনভাবে পৌঁছান যে সেখানকার লোকেরা বুঝিতে পারে যে কেউ একজন আসিয়েছে	कोथाओ एमनभाबे पौंछान जे सेखानकार लोकेरा बुझिते पारे जे केउ एकजन आसियाछे	to reach, to go near.
फटकवाना	स. क्रि.	फटकने में प्रवृत्त करना या फटकने का काम किसी से कराना।	ধান্যাদি ঝাড়ার কাজ অন্যকে দিয়া করান, অন্যকে দিয়া পাছড়ানো	धान्यादि झाड़ार काज अन्यके दिया करान, अन्यके पाछड़ानो	to cause to winnow or sift, to get (a thing) winnowed or sifted.
फटकार	स्त्री.	ऐसी कठोर बात जिससे किसी की भर्त्सना की जाए।	ভর্ৎসনা, কড়া কথা বলা	भर्त्सना, कड़ा कथा बला	scolding, reprimand, rebuke.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फटकारना	स. क्रि.	1. किसी को लज्जित करने या उसका तिरस्कार करने के लिए कड़ी बात कहना;	কড়া কথা বলিয়া ভর্ৎসনা করা, লজ্জা দেওয়া;	कड़ा कथा बलिया भर्त्सना करा, लज्जा देओया;	to scold, chide, reprimand;
		2. झटका देकर छितराना या खुला रखना;	ঝাড়িয়া ছড়াইয়া দেওয়া;	झाड़िया छड़ाइया देओया;	to give jerk to a cloth;
		3. कपड़े को साफ करते समय पत्थर आदि पर पटकना।	পাথর ইত্যাদির উপর আছড়ান	पाथर इत्यादिर उपर आछड़ान	to beat clothes on a stone (in washing).
फटन	स्त्री.	1. फटने की क्रिया या भाव;	ফাটা, ছিন্ন হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া;	फाटा, छिन्न हओया, विदीर्न हओया;	act of tearing or rending;
		2. दरार।	ফাট, চিড়	फाट, चिड़	slit, cleavage, rent.
फटना	अ. क्रि.	1. आघात लगने के कारण या यों ही किसी चीज का बीच में से खंडित होना;	ফাটা, বিদীর্ণ হওয়া, ছেড়া;	फाटा, बिदीर्न हओया, छेड़ा;	to be torn, be split, be rent, be cracked, be broken;
		2. किसी गाढ़े पदार्थ में ऐसा विकार होना जिससे उसका पानी अलग और सार भाग अलग हो जाए;	অম্লত্বহেতু ছিঁড়িয়া যাওয়া, ফাটা;	अम्लत्वहेतु छिंड़िया जाओया, फाटा;	to turn or become sour (as milk);
		3. रोग, विकार आदि के कारण शरीर के किसी अंग में ऐसी पीड़ा या वेदना होना कि मानो वह अंग फट जाएगा;	ফাটিয়া যাওয়ার মতো তীব্র বেদনাবোধ হওয়া;	फाटिया जाओयार मतो तीव्र बेदनाबोध हओया;	to feel excruciating pain (in a member of the body);
		4. विस्फोटक पदार्थों का विच्छिन्न होना, धमाका होना;	বিস্ফোরক পদার্থের ফাটিয়া যাওয়া;	बिस्फोरक पदार्थेर फाटिया जाओया;	to explode, to burst;
		5. छंटना, अलग-अलग होना।	বিচ্ছিন্ন হওয়া, সরিয়া যাওয়া	बिच्छिन्न हओया, सरिया जाओया	to be detached, to be dispersed (as clouds).
फटा	वि.	1. जो फट गया हो;	ফাটা, বিদীর্ণ, চেরা, ছেঁড়া;	फाटा, बिदीर्न, चेरा, छेंड़ा;	torn, split, rent;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो बहुत ही बुरी या हीन अवस्था में हो।	শোচনীয় অবস্থার মধ্যে	शेचनीय अबस्थार मध्ये	miserable, wretched.
फटिक	पु.	बिलौर या संगमरमर।	ফটিক, স্ফটিক	फटिक, स्फटिक	crystal.
फटीचर	वि.	1. जो फटे-पुराने कपड़े पहनता हो;	যে শতচ্ছিন্ন কাপড় পরে;	जे शतच्छिन्न कापड़ परे;	shabby, shabbily dressed;
		2. बहुत ही तुच्छ या हेय।	অত্যন্ত তুচ্ছ এবং হেয়	अत्यन्त तुच्छ एबं हेय	deprivable, abominable, low.
फटेहाल	क्रि. वि.,	बहुत ही दीन या बुरी अवस्था में।	অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায়	अत्यन्त दरिद्र अबस्थाय	in a ragged or shabby condition, in a miserable plight.
फट्टा	पु.	लकड़ी या बांस को चीरकर निकाला गया टुकड़ा।	চেলা কাঠ, চেরা বাঁশ	चेला काठ, चेरा बांश	split piece of wood or bamboo, a plank.
फट्टी	स्त्री.	लकड़ी का छोटा तख्ता।	কাঠের ছোট তক্তা, কাষ্ঠফলক	काठेर छोट तक्ता, काष्ठफलक	thin and small piece of plank.
फड़कन	स्त्री.	1. फड़कने की क्रिया या भाव, फड़फड़ाहट;	ফড় ফড় করা, ফর ফর করা;	फड़ फड़ करा, फर फर करा;	fluttering, flutter, flap, pulsation, palpitation;
		2. प्रफुल्ल या आनंदित होने का भाव।	প্রফুল্ল বা আনন্দিত হওয়া	प्रफुल्ल बा आनन्दित हओया	thrill, delight.
फड़कना	अ. क्रि.	1. शरीर के किसी अंग में स्फुरण होना;	শরীরের কোনো অংগ স্পন্দিত হওয়া;	शरीरेर कोनो अङ्ग स्पन्दित हओया;	to flutter, to twitch convulsively, vibrate with convulsive involuntary motion (as the eyelids, etc.);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. कोई बहुत बढ़िया या विलक्षण चीज देखकर या बात सुनकर मन में उक्त प्रकार का स्फुरण होना जो उस चीज या बात के विशेष प्रशंसक होने का सूचक हो।	খুব ভাল কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হওয়া	खुब भाल किछु देखिया बा शुनिया आनन्दे रोमाञ्चित हओया	to be thrilled, to be greatly delighted.
फड़काना	स. क्रि.	किसी को फड़कने में प्रवृत्त करना।	ফরফর করানো	फरफर करानो	to cause to flutter, to put in a flutter.
फतवा	पु.	किसी धर्म के उचित या अनुचित होने के संबंध में मुफ्ती या मुल्ला (धर्माचार्य) द्वारा शास्त्र के अनुसार दी गई व्यवस्था।	ইসলামী ধর্ম শাস্ত্রানুযায়ী কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ	इसलामी धर्म शास्त्रानुजायी कर्तब्याकर्तब्येर निर्देश	notification of the decision of the (Muhammadan) law in or respecting a particular case, a judicial decree.
फन (फण)	पु.	सांप के सिर के आसपास का वह भाग जिसे सांप आवेश या मस्ती में हवा भरकर फुला और फैला लेता है।	(সাপের) ফণ	(सापेर) फन	expanded hood or neck of a snake (esp. of the cobra dicapello).
फ़न	पु.	1. कला, दस्तकारी, शिल्प; 2. चतुराई, कौशल।	কারুকলা; ফন্দি, কূটকৌশল	कारुकला; फन्दि, कूटकौशल	art, craft; skill, artifice.
फन्नी	स्त्री.	लकड़ी आदि का वह टुकड़ा जो किसी ढीली चीज की जड़ में उसे कसने के लिए ठोंका जाता है।	কাঠের গোঁজ, কাঠের গাজাল	काठेर गोंज, काठेर गाजाल	wedge.
फफूंद (फफूंदी)	स्त्री.	बरसात में या सील आदि के कारण जमनेवाली काई की तरह सफेद वस्तु।	ছাতা, ছাতলা	छाता, छातला	fungus.
फफोला	पु.	त्वचा के जलने पर शरीर पर होनेवाला वह उभार जिसके भीतर पानी या पस भर जाता है, छाला।	ফোসকা	फोसका	blister, vesicle.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फबती	स्त्री.	ऐसी व्यंग्यात्मक तथा हास्यपूर्ण बात जो किसी व्यक्ति की तात्कालिक स्थिति के अनुसार बहुत ही उपयुक्त रूप से ठीक बैठती है।	ঠাট্টা, ব্যংগ	ठाट्टा, ब्यङ्ग	pleasantry, fun, jest, sarcastic remark.
फबना	अ. क्रि.	1. उपयुक्त प्रकार से अथवा उपयुक्त स्थान पर रखे जाने पर किसी वस्तु का शोभन तथा सुन्दर लगना; 2. बात आदि का ठीक मौके पर उपयुक्त और शोभन लगना; 3. व्यक्ति का बढ़िया कपड़े आदि पहने होने पर सुंदर लगना।	ঠিক জায়গায় রাখার জন্য কোনো জিনিসের শোভা পাওয়া; জুতসই কথা; ভাল কাপড় চোপড় পরার জন্য সুন্দর লাগা	ठिक जायगाय राखार जन्य कोनो जिनिसेर शोभा पाओया; जुतसइ कथा; भाल कापड़ चोपड़ परार जन्य सुन्दर लागा	to become, befit; to be suitable, apt, appropriate; to look elegant, graceful, beautiful.
फरमा	पु.	1. डौल या सांचा; 2. पुस्तकों आदि का उतना अंश जितना उक्त प्रकार के कागजों पर एक साथ छपता है।	ফরমা, ডৌল, ধাঁচা, ছাঁচ; ফর্মা, পুস্তকাদির যতগুলি পৃষ্ঠা একসংগে ছাপা হয়	फरमा, डौल, धांचा, छांच; फर्मा, पुस्तकादिर जतगुलि पृष्ठा एकसङ्गे छापा हय	die, frame, caste (of a shoomaker); forme, format.
फरमाइश	स्त्री.	1. वह चीज जिसके लिए किसीने इच्छा प्रकट की हो; 2. किसी काम या बात के लिए प्रेमपूर्वक दिया हुआ आदेश।	ফরমাইশ, ফরমায়েস, ফরমাস; কোনো কাজ করার জন্য অনুরোধ	फरमाइश, फरमायेस, फरमास; कोनो काज करार जन्य अनुरोध	thing desired or ordered (by someone); will, request, order.
फरमाइशी	वि.	1. जो फरमाइश करके बनवाया या प्राप्त किया गया हो; 2. कार्यक्रम आदि।	ফরমাইশী, ফরমাইশমত প্রস্তুত; ফরমাইশ অনুসারে কৃত কার্যসূচী	फरमाइशी, फरमाइशमत प्रस्तुत; फरमाइश अनुसारे कृत कार्जसूची	made to order, requested; (performed or presented) on specific request

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फरमान (फर्मान)	पुं.	कोई आधिकारिक विशेषतः शाही आदेश या आदेश-पत्र।	ফরমান, প্রধানতঃ বাদশাহী হুকুম বা হুকুমনামা	फरमान, प्रधानतः बादशाही हुकुम बा हुकुमनामा	order, command, a royal letter, charter.
फरमाना	स. क्रि.	कोई बात कहना (बड़ों के संबंध में सम्मानसूचक रूप से प्रयुक्त)।	ফরমানো, আদেশ করা, আজ্ঞা করা, (সাধারণত সম্মানসূচক হিসাবে ব্যবহৃত)	फरमानो, आदेश करा, आज्ञा करा (साधारनत सम्मानसूचक हिसाबे ब्यबहृत)	to order, command, (in polite respectful speech with reference to superiors etc.) to say, affirm, declare, order.
फरशी (फरसी, फर्शी)	स्त्री.	कुछ खुले मुंह का धातु का वह आधान या पात्र जिस पर नैचा और सटक लगाकर तम्बाकू पीते हैं।	ফরসি, গুড়গুড়ি হুঁকার ধাতব আধার	फरसि, गुड़गुड़ि हुंकार धातब आधार	kind of huqqa.
फरसा	पुं.	प्राचीन काल में युद्ध में काम आनेवाली लोहे की पैनी और चौड़ी धार की कुल्हाड़ी।	কুঠার	कुठार	hatchet, axe.
फरहरा	पुं.	कपड़े या कागज का तिकोना या चौकोना टुकड़ा जिसे छड़ के सिरे पर लगाकर झंडा बनाते हैं जो हवा के झोंके से उड़ता रहता है।	নিশান বা পতাকা নির্মাণের উপযোগী তেকোণা চৌকোণ কাপড় বা কাগজের টুকরা	निशान बा पताका निर्मानेर उपजोगी तेकोना चौकोन कापड़ बा कागजेर टुकरा	flag, standard, banner.
	वि.	जिसमें उदासीनता, खेद आदि न हों, प्रफुल्ल।	নিরুদ্বেগ, প্রফুল্ল	निरुद्वेग, प्रफुल्ल	soothed, relieved (of fatigue, boredom etc.).
फराक (फ्राक)	पुं.	लड़कियों के पहिनने का अंग्रेजी ढंग का पहनावा।	ফ্রক্	फ्रक	frock.
फरार	वि. पुं.	जो शासन की हिरासत में आने से बचने के लिए कहीं भाग अथवा छिप गया हो।	ফেরার	फेरार	at large, absconding, absconder, outlaw.
फरियाद	स्त्री.	1. विपत्ति, संकट आदि में पड़ने पर सहायतार्थ की जानेवाली पुकार;	বিপদে পড়িয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার;	बिपदे पड़िया साहाज्येर चीत्कार;	cry for help or redress;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. न्याय की याचना के लिए न्यायालय में दिया जानेवाला प्रार्थनापत्र।	আদালতে অভিযোগ, নালিশ	आदलते अभिजोग, नालिश	petition, complaint.
फरियादी	वि पु.	1. फरियाद करनेवाला;	ফরিয়াদী, ফরিয়াদকারী;	फरियादी, फरियादकारी;	complainant, plaintiff;
		2. अभियोग उपस्थित करनेवाला।	অভিযোগকারী বাদী	अभिजोगकारी बादी	seeker of redress or justice.
फरिश्ता	पु.	1. देवता, देवदूत;	ফেরেশতা, দেবদূত;	फेरेशता, देबदूत;	angel, a divine messenger;
		2. कृपालु, लोकोपकारी तथा सात्विक वृत्तियोंवाला व्यक्ति।	দয়ালু, পরোপকারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ	दयालु, परोपकारी सात्त्विक प्रकृतिर मानुष	virtuous person.
फरीक	पुं.	दो परस्पर विरोधी पक्षों या व्यक्तियों में से हरेक पक्ष या व्यक्ति।	পরস্পর বিরোধী দুই পক্ষ বা ব্যক্তির প্রত্যেক পক্ষ বা ব্যক্তি	परस्पर बिरोधी दुइ पक्ष बा ब्यक्तिर प्रत्येक पक्ष बा ब्यक्ति	party, complainant or respondent.
फरेब	पु.	छल-कपट या धोखा।	ফেরেব, প্রতারণা, শঠতা	फेरेब, प्रतारना, शठता	fraud, duplicity, treachery.
फरेबी	वि., पु.	फरेब या छल-कपट करनेवाला।	ফেরেবি, শঠ, প্রবঞ্চক	फेरेबी, शठ, प्रबञ्चक	fraudulent, deceptive, cheat, imposter.
फर्क (फरक)	पु.	भेद या भिन्नता।	ফরোক, প্রভেদ, পার্থক্য	फरोक, प्रभेद, पार्थक्य	distinction, difference.
फर्ज (फरज)	पुं.	आवश्यक और कर्त्तव्य कर्म।	ফরজ, আবশ্যক ও কর্তব্য কর্ম	फरज, आबश्यक ओ कर्तब्य कर्म	obligation, onus, duty.
फर्ज़ी (फरजी)	वि, पु.	1. जो फर्ज कर लिया अर्थात् तर्क-वितर्क के लिए मान लिया गया हो;	তর্কের খাতিরে যাহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে;	तर्केर खातिरे जाहा मानिया लओया हइयाछे;	hypothetical, supposititious, fictitious;
		2. कल्पित;	কল্পিত;	कल्पित;	imaginary, supposed;
		3. शतरंज की फरजी नाम की गोटी।	দাবা খেলায় মন্ত্রী	दाबा खेलाय मन्त्री	queen in the game of chess.

हिंदी शब्द	व्या. को	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फर्राश	पु.	खिदमतगार या सेवक जो फर्श साफ करता हो।	ফরাশ, যে চাকর ঘর সাফ করা ইত্যাদি করা	फराश, जे चाकर घर साफ करा इत्यादि करा	sweeper, servant for doing menial work.
फर्लांग	पु.	भूमि की दूरी नापने का एक मान जो 220 गज के बराबर होता है।	ফারলং	फारलं	furlong.
फर्श	पु.	कमरे, घर आदि की पक्की तथा समतल जमीन या उस पर बिछी हुई चीज जिस पर बैठते हैं।	ফরাশ, মেঝে বা তক্তাপোষ পাতার বড় চাদর	फराश, मेझे वा तक्तापोष पातार बड़ चादर	floor, carpet, mat.
फल	पु.	1. पेड़ का फल;	ফল, বৃক্ষাদি ফল;	फल, बृक्षादिर फल;	fruit;
		2. किसी प्रकार की प्राप्तियाँ, लाभ;	লাভ;	लाभ;	gain, profit, advantage;
		3. किसी प्रकार की क्रिया, घटना, प्रयत्न आदि के परिणाम के रूप में होनेवाली बात;	পরিণাম;	परिनाम;	result, effect, consequence;
		4. धर्म या परलोक की दृष्टि से कर्म का परिणाम जो सुख या दुःख है;	পরলোক প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি;	परलोक प्राप्य पुरस्कार वा शास्ति;	reward, requital, recompense;
		5. छुरी, तलवार आदि का तेज धारवाला या नुकीला अंग;	ছুড়্গাদির পত্র বা পাতা, ফলা, বাণাদির অগ্রভাগ, ফলক, ফাল;	छुड़्गादिर पत्र वा पाता, फला, बानादिर अग्रभाग, फलक, फाल;	iron-head (of a spear, arrow etc.), the blade (of a sword, knife etc.), plough-share;
		6. अंकों आदि के रूप में वह परिणाम जिसकी प्राप्ति के लिए गणित की कोई क्रिया की जाती है।	গণিতে যোগ-বিয়োগাদির দ্বারা লব্ধ সংখ্যা	गनिते जोग-बियोगादिर द्वारा लब्ध संख्या	result of a calculation (in Math.), product or quotient.
फलक	पु.	1. तख्ता, पट्टी या पटल;	ফলক, কাষ্ঠশিলাদির পট, পাটা;	फलक, काष्ठशिलादिर पट्ट, पाटा;	board, slab or tablet (for writing or painting on);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. कागज का लंबा-चौड़ा टुकड़ा।	কাগজের লম্বা-চওড়া টুকরা	कागजेर लम्बा–चउड़ा टुकरा	sheet of paper.
फलतः	क्रि. वि.	परिणामतः।	ফলতঃ, ফলে, পরিণামে, বস্তুত:	फलतः, फले, परिनामे, बस्तुतः	as a consequence, consequently.
फलद	वि.	1. फलनेवाला (वृक्ष);	ফলদ, ফলোৎপাদক (বৃক্ষ)	फलद, फलोत्पादक (बृक्ष);	productive, fruitful, fruit bearing;
		2. फल, परिणाम देनेवाला लाभकर।	ফলদায়ক, ফলপ্রদ, ফলপ্রসূ	फलदायक, फलप्रद, फलप्रसू	giving a reward, rewarding, bringing in gain or profit, useful, efficacious.
फलदान	पु.	विवाह से पूर्व होनेवाली टीके की रस्म।	বিবাহের পূর্ববর্তী 'টীকা' অনুষ্ঠান, বিবাহের পূর্ববর্তী কন্যাদাতার বরকে আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান	बिबाहेर पूर्बबर्ती 'टीका' अनुष्ठान, बिबाहेर पूर्बबर्ती कन्यादातार बरके आशीर्बाद-अनुष्ठान	'Teeka' ceremony held prior to marriage when presents are made to bridegroom signifying the confirmation of the marriage agreement.
फलदार	वि.	1. फलों से भरा (वृक्ष);	ফলন্ত;	फलन्त;	fruit-bearing, fruitful;
		2. ऐसा अस्त्र जिसके आगे धारदार फल लगा हो।	ধারালো ফলাযুক্ত অস্ত্র	धारालो फलाजुक्त अस्त्र	(weapon) having a sharp head or blade.
फलना	अ. क्रि.	1. वृक्ष का फलों से युक्त होना;	ফলা, ফলবান্ হওয়া;	फला, फलवान् हओया;	to bear fruit, be in fruit;
		2. इच्छा या कामना का पूर्ण होना;	ইচ্ছা বা কামনা পূর্ণ হওয়া;	इच्छा बा कामना पूर्नहओया;	to be fulfilled (as a desire, ambition etc.);
		3. सुख-समृद्धि का कारण बनना;	সুখসমৃদ্ধির কারণ হওয়া;	सुखसमृद्धिर कारन हओया;	to thrive, to prosper;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. शरीर के किसी भाग पर बहुत से छोटे-छोटे दाने निकल आना जिससे पीड़ा होती है।	শরীরের কোনো স্থানে বেদনাদায়ক ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া	शरीरेर कोनो स्थाने बेदनादायक फुस्कुड़ि बाहिर हओया	to break out into blisters, pimples, to have an eruption on the face and body.
फलना-फूलना	अ. क्रि.	धन-धान्य, संतान आदि से अच्छी तरह युक्त और सुखी होना।	ধনধান্য সন্তানাদি লইতে পূর্ণ সুখী হওয়া	धनधान्य सन्तानादि लइते पूर्न सुखी हओया	to flourish, thrive, to be prosperous.
फलाँग	स्त्री.	1. छलाँग; 2. उतनी दूरी जो फलाँग से पार की जाए।	লাফ; এক লাফে যতদূর যাওয়া যায়	लाफ; एक लाफे जतदूर जाओया जाय	leap, jump, spring; long stride.
फलाँगना	अ. क्रि.	एक स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर जाना या गिरना।	লাফ দেওয়া	लाफ देओया	to spring, leap, jump, to stride over.
फलाकांक्षा	स्त्री.	फल-प्राप्ति की कामना।	ফলাকাঙ্ক্ষা, ফল প্রাপ্তির কামনা	फलाकाङ्क्षा, फल प्राप्तिर कामना	hope or expectation of favourable consequences.
फलागम	पु.	1. वृक्षों में फलों के आने का समय; 2. रूपक की पाँच अवस्थाओं में से अन्तिम अवस्था जहां नायक को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।	ফল ধরিবার সময়; দৃশ্যকাব্যের পঞ্চম অবস্থা যখন নায়কের অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়	फल धरिबार समय; दृश्यकाब्येर पञ्चम अबस्था जखन नायकेर अभीष्ट फलप्राप्ति हय	fruit-season, autumn; fifth and the last stage of action in Indian dramaturgy wherein the hero's efforts bear fruit.
फलादेश	पु.	ज्योतिष में वे बातें जो ग्रहों के प्रभाव या फल के रूप में बतलाई जाती हैं।	জ্যোতিষে গ্রহের ফলাফল নির্দেশ	ज्योतिषे ग्रहेर फलाफल निर्देश	prediction about the effect or results of certain planets governing human life.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फलालेन	स्त्री.	एक प्रकार का ऊनी वस्त्र बहुत कोमल और ढीली-ढाली बुनावट का होता है।	ফ্লানেল	फ्लानेल	flannel.
फलाहार	पु.	फलों का आहार।	ফলাহার, ফলভোজন	फलाहार, फलभोजन	feeding or living on fruits, fruit-meal.
फलाहारी	पु.	केवल फलों का आहार करनेवाला।	ফলাহারী, ফলভোজনকারী	फलाहारी, फलभोजनकारी	fruitarian, one who subsists on fruits only.
	वि.	फलाहार-संबंधी।	ফলাহারসম্বন্ধী	फलाहार सम्बन्धी	pertaining to fruitarian diet.
फलित	वि.	1. फला हुआ;	ফলিত, ফলযুক্ত;	फलित, फलजुक्त;	that has produced fruit, fruitful;
		2. पूरा या संपन्न किया हुआ।	নিষ্পন্ন, সঙ্ঘটিত	निष्पन्न, सङ्घटित	fulfilled, accomplished.
फलितार्थ	पु.	तात्पर्य या सारंश।	ফলিতার্থ	फलितार्थ	epitome, essence.
फली	स्त्री.	पेड़-पौधों का फल के रूप में होने वाला वह लम्बोतरा अंग जिसके अंदर केवल बीज रहते हैं।	শুঁটি	शुंटि	pod of any leguminous plant, a bean.
फलीदार	वि.	जिसमें फलियां लगती हों।	শুঁটিযুক্ত	शुंटिजुक्त;	leguminous.
फलीभूत	वि.	जिसका फल या परिणाम प्रत्यक्ष हो चुका हो या निकल चुका हो।	ফলীভূত, যাহা ফলপ্রদ হইয়াছে	फलीभूत, जाहा फलप्रद हइयाछे	fructified, resulted in success, (that has) borne fruits.
फव्वारा (फौवारा)	पु.	फुहारा।	ফোয়ারা	फोयारा	fountain, spring.
फसल	स्त्री.	1. खेत में बोये हुए अनाजों आदि की पैदावार;	ফসল, ক্ষেতের শস্য;	फसल, क्षेतेर शस्य;	harvest, crop;
		2. उपयुक्त काल या समय।	উপযুক্ত কাল	उपजुक्त काल	season, time.
फसली	वि.	1. फसल सम्बन्धी;	ফসলী, ফসল সম্বন্ধীয়;	फसली, फसल सम्बन्धीय;	relating to the harvest;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी विशिष्ट फसल या ऋतु में होनेवाला।	কোনো বিশিষ্ট ঋতুতে যা উৎপন্ন হয়	कोनो बिशिष्ट ऋतुते जा उत्पन्न हय	seasonal.
फसाद	पु.	उपद्रव या लड़ाई-झगड़ा।	ফেসাদ	फेसाद	riot, disturbance, quarrel, brawl.
फसादी	वि.	उपद्रव या झगड़ा करनेवाला।	ফেসাদে	फेसादे	riotous, quarrelsome, rowdy.
फहरना	अ. क्रि.	खुले या फैले हुए वस्त्रों या झंडे का हवा में उड़ना।	পত-পত করা	पत-पत करा	to fly(as a flag), to wave, flutter.
फहराना	स. क्रि.	कोई चीज़ इस प्रकार खुली छोड़ देना जिससे वह हवा में हिले और उड़े।	উড়ানো	उड़ानो	to cause to flutter, to wave, to flap (a flag), to hoist (a flag).
फाँक	स्त्री.	फल आदि का कटा हुआ लंबोतरा टुकड़ा।	ফল ইত্যাদির লম্বা ফালি	फल इत्यादिर लम्बा फालि	piece, slice (of fruit).
फाँकना	स. क्रि.	चूर्ण के रूप में कोई औषधि या अन्य पदार्थ अंजलि आदि में लेकर झटके से मुंह में डालना।	চূর্ণ কোনো দ্রব্য মুখে নিক্ষেপ করা	चूर्न कोनो द्रब्य मुखे निक्षेप करा	to chuck something powdery into the mouth.
फाँदना	अ. क्रि.	झोंके से शरीर को ऊपर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उछलना।	লাফদেওয়া	लाफ देओया	to leap, to spring.
	स. क्रि.	कूदकर लाँघना।	লাফ দিয়া পার হওয়া	लाफ दिया पार हओया	to spring to cross.
फाँस	स्त्री.	1. रस्सी से बनाया हुआ वह फंदा जिसमें पशु पक्षियों को फँसाया जाता है;	ফাঁস, পাশ, ফাঁদ;	फांस, पाश, फांद;	noose;
		2. बाँस, सूखी लकड़ी आदि का सूक्ष्म किन्तु कड़ा तंतु जो त्वचा में घुस जाता है।	চোঁচ	चोंच	a splinter (of bamboo etc.).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फाँसना	स. क्रि.	1. फंदे में किसी पशु-पक्षी को अटकाना; 2. छल, ठगी, युक्ति आदि से किसी व्यक्ति को अपने लाभ के लिए फंसाना।	পশু বা পাখীকে ফাঁদে ধরা ফাঁসানো, ছল চাতুরী করিয়া কোন ব্যক্তিকে ফাঁদে ফেলা	पशु वा पाखीके फांदे धरा: फांसानो, छल चातुरि करिया कोन व्यक्तिके फांदे फेला	to ensnare, to entrap; to embroil, to inveigle, to entangle, to involve, to' implicate.
फाँसी	स्त्री.	1. प्राणदंड; 2. रस्सी का वह फंदा जिसे लोग अपने गले में फंसाकर आत्महत्या के लिए झूल या लटक जाते हैं।	ফাঁসি; আত্মহত্যার জন্য গলায় পরিবার ফাঁস	फांसि: आत्महत्यार जन्य गलाय परिबार फांस	death penalty; noose, loop, snare.
फाइल	स्त्री.	1. कार्यालयों आदि में एक 'ही प्रकार या विषय के कागज-पत्रों की नत्थी, मिसिल; 2. पत्र-पत्रिका आदि के ग्रंथों का समूह।	ফাইল, দরকারী কাগজপত্রের নথি বা তাড়া; পত্র-পত্রিকার ছাপান জিনিসের নথি	फाइल, दरकारी कागजपत्रेर नथि बा ताड़ा: पत्र-पत्रिकार छापान जिनिसेर नथि	file; set of papers,
फाका	पु.	निर्धनता या अभाववश निराहार रहने की अवस्था या भाव, उपवास।	অর্থাভাবের জন্য উপবাস	अर्थाभावेर जन्य उपवास	starvation, fast (from want, not as a religious observance).
फाकामस्त (फाकेमस्त)	वि.	जो गरीबी के कारण भूखों रहकर भी प्रसन्न रहता है।	দারিদ্র্যের জন্য অনাহারে থাকিলেও যে প্রফুল্ল থাকে	दारिद्रयेर जन्य अनाहारे थाकिलेओ जे प्रफुल्ल थाके	one who is cheerful and jolly in the midst of poverty.
फाकामस्ती (फाकेमस्ती)	स्त्री.	बुरे दिनों में भी प्रसन्न रहने की वृत्ति।	দুর্দিনেও প্রফুল্লতা	दुर्दिनेओ प्रफुल्लता	cheerfulness in adversity.
फाग	पु.	1. फागुन के महीने में होनेवाला उत्सव जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं;	ফাগ, হোলি;	फाग, होलि:	the sports of the Holi festival where Hindus throw red powder over one another

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. एक प्रकार का लोकगीत।	একপ্রকার লোকসংগীত	एकप्रकार लोकसंगीत	a type of song sung during Holi festival.
फागुन	पु.	हिन्दु वर्ष का आखरी महीना।	ফাগুন, ফাল্গুন মাস	फागुन, फाल्गुन मास	the twelfth month of the Indian calendar.
फाटक	पु.	मुख्य द्वार पर लगा हुआ बड़ा दरवाजा।	ফাটক, সিংহদ্বার	फाटक, सिंहद्वार	main gate, entrance.
फाड़ना	स. क्रि.	1. कागज कपड़े आदि को बलपूर्वक खींचकर टुकड़ों में अलग कर देना;	ফাড়া, বিদীর্ণ করা;	फाड़ा, विदीर्न करा;	to tear off, to rend, to split;
		2. किसी वस्तु का मुंह साधारण से अधिक और दूर तक फैलाना या बढ़ाना;	কোনো কিছুর মুখ সাধারনতঃ যেরূপ থাকে তাহা হইতে বড় করিয়া দেওয়া;	कोनो किछुर मुख साधारनतः जेरूप थाके ताहा हइते बड़ करिया देओया;	to tear open (mouth), to pull apart;
		3. किसी गाढ़े द्रव पदार्थ के संबंध में ऐसी क्रिया करना कि उसका जलीय अंश तथा ठोस अंश अलग हो जाए।	দুগ্ধাদি ফাটান, জলো জিনিসের জলীয় অংশ পৃথক করা	दुग्धादि फाटान, जलो जिनिसेर जलीय अंश पृथक करा	to coagulate.
फानूस	पु.	शीशे का वह आधान जो प्रायः छतों में लटकाया जाता है और जिसमें लगे हुए गिलासों आदि में अनेक मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं।	বেলোয়ারি ঝাড় ঝাড়লন্ঠন	बेलोयाड़ि झाड़ झाड़लन्ठन	chandelier (for candles).
फायदा	पु.	1. किसी काम या बात में होनेवाला किसी प्रकार का लाभ;	লাভ;	लाभ;	advantage, benefit;
		2. आर्थिक क्षेत्र में होनेवाली किसी प्रकार की प्राप्ति;	ধনলাভ;	धनलाभ;	profit, gain;
		3. किसी प्रकार का अच्छा असर या प्रभाव।	লাভ	लाभ	good result, avail, utility.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फायदेमंद	वि.	लाभदायक।	লাভকারী	लाभकारी	profitable, beneficial, advantageous, efficacious.
फारखती	स्त्री.	1. रुपया अदा होने की रसीद, ऋणमुक्ति का सूचक पत्र;	ফারখতী, ছাড়পত্র, মুক্তিপত্র;	फारखती, छाड़पत्र, मुक्तिपत्र;	written acquittance;
		2. वह कागज या लेख्य जिसपर यह लिखा हो कि अमुक व्यक्ति अपने अधिकार या उत्तरदायित्व आदि से पूर्णतः मुक्त हो गया है और प्रस्तुत विषय से उसका कोई संबंध नहीं रह गया है।	সম্বন্ধত্যাগ-পত্র	सम्बन्धत्याग-पत्र	a deed of release or discharge, deed of dissolution of partnership or marriage etc.
फार्म (फारम)	पु.	1. दर्खास्त आदि का छपा हुआ नमूना;	ফরম, ফারম, দরখাস্ত;	फरम, फारम, दरखास्त;	form;
		2. जमीन का वह बड़ा खंड या टुकड़ा जिसमें अधिक मात्रा में सबजी बोई जाती हो या पशु-पक्षी पाले जाते हों।	বিরাট কৃষিক্ষেত্র-যেখানে চাষবাস ও পশুপালনাদি হয়	बिराट कृषिक्षेत्र-जेखाने चाषबास ओ पशुपालनादि हय	farm.
फाल	पु.	1. एक डग का फासला;	পদক্ষেপ, কদম;	पदक्षेप, कदम;	step, stride;
		2. हल्की अंकड़ी में लगाया जानेवाला नुकीला लोहा जिससे जमीन खुदती है।	ফাল, লাংগলের মুখলগ্ন ভূমি-ভেদক লৌহখন্ড	फाल, लाङ्लेर मुखलग्न भूमि-भेदक लौहखन्ड	blade, ploughshare.
फालतू	वि.	1. जो किसी उपयोग में न आ रहा हो और योंही पड़ा या रखा हुआ हो, आवश्यकता से अधिक;	ফালতু, অতিরিক্ত, বাড়তি;	फालतु, अतिरिक्त, बाड़ति;	surplus, spare, extra;
		2. बेकार।	অনাবশ্যক, বাজে	अनाबश्यक, बाजे	useless, worthless.
फालसा	पु.	एक प्रकार का फल।	ফলসা	फलसा	a kind of round tiny fruit.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फाल्गुन (देखिए 'फागुन')	पु.	हिन्दू वर्ष का अंतिम महीना जो माघ के बाद और चैत के पहले पड़ता है, फागुन।	ফাল্গুন, মাস, ফাগুন	फाल्गुन, मास, फागुन	the twelfth month of the Indian calendar.
फावड़ा	पु.	मिट्टी खोदने का एक उपकरण, चौड़े फल की कुदाल।	ফাউড়া, চওড়ামুখ কোদাল	फाउड़ा, चओड़ामुख कोदाल	mattock. spade.
फासला (फ़ासिला)	पु.	अवकाश संबंधी दूरी।	ব্যবধান, দূরত্ব	ब्यवधान, दूरत्व	gap, distance.
फाहा	पु.	घाव, फोड़े आदि पर चिपकाया जाने वाला कपड़े का वह टुकड़ा जिसमें मरहम लगी रहती है।	ঘা ইত্যাদিতে যে 'গজ' ব্যবহার করা হয়	घा इत्यादिते जे 'गज' ब्यबहार करा हय	a flock of cotton (used as a lint to dress a wound).
फिंकवाना (फेंकवाना)	स. क्रि.	किसी से फेंकने का काम कराना।	ফেলানো	फेलानो	to cause (a thing) to be thrown or thrown away.
फिक्र (फिक्कर)	स्त्री.	सोच-विचार या चिंता।	ফিকির, চিন্তা	फिकिर, चिन्ता	care, concern, worry, anxiety.
फिट	वि, पुं.	1. उपयुक्त; 2. मिरगी आदि का दौरा।	ফিট, মাপমতো; মূর্ছা	फिट, मापमतो; मूर्च्छा	fit; fit.
फिटकरी (फिटकिरी)	स्त्री.	सफेद रंग का एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ।	ফিটকারী, ফিটকিরি, ফটকিরি	फिटकारी, फिटकिरि, फटकिरि	alum.
फितरती	वि.	चालाक, धूर्त।	চালাক, ধূর্ত	चालाक, धूर्त	cunning, mischievous, wily.
फितूर	पु.	विकार या उत्पात।	বিকার, উপদ্রব, উৎপাত	बिकार, उपद्रब, उत्पात	infirmity, unsoundness, defect (in mind).
फिरंगी	पु.	1. फिरंग देश अर्थात् यूरोप का निवासी; 2. अंग्रेज।	ফিরিংগি, ইয়োরোপীয় মানুষ; ইংরেজ	फिरिंगि, इयोरोपीय मानुष; इंरेज	European; Englishman.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फिर	क्रि. वि.	1. दोबारा या पुन;	ফের, পুনর্বার;	फेर, पुनर्बार;	again;
		2. पीछे, अनन्तर;	পরে, অনন্তর;	परे, अनन्तर;	afterwards;
		3. तब।	তারপর	तारपर	thereafter.
फिरकी	स्त्री.	1. लड़कों का एक प्रकार का छोटा खिलौना जो घुमाने से अपनी धुरी पर जोरों से घूमता हुआ चक्कर लगाता है;	খেলনাবিশেষ, লাটিম, লাট্টু;	खेलनाविशेष, लाटिम, लाट्टु;	whirligig (a child's toy);
		2. धातु, लकड़ी या और किसी चीज का वह गोल टुकड़ा जो चरखे, तकले आदि में लगा रहता है।	কাঠিম	काठिम	reel (of thread), spool.
फिरना	अ. क्रि.	1. घूमना, टहलना या सैर करना;	ঘুরিয়া বেড়ান, বেড়ান, পরিক্রমণ করা;	घुरिया बेड़ान, बेड़ान, परिक्रमन करा;	to go round, to promenade, to ramble;
		2. वापस आना;	প্রত্যাবর্তন করা;	प्रत्यावर्तन करा;	to turn back, to return;
		3. सूचना आदि के रूप में सबके सामने घुमाया जाना;	বিজ্ঞাপনাদি সকলের কাছে ঘুরাইয়া আনা;	बिज्ञापनादि सकलेर काछे घुराइया आना;	to circulate;
		4. कही हुई बात से मुकरना;	কথা না রাখা, কথার নড়চড় করা;	कथा ना राखा, कथार नड़चड़ करा;	to go back (on), to turn (from);
		5. किसी तरल पदार्थ का पोता जाना;	কোনো কিছুতে রং ইত্যাদি লাগানো;	कोनो किछुते रं इत्यादि लागानो;	to paint;
		6. पहले से बिल्कुल विपरीत स्थिति में आना, दशा बदलना।	বিপরীত পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া	बिपरीत परिस्थितिते उपनीत हओया	to undergo a change.
फिराना	स. क्रि.	1. फिरने में प्रवृत्त करना;	ফিরান;	फिरान;	to cause to be turned;
		2. घुमाना, टहलाना या सैर कराना;	ভ্রমণ করান, ঘুরাইয়া আনা;	भ्रमन करान, घुराइया आना;	to cause to go about, to promenade;
		3. लौटाना या वापिस करना।	প্রত্যর্পণ করা	प्रत्यर्पन करा	to return, give back.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फिरौती	स्त्री.	1. फिराने या फेरने की क्रिया, भाव या मजदूरी; 2. वह धन जो दुकानदार किसी बेची हुई वस्तु को वापस लेते वक्त विक्रय मूल्य में से काट लेते हैं।	ফিরত; দোকানের কোনো জিনিস ফিরত দিলে দোকানদার যে-অর্থ কাটিয়া লইয়া দাম ফিরত দেয়	फिरत; दोकानेर कोनो जिनिस फिरत दिले दोकानदार जे-अर्थ काटिया लइया दाम फिरत देय	act of or price for returning; deduction (made while refunding the price of goods returned by the buyer).
फिलहाल	क्रि. वि.	इस समय अथवा अभी तक।	হালফিল, সম্প্রতি	हालफिल, सम्प्रति	at present, for the present, for the time being.
फिल्म	स्त्री.	चलचित्र।	ফিল্ম, চলচ্চিত্র	फिल्म, चलच्चित्र	film, movie.
फिल्मी	वि.	फिल्म संबंधी।	ফিল্ম সম্বন্ধীয়	फिल्म सम्बन्धीय	pertaining to the films, cinematographic.
फिस	वि.	कुछ भी नहीं।	লবডঙ্কা, কিচ্ছু না	लबडंका, किच्छु ना	useless, fizzled out, turned useless.
फिसड्डी	वि.	1. जो सबसे पिछड़ा हुआ हो; 2. निकम्मा।	যে সকলের পিছনে পড়িয়া গিয়াছে; নিষ্কর্মা, অকর্মণ্য	जे सकलेर पिछने पड़िया गियाछे; निष्कर्मा, अकर्मन्य	backward, sluggish, tailing behind; worthless.
फिसलन	स्त्री.	1. फिसलने की क्रिया या भाव; 2. ऐसा स्थान जहां से कोई फिसल जाए।	ফস্কান, পিছলান	फस्कान, पिछलान	slipping, sliding; slipperiness, skid.
फिसलना	अ. क्रि.	1. किसी स्थान पर चिकनाहट अथवा ढाल के कारण रपट जाना; 2. (ला.) किसी आकर्षक या लाभदायक तत्व को देखकर अपने मार्ग से भ्रष्ट होना।	কোনো স্থান পিছল বা ঢালু হওয়ার জন্য পা পিছলান; কোনো লোভে পড়িয়া আপন পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া	कोनो स्थान पिछल बा ढालु हओयार जन्य पा पिछलान; कोनो लोभे पड़िया आपन पथ हइते भ्रष्ट हओया	to slip, to slide; (fig.) to err.
फीका (स्त्री. फीकी)	वि.	1. स्वादहीन (पदार्थ);	ফিকা, বিস্বাদ;	फिका, बिस्वाद;	tastless, vapid, insipid;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो यथेष्ट चमकीला या तेज न हो (रंग)।	অনুজ্জ্বল, হালকা ম্যাড়ম্যাড়ে	अनुज्ज्वल, हालका, म्याड़म्याड़े	pale, fade, dim, faint.
फीता	पु.	1. सूत आदि की बनी हुई कम चौड़ी और लम्बी पट्टी;	ফিতা, সূতা, ইত্যাদির বোনা লম্বা পাতলা পটী,	फिता, सूता इत्यादिर बोना लम्बा पातला पटी;	lace;
		2. वह पट्टी जिस पर इंचों आदि के चिह्न बने होते हैं और जो लम्बाई, चौड़ाई आदि नापने के काम आती है।	দৈর্ঘ্যাদি মাপার জন্য যে বস্ত্রাদি নির্মিত চ্যাপটা লম্বা ফালিতে ইঞ্চি ইত্যাদির চিহ্ন দেওয়া থাকে	दैर्घ्यादि मापार जन्य जे वस्त्रादि निर्मित च्यापटा लम्वा फालिते इंचि इत्यादि चिह्न देओया थाके	tape (for measurement)
फीरोजी	वि.	हरापन लिए नीला रंग।	ফিরোজা (রং)	फिरोजा (रं)	azure, blue.
फीलपांव (फीलपाया)	पु.	पांव सूजने का एक रोग।	শ্লীপদ, গোদ	श्लीपद, गोद	elephantiasis.
फीलवान	पु.	महावत।	মাহুত	माहुत	elephant driver.
फीस	स्त्री.	1. विशिष्ट कृत्यों के बदले दिया गया धन;	ফি, ফী, পারিশ্রমিক;	फि, फी, पारिश्रमिक;	fees;
		2. वह धन जो विद्यार्थी की शिक्षा के लिए मासिक रूप से देना पड़ता है।	বেতন	बेतन	tuition fee.
फीसदी	अव्य.	हर सौ के हिसाब से।	শতকরা	शतकरा	percent.
फुंकनी	स्त्री.	सांस या फूंक द्वारा आग सुलगाने या ज्वाला भड़काने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण।	চোঙ্গ	चोङ्ग	blow pipe (of goldsmith etc.)
फुंकार	स्त्री.	फूत्कार।	ফূৎকার	फुत्कार	hissing.
फुंदना	पु.	वह छोटी गांठ या लच्छी जो दुपट्टे, चादर, साड़ी आदि के किनारे पर लगाइ जाती है।	শোভাবর্ধনার্থ ঝুলাইয়া দেওয়া সূত্রগুচ্ছ	शोभाबर्धनार्थ झुलाइया देओया सुत्रगुच्छ	tassel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फुंसी	स्त्री.	रक्त आदि के विकार के कारण त्वचा पर निकलने वाला ऐसा छोटा दाना जिसमें कुछ मवाद हो।	ফুসকুড়ি	फुसकुड़ि	pimple, small boil.
फुट	पु.	लम्बाई नापने का एक उपकरण जो 12 इंच लम्बा होता है।	গজের এক তৃতীয়াংশ ১২ ইঞ্চি	गजेर एक तृतीयांश 12 इंचि	a foot (of measurement).
फुटकर (फुटकल)	वि.	1. भिन्न या अनेक प्रकार का;	বিবিধ;	बिविध;	miscellaneous;
		2. जो इकट्ठा या एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग या खंडों में आता या रहता हो, थोक का विपर्याय।	পৃথক্ পৃথক্, খুচরা	पृथक् पृथक् खुचरा	retail.
फुटबाल	पु.	गेंद से खेला जानेवाला एक खेल।	ফুটবল	फुटवल	football.
फुदकना	अ. क्रि.	1. थोड़ी-थोड़ी दूर पर उछलते हुए यहां से वहां तथा वहां से यहां आते जाते रहना;	লাফাইয়া লাফাইয়া চলা;	लाफाइया लाफाइया चला;	to jump, to skip, to hop (as birds, frogs, etc.);
		2. उमंग में आकर अथवा प्रसन्नता-पूर्वक उछलते हुए इधर-उधर आना-जाना।	আনন্দে তিড়িং বিড়িং করিয়া লাফানো	आनन्दे तिड़िं बिड़िं करिया लाफानो	to skip or dance about (in token of delight).
फुदकी	स्त्री.	1. फुदक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का भाव;	লাফাইয়া লাফাইয়া চলা;	लाफाइया लाफाइया चला;	jump, skip, hop;
		2. एक प्रकार की छोटी चिड़िया।	ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ	क्षुद्र पक्षीबिशेष	a species of bird.
फुनगी	स्त्री.	1. वृक्ष या शाखा का सिरा;	বৃক্ষ বা শাখার অগ্রভাগ, অঙ্কুর;	बृक्ष वा शाखार अग्रभाग, अङ्कुर;	sprout, a shoot;
		2. पर्वत आदि की चोटी।	পর্বতশিখর	पर्वतशिखर	extremity, tip, summit.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फुफकार	स्त्री.	फुफकारने की क्रिया या भाव, फुफकारने से होनेवाला शब्द।	ফোঁস	फोंस	puffing, hissing (of snake).
फुफकारना	अ. क्रि.	क्रोध में आकर मुंह से फूं फूं का शब्द करना।	ফোঁস করা	फोंस करा	to hiss (as a snake), to make a hissing sound.
फुफेरा	वि.	फूफा संबंधी या फूफा से उत्पन्न, जैसे फुफेरा भाई।	পিসতুত	पिसतुत	descended from or related through, a paternal aunt.
फुरसत	स्त्री.	अवकाश का समय।	ফুরসত, অবকাশ, অবসর	फुरसत, अबकाश, अबसर	leisure, respite, spare time.
फुर्ती (फुरती)	स्त्री.	उमंग से या शीघ्रतापूर्वक किसी कार्य में संलग्न होने का भाव, शीघ्रता।	কর্মতৎপরতা ক্ষিপ্রকারিতা, চট্পটেভাবে	कर्मतत्परता, क्षिप्रकारिता, चट्पटेभावे	smartness, quickness, promptness, agility.
फुर्तीला (फुरतीला)	वि.	शीघ्रता से काम करनेवाला।	তৎপর, চট্পটে, ক্ষিপ্রকারী	तत्पर, चट्पटे, क्षिप्रकारी	quick, smart, prompt, agile.
फुलका	वि.,पु.	1. फूल की तरह हल्का; 2. हल्की और फूली हुई रोटी।	ফুলের মত হাল্কা; পাতলা ফোলান ছোট আকারের রুটি	फुलेर मत हाल्का; पातला फोलान छोट आकारेर रुटि	light as a flower; a thin puffed bread.
फुलझड़ी (फुलझरी)	स्त्री.	1. छोटी, पतली डंडी की तरह की आतिशबाजी जिसमें से फूल की सी चिनगारियां निकलती हैं;	ফুলঝুরি;	फुलझुरि;	a kind of fire-work;
		2. (ला०) ऐसी बात जिसका मूल उद्देश्य दो पक्षों में झगड़ा करा कर स्वयं तमाशा देखना होता है।	এমন কথা, যাহা বলার উদ্দেশ্য দুই পক্ষের ঝগড়া বাঁধাইয়া বক্তার তামাশা দেখা	एमन कथा, जाहा बलार उद्देश्य दुइ पक्षेर झगड़ा बांधाइया बक्तार तामाशा देखा	(fig) stray remarks made on purpose, a provoking remark uttered in a lighter vein.
फुलवारी	स्त्री.	फूलों से भरा उद्यान या बगीचा।	ছোট ফুলবাগান	छोट फुलबागान	a small flower-garden.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फुलाना	स. क्रि.	ऐसी क्रिया करना जिससे कोई चीज हवा से भर कर फूल जाए।	फुलान	फुलान	to cause to swell, puff out, to inflate.
फुलाव	पु.	फूले हुए होने की अवस्था, क्रिया या भाव।	फোলা, স্ফীতি	फोला, स्फीति	swelling, inflation, protuberance.
फुलेल	पु.	सिर में लगाने का एक सुगंधित तेल।	ফুলেল, সুগন্ধি তৈল	फुलेल सुगन्धि तैल	scented oil, essence (as a perfume).
फुसफुसा	वि.	जो दबाने से बहुत जल्दी चूर हो जाए, कमजोर और नरम।	পলকা, যাহা সহজে চুপসাইয়া যায়	पलका, जाहा सहजे चुपसाइया जाय	flabby, hollow, fragile.
फुसफुसाना	अ. क्रि.	बहुत ही दबे या धीमे स्वर में कुछ बोलना।	ফিসফিস করিয়া বলা	फिसफिस करिया बला	to whisper, to speak in a low tone.
फुसलाना	स. क्रि.	किसी को मीठी-मीठी बातों से या बड़ी-बड़ी आशाएं दिला कर अपने अनुकूल करना।	ফুসলান	फुसलान	to coax, to cajole, inveigle, entice.
फुहार	स्त्री.	ऊपर से गिरनेवाली पानी की या किसी तरल पदार्थ की छोटी-छोटी बूंदें।	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	गुँड़ि गुँड़ि वृष्टि	small rain, drizzle.
फुहारना	स. क्रि.	किसी चीज को धोने, रंगने आदि के लिए उस पर किसी तरल पदार्थ की फुहार डालना।	গুঁড়ি গুঁড়ি করিয়া ছিটান, সিঞ্চন করা, স্প্রে করা	गुँड़ि गुँड़ि करिया छिटान, सिंचन करा, स्प्रे करा	to spray, to sprinkle.
फुहारा	पु.	1. जमीन से फूट पड़नेवाली तेज धारा; 2. एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण जिससे पानी या किसी तरल पदार्थ की बूंदें निरन्तर गिरती हैं।	ফোয়ারা, প্রস্রবণ; ঊর্ধ্বমুখ জলধারার যন্ত্র, জলযন্ত্র	फोयारा, प्रस्रवन; ऊर्ध्वमुख जलधारार जन्त्र, जलजन्त्र	spring, gush; fountain, shower.
फूंक	स्त्री.	मुंह से वेगपूर्वक निकाली जानेवाली हवा।	ফুঁক, ফুক ফু ফুঁ	फुंक, फुक, फु, फुँ	breath of air, blow, puff, whiff.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फूंकना	स. क्रि.	1. मुंह का विवर समेटकर वेग के साथ हवा छोड़ना;	ফু দেওয়া;	फु देओया;	to puff, to blow;
		2. मंत्र फूंकना;	মন্ত্র ফোঁকা;	मन्त्र फोंका;	to blow or breath a charm or incantation;
		3. मुंह की हवा छोड़ कर आग दहकाना;	ফুঁ দিয়া আগুন উসকানো;	फुं दिया आगुन उसकानो;	to blow up (fire etc.);
		4. आग लगाना, जलाना या सुलगाना;	আগুন লাগান, আগুন জ্বালান;	आगुन लागान, आगुन ज्वालान;	to set on fire, inflame;
		5. बुरी तरह से नष्ट या बरबाद करना।	ফুঁকিয়া দেওয়া	फुंकिया देओया	to squander away, to waste.
फूंका	पु.	बांस आदि की नली जिसके द्वारा फूंकने की क्रिया की जाती है।	ফুঁ দেওয়ার জন্য বাঁশ ইত্যাদির চোংগ	फुं देओयार जन्य बांश इत्यादिर चोङ्ग	a blow-pipe made of bamboo etc.
फूट	स्त्री.	1. फूटने की क्रिया या भाव;	ফাটা, ভাংগা;	फाटा, भाङ्गा;	crack, split, rift, chasm;
		2. आपसी अनबन या बिगाड़;	ফাটল, বনিবনার অভাব;	फाटल, बनिबनार अभाव;	discord, dissension, split;
		3. एक प्रकार की बड़ी ककड़ी जो पकने पर प्रायः खेतों में ही काट फट जाती है।	ফুটি	फुटि	a kind of fruit, a large cucumber that splits up on ripening.
फूटना	अ. क्रि.	1. आघात या दबाव लगने से किसी चीज का टूटना;	ফাটা, ভাংগা, টুটা, চিড় খাওয়া;	फाटा, भाङ्गा, टुटा, चिड़ खाओया;	to break, crack, split;
		2. अन्दर का दबाव पड़ने से अथवा किसी प्रकार की बाहरी क्रिया से किसी चीज का ऊपरी आवरण फटना;	ভিতরের চাপে বাহিরের আবরণ বিদীর্ণ হওয়া;	भितरेर चापे बाहिरेर आबरन विदीर्न हओया;	to erupt, to explode;
		3. कली या अंकुर का प्रस्फुटित होना;	অঙ্কুরিত হওয়া;	अङ्कुरित हओया;	to sprout, shoot;
		4. ऊपरी दबाव हटा कर निकलना, बाहर आना या प्रकट होना;	বাহির হওয়া, উদ্গত হওয়া;	बाहिर हओया, उद्गत हओया;	to come out, to appear;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		5. मतभेद, राग-द्वेष आदि होने पर किसी का अलग होना; 6. मुंह से शब्द उच्चरित होना या निकलना।	মতভেদ ইত্যাদির জন্য পৃথক হওয়া; মুখ হইতে শব্দ বাহির হওয়া	मतभेद इत्यादिर जन्य पृथक हओया; मुख हइते शब्द बाहिर हओया	to be separated, be detached, to be defected; to speak out, to blurt out.
फूत्कार	पुं.	फुफकार।	ফুৎকার, ফুঁ	फुत्कार, फुं	hissing, whizzing.
फूफा	पुं.	फूफी या बुआ का पति।	পিসা, পিসে	पिसा, पिसे	husband of father's sister, uncle.
फूफी (फूफू)	स्त्री.	बाप की बहन या बुआ।	পিসী	पिसी	paternal aunt, father's sister.
फूल	पुं.	1. पेड़ पौधों पर नाना रंग के खिलनेवाले कुसुम; 2. (ला०) अत्यन्त कोमल और सुकुमार; 3. फूल के आकार की कोई वस्तु, आभूषण आदि; 4. शव के जल जाने के बाद बची हुई हड्डी; 5. एक प्रकार की मिश्र धातु जो तांबे और रांगे के मेल से बनती है।	ফুল, পুষ্প, কুসুম; অত্যন্ত কোমল ও সুকুমার; কুসুমাকৃতি, নকশা, অলঙ্কার ইত্যাদি; দাহকরা শবের অস্থি; তামা ও রাং মিশ্রণজাত ধাতুবিশেষ	फुल, पुष्प, कुसुम; अत्यन्त कोमल ओ सुकुमार; कुसुमाकृति, नकशा, अलङ्कार इत्यादि; दाहकरा शवेर अस्थि; तामा ओ रां मिश्रनजात धातुविशेष	flower, blossom; very light or delicate thing; flower-like thing (ornament etc.); ashes left after cremation; a sort of mixed metal.
फूलगोभी	स्त्री.	एक प्रकार का पौधा जिसमें बड़े फूल के आकार का बंधा हुआ ठोस पिंड होता है जो तरकारी के काम आता है।	ফুলকপি	फुलकपि	cauliflower.
फूलदान	पुं.	फूल सजाने के लिए विविध रूपों का बर्तन।	ফুলদান, ফুলদানি	फुलदान, फुलदानि	flower-vase.
फूलदार	वि.	जिस पर फूल-पत्ते और बेलबूटे बने हों।	ফুলদার, ফুলের নকশাযুক্ত	फुलदार, फुलेर नकशाजुक्त	flowery, embroidered.
फूलना	अ. क्रि.	1. फूलों से युक्त होना;	পুষ্পিত হওয়া;	पुष्पित हओया;	to blossom, to flower, to bloom;

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उमंग से भर जाना, बहुत प्रसन्न होना;	फुला, উল্লসিত হওয়া;	फुला, उल्लसित हओया;	to swell out, to expand (with joy);
		3. (ला०) मन में विशेष अभिमान या गर्व का अनुभव करना;	গর্বিত হওয়া;	गर्वित हओया;	to assume airs, to feel proud;
		4. बहुत अधिक उभर जाना या ऊंचा हो जाना, सूजना।	স্ফীত হওয়া, ফাঁপা	स्फीत हओया, फांपा	to swell, be inflated, be puffed out.
फूलबत्ती	स्त्री.	देवताओं की आरती आदि के लिए बनाई जानेवाली रूई की एक प्रकार की बत्ती।	দেবতার আরতির জন্য তৈরি তুলার সলিতা	देवतार आरतिर जन्य तैरी तुलार सलिता	a sort of cotton wick.
फूली	स्त्री.	1. सफेद दाग जो आंख की पुतली पर पड़ जाता है;	চোখের মণিতে সাদা দাগ;	चोखेर मनिते सादा दाग;	a white speck in the eye;
		2. भाड़ में भूना हुआ मक्का या चावल का दाना जो फूल जाता है।	ভুট্টার খই, ধানের খই	भुट्टार खइ, धानेर खइ	parched maize or paddy.
फूस	पु.	सूखी घास जो छप्पर बांधने, ईंधन आदि के काम आती है।	ঘর ছাওয়া যায় এমন শুষ্ক তৃণবিশেষ বা খড়	घर छाओया जाय एमन शुष्क तृनविशेष वा खड़	old dry grass or straw (esp. such as is used in thatching).
फूहड़	वि.	बेशऊर, गंदा या भद्दा।	কাজকর্মে যাহার ছিরি-ছাদ নাই	काजकर्मे जाहार छिरि-छाद नाइ	unmannerly, slovenly,
	स्त्री.	गंदी तथा निर्लज्ज स्त्री।	জঘন্য, বেহায়া নারী	जघन्य, बेहाया नारी	a bad house-wife, silly woman, a slut, trump , shameless woman.
फूहड़पन	पु.	भद्दापन, बेढंगापन।	নোংরামি, বিশ্রীভাবে করা কাজ	नोंरामि, बिश्रीभावे करा काज	slovenliness, untidiness, shamelessness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फेंकना	स. क्रि.	1. हाथ से किसी चीज को ऊंचा उछाल कर गिरा देना;	ছুড়া;	छुड़ा;	to throw, fling, cast, hurl;
		2. गिरा या छोड़ देना;	ফেলিয়া দেওয়া;	फेलिया देओया;	to drop, to lose;
		3. असावधानी, आलस्य या भूल आदि के कारण चीजें इधर-उधर फैलाना या छोड़ना·	জিনিসপত্র ছত্রাকার করা, বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান;	जिनिसपत्र छत्राकार करा, विशृङ्खलभावे छड़ान;	to mislay, to place or throw carelessly;
		4. अनावश्यक रूप से या व्यर्थ व्यय करना।	টাকা পয়সা উড়াইয়া দেওয়া	टाका पयसा उड़ाइया देओया	to spend unnecessarily or uselessly.
फेंटना	स. क्रि.	1. उंगलियों से हिलाकर किसी चीज को अच्छी तरह मिलाना;	ফেটান;	फेटान;	to beat up froth, to mix by trituration;
		2. ताश के पत्तों को इस प्रकार मिलाना कि उनका क्रम बदल जाए।	তাস ভাঁজা	तास भांजा	to shuffle.
फेंटा	पु.	1. धोती का वह भाग जो कमर के चारों ओर लपेटा जाता है;	ধুতির যে-অংশ কোমরে জড়ান হয়;	धुतिर जे-अंश कोमरे जड़ान हय;	part of dhoti tucked up round the waist;
		2. छोटी पगड़ी।	ছোট পাগড়ী	छोट पागड़ी	small turban.
फेन	पु.	झाग।	ফেন, ফেনা	फेन, फेना	froth, foam.
फेनिल	वि.	झागदार।	ফেনিল, সফেন	फेनिल, सफेन	frothy, foamy.
फेनी	स्त्री.	घी में छाना हुआ मैदे का लच्छा जिसे दूध में भिगोकर और शक्कर मिलाकर खाते हैं।	একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষ	एकप्रकार मिष्टान्नविशेष	kind of sweetmeat.
फेफड़ा	पु.	छाती के नीचे स्थित थैली के आकार का अवयव जिससे रीढ़वाले अधिकांश प्राणी सांस लेते हैं।	ফুসফুস্	फुसफुस	lung.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फेर	पु.	1. घुमाव, चक्कर;	ঘূর্ণন, পাক খাওয়া;	घूर्नन, पाक खाओया;	turning, turn, twist, curvature;
		2. भ्रम या उलझन;	ভ্রম, ধোখা;	भ्रम, धोखा;	dilemma, perplexity;
		3. चालाकी या धोखेबाजी से भरी हुई चाल या युक्ति;	পেঁচ, ছলনা;	पेंच, छलना;	ruse, trick, subterfuge;
		4. घुमावदार मार्ग या रास्ता।	ঘুরানো পথ, সর্পিল পথ	घुरानो पथ, सर्पिल पथ	circuitous route.
फेरना	स. क्रि.	1. कोई चीज को किसी फेरे या घेर में बार-बार घुमाना;	ফিরান, ঘোরানো;	फिरान, घोरानो;	to turn, to turn round;
		2. कोई चीज लेकर चारों ओर या चक्कर-सा लगाते हुए सब के सामने जाना;	চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোনো জিনিস সকলকে দেখান;	चारिदिके घुरिया घुरिया कोनो जिनिस सकलके देखान;	to circulate, to proclaim, to announce;
		3. किसी के द्वारा भेजी हुई वस्तु न लेना और उसे लौटा देना;	ফিরাইয়া দেওয়া;	फिराइया देओया;	to turn away, to reject, to send back;
		4. जो चीज जिस दिशा में हो उसका पार्श्व या मुंह उससे विपरित दिशा में करना;	মুখ ঘুরাইয়া দেওয়া, উল্টাইয়া দেওয়া;	मुख घुराइया देओया, उल्टाइया देओया;	to turn over, to reverse, invert;
		5. किसी तल पर कोई चीज चारों ओर इधर-उधर, ऊपर-नीचे ले जाना और ले आना (जैसे सिर पर हाथ फेरना, दीवार पर चूना या रंग फेरना आदि)।	বুলানো–যেমন মাথায় হাত বুলানো, ফিরান– কলি ফিরান	बुलानो–जेमन माथाय हात बुलान, फिरान– कलि फिरान	to stroke, to fondle, caress, to pass (a brush, colour, over), to colour, to whitewash.
फेरफार	पु.	उलट-फेर, परिवर्तन।	উলট্‌পালট	उलटपालट	shuffling, change.
फेरा	पु.	1. किसी चीज के चारों ओर फिरने अर्थात् घूमने की क्रिया या भाव;	ফিরান, আবর্তন;	फिरान, आवर्तन;	circuit round, perambulation;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. विवाह के समय वर-वधू द्वारा की जानेवाली अग्नि की परिक्रमा।	বিবাহের সময় বরবধূর অগ্নিপ্রদক্ষিণ	बिबाहेर समय बरबधूर अग्निप्रदक्षिन	matrimonial rite according to which the bride and the bridegroom move round the sacred fire.
फेरी	स्त्री.	1. देवी-देवता आदि की की जानेवाली परिक्रमा;	দেবতাদির প্রদক্ষিণ;	देबतादिर प्रदक्षिन;	going round, circumambulation (round an object);
		2. छोटे व्यापारी द्वारा गलियों, गांवों आदि में फुटकर ग्राहकों के हाथ सामान बेचने के उद्देश्य से लगाया जानेवाला चक्कर।	ফেরি, পণ্যবিক্রয়ার্থ গ্রামে গ্রামে বা গলিতে গলিতে ফেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পণ্য বিক্রয়	फेरि, पन्यबिक्रयार्थ ग्रामे ग्रामे बा गलिते गलिते फेरा घुरिया घुरिया पन्य बिक्रय	hawking, the rounds of a pedlar.
फेरीवाला	पु.	वह छोटा व्यापारी जो गली-गली या गांव-गांव में घूम कर सौदा बेचता है।	ফেরিওয়ালা, যে ফেরি করে	फेरिओयाला, जे फेरि करे	hawker, pedlar.
फेल	वि.	1. जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो; 2. जो अपने प्रयास में विफल हुआ हो।	ফেল, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ; অকৃতকার্য, ব্যর্থ	फेल परीक्षाय अनुतीर्न; अकृतकार्ज, ब्यर्थ	failed, plucked; unsuccessful.
फेहरिस्त	स्त्री.	सूची, यादी।	ফিরিস্তি	फिरिस्ति	list, inventory.
फैलना	अ.क्रि.	1. किसी चीज का विस्तार से युक्त होना;	ছড়ান;	छड़ान;	to be spread, to be diffused, to be scattered, to spread, to expand, to extend, to stretch or to reach out;
		2. किसी बात आदि का	সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া	सर्बत्र छड़ाइया पड़ा	to spread around,

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		व्यापक क्षेत्र में चर्चा का विषय बनना;			become public;
		3. कुछ अधिक पाने या लेने के लिए आग्रहपूर्वक याचना या हठ करना।	আরও বেশী দাবি করা	आरओ बेशी दाबि करा	to rise in one's demands or requirements, to be exacting.
फैलाना	स. क्रि.	1. किसी को फैलने में प्रवृत्त करना;	অন্যকে দিয়া ছড়ানো;	अन्यके दिया छड़ानो;	to spread, to stretch, to expand;
		2. कोई चीज खींचकर विस्तार या सीमा तक ले जाना;	টানিয়া বড় করা;	टानिया बड़ करा;	to lengthen, to draw out;
		3. किसी प्रकार के घेरे या विवर का विस्तार बढ़ाना।	কোনো ঘেরাও বা গর্ত বড় করা	कोनो घेराओ बा गर्त बड़ करा	to diffuse, to unfurl.
फैलाव	पु.	1. फैले हुए होने की अवस्था या भाव;	ছড়ানো;	छड़ानो;	spreading, spreading out;
		2. उतनी लम्बाई-चौड़ाई जिसमें कोई चीज फैली हुई हो।	বিস্তৃতি	बिस्तृति	expansion, stretch.
फैशन	पु.	बनाव-शृंगार करने के आधुनिक और प्रचलित ढंग।	ফ্যাশন, ফ্যাশান	फयाशन, फयाशान	fashion.
फैसला	पु.	1. न्यायकर्त्ता द्वारा दी जानेवाली व्यवस्था;	ফয়সালা, রায়;	फयसाला, राय;	judgement, decision;
		2. किसी बात के संबंध में किया गया अन्तिम निर्णय।	মীমাংসা	मीमांसा	settlement.
फोकट	वि.	जिसके लिए कुछ परिश्रम या व्यय न करना पड़े।	যাহার অন্য পয়সা লাগে না	जाहार अन्य पयसा लागे ना	free, free of charge, gratis.
फोटो (फोटोग्राफ)	पु., स्त्री.	एक विशिष्ट यांत्रिक उपकरण द्वारा खींचा हुआ चित्र।	ফটো, ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র	फटो, फटोग्राफ, आलोकचित्र	photo, photograph.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
फोटोग्राफर	पु.	एक विशिष्ट यांत्रिक उपकरण द्वारा चित्र खींचनेवाला, चित्रकार।	ফটোগ্রাফার, যে ফটো তুলে	फटोग्राफार, जे फटो तुले	photographer.
फोटोग्राफी	स्त्री.	फोटो उतारने के यंत्र के द्वारा फोटो या छाया-चित्र बनाने की कला तथा कृत्य।	ফটোগ্রাফি, অলোকচিত্র-শিল্প	फटोग्राफि, अलोकचित्र-शिल्प	photography.
फोड़ना	स. क्रि.	1. शीशा, चीनी या मिट्टी आदि की कोई वस्तु खंड-खंड करना या तोड़ना;	ভাংগা;	भाङ्गा;	to break to pieces, to break, to burst open;
		2. किसी खोखली या वायु-भरी वस्तु को आघात या दबाव द्वारा तोड़ना;	ফাটান;	फाटान;	to explode, to split;
		3. किसी दल या पक्ष के व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाना;	অন্য দল হইতে ভাংগাইয়া আনা;	अन्य दल हइते भाङ्गाइया आना;	to induce (a person), to defect;
		4. कोई ऐसा परिश्रम करना जिसका कोई फल न हो या बहुत ही कम फल हो;	বৃথা পরিশ্রম করা;	बृथा परिश्रम करा;	to waste one's time on unyielding or infructuous job;
		5. किसी का भेद या रहस्य सब पर प्रकट करना।	গোপন কথা প্রকাশ করা, গুপ্ত কথা ফাঁস করা	गोपन कथा प्रकाश करा, गुप्त कथा फांस करा	to disclose, divulge, betray (a secret):
फोड़ा	पु.	शारीरिक विकार के कारण होनेवाला ऐसा व्रण जिसमें रक्त सड़कर मवाद का रूप धारण कर लेता है।	ফোড়া, স্ফোটক, ব্রণ	फोड़ा, स्फोटक, व्रन	boil, tumour, abscess, ulcer.
फौज	स्त्री.	सेना या झुंड।	ফৌজ, সৈন্যদল	फौज, सैन्यदल	crowd (of men etc.), multitude, army.
फौजदारी	स्त्री.	गहरी मारपीट की कोई घटना।	ফৌজদারি, মারপিট	फौजदारी, मारपिट	criminal fighting; assault, breach of

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी. लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
					the peace, criminal offence.
फौजदारी अदालत	स्त्री.	वह न्यायालय जिसमें मार-पीट, हत्या आदि संबंधी मुकदमों की सुनवाई होती है।	ফৌজদারের আদালত	फौजदारेर आदालत	criminal court.
फौजी	वि.	फौज का या उससे संबंधित।	ফৌজি, সামরিক, জংগী	फौजि, सामरिक, जङ्गी	of or belonging to the army, military, martial.
फौरन	क्रि. वि.	तत्काल।	তৎক্ষণাৎ, এক্ষুণি	तत्क्षनात्, एक्षुनि	quickly, immediately, at once.
फौलाद	स्त्री, पु.	असली लोहा।	ইস্পাত	इस्पात	steel.
फौलादी	वि.	1. फौलाद का बना हुआ;	ইস্পাতের তৈরি;	इस्पातेर तैरि;	made of steel;
		2. बहुत ही दृढ़ या पक्का।	খুব শক্ত ও মজবুত ইস্পাতকঠিন	खुब शक्त ओ मजबुत इस्पातकठिन	strong, stout, sturdy.
बंकिम	वि.	1. तिरछा, टेढ़ा; 2. बांका।	বঙ্কিম, বাঁকা; রসিক নাগর	बङ्किम, बांका; रसिक नागर	oblique, curved; coquettish, showy.
बंगला	पु.	1. चारों ओर से खुला हुआ एक मंजिला मकान।	বাংলাবাড়ি;	बांलाबाड़ि;	small bungalow, cottage.
	स्त्री.	2. बंगाल की भाषा।	বংগভাষা	बङ्गभाषा	Bengali language.
बंजर	वि.	ऊसर भूमि जहां कुछ पैदा न हो सके।	ঊষর, অনুর্বর, বন্ধ্যা	ऊषर, अनुर्बर, बन्ध्या	waste (land), unproductive (land).
बंजारा	स्त्री., पु.	1. घूम-फिर कर नून, तेल, अन्न आदि बेचनेवाली एक जाति;	ফেরি করিয়া বিক্রয় করে এরূপ জাতি বিশেষ;	फेरि करिया बिक्रय करे एरूप जाति बिशेष;	a caste or class who are carriers of grain, salt etc;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उक्त जाति का सदस्य।	উক্ত জাতের মানুষ	उक्त जातेर मानुष	member of above class.
बंटना	अ. क्रि.	अलग-अलग हिस्सा होना या बांटा जाना।	বিভক্ত হওয়া	विभक्त हओया	to be divided or shared.
बंटवाना	स. क्रि.	1. दूसरों को कोई चीज बांटने या हिस्से करने में प्रवृत्त करना;	অন্যকে দিয়া বাঁটানো;	अन्यके दिया बांटानो;	to cause to distribute, to share, to divide etc;
		2. किसी चीज़ की बांट या उसके हिस्से करवाना।	ভাগ করানো	भाग करानो	to cause to be shared, to be distributed or to be divided.
बंटवारा	पु.	1. बांटने का काम; 2. भाइयों या हिस्सेदारों में होनेवाला विभाजन।	বাটোয়ারা, বন্টন; ভাইদের মধ্যে বা আত্মীয়দের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা	बाटोयारा, बन्टन; भाइदेर मध्ये बा आत्मीयदेर मध्ये सम्पत्तिर भाग बाटोयारा	act of dividing; partition of property etc. amongst brothers or relatives.
बंटाई	स्त्री.	1. बांटने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक;	বাঁটা, বন্টন;	बांटा, बन्टन;	act or state of dividing, partitioning;
		2. बांटे जाने की अवस्था या भाव।	ভাগ	भाग	division, partition.
बंटाधार	वि.	पूरी तरह से चौपट या भ्रष्ट किया हुआ।	বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত	बिध्वस्त, सम्पूर्नरूपे ध्वंसप्राप्त	completely destroyed, devastated, undone.
बंटाना	स. क्रि.	1. संपत्ति आदि के हिस्से कराना;	সম্পত্তি ইত্যাদির ভাগবাটোয়ারা করানো;	सम्पत्ति इत्यादिर भागबाटोयारा करानो;	to cause property etc. to be shared or distributed;
		2. किसी काम या बात में इस प्रकार सम्मिलित होना कि दूसरे का भार हल्का हो जाए।	সহায়তা করা, অংশ গ্রহণ করা	सहायता करा, अंश ग्रहन करा	to lend a helping, hand.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बंडल	पु.	रस्सी आदि से अच्छी तरह बंधा हुआ पुलिंदा।	বান্ডিল	बान्डिल	bundle.
बंडी	स्त्री.	बिना आस्तीन की एक प्रकार की कुरती।	ফতুয়া জাতীয় জামা বিশেষ	फतुया जातीय जामा बिशेष	short robe, waist coat.
बंद	वि.	1. बंधा हुआ, कसा हुआ;	বাঁধা;	बांधा;	bound, tied up, fastened;
		2. बन्धन में, कैद में;	অবরুদ্ধ, জেলে আটকা;	अवरुद्ध, जेले आटका;	in prison,, behind the bars;
		3. चारों ओर से दीवारों आदि से घिरा (स्थान);	চারিদিকে ঘেরা (স্থান);	चारिदिके घेरा (स्थान);	closed, shut;
		4. बाधायुक्त।	বাধাযুক্ত	बाधाजुक्त	prevented, hindered.
बंदगी	स्त्री.	1. सेवा या सेवक, अनुचर होने का भाव; 2. ईश्वर की वन्दना।	সেবা, সেবকত্ব; ঈশ্বর বন্দনা	सेवा, सेबकत्व; इश्वर बन्दना	service or servitude, worship.
बंदगोभी	स्त्री.	पातगोभी।	বাঁধা কপি	बांधा कपि	cabbage.
बंदनवार	पु.	आम, अशोक आदि की पत्तियों को डोरी में बांध कर शुभ अवसरों में दरवाजों पर लगाया जाता है।	কোনো শুভকর্মে দরজায় আম পাতা ইত্যাদির যে-মালা ঝুলান হয়	कोनो शुभकर्मे दरजाय आम पाता इत्यादिर जे-माला झुलान हय	festoon of leaves of mango tree etc. suspended across gateways on festive occasions.
बंदर	पु.	एक प्रसिद्ध स्तनपायी चौपाया जो वृक्षों पर रहता है, मनुष्य से मिलता-जुलता है।	বাঁদর, বানর	बांदर, बानर	monkey, ape.
बंदरगाह	पु.	समुद्र के किनारे वह स्थान जहां जहाज ठहरते हैं।	বন্দর	बन्दर	port.
बंदरघुड़की	स्त्री.	बंदरों की तरह डराते हुए दी जानेवाली ऐसी धमकी जो दिखावे भर की हो पर जो पूरी न की जाए।	বাঁদরের মতো দাঁত খিচুনি	बांदरेर मतो दांत खिचुनि	empty threat.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बंदरिया	स्त्री.	बंदर की मादा।	वाँदरी, वानरी	बांदरी, बानरी	female monkey.
बंदा	पु.	1. दास या सेवक; 2. भक्त।	वान्दा, क्रीतदास; भक्त	बान्दा, क्रीतदास; भक्त	slave or servant; devotee.
बंदिश	स्त्री.	1. बांधने की क्रिया या भाव; 2. प्रतिबन्ध, बन्धन; 3. कविता के चरणों, वाक्यों आदि में होनेवाली शब्द-योजना।	वाँधा; प्रतिवन्धक; कवितार चरण, वाक्य इत्यादिते शब्दयोजना	बांधा; प्रतिबन्धक; कबितार चरन, वाक्य इत्यादिते शब्दजोजना	act or state of tying, binding etc restriction; composition, construction (in poetry).
बंदी	पु.	कैदी, बन्धन में रखा गया।	वन्दी, अवरुद्ध	बन्दी, अबरुद्ध	prisoner, captive.
बंदीगृह	पु.	कैदखाना।	वन्दीशाला, कारागार	बन्दीशाला, कारागार	prison, gaol.
बंदूक	स्त्री.	ऐसा अस्त्र जिसमें कारतूस गोली आदि भर कर इस प्रकार छोड़ी जाती है कि लक्ष्य पर जाकर गिरती है।	वन्दूक	बन्दुक	rifle.
बंदूकची	पु.	बंदूक चलानेवाला।	वन्दूकी	बन्दुकी	musketeer, rifleman.
बंदोबस्त	पु.	प्रबन्ध या व्यवस्था।	वन्दोवस्त, व्यवस्था	बन्दोबस्त, ब्यबस्था	arrangement, administration.
बंध	पु.	1. वह चीज जिससे कोई दूसरी चीज बांधी जाए, डोरी, रस्सी; 2. गांठ या बंधन; 3. गठन, रचना; 4. बांध (नदी आदि पर)।	वाँधिवार उपकरण; ग्रन्थि; गठन, निर्माण; वाँध	बांधिवार उपकरन; ग्रन्थि; गठन, निर्मान; बांध	string, cord; knot or bondage; construction, composition; dam.
बंधक	पुं.	1. बांधनेवाला; 2. गिरवी या रेहन।	वन्धक, वन्धनकारक; ऋणग्रहणेर जन्य जामिन	बन्धक, बन्धनकारक; ऋनग्रहनेर जन्य जामिन	binder; pawn, pledge.
बंधन		1. बांधने आदि की क्रिया या भाव;	वन्धन, वाँधन, वन्धकरण;	बन्धन, बांधन, बद्धकरन;	fastening, binding, tying;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी प्रकार की कोई रुकावट;	বাধা;	बाधा;	obstacle, hindrance, check, restraint;
		3. गांठ आदि।	গ্রন্থি	ग्रन्थि	tie, knot.
बंधना	अ. क्रि.	1. बंधन में पड़ना;	বাঁধা পড়া;	बांधा पड़ा;	to be bound, fastened, etc;
		2. किसी प्रकार के नियमन, प्रतिबंध आदि से युक्त होना।	বাধাপ্রাপ্ত হওয়া	बाधाप्राप्त हओया	to be restricted or regulated.
बंधनी	स्त्री.	जिससे कोई चीज बांधी हुई हो, रस्सी, डोरी आदि।	বন্ধনী, বাঁধিবার উপকরণ, রজ্জু, শৃঙ্খল	बन्धनी, बांधिबार उपकरन, रज्जु, श्रृङ्खल	instrument for tying or holdingtogether,tie string, rope, etc..
बंध-पत्र	पु.	1. विधिक दृष्टि से मान्य वह पत्र जिस पर हस्ताक्षर करनेवाला व्यक्ति अपने आपको किसी काम के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करता है;	মুচলেকা;	मुचलेका;	bond;
		2. एक प्रकार का सार्वजनिक ऋणपत्र जिसमें निश्चित समय के अन्दर कुछ विशिष्ट नियमों या शर्तों के अनुसार लिया हुआ ऋण चुकाने की प्रतिज्ञा होती है।	তমসুক, ঋণস্বীকারপত্র	तमसुक, ऋनस्वीकारपत्र	loan-bond.
बंधवाना	स. क्रि.	1. बांधने का काम किसी दूसरे से करवाना;	বাঁধানো;	बांधानो;	to get bound;
		2. वस्तु आदि की रचना कराना, बनवाना आदि;	বাঁধানো কোনো জিনিস তৈরি করানো;	बांधानो कोनो जिनिस तैरी करानो;	to get constructed, framed, prepared, etc.;
		3. कारागार में डलवाना।	কারাগারে নিক্ষেপ করানো	कारागारे निक्षेप करानो	to get imprisoned.
बंधाना	स. क्रि.	देखें 'बंधवाना'।	দ্র: 'বন্ধবানা'	द्र: 'बन्धवाना'	same as 'बंधवाना'.
बंधु	पु.	1. मित्र या हितैषी;	বন্ধু, মিত্র, সখা;	बन्धु, मित्र, सखा;	friend, well-wisher;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. सम्बन्धी; 3. भाई।	সম্বন্ধী, স্বজন; ভাই, ভ্রাতা	सम्बन्धी, स्वजन; भाइ, भ्राता	kinsman, relation; brother.
बंधेज	पु.	1. कोई नियत और परंपरागत प्रथा; 2. विभिन्न अवसरों पर संबंधियों, सेवकों आदि को दी जानेवाला धन-राशि; 3. बाधा, प्रतिबंध।	প্রথা; উৎসবাদি উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সেবকাদিকে প্রদত্ত অর্থোপহার; বাধা, প্রতিবন্ধ	प्रथा; उत्सबादि उपलक्षे आत्मीयस्वजन सेबकादिके प्रदत्त अर्थोपहार; बाधा, प्रतिबन्ध	custom, practice; amount paid to relations, servants etc. on various social occasions; obstacle, restriction.
बंबा	पु.	पानी की कल।	জলের কল	जलेर कल	hand-pump.
बंसी	स्त्री.	1. बांसुरी; 2. मछली फंसाने की कंटिया।	বংশী, বাঁশী; বড়শি	बंशी, बांशी; बड़शि	flute, pipe; fish-hook.
बंसूला (बसूला)	पु.	बसूला, बढ़इयों के उपयोग का एक प्रकार का कुल्हाड़ा।	বাইস	बाइस	kind of axe used by carpenters.
बंहगी	स्त्री.	भार ढोने का वह उपकरण जिसमें एक लम्बे बांस के दोनों सिरों पर रस्सी के बड़े-बड़े छीकें लटका दिए जाते हैं।	বাঁক	बांक	stick or pole with strings at both ends for carrying boxes or baskets etc., on the shoulder.
बक	पु.	बगला।	বগুলা, বক	बगुला, बक	kind of heron or crane.
बकझक	स्त्री.	बेकार की बात या झगड़ा।	বক্‌বকানি, বকবক	बक्‌बकानि, बकबक	silly talk, nonsense, babble.
बकना	स क्रि. अ. क्रि.	ऊटपटांग या व्यर्थ की बहुत सी बातें कहना।	বাজে বকুনি, বকবকানি	बाजे बकुनि, बकबकानि	to babble or to indulge in silly talk.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बकबक	स्त्री.	देखें 'बकझक'।	দ্র: 'বকবক'	द्र: 'बकबक'	same as 'बकझक'
बकरम	पु.	गोंद आदि लगा कर कड़ा किया हुआ वह करारा कपड़ा जो पहनने के कपड़ों के कालर, आस्तीन आदि में लगाया जाता है।	জামার কলার আস্তিন ইত্যাদিতে যে কড়া কাপড়ের টুকরা লাগান হয়	जामार कलार आस्तिन इत्यादिते जे कड़ा कापड़ेर टुकरा लागान हय	starched piece of cloth to be inserted in collars and cuffs to keep them stiff, buckram.
बकरा	पु.	एक प्रसिद्ध चौपाया जिसके सींग तिकोने, पीठ की ओर मुड़े हुए होते हैं, पूंछ छोटी होती है तथा शरीर से एक प्रकार की गंध आती है।	ছাপ	छाग	he-goat.
बकवाद	स्त्री.	बेकार की बात कहना, बेसिर पैर की हांकना।	বাজে কথা	बाजे कथा	nonsensical or foolish talk.
बकवास	स्त्री.	देखें '**बकवाद**'।	দ্র: 'বকবাদ'	द्र: 'बकवाद'	same as '**बकवाद**'
बकवासी	पु.	बकवास करनेवाला।	যে বকবক করে	जे बकबक करे	idle or nonsensical talker, chatterer, prater.
बकवृत्ति	स्त्री.	बगुलों जैसी वृत्ति।	বকের মতো আচরণ বকধার্মিকতা	बकेर मतो आचरन बकधार्मिकता	heron-like behaviour, hypocrisy.
बकाया	वि.	बाकी बचा हुआ धन।	বকেয়া	बकेया	remaining.
	पु.	किसी काम, बात या राशि का वह अंश जिसकी अभी पूर्ति होनी शेष हो।	বাকী	बाकी	arrears, remainder, balance.
बकैयां	स्त्री.	छोटे बच्चों की घुटनों के बल चलने की क्रिया।	হামাগুড়ি	हामागुड़ि	crawling of children.
बकोटना	स. क्रि.	1. नाखूनों से कोई चीज विशेषत: शरीर की त्वचा का मांस नोचना;	খামচানো;	खामचानो;	to lacerate or tear with the nails, scratch;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (ला०) कोई चीज किसी से बलपूर्वक लेना या वसूल करना।	কোনো জিনিস জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া	कोनो जिनिस जोर करिया काड़िया लओया	to extract anything forcibly from others.
बकोटा	पु.	1. बकोटने की क्रिया या भाव;	আঁচড়ানো, খিমচানো;	आंचड़ानो, खिमचानो;	scratching;
		2. उतनी मात्रा जितनी चंगुल या मुट्ठी में आ जाए।	মুষ্টিমেয় মুঠোভর	मुष्टिमेय मुठोभर	handful.
बक्कल	पु.	1. छिलका या छाल;	বন্কল, বাকল;	बन्कल, बाकल;	skin or bark;
		2. बकसुआ।	বকলস	बकलस	buckle.
बक्स (बक्सा)	पु.	लकड़ी, लोहे आदि का बना हुआ एक तरह का ढक्कनदार आधान।	বাক্স, বাস্ক	बाक्स, बास्क	box.
बखान	पु.	1. विस्तारपूर्वक कही जानेवाली बात;	ব্যাখ্যান, বিবৃতি;	ब्याख्यान, बिबृति;	explanation, exposition;
		2. प्रशंसा।	প্রশংসা	प्रशंसा	praise, commendation.
बखानना	स. क्रि.	विस्तारपूर्वक कहना या वर्णन करना।	বাখানা, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা	बखाना, ब्याख्या करा, बर्नना करा	to explain, to expound.
बखिया	पु.	एक प्रकार की महीन और मजबूत सिलाई, जिसमें दोहरे टांके लगाए जाते हैं।	বকেয়া	बकेया	fine sewing with double stitching.
बखियाना	स. क्रि.	बखिया करना।	বকিয়া সেলাই করা	बकिया सेलाइ करा	to stitch.
बखूबी	क्रि. वि.	भली प्रकार से, पूर्ण रूपेण।	ভালভাবে	भालभाबे	in a good manner, well, properly, duly, thoroughly, completely, in perfection.
बखेड़ा	पु.	1. उलझन भरा काम;	বখেড়া, বাধা, প্রতিবন্ধক;	बखेड़ा, बाधा, प्रतिबन्धक;	entanglement, complication;
		2. झगड़ा या विवाद।	ঝগড়া	झगड़ा	quarrel, dispute.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बख्तर (बक्तर)	पु.	लोहे के जाल का बना हुआ कवच।	লৌহবর্ম, লৌহকবচ	लौहबर्म, लौहकबच	iron armour.
बख्शना	स. क्रि.	1. प्रदान कर देना;	দেওয়া, দান করা;	देओया, दान करा;	to give, to grant, to bestow;
		2. दयापूर्वक छोड़ देना।	ক্ষমা করা, মাপ করা	क्षमा करा, माप करा	to forgive, to pardon, to excuse
बख्शीश	स्त्री.	1. दान, इनाम या पुरस्कार;	বকশিস, পারিতোষিক, পুরস্কার;	बकशिस, पारितोषिक, पुरस्कार;	donation, reward, gratuity;
		2. क्षमा।	ক্ষমা	क्षमा	pardon, forgiveness.
बगल	स्त्री.	1. बाहु-मूल के नीचे का गड्ढा;	বগল, কক্ষ, বাহুমূল;	बगल, कक्ष, बाहुमूल;	armpit;
		2. पक्ष।	পার্শ্ব	पार्श्व	flank, side.
बगला-भगत (बगुला-भगत)	पु.	वह जो देखने में बहुत धार्मिक तथा सीधा-सादा जान पड़ता हो, पर वास्तव में बहुत बड़ा कपटी या धूर्त हो।	বকধার্মিক	बकधार्मिक	religious hypocrite.
बगावत	स्त्री.	बलवा या राजद्रोह।	বিপ্লব, রাজদ্রোহ	बिप्लब, राजद्रोह	revolt, rebellion.
बगिया	स्त्री.	उपवन या छोटा बाग।	উপবন, ছোট বাগান	उपबन, छोट बागान	small garden.
बगीचा	पु.	छोटा बाग या फुलवारी।	বাগিচা	बागिचा	garden.
बगुला (बगला)	पु.	एक प्रसिद्ध जल पक्षी, बक।	বগুলা, বক	बगुला, बक	heron, crane.
बगूला	पुं.	तेज हवा की वह अवस्था जिसमें वह घेरा बांधकर चक्कर लगाती हुई तथा ऊपर उठती हुई आगे बढ़ती है।	ঘূর্ণিবায়ু	घुर्निबायु	whirlwind.
बगैर	क्रि. वि.	न होने की दशा में।	বিনা, ব্যতীত	बिना, ब्यतीत	without, exclusive (of), excluding.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बग्घी	स्त्री.	चार पहियों की पाटनदार गाड़ी जिसे एक या दो घोड़े खींचते हैं।	বগি, বগী, হাল্কা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ	बगि, बगी, हाल्का चार चाकार घोड़ार गाड़ीबिशेष	four-wheeled carriage driven by one or two horses, victoria.
बघनखा	पु.	बाघ के नख के आकार प्रकार का प्राचीन शस्त्र।	বাঘনখ	बाघनख	tiger's claw, resembling a tiger's claw.
बघार	पु.	दाल, सब्जी, आदि को गर्म घी, मसाले आदि का छौंक लगाने की क्रिया।	সম্বরা, ফোড়ন	सम्बरा, फोड़न	seasoning of saltish dishes with heated oil or ghee.
बघारना	स. क्रि.	तड़का देना या लगाना।	সম্বরা দেওয়া, ফোড়ন দেওয়া	सम्बरा देओया, फोड़न देओया	to season vegetables, pulses, etc. with onions and spices in heated oil or ghee.
बचकाना	वि.	1. बच्चों से संबंधित; 2. अपरिपक्व।	শিশুসুলভ, ছেলেমানুষি; অপরিপক্ব	शिशुसुलभ, छेलेमानुषि; अपरिपक्व	appertaining to or fit for children; childish, immature.
बचत	स्त्री.	1. बचे हुए होने की अवस्था या भाव; 2. व्यय आदि से बची रहनेवाली धन-राशि।	যাহা অবশিষ্ট থাকে, অবশেষ; উদ্বৃত্ত অর্থ, যে-অর্থ বাঁচিয়াছে	जाहा अबशिष्ट थाके, अबशेष; उद्वृत्त अर्थ, जे-अर्थ बांचियाछे	residue, remainder, surplus, balance; savings.
बचना	अ. क्रि.	1. उपयोग, कार्य या व्यय आदि हो चुकने के बाद जो कुछ शेष रहे; 2. बंधन, विपद, संकट आदि से किसी प्रकार सुरक्षित रहना; 3. किसी कार्य अथवा व्यक्ति से मिलने में संकोच करना।	বাঁচা, উদ্বৃত্ত হওয়া; বিপদ-আদি হইতে বাঁচিয়া যাওয়া; এড়ানো	बांचा, उद्वृत्त हओया; बिपद-आदि हइते बांचिया जाओया; एड़ानो	to be saved, to be left, to remain; to escape, to be saved (from); to avoid.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बचपन	पु.	बाल्यावस्था या लड़कपन।	ছেলেবেলা, বাল্যাবস্থা	छेलेबेला, बाल्याबस्था	infancy, childhood.
बचपना	पु.	1. बचपन; 2. अपरिपक्व बुद्धि का सूचक कार्य।	ছেলেবেলা; ছেলেমানুষি	छेलेबेला; छेलेमानुषि	childhood; childishness or childlike action.
बचा-खुचा	वि.	किसी चीज या वस्तु का बचा हुआ अंश या टुकड़ा।	কোনো জিনিসের যে-অংশ বাঁচিয়া গিয়াছে	कोनो जिनिसेर जे-अंश बाचिया गियाछे	left over or remains of anything.
बचाना	स. क्रि.	1. ऐसी क्रिया करना जिससे कुछ या कोई बचे, रक्षा करना; 2. उपयोग, व्यय आदि के उपरान्त भी कुछ अवशिष्ट रखना।	বাঁচানো, রক্ষা করা; উদ্ধৃত করা	बांचानो, रक्षा करा; उद्धृत करा	to preserve, to protect, to shield; to save, to put or to lay by.
बचाव	पु.	1. कष्ट, संकट आदि में बचे हुए होने की अवस्था; 2. त्राण या रक्षा; 3. कष्ट, संकट आदि से बचने के लिए किया जानेवाला उपाय।	নিষ্কৃতি, রেহাই, নিস্তার; রক্ষা; কষ্ট সঙ্কটাদি এড়ানো	निष्कृति, रेहाइ, निस्तार; रक्षा; कष्ट सङ्कटादि एड़ानो	protection, rescue; salvation or defence; act of preservation shielding, etc.
बच्चा	पु.	1. प्राणी का नवजात शिशु; 2. बालक।	বাচ্চা, শাবক, ছানা, শিশু; বালক	बाच्चा, शाबक, छाना शिशु; बालक	young one of a creature; child.
बच्ची	स्त्री.	छोटी लड़की।	ছোট মেয়ে	छोट मेये	little girl.
बछड़ा	पु.	गाय का बच्चा।	বাছুর	बाछुर	calf.
बछिया	स्त्री.	गाय का मादा बच्चा।	নই বাছুর	नइ बाछुर	female calf.
बछेड़ा	पु.	घोड़े का बच्चा।	অশ্বশাবক	अश्वशाबक	colt.
बछेड़ी	स्त्री.	घोड़े का मादा बच्चा।	ঘোড়ার মাদী বাচ্চা	घोड़ार मादी बाच्चा	female colt.
बजट	पु.	**आय-व्यय का मासिक या वार्षिक लेखा।**	বাজেট	बाजेट	budget.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बजना	अ. क्रि.	1. किसी चीज पर आघात किए जाने पर ऊंची ध्वनि निकलना; 2. संगीत अथवा वाद्ययंत्र में से ध्वनि निकलना।	বাজা, ধ্বনিত হওয়া; বাদ্যযন্ত্র বাজা	बाजा, ध्वनित हओया; बाद्यजन्त्र बाजा	emission of sound by striking against some thing; sound of some musical instrument.
बजरा	पु.	वह बड़ी नाव जो कमरे के समान खिडकियों तथा पक्की छतवाली होती है।	বজরা, খোলাছাদ-কামরা-ওয়ালা এক প্রকার বড় নৌকা	बजरा, खोलाछाद-कामरा-ओयाला एक प्रकार बड़ नौका	large kind of pleasure-boat shaped like a room having ceiling and windows.
बजरी	स्त्री.	पत्थर को तोड़कर बनाए जानेवाले वे छोटे-छोटे टुकड़े जो फरश, सड़क आदि बनाने के काम आते हैं।	পাথর-কুচি, কাঁকর, নুড়ি	पाथर-कुचि, कांकड़, नुड़ि	gravel.
बजा	वि.	उचित, उपयुक्त, ठीक, सत्य।	উচিত, ঠিক, সত্য	उचित, ठिक, सत्य	in place, proper, suitable, fit, becoming, right, just, true.
बजाज	पु.	कपड़े का व्यापारी।	বস্ত্রব্যবসায়ী	बस्त्रब्यवसायी	cloth merchant, draper.
बजाजी	स्त्री.	बजाज का काम।	বস্ত্রব্যবসায়	बस्त्रब्यबसाय	business of a cloth merchant or draper.
बजाना	स. क्रि	कोई ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया करना जिससे कोई वाद्य सुर, ताल, लय आदि में शब्द करने लगे।	বাজানো, বাজান	बाजानो, बाजान	to play (on a musical instrument), to perform or execute music, to beat (a drum, gong
बजाए (बजाय)	अव्य.	जगह या स्थान पर अथवा बदले में।	বদলে, পরিবর্তে	बदले, परिबर्ते	in place (of), in lieu of, instead of.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बटखरा	पु.	धातु, पत्थर आदि का किसी नियत तौल का टुकड़ा।	বাটখারা	बाटखारा	weight made from metal, stone, etc., used in weighing goods.
बटना	स. क्रि.	कई तंतुओं, तागों या तारों को एक साथ मिलाकर ऐसा मरोड़ना कि वे सब मिलकर एक हो जाएं।	দড়ি পাকানো	दड़ि पाकानो	twining of fibres, thread or wires into rope etc.
	अ.क्रि.	1. सिल पर मसाला आदि पीसना;	মসলা বাটা;	मसला बाटा;	to grind spices or onions etc. on a stoneslab;
		2. हिस्से होना, विभाजित होना।	ভাগ হওয়া	भाग हओया	to be shared, distributed, to be divided.
बटमार	पु.	पथिकों या यात्रियों को मार्ग में मारकर धन, संपत्ति छीन लेनेवाला।	বাটপাড়	बाटपाड़	highway-man.
बटमारी	स्त्री.	बटमार का काम या राहजनी।	বাটপাড়ি, রাহাজানি	बाटपाड़ि, राहाजानि	highway robbery.
बटला (बटुला)	पु.	चावल, दाल आदि पकाने का चौड़े मुंह का गोल बर्तन।	বাটলোই	बाटलोइ	wide-mouthed big pan to cook rice, pulses etc..
बटली (बटुली)	स्त्री.	देगची या छोटा बटला।	ছোট বাটলোই	छोट बाटलोइ	a small wide-mouthed pan.
बटलोई	स्त्री.	दे० 'बटली'।	দ্র: 'বটলী'	द्र: 'बटली'	same as 'बटली'.
बटवारा (बंटवारा)	पु.	1. बांटने का काम;	বাটোয়ারা, ভাগকরণ;	बाटोयारा, भागकरन;	act of dividing or distributing;
		2. भाइयों या रिश्तेदारों में होनेवाला संपत्ति विभाजन।	ভাই বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা	भाइ बा आत्मीय स्वजनेर मध्ये भागबाटोयारा	partition of property etc. amongst co-parceners.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बटा	पु.	गणित में एक प्रकार का चिह्न जो छोटी किन्तु सीधी पड़ी रेखा के रूप में (–) होता है।	গণিতে হর-এর উপরকার হ্রস্ব রেখা	गनिते हर-एर उपरकार ह्रस्व रेखा	line above the denominator in a vulgar fraction.
बटाई (बंटाई)	स्त्री.	1. बंटने या ऐंठन डालने की क्रिया या पारिश्रमिक; 2. बांटने की क्रिया।	দড়ি ইত্যাদি পাকানো; ভাগকরণ	दड़ि इत्यादि पाकानो; भागकरन	act of twining or wages ; act of dividing.
बटाई-पत्र	पु.	बटवारे से संबंधित कागज-पत्र।	বাটোয়ারাপত্র	बाटोयारापत्र	deed of partition.
बटी	स्त्री.	किसी चीज की बनाई हुई छोटी गोली।	বড়ি, বটিকা	बड़ि, बटिका	globule.
बटुआ (बटुवा)	पु.	कपड़े, चमड़े आदि का खाने तथा ढक्कनदार आधान जिसमें रुपए-पैसे रखे जाते हैं।	বটুয়া, বস্ত্রনির্মিত ক্ষুদ্র থলি	बटुआ, बस्त्रनिर्मित क्षुद्र थलि	a small bag with divisions or folds (used for holding money, betel-nut, tobacco etc.), purse.
बटुरना	अ. क्रि.	1. इकट्ठा या एकत्र होना; 2. सिमटना या बटोरा जाना।	সমবেত হওয়া; একত্র হওয়া	समबेत हओया; एकत्र हओया	to be collected or to assemble; to be shrunk or amassed.
बटेर	स्त्री.	तीतर की तरह एक छोटी चिड़िया जो अधिक उड़ नहीं सकती।	তিতিরজাতীয় পক্ষিবিশেষ	तितिरजातीय पक्षिविशेष	quail, perdix olivacca.
बटोरना	स. क्रि.	छितरी या बिखरी हुई वस्तुओं को एकत्र करना।	জড়ানো জিনিস একত্র করা	जड़ानो जिनिस एकत्र करा	to gather up, to assemble.
बटोही	पु.	पथिक या मुसाफिर।	পথিক	पथिक	way-farer or traveller.
बट्टा	पुं.	1. कूटने या पीसने का पत्थर;	নোড়া;	नोड़ा;	cylindrical piece of stone with which condiments, drugs etc. are pulverized;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. मूल्य में छूट।	বাট্টা	बाट्टा	discount.
बट्टा-खाता	पु.	महाजनों के यहां वह बही या लेखा जिसमें डूबी हुई अथवा न वसूल हो सकनेवाली रकमें लिखी जाती हैं।	আদায় হইবে না এমন ঋণের হিসাব মহাজনের যে খাতায় থাকে	आदय हइबे ना एमन ऋनेर हिसाब महाजेर जे खाताय थाके	bad debts.
बट्टी	स्त्री.	1. पत्थर आदि का छोटा टुकड़ा; 2. किसी चीज का प्रायः गोलाकार खंड।	পাথরের ছোট টুকরা, নুড়ি; বটিকা, বড়ি	पाथरेर छोट टुकड़ा, नुड़ि; बटिका, बड़ि	small piece of stone; globule.
बड़प्पन	पु.	बड़े होने की अवस्था या भाव।	গুরুত্ব, মহত্ব	गुरुत्व, महत्व	greatness.
बड़बड़	स्त्री.	1. बड़बड़ाने की क्रिया या भाव; 2. व्यर्थ की बातचीत।	গজগজ, গজরগজর; বাজে কথা	गजगज, गजरगजर; बाजे कथा	grumbling, murmuring; useless talk.
बड़बड़ाना	अ. क्रि.	1. धीरे धीरे तथा अस्पष्ट रूप से इस प्रकार बोलना कि बड़-बड़ के अतिरिक्त और कोई शब्द न सुना जा सके; 2. क्रोध में आकर आप ही आप कुछ कहते रहना।	বিড়বিড় করা; রাগে নিজে নিজে গজগজ করা	बिड़बिड़ करा; रागे निजे निजे गजगज करा	to grumble, to murmur; to talk to one-self in anger.
बड़बोला	वि.	बड़ी-बड़ी बातें बघारनेवाला।	যে লম্বাচওড়া কথা বলে	जे लम्बाचओड़ा कथा बले	boaster, talkative.
बड़भागा	वि.	सौभाग्यशाली।	সৌভাগ্যশালী	सौभाग्यशाली	fortunate.
बड़वानल	पु.	समुद्र के अन्दर चट्टानों में रहनेवाली आग जो सबसे अधिक भीषण और प्रबल मानी गई है।	বাড়বানল, সমুদ্রগর্ভস্থিত অগ্নি	बाड़बानल, समुद्रगर्भस्थित अग्नि	the submarine fire.
बड़हल	पु.	एक प्रकार का बड़ा पेड़ जो पश्चिमी घाट, पूर्वी	এক প্রকার বড় গাছ, ডেফল গাছ, লকুচ গাছ	एक प्रकार बड़ गाछ, डेफल गाछ, लकुच गाछ	the tree Astocarpus

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		बंगाल और कुमाऊं की तराई में होता है तथा उसका फल।			lakovcha and the fruit thereof.
बड़हार	पुं.	विवाह हो जाने के उपरान्त कन्यापक्ष वालों द्वारा वर और वरपक्ष को दिया जाने वाला ज्योनार।	বিবাহের পর বর ও বরযাত্রীদের খাওয়ানো বা বরযাত্রীদের জন্য আয়োজিত ভোজ	बिबाहेर पर बर ओ बरजात्रीदेर खाओयानो बा बरजात्रीदेर जन्य आयोजित भोज	feast given to son-in-law and his relations just after the marriage.
बड़ा	वि.	1. जो अपने आकार-प्रकार या विस्तार के विचार से औरों से बढ़चढ़ कर हो, विशाल;	বড়, বৃহৎ;	बड़, बृहत्;	large, big, huge;
		2. जो पद, गरिमा, गुण, मर्यादा आदि की दृष्टि से बड़ा हो, महान, श्रेष्ठ;	শ্রেষ্ঠ;	श्रेष्ठ;	grand, high, eminent, exalted;
		3. क्रिया अथवा विशेषण के गुण को बढ़ानेवाला;	অতিশয়;	अतिशय;	very excessively, exceedingly;
		4. उरद की दाल का एक प्रकार का नमकीन पकवान।	বড়া, কলাই ডাল ইত্যাদির বড়া	बड़ा कलाइ डाल इत्यादिर बड़ा	a saltish preparation of urd-pulse.
बड़ाई	स्त्री.	1. बड़े होने की अवस्था या भाव;	শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব;	श्रेष्ठत्व, महत्त्व;	largeness, greatness bigness, vastness, bulkiness;
		2. प्रशंसा।	প্রশংসা	प्रशंसा	praise, laudation.
बड़ा दिन	पुं.	25 दिसम्बर का दिन जो ईसाइयों का धार्मिक पर्व है।	বড়দিন	बड़दिन	X-mas day.
बड़ी	स्त्री.	आलू, दाल, सफेद कुम्हड़े आदि को पीस कर तथा उसमें नमक-मिर्च डालकर सुखाए हुए टुकड़े।	বড়ি, বাটা ডাল ইত্যাদির বটিকাকার খাদ্যবিশেষ	बड़ि, बाटा डाल इत्यादिर बटिकाकार खाद्यबिशेष	dried up tiny round cakes of ground pulse, potatoes etc.
बढ़ई	पुं.	लकड़ी के उपकरण बनाने वाला कारीगर।	ছুতার, সূত্রধর	छुतार, सूत्रधर	carpenter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेज़ी पर्याय
बढ़ती	स्त्री.	1. बढ़ने अथवा बढ़े हुए होने की अवस्था या भाव;	বাড়তি, বৃদ্ধি;	बाड़ति, वृद्धि;	advancement, progress, promotion, enhancement;
		2. धन-धान्य, परिवार आदि की वृद्धि।	সমৃদ্ধি	समृद्धि	increase in riches or family.
बढ़ना	अ. क्रि.	1. आकार, क्षेत्र, विस्तार, व्याप्ति, सीमा आदि में अधिकता या वृद्धि होना;	বাড়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া;	बाड़ा, वृद्धिप्राप्त हओया;	to increase, enlarge, be enhanced, be extended, be produced, be prolonged, to extend, lengthen;
		2. आगे की ओर चलना या अग्रसर होना।	অগ্রসর হওয়া	अग्रसर हओया	to advance, to make headway.
बढ़नी	स्त्री.	1. झाड़ू, कूची;	ঝাড়ু, ঝাঁটা;	झाड़ु, झांटा;	broom;
		2. गिनती, तौल, नाप, मान आदि में उचित या नियत से बढा हुआ अंश;	বাড়তি	बाड़ति;	excess;
		3. धन-धान्य, परिवार आदि की वृद्धि।	সমৃদ্ধি	समृद्धि	increase in riches or family.
बढ़वाना	स. क्रि.	किसी को कुछ बढ़ाने में प्रवृत्त करना।	বাড়ানো	बाड़ानो	to cause to increase, advance or exceed.
बढ़ाना	स. क्रि.	1. किसी को बढ़ने में प्रवृत्त करना;	আগাইয়া দেওয়া, অগ্রগতি করানো;	आगाइया देओया, अग्रगति करानो;	to promote, advance;
		2. परिमाण, मात्रा, संख्या आदि में अधिकता या वृद्धि करना;	বাড়তি করা;	बाड़ति करा;	to increase, enhance;
		3. किसी प्रकार की व्याप्ति में विस्तार करना।	বিস্তার সাধন করা	विस्तार साधन करा	to enlarge, extend, stretch.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बढ़ा-बढ़ी	स्त्री.	1. आचरण, व्यवहार आदि में आवश्यकता या औचित्य से अधिक आगे बढ़ने की क्रिया या भाव;	বাড়াবাড়ি;	बाड़ाबाड़ि;	exaggeration, excess;
		2. प्रतिद्वंद्विता।	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	प्रतिद्वन्द्विता	competition.
बढ़ाव	पु.	1. बढ़ने या बढ़े हुए होने की अवस्था;	বাড়, বৃদ্ধি;	बाड़, वृद्धि;	increase, augmentation, advancement;
		2. फैलाव या विस्तार।	বিস্তার	बिस्तार	extension, enlargement.
बढ़ावा	पु.	आगे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए किसी को दिया जानेवाला प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करने के लिए कही जानेवाली बात।	কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাউকে উৎসাহ দান	कोनो गुरुत्वपूर्न काजे काउके उत्साह दान	inducement, incitement, encouragement, incentive, stimulus.
बढ़िया	वि.	जो गुण, रचना, रूप-रंग, सामग्री आदि की दृष्टि से उच्च कोटि का हो।	উত্তর, ভাল	उत्तर, भाल	superior, excellent, of good quality.
बढ़ोतरी	स्त्री.	उत्तरोत्तर होनेवाली वृद्धि, उन्नति या तरक्की।	বাড়বাড়ন্ত	बाड़बाड़न्त	increase, increment, advancement, promotion.
बतंगड़	पु.	किसी बात का व्यर्थ ही विस्तार कर देना।	অতিরঞ্জন	अतिरञ्जन	exaggeration.
बतख (बत्तख)	स्त्री.	हंस की जाति की पानी की एक चिड़िया।	পাঁতিহাঁস	पांतिहास	duck.
बतलाना	स. क्रि.	समझाना, कहना।	বাতলানো, বুঝানো	बातलानो, बुझानो	to explain, tell etc.
बताना	स. क्रि.	1. कोई बात कहकर किसी को कोई जानकारी या परिचय कराना;	বুঝাইয়া দেওয়া, বলা;	बुझाइया देओया, बला;	to cause to comprehend or understand;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी प्रकार का निर्देश या संकेत करना।	সূচিত করা, নির্দেশ দেওয়া	सूचित करा, निर्देश देओया	point out, direct, indicate.
बताशा (बतासा)	पु.	एक प्रकार की मिठाई जो फूल की तरह फूली और बहुत हल्की होती है।	বাতাসা	बातासा	sweetmeat or sugarcake (of a spongy texture and hollow within).
बतिया	स्त्री.	सब्जी के काम आनेवाला कोई छोटा कच्चा ताजा हरा फल।	তরকারি হিসাবে খাওয়া হয় এইরূপ কাচা টাটকা ফল	तरकारि हिसाबे खाओया हय एइरूप काचा टाटका फल	green or unripe fruit used as vegetable.
बतियाना	अ. क्रि.	बातचीत करना।	কথাবার্তা বলা	कथाबार्ता बला	to talk, speak, converse, discourse.
बतौर	अव्य.	1. तरीके पर या रीति से; 2. के सदृश।	যথারীতি; মতো, সমান	जथारीति; मतो समान	by way (of): after the manner (of), like.
बत्ती	स्त्री.	1. प्रकाश के निमित्त जलाया जानेवाला सूत, रुई, कपड़े आदि का बटा हुआ लम्बोतरा लच्छा;	বাতি পলিতা;	बाति, पलिता;	wick, cand'e, lamp, etc;
		2. प्रकाश।	আলো	आलो	light.
बत्तीस	वि.	गिनती या संख्या में जो तीस से दो अधिक हो।	বত্রিশ	बत्रिश	thirty-two.
बत्तीसा	पु.	पुष्टि के लिए बत्तीस मसालों के योग से बना एक प्रकार का लड्डू।	বত্রিশ উপাদান দিয়া তৈরি পুষ্টিকর লাড্ডু	बत्रिश उपादान दिया तैरी पुष्टिकर लाड्डु	a tonic composed of thirty-two ingredients.
बत्तीसी	स्त्री.	1. एक ही प्रकार की 32 चीजों का समूह; 2. मनुष्य के 32 दांतों का समूह।	একই প্রকার বত্রিশ দ্রব্যের সমষ্টি; মানুষের বত্রিশ দাঁতের পাটি	एकइ प्रकार बत्रिश द्रब्येर समष्टि; मानुषेर बत्रिश दाँतेर पाटि	an aggregate of thirty-two things; a set of teeth (thirty-two in number).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बथुआ	पु.	एक प्रकार का साग।	বাথুয়া (শাক)	बाथुया (शाक)	a kind of herb which is used as vegetable.
बद-इंतजामी	स्त्री.	कुप्रबन्ध या अव्यवस्था।	অব্যবস্থা	अव्यबस्था	bad management, misgovernment, mal-administration.
बदकारी	स्त्री.	कुकर्म, व्यभिचार।	কুকর্ম, ব্যভিচার	कुकर्म, ब्यभिचार	wickedness, misdeed, profligacy, licentiousness.
बदकिस्मत	वि.	जिसका भाग्य खराब हो।	দুর্ভাগা, অভাগা	दुर्भागा, अभागा	unfortunate.
बदकिस्मती	स्त्री.	भाग्य के खराब होने की अवस्था या भाव।	দুর্ভাগ্য	दुर्भाग्य	misfortune, bad luck.
बदचलन	वि.	जिसका आचरण खराब हो।	যাহার চালচলন খারাপ	जाहार चालचलन खाराप	ill-conducted.
बदचलनी	स्त्री.	बुरा आचरण।	খারাপ চালচলন, মন্দ আচরণ	खाराप, चालचलन, मन्द आचरन	misconduct, bad conduct.
बदजबान	वि.	अश्लील भाषा बोलनेवाला।	যে মুখখিস্তি করে, অশ্লীলভাষী	जे मुखखिस्ति करे, अश्लीलभाषी	indecent in speech, foul mouthed, abusive.
बदजात	वि.	खराब आचरण का व्यक्ति।	বদজাত, বজ্জাত, দুর্বৃত্ত, নীচ	बदजात, बज्जात, दुर्बृत्त, नीच	of bad disposition, vicious.
बदतमीज	वि.	जो सभ्य तौर-तरीकों से अपरिचित हो।	বেতমিজ, বেতমীজ, শিষ্টাচারহীন	बेतमिज, बेतमीज, शिष्टाचारहीन	ill-mannered.
बदतमीजी	स्त्री.	असभ्यता।	অসভ্যতা	असभ्यता	lack of manners.
बदतर	वि.	अधिक बुरा।	বেতর, মন্দ	बेतर, मन्द	worse.
बददिमाग	वि.	जो किसी प्रकार संतुष्ट न हो, अहंकारी।	বদমেজাজী	बदमेजाजी	who cannot be pleased in any way, haughty.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बद-दिमागी	स्त्री.	असंतोष, अहंकार।	বদমেজাজ	बदमेजाज	discontent, haughtiness.
बद-दुआ	स्त्री.	ऐसी अहित कामना जो शब्दों के द्वारा प्रकट की जाए, शाप।	শাপ	शाप	curse.
बदन	पु.	शरीर।	শরীর	शरीर	body.
बद-नसीब	वि.	जिसका भाग्य अच्छा न हो।	পোড়াকপাল	पोड़ाकपाल	unfortunate.
बदना	स. क्रि.	1. वर्णन करना या कहना; 2. मान लेना; 3. शर्त लगाना।	বর্ণনা করা বা বলা; মানিয়া লওয়া; বাজি ধরা	बर्नना करा बा बला; मानिया लओया; बाजि धरा	to describe or speak; to agree; to bet.
बदनाम	वि.	जिसकी निंदा हो रही हो।	বদনামী	बदनामी	of bad repute, defamed.
बदनामी	स्त्री.	लोकनिंदा या अपकीर्ति।	বদনাম, দুর্নাম, অপযশ	बदनाम, दुर्नाम, अपजश	disrepute, infamy, defame.
बद-नीयत	वि.	जिसका इरादा या उद्देश्य अच्छा न हो।	যাহার মতলব ভাল নয়, বদমতলবী	जाहार मतलब भाल नय, बदमतलबी	ill-disposed, of bad intention.
बदनीयती	स्त्री.	बेईमानी या दगा।	বদমতলব	बदमतलब	bad intention.
बद-परहेज	वि.	खाने-पीने आदि में सावधानी न बरतनेवाला।	খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে যাহার সংযম নাই	खाओयादाओया इत्यादि ब्यापारे जाहार संजम नाइ	lacking control in diet, not controlling the inclinations in diet and passions, intemperate.
बदपरहेजी	स्त्री.	खाने-पीने आदि में असावधानी।	খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অসংযম	खाओयादाओया इत्यादि ब्यापारे असंजम	lack of control in diet, intemperance, excess.
बदबू	स्त्री.	अच्छी सुगन्ध न आना।	বদবু, দুর্গন্ধ	बदबु, दुर्गन्ध	bad or offensive smell, stink.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बदबूदार	वि.	बुरी गन्ध से भरा हुआ।	দুর্গন্ধপূর্ণ	दुर्गन्धपूर्न	giving bad or offensive smell, stinking.
बदमाश	वि.	बुरे आचरण का व्यक्ति, दुष्ट।	বদমায়েশ, বদমাইস, দুষ্ট, দুর্বৃত্ত	बदमायेश, बदमाइस, दुष्ट, दुर्बृत्त	of a bad profession or way of life, immoral, rascal.
बदमाशी	स्त्री.	बुरा आचरण, दुष्टता।	বদমায়েশি, বদমাইসি, দুষ্টতা	बदमायेशि, बदमाइसि, दुष्टता	bad way of living, loose conduct, villainy, rascality.
बदमिजाज	वि.	जिसका मिजाज अच्छा न हो, तीखे स्वभाव का।	বদমেজাজী, কোপন, রাগী	बदमेजाजी, कोपन, रागी	ill-tempered.
बदमिजाजी	स्त्री.	मिजाज खराब या तीखा होने की अवस्था या भाव।	বদমেজাজ	बदमेजाज	ill-temper.
बदरंग	वि.	जिसका स्वाभाविक रंग खराब हो गया हो।	বদরংগ, বিবর্ণ ম্লান	बदरङ्, बिबर्न, म्लान	discoloured, faded.
बदलना	अ. क्रि.	1. किसी चीज या बात का अपना पुराना रूप छोड़कर नया रूप धारण करना;	বদলাইয়া যাওয়া, পরিবর্তিত হওয়া;	बदलाइया जाओया, परिबर्तित हओया;	to be changed or altered;
		2. किसी चीज, बात या व्यक्ति का स्थान किसी दूसरी चीज, बात या व्यक्ति को प्राप्त होना;	একের পরিবর্তে অন্যের সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়া, বিনিময় হওয়া;	एकेर परिबर्ते अन्येर सेइ स्थान प्राप्त हओया, बिनिमय हओया;	to be substituted, transferred, transformed or transplanted;
		3. आकार-प्रकार, गुण-धर्म, रूप-रंग आदि के विचार से और हो जाना अथवा पहले से बदल जाना।	রূপান্তর গ্রহণ রূপান্তরিত হওয়া, বদলাইয়া যাওয়া, পাল্টাইয়া যাওয়া	रूपान्तर ग्रहन रूपान्तरित हओया, बदलाइया जाओया, पाल्टाइया जाओया	to assume another form.
बदलवाना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से बदला लेना;	বদলানো, বদলান;	बदलानो, बदलान;	to cause to be exchanged;
		2. बदलने का काम दूसरे से करवाना।	বদল, করানো	बदल, करानो	to have or get changed or altered.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बदला	पु.	1. बदलने की क्रिया या भाव या व्यापार;	বদল;	बदल;	change, substitute;
		2. प्रतिकार या पलटा।	বদলা, প্রতিশোধ	बदला, प्रतिशोध	revenge.
बदलाई	स्त्री.	1. बदलने की क्रिया या भाव;	বদলানো, বদলান;	बदलानो, बदलान;	barter, exchange;
		2. बदले में ली या दी जानेवाली चीज़।	বিনিময়দ্রব্য	बिनिमयद्रव्य	something given in exchange.
बदलाना	स. क्रि.	बदलवाना।	বদলানো, বদলান	बदलानो, बदलान	to cause to change.
बदली	स्त्री.	1. बदले हुए होने की अवस्था या भाव;	বদল, পরিবর্তন;	बदल, परिबर्तन;	change, exchange;
		2. किसी सेवा के कर्मचारी को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर भेजा जाना;	এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে স্থানান্তরিত হওয়া বা করা; মেঘাচ্ছন্নতা;	एक कर्मस्थल हइते अन्य कर्मस्थले स्थानान्तरित हओया बा करा; मेघाच्छन्नता;	transfer;
		3. आकाश में बादलों के छाए हुए होने की अवस्था या भाव;	মেঘাচ্ছন্নতা;	मेघाच्छन्नता;	cloudiness;
		4. बादल का टुकड़ा।	মেঘ	मेघ	cloud.
बदशक्ल	वि.	कुरूप या बेडौल।	বেখাপ্পা, বেঢপ, কুৎসিত	बेखाप्पा, बेढप, कुत्सित	ill-looking, ill-shaped, ill-formed.
बदसूरत	वि.	भद्दी सूरतवाला	কুৎসিত, কুরূপ	कुत्सित, कुरूप	ugly.
बदसूरती	स्त्री.	बदसूरत होने की अवस्था या भाव।	কুরূপতা, কুশ্রীতা	कुरूपता, कुश्रीता	ugliness.
बदहजमी	स्त्री.	खाई हुई चीज हजम न होने की अवस्था।	বদহজম	बदहजम	indigestion.
बदहवास	वि.	बौखलाया हुआ या उद्विग्न।	হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়	हतभम्ब, किंकर्त्तब्यबिमूढ़	stupefied, bewildered.
बदहवासी	स्त्री.	उद्विग्न होने की अवस्था या भाव।	কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা	किंकर्त्तब्यबिमूढ़ता	stupefaction, bewilderment

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बदी	स्त्री.	1. चांद्र मास का कृष्णपक्ष;	বদি, কৃষ্ণপক্ষ;	बदि, कृष्णपक्ष;	dark phase of lunar month;
		2. बद अर्थात् बुरे होने की अवस्था या भाव।	মন্দত্ব	मन्दत्व	badness, evil.
बदौलत		अव्य. कारण या वजह से।	কারণে, জন্য	कारने जन्य	by means (of), through, owing (to).
बद्ध	वि.	1. जो बंधा हुआ हो या बांधा गया हो;	বদ্ধ, বাঁধা, আবদ্ধ;	बद्ध, बांधा, आबद्ध;	bound, tied;
		2. जो किसी प्रकार के घेरे में हो;	রুদ্ধ;	रुद्ध;	enclosed;
		3. जिस पर कोई प्रतिबन्ध या रुकावट लगी हो।	বদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত	बद्ध, नियन्त्रित	restrained, checked, withheld.
बधाई	स्त्री.	1. मंगल अवसर का गाना-बजाना;	শুভানুষ্ঠানে গানবাজনা;	शुभानुष्ठाने गानबाजना;	song of congratulation sung on auspicious occasion;
		2. मुबारकबाद।	অভিনন্দন	अभिनन्दन	congratulations.
बधावा	पु.	दे० 'बधाई'।	দ্র: 'বধাই'	द्र: 'बधाई'	same as 'बधाई'.
बधिक	पु.	1. बध करनेवाला; 2. शिकारी।	বধনকারী, ঘাতক; শিকারী	बधनकारी, घातक; शिकारी	killer; hunter.
बधिया	वि., पु.	नपुंसक किया हुआ चौपाया।	নপুংসক-করা চতুষ্পদ জন্তু	नपुंसक-करा चतुष्पद जन्तु	a castrated animal.
बधिर	वि.	बहरा।	বধির, কালা	बधिर, काला	deaf.
बधू	स्त्री.	1. नवविवाहिता स्त्री;	বধূ, নবপরিণীতা স্ত্রী, কনে;	बधू, नबपरिनीता स्त्री, कने;	newly-married woman, bride, young wife;
		2. पुत्र की पत्नी।	বধূ, পুত্রের পত্নী	बधू पुत्रेर पत्नी	daughter-in-law, son's wife.
बन	पु.	जंगल।	বন, জংগল, অরণ্য	बन, जङ्गल, अरन्य	forest, jungle.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बनना	अ. क्रि.	1. अनेक प्रकार के उपकरणों, तत्वों आदि के योग से कोई नई चीज तैयार होना;	তৈয়ার হওয়া;	तैयार हओया;	to be composed of various elements or parts;
		2. किसी पदार्थ का ऐसे रूप में आना जिसमें वह व्यवहार में आ सके;	ব্যবহার- উপযোগী হওয়া;	व्यबहार- उपजोगी हओया;	to be made ready for use, to be prepared;
		3. किसी प्रकार के रूप-परिवर्तन के द्वारा एक चीज से दूसरी नई चीज तैयार होना।	এক জিনিষের অন্য জিনিষে রূপান্তরিত হওয়া	एक जिनिषेर अन्य जिनिषे रूपान्तरित हओया	to be produced, fabricated, created.
बनबिलाव	पु.	बिल्ली की तरह का मटमैले रंग का एक जंगली हिंसक जंतु।	বনবিড়াল	बनबिड़ाल	a kind of wild cat, folis caracal.
बनमानुस (बनमानुष)	पु.	बन्दरों से कुछ उन्नत और मनुष्य से मिलते-जुलते जंगली जंतुओं का वर्ग जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि जंतु हैं।	নরাকার অরণ্যচরণ বানরবিশেষ	नराकार अरन्यचरन बानरबिशेष	wild man of the woods, the Lemur tardigradus.
बनवाना	स. क्रि.	1. बनाने का काम दूसरे से कराना;	অন্যকে দিয়া বানান;	अन्यके दिया बानान;	to cause to be made, to have or get (a thing) made;
		2. किसी को कुछ बनाने में प्रवृत्त करना।	বানানর কাজে লাগানো	बानानर काजे लागानो	to cause some-one to make (anything)
बनाना	स. क्रि.	किसी वस्तु को तैयार या प्रस्तुत करना।	বানান, বানানো	बानान, बानानो	to make, form, create, prepare, finish, shape, etc.
बनाम	अव्य.	1. किसी के नाम पर,	বনাম, অন্য নামে;	बनाम, अन्य नामे;	in the name (of), to the address (of);
		2. किसी के विरुद्ध।	বনাম, বিরুদ্ধে	बनाम, बिरुद्धे	versus.
बनाव	पु.	1. बनने या बनाए जाने की क्रिया या भाव;	তৈয়ারি, গঠন;	तैयारि, गठन;	preparation, formation;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बनावट या रचना;	রচনা;	रचना;	make or composition;
		3. शृंगार या सजावट।	শৃংগার সাজসজ্জা	शृङ्गार साजसज्जा	decoration or make-up.
बनावट	स्त्री.	1. रचने या रचे जाने की शैली या रूप-विधान;	গঠন, কাঠামো গড়ন;	गठन, काठामो गड़न;	structure, construction;
		2. किसी चीज को विशिष्ट और सुन्दर रूप में लाने की क्रिया या भाव;	কোনো সুন্দর জিনিষ তৈরি করা;	कोनो सुन्दर जिनिष तैरि करा;	formation, workmanship;
		3. केवल दूसरों को दिखाने के लिए बनाया गया, दिखावटी आचरण।	উপর চাল, আড়ম্বর	उपर चाल, आड़म्बर	artifice, show, display
बनावटी	वि.	1. जिसमें केवल बनावट हो, तथ्य या वास्तविकता कुछ भी न हो;	লোকদেখানো, অবাস্তব;	लोकदेखानो, अबास्तब;	fictitious, unreal;
		2. वास्तविक के अनुकरण पर बनाया हुआ।	কৃত্রিম, নকল	कृत्रिम, नकल	artificial, counterfeit.
बनाव-शृंगार	पु.	किसी चीज की, विशेषतः शरीर की वह सजावट जो प्रायः दूसरों को आकृष्ट करने या प्रभाव डालने के लिए की जाती है।	সাজসজ্জা	साजसज्जा	make-up, decoration.
बनिया	पु.	1. व्यापार करनेवाला व्यक्ति या वैश्य;	বাণিয়া, বানিয়া, বেণে, বেনে;	बानिया, बानिया, बेने, बेने;	merchant, trader, shopkeeper;
		2. व्यापारिक मनोवृत्ति वाला, फलतः स्वार्थी व्यक्ति।	ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন স্বার্থপর ব্যক্তি	ब्यबसायीर मनोवृत्तिसम्पन्न स्वार्थपर ब्यक्ति	(met.) petty-minded man, niggard.
बनियाइन	स्त्री.	1. बनिया की स्त्री;	বাণিয়াণী, বেণেনী;	बानियानी, बेनेनी;	wife of a bania (trader);
		2. कमीज, कुरते आदि के नीचे पहनने का वस्त्र।	বেনিয়ান, গেঞ্জি	बेनियान, गेन्जि	vest worn under shirt, etc.
बनिस्बत	अव्य.	किसी की तुलना या मुकाबले में।	তুলনায়	तुलनाय	in comparison (with).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बनैला	वि.	जंगली या वन्य।	বন্য, বুনো	वन्य, बुनो	pertaining to the forest, sylvan, wild, savage.
बन्ना (स्त्री. बन्नी)	पु.	1. दूलहा (दुलहिन);	বর;	बर;	bride-groom (f. bride);
		2. विवाह के समय वरपक्ष की ओर से गाया जाने-वाला एक तरह का लोकगीत।	বিবাহের সময় বরপক্ষের দ্বারা গীত লোকগীত-বিশেষ	बिबाहेर समय बरपक्षेर द्वारा गीत लोकगीत-बिशेष	folk song sung on the occasion of marriage by the bride-groom side.
बपतिस्मा	पु.	नव-जात शिशु अथवा धर्मावलम्बी को मसीही धर्म में दीक्षित करते समय होनेवाला एक संस्कार।	খ্রিষ্টীয় ধর্মানুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চন	ख्रिष्टीय धर्मानुजायी कोनो व्यक्तिके पवित्र बारि द्वारा अभिसिञ्चन	the Christian rite of baptism.
बपौती	स्त्री.	1. पिता की संपत्ति जो पुत्र को उत्तराधिकार में मिलती है;	পৈতৃক সম্পত্তি, বাপের সম্পত্তি;	पैत्रिक सम्पत्ति, बापेर सम्पत्ति;	property inherited from father;
		2. वह अधिकार जो किसी को अपने पिता तथा पितृ-पक्ष की संपत्ति पर होता है।	উত্তরাধিকার	उत्तराधिकार	powers etc. inherited from father, patrimonial, hereditary, ancestral.
बफारा	पु.	औषधि से युक्त किए गए जल को उबालने पर उसमें से निकलनेवाली भाप जिससे सेंक किया जाता है।	ঔষধমিশানো গরমজলের তাপ	औषधमिशानो गरमजलेर ताप	medicated vapour.
बबूल	पु.	एक प्रसिद्ध कटीला पेड़ जिसकी लकड़ी बैलगाड़ी के पहिए, हल आदि बनाने के काम आती है।	বাবলা	बावला	the gum-acacea tree, Mimosa arabica (the wood of which is used in making cartwheels, agricultural implements).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बम	पु.	वह विस्फोटक रासायनिक गोला जिसके फूटने से घोर शब्द तथा व्यापक बरबादी और जीव-संहार होता है।	বোমা	बोमा	bomb.
बमबारी	स्त्री.	बमों की वर्षा करना।	বোমাবর্ষণ	बोमाबर्षन	bombardment.
बममार (बमबार)	वि.	बम बरसानेवाला।	বোমারু	बोमारु	bomber.
बमवर्षक	वि.	दे 'बममार'।	দ্র: 'বমমার'	द्र: 'बममार'	same as 'बममार',
बमवर्षा	स्त्री.	अधिक तादाद में बम गिराना।	বোমাবর্ষণ	बोमाबर्षन	bombardment.
बया	पु.	पीले तथा चमकीले माथेवाली प्रसिद्ध चिड़िया।	বাবুই	बाबुइ	weaver-bird, peoceus, baya.
बयान	पु.	1. वर्णन; 2. न्यायालय में अभियुक्त द्वारा दिया जानेवाला अपना वक्तव्य।	বয়ান, বর্ণনা; আদালতের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবৃতি	बयान, बर्नना; आदालतेर सामने अभिजुक्त ब्यक्तिर बिबृति	description; declaration, exposition.
बयाना	पु.	सौदा पक्का करने के लिए पेशगी दी जानेवाली राशि।	বায়না	बायना	earnest-money.
बयार	स्त्री.	हवा या पवन।	বাতাস	बातास	wind, air.
बयालीस	वि.	जो गिनती में चालीस से दो अधिक हो।	বেয়াল্লিশ	बेयाल्लिश	fortytwo.
बयासी	वि.	जो गिनती में अस्सी से दो अधिक हो।	বিরাশী	बिराशी	eightytwo.
बरकत	स्त्री.	1. वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति सहज हो जाए; 2. वृद्धि, आधिक्य।	বাড়তি, ভাগ্যের জোরে কোনো কিছুর অভাব না থাকা; বাড়তি, আধিক্য	बाड़ति, भाग्येर जोरे कोनो किछुर अभाब ना थाका; बाड़ति, आधिक्य	inherent prosperity; increase, abundance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बरखास्त (बर्खास्त)	वि.	जिसे किसी नौकरी या पद से हटा दिया गया हो।	বরখাস্ত, কর্মচ্যুত	बरखास्त, कर्मच्युत	dismissed.
बरखास्तगी (बर्खास्तगी)	स्त्री.	बरखास्त करने या होने की अवस्था, क्रिया या भाव।	কর্মচ্যুতি	कर्मच्युति	dismissal.
बरगद	पु.	बड़ का पेड़।	বটগাছ	बटगाछ	the banyan or Indian fig-tree.
बरछा (बर्छा)	पु.	भाला नामक अस्त्र।	বর্শা	वर्शा	spear, lance.
बरछी (बर्छी)	स्त्री.	छोटा बरछा।	ছোট বর্শা	छोट बर्शा	small spear.
बरतन (बर्तन)	पु.	मिट्टी, धातु आदि का बना हुआ कोई ऐसा आधान जो मुख्यत: खाने-पीने की चीजें रखने के काम आता हो।	বর্তন, বাসন	बर्तन, बासन	vessel, domestic utensil, dish, plate, basin etc.
बरतना (बर्तना)	अ. क्रि.	1. आपसदारी का व्यवहार करना;	ব্যবহার করা;	ब्यबहार करा;	to have personal relations or dealings;
		2. कोई चीज अपने उपयोग, काम या व्यवहार में लाना।	কোনো জিনিস নিজের কাজে লাগান	कोनो जिनिस निजेर काजे लागान	to use, employ, apply, make use of.
बरताव (बर्ताव)	पु.	व्यवहार।	ব্যবহার	ब्यबहार	behaviour.
बरदाश्त (बर्दाश्त)	स्त्री.	सहन-शक्ति।	বরদাস্ত, সহ্য, সহিষ্ণুতা	बरदास्त, सह्य, सहिष्नुता	endurance, patience, forbearance.
बरफ (बर्फ)	पु., स्त्री.	1. हवा में मिली हुई भाप के अत्यन्त सूक्ष्म अणुओं की तह जो वातावरण की ठंडक के कारण बनती है;	বরফ, তুষার;	बरफ, तुषार;	snow;
		2. बहुत अधिक ठंडक के कारण जमा हुआ पानी।	জমাটবাঁধা জল	जमाटबांधा जल	ice.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बरफानी (बर्फानी)	वि.	बर्फ से ढका हुआ या युक्त।	বরফে ঢাকা, তুষারাচ্ছন্ন	बरफे ढाका, तुषाराच्छन्न	icy, snowy.
बरफी (बर्फी)	स्त्री.	खोए आदि की बनी एक प्रकार की मिठाई।	বরফি, খোয়া চিনি ইত্যাদির জমাট করা চৌকা মিঠাই	बरफि, खोया चिनि इत्यादिर जमाट करा चौका मिठाइ	a kind of sweetmeat made of sugar and milk.
बरबस	क्रि. वि.	बलपूर्वक।	বলপূর্বক	बलपूर्बक	forcibly.
बरबाद	वि.	जो पूर्णतया ध्वस्त हो, नष्ट हो।	বরবাদ, সম্পূর্ণ নষ্ট, উৎসন্ন	बरबाद, सम्पूर्न नष्ट, उत्सन्न	destroyed, ruined.
बरबादी	स्त्री.	बरबाद होने की अवस्था या भाव।	ধ্বংস, বিনাশ	ध्बंस, बिनाश	destruction, ruin.
बरमा	पु.	लकड़ी आदि में छेद करने का लोहे का एक प्रसिद्ध औजार।	ভোমর, তুরপুন	भोमर, तुरपुन	a kind of gimlet or borer worked with string.
बरसना	अ.क्रि.	1. किसी चीज का गिरना, वर्षा होना;	বর্ষন, বর্ষানো, ঝরা;	बर्षन, बर्षानो, झरा;	to fall, to rain;
		2. किसी पर क्रोध प्रकट करना।	কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা	काहारओ प्रति क्रोध प्रकाश करा	to show anger.
बरसात	स्त्री.	बारिश, वर्षा-ऋतु।	বর্ষাকাল	बर्षाकाल	rainy season.
बरसाती	वि. स्त्री.	1. बरसात में होनेवाला;	বর্ষাতী, বর্ষাকালে উৎপন্ন;	बर्षाती, बर्षाकाले उत्पन्न;	belonging to the rainy season;
		2. बारिश से बचने के लिए पहना जानेवाला कोट के आकार का पहरावा;	বর্ষাতি;	बर्षाति;	rain coat;
		3. छत पर बना हुआ कमरा।	ছাদের উপরে তৈরী কামরা	छादेर उपरे तैरी कामरा	a room on the roof of a house to sleep during the rains.
बरसाना	स. क्रि.	बरसने में प्रवृत्त करना।	বর্ষানো	बर्षानो	to cause to rain.
बरसी	स्त्री.	मरने के साल भर बाद पड़नेवाली तिथि।	মৃত্যুবার্ষিকী তিথি	मृत्युबार्षिकी तिथि	death-anniversary.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बरात	स्त्री.	वर के साथ कन्यापक्ष वालों के यहां जानेवाले लोगों का दल या समूह।	বরযাত্রীর দল	बरजात्रीर दल	marriage procession.
बराती	पु.	किसी बरात में सम्मिलित होनेवाला या होनेवाले व्यक्ति।	বরিয়াত্রি, বরযাত্রী	बरियात्रि, बरजात्री	one who joins a marriage procession.
बराबर	वि.	जो तुलना के विचार से न किसी से घटकर और न किसी से बढ़कर ही हो, समान, एकसा, आदि।	বরাবর, তুল্য, সমান, সমতল	बराबर, तुल्य, समान समतल	even, on a level, equal, parallel, etc.
बराबरी	स्त्री.	बराबर होने की अवस्था या भाव।	তুল্যতা	तुल्यता	level, equality.
बरामद	पु.	सामान आदि बाहर भेजना।	রপ্তানি	रप्तानि	export.
बरामदगी	स्त्री.	किसी के यहां से अवैध सामान प्राप्त होना या चोरी का माल मिलना।	চোরাই মাল ইত্যাদি উদ্ধার	चोराइ माल इत्यादि उद्धार	recovery.
बरामदा	पु.	दालान।	বারান্দা	बारान्दा	verandah.
बरी	वि. स्त्री.	1. अभियोग या दोष से छूटा हुआ;	খালাস, নির্দোষ;	खालास, निर्दोष;	acquitted, absolved, discharged;
		2. दुल्हे के घर से दुलहिन के लिए भेजे जानेवाले गहने, कपड़े आदि।	বরের বাড়ী থেকে কন্যার জন্য গহনা কাপড় ইত্যাদি যে-তত্ত্ব পাঠান হয়	बरेर बाड़ी थेके कन्यार जन्य गहना कापड़ इत्यादि जे-तत्त्व पाठान हय	clothes, ornaments etc. brought by the groomside to the brideside on the occasion of marriage.
बरी (बड़ी)	स्त्री.	उड़द, मूंग और मसाले आदि की पीठी की बनी और सुखाई गई टिकिया।	বড়ি, মশলাযুক্ত বড়ি	बड़ि, मशलाजुक्त बड़ि	a dried saltish preparation of various pulses and condiments, etc.
बरौंछी	स्त्री.	वह कूंची जिसमें सूअर के बाल लगाए गए हों।	শূয়রের লোমের বুরুষ	शुयरेर लोमेर बुरुष	a brush made of pig-hair.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यन्तरण	अंग्रेजी पर्याय
बरौनी	स्त्री.	पलकों के आगे के बालों की पंक्ति।	লক্ষ্ম, অক্ষিলোম	लक्ष्म, अक्षिलोम	eye-lashes.
बर्बर	वि.	जंगली, असभ्य।	অসভ্য	असभ्य	barbarian, savage, uncultured.
बल	पु.	वह शारीरिक तत्व जिसके सहारे हम चलते-फिरते और सब काम करते हैं, जोर, शक्ति।	বল, দেহজসামর্থ্য, শক্তি	बल, देहजसामर्थ्य, शक्ति	strength, might, power.
बलगम	पु.	नाक, मुंह आदि में से निकलनेवाला एक तरह का लसीला गाढ़ा पदार्थ।	শ্লেষ্মা, কফ, গয়ার, গয়ের	श्लेष्मा, कफ, गयार, गयेर	phlegm (of the humours of the body), running of the nose from cold.
बलबूता	पु.	सामर्थ्य, शारीरिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता का समाहार।	সামর্থ্য, শক্তিসামর্থ্য	सामर्थ्य, शक्तिसामर्थ्य	capacity, strength, physical power and prosperity.
बलवा	पु.	1. दो दलों या संप्रदायों में होनेवाला संघर्ष; 2. बगावत।	দাংগা, দাংগাহাংগামা; বিদ্রোহ	दाङ्गा, दाङ्गाहाङ्गामा; बिद्रोह	riot, disturbance; rebellion.
बलवान	वि.	बलवाला, सशक्त।	বলবান, শক্তিশালী	बलबान, शक्तिशाली	strong, powerful.
बलशाली	वि.	दे० 'बलवान'।	দ্র 'বলবান'	द्रः 'बलवान'	same as 'बलवान'.
बला (बलाय)	स्त्री.	1. मुसीबत; 2. कोई ऐसा काम जो अप्रिय और घृणित हो; 3. तुच्छ, हेय।	বিপদ, আপদ; হীন বা ঘৃণ্য অপ্রিয় কর্ম; তুচ্ছ, হেয়	बिपद, आपद; हीन बा घृन्य अप्रिय कर्म; तुच्छ, हेय	calamity; vile or hateful thing; insignificant.
बलात्	क्रि. वि.	बलपूर्वक या जबरदस्ती से	বলপূর্বক, জবরদস্তি	बलपूर्बक, जबरदस्ति	forcibly.
बलात्कार	पु.	बलपूर्वक, धमका कर या छलपूर्वक किया जानेवाला कार्य।	ধমক দিয়া অথবা ছলে বলে হাসিল-করা কাজ	धमक दिया अथबा छले बले हासिल-करा काज	forcible or oppressive act, outrage.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बलि	स्त्री.	1. देवता या ईश्वर को प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने के लिए किसी जानवर का उसके सामने वध करना;	বলি, দেবোদ্দেশে উপকল্পিত ছাগাদি পশু;	बलि, देबोद्देशे उपकल्पित छागादि पशु;	sacrificial beast (in a ritual);
		2. वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्राण या शरीर तक किसी काम, बात, व्यक्ति या देश के लिए पूर्ण रूप से अर्पित कर देता है।	কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে দেশ বা ব্যক্তির জন্য প্রাণপর্যন্ত উৎসর্গ, প্রাণবলি	कोनो बिशेष परिस्थितिते देश बा ब्यक्तिर जन्य प्रानपर्जन्त उत्सर्ग प्रानबलि	sacrifice for or devotion to a cause.
बलिदान	पु.	1. देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी पशु का वध करना;	বলিদান, দেবতার উদ্দেশ্য ছাগাদি পশুবধ;	बलिदान, देबतार उद्देश्ये छागादि पशुबध;	sacrifice of a beast to please a deity by killing it before the altar;
		2. किसी उद्देश्य या बात की सिद्धि के लिए अपने प्राण तक दे देना।	বলিদান, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে আপন প্রাণোৎসর্গ	बलिदान, कोनो महत् उद्देश्ये आपन प्रानोत्सर्ग	sacrifice of one's life for a cause.
बलिष्ठ	वि.	जो सबसे अधिक बलवान हो।	বলিষ্ঠ, অত্যন্ত বলবান্	बलिष्ठ, अत्यन्त बलबान्	strongest, most powerful, very strong.
बलिहारी	स्त्री.	निछावर करने की क्रिया या भाव, कुर्बान जाना।	বলিহারি, বাহবা, সাবাস প্রেমাদিহেতু আত্মোৎসর্গ, মরি মরি	बलिहारि, बाहबा, साबास प्रेमादिहेतु आत्मोत्सर्ग, मरि मरि	exclamation in affectionate praise and wonder, feeling of offering or submitting oneself.
बली	वि.	पराक्रमी, शक्तिशाली।	বলী, বলবান্, শক্তিশালী	बली, बलबान् शक्तिशाली	strong, powerful, mighty.
बल्कि	अव्य.	ऐसा नहीं, इसके स्थान पर, प्रत्युत, वरन्।	এমন নয়, বরং, কিন্তু	एमन, नय, बरं किन्तु	on the contrary, rather, but, etc.
बल्लम	पु.	भाला।	বল্লম, ভল্ল, বর্শাবিশেষ	बल्लम, भल्ल, बर्शाबिशेष	spear.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बल्ला	पु.	गेंद के खेल में छोटे डंडे के आकार का काठ का वह चपटा टुकड़ा जिससे गेंद पर आघात करते हैं।	ব্যাট	व्याट	bat (in cricket).
बल्ली	स्त्री.	1. लकड़ी का लम्बा छोटा टुकड़ा;	কাঠের লম্বা সরু টুকরা;	काठेर लम्बा सरु टुकरा;	pole, beam;
		2. नाव खेने का बांस।	লগি	लगि	pole or bamboo with which a boat is propelled or steered.
बवंडर	पु.	हवा का तेज झोंका।	ঘূর্ণিবায়ু	घुर्निबायु	whirlwind.
बवाल (बबाल)	पु.	झंझट।	ঝঞ্ঝাট	झंझाट	anything painful or distressing, mess.
बवासीर	स्त्री.	एक प्रकार का रोग।	অর্শরোগ	अर्शरोग	hemorrhoids, piles.
बसंत	पु.	बसंत ऋतु, बहार का मौसम।	ফাল্গুন ও চৈত্র-মাসব্যাপী ঋতু	फाल्गन ओ चैत्र-मासव्यापी ऋतु	spring season.
बसंती (वसंती)	वि.	1. वसन्त ऋतु संबंधी;	বাসন্ত, বাসন্তিক;	बासन्त, बासन्तिक;	of or belonging to spring season;
		2. सरसों के फूल की तरह चमकदार पीले रंग का।	পীত বর্ণের হলদে রঙের	पीत बर्नेर हलदे रङ्रे	of yellow or mustard colour.
बस	अव्य., वि., पु.	1. यथेष्ट पर्याप्त;	ব্যস্, পর্যাপ্ত, প্রচুর;	ब्यस, पर्याप्त, प्रचुर;	enough, sufficient, plenty;
		2. अधिकार, शक्ति, प्रभाव;	বশ, অধিকার প্রভাব;	बश, अधिकार प्रभाव;	will, authority, power, influence;
		3. सीमा के अन्दर किसी निश्चित पथ पर चलनेवाली बड़ी मोटर गाड़ी।	বাস	बास	a sort of transport.
बसना	अ. क्रि.	1. स्थायी रूप से स्थित होना या निवास करना;	বসা, স্থায়ীভাবে বাস করা;	बसा, स्थायीभावे बास करा;	to dwell, live;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आबाद होना।	জনসঙ্কুল হওয়া	जनसङ्कुल हओया	to be peopled, be populated.
बसाना	स. क्रि.	1. बसने के लिए जगह देना;	বসানো;	बसानो;	to cause to dwell;
		2. जनपूर्ण करना।	জনপূর্ণ করা	जनपूर्न करा	to people, to colonize.
बसूला	पु.	एक औजार जिससे बढ़ई लकड़ी छीलते और गढ़ते हैं।	ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ, বাইস	छुतारेर जन्त्र-बिशेष, बाइस	a kind of axe used by carpenters, an adze.
बसूली	स्त्री.	छोटा बसूला।	ছোট বাইস	छोट बाइस	a mason's or builder's hatchet, an instrument for cutting bricks or stone.
बसेरा	पु.	1. वह स्थान जहां रह कर यात्री रात बिताते हैं;	পথিকের রাত্রের বাসস্থান;	पथिकेर रात्रेर बासस्थान;	night's lodging;
		2. चिड़ियों के रात बिताने का स्थान।	পাখীর বাসা, নীড়	पाखीर बासा, नीड़	nest, bird's resting place during night.
बस्ता	पु.	कपड़े का वह चौकोर टुकड़ा जिसमें कागज के मुट्ठे, बही-खाते और पुस्तकें आदि बाँध कर रखे जाते हैं।	চতুষ্কোণ বস্ত্রখন্ড যাহা দ্বারা মুড়িয়া বাঁধা হয়	चतुष्कोन बस्त्रखन्ड जाहा द्वारा मुड़िया बाधा हय	cloth in which anything is folded up, satchel.
बस्ती	स्त्री.	आबादी	বস্তি, বসতি	बस्ति, बसति	inhabited place, settlement.
बहंगी	स्त्री.	तराजू की तरह का एक प्रसिद्ध ढांचा जिसके दोनों पलड़ों में बोझ रख कर ढोया जाता है।	বাঁক	बांक	a stick or pole with slings at both ends for carrying boxes or baskets etc. on the shoulder.
बहकना	अ. क्रि.	1. पथभ्रष्ट होना;	পথভ্রষ্ট হওয়া,	पथभ्रष्ट हओया;	to be misled, to stray;
		2. आवेश या मद में चूर होना।	আবেশবিহ্বল হওয়া	आबेशविह्वल हओया	to be excited or intoxicated.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बहकाना	स. क्रि.	1. किसी को बहकने में प्रवृत्त करना; 2. चकमा या भुलावा देना।	পথভ্রষ্ট করা; ধোকা দেওয়া	पथभ्रष्ट करा; धोका देओया	to mislead, to instigate, to deceive, delude.
बहकावा	पु.	1. बहकने की क्रिया या भाव; 2. ऐसी बात जो किसी को बहकाने के उद्देश्य से कही जाए।	বিভ্রান্তকরণ, ভুলানো; ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে-কথা বলা হয়	विभ्रान्तकरन, भुलानो; धोका देओयार उद्देश्ये जे-कथा बला हय	misleading, delusion; trick, ruse.
बहत्तर	वि.	जो क्रम या गिनती में सत्तर से दो अधिक हो।	বাহাত্তর	बाहात्तर	seventy-two.
बहन (बहिन)	स्त्री.	वह स्त्री जो व्यक्ति के अपने माता-पिता की सन्तान हो।	বহিন, বোন, ভগ্নী	बहिन, बोन, भग्नी	sister.
बहना	अ.क्रि	1. द्रव पदार्थ का धारा के रूप में किसी नीचे तल की ओर प्रवाहित होना; 2. भावावेश के कारण द्रवित होना।	বহা; ভাবে বিগলিত হওয়া	बहा; भावे बिगलित हओया	to flow; to melt out of sentiment or emotion.
बहनोई	पु.	बहन का पति।	বোনাই, ভগিনীপতি	बोनाइ, भगिनीपति	sister's husband, brother-in-law.
बहरा	वि.पु.	जिसे सुनाई न पड़ता हो।	কালা, বধির	काला, बधिर	deaf.
बहलना	अ.क्रि	किसी प्रकार के मनोरंजन द्वारा कुछ समय के लिए प्रसन्न और शांत होना।	কোনো রকমের বিনোদনের দ্বারা আনন্দিত হওয়া	कोनो रकमेर बिनोदनेर द्वारा आनन्दित हओया	to be amused, entertained.
बहलाना	स.क्रि	किसी को प्रसन्न करना या शांत करना।	প্রসন্ন করা, শান্ত করা	प्रसन्न करा, शान्त करा	to cause to be pleased, to amuse, entertain.
बहस	स्त्री.	तर्क, युक्ति आदि के द्वारा होनेवाला खंडन-मंडन।	বহস্, তর্কবিতর্ক, পক্ষ-খন্ডনস্থাপন	बहस्, तर्कबितर्क, पक्ष-खन्डनस्थापन	discussion, argument, debate, contention.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बहादुर	वि.	शूर-वीर।	বাহাদুর	बाहादुर	brave, valiant.
बहादुरी	स्त्री.	बहादुर होने की अवस्था या भाव, वीरता।	বাহাদুরী	बाहादुरी	bravery, valour.
बहाना	पु.	तथ्य को छिपाने के लिए चालाकी की बात।	বাহানা, বায়না	बाहाना, बायना	excuse, pretext.
	स.क्रि	1. द्रव पदार्थ को धारा के रूप में किसी ओर चलाना या प्रवृत्त करना;	বহানো, প্রবাহিত করা;	बहानो, प्रबाहित करा;	to make or cause to flow;
		2. व्यर्थ के कामों में या बिना सोचे समझे बहुत अधिक धन-व्यय करना;	ব্যর্থ কর্মে বা জলের মত অর্থ ব্যয় করা;	ब्यर्थ कर्मे बा जलेर मतो अर्थ ब्यय करा;	to squander;
		3. बहुत ही सस्ते दामों बेचना।	জলের দরে বেচা	जलेर दरे बेचा	to sell cheap.
बहानेबाजी	स्त्री.	चालाकी या धूर्तता की बात बनाने की क्रिया।	টালবাহানা করা	टालबाहाना करा	act of making excuses or pretending.
बहार	स्त्री.	1. फूलों के खिलने का मौसम;	বসন্তকাল;	बसन्तकाल;	spring or blooming season;
		2. मन का आनन्द और प्रफुल्लता;	আনন্দ এবং প্রফুল্লতা;	आनन्द एबं प्रफुल्लता;	delight;
		3. सौंदर्य आदि के फलस्वरूप होनेवाली रमणीयता या शोभा।	শোভা, মনোহারিত্ব	शोभा, मनोहारित्ब	elegance, beauty, glory, etc.
बहाल	वि.	1. जो फिर उसी हाल में आया हो जिसमें वह पहले था, पुन: नौकरी पर लगा हुआ;	বহাল, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, পুনর্নিযুক্ত;	बहाल, पुन:प्रतिष्ठित, पुनर्निजुक्त;	in the usual state, in the former state, reinstated;
		2. स्वस्थ;	বহাল, সুস্থ;	बहाल, सुस्थ;	in good health;
		3. प्रफुल्लित और प्रसन्न।	প্রসন্ন	प्रसन्न	in good spirits, happy.
बहाली	स्त्री.	1. बहाल करने या होने की अवस्था, क्रिया या भाव, किसी को फिर से	পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃপ্রবর্তন, পুনর্নিযুক্তি	पन:प्रतिष्ठा, पुन:प्रवर्तन, पुनर्निजुक्ति;	reinstatement, being in former state;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		उसी हाल में लाना जिसमें वह पहले रहा हो;			
		2. आरोग्य या तंदुरुस्ती;	আরোগ্য, স্বাস্থ্য;	आरोग्य, स्वास्थ्य;	health;
		3. प्रसन्नता।	প্রসন্নতা	प्रसन्नता	delight, happiness.
बहाव	पु.	1. बहने की क्रिया या भाव;	প্রবাহ;	प्रवाह;	flow;
		2. नदियों आदि के जल की वह गति जो उसके निम्न तल की ओर जाने या बहने से होती है।	নদীপ্রবাহ	नदीप्रवाह	course of a river.
बहिरंग	वि.	1. बाहर का;	বহিরংগ, বাহ্য;	बहिरङ्ग, बाह्य;	outer, external;
		2. जो किसी क्षेत्र, दल, वर्ग आदि से अलग, बाहर या भिन्न हो, अजनबी;	ভিন্নক্ষেত্র বা বর্গের দলছাড়া পর;	भिन्नक्षेत्र बा बर्गेर दलछाड़ा पर;	stranger;
		3. अनावश्यक।	অনাবশ্যক	अनावश्यक	unessential.
बहिर्गमन	पु.	बाहर जाना।	বহির্গমন, নির্গমন, নিষ্ক্রমণ	बहिर्गमन, निर्गमन, निष्क्रमन	the act of going out, exit.
बहिर्जगत	पु.	बाह्य अर्थात् दृश्य जगत।	বহির্জগৎ, বহিঃস্থ দৃশ্যমান্ জগৎ	बहिर्जगत, बहिःस्थ दृश्यमान् जगत	outer or apparent world.
बहिष्कार	पुं.	1. बाहर करना;	বহিষ্কার, বহিষ্করণ;	बहिष्कार, बहिष्करन;	exclusion, expulsion;
		2. हटाना।	দূরীকরণ	दूरीकरन	removal.
बहिष्कृत	वि.	1. बाहर किया हुआ;	বহিষ্কৃত;	बहिष्कृत;	excluded or expelled;
		2. हटाया हुआ।	দূরীকৃত	दूरीकृत	removed.
बही	स्त्री.	हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक।	হিসাবের খাতা	हिसाबेर खाता	book of accounts, ledger.
बही-खाता	पु.	देखें 'बही'।	দ্রষ্টব্য 'বহী'	द्रष्टव्य 'बही'	same as 'बही'.
बहुज्ञ	वि.	बहुत-सी बातें जाननेवाला।	বহুজ্ঞ, যে অনেক বিষয় জানে	बहुज्ञ,जे अनेक विषय जाने	one who knows many a thing.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बहुत	वि., क्रि. वि.	परिमाण, मात्रा आदि में आवश्यक या उचित से अधिक।	বহুত, প্রচুর অতিশয়	बहुत, प्रचुर; अतिशय	much, many, plenty, etc.
बहुतायत	स्त्री.	अधिकता, ज्यादती।	বহুতা, বহুত্ব, আধিক্য প্রাচুর্য	बहुता, बहुत्व, आधिक्य, प्राचुर्ज	muchness, abundance, plentitude.
बहुतेरा	वि., क्रि. वि.	1. प्रचुर, यथेष्ट; 2. अनेक प्रकार से, बहुत करके।	বহুতর, প্রচুর, যথেষ্ট; অনেক প্রকারে, বহুরূপে	बहुतर, प्रचुर, जथेष्ट; अनेक प्रकारे, बहुरूपे	very much, enough; in many a way, mostly.
बहुधंधी	वि.	बहुत-से कामों में लगा हुआ।	যে অনেক কর্মে নিযুক্ত	जे अनेक कर्मे निजुक्त	engaged in many jobs.
बहुधा	क्रि. वि.	प्रायः, बहुत बार।	বহুধা, প্রায়:	बहुधा, प्रायः	often, frequently, usually.
बहुमत	पु.	1. बहुत-से लोगों का अलग-अलग मत; 2. किसी संस्था, दल आदि की ऐसी स्थिति जिसमें समर्थक या अनुयायी कुल सदस्यों में से आधे से अधिक हों।	অনেক লোকের পৃথক্ পৃথক্ মত; অধিসংখ্যক লোকের মত, সংখ্যাধিক্যের মত	अनेक लोकेर पृथक् पृथक् मत; अधिसंख्यक लोकेर मत, संख्याधिक्येर मत	having many different opinions; majority opinion.
बहुमूत्र	पु.	पेशाब अधिक आने का रोग।	মূত্ররোগবিশেষ	मुत्ररोगबिशेष	abnormal urination.
बहुमूलक	पु.	खस या उशीर की घास जो सुगन्धित होती है।	খসখস্, উশীর, বেনার মূল	खस खस उशीर, बेनार मूल	a fragrant grass, andropogon muricatum.
बहुमूल्य	वि.	जिसका मूल्य बहुत हो, जो गुण, महत्व आदि की दृष्टि से अति प्रशंसनीय या उपयोगी हो।	বহুমূল্য অত্যন্ত দামী, মহার্ঘ	बहुमूल्य, अत्यन्त दामी, महार्घ	high-priced, costly, precious.
बहुरंगी	वि.	जिसमें बहुत से रंग हों।	অনেক রংগা	अनेक रङ्गा	multi-coloured, many-hued.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बहुरूपिया	पु.	1. अनेक प्रकार के रूपोंवाला;	বহুরূপবিশিষ্ট;	बहुरूपबिशिष्ट;	of various shapes or forms;
		2. अनेक प्रकार के रूप धारण करनेवाला।	বহুরূপী	बहुरूपी	a person who assumes various characters and disguises, mimic.
बहुलता	स्त्री.	बहुल होने की अवस्था या भाव, अधिकता।	বহুলতা, বাহুল্য	बहुलता, बाहुल्य	muchness, multiplicity, abundance.
बहु-वचन	पु.	व्याकरण में संज्ञा आदि का वह रूप जिससे एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता है।	বহুবচন, ব্যাকরণে বিভক্তি বিশেষ	बहुबचन, ब्याकरने बिभक्ति बिशेष	(in Gram.) the plural number.
बहुविवाह	पु.	एक से अधिक विवाह करना।	বহুবিবাহ, একাধিক বিবাহ	बहुबिबाह, एकाधिक बिबाह	polygamy.
बहुसंख्यक	वि.	1. जिसकी संख्या बहुत अधिक हो;	বহুসংখ্যক, অনেক;	बहुसंख्यक, अनेक;	numerous;
		2. जिसकी संख्या दूसरों की तुलना में अधिक हो।	অন্যের তুলনায় সংখ্যায় অধিক এমন	अन्येर तुलनाय संख्याय अधिक एमन	in comparatively larger number, in majority.
बहू	स्त्री.	1. पुत्र की पत्नी;	বহূ, বহু, পুত্রবধূ;	बहू, बहु, पुत्रबधू;	son's wife, daughter-in-law;
		2. नवविवाहिता स्त्री;	বধূ;	बधू;	bride;
		3. जोरू या पत्नी।	পত্নী, ভার্যা	पत्नी, भार्जा	wife.
बहेड़ा	पु.	पर्वतों में होनेवाला एक ऊँचा वृक्ष जिसका फल वैद्यक के काम आता है।	বহেড়া, হরীতকী জাতীয় ফলবিশেষ	बहेड़ा, हरीतकी जातीय फलविशेष	belleric myrsobalan, terminaliabelerica.
बहेलिया	पु.	वह व्यक्ति जो पक्षियों को पकड़ता है और बेचकर अपनी जीविका का निर्वाह करता है।	পাখীধরা, ব্যাধ	पाखीधरा, ब्याध	fowler, one who deals in birds.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बांकपन	पु.	1. तिरछापन; 2. बनावट, रचना या रूप की अनोखी सुन्दरता।	বক্রতা; সাজগোজ, সাজসজ্জা তথা রূপের বাহার	बक्रता; साजगोज, साजसज्जा तथा रूपेर बाहार	curvedness; wantonness, coquettish disposition.
बांका	वि.	1. टेढ़ा या तिरछा; 2. जिसकी चाल-ढाल, वेश-भूषा, सजधज आदि में अनोखा सौन्दर्य हो।	বাঁকা, বক্র; যাহার সাজগোজ ইত্যাদিতে বিরল সৌন্দর্য লক্ষিত হয়	बांका, बक्र; जाहार साजगोज इत्यादिते बिरल सौन्दर्ज लक्षित हय	bent or curved; wanton, coquettish, dandy.
बांग	स्त्री.	1. ध्वनि या स्वर; 2. भोर के समय मुरगे के बोलने का स्वर; 3. मसजिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए बुलाने के निमित्त मुल्ला द्वारा की जानेवाली उच्च स्वर में पुकार।	ধ্বনি বা স্বর; বাঁক, ভোরবেলা মোরগের ডাক; আজান	ध्वनि बा स्वर; बांक, भोरबेला मोरगेर डाक; आजान	sound or voice; crowing of a cock at dawn; call for prayer by the muazzin from a mosque.
बांचना	स. क्रि.	पढ़कर सुनाना।	বাচন করা	बाचन करा	to read out.
बांझ	वि., स्त्री.	वह स्त्री जो सन्तान उत्पन्न न कर सके।	বাঁঝা, বাঁজা বন্ধ্যা	बांझा, बांजा, बन्ध्या	barren (woman).
बांट	स्त्री.	1. बांटने की क्रिया या भाव; 2. अलग-अलग मिलनेवाला हिस्सा या अंश।	বাঁটা, বন্টনকরণ, ভাগকরণ; ভাগ, অংশ.	बांटा, बन्टनकरन, भागकरन; भाग, अंश.	act of dividing or distributing; part, portion, share.
बांटना	स. क्रि.	किसी चीज को कई भागों में विभक्त करना।	বাঁটা, বন্টন করা, ভাগ করা	बांटा, बन्टन करा, भाग करा	to divide into parts or shares,to apportion.
बांड	पुं.	दो नदियों के संगम के बीच की भूमि जो वर्षा में नदियों के बढ़ने से डूब	দুই নদীর সংগমস্থলের মধ্যবর্তী ভূমি খন্ড	दुइ नदीर सङ्गमस्थलेर मध्यबर्ती भूमिखन्ड	a piece of land putting out in a confluence of

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		जाती है और पानी उतर जाने पर फिर निकल आती है।			rivers.
बांडा (स्त्री. बांडी)	वि.	जिसकी पूंछ न हो या कट गई हो।	লেজহীন বা লেজকাটা	लेजहीन बा लेजकाटा	tailless or whose tail has been chopped.
बांदी	स्त्री.	दासी, लौंडी।	বাঁদী, দাসী, বন্দী-পরিচারিকা	बांदी, दासी, बन्दी-परिचारिका	servant girl, bondmaid.
बांध	पु.	1. बांधने की क्रिया या भाव;	বাঁধ, বন্ধন, বাঁধা;	बांध, बन्धन, बांधा;	fastening, tying;
		2. वह वास्तु-रचना जो किसी नदी की धारा को रोकने अथवा किसी ओर प्रवृत्त करने के लिए बनाई गई हो।	জলস্রোত আটকাইবার জন্য মাটি ইত্যাদির আলি বা প্রাচীর	जलस्रोत आटकाइबार जन्य माटि इत्यादिर आलि बा प्राचीर	embankment, dam.
बांधना	स. क्रि.	1. डोरी, रस्सी आदि कसकर किसी चीज के चारों ओर लपेटना;	বাঁধা, বন্ধন করা, দড়ি দিয়া বাঁধা;	बांधा, बन्धन करा, दड़ि दिया बांधा;	to bind, tie, fasten, etc.;
		2. रस्सी आदि के दो छोरों को गांठ लगाकर आपस में जोड़ना;	দড়ি ইত্যাদির দুই প্রান্ত গিঁঠ দিয়া জোড়া দেওয়া;	दड़ि इत्यादिर दुइ प्रान्त गिंठ दिया जोड़ा देओया;	to join or fasten two ends of a string etc.;
		3. बंदी बनाना, गिरफ्तार करना।	বন্দী করা, গ্রেপ্তার করা	बन्दी करा, ग्रेप्तार करा	to imprison, to arrest.
बांधव	पु.	1. भाई-बन्धु;	বান্ধব, জ্ঞাতি, স্বজন, আত্মীয়;	बान्धब, ज्ञाति, स्वजन, आत्मीय;	kinsman, relative;
		2. घनिष्ठ मित्र या गहरा दोस्त।	মিত্র, সুহৃৎ, বন্ধু	मित्र, सुहृत, बन्धु	fast friend.
बांबी	स्त्री.	सांप का बिल।	সাপের গর্ত	सापेर गर्त	snake's hole.
बांस	पु.	गन्ने आदि की तरह की एक गांठदार वनस्पति, जो छप्पर आदि छाने और इमारत के दूसरे कामों में आती है।	বাঁশ	बांश	bamboo.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बांसुरी	स्त्री.	मुरली या वंशी।	বাঁশরী, বাঁশরি	बाशरि, बांशरी	pipe or flute.
बांह	स्त्री.	मनुष्य के शरीर में कंधे से लेकर कलाई के बीच का अवयव।	বাহু	बाहु	arm.
बाइसिकिल	स्त्री.	दो पहियों की प्रसिद्ध सवारी जो पैरों से चलाई जाती है।	বাইসাইকেল, বাইসিকেল, সাইকেল	बाइसाइकेल, बाइसिकेल, साइकेल	bi-cycle.
बाईस	वि.	जो संख्या या गिनती में बीस से दो अधिक हो।	বাইশ	बाइश	twenty-two.
बाएं (बायें)	क्रि. वि.	जिधर बायां हाथ हो उस दिशा में।	বাঁয়ে, বাঁ দিকে	बांये, बां दिके	left.
बाकायदा	क्रि. वि., वि.	कायदे से।	কায়দা অনুসারে, কায়দামাফিক	कायदा अनुसारे, कायदामाफिक	proper, in a proper way.
बाकी	वि., पु.	जो व्यय या क्षय होने के बाद बच रहा हो।	বাকী, বাকি, অবশিষ্ট	बाकी, बाकि, अबशिष्ट	remaining, remainder, balance.
बाग	पु.	फूलों, घास आदि से घिरा हुआ भूमिखंड।	বাগ, উদ্যান, বাগান	बाग, उद्यान, बागान	garden.
बागबान (बागवान)	पु.	वह व्यक्ति जो बाग में पेड़-पौधे उगाने और उनकी देखभाल करने का काम करता हो।	বাগানি, উদ্যানপাল, বাগানরক্ষক, মালী	बागानि, उद्यानपाल, बागानरक्षक, माली	gardener.
बागबानी (बागवानी)	स्त्री.	पेड़-पौधे उगाने और उनकी देखभाल करने का काम।	বাগান করা, উদ্যান রচনা	बागान करा, उद्यान रचना	gardening.
बागडोर	स्त्री.	1. लगाम; 2. नियंत्रण, रोक।	বাগডোর, লাগাম; নিয়ন্ত্রন, আটক	बागडोर, लागाम; नियन्त्रन, आटक	reins; control, check.
बागी	वि.	बगावत करनेवाला या विद्रोही।	বিদ্রোহী	बिद्रोही	rebel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बाघंबर	पुं.	बाघ की खाल जो ओढ़ने बिछौने के काम आती है।	বাঘাম্বর, ব্যাঘ্রচর্মবসন	बाघाम्बर, ब्याघ्रचर्मबसन	lion's skin used for making bed or putting on.
बाघ	पुं.	शेर की जाति का एक हिंसक पशु।	বাঘ, বাগ, ব্যাঘ্র	बाघ, बाग, ब्याघ्र	lion.
बाछ	स्त्री.	होठों का कोना या सिरा।	ঠোঁটের কোন	ठोंटेर कोन	slit or corner of the mouth.
बाज	पुं.	एक प्रकार का शिकारी और हिंसक पक्षी।	বাজ, শ্যেন	बाज, श्येन	hawk.
बाजरा	पुं.	एक प्रसिद्ध पौधा जिसके दानों की गिनती मोटे अन्न में होती है।	বাজরা, বজড়া, খাদ্যশস্যবিশেষ	बाजरा, बजड़ा, खाद्यशस्यविशेष	species of millet.
बाजा	पुं.	(संगीत) वह उपकरण जो फूंक अथवा आघात से बजता है।	বাজা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ	बाजा, बाद्यजन्त्रबिशेष	kind of musical instrument.
बाजागाजा	पुं.	तरह-तरह के बाजे और उनके साथ होने वाली धूम-धाम।	নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র এবং তাদের সমারোহ, বাদ্যভান্ডের সহিত ধূমধাম	नाना प्रकारेर बाद्यजन्त्र एबं तादेर समारोह, बाद्यभान्डेर सहित धूमधाम	various musical instruments, sound of many and various musical instruments.
बाजार	पुं.	वह स्थान जहां अनेक चीजों की बिक्री के लिए पास-पास अनेक दुकानें हों।	বাজার, যেখানে প্রত্যহ অনেক জিনিস বেচাকেনা হয়	बाजार, जेखाने प्रत्यह अनेक जिनिस बेचाकेना हय	market, market-place. bazar.
बाजारू	वि.	1. बाजार का; 2. जिसका प्रयोग बाजार के साधारण लोगों में ही हो, शिक्षित या शिष्ट समाज में न होता हो।	বাজারে, বাজারি; বাজারে প্রচলিত বাজারে অশিষ্ট ও অশ্লীল	बाजारे, बाजारि; बाजारे प्रचलित बाजारे अशिष्ट ओ अश्लील	pertaining to market; low, vulgar.
बाजी	स्त्री.	शर्त।	পণ	पन	stake, bet.
बाजीगर	पुं.	जादू के खेल दिखानेवाला।	বাজীকর	बाजीकर	one who exhibits feats of legerde main, juggler.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बाजीगरी	स्त्री.	जादू के खेल दिखाने का व्यवसाय।	বাজীকরের ব্যবসায়	बाजीकरेर ब्यबसाय	legerdemain, juggling, conjuring.
बाजू	पु., स्त्री.	1. भुजा, बाहु;	বাহু;	बाहु;	arm;
		2. ओर, तरफ।	পার্শ্ব	पार्श्व	side, wing.
बाजूबंद	पु.	बांह पर पहनने का एक प्रकार का गहना।	বাজুবন্দ, উপর-হাতের গহনাবিশেষ	बाजुबन्द, उपर-हातेर गहनाबिशेष	ornament worn on the arm, armlet.
बाट	स्त्री.	1. रास्ता;	পথ, রাস্তা;	पथ, रास्ता;	way, path;
	पु.	2. पत्थर या लोहे आदि का वह टुकड़ा जो चीजें तौलने के काम आता है।	বাটখারা	बाटखारा	measure of weight.
बाटी	स्त्री.	उपलों या अंगारों पर सेंका हुआ आटे का गोलाकार लौंदा।	অংগারের উপর ফেলিয়া ফেলিয়া সেকা রুটি	अङ्गारेर उपर फेलिया फेलिया सेंका रुटि	cake of bread baked upon cinders
बाड़	स्त्री.	खेत आदि की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर लगाया जानेवाला कांटेदार झाड़ियों या कंटीले तारों का घेरा।	বেড়া	बेड़ा	fence, hedge.
बाड़ा	पुं.	चारों ओर से घिरा हुआ कुछ विस्तृत खाली स्थान।	চারিদিক্ ঘেরা খালি জায়গা	चारिदिक् घेरा खालि जायगा	enclosed space, enclosure.
बाड़ी	स्त्री.	वाटिका	উদ্যান, বাগিচা	उद्यान, बागिचा	small garden.
बाढ़	स्त्री.	नदी-नाले की वह स्थिति जब उसका पानी किनारों के बाहर बहने लगता है।	বন্যা, বাণ, বান	बन्या, बान, बान	swelling or rise (of a river); inundation, flood.
बाण (बान)	पु.	एक प्रकार का नुकीला अस्त्र जो कमान या धनुष पर चढ़ाकर चलाया जाता है।	শর	शर	arrow.
बात	स्त्री.	किसी से अथवा किसी विषय में कहा जानेवाला कोई सार्थक वाक्य।	বাক্য, কথা	बाक्य, कथा	speech, conversation, talk.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बातचीत	स्त्री.	वार्तालाप	বাৎচিত, কথোপকথন	बात्चित, कथोपकथन	talk, conversation, discourse.
बातूनी	वि.	जो बहुत बातें करता हो।	বাচাল, প্রগল্ভ	बाचाल, प्रगल्भ	talkative, loquacious, garrulous.
बाद	अव्य.	पश्चात्।	বাদে, অনন্তর, বাদে, পরে	बादे, अनन्तर, बादे, परे	after, subsequent (to), afterwards, subsequently.
बादल	पु.	मेघ।	মেঘবৃষ্টি	मेघबृष्टि	cloud.
बादशाह	पु.	बड़े साम्राज्य का शासक।	মুসলমান সম্রাট	मुसलमान सम्राट	king, monarch, sovereign.
बादशाही	वि., स्त्री.	1. बादशाह से संबंध रखनेवाला, बादशाह की तरह; 2. साम्राज्य, शासन।	বাদশাহ সম্বন্ধীয়, বাদশার উপযুক্ত; বাদশাহের রাজ্য	बादशाह सम्बन्धीय, बादशार उपजुक्त; बादशाहेर राज्य	kingly, royal, regal, sovereign, imperial; royalty, sovereignty, sway, rule.
बादाम	पु.	मझोले आकार का एक प्रकार का वृक्ष जिसका फल मेवों में गिना जाता है।	বৃক্ষবিশেষ– ইহার ফল খাওয়া হয়	बृक्षबिशेष– इहार फल खाओया हय	almond.
बादामी	वि.	1. बादाम के रंग का; 2. बादाम के आकार-प्रकार का।	পীতাভলাল; বাদামের আকৃতির	पीताभलाल; बादामेर आकृतिर	almondcoloured; almond shaped, made of or containing almonds.
बादी	वि.	1. शरीर-वायु संबंधी; 2. वायु का रोग उत्पन्न करनेवाला।	দেহজ, বায়ুসম্বন্ধী; বায়ুরোগ উৎপন্নকারী	देहज, बायुसम्बन्धी; बायुरोग उत्पन्नकारी	flatulent; causing flatulence.
बाधक	वि.	1. बाधा के रूप में होनेवाला; 2. विघ्न उत्पन्न करनेवाला;	প্রতিবন্ধক, বাধাজনক; বিঘ্নকর;	प्रतिबन्धक, बाधाजनक; बिघ्नकर;	obstructive, hindering; causing obstruction or hindrance;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. अड़चन डालनेवाला।	বাধাদানকারী	बाधादानकारी	obstructor.
बाधा	स्त्री.	वह स्थिति जो किसी को आगे बढ़ने अथवा कोई कार्य संपादित करने से रोकती हो।	ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন	व्याघात, प्रतिबन्ध, विघ्न	obstruction, hindrance, impediment.
बाध्य	वि.	जो आज्ञा, नियम, परिस्थिति आदि से कुछ करने में विवश हो।	অনুগত, বশীভূত, আয়ত্ত্বাধীন	अनुगत, बशीभूत, आयत्त्वाधीन	restricted, checked, obliged.
बानगी	स्त्री.	नमूना।	নমুনা	नमुना	specimen, sample.
बानवे	वि.	नब्बे से दो अधिक।	বিরানব্বই	बिरानब्बइ	ninety-two.
बाना	पु.	पहनावा या पोशाक।	পোশাক	पोशाक	dress.
बाप	पु.	पिता या जनक।	পিতা	पिता	father.
बापदादा	पु.	पूर्वज।	পূর্বপুরুষগণ, পিতৃপিতামহ	पूर्बपुरुषगन, पितृपितामह	ancestors, forefathers.
बाबत (की, के)	अव्य.	सम्बंध में या विषय में।	বাবদ, বিষয়, দরুণ	बाबद, विषय, दरुन	about, concerning.
बाबा	पु.	1. पिता; 2. पितामह; 3. बूढ़ा व्यक्ति।	পিতা; পিতামহ; বৃদ্ধ ব্যক্তি	पिता; पितामह; बृद्ध ब्यक्ति	father; grand-father; old man.
बाबुल	पु.	पिता।	পিতা	पिता	father.
बायन (बैना)	पु.	1. वह मिठाई या पकवान आदि जो लोग उत्सव आदि के उपलक्ष में अपने इष्ट-मित्रों के यहां भेजते हैं ; 2. किसी बात के लिए दिया जानेवाला अग्रिम धन।	উৎসবাদি উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের যে মিঠাই পাঠান হয়; বায়না	उत्सबादि उपलक्षे आत्मीयस्बजन बन्धुबान्धबदेर जे मिठाइ पाठान हय; बायना	presents of sweetmeats; earnest money.
बायां	वि.	दायां का उल्टा।	বামভাগস্থ	बामभागस्थ	left.
बाएं	क्रि. वि.	जिस ओर बायां हाथ पड़ता हो।	বাঁয়ে	बांये	to the left.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बारंबार	क्रि. वि.	रह-रह कर।	বারম্বার, পুনঃ পুনঃ, বারবার	बारम्बार, पुनः पुनः, बारबार	again and again, repeatedly.
बार	स्त्री.	1. काल या समय; 2. देर या विलम्ब; 3. आवृत्ति।	কাল, সময়; বিলম্ব, দেরী; পালা	काल, समय; बिलम्ब, देरी; पाला	time; delay; turn.
बारदाना	पु.	जूट की बोरी जिसमें भारी सामान बांधा या रखा जाता है।	পাটের তৈরী বস্তা, বোরা	पाटेर तैरी बस्ता, बोरा	jute thread, jute bags, etc.
बारह	वि.	दस से दो अधिक।	বার	बार	twelve.
बारहखड़ी	स्त्री.	देवनागरी वर्णमाला के बारह स्वरों से संयुक्त व्यंजन।	(হিন্দী ব্যাকরণে) দেবনাগরী বর্ণমালার বার স্বরবর্ণের সংগে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ	(हिन्दी ब्याकरने) देबनागरी बर्नमालार बार सरबर्नेर सङ्गे जुक्त ब्यञ्जनबर्न	(in Grammar) the aggregate of the twelve short vowels of the Nagari alphabet in combination with consonants.
बारहदरी	स्त्री.	बड़ा कमरा या दालान, जिसमें चारों ओर तीन-तीन दरवाजे हों अर्थात् कुल बारह दरवाजे हों।	বারদোয়ারী, বারদরজাওয়ালা	बारदोयारी, बारदरजाओयाला	a big hall having twelve doors.
बारहमासा	पु.	वह पद्य या गीत जिसमें बारह महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया हो।	বার স্তবকের হিন্দী কবিতা যাহাতে বারমাসে অনুভূত বিরহ-বেদনা বর্ণিত হয়	बार स्तबकेर हिन्दी कबिता जाहाते बारमासे अनुभूत बिरह-बेदना बर्नित हय	Hindi verse of twelve stanzas, descriptive of the feeling of separation as also of the characteristic changes of the twelve months of the year.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बारहमासी	वि.	सब ऋतुओं में फलने-फूलने वाला।	বারমেসে	बारमेसे	evergreen (plant, flower etc.).
बारहसिंगा	पु.	एक प्रकार का बड़ा हिरन जिसके सींगो में कई शाखाएं निकलती हैं।	বারশিংগা	बारशिङ्गा	stag.
बारात	स्त्री.	वरपक्ष की ओर से वधू के घर जानेवाले मित्रों और संबंधियों का दल।	বরযাত্রীর দল	बरजात्रीर दल	marriage procession.
बाराती	पुं.	वरपक्ष की ओर से वधू के घर जानेवाले मित्र और संबंधी।	বরযাত্রী	बरजात्री	one who joins a marriage procession.
बारिश	स्त्री.	वर्षा।	বর্ষা	बर्षा	rain.
बारी	स्त्री.	क्रम।	পালা	पाला	turn.
बारीक	वि.	पतला, महीन या सूक्ष्म।	পাতলা, মিহি, সূক্ষ্ম	पातला, मिहि, सूक्ष्म	thin, fine or minute.
बारीकी	स्त्री.	बारीक होने की अवस्था या भाव, सूक्ष्मता।	সরুতা, সূক্ষ্মতা	सरुता, सूक्ष्मता	fineness, minuteness, subtlety.
बारूद	स्त्री.	गंधक, शोरे, कोयले आदि का वह मिश्रण जो विस्फोटक होता है और आतिशबाजी तथा तोपें, बन्दूकें आदि चलाने के काम आता है।	অগ্ন্যুৎপাদক বিদারক চূর্ণবিশেষ	अग्न्युत्पादक बिदारक चूर्नविशेष	gun powder.
बाल	पु.	1. वह जो अभी जवान न हुआ हो, बालक; 2. जीव-जंतुओं के शरीर में, त्वचा से ऊपर निकले हुए वे सूक्ष्म तंतु जो रोयों से मोटे होते हैं और बढ़ते रहते हैं।	শিশু; কেশ, কুন্তল	शिशु; केश, कुन्तल	child; hair.
बालक	पु.	1. बच्चा या लड़का; 2. अनजान या अबोध।	শিশু; অনভিজ্ঞ ব্যক্তি	शिशु; अनभिज्ञ व्यक्ति	child, boy; ignorant person.

हिंदी शब्द	व्या. को	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बालकमानी	स्त्री.	घड़ी आदि के अंदर बारीक मुड़ी तार या पत्ती का एक पुर्जा।	ঘড়ির যন্ত্রমধ্যস্থ অতিসূক্ষ্ম পাকান তারবিশেষ	घड़िर जन्त्रमध्यस्त अतिसूक्ष्म पाकान तारबिशेष	hair-spring.
बालचर	पु.	स्काउट।	স্কাউট	स्काउट	scout.
बालतोड़	पु.	एक तरह का फोड़ा जो शरीर पर किसी बाल के टूटने या तोड़ने से हो जाता है।	লোমফোড়, লোমফোড়া	लोमफोड़, लोमफोड़ा	pimple, boil or sore (caused by plucking out or breaking a hair of the body).
बाल-बच्चे	पु.	संतान, परिवार।	বালবাচ্চা, ছেলেপিলে	बालबाच्चा, छेलेपिले	children, family.
बालम	पु.	1. पति; 2. प्रेमी या प्रियतम।	পতি; প্রেমিক বা প্রিয়তম	पति; प्रेमिक बा प्रियतम	husband; beloved, sweetheart.
बाल-लीला	स्त्री.	बालकों की क्रीड़ाएं।	বাল্যক্রীড়া, বালক্রীড়া	बाल्यक्रीड़ा, बालक्रीड़ा	child's play, juvenile pastime.
बाल-विधवा	स्त्री.	जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई हो।	বাল্যে পতিহীনা	बाल्ये पतिहीना	child-widow.
बाल-विवाह	पु.	छोटी उम्र में विवाह हो जाना।	বাল্যবিবাহ	बाल्यबिबाह	child-marriage.
बाल-साहित्य	पु.	बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य।	শিশুসাহিত্য	शिशुसाहित्य	children's literature.
बालानशीन	वि.,पु.	1. मान्य या प्रतिष्ठित; 2. सबसे अच्छा।	মান্য, সম্মানিত; সব চেয়ে ভাল	मान्य, सम्मानित; सब चेये भाल	honourable or distinguished; the best.
बालापन	पु.	बाल्यावस्था, बचपन।	বাল্যাবস্থা	बाल्यावस्था	childhood.
बालिका	स्त्री.	छोटी लड़की।	অল্পবয়সের মেয়ে	अल्पबयसेर मेये	female child, young girl.
बालिग	वि.पु.	कानून की दृष्टि से जो युवावस्था को प्राप्त कर चुका हो और फलतः जिसे विधिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट कार्य करने का अधिकार मिल गया हो।	সাবালক	साबालक	adult.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बालिश्त	पु.	**अंगूठे की नोक से छोटी अंगुली की नोक तक की दूरी।**	বিঘত, বিঘৎ	बिघत, बिघत्	span measured by the extended thumb and little finger.
बाली	स्त्री.	**1. कानों में पहनने का एक वृत्ताकार आभूषण;**	কানের অলঙ্কার-বিশেষ কানবালা;	कानेर अलङ्कार-विशेष कानबाला;	kind of ear-ring;
		2. अनाज की हरी नन्ही बाल, सिट्टा।	শিষ, শস্যমঞ্জরী	शिष, शस्यसंजरी	ear or spike of corn.
बालू	पु. स्त्री.	पत्थरों का चूर्ण जो रेगिस्तानों में या नदियों के तटों पर अत्यधिक मात्रा में पड़ा रहता है, रेत।	বালি	बालि	sand.
बालूशाही	स्त्री.	मैदे और चीनी की बनी एक प्रसिद्ध मिठाई।	বালুশাহী	बालुशाही	kind of sweetmeat.
बाल्टी	स्त्री.	पानी भरने का बरतन।	বালতি	बालति	pail, bucket.
बाल्यावस्था	स्त्री.	बचपन।	ছেলেবেলা, শৈশব	छेलेबेला, शैशब	childhood.
बावजूद	अव्य.	इतना होने पर भी।	সত্ত্বেও	सत्त्वेओ	in spite of.
बावड़ी (बावली)	स्त्री.	एक प्रकार का चौड़े मुंह का कुआं या जलाशय जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हों।	চওড়ামুখ ইঁদারা–ইহাতে জলে নামিবার জন্য সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হয়	चओड़ामुख इंदारा–इहाते जले नामिबार जन्य सिंड़ि करिया देओया हय	wide pucca well with steps to descend.
बावन	वि.	पचास से दो ऊपर।	বাহান্ন	बाहान्न	fifty-two.
बावरची	पु.	रसोइया।	বাবুর্চী, বাবুর্চি	बाबुर्ची, बाबुर्चि	cook.
बावरचीखाना	पु.	वह स्थान जहां रसोइया खाना पकाता है।	বাবুর্চিখানা	बाबुर्चिखाना	cook-house, kitchen.
बावला (स्त्री.बावली)	वि., पुं.	विक्षिप्त या पागल।	বাউরা, বাউর, পাগল	बाउरा, बाउर, पागल	mad, insane, deranged.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बाशिंदा	पु.	निवासी या रहनेवाला, नागरिक।	বাসিন্দা	बासिन्दा	dweller, resident, inhabitant, denizen.
बाष्प (वाष्प)	पु.	भाप।	ভাপা	भापा	steam, vapour.
बास	स्त्री.	गन्ध या महक।	গন্ধ, সুগন্ধ	गन्ध, सुगन्ध	perfume, fragrance, stench, smell.
बासठ	वि.	साठ से दो अधिक।	বাষট্টি	बार्षाट्ट	sixty-two.
बासन	पु.	बरतन।	তৈজসপাত্র	तैजसपात्र	vessel, pot.
बासमती	पु.	एक प्रकार का बढ़िया और सुगंधित धान।	একপ্রকার সুগন্ধ সরু ধান	एकप्रकार सुगन्ध सरु धान	a fragrant kind of rice.
बासी	वि.	जो एक या अधिक दिन पहले बना या पका हो।	বাসি, পর্য্যুষিত	बासि, पर्य्युषित	stale.
बाहर	क्रि. वि.	किसी क्षेत्र, घेरे, विस्तार आदि की सीमा से परे।	বাহিরে	बाहिरे	outside, exterior, externally, outward.
बाहरी	वि.	1. बाहर की ओर का; 2. जो अपने देश, वर्ग या समाज का न हो।	বাহিরের দিকের বহির্দেশস্থ; বাহিরের বহিরাগত	बाहिरेर दिकेर बहिर्देशस्थ; बाहिरेर बहिरागत	outward, outer, exterior, external; strange, foreign.
बाहु	स्त्री.	भुजा, बांह।	ভুজ	भुज	arm.
बाहुपाश	पु.	आलिंगन।	বাহুবন্ধন	बाहुबन्धन	embrace.
बाहुबल	पु.	भुजा का बल, शारीरिक शक्ति।	বাহুবীর্য, গায়ের জোর	बाहुबीर्ज, गायेर जोर	strength of arm, muscular strength.
बाहुल्य	पु.	बहुतायत, अधिकता।	বহুলতা, আধিক্য	बहुलता, आधिक्य	abundance, plenty.
बाह्य	वि.	बाहर का, बाहरी।	বাহিরের	बाहिरेर	outer, external, outward, foreign, strange.
बिंदी	स्त्री.	1. शून्य का सूचक चिह्न;	বিন্দু;	बिन्दु;	dot or cypher;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. गोलाकार टीका जो माथे पर लगाया जाता है।	টিপ	टिप	small vermilion mark put on the forehead by a married woman.
बिंदु	पु.	1. बूंद; 2. किसी पदार्थ का बहुत छोटा कण; 3. (ज्यामिति) वह अंकन जिसके विभाग या लंबाई चौड़ाई आदि के मान न हों	ফোটা, ফোঁটা; কণা, কণিকা; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-হীন অবস্থান-নির্দেশক চিহ্ন	फोटा, फोंटा; कना, कनिका; दैर्घ्य-प्रस्थ-वेध-हीन अबस्थान-निर्देशक चिह्न	drop of water; detached particle; (geom.) a point having no parts or magnitude.
बिंधना	अ.क्रि	छेदा जाना।	বিদ্ধ হওয়া, ফুটা হওয়া, ছেঁদা হওয়া	बिद्ध हओया, फुटा हओया, छेंदा हओया	to be punctured, perforated, bored or pierced.
बिंब	पु.	1. किसी आकृति की वह झलक जो किसी पारदर्शक पदार्थ में दिखाई पड़ती है; 2. (साहित्य में) भावों, क्रियाओं आदि का मूर्त रूप।	প্রতিবিম্ব, ছায়া; (সাহিত্যে) ভাব ক্রিয়া ইত্যাদির মূর্তরূপ	प्रतिबिम्ब, छाया; (साहित्य) भाव क्रिया इत्यादिर मूर्तरूप	reflection, shadow; (in rhet.) image.
बिकना	अ.क्रि	1. मूल्य लेकर दिया जाना या बेचा जाना; 2. किसी का पूर्ण अनुगामी, अनुचर या दास होना।	বিকা, বিকান, বিকানো; কাহারো কাছে নিজেকে বিকানো বা বিলাইয়া দেওয়া	बिका, बिकान, बिकानो; काहारो काछे निजेके बिकानो बा बिलाइया देओया	to be sold, to sell; to be blind follower or to be enslaved.
बिकवाना	स.क्रि.	बेचने का काम दूसरे से कराना।	বেচানো, বিক্রয় করানো	बेचानो, बिक्रय करानो	to have or get sold
बिकाऊ	वि.	जो बिक्री के लिए रखी गई हो।	বিক্রেয়	बिक्रेय	for sale.
बिक्री	स्त्री.	1. बिकने का भाव; 2. बेचने की क्रिया या भाव।	বিক্রয়, বিক্রি; বিক্রয়করণ	बिक्रय, बिक्रि; बिक्रयकरन	sale; act of selling.
बिक्री-कर	पु.	वह राजकीय कर जो विक्रेता बेची जाने वाली वस्तु के	বিক্রয়কর	बिक्रयकर	sales-tax.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		दाम के अतिरिक्त क्रेता से वसूल करता है और तत्पश्चात् राज्य सरकार को देता है।			
बिखरना	अ.क्रि	1. किसी चीज के कणों, रेशों, इकाइयों आदि का अधिक क्षेत्र में फैल जाना;	বিকীর্ণ হওয়া;	बिकीर्न हओया;	to be strewn or dispersed in pieces;
		2. अलग-अलग या दूर-दूर होना।	বিক্ষিপ্ত হওয়া	विक्षिप्त हओया	to be scattered.
बिखराव	पु.	1. बिखरे हुए होने की अवस्था या भाव;	বিকিরণ ছড়ান;	बिकिरन छड़ान;	scattering;
		2. फूट।	বিরোধ	विरोध	disunity.
बिखेरना	स.क्रि	वस्तुओं को बिना किसी सिलसिले के फैलाकर रखना।	বিকীর্ণ করা, ছিটাইয়া রাখা	बिकीर्न करा, छिटाइया राखा	to scatter, to strew.
बिगड़ना	अ.क्रि	1. विकृत या खराब होना;	বিগড়ান, বিকৃত হওয়া;	बिगड़ान, बिकृत हओया;	to be disfigured or deformed;
		2. काम करते समय खराबी आना;	খারাপ হওয়া, অচল হওয়া;	खाराप हओया, अचल हओया;	to be disordered or damaged, to get out of order;
		3. आचरण, प्रवृत्ति, स्वभाव आदि में दोष या विकार आना;	বিগড়ান, অধঃপতিত হওয়া, চরিত্রভ্রষ্ট হওয়া;	बिगड़ान, अधःपतित हओया, चरित्रभ्रष्ट हओया;	to become vicious, wicked or unruly;
		4. क्रुद्ध होना।	ক্রুদ্ধ হওয়া	क्रुद्ध हओया	to become angry or enraged.
बिगड़ैल	वि.	जो बात-बात में और बहुत जल्दी बिगड़ने या नाराज होने लगता हो।	যে কথায় কথায় বিগড়ায়, রগচটা	जे कथाय कथाय बिगड़ाय रगचटा	short-tempered, one who loses temper easily.
बिगाड़	पु.	1. बिगड़ने की क्रिया या भाव;	বিগড়ান, বিগড়ানো,	बिगड़ान, बिगड़ानो;	disfigurement, defacement, disorder;
		2. दोष;	দোষ;	दोष;	defect, damage;
		3. नुकसान।	লোকসান, ক্ষতি	लोकसान, क्षति	harm, injury.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिगाड़ना	स.क्रि	ऐसी क्रिया करना जिससे काम, चीज या बात में किसी तरह की खराबी आ जाए।	বিগড়ান, খারাপ করা, নষ্ট করা	बिगड़ान, खाराप करा, नष्ट करा	to ruin, spoil, mar, vitiate, etc.
बिगुल	पु.	पाश्चात्य ढंग की एक प्रकार की तुरही जिसका प्रयोग सेना में होता है।	শিঙা, বিউগল্	शिङा, बिउगल्	bugle.
बिचकना	अ.क्रि	मुंह का इस प्रकार टेढ़ा होना जिससे अप्रसन्नता या अरुचि के भाव प्रकट हों।	মুখ বাঁকান, মুখ খিঁচান	मुख बांकान मुख खिंचान	to show displeasure by making faces.
बिचकाना	स.क्रि	कोई चीज देख कर उसके प्रति अपनी अप्रसन्नता या अरुचि आदि प्रकट करते हुए मुंह टेढ़ा करना या किसी को चिढ़ाने के लिए मुंह बनाना।	মুখ বাঁকান	मुख बांकान	to make faces to show displeasure or to irritate someone.
बिचला	वि.	1. बीच में पड़नेवाला;	মধ্যেকার, মধ্যবর্তী;	मध्येकार, मध्यबर्ती;	intervening, intermediate;
		2. मध्यम श्रेणी का 3. मंझला।	মধ্যম শ্রেণীর; মেজ, মধ্যম	मध्यम श्रेनीर; मेज, मध्यम	of middle class; between the two.
बिचवई	पु., स्त्री.	बीच-बचाव करनेवाला; बीच-बचाव।	যে মধ্যস্থতা করে	जे मध्यस्थता करे	one who interposes, intermeddler, middleman.
बिचौलिया	पु.	बीच का आदमी।	মধ্যস্থ	मध्यस्थ	middleman, intermeddler.
बिचौली	पु.	वह व्यक्ति जो उत्पादक से माल खरीदकर और कुछ नफा कमाकर दुकानदारों आदि के हाथ बेचता हो।	দালাল	दालाल	middleman, commission agent.
बिच्छू	पु.	एक प्रसिद्ध छोटा जहरीला कीड़ा।	কাঁকড়া বিছা	कांकड़ा बिछा	scorpio.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिछना	अ.क्रि	बिछाया या फैलाया जाना।	বিছানো হওয়া, পাতা হওয়া	बिछानो हओया, पाता हओया	to be spread, to be laid out, to be floored.
बिछवाना	स. क्रि.	बिछाने का काम करवाना।	অন্যকে দিয়া বিছান	अन्यके दिया बिछान	to cause to be spread, to have (a carpet etc.) spread.
बिछाना	स. क्रि.	दूर तक फैलाना या बिखेरना।	বিছানো, বিছান, ছড়াইয়া দেওয়া	बिछानो, बिछान, छड़ाइया देओया	to spread, to spread out, to extend.
बिछुआ (बिछुवा)	पु.	पैर की उंगली या अंगूठे में पहनने का एक गहना।	পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ	पायेर अलङ्कार-बिशेष	ring worn on the (little or great) toe.
बिछुड़ना (बिछुरना)	अ. क्रि.	अलग होना।	পৃথক হওয়া	पृथक हओया	to separate, to part.
बिछोह	पु.	वियोग।	বিয়োগ	बियोग	separation, parting.
बिछौना	पु.	बिस्तर।	বিছানা	बिछाना	bed, bedding.
बिजली	स्त्री.	1. आकाश में सहसा उत्पन्न होनेवाला वह प्रकाश जो बादलों की रगड़.के कारण उत्पन्न होता है;	তড়িৎ, বিদ্যুৎ;	तड़ित्, बिद्युत;	lightning, thunderbolt;
		2. घर्षण, ताप और रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होनेवाली एक शक्ति जिससे ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है।	বিজলি	बिजलि	electricity.
बिजलीघर	पु.	वह स्थान जहां रासायनिक प्रक्रियाओं, जल प्रपातों आदि से बिजली उत्पन्न करके कल-कारखाने आदि चलाने और घरों में प्रकाश आदि करने के लिए जगह-जगह तार की सहायता से पहुंचाई जाती है।	পাওয়ার হাউস	पाओयार हाउस	power-house.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिटिया	स्त्री.	बेटी।	বেটী, মেয়ে	बेटी, मेये	little daughter, daughter.
बिठाना	स.क्रि	1. बैठाना; 2. जोड़ना।	বসানো; জুড়া	बसानो; जुड़ा	to cause to sit; to fix.
बिताना	स. क्रि.	अवधि, समय आदि के संबंध में व्यय या व्यतीत करना।	কাটান (সময়)	काटान (समय)	to cause to pass, to pass or spend (time).
बित्ता	पु.	मनुष्य के एक हाथ के अंगूठे और कनिष्ठिका के सिरों के बीच की अधिकतम दूरी।	বিঘত	बिघत	hand's breadth.
बिदकना	अ. क्रि.	कुछ डरते हुए पीछे हटना, झिझकना।	ভয়ে পিছাইয়া যাওয়া	भये पिछाइया जाओया	to be scared, to shirk(from).
बिदकाना	स. क्रि.	चौंकाना या डराकर पीछे हटाना।	ভয় দেখাইয়া পিছু হটানো	भय देखाइया पिछु हटानो	to scare, to startle, to cause to recede or to draw back.
बिदा	स्त्री.	जाने देना, जाना।	বিদায়	बिदाय	farewell, permission to depart, departure.
बिदाई	स्त्री.	1. बिदा होने की अवस्था क्रिया या भाव;	বিদায়;	बिदाय;	departure;
		2. वह उपहार आदि जो बिदा होनेवाले को बिदा देते वक्त देते हैं;	বিদায়-উপহার;	बिदाय-उपहार;	present made by a host to a visitor;
		3. विवाहिता कन्या, बहू अथवा दामाद को विदा करने की रस्म।	বিবাহিতা কন্যা বধূ ইত্যাদির বিদায়-অনুষ্ঠান	बिबाहिता कन्या बधू इत्यादिर बिदाय-अनुष्ठान	ceremonial farewell to daughter-in-law or son-in-law.
बिदेसिया	पु.	परदेश जाकर बसा हुआ पति या अपना कोई प्रिय व्यक्ति।	বিদেশবাসী বা প্রবাসী পতি কিংবা কোনো প্রিয় ব্যক্তি	बिदेशबासी बा प्रबासी पति किंबा कोनो प्रिय ब्यक्ति	husband or a beloved person settled far away.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिनती	स्त्री.	प्रार्थना या निवेदन।	বিনতি, বিনয়-পূর্বক নিবেদন	बिनति, बिनय-पूर्बक निबेदन	request or submission.
बिना	अव्य.	बगैर।	ব্যতীত, ছাড়া	ब्यतीत, छाड़ा	without.
बिनौला	पु.	कपास का बीज।	কাপাসবীজ	कापासबीज	cotton-seed.
बियाबान	पु.	एकान्त जंगल या वन।	মরু, জংগল	मरु, जङ्गल	desert, wilderness.
बिरता	पुं.	सामर्थ्य।	সামর্থ্য	सामर्थ्य	potency, guts.
बिरला	पु.	(व्यक्ति या पदार्थ) जो सब जगह या अधिकता से नहीं, बल्कि कभी-कभी और कहीं-कहीं दिखाई देता हो, बहुत कम।	বিরল	बिरल	rare, scarce, very few.
बिरवा	पु.	छोटा वृक्ष या पौधा।	চারাগাছ	चारागाछ	small or young tree or plant.
बिरहा	पु.	दो पंक्तियोंवाला एक प्रसिद्ध लोकछंद तथा इसमें गाया जानेवाला विरहगीत।	হিন্দী ছন্দবিশেষ–এই ছন্দে বিশেষ ধরণের বিরহ-গীত রচিত হয়	हिन्दी छन्दविशेष–एइ छन्दे विशेष धरनेर बिरह-गीत रचित हय	Hindi metre of two lines in which a particular song of separation is composed and sung.
बिरादरी	स्त्री.	विशेषतः किसी एक ही जाति या वर्ग के वे सब लोग जो सामाजिक उत्सवों पर एक दूसरे के यहां आते जाते हों।	ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবৎ সম্বন্ধ	भ्रातृत्व, भ्रातृबत् सम्बन्ध	community, brotherhood.
बिराना	स. क्रि.	किसी को चिढ़ाने के हेतु मुंह की कोई विलक्षण मुद्रा बनाना या उसके कहे हुए शब्द दुहराना।	মুখ ভেঙচান	मुख भेङ्चान	to grimace, to make faces.
बिल	पुं.	1. जमीन के अन्दर खोद कर बनाया हुआ जीवजंतुओं के रहने का स्थान;	গর্ত;	गर्त;	hole (particularly of a rat or mouse, etc.);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी को हिसाब चुकता करने के लिए दिया जानेवाला वह पुरजा जिसमें प्राप्य मूल्य का पूरा ब्यौरा लिखा रहता है;	ক্রেতাকে দেয় বিক্রিত দ্রব্যের হিসাব;	क्रेताके देय बिक्रित द्रव्येर हिसाब;	bill;
		3. कानून का मसौदा जो विधान सभाओं या संसद में स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जाए।	বিধান-সভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া	बिधान-सभाय उपस्थापित आइनेर खसड़ा	bill.
बिलकुल	क्रि.वि.	1. पूरा-पूरा;	সম্পূর্ণ;	सम्पूर्न;	entirely, completely, totally;
		2. आदि से अंत तक।	সমস্ত	समस्त	wholly, from beginning to end.
बिलखना	अ.क्रि	विलाप करना।	বিলাপ করা	बिलाप करा	to weep loudly, to lament.
बिलगाना	स.क्रि	अलग या दूर करना।	আলগা করা, পৃথক করা	आलगा करा, पृथक करा	to separate, to detach.
बिलगाव	पु.	1. बिलग या अलग होने की क्रिया;	আলগাকরণ;	आलगाकरन;	separating, parting;
		2. अलगाव या पार्थक्य।	পার্থক্য	पार्थक्य	separation or detachment.
बिलाव	पु.	बिल्ली का नर।	মর্দা বিড়াল, হুলা	मर्दा, बिड़ाल, हुला	tom-cat.
बिलोड़ना	स.क्रि	1. दूध आदि मथना;	দুগ্ধাদি মন্থন করা;	दुग्धादि मन्थन करा;	to churn, to stir;
		2. अस्त-व्यस्त करना।	ব্যতিব্যস্ত করা	ब्यतिब्यस्त करा	to upset, to agitate.
बिलोना	स.क्रि	किसी तरल पदार्थ में कोई चीज डाल कर अच्छी तरह हिलाना।	কোনো তরল পদার্থের মধ্যে কোনো বস্তু ফেলিয়া ভাল করিয়া ঘাঁটা	कोनो तरल पदार्थेर मध्ये कोनो बस्तु फेलिया भाल करिया घांटा	to churn, to shake.
बिल्टी	स्त्री.	रेल के द्वारा भेजे जानेवाले माल की रसीद।	রেলযোগে প্রেরিত মালের রসিদ	रेलजोगे प्रेरित मालेर रसिद	bill of lading.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिल्ला	पु.	1. बिल्ली का नर;	মর্দা বিড়াল, হুলা;	मर्दा बिड़ाल, हुला;	male cat;
		2. कपड़े आदि की वह चौड़ी पट्टी जो विशिष्ट प्रकार का काम करनेवाले अपनी पहचान के लिए लगाते हैं	ব্যাজ, দল বা পেশা ইত্যাদি নির্দেশক তকমা	ब्याज, दल बा पेशा इत्यादि निर्देशक तकमा	badge, insignia.
बिल्ली	स्त्री.	1. एक छोटे आकार का प्रसिद्ध जंतु जो प्रायः घरों में पाला जाता है;	বিড়ালী;	बिड़ाली;	female cat, cat (in general);
		2. किवाड की सिटकिनी जिसे कोंढ़े में डाल देने से ढकेलने पर किवाड़ नहीं खुल सकता।	হুড়কা	हुड़का	latch.
बिवाई (बवाई)	स्त्री.	एड़ियां फटने का रोग।	পাফাটা রোগ	पाफाटा रोग	kibe or chap on the heal.
बिसरना	अ. क्रि.	विस्मृत होना या भूल जाना।	বিসর	बिसर	to be forgotten.
बिसात	स्त्री.	1. हैसियत या सामथ्र्य; 2. बिछाई गई चादर आदि; 3. चौपड़, शतरंज आदि खेलने के लिए बना खानेदार कपड़ा।	সামর্থ্য; বিছানো চাদর ইত্যাদি; দাবা ইত্যাদি খেলার কাপড়ের তৈরী ছক	सामर्थ्य; बिछानो चादर इत्यादि; दाबा इत्यादि खेलार कापड़ेर तैरी छक	capacity or power; sheet etc. that is spread out; chess-cloth, dice-board. etc.
बिसातखाना	पु.	बिसाती की दुकान।	বেসাতির দোকান	बेसातिर दोकान	departmental store, small wares stores, general store.
बिसाती	पु.	फुटकर सामान बेचनेवाला दुकानदार।	খুচরা মালের দোকানদার	खुचरा मालेर दोकानदार	vendor of small wares.
बिसारना	स. क्रि.	स्मरण न रखना, विस्मृत करना या भुलाना।	বিসর, মনে না করা, ভোলা	बिसर मने ना करा, भोला	to dismiss from memory, to forget.
बिसूरना	अ. क्रि.	मन में दुःख होने पर निरंतर कुछ समय तक धीरे-धीरे रोते रहना।	মনে দুঃখ হওয়ায় ধীরে ধীরে কাঁদিতে থাকা	मने दुःख हओयाय धीरे धीरे कांदिते थाका	to put on a crying face, to cry slowly, to sob.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बिस्कुट	पु.	एक प्रकार की खस्ता मीठी या नमकीन टिकिया जो आटे को भट्टी में सेककर पकाई जाती है।	বিস্কুট, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী পিষ্টক বিশেষ	बिस्कुट, मयदा इत्यादि द्वारा तैरी पिष्टक बिशेष	biscuit.
बिस्तर (बिस्तरा)	पु.	बिछावन या बिछौना।	বিছানা	बिछाना	bed, bedding.
बिस्तरबंद	पु.	कैनवस आदि का बना हुआ एक प्रकार का आधान जिसमें बिस्तर बांध कर ले जाया जाता है।	হোল্ড্অল	होल्ड्अल	holdall.
बिस्वा	पु.	जमीन की एक नाप जो एक बीघे का बीसवां भाग है।	এক কাঠা	एक काठा	measure of land equal to the twentieth part of a **bigha.**
बिहान	पु.	1. सवेरा या प्रातःकाल; 2. आनेवाला दूसरा दिन।	প্রভাত; আগামী কল্য	प्रभात; आगामी कल्य	dawn or morning; tomorrow;
बींधना	स.क्रि	1. किसी चीज में आर-पार छेद करने के लिए उसमें नोकदार चीज गड़ाना या धंसाना;	বিঁধা;	बिंधा;	to perforate, bore through or in, make a hole ;
		2. बहुत ही चुभती हुई बात कहना।	বাক্যবিদ্ধ করা	बाक्यबिद्ध करा	to pierce or wound with sharp speech, to say cutting things to.
बीघा	पु.	खेत नापने का एक वर्ग मान जो 5/8 एकड़ के बराबर होता है।	জমির মাপ– ৫/৮ একারের সমান	जमिर माप– 5/8 एकारेर समान	land-measure equal to about five eighth of an acre.
बीच	पु.	किसी वस्तु का वह केंद्रीय अंश या भाग जहां से उसके सभी छोर समान दूरी पर पड़ते हों।	মধ্যভাগ, মাঝ	मध्यभाग, माझ	middle, midst, centre.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बीच-बचाव	पुं.	दो विरोधी पक्षों के बीच में आकर दोनों पक्षों के हितों की की जानेवाली रक्षा।	মধ্যস্থতা	मध्यस्थता	interposition, intervention, mediation.
बीचोंबीच	क्रि. वि.	बिलकुल बीच में।	ঠিক মাঝখানে	ठिक माझखाने	in the very midst (of), in the exact middle or centre.
बीज	पुं.	1. अन्न आदि का वह कण जो खेत में बोने के काम आता है;	শস্যাদির ফল, বীচী বা আঁটি –ইহা অঙ্কুরিত হয়;	शस्यादिर फल बीची बा आँटि –इहा अङ्कुरित हय;	seed of corn, plants, etc.
		2. लाक्षणिक अर्थ में, ऐसी आरंभिक बात जो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण करती हो।	যাহা প্রারম্ভে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু পরে বিরাট আকার ধারণ করে	जाहा प्रारम्भे अति क्षुद्र किन्तु परे विराट आकार धारन करे	primary element or cause which develops later on.
बीजक	पुं.	1. सूची या फेहरिस्त; 2. वह सूची जिसमें किसी को भेजे जानेवाले माल का ब्यौरा, दर, मूल्य आदि लिखा रहता है।	তালিকা; চালান, জায়	तालिका; चालान, जाय	list; invoice, inventory.
बीजगणित	पुं.	गणित का वह प्रकार जिसमें अक्षरों को अज्ञात संख्याओं के स्थान पर मान कर वास्तविक मान या संख्याएं जानी जाती हैं।	গণিতশাস্ত্রের শাখাবিশেষ	गनितशास्त्रेर शाखाबिशेष	algebra.
बीजमंत्र	पुं.	तंत्रशास्त्र में किसी देवता के उद्देश्य से निश्चित किया हुआ मूल मंत्र।	দেবতাবিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র	देबताबिशेषेर सारभूत बर्नात्मक मन्त्र	mystical syllable with which a **mantra** begins.
बीजांकुर	पुं.	बीज से निकलनेवाला अंकुर।	বীজ হইতে উদ্‌গত অঙ্কুর	बीज हइते उद्‌गत अङ्कुर	seed-shoot, first shoot.
बीजारोपण	पुं.	बीजों का बोना।	বীজ বপন	बीज बपन	sowing.
बीट	स्त्री.	पक्षियों की विष्ठा।	পাখীর বিষ্ঠা, পক্ষিপুরীষ	पाखीर बिष्ठा, पक्षिपुरीष	excrement, dung (especially of birds).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बीड़ा	पु.	1. कोई काम करने का संकल्प करना या भार लेना;	কোনো কাজ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা;	कोनो काज करार सङ्कल्प ग्रहन करा;	resolution or determination to undertake any job;
		2. पान की गिलौरी।	বিড়া, পানের খিলি	बिड़ा, पानेर खिलि	preparation of the areca nutwith spices and chunam, enveloped in a leaf of the betel plant.
बीड़ी	स्त्री.	पत्ते में लपेटा हुआ तम्बाकू जिसे लोग सिगरेट की तरह सुलगा कर पीते हैं।	বিড়ি, শালপাতায় জড়ানো কাটা তামাকের চুরুট	बिड़ि, शालपाताय जड़ानो काटा तामाकेर चुरट	leaf folded up into a triangular form with tobacco in it.
बीतना	अ. क्रि.	1. काल-मान की दृष्टि से घटना, बात आदि का वर्तमान से होते हुए भूत में जाना;	কাটা (সময়), অতিবাহিত হওয়া;	काटा (समय), अतिबाहित हओया;	to pass, to elapse, to expire (as time);
		2. लाक्षणिक अर्थ में किसी घटना, बात आदि का फल सहन किया जाना।	ফল প্রাপ্ত হওয়া, ভোগা	फल प्राप्त हओया, भोगा	to undergo, to suffer, to endure.
बीन	स्त्री.	सपेरों के बजाने की तूम्बड़ी।	সাপুড়িয়ার বাঁশী	सापुड़ियार बांशी	a kind of Indian lute played upon by snake-charmers.
बीनना	स.क्रि	1. छोटी-छोटी चीजों को उठाना या चुनना;	খুঁটা;	खुंटा;	to pick, to gather, to pluck;
		2. छाँटकर अलग करना।	বাছাই করা	बाछाइ करा	to pick out, to select.
बीबी	स्त्री.	1. पत्नी;	পত্নী;	पत्नी;	wife;
		2. प्रेम या आदरसूचक शब्द (स्त्रियों के लिए)।	স্ত্রীলোকের আদরসূচক শব্দ	स्त्रीलोकेर आदरसूचक शब्द	term of endearment (for females).
बीमा	पु.	किसी प्रकार की विशेषत: आर्थिक हानि पूरी करने की जिम्मेदारी जो कुछ निश्चित धन लेकर उसके बदले में की जाती है।	বিমা, স্বল্প কিশতিতে টাকা দিয়া ভবিষ্যতে এককালীন টাকা পাইবার সর্তে চুক্তি	बिमा, स्वल्प किशतिते टाका दिया भविष्यते एककालीन टाका पाइबार सर्ते चुक्ति	insurance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बीमार	वि.	वह व्यक्ति जो किसी रोग अथवा ज्वर से पीड़ित हो।	রোগগ্রস্ত, অসুস্থ, পীড়িত, ব্যায়রামী	रोगग्रस्त, असुस्थ, पीड़ित, ब्यायरामी	sick, ill, ailing, unwell, indisposed.
बीमारी	स्त्री.	1. बीमार होने की अवस्था या भाव;	বেমারী, অসুস্থতা;	बेमारी, असुस्थता;	illness, ailment;
		2. वह विकार जिसके फल स्वरूप शरीर अस्वस्थ और रुग्ण रहता है;	ব্যামো, ব্যায়রাম, রোগ;	ब्यामो, ब्यायराम, रोग;	disease;
		3. बुरी आदत या दुर्व्यसन।	বদভ্যাস, নেশা	बदभ्यास, नेशा	vice, addiction.
बीर-बहूटी	स्त्री.	गहरे लाल रंग का छोटा रेंगनेवाला कीड़ा, जो देखने में बहुत ही सुन्दर होता है।	ইন্দ্রগোপ, মখমলি পোকা	इन्द्रगोप, मखमलि पोक	red-velvet insect, the scarlet or lady-fly, Buccells carniola.
बीस	वि.	1. जो संख्या में दस का दूना या उन्नीस से एक अधिक हो;	বিশ, কুড়ি;	बिश, कुड़ि;	twenty;
		2. किसी की तुलना में अच्छा या बढ़कर।	অধিকতর উৎকর্ষ তুলনায় বেশী ভাল	अधिकतर उत्कर्ष तुलनाय बेशी भाल	superior to, more excellent.
बीहड़	वि.	ऊंचा-नीचा, ऊबड़-खाबड़।	উঁচুনীচু, এবড়োখেবড়ো, বন্ধুর	उंचुनीचु, एबड़ोखेबड़ो, बन्धुर	uncultivated, uneven (land), rugged, rough.
बुंदा	पु.	कान में पहनने का एक प्रकार का गहना जो प्रायः झूलता रहता है।	কর্ণভূষণবিশেষ	कर्नभूषनबिशेष	ear-ring.
बुंदिया	स्त्री.	छोटी बूंदों या दानों के रूप में बननेवाला बेसन का मीठा पकवान।	গুটিকাকৃতি মিঠাইবিশেষ	गुटिकाकृति मिठाइबिशेष	a kind of sweetmeat (like drops).
बुआ (बुवा)	स्त्री.	पिता की बहन।	পিসি	पिसि	father's sister, aunt.
बुकनी	स्त्री.	किसी चीज का महीन पीसा हुआ चूर्ण।	বকুনি, চূর্ণ, কণা	बुकनि, चूर्न, कना	powder.
बुखार	पु.	शरीर में किसी प्रकार का रोग होने के कारण उसका बढ़ा हुआ तापमान।	জ্বর	ज्वर	fever.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बुजदिल	वि.	कायर, डरपोक या भीरु।	কাপূরুষ, ভীরু	कापुरुष, भीरु	coward, timid.
बुजदिली	स्त्री.	कायरता या भीरुता।	কাপূরুষতা, ভীরুতা	कापुरुषता, भीरुता	cowardice, timidity.
बुजुर्ग	पु.	पूज्य व्यक्ति, बाप-दादा आदि।	পূজ্য ব্যক্তি, পিতৃপিতামহাদি	पूज्य व्यक्ति, पितृपितामहादि	respectable man, elders, father and grandfather etc.
बुजुर्गी	स्त्री.	बुजुर्ग होने की अवस्था या भाव।	বয়সাদিতে জ্যেষ্ঠতা	बयसादिते जेष्ठता	seniority of age.
बुझना	अ.क्रि	1. जलते हुए पदार्थ का बुझ जाना;	নির্বাপিত হওয়া, নিবা;	निर्बापित हओया, निबा;	to be put out, to be extinguished (a fire, light, etc.);
		2. किसी जलते या तपे हुए पदार्थ का पानी में पड़ने के कारण ठंडा होना;	উত্তপ্ত পদার্থের জলে পড়িয়া ঠান্ডা হওয়া;	उत्तप्त पदार्थेर जले पड़िया ठान्डा हओया;	to be cooled (of some hot or burning article by having been put into water);
		3. निराश या उदासीन होना।	নিরাশ বা বিমর্ষ হওয়া	निराश बा बिमर्ष हओया	to be dejected or to be disappointed.
बुझाना	स.क्रि	1. ऐसी क्रिया करना जिससे आग अथवा किसी जलते हुए पदार्थ का जलना बंद हो जाए;	নিকানো;	निकानो;	to put out, to extinguish (a fire, light, etc.);
		2. किसी जलती हुई धातु या ठोस पदार्थ को ठंडे पानी में डाल देना जिससे वह पदार्थ भी ठंडा हो जाए।	উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত পদার্থকে জলে ফেলিয়া ঠান্ডা করা	उत्तप्त बा ज्वलन्त पदार्थके जले फेलिया ठान्डा करा	to cool by putting into water.
बुझौवल	स्त्री.	किसी को चकित करके उसकी बुद्धि की थाह लगाने के लिए सीधे-सादे शब्दों में पूछी जानेवाली कोई पेचीदा बात।	ধাঁধাঁ	धांधां	riddle, conundrum

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बुड्ढा	वि.	जिसकी अवस्था अधिक हो गई हो।	বূড়া, বূড়ো	बुड़ा, बुड़ो	old, aged.
	पु.	बूढ़ा।	বূড়ো মানূষ	बुड़ो मानुष	old man.
बुढ़ापा	पु.	वृद्धावस्था।	বৃধাবস্থা, বার্ধক্য	बृद्धावस्था, बार्धक्य	old age.
बुढ़िया	स्त्री.	बड़ी अवस्था की स्त्री।	বূড়ী, বৃদ্ধা	बुड़ी, बृद्धा	old woman.
बुदबुदा	पु.	पानी का बुलबुला।	বূদবূদ	बुदबुद	bubble.
बुद्धि	स्त्री.	विचार या निश्चय करने की शक्ति।	বিচারশক্তি, মতি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি	बिचारशक्ति, मति निश्चयात्मिका अप्त:करनबृत्ति	perception. comprehension. intellect. understanding.
बुद्धिजीवी	पु.	जिसकी जीविका दिमागी कामों से चलती हो।	বূদ্ধি দ্বারা জীবিকার্জনকারী	बुद्धि द्वारा जीबिकार्जनकारी	intellectual.
बुद्धिमत्ता	स्त्री.	बुद्धिमान होने की अवस्था या भाव, समझदारी या अक्लमंदी।	বূদ্ধিশালিতা, মনীষা, ধীশক্তি	बुद्धिशालिता, मनीषा, धीशक्ति	wisdom, sagacity
बुद्धिमान	वि.	जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो, बुद्धिवाला।	বূদ্ধিযূক্ত, ধীমান্, মতিমান্	बुद्धिजुक्त, धीमान्, मतिमान्	endowed with understanding, intelligent.
बुद्धिमानी	स्त्री.	बुद्धिमान होने की अवस्था या भाव।	বূদ্ধিমত্তা	बुद्धिमत्ता	wisdom, intelligence.
बुद्धिसंगत	वि.	बुद्धि के अनुकूल, बुद्धि पर पूरा उतरनेवाला।	যূক্তিসংগত	जुक्तिसङ्गत	reasoned.
बुद्धिहीन	वि.	जिसमें विवेक का अभाव हो, मूर्ख।	নির্বোধ, মূর্খ	निर्बोध, मूर्ख	devoid of intellect, silly, foolish.
बुद्धू	वि.पुं.	बेवकूफ या मूर्ख।	বেঅকূফ, বে-আকূব, বেকূব, বে-আক্কেল	बेअकुफ, बे-आकुब, बेकुब, बेआक्केल	stupid fellow, blockhead, fool, idiot.
बुद्धवार	पु.	सात वारों में से एक।	বূধবার	बुधबार	Wednesday.
बुनकर	पु.	कपड़ा बुननेवाला कारीगर।	তাঁতি, তাঁতী	तांति, तांती	weaver.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बुनना	स.क्रि	1. करघे के द्वारा ताने तथा बाने के तारों को इस प्रकार एक दूसरे में ऊपर नीचे करके फंसाना कि वे वस्त्र का रूप धारण कर लें;	বুনা, বয়ন করা;	बुना, बयन करा;	to weave;
		2. ऊन द्वारा सलाई पर स्वेटर बनाना;	উলের জামা ইত্যাদি বুনা;	उलेर जामा इत्यादि बुना;	to knit;
		3. तारों आदि को गूंथकर चटाई आदि बनाना।	বেত দ্বারা চাটাই ইত্যাদি বুনা	बेत द्वारा चाटाइ इत्यादि बुना	to intertwine.
बुनवाना	स.क्रि	बुनने का काम दूसरे से करवाना।	বুনানো	बुनानो	to cause to be woven, to get (a thing) woven.
बुनाई	स्त्री.	1. बुनने की क्रिया;	বয়ন, বুনন;	बयन, बुनन;	weaving, knitting;
		2. बुनने का ढंग या तरीका;	বুনার পদ্ধতি;	बुनार पद्धति;	method or design of weaving or knitting;
		3. बुनने का पारिश्रमिक।	বুনানী, বুননি, বুনুনি	बुनानी, बुननि, बुनुनि	price paid for weaving etc.
बुनावट	स्त्री.	बुनने में सूतों की मिलावट का ढंग।	বুনট	बुनट	design or texture.
बुनियाद	स्त्री.	1. आधार या नींव;	বুনিয়াদ, ভিত্তি;	बुनियाद, भित्ति;	basis or foundation;
		2. आरंभ, जड़, मूल।	আদি, গোড়া, মূল	आदि, गोड़ा, मूल	origin.
बुनियादी	वि.	1. नींव या बुनियाद-संबंधी;	বুনিয়াদ সম্পর্কিত;	बुनियाद सम्पर्कित;	pertaining to foundation;
		2. आरंभिक या प्रारंभिक।	মূলগত	मूलगत	basic.
बुरका (बुर्का)	पु.	मुसलमान स्त्रियों का एक पहनावा जिससे वे सिर से लेकर एड़ी तक अपने सब अंग ढक लेती हैं।	বোরখা	बोरखा	a thing with which a Muslim woman veils herself from head to feet.
बुरा (स्त्री. बुरी)	वि.	1. जो वैसा न हो, जैसा साधारण या उचित रूप में होना चाहिए;	নিকৃষ্ট, মন্দ, খারাব;	निकृष्ट, मन्द, खाराब	bad, evil;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. वह व्यक्ति जिसमें कोई स्वभावजन्य दुर्गुण या दोष हो;	স্বভাবদুর্জন, বদমায়েশ, বদমাইস;	स्वभावदुर्जन, बदमायेश, बदमाइस;	evil-minded, immoral, villainous;
		3. जिसका रूप-रंग, आकार-प्रकार देख कर मन में अरुचि, घृणा या विराग उत्पन्न हो।	কুৎসিত, কদর্য	कुत्सित, कदर्ज	ugly, ill-looking, disagreeable, unpleasant, odious, hateful.
बुराई	स्त्री.	1. वह तत्व जिसके फलस्वरूप किसी चीज को बुरा कहा जाता है;	মন্দত্ব, নিকৃষ্টতা;	मन्दत्व, निकृष्टता;	badness, evil, vice;
		2. अनुचित या निन्दनीय आचरण तथा व्यवहार;	দুষ্টতা, নীচতা;	दुष्टता, नीचता;	wickedness, mischievousness, vileness;
		3. अवगुण, दोष या ऐब।	দোষ	दोष	defect.
बुराई-भलाई	स्त्री.	1. अच्छी और बुरी क्रियाएं;	ভালমন্দ;	भालमन्द;	good and evil deeds;
		2. किसी की निन्दा या शिकायत और किसी की प्रशंसा या तारीफ।	নিন্দাবন্দনা	निन्दाबन्दना	accusation and commendation.
बुरावा	पु.	आरे से लकड़ी चीरने या धातु को रेतने पर उसमें से निकलने वाला आटे की तरह का महीन अंश।	করাতের গুঁড়া	करातेर गुंड़ा	filings, saw-dust.
बुरा-भला	पु.	हानि-लाभ।	লাভক্ষতি	लाभक्षति	loss or profit,
बुरुश (बुश)	पु.	1. तूलिका;	তুলীবিশেষ;	तुलीबिशेष;	painting brush;
		2. तारों, बालों अथवा किसी चीज का बना हुआ वह उपकरण जिससे रगड़कर कोई चीज साफ की जाती है।	কূচী ইত্যাদির দ্বারা তৈরী মার্জনী বিশেষ-	कुची इत्यादिर द्वारा तैरी मार्जनी-बिशेष	brush (in general)

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बुर्ज	पु.	किले आदि की दीवारों में कोनों पर ऊपर की ओर निकला हुआ गोल या पहलदार भाग जिसके बीच में बैठने आदि के लिए थोड़ा-सा स्थान होता है।	বুরুজ, দুর্গ প্রাকারাদির বহির্দিকে প্রসারিত অংশবিশেষ, গুম্বুজ, গুম্বজ	बुरुज, दुर्ग प्राकारादिर बहिर्दिके प्रसारित अंशविशेष, गुम्बुज, गुम्वज	bastion, turret.
बुलंद	वि.	1. बहुत ऊंचा; 2. बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा या उन्नत।	খুব উঁচু; অত্যন্ত উন্নীত	खुब उंचु; अत्यन्त उन्नीत	very high, lofty; elevated, exalted.
बुलबुल	स्त्री.	गानेवाली एक प्रसिद्ध चिड़िया जो कई प्रकार की होती है।	সুকণ্ঠ, ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ	सुकन्ठ, क्षुद्र पक्षिबिशेष	nightingale.
बुलबुला	पु.	1. किसी तरल पदार्थ या पानी की बूंद का वह खोखला और फूला हुआ रूप जो उसे अन्दर हवा भर जाने के कारण प्राप्त होता है; 2. लाक्षणिक अर्थ में कोई क्षणभंगुर चीज या बात।	বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি; (লাক্ষণিক অর্থে) ক্ষণভংগুর বস্তু	बुद्बुद, भुड़भुड़ि; (लाक्षनिक अर्थे) क्षनभङ्गुर बस्तु	bubble; any frail thing.
बुलवाना	स.क्रि	1. किसी को बोलने में प्रवृत्त करना; 2. किसी को बुलाने का काम किसी के द्वारा करवाना।	কথা বলানো; অন্যকে দিয়া ডাকিয়া পাঠানো	कथा बलानो; अन्यके दिया डाकिया पाठानो	to cause to talk; to cause to be sent for, to send for.
बुलाक	पु.	1. नाक की बीचवाली हड्डी; 2. नाक में पहनी जानेवाली नथ।	নাকের মধ্যেকার হাড়, নাসাস্থি; নাকের অলঙ্কার-বিশেষ	नाकेर मध्येकार हाड़ नासास्थि; नाकेर अलङ्कार-बिशेष	the septum of the nose; an ornament worn suspended from the septum of the nose.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बुलाना	स.क्रि	किसी को अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिए आवाज देना या पुकारना।	ডাকা	डाका	to call, to draw one's attention.
बुलावा	पु.	1. बुलाने की क्रिया या भाव;	ডাক, আহ্বান;	डाक, आह्बान;	calling, bidding;
		2. निमंत्रण, आवाहन।	নিমন্ত্রণ, আবাহন	निमन्त्रन, आबाहन	call, invitation, summons.
बुलेटिन	पु.	किसी सार्वजनिक बात या विषय से संबंध रखनेवाला वह संक्षिप्त सूचनापत्र जो किसी की ओर से आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया हो।	ইশ্তিহার, ইস্তিহার	इश्तिहार, इस्तिहार	bulletin.
बुवाई (बोआई)	स्त्री.	खेत में फसल बोने का काम।	বোনা, বুনা	बोना, बुना	the act of sowing.
बुहारना	स.क्रि	झाड़ू से जगह साफ करना।	ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা	झांट दिया परिष्कार करा	to sweep.
बुहारी	स्त्री.	झाड़ू या बढ़नी।	ঝাড়ু, ঝাঁটা	झाड़ु, झांटा	instrument for sweeping, broom, besom.
बूंद	स्त्री.	जल अथवा किसी तरल पदार्थ का कण।	বিন্দু ফোটা, ফোঁটা	बिन्दु, फोटा, फोंटा	drop.
बूंदा-बांदी	स्त्री.	हल्की या थोड़ी वर्षा।	হাল্কা বৃষ্টি ঝিরঝিরে বৃষ্টি	हाल्का बृष्टि झिरझिरे बृष्टि	small and interrupted dropping of rain, drizzle.
बूंदी	स्त्री.	एक प्रकार की मिठाई जो बेसन से बनती है।	বুঁদিয়া, বুঁদে	बुंदिया, बुंदे	a kind of sweetmeat.
बूकना	स.क्रि	1. सिल और बट्टे की सहायता से किसी चीज को महीन पीसना;	বাটা, পিষা;	बाटा, पिषा;	to grind, reduce to powder, to powder;
		2. अपने गुण, योग्यता आदि का प्रदर्शन करना।	নিজের গুণ যোগ্যতা আদি প্রদর্শন করা, আত্মশ্লাঘা করা	निजेर गुन जोग्यता आदि प्रदर्शन करा, आत्मश्लाघा करा	to exhibit one's qualities, abilities, etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बूचड़	पु.	कसाई।	কসাই	कसाइ	butcher.
बूचड़खाना	पु.	वह स्थान जहां कसाई पशुओं को मार डालता है।	কসাইখানা	कसाइखाना	slaughter-house.
बूचा	वि. (स्त्री. बूची)	1. जिसके कान कटे हुए हों;	বোঁচা, ছিন্নকর্ণ, কানকাটা;	बोंचा, छिन्नकर्न, कानकाटा;	ear-cropped, without ears;
		2. जो किसी चीज के अभाव के कारण अशोभन या भद्दा जान पड़े।	কোনো ত্রুটির জন্য যাহা অশোভন হইয়া গিয়াছে	कोनो त्रुटिर जन्य जाहा अशोभन हइया गियाछे	one shorn of charm due to some deficiency.
बूझ	स्त्री.	1. समझ, बुद्धि, अक्ल या ज्ञान;	বুঝ, বোধ, জ্ঞান;	बुझ, बोध, ज्ञान;	perception, understanding, intelligence, comprehension;
		2. पहेली।	হেঁয়ালি, প্রহেলিকা	हेंयालि, प्रहेलिका	riddle.
बूझना	स.क्रि	1. किसी प्रकार का ज्ञान या बोध प्राप्त करना;	বুঝ, উপলব্ধি করা, জানা;	बुझ, उपलब्धि करा, जाना;	to understand, perceive, make out, comprehend;
		2. कोई गूढ़ या रहस्यपूर्ण बात समझना या उसकी तह तक पहुंचना।	কোনো গূঢ় রহস্যের মর্মভেদ করা	कोनो गूढ़ रहस्येर मर्मभेद करा	to reach the depth of some mysterious matter.
बूट	पु.	1. चने का हरा दाना;	চণক, দোলা;	चनक, दोला;	green gram;
		2. एक तरह का विलायती ढंग का फीतेवाला जता।	একধরণের জাফি-ঢাকা জুতা	एकधरनेर जाफ़ि-ढाका जुता	laced shoes.
बूटा	पु.	छोटा वृक्ष या पौधा।	চারা গাছ	चारा गाछ	plant or bush.
बूटी	स्त्री.	1. ऐसी जंगली वनस्पति जिसका उपयोग औषध आदि के रूप में होता है;	বন্য গাছগাছড়া যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়;	बन्य गाछगाछड़ा जाहा औषधे ब्यबहृत हय;	drug plant or shrub;
		2. भांग या विजया;	ভাং;	भां;	hemp;
		3. छोटे पौधों या फूलों के आकार का कोई अंकन या चित्रण।	বুটি, বুটী	बुटि, बुटी	design of small plant, flower, leaf, etc. in texture of cloth etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बूढ़ा (बुड्ढा) (स्त्री. बूढ़ी)	वि,पुं.	वृद्ध, बड़ी आयु का प्राणी।	বুড়া, বৃদ্ধ, অধিক বয়স্ক জীব	बुड़ा, वृद्ध, अधिक वयस्क जीव	old, aged, old man.
बूता	पु.	बल या पराक्रम, सामथ्र्य।	বল, পরাক্রম, সামর্থ্য	बल, पराक्रम, सामर्थ्य	strength, power, ability.
बूरा	पु.	1. बुरादा; 2. शक्कर।	করাতের গুঁড়া; লাল চিনি	करातेर गुंड़ा; लाल चिनि	saw-dust; unrefind powdered sugar.
बृहत्	वि.	1. बहुत बड़ा या भारी; 2. दृढ़, पक्का या मजबूत।	বিশাল; দৃঢ়, পাকা, মজবুত	विशाल; दृढ़, पाका, मजबुत	large, big, bulky; solid, strong.
बृहस्पतिवार	पुं.	बुधवार के बाद पड़नेवाले वार की संज्ञा।	গুরুবার	गुरुबार	Thursday.
बेंच	स्त्री.	1. लकड़ी, पत्थर, सिमेंट लोहे आदि की एक प्रकार की चौकी जो चौड़ी कम और लम्बी अधिक होती है; 2. राजकीय न्यायालयों में न्यायाधीशों के बैठने का स्थान; 3. संसद भवन में दल विशेष के सदस्यों का बैठने का स्थान।	বেঞ্চি; আদালতে বিচারকের আসন; সংসদভবনে দলবিশেষের বসিবার স্থান	बेंचि; आदालते बिचारकेर आसन; संसदभबने दलबिशेषेर बसिबार स्थान	bench in general; seats of judges in courts; seats allotted to a party for its members in Parliament, etc.
बेंत	पु.	1. एक प्रसिद्ध लता जिसके डंठल से छड़ियां और टोकरियां आदि बनती हैं; 2. उक्त लता की बनी छड़ी।	বেত; বেতের ছড়ি	बेत; बेतेर छड़ि	willow; cane etc.
बेअक्ल (बेअक्ल)	वि.	निर्बुद्धि।	বেআক্কেল, বুদ্ধিহীন	बेआक्केल, बुद्धिहीन	stupid, senseless.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेअदब	वि.	जो मर्यादा का ध्यान न रखकर अशिष्ट आचरण करता हो।	বেআদব, অশিষ্ট, অভদ্র	बेआदब, अशिष्ट, अभद्र	ill-behaved, unmannerly, disrespectful, rude.
बेअदबी	स्त्री.	अशिष्टता, व्यवहार की असभ्यता।	বেআদবি, অশিষ্টতা, অভদ্রতা	बेआदबि, अशिष्टता, अभद्रता	incivility, rudeness, disrespect, impudence,
बेआबरू	वि.	जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो।	বেআবরু, সম্ভ্রম-হীন, বেইজ্জত	बेआवरु सम्भ्रम-हीन, बेइज्जत	dishonoured, disgraced,
बेइंसाफ	वि.	अन्यायपूर्ण, अन्यायी।	অনুচিত, অন্যায়	अनुचित अन्याय	unjust, unfair.
बेइंसाफी	स्त्री.	अन्याय।	অন্যায়	अन्याय	injustice, wrong, iniquity.
बेइज्जत	वि.	1. अप्रतिष्ठित; 2. जिसका अपमान किया गया हो।	হৃতসম্ভ্রম, বিশ্বাসঘাতক; অপমানিত	हितसम्भ्रम, बिश्वासघातक; अपमानित	without honour or dignity; disgraced.
बेइज्जती	स्त्री.	अप्रतिष्ठा या अपमान।	বেইজ্জতি, অসম্ভ্রম, অপমান	बेइज्जति, असम्भ्रम, अपमान	dishonour, disgrace or ignominy.
बेईमान	वि.	1. जिसका ईमान ठीक न हो, भ्रष्ट; 2. जिसका कोई धर्म न हो।	বেইমান, বিশ্বাসঘাতক; অধার্মিক	बेइमान, बिश्वासघातक; अधार्मिक	faithless, corrupt, dishonest; without religion.
बेईमानी	स्त्री.	बुरी नीयत से किया जाने वाला कोई कार्य।	বেইমানি, বিশ্বাস-ঘাতকতা	बेइमानि, बिश्वास-घातकता	dishonesty, breach of trust, unfair dealing.
बेकदर	वि.	जिसका कुछ महत्व या आदर-सम्मान न हो।	যাহার কোনো কদর নাই	जाहार कोनो कदर नाइ	of no importance or worth, of no estimation.
बेकदरी	स्त्री.	1. बेकदर होने की अवस्था या भाव; 2. अनादर।	অকিঞ্চিৎকরতা, অসম্মানজনকতা; অনাদর	अकिञ्चित्करता, असम्मानजनकता; अनादर	worthlessness, low estimation; disesteem, disrepute.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेकरार	वि.	बेचैन या उत्सुक।	ব্যাকুল, অস্থির, বিচলিত, উৎসুক	ब्याकुल, अस्थिर, बिचलित, उत्सुक	restless, uneasy, discomposed, disturbed in mind.
बेकरारी	स्त्री.	बेचैनी या उत्सुकता।	অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, উৎসুকতা	अस्थिरता, ब्याकुलता, उत्सुकता	restlessness, uneasiness, disturbance of mind.
बेकसूर	वि.	जिसका कोई अपराध न हो।	বেকসুর, নির্দোষ	बेकसुर, निर्दोष	innocent, faultless.
बेकाबू	वि.	जिसको वश में न लाया जा सके या निरंकुश।	যাহাকে কাবু করা যায় না, নিরঙ্কুশ	जाहाके काबु करा जाय ना, निरङ्कुश	without restraint, out of one's control.
बेकाम	वि.	1. निकम्मा; 2. जिससे कोई काम न निकल सके।	নিষ্কর্মা; অকর্মণ্য	निष्कर्मा; अकर्मन्य	doing no work; of no use.
बेकायदा	वि.	अनियमित।	কায়দার বহির্ভূত	कायदार बहिर्भूत	unarranged, irregular, without order or rule.
बेकार	वि.	1. जो काम में न लगा हुआ हो; 2. जो किसी काम न आ सकता हो।	কর্মহীন, চাকুরীহীন; অকেজো, নিরর্থক	कर्महीन, चाकुरीहीन; अकेजो, निरर्थक	without work or employment, unemployed; unserviceable.
बेकारी	स्त्री.	किसी काम पर न लगा होना।	বেকার অবস্থা, বেকারি	बेकार अबस्था, बेकारि	the state of being unemployed, unemployment.
बेखटके	क्रि. वि.	बिना किसी आशंका के, निर्भयता से।	বিনা খটকায়, নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে	बिना खटकाय, निःसन्देहे, निर्भये	without apprehension or doubt, fearlessly.
बेखबर	वि.	अनजान या नावाकिफ।	অজ্ঞাত	अज्ञात	without knowledge (of),uninformed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेगम	स्त्री.	1. भले घर की स्त्री; 2. किसी बड़े नवाब, बादशाह या सरदार की पत्नी; 3. ताश का वह पत्ता जिस पर रानी या स्त्री का चित्र बना रहता है।	সম্ভ্রান্ত মহিলা; নবাব বা বাদশাহের পত্নী; বিবি	सम्भ्रान्त महिला; नबाब बा बादशाहेर पत्नी; बिबि	lady; title of King's wife or chieftain's wife, etc.; playing cards carrying picture of queen.
बेगाना	वि.	1. जो अपना न हो; 2. जिससे आत्मीयता-पूर्ण जान-पहचान न हो; 3. जो किसी बात से अनजान हो।	বেগনা, পর; কোনা, অপরিচিত, অজ্ঞাত; কোনো বিষয়ে অজ্ঞ	बेगना, पर; कोना, अपरिचित, अज्ञात; कोनो बिषये अज्ञ	not related; not an acquaintanc or friend, alien, unknown; ignorant.
बेगार	स्त्री.	वह काम जो किसी से जबरदस्ती और बिना कुछ पारिश्रमिक दिये करवाया जाए।	মজুরী বিনা জবরদস্তি করিয়া করানো কাজ	मजरी बिना जबरदस्ति करिया करानो काज	compulsory labour without pay.
बेगुनाह	वि.	जिसने कोई पाप या अपराध न किया हो।	নিষ্পাপ, নিরপরাধ	निष्पाप, निरपराध	guiltless, innocent.
बेचना	स.क्रि	अपनी कोई चीज या संपत्ति किसी से दाम लेकर उसे दे देना।	বেচা	बेचा	to sell, to dispose.
बेचारा (स्त्री.बेचारी)	वि.	जिसके लिए कोई उपाय या साधन न रह गया हो, नि:सहाय या दीन।	নিরুপায়, অসহায়, দীন	निरुपाय, असहाय, दीन	without remedy or resources, helpless, destitute, unfortunate.
बेचैन	वि.	व्याकुल, विफल या बेकल।	ব্যাকুল, অস্থির, বিচলিত	ब्याकुल, अस्थिर, बिचलित	uneasy, restless o disturbed.
बेचैनी	स्त्री.	बेचैन होने की अवस्था या भाव, व्याकुलता या बेकली।	ব্যাকুলতা, অস্থিরতা	ब्याकुलता, अस्थिरता	uneasiness, restlessness, disquietude.
बेजा	वि.	जो उचित या संगत न हो।	অনুচিত, অসংগত	अनुचित, असङ्गत	out of place, improper.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेजान	वि.	1. बहुत ही अशक्त या दुर्बल; 2. निर्जीव।	অত্যন্ত দুর্বল; নির্জীব, নিষ্প্রাণ	अत्यन्त दुर्बल; निर्जीब, निष्प्रान	very weak, faint; lifeless, inanimate.
बेजार	वि.	जो किसी बात से बहुत ही तंग आ गया हो।	অসন্তুষ্ট, বিরক্ত	असन्तुष्ट, बिरक्त	fed up (with), tired.
बेजोड़	वि.	जिसके जोड़ या मुकाबले का और कोई न हो।	অতুলনীয়	अतुलनीय	unparalleled, unmatched, matchless.
बेटा	पु.	पुत्र।	পুত্র	पुत्र	son
बेटी	स्त्री.	पुत्री।	পুত্রী, কন্যা	पुत्री, कन्या	daughter.
बेड़ा	पु.	1. बहुत सी नावों या जहाजों आदि का समूह;	নৌবহর;	नौबहर;	fleet of boats or ships, flotilla;
		2. बड़े लट्ठों, लकड़ियों या तख्तों आदि को एक में बांधकर बनाया हुआ ढांचा।	কাঠ ইত্যাদির ভেলা	काठ इत्यादिर भेला	raft of timbers, plants etc.
बेड़ी	स्त्री.	1. लोहे के कड़ों की जोड़ी या जंजीर जो कैदियों को बांधने या पशुओं को बांधने के काम आती है;	বেড়ি, পা বাঁধিবার শিকল;	बेड़ि, पा बाँधिबार शिकल;	irons fastened to the legs of criminals or of a quadruped, fetter;
		2. बांस की टोकरी जिसके दोनों ओर रस्सी बंधी रहती है और जिसकी सहायता से नीचे से पानी उठाकर खेतों में डाला जाता है।	এক রকমের বাঁশের ঝুড়ি—ইহার দুই ধারে দড়ি বাঁধিয়া ইহা দ্বারা কূয়ার জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হয়	एक रकमेर बांशेर झुड़ि—इहार दुइ धारे दड़ि बाँधिया इहा द्वारा कुयार जल तुलिया क्षेते देओया हय	basket used to irrigate fields with.
बेडौल	वि.	1. जिसका डौल या रूप अच्छा न हो;	কুগঠন, কদাকার, কুরূপ, কুশ্রী;	कुगठन, कदाकार, कुरूप, कुश्री;	disproportionate, shapeless, ill-fashioned, ugly, clumsy;
		2. जो अपने स्थान पर उपयुक्त न जान पड़े।	বেমানান	बेमानान	awkward, misfit.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेढंगा (स्त्री.बेढंगी)	वि.	1. जिसका ढंग ठीक न हो;	বেআদব;	बेआदब;	ill-mannered, ill-behaved;
		2. जो ठीक क्रम या प्रकार से लगाया, रखा या सजाया न गया हो;	যাহা ঠিকমতো লাগান বা সাজান হয় নাই;	जाहा ठिकमतो लागान बा साजान हय नाइ;	ill-arranged;
		3. कुरूप, भद्दा या भोंडा।	বেঢং, কুরূপ	बेढं, कुरूप	ugly, unshapely.
बेढब	वि., क्रि. वि.	1. जिसका ढब या ढंग अच्छा या ठीक न हो;	অশিষ্ট, ইতর;	अशिष्ट, इतर;	unmannerly, rude;
		2. भद्दा या भोंडा।	কুশ্রী, কুরূপ	कुश्री, कुरूप	ill-shaped, ugly.
बेतरतीब	वि.	क्रमहीन या अस्त-व्यस्त।	এলোমেলো, অগোছাল	एलोमेलो, अगोछाल	disorderly or ill-arranged.
बेतहाशा	क्रि.वि.	बिना सोचे-समझे।	তড়িখড়ি	तड़िखड़ि	posthaste.
बेताब	वि.	जिसमें धैर्य या सब्र न हो, व्याकुल।	ধৈর্যহীন, যাহার সবুর সহে না	धैर्जहीन, जाहार सबुर सहे ना	restless, uneasy, impatient, restive.
बेतार	वि.	वायरलैस, ऐसी व्यवस्था जिसमें तार द्वारा दूर-दूर तक खबरें भेजी जाती हैं।	তারহীন	तारहीन	wireless.
बेतुका	वि.	जो बात अथवा कार्य अवसर, प्रसंग आदि के विचार से बहुत ही अनुपयुक्त तथा महत्वहीन हो।	অজগবি, আজগুবি, বাজে, অসংলগ্ন	अजगबि, आजगुबि, बाजे, असंलग्न	absurd, without any sense or meaning, incoherent.
बेदखल	वि.	जिसका किसी चीज पर से दखल अर्थात् कब्जा हटा दिया गया हो।	অধিকারলুপ্ত	अधिकारलुप्त	dispossessed, evicted.
बेदखली	स्त्री.	संपत्ति पर से दखल या कब्जे का हटाया जाना।	অধিকারচ্যুতি	अधिकारच्युति	dispossession, ejectment.
बेदम	वि.	बहुत कमजोर, शिथिल, बेजान।	দম ফুরাইয়া গিয়াছে এমন	दम फुराइया गियाछे एमन	exhausted, weakened, overtired.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेदर्द	वि.	दूसरों के कष्टों को देखकर दु:खी न होने वाला, कठोर-हृदय।	বেদরদী, সহানুভূতিহীন, মমতাহীন	बेदरदी, सहानुभूतिहीन, ममताहीन	devoid of compassion. pitiless, merciless, hard-hearted.
बेदर्दी	स्त्री.	1. बेदर्द होने की अवस्था या भाव;	মমতাহীনতা, সহানুভূতিহীনতা;	ममताहीनता, सहानुभूतिहीनता;	unfeelingness;
		2. बेरहमी, निर्दयता या कठोरता।	মানবত্বহীনতা, নির্দয়তা, কঠোরতা	मानबत्वहीनता, निर्दयता, कठोरता	inhumanity, mercilessness.
बेदाग	वि.	1. जिसमें या जिस पर कोई दाग या धब्बा न हो;	দাগহীন;	दागहीन;	blotless, spotless, clean;
		3. जिसके चरित्र में कोई ऐब या दोष न हो;	নিষ্কলঙ্ক;	निष्कलङ्क;	without blemish;
		3. निरपराध या बेकसूर।	নিরপরাধ, বেকসুর	निरपराध, बेकसुर	innocent, guiltless.
बेधड़क	क्रि. वि.	1. भय, मर्यादा अथवा संकोच की परवाह न करते हुए;	নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে;	निर्भये, असङ्कोचे;	without fear or hesitation or doubt, fearlessly;
		2. बिना कुछ सोचे-समझे।	নির্বিচারে	निर्बिचारे	recklessly, rashly.
बेधना	स. क्रि.	1. किसी नुकीली चीज की सहायता से छेद करना;	বিঁধা, বেঁধা, ছিদ্র করা;	बिंधा, बेंधा, छिद्र करा;	to pierce, to perforate, to bore;
		2. शरीर पर किसी प्रकार का क्षत या घाव करना।	বিঁধা, আহত করা	बिंधा, आहत करा	to wound, to stab.
बेपरवाह	वि.	1. जिसे किसी बात की चिन्ता न हो;	বেপরোয়া, নিরুদ্বেগ;	बपरोया, निरुद्वेग;	unconcerned, indifferent, free from worry or anxiety;
		2. जो किसी बात की परवाह न करता हो।	নির্ভয়	निर्भय	careless, fearless, bold.
बेफायदा	वि.	जिससे कोई लाभ न हो, निरर्थक या व्यर्थ।	অনর্থক, বার্থ	अनर्थक, ब्यर्थ	unprofitable, useless, vain.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेफिक्र	वि.	जिसे किसी प्रकार की कोई चिन्ता न हो।	নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ	निश्चिन्त, निरुद्वेग	free from care or anxiety.
बेफिक्री	स्त्री.	बेफिक्र होने की अवस्था या भाव।	নিশ্চিন্ততা, উদ্বেগহীনতা	निश्चिन्तता, उद्वेगहीनता	freedom from care, anxiety or solicitude, contentedness.
बेबस	वि.	जिसका कुछ वश न चले।	অক্ষম অসহায় বিবশ	अक्षम असहाय बिवश	powerless, helpless.
बेबसी	स्त्री.	बेबस होने की अवस्था या भाव, विवशता।	অক্ষমতা, বিহ্বলতা	अक्षमता, विह्वलता	helplessness.
बेबुनियाद	वि.	आधार रहित।	ভিত্তিহীন	भित्तिहीन	baseless, unfounded.
बेमजा	वि.	1. जिसमें कोई स्वाद न हो; 2. जिसके रंग में भंग हो गया हो।	স্বাদহীন; নষ্ট	स्वादहीन; नष्ट	tasteless, insipid; spoiled, ruined.
बेमानी	वि.	बिना मतलब या आवश्यकता के।	উদ্দেশ্যহীন, অনাবশ্যক	उद्देश्यहीन, अनावश्यक	senseless, unnecessary.
बेमेल	वि.	जिसका किसी से मेल न बैठता हो।	কাহারও সংগে যাহার মিলে না	काहारओ सङ्गे जाहार मिले ना	without unison, unharmonious, incongruous.
बेमौका	वि.	जो अपने उपयुक्त अवसर या स्थान पर न हो।	বেমক্কা	बेमक्का	out of place, untimely, out of season.
बेर	पु.	1. एक प्रसिद्ध कंटीला पेड़ जिसका फल खाने के काम आता है; 2. बार या दफा।	বদরীফল, কুল; বার, দফা	बदरीफल, कुल; बार, दफा	the jujube tree and the fruit of the jujube, time or turn.
बेरहम	वि.	जिसके हृदय में दया या प्रेम न हो।	দয়াহীন, নিষ্ঠুর, ক্রূর	दयाहीन, निष्ठुर, क्रूर	pitiless, merciless, cruel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेरहमी	स्त्री.	निर्दयता या निष्ठुरता।	নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা	निर्दयता, निष्ठुरता	hardness (of heart). mercilessness, cruelty.
बेरोकटोक	वि.	जिस पर किसी प्रकार की रोक न लगी हो।	নির্বোধ	निर्बोध	unrestrained, without check.
बेरोजगार	वि.	व्यवसायहीन।	বেকার	बेकार	unemployed.
बेरोजगारी	स्त्री.	बेरोजगार होने की अवस्था या भाव।	বেকারি	बेकारि	unemployment.
बेल	पु.	1. एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसका फल पेट के रोग के लिए गुणकारी होता है;	বিল্ববৃক্ষ, বিল্বফল;	बिल्बबृक्ष, बिल्बफल;	the wood apple or Bel-tree, Aegle marmelon, and its fruit;
		2. जमीन, दीवार, पेड़ आदि पर फैलनेवाला बिना तने का पौधा, लता;	লতাবিশেষ;	लताबिशेष;	creeper, climber, vine;
		3. किसी कपड़े पर टांका जानेवाला फूलपत्तीदार फीता।	ফুলপাতার নক্শা-কাটা রেশমী বা মখমলী ফিতা	फुलपातार नक्शा-काटा रेशमी बा मखमली फिता	lace.
बेलगाम	वि.	1. घोड़ा जिसके मुंह में लगाम न लगी हो;	বল্গাহীন, লাগামশূন্য;	बल्गाहीन, लागामशून्य;	unbridled (horse), licentious, intemperate;
		2. मुंह-फट।	মুখফোড়	मुखफोड़	loose-tongued, intemperate in speech.
बेलचा	पु.	एक प्रकार की छोटी कुदाल जिससे माली लोग बाग की क्यारियां आदि बनाते हैं।	কোদালজাতীয় খননাস্ত্র বিশেষ	कोदालजातीय खननास्त्र बिशेष	shovel.
बेलदार	पु.	वह मजदूर जो फावड़ा चलाने, जमीन खोदने आदि का काम करता हो।	কোদালিয়া, খনক	कोदालिया, खनक	one who digs with a spade, labourer.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेलन	पुं.	रोटी, पूरी आदि बेलने का 'बेलना' नामक उपकरण।	রুটি ইত্যাদি বেলিবার গোল-পিঠ কাষ্ঠদন্ড	रुटि इत्यादि बेलिबार गोल-पिठ काष्ठदन्ड	cylinder of wood, rolling-pin, roller.
बेलना	स. क्रि.	रोटी, पूरी, कचौरी आदि के पेड़े या लोई को चकले पर रखकर बेलने (उपकरण) की सहायता से आगे-पीछे बार-बार चलाते हुए बढ़ाकर बड़ा और पतला करना।	বেলা, বেলুন দিয়া রুটি ইত্যাদি গড়া	बेला, बेलुन दिया रुटि इत्यादि गड़ा	to roll into a flat cake.
बेलबूटा	पु.	किसी चीज पर अंकित या चित्रित लताओं, पेड़-पौधों आदि के अंकन या चित्र।	বেল	बेल	flowers or embroidery (on cloth etc.).
बेला	स्त्री.	1. चमेली आदि की जाति का एक प्रकार का छोटा पौधा जिसमें सफेद रंग के सुगन्धित फूल लगते हैं;	বেলফুল;	बेलफुल;	a kind of jasmine flower which is white and emits fragrance.
		2. समय, क्षण।	সময়, ক্ষণ	समय, क्षन	time, while, moment.
बेलाग	वि.	1. जिसमें किसी प्रकार की लगावट न हो, खरा;	নিষ্কলঙ্ক;	निष्कलङ्क;	without stain or blemish, faultless, without any favour or regard;
		2. सच्चा और साफ।	খাঁটি, পরিষ্কার	खाँटि, परिष्कार	irreproachable, clear and clean, true and clean.
बेवकूफ	वि.	नासमझ मूर्ख।	বেঅকুফ, বেআকুব	बेअकुफ, बेआकुब	foolish, stupid.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेवकूफी	स्त्री.	नासमझी, मूर्खता।	বেঅকুফি, বেঅকুবি, বেকুবি	बेअकुफि, बेअकुबि, बेकुबि	want of understanding, ignorance, stupidity, foolishness.
बेवफा	वि.	जिसमें निष्ठा, सद्भाव आदि बातें न हों, वचनभंग करनेवाला या दगाबाज।	নিষ্ঠাহীন, পাষন্ড, যে কথা দিয়া কথা রাখে না, দাগাবাজ	निष्ठाहीन, पाषन्ड, जे कथा दिया कथा राखे ना, दागाबाज	faithless, perfidious, treachrous, traitor.
बेवा	स्त्री.	विधवा स्त्री।	বেওয়া, বিধবা	बेओया, विधबा	widow.
बेशक	क्रि. वि.	1. बिना किसी प्रकार के शक या संदेह के; 2. अवश्य या जरूर।	নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ; অবশ্য	निश्चय, निःसन्देह; अबश्य	undoubtedly, doubtlessly; certainly.
बेशकीमत (बेशकीमती)	वि.	बहुमूल्य।	বহুমূল্য	बहुमूल्य	of great price or value, costly, precious.
बेशर्म	वि.	जिसे शरम या हया न हो, निर्लज्ज।	বেশরম, নির্লজ্জ, বেহায়া	बेशरम, निर्लज्ज, बेहाया	shameless, impudent, immodest.
बेशर्मी	स्त्री.	निर्लज्जता या बेहयाई।	নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা	निर्लज्जता, बेहायापना	shamelessness, immodesty, impudence.
बेशी	स्त्री.	1. अधिकता या ज्यादती; 2. लाभ या नफा।	বেশি, আধিক্য, উদ্বৃত্ত; লাভ	बेशि, आधिक्य, उद्वृत्त; लाभ	excess, surplus, increase; gain or premium.
बेशुमार	वि.	जो गिना न जा सके, अगणित।	অগণ্য, অগনতি, অগুন্তি, অসংখ্য	अगन्य, अगनति, अगुन्ति, असंख्य	countless, numberless, innumerable.
बेसन	पु.	चने की दाल का आटा।	ডালের গুড়া	दालेर गुड़ा	flour of grampulse.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेसमझ	वि.	नासमझ या मूर्ख।	অবুজ, মূর্খ	अबुज, मूर्ख	devoid of understanding or sense, ignorant, stupid.
बेसुध	वि.	1. बेहोश; 2. बेखबर या बदहवास।	বেহুঁশ; অজ্ঞ, ব্যাকুল	बेहुंश; अज्ञ, ब्याकुल	in a swoon, faint; senseless, fainted, unaware, bewildered.
बेसुर (बेसुरा)	वि.	1. जो अपने नियत स्वर में न हो; 2. जो ठीक स्वर में न गाता हो।	ঠিক সুরের বহির্ভূত; যাহার সুর ঠিক থাকে না	ठिक सुरेर बहिर्भूत; जाहार सुर ठिक थाके ना	out of tune; one who sings ignoring the tune.
बेहतर	वि.	अपेक्षाकृत अच्छा।	অধিকতর ভাল	अधिकतार भाल	better, superior, more worthy.
बेहद	वि.	असीम, अपार, बहुत अधिक।	বেহদ্দ	बेहद्द	boundless, endless, too much.
बेहया	वि.	निर्लज्ज या बेशर्म।	বেহায়া	बेहाया	shameless, immodest.
बेहाल	वि.	बुरी अवस्था में।	দুর্দশাপন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত	दुर्दशापन्न, दुरबस्थाग्रस्त	in a sad plight, in a bad shape or state.
बेहिसाब	वि.	अनगिनत, बहुत अधिक।	যাহার হিসাব নাই, অগণ্য, অসংখ্য	जाहर हिसाब नाइ, अगन्य, असंख्य	countless, beyond calculation, incalculable, too many.
बेहूदगी	स्त्री.	1. अशिष्टता या असभ्यता; 2. अर्थहीनता।	অশিষ্টতা, অসভ্যতা; অর্থহীনতা	अशिष्टता, असभ्यता; अर्थहीनता	impudence; nonsense.
बेहूदा	वि.	1. अशिष्ट या असभ्य; 2. अर्थहीन।	অশিষ্ট, অসভ্য; বেহুদা, অনর্থক	अशिष्ट, असभ्य; बेहुदा, अनर्थक	impudent; nonsensical.
बेहोश	वि.	अचेत या बेसुध।	বেহোঁশ, বেহুঁশ	बेहोंश, बेहुंश	unconscious, senseless.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बेहोशी	स्त्री.	अचेतनता या मूर्च्छा।	অচেতনতা, মূর্ছা	अचेतनता, मूर्च्छा	unconsciousness, senselessness.
बैंक	पु.	महाजनी लेन-देन की बड़ी कोठी।	ব্যাঙ্ক	ब्याङ्क	bank.
बैंगन	पु.	एक पौधा जिसके फल की तरकारी बनाई जाती है।	বেগুন	बेगुन	brinjal.
बैंगनी (बैंजनी)	वि.	जो ललाई लिए नीले रंग का हो।	বেগুনি, বেগুনী	बेगुनि, बेगुनी	of the colour of brinjal, purple.
बैंड	पु.	पाश्चात्य ढंग के कुछ विशिष्ट बाजों का समूह जो एक साथ बजाए जाते हैं।	ব্যান্ড	ब्यान्ड	band or orchestra
बैज	पु.	संस्था-विशेष आदि को सूचित करनेवाला चिह्न।	ব্যাজ	ब्याज	badge.
बैटरी	स्त्री.	तांबे या पीतल आदि का वह पात्र जिसमें रासायनिक पदार्थों के योग से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बिजली पैदा करके काम में लाई जाती है।	ব্যাটারি	ब्याटारि	battery which gives light when charged.
बैठक	स्त्री.	1. बैठने का स्थान;	বসিবার স্থান;	बसिबार स्थान;	place where people meet to sit and converse;
		2. सभासदों का एकत्र होना।	সভ্যগণের একত্র উপবেশন	सभ्यगनेर एकत्र उपबेशन	meeting.
बैठका	पु.	वह कमरा जहां लोग बैठते हों।	বৈঠকখানা	बैठकखाना	sitting room, drawing room.
बैठना	अ.क्रि	1. आसीन होना;	বৈঠক, বসা;	बैठक, बसा;	to sit, to be seated;
		2. किसी स्थान या अवकाश में ठीक रूप से जमना;	বৈঠ, বাস করা;	बैठ बास करा;	to settle;
		3. जल आदि में घुली हुई वस्तु का नीचे आधार में जा लगना।	থিতান, থিতানো	थितान, थितानो	to sink down, to settle down.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बैठाना	स.क्रि	1. स्थित करना या आसीन करना;	বসানো;	बसानो;	to set, to plant, to cause, to settle down;
		2. आसन पर विराजने को कहना;	উপবেশন করান;	उपबेशन करान;	to cause to sit down, to cause to be seated;
		3. पद पर स्थापित करना।	পদে অধিষ্ঠিত করা	पदे अधिष्ठित करा	to place, to establish.
बैना	पु.	शुभ अवसरों पर इष्ट-मित्रों तथा संबंधियों के यहां से आने अथवा उनके यहां भेजी जाने वाली मिठाई।	কোনো শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবকে যে মিষ্টি পাঠান হয়	कोनो शुभ अनुष्ठान उपलक्ष्ये बन्धुबान्धबके जे मिष्टि पाठान हय	sweets exchanged between friends and relations on auspicious occasions.
बैनामा	पु.	वह पत्र जिसमें किसी वस्तु विशेषतः मकान या जमीन, जायदाद आदि के बेचने और उससे संबंध रखनेवाली शर्तों का उल्लेख होता है।	বায়নাপত্র	बायनापत्र	deed.
बैरंग	वि.	वह पत्र जिस पर उचित मूल्य के टिकट न लगे हों, फलतः जिसका महसूल उसे पानेवाले को चुकाना पड़ता हो।	বেয়ারিং	बेयारिं	bearing (postage), unpaid.
बैर	पु.	शत्रुता या बदला लेने की भावना।	শত্রুতা	शत्रुता	enmity, hostility, animosity, ill-will.
बैरा	पु.	खाना खिलाने वाला सेवक।	বেয়ারা	बेयारा	bearer, valet.
बैरी	वि.	शत्रु या अनिष्ट करनेवाला।	শত্রু, অরি	शत्रु, अरि	foe, adversary, enemy.
बैल	पु.	1. प्रसिद्ध नर चौपाया जो गाड़ी और हल आदि में जोता जाता है;		वृष;	bullock, ox;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. बहुत मूर्ख;	অকাট মূর্খ;	अकाट मूर्ख;	(met.) blockhead, fool;
		3. परिश्रमी व्यक्ति।	পরিশ্রমী ব্যক্তি	परिश्रमी व्यक्ति	(fig.) hardworker.
बैलगाड़ी	स्त्री.	बैल द्वारा खींची जानेवाली गाड़ी।	গরুর গাড়ী	गरुर गाड़ी	bullock-cart.
बैसाख	पु.	चैत के बाद और जेठ से पहले का महीना, वैशाख।	বৈশাখ	बैशाख	the second of the twelve months according to the Hindu calendar.
बैसाखी	स्त्री.	1. वैशाख का पहला दिन जिस दिन उत्सव मनाया जाता है;	পয়লা বৈশাখের উৎসব, নব-বর্ষের উৎসব;	पयला बैशाखेर उत्सब नब-बर्षेर उत्सब;	a festival falling on the first day of the month of Baisakh;
		2. डंडों का वह सहारा जिसके सहारे लंगड़े चलते हैं।	খঞ্জের যষ্টি, ক্রাচ্	खञ्जेर जष्टि, क्राच्	crutch.
बोझ (बोझा)	पु.	वजन, भार।	বোঝা, ভার	बोझा, भार	load, burden.
बोझिल	वि.	1. अधिक बोझवाला;	অত্যন্ত ভারী;	अत्यन्त भारी;	heavy, massive;
		2. जो काम विकट हो तथा जिसमें रुचि न लगती हो।	যে কাজ বোঝা-স্বরূপ মনে হয়	जे काज बोझा-स्वरूप मने हय	difficult or uninteresting task.
बोटी	स्त्री.	मांस का छोटा टुकड़ा।	মাংসের ছোট টুকরা	मांसेर छोट टुकरा	a small bit, slice or morsel of flesh or meat.
बोतल	स्त्री.	कांच की लंबी गरदन का गहरा बरतन जिसमें द्रव्य रखा जाता है।	বড় শিশি	बड़ शिशि	bottle.
बोदा	वि.	दुर्बल, हतोत्साह, दब्बू।	দুর্বল, নিরুৎসাহ	दुर्बल, निरुत्साह	weak, feeble, low-spirited.
बोध	पु.	ज्ञान या जानकारी।	জ্ঞান, অবগতি, অনুভব	ज्ञान, अबगति, अनुभब	knowledge, knowing, understanding.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बोधक	पु.	बोध या ज्ञान करानेवाला।	বোধয়িতা	बोधयिता	causing to know, informing, teaching.
बोनस	पु.	किसी संस्था के कर्मचारियों को संस्था के लाभ से मिलनेवाला हिस्सा।	বোনাস	बोनास	bonus.
बोना	स.क्रि	पेड़-पौधे उगाने के लिए जमीन में बीज दबाना या बोना।	বুনা	बुना	to sow, to plant.
बोरा	पु.	टाट का बना हुआ बड़ा थैला जिसमें भारी सामान रखा जाता है।	বস্তা, চটের খুব বড় থলি	बस्ता, चटेर खुब बड़ खलि	gunny bag, sack.
बोराबंदी	स्त्री.	1. अनाज आदि सामान को बोरे में भरकर बन्द करने का काम;	বস্তা বন্দীকরণ;	बस्ता बन्दीकरन;	filling and sealing bags of corn, etc.;
		2. अनाज आदि की बिक्री का वह प्रकार जिसमें पूरे भरे हुए बोरे ही बेचे जाते हैं।	বস্তা হিসাবে শস্যাদির বিক্রয়	बस्ता हिसाबे शस्यादिर बिक्रय	sale and purchase of full bags of corn etc.
बोरी	स्त्री.	टाट की छोटी थैली।	চটের ছোট থলি	चटेर छोट थलि	small gunny bag.
बोल	पु.	1. बोलने पर मनुष्य के मुख से निकला हुआ सार्थक पद या वाक्य;	বাক্যনিঃসরণ, ভাষা;	बाक्यनिःसरन, भाषा;	utterance, phrase, sentence;
		2. कही हुई बात, उक्ति या कथन।	বুলি, কথা	बुलि कथा	speech, talk etc.
बोलचाल	स्त्री.	1. परस्पर बातचीत या वार्तालाप;	সম্ভাষণ, পরস্পর বার্তালাপ;	सम्भाषन, परस्पर बार्तालाप;	talk, conversation;
		2. बातचीत करने का ढंग।	বলার ধরণ	बलार धरन	mode of speech.
बोलती	स्त्री.	बोलने की शक्ति, बोलना।	বাচনশক্তি, কথন	बाचनशक्ति, कथन	power of speech, act of speaking.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
बोलना	स.क्रि	1. शब्द, ध्वनि आदि को साधारण स्वर में उच्चरित करना; 2. शब्दों द्वारा कहकर विचार प्रकट करना।	বলা, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা; বলা, কহা	बला, कथाय प्रकाश करा, उच्चारन करा; बला, कहा	give utterance to: to speak, talk, tell, say.
बोलबाला	पु.	उत्कर्ष, मानप्रतिष्ठा का अधिक होना।	বোলবোলাও, অভ্যুদয় নামডাক	बोलबोलाओ, अभ्युदय, नामडाका	influence, sway, currency.
बोली	स्त्री.	1. बोलने की क्रिया या भाव; 2. स्थानिक भाषा; 3. नीलामी में लगाया जानेवाला दाम; 4. चिढ़ाने या लज्जित करने अथवा व्यंग्य की बात।	কথা, বোলি, বুলি; উপভাষা; ডাক; ব্যংগোক্তি	कथा, बोली, बुलि; उपभाषा; डाक; व्यङ्गोक्ति	speech (in general); dialect; bid (at an auction); jeer, ridicule, taunt.
बोहनी	स्त्री.	किसी सौदे या दिन की पहली बिक्री।	বউনী	बउनी	handsel, first sale for ready money early in the day.
बौखलाना	अ. क्रि.	1. आवेश या क्रोध में आकर अंड-बंड बकना; 2. मानसिक संतुलन खो बैठना।	আবেগ বশে বা রাগের মাথায় যা তা বলা; মেজাজ খারাপ করা	आबेग बशे बा रागेर माथाय जा ता बला; मेजाज खाराप करा	to talk nonsense out of passion or anger; to lose temper.
बौखलाहट	स्त्री.	बौखलाने की अवस्था या भाव।	মেজাজ খারাপ হওয়া	मेजाज खाराप हओया	frenzy, fury, (mental) agitation, wild folly.
बौछार	स्त्री.	बूंदों की झड़ी जो हवा के झोंके से तिरछी गिरती हो।	জোর হাওয়ার সংগে প্রবল বৃষ্টি	जोर हाओयार सङ्गे प्रबल बृष्टि	heavy shower of rain, spray.
बौड़म	वि.	मूर्ख या सनकी।	মূর্খ, খামখেয়ালী	मूर्ख, खामखेयाली	idiot or eccentric.
बौना	पुं.वि.	जो प्राकृतिक रूप से साधारण लम्बाई से कम हो।	বামন	बामन	dwarf, dwarfish.
बौर	पुं.	आम की मंजरी।	বোল, বউল, বোল	बौल, बउल, बोल	blossom of the mango tree.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
ब्याज	पुं.	वह धन जो ऋण देने अथवा बैंक आदि में जमा करवाने पर मूलधन के ऊपर मिले।	সুদ	सुद	interest (on money).
ब्याजखोर	पुं.	वह जो सूद पर रुपया कर्ज दे, ब्याज की कमाई खानेवाला।	সুদখোর	सुदखोर	usurer.
ब्याना	स. क्रि.	मादा पशुओं का सन्तान प्रसव करना।	বিয়ান, বিয়া	बियान, बिया	to give birth to (applied to animals), to calve.
ब्यालू	पुं.	रात के समय का भोजन।	রাতের আহার	रातेर आहार	evening meal, supper.
ब्याह	पुं.	वह रीति या रस्म जिससे स्त्री और पुरुष में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।	বিবাহ, বিয়ে	बिबाह, बिये	marriage.
ब्याहता	वि., स्त्री.	जिसके साथ विवाह हुआ हो, विवाहिता स्त्री, पत्नी।	বিবাহিতা, বিবাহিতা নারী, স্ত্রী	बिबाहिता, बिबाहिता नारी, स्त्री	married, married woman, wife
ब्याहना	स. क्रि.	1. देश, काल और जाति की रीति के अनुसार पुरुष का किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना;	বিবাহ, বিবাহ করা;	बिबाह, बिबाह करा;	to marry, to wed;
		2. किसीका किसीके साथ विवाह-संबंध करना।	বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করা	बिबाहसम्बन्ध स्थापन करा	to give or to take in marriage.
ब्यौरा	पुं.	किसी घटना के अंतर्गत एक बात का उल्लेख या कथन, पूरा वृत्तांत या सारा हाल।	কোনো ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ	कोनो घटनार खुंटिनाटि बिबरन	detailed account, details, particulars.
ब्यौरेवार	वि. क्रि. वि.	एक-एक बात के उल्लेख के साथ।	বিস্তৃত, বিস্তৃতভাবে	बिस्तृत, बिस्तृतभाबे	detailed.
ब्रह्मचर्य	पुं.	चार आश्रमों में से पहला आश्रम जिससे पुरुष गृहस्थी	চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম,	चतुराश्रमेर प्रथम आश्रम,	one of the four Ashramas of life in

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		के झंझटों से मुक्त केवल अध्ययन करता है।	দ্বিজগণের বেদগ্রহনার্থ ব্রতবিশেষ	द्विजगनेर बेदग्रहनार्थ ब्रतबिशेष	Hindu philosophy of life in which one devotes oneself to study only and remains unmarried, hence the life of celibacy.
ब्रह्मचारी	पुं.	ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाला व्यक्ति.।	ব্রহ্মচর্যব্রতী, ব্রহ্মচর্য পালনকারী	ब्रह्मचर्जब्रती, ब्रह्मचर्ज पालनकारी	one who vows to lead the life of a celibate, a celibate.
ब्रह्महत्या	स्त्री.	ब्राह्मण का वध या हत्या करना।	ব্রাহ্মণবধ	ब्राह्मनबध	killing a Brahman, Brahmanicide.
ब्रह्मांड	पुं.	1. चौदह भुवनों का समूह; 2. खोपड़ी या कपाल।	চতুর্দশভুবনগোলক; মস্তকশীর্ষ	चतुर्दशभुबनगोलक; मस्तकशीर्ष	universe; top of head, skull.
ब्रह्मानंद	पुं.	ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होने पर प्राप्त होनेवाला आनन्द जो सब प्रकार के आनन्दों से बढ़कर माना जाता है।	ব্রহ্মজ্ঞানজন্য আনন্দ, ব্রহ্মোপলব্ধিজনিত আনন্দ	ब्रह्मज्ञानजन्य आनन्द, ब्रह्मोपलब्धिजनित आनन्द	bliss or rapture of absorption into Brahma.
ब्राह्मण	पुं.	1. हिंदुओं के चार वर्णों में से पहला और सर्वश्रेष्ठ वर्ण; 2. उक्त जाति का व्यक्ति।	বিপ্র, বর্ণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণবর্ণের পুরুষ	बिप्र, बर्नश्रेष्ठ; ब्राह्मबर्नेर पुरुष	first of the four Hindu classes; member of the first of the four Hindu classes.
ब्राह्ममुहूर्त	पुं.	सूर्योदय से पहले दो घड़ी तक का समय जो बहुत ही शुभ तथा पवित्र माना गया है।	রাত্রির শেষার্ধপ্রহর, অরুণোদয়কালের অর্থাৎ শেষ চারি দন্ডের প্রথম দন্ডদ্বয়	रात्रिर शेषार्द्धप्रहर, अरुनोदयकालेर अर्थात् शेष चारि दन्डेर प्रथम दन्डद्वय	dawn, the hour preceding sunrise.
ब्रेक	पुं.	गाड़ियों में पहिये या गति-चक्र की गति .रोकनेवाला उपकरण।	গাড়ী ইত্যাদির গতিরোধক যন্ত্র, ব্রেক	गाड़ी इत्यादिर गतिरोधक जन्त्र, ब्रेक	brake.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
ब्लाउज	पुं.	साड़ी के साथ पहनने का एक प्रकार का वस्त्र।	মেয়েদের জামাবিশেষ	मेयेदेर जामाबिशेष	blouse.
ब्लेड	पुं.	पतली धातु का तेज धार-वाला टुकड़ा जिससे दाढ़ी बनाई जाती है।	ব্লেড্	ब्लेड्	blade.
भंग (भांग)	स्त्री.	1. एक पौधा जिसकी पत्तियां नशीली होने के कारण लोग पीसकर पीते हैं;	ভাঙ্, ভাং, ভংগা;	भाङ्, भां, भङ्गा;	hemp plant;
		2. इन पत्तियों को घोंटकर बनाया हुआ पेय।	ভাঙের সরবৎ	भाङेर सरबत्	intoxicating bever-age, narcotic commonly called 'Bhang' prepared from the hemp plant.
	पुं.	1. टूटने की क्रिया या भाव;	ভাংগন, ভঞ্জন;	भाङ्गन, भंजन;	break, fracture,
		2. ध्वंस, नाश;	বিধ্বংশ, নাশ;	बिध्वंश, नाश;	destruction, ruin;
		3. व्यवधान, बाधा;	ব্যাঘাত, বাধা;	ब्याघात, बाधा;	interruption, obstacle, disturbance;
		4. समाप्ति।	সমাপ্তি	समाप्ति	suspension, stoppage.
भंगिमा	स्त्री.	1. वह कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा जिससे कोई विशिष्ट मनोभाव प्रकट होता है, अदा;	ভংগি, মনোভাবসূচক অংগচালনা;	भङ्गि, मनोभावसूचक अङ्गचालना;	gesture, pose, posture;
		2. वक्रता, कुटिलता।	বক্রতা, কুটিলতা	बक्रता, कुटिलता	curvature, obliquity.
भंगी	पुं.	मैल, कूड़ा-करकट की सफाई करनेवाली एक जाति या उक्त जाति का व्यक्ति।	মেথর, ধাঙর, ভাংগী	मेथर, धाङ्र, भाङ्गी	sweeper, scavenger.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भंगुर	वि.	1. भंग होने अर्थात् टूट-फूट कर विघटित होनेवाला;	ভংগপ্রবণ, টুনকো;	भङ्गप्रबन, टुनको;	apt to break, fragile, brittle;
		2. अधिक दिन न टिकनेवाला, नाशवान।	ক্ষণস্থায়ী, নাশশীল, নশ্বর	क्षनस्थायी, नाशशील, नश्वर	transitory, transient, perishable.
भंगेड़ी (भंगड़)	पुं.	भांग पीने की लतवाला, बहुत भांग पीनेवाला।	ভাংগড়, সিদ্ধিখোর	भाङ्गड़, सिद्धिखोर	one addicted to hemp (bhang).
भंजन	पुं.	1. भंग करना, तोड़ना;	ভংগকরণ;	भङ्गकरन;	breaking, separating, dividing;
		2. ध्वंस, नाश।	ধ্বংস, নাশ	ध्वंस, नाश	demolishing, destroying.
भंडा-फोड़	पुं.	किसीके गुप्त रहस्यों या कुचक्रों का प्रकटीकरण।	হাটে হাঁড়ি ভাংগা	हाटे हाँड़ि भाङ्गा	exposure (of a secret etc.).
भंडार (भांडार)	पुं.	1. कोष, खजाना;	কোষ, ধনাগার;	कोष, धनागार;	treasury;
		2. राशि, ढेर;	রাশি, ঢের;	राशि, ढेर;	depository, repository;
		3. घर का अन्नादि रखने का स्थान, कोठा।	ভাঁড়ার	भांड़ार	place where household goods and utensils are kept, store-room.
भंडारा	पुं.	साधु, संन्यासियों आदि के लिए भोज।	সন্ন্যাসী সাধু-সন্তদের ভোজ	सन्न्यासी साधु-सन्तदेर भोज	feast for mendicants etc.
भंडारी	पुं.	1. भंडार का अध्यक्ष या प्रबन्धक;	ভান্ডারী, ভাঁড়ারী;	भान्डारी, भांड़ारी;	store-keeper;
		2. रसोइया।	পাচক	पाचक	cook.
भंवर	पुं.	1. जलावर्त;	ভ্রমরক, জলভ্রমি;	भ्रमरक, जलभ्रमि;	whirl, whirlpool, vortex;
		2. भ्रमर, भौंरा।	ভ্রমর, মধুকর, ভমর	भ्रमर, मधुकर, भमर	large black-bee, the bumble-bee.
भकोसना	स. क्रि.	बहुत बड़े-बड़े तथा एक पर एक ग्रास मुंह में डालते चलना, ठूंसना।	গোগ্রাসে গিলা	गोग्रासे गिला	to eat, to devour, to swallow.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भक्त	वि.	1. अनुरागी, वफादार;	অনুরাগী, অনুরক্ত;	अनुरागी, अनुरक्त;	attached or devoted to, loyal, faithful;
		2. अनुयायी, अनुगामी;	অনুগত;	अनुगत;	believer, follower;
		3. किसी पर भक्ति और श्रद्धा रखनेवाला।	ভক্তিমান	भक्तिमान	having faith in or loyalty to someone.
	पुं.	उपासक, सेवक।	পূজক, সেবক	पूजक, सेबक	devotee, worshipper.
भक्ति	स्त्री.	1. धार्मिक क्षेत्र में आराध्य, ईश्वर, देवता आदि के प्रति होनेवाला श्रद्धापूर्ण अनुराग जिसके फल-स्वरूप वह सदा उसका अनुयायी रहता है और अपने आपको उसका वशवर्ती मानता है;	ঈশ্বর দেবতাদি আরাধ্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ;	ईश्वर देवतादि आराध्येर प्रति सुगभीर अनुराग;	devotion, loyalty·
		2. सेवा;	সেবা;	सेबा;	service, worship, homage;
		3. स्नेह;	স্নেহ;	स्नेह;	attachment, affection;
		4. श्रद्धा।	শ্রদ্ধা	श्रद्धा	reverence.
भक्षक	वि. पुं.	खानेवाला, खा जानेवाला, भक्षण करनेवाला।	খাদক, ভোক্তা, ভক্ষণকারী	खादक, भोक्ता, भक्षनकारी	one who eats or lives upon, glut-tonous, voracious eater, devourer, glutton.
भक्षण	पुं.	खाना।	ভোজন, আহার	भोजन, आहार	eating, feeding, devouring.
भक्षी	वि.	खानेवाला, भक्षक।	ভোজী, ভক্ষণকারী	भोजी, भक्षनकारी	eating, devouring.
भक्ष्याभक्ष्य	वि.	खाद्य और अखाद्य (पदार्थ)।	খাদ্যাখাদ্য	खाद्याखाद्य	(food) allowed and prohibited.
भगंदर	पुं.	गुदावर्त के किनारे होने-वाला फोड़ा जो फूटने पर नासूर हो जाता है।	মলদ্বারে নালী-ঘা	मलद्वारे नाली-घा	fistula in the anus or duodenum.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भगत (भगतिन	वि. स्त्री)	1. भक्त, भगवद्भजन में लगा रहनेवाला;	ভকত, ভক্ত;	भकत, भक्त;	righteous, pious, devotee;
		2. धार्मिक दृष्टि से मांस-मछली न खानेवाला, निरामिषभोजी।	ধর্মের কারণে নিরামিষভোজী	धर्मेर कारने निरामिषभोजी	vegetarian.
भगदड़	स्त्री.	संकट की स्थिति में भीड़ का संत्रस्त होकर इधर-उधर भागना।	ছত্রভংগ, সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ দ্রুত পলায়ন	छत्रभङ्ग, सन्त्रस्त हइया इतस्ततः द्रुत पलायन	stampede, panic.
भगना	अ. क्रि.	दे० 'भागना।	দ্র: "ভাগনা"	द्र: "भागना"	see. 'भागना'
भगवा	पु.	1. काषाय वस्त्र, गेरुआ वस्त्र;	কষায় বস্ত্র গেরুয়া কাপড়;	कषाय बस्त्र गेरुया कापड़;	saffron coloured clothes;
		2. गेरू की तरह एक प्रकार का लाल रंग।	জাফরানী রং	जाफरानी रं	saffrony.
भगवान	पु.	परमेश्वर।	পরমেশ্বর	परमेश्बर	the Supreme Being, God.
	वि.	पूज्य, आदरणीय और महिमाशाली।	পূজ্য, মান্য, মহিমান্বিত	पूज्य, मान्य, महिमान्वित	revered, venerable, divine, holy.
भगाना	स. क्रि.	1. डरा धमकाकर भागने को विवश करना, खदेड़ना;	ভাগান, ভাগানো;	भागान, भागानो;	to cause to flee or escape, to cause to run away, to chase out;
		2. स्त्री, बच्चे आदि को उसके अभिभावकों से छिपाकर, उठाकर, या फुसलाकर कहीं ले जाना;	ভাগাইয়া নেওয়া, চুরি করা;	भागाइया नेओया, चुरि करा;	to elope, to kidnap, to abduct;
		3. दूर करना, हटाना।	ভাগানো, ভাগান, দূর করা তাড়ান	भागानो, भागान, दूर करा, ताड़ान	to drive off, to remove.
भगिनी	स्त्री.	बहन।	বোন	बोन	sister.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भगोड़ा	पु.	1. छिपकर या डरकर भागा हुआ व्यक्ति;	পলায়নকারী, পলাতক;	पलायनकारी, पलातक;	absconder, fugitive;
		2. रणभूमि से भागनेवाला व्यक्ति, कायर या डरपोक व्यक्ति।	যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কাপুরুষ, ভীরু ব্যক্তি	जुद्धक्षेत्रे पृष्ठ-प्रदर्शनकारी व्यक्ति कापुरुष भीरु व्यक्ति	run-away, deserter.
भग्नावशेष	पु.	1. किसी टूटे-फूटे मकान या उजड़ी हुई बस्ती का बचा हुआ अंश, खंडहर;	ভগ্নশেষ;	भग्नशेष;	remains, ruins;
		2. किसी टूटी-फूटी चीज के बचे हुए टुकड़े।	মূল পদার্থ ধ্বংস হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে	मूल पदार्थ ध्वंस हइया गेले जाहा अबशिष्ट थाके	relics.
भजन	पु.	1. ईश्वर या उपास्य देवता और उसकी लीलाओं का श्रद्धापूर्वक गुणगान और स्मरण करना;	ঈশ্বরের বা দেবতাবিশেষের মহীমা কীর্তন;	ईश्वरेर बा देबताबिशेषेर महीमा कीर्तन;	worship, adoration;
		2. देवता या ईश्वर की स्तुति में रचित गेय पद।	ঈশ্বর বা দেবতা-বিশেষের স্তুতি-সূচক গান	ईश्वर बा देबता-बिशेषेर स्तुति-सूचक गान	hymn, devotional song.
भजनी	पुं.	भजन गानेवाला।	যে ভজন গান করে	जे भजन गान करे	one who sings devotional songs.
भटकना	अ. क्रि.	1. रास्ता भूलना;	পথ ভুল করা;	पथ भुल करा;	to go astray, to lose the path or way;
		2. व्यर्थ घूमना;	লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ান;	लक्ष्यहीनभाबे घुरिया बेड़ान;	to wander about aimlessly;
		3. भ्रम में पड़ना	বিভ্রান্ত হওয়া	बिभ्रान्त हओया	to be confused or to be perplexed to be bewildered.
भटकाना	स. क्रि.	1. गलत रास्ता बताना बहकाना;	ভুল পথ দেখাইয়া দেওয়া;	भुल पथ देखाइया देओया;	to cause to stray or to wander, to mislead;
		2. भ्रम में डालना।	বিভ্রান্ত করা	बिभ्रान्त करा	to bewilder.
भटकाव	पु.	भटकने की क्रिया, दशा या भाव, भटक।	বিপথ গমন	बिपथ गमन	aberration.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भट्ठा	पु.	1. ईंटें आदि पकाने का पजावा;	ভাটি, ভাটী, ইঁট পোড়াইবার পাজা;	भाटि, भाटी, ईंट पोड़ाइबार पाजा;	brick kiln;
		2. बड़ी भट्ठी।	বড় ভাটি	बड़ भाटि	furnace.
भट्ठी(भट्टी)	स्त्री.	1. वह घिरा हुआ आधान या स्थान जिसमें धातु आदि गलाने या कुछ विशिष्ट प्रकार की चीजों के लिए आग जलाई जाती है या ताप उत्पन्न किया जाता है;	ভাটি, ভাটী;	भाटि, भाटी;	furnace, small kiln;
		2. देशी शराब बनाने का स्थान।	ভাঁটি	भाँटि	distillery.
भठियारा (भटियारा)	पु.	सराय का मालिक या प्रबंधक जो यात्रियों के टिकने, खाने-पीने आदि की व्यवस्था करता है।	সরাইয়ের মালিক বা ব্যবস্থাকারী	सराइयेर मालिक बा व्यबस्थाकारी	one who keeps a sarai, inn-keeper.
भड़कना	अ. क्रि.	1. प्रज्वलित होना और जोर से जलने लगना;	প্রজ্বলিত হওয়া;	प्रज्वलित हओया;	to be blown into flame, blaze up;
		2. आवेश या क्रोध से युक्त होना;	উত্তেজিত হওয়া, রাগে জ্বলিয়া উঠা;	उत्तेजित हओया, रागे ज्वलिया उठा;	to get excited or enraged, to flare up;
		3. चौंकना, बिदकना;	চমকিত হওয়া, চমকানো, ভয় পাওয়া;	चमकित हओया, चमकानो, भय पाओया;	to startle, to be startled, to be scared or alarmed;
		4. किसी प्रकार के मनोभाव का सहसा प्रबल होना।	আবেগে অভিভূত হওয়া	आवेगे अभिभूत हओया	to overflow (with feelings or emotions).
भड़काना	स.क्रि क्रि.	1. आग को तेज करना;	অগ্নি প্রজ্বলিত করা, জ্বালা;	अग्नि प्रज्वलित करा, ज्वाला;	to blow up into a flame, to kindle, to inflame;
		2. उत्तेजित या क्रुद्ध करना;	উত্তেজিত করা, রাগাইয়া দেওয়া, ক্রুদ্ধ করা;	उत्तेजित करा, रागाइया देओया, क्रुद्ध करा;	to provoke or incite, to encourage;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. तीव्र या प्रबल करना;	তীব্র করা, প্রবল করা;	तीव्र करा, प्रबल करा;	to intensify, to aggravate;
		4. चौंकाना, डराना।	চমকাইয়া দেওয়া, ভয় দেখানো	चमकाइया देओया, भय देखानो	to startle, scare, frighten.
भड़कीला	वि.	चमक दमकवाला, भड़कदार।	চক্‌মকে, জাঁকাল জমকাল	चक्‌मके, जांकाल, जमकाल	glittering, gorgeous, showy gaudy.
भड़भड़ाना	स. क्रि.	निरर्थक शीघ्रता या उतावली बरतना।	তড়বড় করা	तड़बड़ करा	to be rash, to be thoughtlessly hasty.
	अ. क्रि.	'भड़भड़' शब्द होना।	ভড় ভড় শব্দ হওয়া	भड़ भड़ शब्द हओया	to crackle, etc. to flutter.
भड़भड़िया	पु.	व्यर्थ की और बहुत अधिक बातें करनेवाला।	যে বেশী বকবক করে, বাচাল	जे बेशी बकबक करे, बाचाल	one who talks too much and too loudly, loquacious.
भड़भूंजा	पु.	एक जाति जो भाड़ में अन्न भूनने का काम करती है।	যে ভান্ডে শস্য ভাজে এমন এক জাতি	जे भान्डे शस्य भाजे एमन एक जाति	one who parches grain (cereals).
भड़ास	स्त्री.	दिल में भरी हुई बातें, गुबार, मानसिक असंतोष।	অন্তরে অবরুদ্ধ ক্রোধাদি, মানসিক অসন্তোষ	अन्तरे अबरुद्ध क्रोधादि, मानसिक असन्तोष	stored up resentment, accumulated grudge.
भड़ुआ	पु.	1. वेश्याओं के साथ तबला या सारंगी बजानेवाला; 2. वेश्याओं का दलाल।	ভাড়ুআ, ভাড়ুয়া, বাইজীর বাদক; বেশ্যার দালাল	भाड़ुआ, भाड़ुया, बाइजीर बादक; बेश्यार दालाल	attendant on a dancing girl; one who lives on the earnings of a prostitute, pimp, procurer.
भतीजा	पु.	भाई का बेटा।	ভাতিজা, ভাইপো	भातिजा, भाइपो	brother's son, nephew.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भत्ता	पु.	वह धन जो किसी कर्मचारी को उसके वेतन के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रयोजनों (मंहगाई, यात्रा, मकान किराया आदि) के लिए अतिरिक्त व्यय के विचार से दिया जाता है।	ভাতা	भाता	allowance.
भद्द	स्त्री.	अपमान।	অপমান	अपमान	insult, ignominy, indignity.
भद्दा	वि.	1. कुरूप, वेढंगा, बेडोल; 2. अश्लील, फूहड़; 3. अनुचित, अयुक्त।	কুরূপ বেঢব, বেঢং, বেডৌল; অপোছাল; অনুচিত, অনুপযোগী	कुरूप बेढब, बेढं, बेडौल; अपोछाल; अनुचित, अनुपजोगी	clumsy, awkward, ungainly; slovenly, shoddy; improper, inapt, unsuitable.
भद्र	वि.	1. शिष्ट, सभ्य और सुशिक्षित; 2. भला, नेक; 3. शुभ, मंगलकारी।	শিষ্ট, সভ্য, মার্জিতরুচি; শ্রেষ্ঠ, সজ্জন; কল্যাণকর, শুভ, মংগলজনক	शिष्ट, सभ्य, मार्जितरुचि; श्रेष्ठ, सज्जन; कल्यानकर, शुभ, मङ्गलजनक	gentle, noble, polite; benevolent, virtuous; auspicious, fortunate, lucky.
भद्रता	स्त्री.	शिष्टता, सभ्यता, भलमनसी, शराफत।	শিষ্টতা, সভ্যতা, ভালমানুষি, সজ্জনতা	शिष्टता, सभ्यता, भालमानुषि, सज्जनता	gentleness, politeness, nobility.
भनक	स्त्री.	1. धीमी और अस्पष्ट ध्वनि; 2. उड़ती हुई खबर।	ঢিমা, এবং অস্পষ্ট ধ্বনি; উড়ো খবর	ढिमा, एबं अस्पष्ट ध्वनि; उड़ो खबर	low or distant sound, hum; inkling or clue.
भनभनाना	अ. क्रि.	'भनभन' शब्द करना, गुंजारना।	ভন্‌ভন্‌ করা	भन्‌भन्‌ करा	to buzz, hum, to have a ringing sound (in the ear)
भन्नाना	अ. क्रि.	क्षोभयुक्त, उद्वेग से युक्त होना।	ভ্যান্ ভ্যান্ করা	भ्यान् भ्यान् करा	to be infuriated, to flare up.
भयावह	वि.	भयानक, भयंकर, डरावना,	ভয়ানক, ভয়ঙ্কর	भयानक, भयङ्कर	causing fear

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		खतरनाक।			or terror, horror, risky, frightening.
भर	अव्य.	1. किसी इकाई के रूप में संपूर्णता या समस्तता सूचित करने के लिए प्रयुक्त अव्यय, सब, पूरा, सारा;	পূর্ণ;	पूर्न;	full, complete, all, whole;
		2. तक, पर्यंत;	তৎপর্যন্ত;	तत्पर्जन्त;	as far as, up to;
		3. पूरी तरह, अच्छी तरह।	পুরাপুরি,সম্পূর্ণরূপে	पुरापुरि, सम्पूर्नरूपे	fully, completely.
भरण-पोषण	पु.	किसी का इस प्रकार पालन करना कि वह जीविका-निर्वाह की चिंता से दूर हो, पालन-पोषण।	অন্নবস্ত্রাদি দিয়া প্রতিপালন	अन्नबस्त्रादि दिया प्रतिपालन	maintenance, subsistence.
भरता(भुरता)	पु.	आलू, बैंगन, आदि कुछ विशिष्ट तरकारियों को भून और मसलकर बनाया जानेवाला सालन।	ভুরতা	भुरता	mash made of boiled or fried vegetables.
भरती (भर्ती)	स्त्री.	1. एक चीज को दूसरी में भरा या बैठाया जाना, भराव, भराई;	ভরা, পোরা;	भरा, पोरा;	filling, insertion, stuffing etc.;
		2. प्रविष्ट या सम्मिलित किए जाने की क्रिया या भाव, प्रवेश, दाखिला;	ভর্তি (স্কুল কলেজ সেনাদল ইত্যাদিতে) দাখিল হওয়া, প্রবেশ লাভ;	भरति (स्कुल कलेज सेनादल इत्यादिते) दाखिल हओया, प्रवेश लाभ;	admission, enrolment, enlistment, recruiting (soldiers);
		3. अनावश्यक रूप से यों ही स्थान मात्र के विचार से रखी या सम्मिलित की गई वस्तु।	জায়গা জোড়া	जायगा जोड़ा	additional and irrelevant matter.
भरना	स. क्रि.	1. खाली बरतन आदि में कोई चीज डालना, उंडेलना, रखना;	ভরা, ঢালা;	भरा, ढाला;	to pour;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. खाली जगह को किसी चीज से पूर्ण करना;	ভরা, পূর্ণ করা;	भरा, पूर्न करा;	to fill up;
		3. छेद या अवकाश आदि को बंद करना;	গর্ত আদি বন্ধ করা;	गर्त आदि बन्ध करा;	to close, to choke;
		4. (ऋण) चुकाना;	ঋণ চুকান;	ऋन चुकान;	to pay off;
		5. (हानि की) पूर्ति करना;	ক্ষতিপূরণ করা;	क्षतिपूरन करा;	to make good, to compensate;
		6. पद पर नियुक्ति करना;	কোনো পদে নিযুক্ত করা;	कोनो पदे निजुक्त करा;	to fill up (vacancy etc.);
		7. एकत्र करना;	একত্র করা;	एकत्र करा;	to accumulate, to heap up, to stack;
		8. कुंजी आदि के द्वारा किसी उपकरण या यंत्र को सक्रिय होने के योग्य करना जैसे (हवा, चाबी);	ঘড়িতে দম দেওয়া;	घड़िते दम देओया;	to wind (a watch) to fill (air in a baloon or ball);
		9. शिकायत करना;	মন্দ করা, মন ভাংগান;	मन्द करा, मन भाङ्गान;	to poison (someone's mind), to excite, to instigate;
		10. भरण-पोषण करना (आश्रित का);	আশ্রিতের ভরনপোষণ করা;	आश्रितेर भरनपोषन करा;	to subsist or to maintain;
		11. किए हुए का फल भुगतना।	কৃতকর্মের ফল ভোগ করা	कृतकर्मेर फल भोग करा	to suffer, bear, endure.
	अ. क्रि.	1. भरा जाना, पूर्ण होना;	পূর্ণ হওয়া, ভরা;	पूर्न हओया, भरा;	to be filled up;
		2. घाव का भर जाना;	ঘৃত ভরিয়া উঠা;	घृत भरिया उठा;	to be healed up (as a wound);
		3. हृष्ट पुष्ट होना;	হৃষ্টপুষ্ট হওয়া;	हृष्टपुष्ट हओया;	to become plump;
		4. मन का क्रोध आदि से पूर्ण होना;	মন ক্রোধাদিতে পূর্ণ হওয়া;	मन क्रोधादिते पूर्न हओया;	to be full of rage etc.;
		ओतप्रोत या पूर्णरूप से युक्त होना;	ওতপ্রোত হওয়া;	ओतप्रोत हओया;	to be replete with, to abound in;
		6. छिद्र आदि का बंद होना।	ছিদ্রাদি বন্ধ হওয়া	छिद्रादि बन्ध हओया	to be choked.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भरनी	स्त्री.	1. करघे की ढरकी;	মাকু;	माकु;	shuttle;
		2. किसी काम या बात के फलस्वरूप प्राप्त दशा या स्थिति।	অনিবার্য পরিস্থিতি	अनिबार्ज परिस्थिति	inescapable situation.
भरपाई	स्त्री.	1. भरपाने या चुकता हो जाने का भाव;	সব পাওনা মিটান;	सब पाओना मिटान;	quittance, payment in full;
		2. बेबाकी की रसीद।	সব দিবার রসিদ	सब दिबार रसिद	receipt in full.
भरपूर	वि.	पूरी तरह भरा हुआ, परिपूर्ण।	কানায় কানায় পূর্ণ পরিপূর্ণ, ভরপুর	कानाय कानाय पूर्न परिपूर्न, भरपुर	quite full, brimful, overflowing.
	क्रि. वि.	1. पूर्ण रूप से;	সম্পূর্ণভাবে, ভরপুর, নিঃশেষে;	सम्पूर्नभाबे, भरपुर, निःशेषे;	fully, completely, thoroughly;
		2. अच्छी तरह;	ভালভাবে;	भालभाबे;	well, very well;
		3. बहुत अधिक मात्रा में।	প্রচুরপরিমাণে	प्रचुरपरिमाने	abundantly, excessively.
भरमाना	स. क्रि.	1. भ्रम में डालना;	বিভ্রান্ত করা;	बिभ्रान्त करा;	to create an illusion, to bewilder;
		3. व्यर्थ में घुमाना, भटकाना;	বৃথা ঘুরাইয়া মারা;	बृथा घुराइया मारा;	to cause to wander, to cause to stray;
		3. आसक्त या मोहित करना।	ভুলানো, ভুলান, মুগ্ধ করা	भुलानो, भुलान, मुग्ध करा	to allure, to tempt.
भरमार	स्त्री.	अधिकता, बाहुल्य।	আধিক্য, বাহুল্য	आधिक्य, बाहुल्य	abundance, plentifulness
भरवाई	स्त्री.	भरवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी।	ভরান, ভরানোর মজুরি	भरान, भरानोर मजुरि	filling, stuffing, price paid for filling or stuffing.
भरसक	क्रि. वि.	शक्तिभर, यथाशक्ति, यथासाध्य।	যথাশক্তি, যথাসাধ্য	जथाशक्ति, जथासाध्य	utmost, to the best of one's ability.
भरा	वि.	1. भरा हुआ, पूर्ण;	ভরতি, পূর্ণ;	भरति, पूर्न;	filled, filled with, full;
		2. आबाद;	অধ্যুষিত;	अध्युषित;	inhabited;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. संपन्न;	সম্পন্ন;	सम्पन्न;	rich, prosperous, flourishing;
		4. पुष्ट, मांसल;	পুষ্ট, মাংসল;	पुष्ट, मांसल;	strong, sturdy;
		5. क्रोध आदि से भरा हुआ जिसका क्षोभ बाहर निकलना ही चाहता हो।	ক্রোধাদিতে ফাটিয়া পড়ার মতো	क्रोधादिते फाटिया पड़ार मतो	surging with rage
भराई	स्त्री.	भरने की क्रिया, भाव या मजदूरी।	ভরার কাজ, ভরার মজুরি	भरार काज, भरार मजुरि	act of filling or the charges paid therefor, fill, packing.
भरापूरा	वि.	1. सभी अपेक्षित बातों से युक्त, त्रुटिरहित;	পরিপূর্ণ, ত্রুটিহীন;	परिपूर्न, त्रुटिहीन;	wealthy, prosperous, flourishing, thriving;
		2. हर तरह से संपन्न और सुखी।	সব রকমে সংগতিপন্ন ও সুখী	सब रकमे सङ्गतिपन्न ओ सुखी	abounding in, having a large family.
भराव	पु.	1. भरने की क्रिया या भाव;	ভরার কাজ;	भरार काज;	filling;
		2. वह पदार्थ या रचना जिससे कोई अवकाश या खाली जगह भरी गई हो या भरी जाती हो।	ভরাট করার উপযোগী পদার্থ	भराट करार उपजोगी पदार्थ	packing material.
भरी	स्त्री.	दस माशे की एक तौल जिससे सोना, चांदी आदि धातुएं तोली जाती हैं।	ভরি, স্বর্ণরৌপ্যাদির ওজন বিশেষ	भरि, स्वर्नरौप्यादिर ओजन बिशेष	a measure of ten mashas used for weighing gold, silver etc.
भरोसा	पु.	1. सहारा, आसरा;	আশ্রয়, অবলম্বন;	आश्रय, अबलम्बन;	support, help;
		2. पक्की आशा;	আশা, ভরসা;	आशा, भरसा;	hope, assurance;
		3. विश्वास।	বিশ্বাস, ভরসা	बिश्वास, भरसा	trust, faith, confidence.
भर्त्सना	स्त्री.	किसी के अनुचित आचरण से क्रुद्ध और दुखी होकर	তিরস্কার, ধমক, নিন্দা	तिरस्कार, धमक, निन्दा	cursing, reproach condemnation,

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		उसे कटु शब्दों में कुछ कहना और फलतः उसे लज्जित करना, डांट-फटकार, निंदा।			censure.
भर्राना	अ.क्रि	आवाज का भारी या कर्कश होना।	গলা ধরা	गला धरा	to become hoarse or husky.
भलमनसाहत	स्त्री.	1. भलामानुसपन, सज्जनता, शराफत;	ভালমানুষি;	भालमानुषि;	gentlemanliness, courtesy, civility, urbanity;
		2. भद्रतापूर्ण व्यवहार।	ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার	भद्रतापूर्न ब्यबहार	decorum, noble behaviour.
भलमनसी	स्त्री.	दे० 'भलमनसाहत'।	দ্র: 'ভলমনসাহত'	द्र: 'भलमनसाहत'	see 'भलमनसाहत'
भला	वि.	1. अच्छा, नेक, साधु;	ভাল, উত্তম, সৎ;	भाल, उत्तम, सत्;	good, virtuous, righteous;
		2. सुंदर;	সুন্দর, শোভন;	सुन्दर, शोभन;	wonderful, admirable;
		3. निर्दोष।	নির্দোষ	निर्दोष	guiltless.
	पु.	1. भलाई, हित;	মংগল, হিত;	मङ्गल, हित;	well-being;
		2. लाभ।	উপকার	उपकार	good, welfare.
भलाई	स्त्री.	1. भलापन, अच्छाई;	ভালাই, সাধুতা;	भालाइ, साधुता;	good, goodness, virtue, merit;
		2. उपकार, नेकी;	উপকার, সজ্জনতা;	उपकार, सज्जनता;	benevolence, kindness;
		3. हित, लाभ।	কল্যাণ	कल्यान	welfare, prosperity.
भलाचंगा	वि.	1. स्वस्थ, तंदुरुस्त;	সুস্থ, নীরোগ;	सुस्थ, नीरोग;	healthy, hale and hearty;
		2. हर दृष्टि से ठीक और संतोषजनक, अच्छा-खासा।	সব রকমে ভাল খাসা	सब रकमे भाल खासा	sound, satisfactory.
भलाबुरा	पुं.	1. लाभ-हानि, हित-अहित;	মংগলামংগল, শুভাশুভ;	मङ्गलामङ्गल, शुभाशुभ;	pros and cons.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
					good points and bad points (of a thing), one's own interest);
		2. खरी-खोटी बातें।	ভালমন্দ দুই কথা;	भालमन्द दुइ कथा;	admonition, reproach.
	वि.	अच्छा-बुरा।	ভালমন্দ	भालमन्द	good and bad.
भलामानस	पुं.	नेक या शरीफ आदमी।	ভদ্রলোক, ভাল মানুষ	भद्रलोक, भाल मानुष	respectable man. gentleman.
भवदीय (भवदीया स्त्री.)	वि.	आपका (प्राय पत्रों के अंत में लेखक के नाम के पहले आत्मीयता और नम्रता सूचित करने के लिए प्रयुक्त)।	আপনার (পত্রের শেষে লেখকের) নামের পূর্বে অন্তরংগতা বা নম্রতা প্রকাশ জন্য ব্যবহৃত হয়	आपनार (पत्रेर शेषे लेखकेर) नामेर पूर्वे अन्तरङ्गता बा नम्रता प्रकाश जन्य व्यबहृत हय	Yours, yours sincerely.
भवन	पुं.	1. कोई वास्तुरचना, विशेषत: वासस्थान, घर, मकान;	বাসস্থান, গৃহ;	बासस्थान, गृह;	abode, residence, dwelling;
		2. प्रासाद, महल।	প্রাসাদ, হর্ম্য	प्रासाद, हर्म्य	mansion, buildin palace.
भवसागर	पुं.	संसार रूपी समुद्र।	সংসারসমুদ্র	संसारसमुद्र	the ocean of the world or existenc etc
भवानी	स्त्री.	दुर्गा, पार्वती।	দুর্গা, পার্বতী	दुर्गा, पार्वती	an epithet of the wife of Siva, the goddess Parvati.
भवितव्य	वि.	जो भविष्य में विशेषत: निकट भविष्य में निश्चित रूप से होनेवाला हो, अवश्यंभावी, होनहार।	যাহা ঘটিবেই, অবশ্যম্ভাবী	जाहा घटिबेइ, अबश्यम्भाबी	fated, destined, inevitable.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भवितव्यता	स्त्री.	ऐसा काम या बात जो भविष्य में ईश्वरीय विधान के अनुसार अवश्य होने वाला हो, होनी, भाग्य।	অবশ্যম্ভাবিতা, নিয়তি	अवश्यम्भाविता, नियति	inevitable, necessity, fate, destiny.
भविष्य	पुं.	आनेवाला समय, वर्तमान के बाद आनेवाला काल, भविष्यत् काल।	ভাবীকাল, ভবিষ্যৎকাল	भावीकाल, भविष्यत्काल	future.
भविष्य (भविष्यत्) काल	पुं.	1. वर्तमान काल के उपरांत आनेवाला आगामी समय;	ভাবীকাল;	भावीकाल;	time to come, futurity;
		2. व्याकरण में क्रिया पद का वह रूप जो भविष्य में क्रिया के घटित होने की सूचना देता है।	(ব্যাকরণে) ভবিষৎ কাল	(व्याकरने) भविष्यत् काल	(in Gram.) future tense.
भविष्यनिधि	स्त्री.	किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम करनेवाले कर्मचारी को कार्य से अवकाश ग्रहण कर लेने पर दिया जानेवाला वह धन जो उसके वेतन में से नियमित रूप से कटनेवाले अंश से या उस अंश के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा अपनी ओर से भी निधि के रूप में जमा किया जाता है, निर्वाह-निधि।	কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার অর্থে গঠিত তহবিল	कोनो प्रतिष्ठानेर कर्मचारीदेर भविष्यत् सुबिधार जन्य कर्मचारी ओ नियोगकर्तार अर्थे गठित तहबिल	provident fund.
भव्य	वि.	सुंदर और प्रभावशाली, शानदार।	সুন্দর প্রভাব-শালী, জমকাল	सुन्दर प्रभाव-शाली जमकाल	grand, divine, gorgeous.
भस्म	पुं.	1. राख, चिता की राख; 2. दवा के काम के लिए किसी धातु को फूंक कर तैयार की गई राख।	ছাই, চিতাভস্ম; ঔষধরূপে ব্যবহৃত স্বর্ণাদির ভস্ম	छाइ, चिताभस्म; औषधरूपे व्यबहृत स्वर्नादिर भस्म	ashes, cinders; medicinal powder obtained by burning the metals calx

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	वि.	जो जलकर राख हो गया हो, भस्मीभूत।	ভস্মীভূত	भस्मीभूत	reduced to ashes, completely burnt.
भस्मी	स्त्री.	चिता के जल जाने के पश्चात् बची राख।	চিতার ছাই, চিতাভস্ম	चितार छाइ, चिताभस्म	ashes of a corpse.
भांजी	स्त्री.	ऐसी बात जो जान-बूझकर किसी का काम बिगाड़ने के लिए किसी दूसरे से कही जाए, बहकाने वाली बात, चुगली।	আড়ালে নিন্দা, লাগানি-ভাংগানি চুকলি	आड़ाले निन्दा, लागानि-भाड़्गानि चुकलि	tale-bearing, back biting.
भांड	पु.	1. महफिलों में हंसी-मजाक की नकलें आदि का पेशा करनेवाला मसखरा, विदूषक;	বিদূষক, মসখরা;	बिदूषक, मसखरा;	jester, buffoon, mime;
		2. वह जिसके पेट में बात न पचती हो;	যার পেটে কথা থাকে না;	जार पेटे कथा थाके ना;	one who cannot keep a secret, blab;
		3. बरतन, भांडा।	মৃৎপাত্রবিশেষ	मृत्पात्रविशेष	vessel, earthen pot.
भांडागार	पु.	1. वह कोठार जिसमें वस्तुएं, विशेषत: घरेलू उपयोग की वस्तुएं रखी जाती हैं, भंडार, कोठार, गोदाम;	ভাঁড়ার;	भांड़ार;	store-house, store-room;
		2. खजाना।	ধনাগার	धनागार	treasury.
भांति	स्त्री.	तरह, प्रकार।	তর, প্রকার	तर, प्रकार	way, manner, mode, variety, kind, sort, class.
भांपना	स. क्रि.	रंग-ढंग से जान लेना, अनुमान करना, ताड़ना।	অনুমান করা, আন্দাজ করা	अनुमान करा, आन्दाज करा	to guess, to make out.
भांवर	स्त्री.	1. परिक्रमा, फेरी;	পরিক্রমা, প্রদক্ষিণ;	परिक्रमा, प्रदक्षिन;	going round, circum-ambulation:
		2. विवाह के समय की जानेवाली अग्नि की परिक्रमा।	বিবাহের সময়ে কৃত অগ্নিপ্রদক্ষিণ	बिबाहेर समये कृत अग्निप्रदक्षिन	circum-ambulation of sacrificial fire by the bride

हिंदी शब्द	व्या· को·	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
					and bridegroom at the time of marriage.
भाई	पु.	1. भ्राता;	ভাই, ভ্রাতা;	भाइ, भ्राता;	brother;
		2. जाति बंधु;	জ্ঞাতিবন্ধু;	ज्ञातिबन्धु;	relative, kinsman, member of the same caste or fraternity;
		3. बराबर वाले (प्रियजन) का संबोधन।	সমমর্যাদার ব্যক্তি ও প্রিয়ব্যক্তির সম্বোধন	सममर्जादार व्यक्ति ओ प्रियव्यक्तिर सम्बोधन	a form of address to equals and the dear ones.
भाईचारा	पु.	भाई का नाता या भाव, बंधुत्व।	ভাইআল, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব	भाइआल, भ्रातृत्व, बन्धुत्व	brotherhood, fraternity.
भाईबंधु	पु.	कुल कुटुंब के लोग, जाति-जन, भाईबंद।	জ্ঞাতিকুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন	ज्ञातिकुटुम्ब, आत्मीयस्वजन	brethren, kith and kin, relations.
भाग	पु.	1. हिस्सा, अंश, खंड;	হিস্সা, অংশ, খন্ড;	हिस्सा, अंश, खन्ड;	part, portion, fraction, share;
		2. बंटवारा;	বাটোয়ারা;	बाटोयारा;	distribution, partition;
		3. पार्श्व;	পার্শ্ব;	पार्श्व;	part, side;
		4. गणित की वह क्रिया जिससे कोई संख्या कई बराबर खंडों में बांटी जाती है, तकसीम;	(গণিতে) বিভাজন, হরণ;	(गनिते) बिभाजन, हरन;	division;
		5. भाग्य, तकदीर।	ভাগ্য, অদৃষ্ট	भाग्य, अदृष्ट	lot, fate, luck.
भागदौड़	स्त्री.	दौड़धूप अथवा प्रयत्न;	দৌড়ধাপ, দৌড়ঝাঁপ;	दौड़धाप, दौड़झांप;	running about, strenuous efforts;
		2. उतावली।	ব্যগ্রতা, ব্যস্ততা	व्यग्रता, व्यस्तता	haste.
भागना	अ. क्रि.	1. किसी जगह से तेजी के साथ दूसरी जगह जाना, दौड़ना;	ভাগা, পলায়ন করা;	भागा, पलायन करा;	to run, to run off or away, to flee;
		2. जान बचाना, पीछा छुड़ाना;	প্রাণ বাঁচান, ফস্কান;	प्रान बांचान, फस्कान;	to abscond, take flight, escape;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. चल देना।	অপসৃত হওয়া সরিয়া পড়া	अपसृत हओया, सरिया पड़ा	to go away, be gone.
भागफल	पु.	भाज्य को भाजक से भाग देने पर प्राप्त संख्या, लब्धि।	ভাগফল	भागफल	quotient.
भागी	पु.	1. किसी प्रकार का भाग पाने का अधिकारी, हिस्सेदार;	ভাগ পাইবার অধিকারী, হিস্সাদার, অংশী;	भाग पाइबार अधिकारी, हिस्सादार, अंशी;	sharer, partner;
		2. किए हुए कार्य के फल का पात्र या भाजन, फल पानेवाला।	গ্রহণকারী, ভোগী (পাপ ভাগী, পুণ্যভাগী)	ग्रहनकारी, भोगी (पाप भागी, पुन्यभागी)	accomplice.
भाग्य	पुं.	1. शुभाशुभ कर्मजन्य अदृष्ट या ईश्वरीय विधान जो प्राणियों के समग्र कार्यकलाप, सुख-दुख आदि का नियमन करता है, नियति, तकदीर, किस्मत;	প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম, নিয়তি, অদৃষ্ট, কপাল, বরাত;	प्राक्तन शुभाशुभ कर्म, नियति, अदृष्ट, कपाल, बरात;	fortune, luck, destiny;
		2. सौभाग्य	সৌভাগ্য	सौभाग्य	good fortune or luck.
भाग्यवश	क्रि. वि.	भाग्य या किस्मत से ही।	ভাগ্যবলে, ভাগ্যে	भाग्यबले, भाग्ये	through the will of fate, luckily, fortunately.
भाग्यवाद	पु.	भाग्य के अनुसार ही शुभाशुभ की प्राप्ति मानने का सिद्धांत।	অদৃষ্টবাদ	अदृष्टबाद	fatalism.
भाग्यवादी	वि.	भाग्यवाद संबंधी।	অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধী	अदृष्टबाद सम्बन्धी	pertaining to fate.
	पु.	वह जो भाग्य पर भरोसा रखता हो।	অদৃষ্টবাদী	अदृष्टबादी	fatalist.
भाग्यवान (भाग्यवान्)	वि.	अच्छे भाग्यवाला, भाग्यशाली, खुशकिस्मत।	ভাগ্যমন্ত, সৌভাগ্যশালী	भाग्यमन्त, सौभाग्यशाली	fortunate, lucky.
भाग्यशाली	वि.	दे. 'भाग्यवान्'।	দ্রষ্টব্য 'ভাগ্যবান'	द्रष्टव्य 'भाग्यवान'	see 'भाग्यवान'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भाग्यहीन	वि.	अभागा, बदनसीब।	হতভাগ্য, অভাগা, দুর্ভাগা	हतभाग्य, अभागा, दुर्भागा	not favoured by fortune, unfortunate, wretched, poor.
भाजक	वि.	1. भाग करनेवाला; 2. गणित में वह संख्या जिससे भाज्य को भाग दिया जाता है।	ভাগকারক, বিভাজক; গণিতে ভাগকারক রাশি	भागकारक, बिभाजक; गनिते भागकारक रानि	dividing; (in arith.) divisor.
भाजी	स्त्री.	तरकारी, साग आदि वस्तुएं।	তরিতরকারি, শাকসব্জি	तरितरकारि, शाकसब्जि	vegetable.
भाट	पु.	1. राजाओं के यश का वर्णन करनेवाला, चारण, बंदी; 2. एक जाति जो अपने जजमानों का वंशचरित सुनाने, स्तुतिपरक तुकबंदी आदि करने का पेशा करती है।	স্তুতিপাঠক, বন্দী, চারণ কবি; বংশপরিচয় দান ইত্যাদি যাহার পেশা এইরূপ এক জাতি-বিশেষ	स्तुतिपाठक, बन्दी, चारन कबि; बंशपरिचय दान इत्यादि जाहार पेशा एइरूप एक जाति-बिशेष	bard, minstrel, panegyrist; family bard, eulogist, flatterer.
भाटा	पुं.	समुद्र के पानी के नियतकालिक चढ़ाव का उतार, ज्वार का उलटा।	নদীতে বা সমুদ্রে জল-স্ফীতির হ্রাস	नदीते बा समुद्रे जल-स्फीतिर ह्रास	ebb-tide, low tide.
भाड़	पु.	भड़भूजे की भट्ठी जिसमें वह बालू गरम करके दाना भूनता है।	খোলা	खोला	parcher's oven.
भाड़ा	पु.	1. वह धन जो किसी चीज का कुछ समय तक उपयोग करने के बदले में दिया जाता है, किराया;	গৃহশকটাদি-ব্যবহারার্থ দেয় অর্থ;	गृहशकटादि ब्यबहारार्ज देय अर्थ;	rent;
		2. वह धन जो कोई चीज या किसी व्यक्ति को सवारी आदि पर ले जाकर कहीं पहुंचाने के बदले में दिया या लिया जाता है, किराया।	কেরায়া	केराया	hire, fare, freight

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भात	पुं.	1. उबाला हुआ चावल; 2. ब्याह की एक रस्म जिसमें वर का पिता कन्या के पिता के घर जाकर कच्ची रसोई खाता है।	সিদ্ধ তন্ডুল, অন্ন; বিবাহের এক প্রথা	सिद्ध तन्डुल, अन्न; बिबाहेर एक प्रथा	boiled rice; marriage ceremony where bridegroom's father dines with bride's father.
भादों	पु.	सावन के बाद पड़नेवाला महीना, भाद्रपद।	ভদ্রমাস	भाद्रमास	sixth month of the Indian calendar.
भाद्र (भाद्रपद)	पु.	दे. 'भादों'	দ্রষ্টব্য 'ভাদোঁ	द्रष्टव्य "भादों"	see 'भादों'
भानजा (भानजी स्त्री.)	पु.	बहिन का पुत्र, भागिनेय।	ভগিনেয়, ভাগিনা	भगिनेय, भागिना	nephew (sister's son).
भाना	अ.क्रि	रुचना, अच्छा लगना, पसंद आना, शोभित जान पड़ना।	ভাল লাগা, পছন্দসই হওয়া, সুন্দর দেখান	भाल लागा, पछन्दसइ हओया, सुन्दर देखान	to be agreeable, appealing or pleasing, to look good or befitting.
भाप	स्त्री.	1. किसी तरल पदार्थ विशेषत: जल का वह अदृश्य वाष्पीय-रूप जो उसे खौलाने पर प्राप्त होता है तथा जिसका आजकल शक्ति के प्रमुख साधन के रूप में उपयोग होता है; 2. भौतिक शास्त्र में ठोस या द्रव पदार्थ की वह अवस्था जो उनके बहुत तपकर वायु में विलीन होते समय अथवा कुछ विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है।	বাষ্প; গ্যাস, উত্তপ্ত দ্রব্য বা মৃত্তিকা হইতে বিকীর্ণ তাপ	बाष्प; ग्यास, उत्तप्त द्रव्य बा मृत्तिका हइते बिकीर्न ताप	steam; vapour.
भाभी (भावज, भौजाई)	स्त्री.	संबंध के विचार से बड़े भाई की स्त्री।	ভাবী, বৌদী, বৌঠাকুরাণী, বৌঠান	भाबी, बौदी, बौठाकुरानी, बौठान	sister-in-law (elder brother's wife).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भार	पु.	1. बोझ;	বোঝা;	बोझा;	load, burden;
		2. उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी;	দায়িত্ব;	दायित्व;	charge, trust, responsibility;
		3. वजन, गुरुत्व।	ওজন	ओजन	weight, gravity.
भारत	पु.	भारतवर्ष नामक देश, हिन्दुस्तान।	ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থান	भारतबर्ष, हिन्दुस्थान	India.
भारतीय	वि.	1. भारत में उत्पन्न;	ভারতবর্ষে উৎপন্ন;	भारतबर्षे उत्पन्न;	Born in India;
		2. भारत संबंधी।	ভারতসম্বন্ধী	भारतसम्बन्धी	Indian.
	पु.	भारतवासी।	ভারতবাসী	भारतबासी	inhabitant of India, Indian.
भारवाहक	पु.	1. भार ढोनेवाला;	ভারবাহী, বোঝা-বহনকারী, মুটে;	भारबाही, बोझा-बहनकारी, मुटे;	bearer of burden, porter, carrier;
		2. कार्यभार का वहन करनेवाला।	দায়িত্ব বহনকারী	दायित्व बहनकारी	incharge, one who takes the responsibility.
भारी	वि.	1. अधिक भारवाला, वजनी;	গুরু ভার, বেশী ওজনের;	गुरु भार, बेशी ओजनेर;	heavy, weighty, massive, unwieldy;
		2. बहुत अधिक;	অত্যধিক, অত্যন্ত;	अत्यधिक, अत्यन्त;	great, grand;
		3. कठिन, कष्टकर;	কঠিন, দুরূহ;	कठिन, दुरूह;	difficult, hard, laborious;
		4. बहुत बड़ा, .बृहत्;	বড়, স্থূল;	बड़ स्थूल;	large, big, bulky;
		5. प्रकांड;	প্রকান্ড;	प्रकान्ड;	great, deep;
		6. देर में पचने वाला, गरिष्ठ;	গুরুপাক;	गुरुपाक;	difficult to digest, heavy;
		7. दु:खी, उदास (मन आदि)।	ভারগ্রস্ত	भारग्रस्त	dejected (in mind or spirits), languid.
भारी-भरकम	वि.	1. बड़े डीलडौल का;	প্রকান্ড আকারের, মজবুত করিয়া তৈরী;	प्रकान्ड आकारेर, मजबुत करिया तैरी;	of massive structure, strongly built;
		2. बहुत बड़ा और वजनी;	বেশী ওজনের;	बेशी ओजनेर;	large sized, heavy;
		3. गम्भीर।	গম্ভীর	गम्भीर	grave, serious.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भार्या	स्त्री.	पत्नी।	পত্নী, স্ত্রী	पत्नी, स्त्री	wife, spouse.
भाला	पु.	एक प्रसिद्ध अस्त्र जिसमें बड़े और मोटे डंडे के सिरे पर नुकीला बड़ा फल लगा रहता है, बरछा, नेजा।	ভল্ল, বর্শা	भल्ल, बर्शा	large spear, lance.
भालू	पु.	काले या भूरे बालों वाला एक हिंसक तथा स्तनपायी चौपाया जिसे पकड़कर मदारी लोग नचाते हैं, रीछ।	ভালুক	भालुक	bear.
भाव	पु.	1. मनोविकार;	মানসবিকার;	मानसबिकार;	disposition, temperament;
		2. भावना, विचार;	ভাবনা, চিন্তা;	भाबना, चिन्ता;	emotion, sentiment;
		3. आशय, तात्पर्य, अर्थ;	অভিপ্রায়, তাৎপর্য, নিষ্কর্ষ;	अभिप्राय, तात्पर्ज, निष्कर्ष;	purpose, signification, meaning;
		4. भावसूचक अंगचेष्टा, भंगी;	হাবভাব;	हाबभाब;	gesture, gesticulation;
		5. भक्ति, विश्वास, श्रद्धा;	ভক্তি;	भक्ति;	faith, loyalty, devotion;
		6. दर, निर्ख;	ভাও, দর, নিরিখ;	भाओ, दर, निरिख;	rate, quotation;
		7. अस्तित्व, सत्ता, अभाव का विपर्याय।	অস্তিত্ব, সত্তা, অভাবের বিপরীত	अस्तित्ब, सत्ता, अभाबेर बिपरीत	being, existence, state or condition of being.
भावताव	पु.	किसी चीज का भाव आदि, निर्ख।	ভাও, নিরিখ	भाओ, निरिख	rate, quotation.
भावना	स्त्री.	1. चिंतन, ध्यान;	চিন্তা, ধ্যান;	चिन्ता, ध्यान;	meditation, contemplation;
		2. कल्पना, विचार, ख्याल;	কল্পনা, অনুভব, খেয়াল;	कल्पना, अनुभव, खेयाल;	conception, imagination, fancy, feeling, emotion, sentiment;
		3. चाह, कामना, इच्छा;	বাসনা;	बासना;	wish, desire, craving, longing;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. वैद्यक मे चूर्ण आदि के रस, क्वाथ आदि के साथ बार-बार तर करके घोटना।	(বৈদ্যকে) ঔষধাদির বারবার চূর্ণকরণ ও শোধন	(बैद्यके) औषधादिर बारबर चूर्नकरन ओ शोधन	saturating a dry powder with fluid.
भावनात्मक	वि.	भावना से संबंधित, भावनायुक्त।	ভাবনাসম্পর্কিত, ভাবনাযুক্ত	भाबनासम्पर्कित, भाबनाजुक्त	emotional. sentimental.
भावपक्ष	पु.	किसी साहित्यिक रचना में जो कुछ कहा जाता है वह उसका भावपक्ष कहलाता है और इसकेविपरीत उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे उसका कलापक्ष कहते हैं।	(সাহিত্য) রচনার বিষয়বস্তু	(साहित्य) रचनार बिषयबस्तु	content, thought content (in literature).
भावभंगी	स्त्री.	मन का भाव प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया।	ভাবভংগি, ভাবগতিক	भाबभङ्गि, भाबगतिक	gesture, gesticulation.
भाववाचक	वि.	(व्याकरण में) संज्ञा का भाव, धर्म, गुण आदि बतानेवाला शब्द।	(ব্যাকরণে) ভাববচন, ধাত্বর্থবাচক	(ब्याकरने) भाबबचन, धात्बर्थबाचक	(gram.) abstract noun.
भाववाच्य	पु.	(व्याकरण में) वह तत्व जो अकर्मक पद की उस स्थिति का सूचक होता है जब वह कर्ता का व्यापार सूचित न करके क्रिया के व्यापार का ही बोध कराता है।	(ব্যাকরণে) যে বাচ্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধান	(ब्याकरने) जे बाच्ये क्रियार अर्थइ प्रधान	(Gram.) neutral voice, denoting the abstract notion of verb.
भावात्मक	वि.	1. जिसमें किसी प्रकार का मानसिक भाव भी मिला हो, भावसंबंधी;	ভাবপ্রকাশক;	भाबप्रकाशक;	emotional, sentimental;
		2. भावों से परिपूर्ण।	ভাবপূর্ণ, ভাবময়	भाबपूर्न, भाबमय	full of emotions or feelings.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भावार्थ	पु.	1. ऐसा विवरण या विवेचन जिसमें मूल का केवल भाव या आशय आ जाए, अक्षरश: अनुवाद न हो;	তাৎপর্যার্থ, মূল বক্তব্য;	तात्पर्जार्थ, मूल वक्तव्य;	broad explanation, exposition;
		2. अभिप्राय, आशय, तात्पर्य, मतलब।	নিগূঢ়, অর্থ, মর্ম	निगूढ़, अर्थ, मर्म	simple or inherent meaning, obvious purport, sense.
भावी	वि	भविष्य में घटित होनेवाला।	ভবিষ্যতে হইবে এমন	भविष्यते हइबे एमन	what must take place or is destined to happen, predestined.
	स्त्री.	भाग्य के विधान के अनुसार अवश्य होनेवाली बात, होनी।	অবশ্যই ঘটিবে এমন বিষয়	अवश्यइ घटिबे एमन विषय	inevitable.
भावुक	वि.	1. जो शीघ्र ही भावों विशेषत: कोमल, करुण भावों के अधीन हो जाए, कोमलचित्त;	ভাবপ্রবণ;	भावप्रवन;	emotional, sentimental, impulsive, passionate;
		2. सहृदय, रसज्ञ।	রসবিশেষভাবনা-চতুর, রসিক	रशविषेषभावना-चतुर, रसिक	having a poetic taste, appreciative.
भावुकता	स्त्री.	1. भावुक होने का भाव, भावप्रवणता;	ভাবপ্রবণতা;	भावप्रवनता;	sentimentality, impulsiveness, passion;
		2. विभिन्न प्रकार के भावों में तल्लीन होने की शक्ति या योग्यता, सहृदयता।	রসজ্ঞতা	रसज्ञता	quality to appreciate and enjoy poetry.
भाषण	पु.	1. वक्तृता, व्याख्यान;	বক্তৃতা, বিবৃতি;	बक्तृता, विवृति;	speech, lecture, address;
		2. कथन, बोलना;	কথন;	कथन;	speaking, talking, saying;
		3. वार्तालाप।	কথাবার্তা	कथावार्ता	conversation.
भाषांतर	पु.	अनुवाद, उलथा, तर्जुमा।	অনুবাদ, তর্জমা	अनुबाद, तर्जमा	translation, interpretation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भाषांतरकार	पु.	अनुवादक।	অনুবাদক	अनुवादक	translator, interpreter.
भाषा	स्त्री.	1. बोलकर या लिखकर या ध्वनि-संकेतों में भावों को प्रकट करने का साधन;	শব্দের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি, বচন, কথা;	शब्देर साहाज्ये भावेर अभिव्यक्ति, बचन कथा;	language, tongue, speech;
		2. किसी देश या जनसमाज में प्रचलित शब्दावली और उसे बरतने का ढंग, बोली;	কোনো দেশ বা অঞ্চলের শব্দাবলী ও তাহার প্রয়োগরীতি;	कोनो देश वा अञ्चलेर शब्दाबली ओ ताहार प्रयोगरीति;	the vernacular of any country, dialect;
		3. व्यक्ति विशेष के लिखने-बोलने का ढंग;	ভাবপ্রকাশের প্রণালী;	भावप्रकाशेर प्रनाली;	style or way of speech;
		4. आधुनिक हिन्दी का पुराना नाम।	আধুনিক হিন্দীর প্রাচীন নাম	आधुनिक हिन्दीर प्राचीन नाम	old name of the Hindi language.
भाषाविज्ञान	पु.	वह विज्ञान जिसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास, उसके शब्द तथा उन शब्दों के अर्थों, ध्वनियों आदि का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन तथा विवेचन किया जाता है।	ভাষাতত্ত্ব	भाषातत्त्व	philology, linguistics.
भाषाविद्	पुं.	भाषा या भाषाओं का अच्छा ज्ञाता।	ভাষাবিজ্ঞানী	भाषाबिज्ञानी	linguist, philologist.
भाषी	वि.	(समास के अंत में प्रयुक्त) बोलनेवाला।	(সমাসের অন্তে) ভাষা ব্যবহারকারী	(समासेर अन्ते) भाषा ब्यावहारकारी	(at the end of comp.) speaking, talking.
भाष्य	पु.	1. सूत्र या मूलग्रंथ की व्याख्या, विवृति;	সূত্রব্যাখ্যানবিশেষ;	सूत्रब्याख्यानबिशेष;	exposition or commentary, especially of Sutras;
		2. किसी गूढ़ बात या वाक्य की विस्तृत व्याख्या।	ব্যাখ্যা, বিবৃতি	ब्याख्या, बिवृति	explanatory work, exposition, commentary.
भाष्यकार	पु.	भाष्य लिखनेवाला।	ভাষ্যলেখক	भाष्यलेखक	commentator, scholiast.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भिंडी	स्त्री.	एक प्रकार का पौधा और उसकी फली जिसकी तरकारी बनती है, रामतरोई।	ঢেঁড়স	ढेंड़स बेंख्या	lady's finger.
भिक्षा	स्त्री.	1. असहाय अवस्था में उदरपूर्ति के लिए लोगों से अन्नादि मांगने का काम या वृत्ति;	যাঞ্চা, মাগন;	जांचा, मागन;	begging, asking alms;
		2. इस प्रकार मांगने में मिली हुई वस्तु, भीख।	ভিক, ভিখ, ভিক্ষালব্ধ বস্তু	भिक, भिख, भिक्षालब्ध वस्तु	that which is obtained by begging, alms, begged food, charity.
भिक्षाटन	पुं.	भिक्षा प्राप्ति के लिए फिरना।	ভিক্ষার্থ গমন, ভিক্ষাচর্যা	भिक्षार्थ गमन, भिक्षाचर्जा	wandering about begging for alms.
भिक्षु	पुं.	1. भीख मांगने वाला, भिखमंगा;	ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক, ভিখারী;	भिक्षाजीवी, भिक्षुक, भिखारी;	one who subsists on alms, beggar, mendicant;
		2. संन्यासी, विशेषतः बौद्ध संन्यासी।	সন্ন্যাসী, বৌদ্ধসন্ন্যাসী	सन्न्यासी, बौद्धसन्न्यासी	religious mendicant, esp. Buddhist.
भिक्षुक	पुं.	भीख मांगने वाला, भिखारी।	ভিক্ষাজীবী, ভিখারি, ভিখারী	भिक्षाजीबी, भिखारि, भिखारी	beggar, mendicant.
भिखमंगा	पुं.	1. भीख मांगने वाला;	ভিক্ষুক;	भिक्षुक;	beggar,
		2. ऐसा अभावग्रस्त व्यक्ति जो अपने अभाव की पूर्ति दूसरों से चीजें मांगकर करता हो।	অত্যন্ত দরিদ্র কাংগাল, নিঃস্ব	अत्यन्त दरिद्र काङ्गाल, निःस्ब	pauper.
भिखारी (स्त्री. भिखारिन)	पुं.	1. भीख मांगने वाला, भिक्षुक;	ভিক্ষুক;	भिक्षुक;	beggar, mendicant;
		2. कंगाल, अकिंचन।	কাংগাল (স্ত্রী-ভিখারিণী)	काङ्गाल (स्त्री-भिखारिनी)	pauper.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भिगोना	स.क्रि	पानी आदि से तर करना।	ভিজান, ভিজানো	भिजान, भिजानो	to wet, to drench.
भिजवाना	स.क्रि क्रि.	भेजने का काम किसी से कराना।	পাঠান, পাঠানো	पाठान, पाठानो	to cause to send, to cause to be sent.
भिड़ंत	स्त्री.	1. भिड़ने की क्रिया या भाव;	সংঘর্ষ, ঠুকাঠুকি;	संघर्ष, ठुकाठुकि;	clash, skirmish;
		2. मुठभेड़।	লড়াই	लड़ाइ	confrontation, encounter.
भिड़	स्त्री.	बर्र, ततैया।	বোলতা	बोलता	wasp.
भिड़ना	अ.	1. टकराना;	সংঘর্ষ হওয়া, ঠুকাঠুকি লাগা;	संघर्ष हओया, ठुकाठुकि लागा;	come into collision, to collide, to clash;
		2. लड़ना;	লড়াই করা;	लड़ाइ करा;	to join battle, to contend, to fight;
		3. सटना (किवाड़ आदि);	সাঁটা, একত্র হওয়া;	सांटा, एकत्र हओया;	come together, close (as shutter etc.);
		4. दृढ़तापूर्वक सवाल-जवाब करना।	বাক্যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া	बाक्जुद्धे लिप्त हओया	to be locked in a wordy duel.
भिड़ाना	स क्रि.	1. किसी को भिड़ने में प्रवृत्त करना;	একত্র করান, মিলিত করান;	एकत्र करान, मिलित करान;	tocause to touch or be joined;
		2. सटाना;	সাঁটান;	सांटान;	to close (a door etc.);
		3. लड़ाना।	লড়ান	लड़ान	to bring into collision, cause to fight.
भित्तिचित्र	पुं.	दीवार पर बना हुआ चित्र, विशेषत: ऐसा चित्र जो दीवार बनाने के समय गीले पलस्तर से बनाया जाता है।	দেওয়ালচিত্র, দেওয়ালের গায়ে অঙ্কীত রঙীন চিত্র	देओयालचित्र, देओयालेर गाये अङ्कित रङ्गीन चित्र	mural painting, fresco.
भिनकना	अ. क्रि.	1. मक्खियों का भिनभिन शब्द करना, भिनभिनाना;	ভন্ ভন্ করা, ভ্যান্ ভ্যান্ করা;	भन् भन् करा, भ्यान भ्यान करा;	to buzz (as a fly), hum (as a bee, etc.);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी गंदी चीज पर मक्खियों के झुंड का बैठना।	কোনো নোংরা জিনিসে মাছি ভিড় করা	कोनो नोंरा जिनिसे माछि भिड़ करा	to be covered with flies, to swarm.
भिनभिनाना	अ. क्रि.	भिन भिन शब्द होना या करना।	ভন্ ভন্ শব্দ হওয়া বা করা	भन् भन् शब्द हओया वा करा	to buzz, hum, to have a ringing sound (in the ear), to murmur.
भिन्न	वि.	1. अलग, जुदा; 2. अलग किया हुआ; 3. विच्छिन्न, विभाजित, खंडित; 4. दूसरा, दूसरे प्रकार का, कोई और।	পৃথক, আলাদা; বিযুক্ত, বিশ্লিষ্ট; বিভক্ত, খণ্ডিত, ভগ্ন; অন্য, ভিন্ন	पृथक, आलादा; विजुक्त, विश्लिष्ट; विभक्त, खन्डित, भग्न; अन्य, भिन	separate, apart; separated; broken, split, divided; other, different, diverse.
	पु.	गणित में किसी दूसरी इकाई का छोटा अंश या टुकड़ा।	(গণিতে) ভগ্নাংশ	(गनिते) भग्नांश	(in Arith) fraction.
भिन्नता	स्त्री.	भिन्न होने की अवस्था या भाव; अलगाव, पार्थक्य, भेद, अंतर।	পার্থক্য, ভেদ, অন্তর	पार्थक्य, भेद, अन्तर	dissimilarity, distinction, difference.
भिश्ती	पु.	मशक द्वारा पानी ढोने वाला।	ভিশ্তি, ভিস্তি, ভিস্তী	भिश्ती, भिस्ति, भिस्ती	one who carries water in a large leather water bag.
भींचना	स. क्रि.	1. जोर से खींचकर दबाना; 2. जोर से दबाना।	জোরে টানিয়া নীচু করিয়া দেওয়া; জোরে চাপ দেওয়া	जोरे टानिया नीचु करिया देओया; जोरे चाप देओया	to squeeze; to press hard.
भी	अव्य.	एक अव्यय जिसका प्रयोग नीचे लिखे अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है, निश्चित रूप से किसी अथवा औरों के अतिरिक्त, साथ या सिवा;	ও;	ओ;	also, too, even;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. तक, पर्यन्त;	তক, পর্যন্ত;	तक, पर्जन्त;	yet, still;
		3. अधिक, ज्यादा।	অধিকন্তু, আরও	अधिकन्तु, आरओ	moreover, furthermore.
भीख	स्त्री.	1. किसी दरिद्र का उदरपूर्ति के लिए कुछ मांगना, भिक्षा;	ভিখ, ভিক, ভিক্ষা;	भिख, भिक, भिक्षा;	begging, mendicity;
		2. उक्त प्रकार से मांगने पर मिलनेवाला अन्न आदि।	ভিক্ষাদ্রব্য	भिक्षाद्रव्य	that which is obtained by begging, charity, alms.
भीगना	अ. क्रि.	पानी आदि तरल पदार्थों के संयोग से तर होना, गीला होना।	ভিজা	भिजा	to be wet or drenched.
भीड़	स्त्री.	1. आदमियों का जमाव, जनसमूह;	ভিড়, বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাবেশ;	भिड़, बहुलोकेर विश्रृङ्खल समावेश;	multitude, crowd, throng;
		2. अधिकता;	আধিক্য;	आधिक्य;	excess;
		3. संकट।	সঙ্কট	सङ्कट	calamity, crisis.
भीड़-भड़क्का	पुं.	1. भीड़, जनसमूह;	ভিড়, জনতা, ভিড়ভাড়;	भिड़, जनता, भिड़भाड़;	crowd, multitude, rush;
		2. धक्कमधक्का।	ধাক্কাধাক্কি	धाक्काधाक्कि	jostling, whoving and pushing.
भीड़भाड़	स्त्री.	दे. 'भीड़-भड़क्का'।	দ্র: 'ভীড়ভড়ক্কা'	द्र: 'भीड़भड़क्का'	see 'भीड़-भड़क्का'.
भीत	वि.	डरा हुआ, भयग्रस्त।	ত্রস্ত, ভয়যুক্ত, ভয়গ্রস্ত	त्रस्त, भयजुक्त, भयग्रस्त	frightened, terrified, alarmed.
	स्त्री.	दीवार।	ভিত	भित	wall.
भीतर	क्रि. वि.	1. अंदर, घर के अन्दर;	অভ্যন্তর, মধ্যে;	अभ्यन्तर, मध्ये;	in, inside, within;
		2. मन में।	ভিতরে, মনে	भितरे मने	in one's own mind or heart.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भीतरी	वि.	1. भीतर का, अंदरवाला, अंदरूनी;	ভিতরের, অভ্যন্তরস্থ;	भितरेर, अभ्यन्तरस्थ;	interior, internal, inner, inward;
		2. गुप्त, अप्रकट।	গুপ্ত, অপ্রকাশিত	गुप्त, अप्रकाशित	hidden, secret.
भीति	स्त्री.	डर, भय।	ডর, ভয়	डर, भय	fear, apprehension, dread, terror.
भीना (स्त्री. भीनी)	वि.	बहुत ही मन्द, सूक्ष्म या हल्का।	ফিকা, সূক্ষ্ম ও হালকা	फिका, सूक्ष्म ओ हालका.	light, pleasant (colour or smell).
भीरु	वि.	1. कायर, डरपोक; 2. (से) डरनेवाला।	ভীতু, কাপুরুষ; ভয়শীল	भीतु, कापुरुष; भयशील	timid, cowardly; fearful or fearing (as धर्मभीरु God-fearing).
भीरुता	स्त्री.	1. कायरता, बुज़दिली;	কাপুরুষতা, ভয়শীলতা;	कापुरुषता, भयशीलता;	timidity, cowardice;
		2. डर, भय।	ভীতি, ভয়	भीति, भय	fear, terror.
भीषण	वि.	1. भयानक, डरावना;	ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ;	भयङ्कर, भीतिप्रद;	dreadful, horrible, frightening;
		2. दुष्परिणाम के रूप में होनेवाला, विकट, बहुत ही बुरा।	ঘোর, দারুণ	घोर, दारुन	gruesome, terrible.
भुक्खड़	वि.	1. जिसे तेज भूख लगी हो, भूखा;	ভুখা, ক্ষুধার্ত;	भुखा, क्षुधार्त;	starving, hungry;
		2. जिसकी भूख मिटती न हो, जो प्राय: कुछ न कुछ खाता रहता हो या खाना चाहता हो, पेटू;	পেটুক;	पेटुक;	voracious, gluttonous;
		3. कंगाल।	কাংগাল	काङ्गाल	pauper, poor.
भुक्तभोगी	वि.	जो किसी चीज का दुखसुख, विशेषत: दुख उठा चुका हो।	যে পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করিয়াছে বা তজ্জন্য কষ্ট পাইয়াছে	जे पूर्बे कोनो बिषय भोग करियाछे बा तज्जन्य कष्ट पाइयाछे	one who has suffered or enjoyed (some experience), experienced.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भुखमरा	वि.	1. जो भूखों मरता हो, भूखा; 2. जो खाने-पीने के लिए मरा जाता हो।	যে না খাইয়া মরিতেছে, ভূখা; যে খাওয়ার জন্য মরছে, পেটুক	जे ना खाइया मरितेछे भुखा; जे खाओयार जन्य मरछे, पेटुक	starving, hungry; voracious, gluttonous.
भुखमरी	स्त्री.	भूखों, विशेषतः अन्नाभाव के कारण मरने की अवस्था या भाव।	অনাহারে মরার মতো অবস্থা	अनाहारे मरार मतो अबस्था	starvation, hunger, famine.
भुगतना	स. क्रि.	1. भोगना, सहना; 2. कार्य, व्यय आदि का भार अपने ऊपर लेना।	ভুগা, সহ্য করা; কোনো কাজ ব্যয় ইত্যাদির ভার নিজের কাঁধে লওয়া	भुगा, सह्य करा; कोनो काज ब्यय इत्यादिर भार निजेर कांधे लओया	to suffer, to undergo, to bear, to endure; pay the penalty of, to suffer consequences of.
भुगतान	पुं.	1. मूल्य आदि चुकाने की क्रिया या भाव, अदायगी 2. निबटारा।	ভুক্তান, মূল্য বা দেনা চুকান বা মিটান; মীমাংসা, ফয়সালা	भुक्तान, मुल्य बा देना चुकान बा मिटान; मीमांसा, फयसाला	payment; settlement, disposal.
भुगताना	स. क्रि.	1. कोई काम पूरा करना; 2. देय आदि चुकाना, भुगतान करना, अदा करना।	কোনো কাজ সমাপ্ত করা; দেনা মিটান, মূল্য চুকান	कोनो काज समाप्त करा; देना, मिटान, मूल्य चुकान	to do, perform, to execute, to discharge; to settle, to adjust, to pay off.
भुजा	स्त्री.	1. बांह, बाहु; 2. हाथ; 3. रेखागणित में किसी क्षेत्र की सीमारेखा।	ভূজ, বাহু; হাত; (জ্যামিতিতে) ভূজ	भुज, बाहु; हात; (ज्यामितितें) भुज	arm; hand; the side of any geometrical figure
भुजाली	स्त्री.	एक प्रकार की बड़ी, टेढ़ी छुरी।	কুকরি	कुकरि	kind of a big knife.
भुजिया	स्त्री.	1. उबाले हुए धान का चावल;	সিদ্ধ চাল;	सिद्ध चाल;	parched rice;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. वह तरकारी जो सूखी ही भूनकर बनाई जाती है और जिसमें रसा या शोरबा नहीं होता, सूखी तरकारी।	আলু, বেগুন ইত্যাদি ভাজা	आलु, वेगुन इत्यादि भाजा	fried vegetable.
	वि.	जो भूनकर तैयार किया या बनाया गया हो।	ভাজা, ভৃষ্ট	भाजा, भृष्ट	fried.
भुट्टा	पु.	मक्के की हरी बाल।	মকাই	मकाइ	maize, corn.
भुनगा	पु.	1. उड़नेवाला छोटा कीड़ा, जो प्राय: फूलों और फलों पर रहता है और शिशिर ऋतु में प्राय: उड़ता रहता है;	ক্ষুদ্র পতংগবিশেষ;	क्षुद्र पतङ्गविशेष;	gnat;
		2. पतंगा, फतिंगा;	পতংগ;	पतङ्ग;	maggot, insect;
		3. बहुत ही तुच्छ पदार्थ या व्यक्ति, नगण्य।	অতি তুচ্ছ পদার্থ বা ব্যক্তি নগন্য	अति तुच्छ पदार्थ बा ब्यक्ति नगन्य	insignificant creature or person.
भुनना	अ. क्रि.	1. आग की गरमी से भूना जाना, सिंकना;	ভাজা হওয়া;	भाजा हओया;	to be parched, to scorch;
		2. रुपए आदि का छोटे सिक्कों में बदला जाना;	ভাংগানীতে পরিবর্তিত হওয়া;	भाङ्गानिते परिबर्तित हओया;	to be changed in small coins;
		3. तोप, बंदूक आदि की मार से मारा जाना।	গুলিতে মারা পড়া	गुलिते मारा पड़ा	to be slaughtered witl. uns etc.
भुनभुनाना	अ.क्रि	1. भुनभुन शब्द करना;	ভ্যান ভ্যান শব্দ করা;	भ्यान भ्यान शब्द करा;	mumbling, gabbling;
		2. कुढ़कर बहुत और धीरे-धीरे या अस्पष्ट रूप में कई तरह की बातें कहना।	গজ্ গজ্ করা, গজর গজর করা	गज् गज् करा, गजर गजर करा	grumbling, expressing indignation in an inarticulate manner.
भुनवाई (भुनाई)	स्त्री.	1. भुनाने की क्रिया या भाव;	ভাজা;	भाजा;	act of parching or frying;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. भुनाने के बदले में दी जानेवाली रकम, भांज;	ভাজার মজুরী;	भाजार मजुरी;	price paid for exchange (of money) discount or loss in exchange;
		3. भूनने की उजरत।	মুদ্রাবিনিময়ের জন্য দেয় অর্থ	मुद्राविनिमयेर जन्य देय अर्थ	price paid for parching grain;
भुनाना	स. क्रि.	1. भूनने का काम किसी दूसरे से कराना; 2. नोट आदि को छोटे सिक्कों में बदलवाना।	ভাজানো, ভাজান; নোট ভাংগান	भाजानो, भाजान; नोट भाङ्गान	to get something parched: to change (into smaller denomination currency).
भुरकस (भुरकुस)	पु.	1. किसी चीज का बहुत बुरी तरह कुचला या मसला हुआ रूप; 2. चूर्ण, बुकनी।	চূর্ণবিচূর্ণ করা করা হইয়াছে এমন আকার; চূর্ণ, গুঁড়া	चूर्नबिचूर्न करा हइयाछे एमन आकार; चूर्न, गुंड़ा	smashed, pulverized (form); husk, chaff, powder.
भुरभुरा	वि.	जो झट टूटकर चूर्णरूप हो जाए।	মচমচে, খাস্তা	मचमचे, खास्ता	crisp.
भुरभुराना	स. क्रि.	चुटकी या उंगली में कोई चूर्ण रखकर किसी चीज पर छिड़कना, बुरकना।	চূর্ণ বা গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া	चूर्न बा गुंड़ा छड़ाइया देओया	to throw or sprinkle some powdered substance.
भुलक्कड़	वि.	बहुत भूलनेवाला, विस्मरणशील।	ভুলো, বিস্মরণশীল	भुलो, बिस्मरनशील	forgetful, prone to forgetting.
भुलवाना	स. क्रि.	1. भूलने के लिए प्रेरित करना; 2. बहकाना, भ्रम में डालना।	ভোলান, ভোলানো; বিভ্রান্ত হওয়া	भोलान, भोलानो; बिभ्रान्त हओया	to cause to forget: to bewilder, to divert one's mind, to delude.
भुलाना	स. क्रि.	1. स्मरण की हुई बात को स्मृतिपथ से उतारना, भूलना;	ভুলা;	भुला;	to forget;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. भ्रम में डालना, बहकाना;	বিভ্রান্ত করা;	बिभ्रान्त करा;	to mislead, to bewilder, to delude;
		3. भूलने को प्रेरित करना;	ভুলানো;	भुलानो;	to cause to forget;
		4. (ला०) त्यागना।	(আলঙ্কারিক) সম্বন্ধ ত্যাগ করা	(आलङ्कारिक) सम्बन्ध त्याग करा	(fig.) to estrange, to sever one's ties with.
भुलावा	पु.	बहकाने की युक्ति, धोखा, चकमा।	বিভ্রান্তি, ধোঁকা	बिभ्रान्ति, धोंका	hoax, delusion.
भुवन	पु.	1. जगत, संसार, लोक;	জগৎ, পৃথিবী, লোক;	जगत्, पृथिबी, लोक;	world, earth;
		2. पुराणानुसार चौदह लोकों में से प्रत्येक की संज्ञा, लोक।	পুরাণবর্ণিত ভুঃ ইত্যাদি সপ্ত উর্ধলোক	पुरानबर्नित भुः इत्यादि सप्त ऊर्धलोक	various celestial paradises.
भू	स्त्री.	1. पृथ्वी, धरती;	পৃথিবী, ধরণী;	पृथिबी, धरनी;	earth, world;
		2. जमीन, भूमि;	ভূমি;	भूमि;	land, ground, soil;
		3. स्थान, जगह।	স্থান	स्थान	site, place.
भूकंप	पु.	भूगर्भ में होनेवाली उथल-पुथल से धरती की ऊपरी सतह का हिलना, भूचाल।	ভূকম্পন, ভূমিকম্প	भूकम्पन, भूमिकम्प	earthquake.
भूखंड	पु.	पृथ्वी या भूमि का कोई खंड या विभाग, भूभाग।	পৃথিবীর কোনো অংশ, প্রদেশ	पृथिबीर कोनो अंश, प्रदेश	tract of land, territory, plot.
भूख	स्त्री.	1. पेट खाली होने पर अन्न आदि भक्षण करने की तीव्र इच्छा, भोजन की इच्छा, क्षुधा;	ভুখ, ভুক, ক্ষুধা;	भुख, भुक, क्षुधा;	appetite, hunger;
		2. कोई चीज प्राप्त करने की उत्कट इच्छा।	কোনো জিনিস পাইবার জন্য উৎকট বাসনা	कोनो जिनिस पाइबार जन्य उत्कट बासना	intense desire of enjoying anything, craving (for).
भूख-हड़ताल	स्त्री.	किसी नीति या कार्य आदि के प्रति विरोध प्रकट करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भोजन का त्याग करना।	অনশন ধর্মঘট	अनशन धर्मघट	hunger-strike.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भूखा	वि.	1. जिसे भूख लगी हो, क्षुधित;	ভুখা, ক্ষুধার্ত;	भुखा, क्षुधार्त;	hungry, famished, starving;
		2. उत्कट इच्छुक या याचक;	উৎকট ইচ্ছাপোষণকারী;	उत्कट इच्छापोषनकारी;	desirous (of), craving;
		3. दरिद्र।	দরিদ্র	दरिद्र	poor, destitute.
भूखा-नंगा	वि.	अन्न, वस्त्र के कष्ट से पीड़ित, दीन, दरिद्र।	অন্নবস্ত্রহীন, দীন, দরিদ্র	अन्नवस्त्रहीन, दीन, दरिद्र	poor, pauper, indigent.
भूगर्भ	पुं.	पृथ्वी का नीचेवाला या भीतरी भाग।	পৃথিবীর অভ্যন্তর	पृथिबीर अभ्यन्तर	interior of the earth.
भूगोल	पुं.	1. भूमंडल, पृथ्वी;	ভূগোলক, ভূমন্ডল;	भूगोलक, भूमन्डल;	terrestrial globe, the earth;
		2. पृथ्वी के बाह्य रूप, प्राकृतिक विभाग आदि का ज्ञान करानेवाली विद्या या शास्त्र।	পৃথিবীর বিবরণ	पृथिबीर विबरन	geography.
भूचाल	पुं.	दे. 'भूकंप'।	দ্রষ্টব্য 'ভূকম্প'	द्रष्टव्य 'भूकम्प'	see 'भूकंप'.
भूत	वि.	1. बीता हुआ, अतीत;	অতীত;	अतीत;	past, gone by;
		2. घटित;	সংঘটিত; পূর্বকার,	संघटित; पूर्बकार,	been, become, produced;
		3. पहले का, पुराना;	পুরাতন;	पुरातन;	former, old;
		4. प्राणी, जीव;	প্রাণী, জীব;	प्रानी, जीव;	living being, an animal, a creature;
		5. महाभूत, द्रव्य, मूलतत्व;	পঞ্চ মহাভূত;	पन्च महाभूत;	matter, an element;
		6. भूतकाल;	অতীতকাল;	अतीतकाल:	past, past tense;
		7. प्रेत, पिशाच।	প্রেত, পিশাচ	प्रेत, पिशाच	evil spirit, demon, ghost.
भूतकाल	पुं.	1. व्याकरण में क्रिया के तीन कालों में से एक जो किसी घटना के पूर्व समय में समाप्त या सम्पन्न हो चुकने का सूचक होता है;	(ব্যাকরণে) অতীত কাল;	(व्याकरने) अतीत काल;	(in gram.) past tense;
		2. बीता हुआ समय।	অতীত সময়	अतीत समय	the past.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भूतनी	स्त्री.	1. भूतयोनि की स्त्री, स्त्रीप्रेत;	পেত্নী;	पेत्नी;	female demon or goblin, etc.
		2. (ला०) काले रंग और प्राय: क्रोधी तथा लड़ाके स्वभाववाली स्त्री।	পেত্নীর মতো কাল ও ঝগড়াটে স্ত্রীলোক	पेत्नीर मतो काल ओ झगड़ाटे स्त्रीलोक	(fig.) virago.
भूतपूर्व	वि.	1. जो किसी पद पर पहले कभी रह चुका हो;	প্রাক্তন;	प्राक्तन;	ex-, former;
		2. जो पहले हो चुका हो, पूर्ववर्ती, पहला।	পূর্বস্থিত, পূর্বসংঘটিত	पूर्बस्थित, पूर्बसंघटित	late, past, previous.
भूतप्रेत	पु.	भूत, पिशाच, प्रेत आदि की योनियों या इन योनियों में प्राप्त होनेवाले सूक्ष्म शरीरों का वर्ग।	প্রেতযোনিসমূহ	प्रेतजोनिसमूह	evil spirits, ghosts and goblins.
भूतल	पु.	1. पृथ्वी का ऊपरी तल, धरातल, भूपृष्ठ;	পৃথিবীপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠ, ধরাতল;	पृथिबीपृष्ट, भूपृष्ट, धरातल;	surface of the earth, the ground;
		2. जगत, संसार।	পৃথিবী	पृथिबी	world, the universe.
भूनना	स.क्रि	1. खाद्य पदार्थ को आग पर सेंककर पकाना;	ভাজা;	भाजा;	to roast, broil;
		2. गरम बालू में अन्नादि को पकाना;	বালিতে শস্যাদি ভাজা;	बालिते शस्यादि भाजा;	to parch, to scorch;
		3. गरम घी-तेल आदि में तलना या अच्छी तरह लाल करना;	ঘি বা তেলে ভাজা;	घि बा तेले भाजा;	to fry;
		4. बंदूक या मशीनगन की गोलियों से बहुतों का एक साथ वध करना।	বন্দুকের গুলি চালাইয়া অনেককে এক সংগে বধ করা	बन्दुकेर गुलि चालाइया अनेकके एक सङ्गे बध करा	to annihilate, (with gun etc.)
भूभाग	पु.	भूखंड, प्रदेश।	ভূখন্ড, প্রদেশ	भूखन्ड, प्रदेश	region, place, spot.
भूमंडल	पु.	धरती, पृथ्वी।	ধরিত্রী, পৃথিবী	धरित्री, पृथिबी	terrestrial globe, the earth.
भूमध्यरेखा	स्त्री.	भूगोल में वह कल्पित रेखा जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हैं।	বিষুবরেখা	बिषुबरेखा	equator.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भूमध्यसागर	पु.	यूरोप और एशिया के बीच अवस्थित एक समुद्र।	ভূমধ্যসাগর	भूमध्यसागर	Mediterranian Sea.
भूमि	स्त्री.	1. यह सारी पृथ्वी जो सौर जगत के एक ग्रह के रूप में है;	পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ;	पृथिवी, भुपृष्ठ;	earth, world;
		2. जमीन, धरती;	ধরিত্রী;	धरित्री;	earth, ground, soil, land;
		3. जगह, स्थान;	স্থান, ক্ষেত্র;	स्थान, क्षेत्र;	place, site;
		4. देश।	দেশ	देश	region, country.
भूमिका	स्त्री.	1. वक्तव्य विषय की पूर्वसूचना, ग्रन्थ आदि की प्रस्तावना;	মুখবন্ধ, গ্রন্থে বক্তব্য বিষয়ের পূর্বাভাষ;	मुखबन्ध, ग्रन्थे वक्तब्य बिषयेर पूर्बाभाष;	preface or introduction;
		2. नाटक आदि में किसी पात्र का अभिनय तथा कार्य;	নাট্যপাত্রের-অভিনেয় অংশ;	नाट्यपात्रेर-अभिनेय अंश;	(drama) part of an actor;
		3. किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।	কোনো ক্ষেত্রবিশেষে কোনো ব্যক্তির কাজ	कोनो क्षेत्रबिशेषे कोनो ब्यक्तिर काज	role, part.
भूमिगत	वि.	1. जो भूमि की सतह से नीचे हो;	ভূগর্ভস্থ;	भुगर्भस्थ;	underground, subterranean.
		2. जो जनसाधारण के सामने से हटकर कहीं छिपा हो;	গুপ্ত;	गुप्त;	secret, underground;
		3. जमीन पर गिरा या पड़ा हुआ।	ভূপতিত	भूपतित	fallen on the earth.
भूमिधर	पु.	1. वह किसान जिसने उचित धन देकर जमीन पर खेती-बाड़ी करने का स्थायी अधिकार प्राप्त कर लिया हो;	তালুকদার, ভূস্বামী;	तालुकदार, भूस्वामी;	landholder, land owner;
		2. पर्वत।	পর্বত	पर्बत	mountain.
भूरा	वि.	मटमैले रंग का, खाकी, कपासी ।	ছাই রঙের, খাকি, খাকী	छाइ रङेर, खाकि, खाकी	brown.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	पु.	स्याह और सफेद के बीच का रंग, खाकी रंग।	পথভোলা	पथभोला	brown colour.
भूल	स्त्री.	1. भूलने या स्मरण न रहने की क्रिया या भाव;	ভুল, বিস্মরণ;	भुल, बिस्मरन;	forgetfulness, oversight, neglect;
		2. भ्रम;	ভ্রম;	भ्रम;	illusion, bewilderment;
		3. गलती, अशुद्धि;	ভ্রান্তি;	भ्रान्ति;	slip, mistake, error;
		4. चूक, त्रुटि;	চুক;	चुक;	omission, failure;
		5. दोष, कसूर।	দোষ, কসুর	दोष, कसुर	fault.
भूलचूक	स्त्री.	लेखे या हिसाब में दृष्टि-दोष आदि के कारण होनेवाली गलती, अशुद्धि।	ভুলচুক, ভুলভ্রান্তি, ভুলত্রুটি	भुलचुक, भुलभ्रान्ति भुलत्रुटि	error and omission.
भूलना	अ.क्रि.	1. याद न रहना, विस्मृत होना;	ভুলা, বিস্মৃত হওয়া;	भुला, बिस्मृत हओया;	to be forgotten;
		2. गलती या त्रुटि करना।	ভুলচুক হওয়া	भुलचुक हओया	to err.
	स.क्रि.	1. याद न रखना, विस्मृत कर देना;	মনে না রাখা, ভুলা;	मने ना राखा, भुला;	to forget, to omit, to miss;
		2. भटकना, गलत रास्ते पर जाना;	ভুল পথে চলা, পথভ্রষ্ট হওয়া;	भुल पथे चला, पथभ्रष्ट हओया;	to go astray;
		3. खो देना।	হারান	हारान	to lose.
भूलभुलैया	स्त्री.	1. वह इमारत जिसका रास्ता ऐसा चक्करदार होता है कि आदमी रास्ता भूल जाता है और जल्दी बाहर नहीं निकल पाता;	গোলক ধাঁধাঁ, জটিল পথাকীর্ণ অট্টালিকা;	गोलक धांधां, जटिल पथाकीर्न अट्टालिका;	maze, labyrinth.
		2. बहुत घुमाव-फिराव वाली बात, पेचीदा बात।	ধাঁধাঁ	धांधां	puzzle.
भूला-भटका	वि.	जो रास्ता भूलकर और साथियों से बिछुड़कर भटक रहा हो।	পথভোলা	पथभोला	strayed, one who has lost his way.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भूलोक	पु.	मर्त्यलोक, संसार।	পৃথিবী	पृथिबी	earth, the habitation of mortals.
भूविज्ञान	पु.	वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी की मिट्टी और पत्थर की तहों के निर्माण, विकास तथा उनके नीचे प्राप्त होनेवाले खनिज-पदार्थ आदि का विवेचन किया जाता है, भूगर्भ-शास्त्र।	ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, ভূপৃষ্ঠ, ও তাহার নিম্নবর্তী স্তরসমূহ সম্বন্ধী বিজ্ঞান	भूतत्त्व, भूबिद्या, भूपृष्ठ ओ ताहार निम्नबर्ती स्तरसमूह सम्बन्धी बिज्ञान	geology.
भूषण	पु.	1. अलंकार, गहना, जेवर; 2. शोभावर्धक वस्तु या गुण।	অলঙ্কার, গহনা; সজ্জা, অলঙ্করণ	अलङ्कार, गहना; सज्जा, अलङ्करन	ornament, jewel; decoration, embellishment.
भूसा	पु.	गेहूं, जौ आदि के डंठलों के सूखे, छोटे महीन टुकड़े जो पशुओं को खिलाए जाते हैं।	ভূষি, তুষ, শস্যের খোশা	भूषि, तुष, शस्येर खोशा	chaff, husk.
भूसी	स्त्री.	धान, चने, मटर आदि के छिलके या उनके छोटे-छोटे टुकड़े।	ভূসি, চোকলা	भुसि, चोकला	husk, bran.
भूस्खलन	पु.	पहाड़ों, चट्टानों आदि के ढलुएं पार्श्व से मिट्टी और पत्थर के बड़े-बड़े ढेरों का खिसककर नीचे आना या गिरना।	ধস্, ভূমিস্খলন	धस्, भूमिस्खलन	landslide.
भृंग	पु.	1. भौरा; 2. एक प्रकार का कीड़ा।	ভ্রমর; ভিমরুল	भ्रमर; भिमरुल	large black bee; kind of wasp.
भृत्य	पु.	सेवक, नौकर।	পরিচারক, চাকর	परिचाकर, चाकर	servant, attendant.
भेंट	स्त्री.	1. मिलन, मुलाकात; 2. आदरपूर्वक उपहार या सौगात के रूप में दी जानेवाली वस्तु, नजर, उपहार।	মেলন, সাক্ষাৎ; উপহার, উপঢৌকন, নজরানা	मेलन, साक्षात्; उपहार, उपढौकन, नजराना	meeting, interview, visit; gift, present.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भेंटना	स. क्रि.	गले लगकर मिलना।	ভেটা, মিলিত হওয়া, আলিংগন করা	भेटा, मिलित हओया आलिङ्गन करा	to meet, come in contact (with), to embrace.
भेजना	स.क्रि	अन्य स्थान के लिए रवाना करना, पहुंचाए जाने का प्रबंध करना, प्रेषण करना।	ভেজা, পাঠান, প্রেরণ করা	भेजा, पाठान, प्रेरन करा	to send, to despatch, to transmit, to remit.
भेजा	पु.	खोपड़ी के अंदर का गूदा, मगज।	মস্তিষ্ক, মগজ	मस्तिष्क, मगज	brain.
भेड़	स्त्री.	1. बकरी की जाति का एक चौपाया जो दूध, ऊन और मांस के लिए पाला जाता है;	মেষ;	मेष;	sheep, ewe;
		2. (ला०) बहुत ही सीधा-सादा और मूर्ख व्यक्ति।	ভেড়াকান্ত	भेड़ाकान्त	(fig.) simpleton.
भेड़ना	स.क्रि	1. भिड़ा देना, सटा देना;	ভিড়ান, সংলগ্ন করা, জোড়া দেওয়া;	भिड़ान, संलग्न करा, जोड़ा देओया;	to close in, to enclose;
		2. (दरवाजा) बंद करना।	(দরজা) বন্ধ করা	(दरजा) बन्ध करा	to shut, to close (the door).
भेड़िया	पु.	कुत्ते की जाति का एक हिंस्र पशु जो प्रायः भेड़-बकरियों का शिकार किया करता है, वृक।	নেকড়ে বাঘ	नेकड़े बाघ	wolf.
भेड़िया धसान	पु.	भेड़ों का सा अंधानुकरण।	গড্ডলিকাপ্রবাহ	गड्डलिकाप्रवाह	mob-mentality, tendency of following blindly.
भेद	पु.	1. अंतर, फरक;	অন্তর, ফারক, কারাক;	अन्तर, फारक, काराक;	difference, distinction;
		2. प्रकार, तरह;	প্রকার;	प्रकार;	kind, sort, species, variety;
		3. छिपी हुई बात; रहस्य;	গূঢ় বিষয়, রহস্য;	गूढ़ विषय, रहस्य;	secrecy, secret, mystery;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. छिपा हुआ तात्पर्य, मर्म;	গূঢ় অর্থ, মর্ম;	गूढ़ अर्थ, मर्म;	hidden meaning, implication;
		5. फूट।	বিরোধ, অনৈক্য	बिरोध, अनैक्य	dissension, disunion.
भेदभाव	पुं.	1. सबके प्रति समान व्यवहार न करके किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना;	ভেদবুদ্ধি, সমদর্শিতার অভাব, পক্ষপাতিত্ব;	भेदबुद्धि, समदर्शितार अभाब, पक्षपातित्व;	partisanship, partiality;
		2. अंतर, फरक।	অন্তর, ফারক, ফারাক	अन्तर, फारक, फाराक	discrimination, differentiation.
भेदिया (भेदी)	पुं.	1. भेद या रहस्य को जाननेवाला;	রহস্যভেদকারী;	रहस्यभेदकारी;	one who knows the secret;
		2. गुप्तचर, जासूस।	গুপ্তচর	गुप्तचर	spy, secret agent.
भेली	स्त्री.	गुड़ आदि की पिंडी।	ভেলি	भेलि	lump of gur.
भेषज	पुं.	1. ओषधि, औषध, दवा;	ঔষধ, দাওয়া;	औषध, दाओया;	drug, medicine;
		2. उपचार, इलाज।	প্রতীকারোপায়মাত্র	प्रतिकारोपायमात्र	remedy, cure.
भेस	पुं.	1. वेशभूषा, पहनावा;	ভেশ, পরিচ্ছদ;	भेश, परिच्छद;	dress, appearance, look;
		2. कृत्रिम रूप और पहनावा;	ছদ্মবেশ, ভেক, ভেখ;	छद्मबेश, भेक, भेख;	guise, garb;
		3. बाह्यरूप।	বাহ্যরূপ	बाह्यरूप	feigned appearance, assumed likeness.
भैंगा	वि.	(व्यक्ति) जिसकी आंखों की पुतलियां कुछ टेढ़ी-तिरछी चलती हों अथवा एक पुतली देखते समय कुछ तिरछी हो जाती हो।	টেরা	टेरा	squint-eyed, cross-eyed.
भैंस	स्त्री.	1. गोजातीय एक मादा पशु जिसका दूध गाय के दूध से अधिक गाढ़ा और स्नेहयुक्त होता है, महिषी;	মাদী ভঁইস, মাদী মোষ	मादी भंइस, मादी मोष	she-buffalo;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (ला०) बहुत स्थूलकाय स्त्री।	অত্যন্ত মোটা স্ত্রীলোক	अत्यन्त मोटा स्त्रीलोक	(fig.) very fat woman.
भैंसा	पु.	भैंस का नर, महिष।	ভইস, ভঁইস, মহিষ	भइस, भंइस, महिष	he-buffalo.
भैया	पु.	1. भाई भ्राता;	ভাই, ভ্রাতা;	भाइ, भ्राता;	brother;
		2. बराबरवालों या छोटों के लिए संबोधन का शब्द।	সমবয়সী বা বয়:কনিষ্ঠদের সম্বোধনে ব্যবহৃত	समबयसी बा बय:कनिष्ठदेर सम्बोधने ब्यबहृत	mode of address for equals and youngsters.
भैयादूज (भाईदूज)	स्त्री.	कार्तिक शुक्ला द्वितीया।	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	भ्रातृद्वितीया	Hindu festival falling on the second day of the bright fort-night of Kartik.
भोंकना	स.क्रि	1. शरीर में नुकीला अस्त्र घुसेड़ना;	শরীরে কোনো অস্ত্র বিদ্ধ করা;	शरीरे कोनो अस्त्र बिद्ध करा;	to stab, to stick;
		2. किसी नरम पदार्थ में कोई कड़ी तथा नुकीली चीज एक बारगी धंसाना।	কোনো নরম পদার্থের মধ্যে কোনো বড় চোখা জিনিস ঢুকান	कोनो नरम पदार्थेर मध्ये कोनो बड़ चोखा जिनिस ढुकान	to thrust, to drive in, to pierce, to prick.
भोंडा	वि.	1. भद्दा, बदशक्ल;	কুৎসিত, কদাকার;	कुत्सित, कदाकार;	frightful, ill-shaped, uncouth;
		2. अशिष्ट।	অশিষ্ট	अशिष्ट	indecent, crude.
भोंदू	वि.	बहुत ही सीधा-सादा और बेवकूफ, बुद्धू।	ভোঁদা	भोंदा	a dullard, a booby, a simpleton.
भोंपू	पु.	1. फूंक कर बजाया जाने वाला एक ताल का पुरानी चाल का बाजा;	ভেঁপু;	भेंपु;	a kind of musical instrument;
		2. वह ऊंची तथा लंबी सीटी जो समय सूचित करने के लिए कल कारखाने बजाते हैं;	সাইরেন;	साइरेन;	siren;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. मोटरों आदि में शब्द करने के लिए दबाकर बजाया जाने वाला बाजा।	মোটর গাড়ীর ভেঁপু	मोटर गाड़ीर भेंपु	a horn.
भोग	पु.	1. सुख-दुख आदि का अनुभव;	সুখদুঃখাদির অনুভব;	सुखदुःखादिर अनुभब;	perception (of joy or sorrow);
		2. सुख;	সুখ;	सुख;	enjoyment;
		3. दुख;	দুঃখ;	दुःख;	suffering;
		4. संभोग;	সম্ভোগ;	सम्भोग;	sexual enjoyment, carnal intercourse;
		5. किसी पदार्थ का किया जानेवाला उपयोग या व्यवहार;	ব্যবহার;	ब्यबहार;	use, application, utility;
		6. पाप-पुण्य का फल;	পাপপুণ্যের ফল;	पापपुन्येर फल;	result of good or evil deeds;
		7. नैवेद्य;	নৈবেদ্য;	नैबेद्य;	dressed food offered to an idol;
		8. सूर्य आदि की राशि-विशेष में गतिकाल।	রবি প্রভৃতি গ্রহের রাশিগতিকাল	रबि प्रभृति ग्रहेर राशिगतिकाल	time of influence of a particular planet.
भोगना	स.क्रि	1. सुखदुख का अनुभव करना;	সুখদুঃখ অনুভব করা;	सुखदुःख अनुभब करा;	to experience pleasure or pain;
		2. सहना, भुगतना;	ভোগ করা, সহা;	भोग करा, सहा;	to suffer, undergo;
		3. आनंद उठाना;	উপভোগ করা;	उपभोग करा;	to enjoy;
		4. संभोग करना।	সম্ভোগ করা	सम्भोग करा	to derive sexual pleasure, to copulate.
भोगविलास	पु.	शारीरिक या इंद्रियजन्य सुखों का अधिक भोग, आमोदप्रमोद, ऐश।	ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, আমোদপ্রমোদ	इन्द्रियसुख भोग, आमोदप्रमोद	sensual pleasure, amorous enjoyment.
भोगी	वि.	1. भोगने वाला;	ভোগকারী;	भोगकारी;	enjoying, using;
		2. भोगविलास में रत, विषयासक्त।	বিলাসী, বিষয়ভোগাসক্ত	बिलासी, बिषयभोगासक्त	one given to carnal pleasure, voluptuous.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भोग्य	वि.	1. जिसका भोग करना उचित हो, किया जाने को हो या किया जा रहा हो;	ভোগার্হ, উপভোগযোগ্য;	भोगार्ह, उपभोगजोग्य;	enjoyable, to be enjoyed, to be used;
		2. जो भोगे अर्थात् झेले या सहे जाने को हो।	অনুভবনীয়, সহনীয়	अनुभवनीय, सहनीय	to be endured or experienced.
भोज	पु.	किसी विशिष्ट अवसर पर निमंत्रित व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर कराया जानेवाला भोजन, ज्योनार।	উৎসবাদিতে বহুলোকের একসংগে ভোজন	उत्सबादिते बहुलोकेर एकसङ्गे भोजन	banquet, feast.
भोजन	पु.	1. खाने की चीज, खाद्य;	আহার্য দ্রব্য, খাদ্য;	आहार्ज द्रव्य, खाद्य;	food, victuals, meal;
		2. भक्षण करना, खाना।	ভক্ষণ, আহার	भक्षन, आहार	enjoying, eating.
भोजन भट्ट	वि.	बहुत अधिक खानेवाला, पेटू।	পেটুক	पेटुक	glutton, gourmand.
भोजनालय	पु.	1. पाकशाला, रसोई घर;	পাকশালা, রসুইঘর রান্নাঘর;	पाकशाला, रसुइघर, रान्नाघर;	kitchen, mess, dining hall;
		2. वह स्थान जहां मूल्य लेकर पका हुआ भोजन परोसकर खिलाया जाता है।	ভোজনাগার, হোটেল	भोजनागार, होटेल	restaurant, eating house.
भोजपत्र	पु.	1. ऊंचे पर्वतों पर होने वाला मझोले आकार का एक वृक्ष;	ভূর্জ বৃক্ষ	भूर्ज वृक्ष;	birch tree;
		2. उक्त वृक्ष की छाल जो प्राचीन काल में ग्रंथादि लिखने के काम आती थी।	ভূর্জপত্র	भूर्जपत्र	the leaf and the bark of the bhoj tree (used for writing on).
भोज्य	वि.	खाए जाने के योग्य, जो खाया जा सके, खाद्य।	ভোজনযোগ্য, ভক্ষ্য	भोजनजोग्य, भक्ष्य	suitable or fit to be eaten.
	पु.	खाद्य पदार्थ।	খাদ্য দ্রব্য	खाद्य द्रव्य	eatable, edible, food.
भोर	पु.	रात बीतने और सूर्योदय होने से पहले का समय, तड़का, प्रभात, सवेरा।	প্রত্যুষ, উষা, প্রভাত	प्रत्युष, उषा, प्रभात	break of day, dawn, early morning.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भोला	वि.	1. छलकपट रहित;	ছলকপটহীন;	छलकपटहीन;	natural, simple, artless;
		2. लोक व्यवहार से अनभिज्ञ, सीधासादा, सरल;	সাদাসিধা;	सादासिधा;	guileless, harmless, innocent;
		3. किसी की बात पर सहसा विश्वास कर लेने वाला;	যে সহজেই অপরের কথায় বিশ্বাস করে;	जे सहजेइ अपरेर कथाय बिश्बास करे;	simple minded;
		4. बुद्धू।	ভোঁদা, হাঁদা	भोंदा, हांदा;	silly, stupid, simpleton, gullible.
भोलापन	वि.	1. सिधाई;	সাদাসিধাভাব;	सादासिधाभाव;	simplicity, artlessness, innocence;
		2. बुद्धूपन।	বোকামি	बोकामि	silliness, stupidity.
भोलाभाला	वि.	सीधासादा, सरलहृदय, निष्कपट।	আলাভোলা, সাদাসিধা	आलाभोला, सादासिधा	artless, innocent, simple.
भौंकना (भूकना, भूँकना)	अ. क्रि.	1. कुत्ते का भौं-भौं शब्द करना;	কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা;	कुकुरेर घेउ घेउ करा;	to bark (as a dog);
		2. व्यर्थ बकना।	বাজে বকা, বকবক করা	बाजे बका, बकबक करा	to talk nonsensically or foolishly.
भौंरा	पु.	1. एक काला परदार कीड़ा जो फूलों का प्रेमी माना जाता है, भ्रमर;	ভ্রমর, ভ্রমরা;	भ्रमर, भ्रमरा;	a large black bee;
		2. लट्टू के आकार का एक प्रकार का खिलौना जिसमें लगी कील या छोटी डंडी में रस्सी लपेटकर उसे जमीन पर नचाते हैं।	লাটিম, লাট্টু	लाटिम, लाट्टु	a top.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भौंरी	स्त्री.	1. प्रायः पशुओं के शरीर पर होने वाला रोओं का मंडलाकार छोटा घेरा जो शुभाशुभ का सूचक माना जाता है;	অশ্বাদি পশুর রোমাবর্ত;	अश्वादि पशुर रोमाबर्त;	feathered hair;
		2. भांवर;	বিবাহের সময় বরবধূর অগ্নিপ্রদক্ষিণ;	बिबाहेर समय बरबधूर अग्निप्रदक्षिन;	circumambulation by the bride and bridegroom round the sacred fire in a marriage ceremony;
		3. भंवर।	ভ্রমরক, জলভ্রমি	भ्रमरक, जलभ्रमि	whirlpool.
भौंह (भौं)	स्त्री.	आंख के ऊपर की हड्डी पर धनुष के आकार में जमे हुए बाल, भृकुटी।	ভ্রূ, ভুরু	भ्रु, भुरु	eyebrow.
भौंचक	वि.	भय या आश्चर्य से हतबुद्धि, हक्का-बक्का, चकित, हैरान।	ভেবাচেকা, হতবুদ্ধি	भेबाचेका, हतबुद्धि	stunned, aghast, non-plussed, dumb-founded.
भौंचक्का	वि.	दे. 'भौंचक'।	দ্রষ্টব্য 'ভোঁচক'	द्रष्टव्य 'भौंचक'	see 'भौंचक'.
भौजाई	स्त्री.	बड़े भाई की पत्नी, भावज, भाभी।	বৌদিদি, ভাবী	बौदिदि, भाबी	elder brother's wife.
भौतिक	वि.	1. पंचभूतों से संबंधित;	পঞ্চভূত সম্বন্ধীয়;	पञ्चभूत सम्बन्धीय;	appertaining to the corporal elements, elemental;
		2. पंचभूतों या किसी एक भूत से बना हुआ;	জড়পদার্থগঠিত;	जड़पदार्थगठित;	made of matter;
		3. लौकिक, सांसारिक;	লৌকিক, সাংসারিক;	लौकिक, सांसारिक;	mundane, worldly, material;
		4. प्राकृतिक नियमों, सिद्धांतों आदि से संबंधित।	প্রাকৃতিক	प्राकृतिक	physical, material.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यन्तरण	अंग्रेजी पर्याय
भौतिकवाद	पु.	वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार पंचभूतों से बना हुआ यह संसार ही वास्तविक और सत्य माना जाता है।	জড়বাদ	जड़वाद	materialism.
भौतिकी	स्त्री.	वह विज्ञान जिसमें अजैव सृष्टि विशेषतः ताप, प्रकाश, ध्वनि, आदि पदार्थों का वैज्ञानिक विवेचन होता है, भौतिक विज्ञान।	পদার্থবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান	पदार्थविद्या, पदार्थविज्ञान	physics.
भौमवार	पु.	मंगलवार	মংগলবার	मङ्गलवार	Tuesday.
भ्रंश	पु.	1. अधःपतन, नीचे गिरना, ह्रास;	অধঃপতন, পতন, ক্ষয়;	अधःपतन, पतन, क्षय;	falling (from), falling off, declining;
		2. नाश, ध्वंस।	নাশ	नाश	destruction, ruin.
भ्रम	पु.	1. मिथ्या ज्ञान, कुछ का कुछ समझना, धोखा;	মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি, ভুলধারণা;	मिथ्याज्ञान, भ्रान्ति, भुलधारना;	illusion, misconception;
		2. संदेह;	সন্দেহ;	सन्देह;	doubt, suspicion, apprehension;
		3. चारों ओर घूमना।	আবর্তন	आवर्तन	moving round, whirling.
भ्रमजाल	पु.	सांसारिक मोह का बंधन।	মোহর বন্ধন	मोहर बन्धन	illusion.
भ्रमण	पुं.	1. घूमना-फिरना, विचरण;	বেড়ান;	बेड़ान;	moving, roaming about;
		2. यात्रा, देशाटन;	পর্যটন;	पर्जटन;	excursion, travel;
		3. चक्कर।	ঘূর্ণন	घूर्नन	going round.
भ्रमर	पु.	1. भौंरा, मधुप;	মধুকর, অলি, ভৃংগ;	मधुकर, अलि भृङ्ग;	a large black bee, the bumble bee;
		2. चंचल मन वाला व्यक्ति, लम्पट (ला०)।	কামুক, চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি	कामुक, चञ्चलचित्त व्यक्ति	libertine.
भ्रष्ट	वि.	1. दूषित और निंदनीय, बुरे आचार-विचार वाला;	দোষযুক্ত;	दोषजुक्त;	depressed, vicious, dissolute;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (मार्ग) से च्युत, विचलित;	চ্যুত, পতিত;	च्युत, पतित;	fallen, degraded, debased;
		3. बिगड़ा हुआ;	দুষ্ট, ব্যভিচারী;	दुष्ट, व्यभिचारी;	corrupt, spoilt;
		4. नष्ट।	নষ্ট	नष्ट	decayed, ruined.
भ्रष्टाचार	पु.	1. वह बहुत बिगड़ी हुई स्थिति जिसमें अधिकारी और कर्मचारी विहित कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक, भलीभांति और समय पर नहीं करते प्रत्युत मनमाने ढंग से, उत्कोच आदि लेकर तथा अनुचित रूप से करते हैं, बेईमानी;	দুর্নীতি;	दुर्नीति;	corruption, depravity;
		2. घूसखोरी।	ঘুসখোরি	घुसखोरि	bribery.
भ्रांत	वि.	1. भ्रम में पड़ा हुआ;	ভ্রমযুক্ত;	भ्रमजुक्त;	perplexed, confused;
		2. भूला हुआ;	যে ভুল করিয়াছে, যে ভ্রমে পড়িয়াছে	जे भुल करियाछे, जे भ्रमे पड़ियाछे;	erred, gone astray, fallen into error;
		3. चक्कर खाता हुआ।	ঘূর্ণিত	घूर्नित	moving about, moving to and fro, wheeling.
भ्रांति	पु.	1. मिथ्या या अयथार्थ ज्ञान, भ्रम, धोखा;	মিথ্যা ধারণা, ভ্রম, ভুল;	मिथ्या धारना, भ्रम, भुल;	delusion, wrong notion, false idea or impression;
		2. संदेह;	সন্দেহ;	सन्देह;	doubt, uncertainty, suspense;
		3. भूलचूक।	ভুলচুক	भुलचुक	error, mistake.
भ्राता	पु.	सगा भाई, सहोदर।	ভাই, সহোদর	भाइ सहोदर	brother.
भ्रातृत्व	पु.	भाईचारा, भाईपन, भायप।	ভ্রাতৃভাব, সৌভ্রাত্র	भ्रातृभाव, सौभ्रात्र	brotherhood, fraternity.
भ्रातृभाव	पु.	भाइयों में होने वाला परस्पर प्रेम।	ভাই-ভাই ভাব, সৌভ্রাত্র	भाई-भाई भाव, सौभ्रात्र	brotherly or fraternal feeling, affection.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
भ्रामक	वि.	1. भ्रम में डालने वाला, भ्रमजनक; 2. संदेह उत्पन्न करनेवाला।	ভ্রান্তিকর, ভ্রমজনক; সন্দেহজনক	भ्रान्तिकर, भ्रमजनक; सन्देहजनक	misleading, deceptive, false; causing doubt or suspicion.
भ्रूण	पु.	गर्भस्थ शिशु।	গর্ভস্থ সন্তান	गर्भस्थ सन्तान	embryo, foetus.
भ्रूणहत्या	स्त्री.	गर्भपात द्वारा गर्भस्थ शिशु की हत्या करना।	গর্ভস্থ সন্তানহত্যা, গর্ভপাত	गर्भस्थ सन्तानहत्या, गर्भपात	abortion, foeticide.
भ्रू-भंग	पु.	रोष आदि प्रकट करने के लिए भौंहे चढ़ाना, भौं टेढ़ी करना।	ভ্রূকুটি	भ्रूकुटि	contraction of the eyebrow, angry look. frown.
मंगता	पु.	भिखमंगा, याचक।	ভিক্ষুক, যাচক	भिक्षुक, जाचक	beggar, mendicant.
मंगनी	स्त्री.	1. विवाह पक्का करने की रस्म;	পাকা দেখা;	पाका देखा;	betrothal, engagement;
		2. काम हो जाने पर लौटा देने का वचन देकर किसी से मांगकर ली हुई वस्तु।	ধার-করা জিনিস	धार-करा जिनिस	a thing borrowed.
मंगल	वि.	कल्याणकारी, शुभ।	কল্যাণকর, শুভ	कल्यानकर, शुभ	auspicious, propitious, conferring happiness.
	पु.	1. कल्याण, भलाई, हित;	কল্যাণ, ভদ্র, হিত;	कल्यान, भद्र, हित;	auspiciousness, welfare, well-being;
		2. सौरमंडल का एक ग्रह जो पृथ्वी का पुत्र माना जाता है;	কুজগ্রহ, মংগলগ্রহ;	कुजग्रह, मङ्गलग्रह;	name of the planet Mars;
		3. मंगलवार।	মংগলবার	मङ्गलबार	Tuesday.
मंगलकलश	पु.	शुभकार्यों में पूजा के लिए अथवा यों ही रखा जाने वाला जलपूर्ण घड़ा, मंगलघट।	মংগলঘট, মংগল কামনায় স্থাপিত ডাব আম্রপল্লব ইত্যাদি সজ্জিত জলপূর্ণ ঘট	मङ्गलघट, मङ्गल कामनाय स्थापित डाब आम्रपल्लब इत्यादि सज्जित जलपूर्न घट	pitcher of good omen placed in front of the deity on auspicious occasions.
मंगलकारी	वि.	कल्याणकारी, मंगलकारक।	কল্যাণকারী মংগলকারক	कल्यानकारी मङ्गलकारक	propitious, beneficial.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मंगलगान	पु.	विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, मंगलगीत।	মংগলগান	मंगलगान	auspicious song.
मंगलपाठ	पु.	मंगलाचरण।	কোনো শুভ উৎসবে মাংগল্য শ্লোকাদি পাঠ	कोनो शुभ उत्सबे माङ्गल्य श्लोकादि पाठ	benedictory verses recited on an auspicious occasion, benediction.
मंगलमय	वि.	जिससे सब प्रकार का मंगल ही होता हो, कल्याणमय।	সব রকমের মংগলের আধার-সুরূপ বা উৎস-সুরূপ কল্যাণময়	सब रकमेर मङ्गलेर आधार-स्वरूप बा उत्स-स्वरूप कल्यानमय	consisting of nothing but happiness, good, auspicious.
मंगलवार	पु.	सोमवार के बाद का दिन, भौमवार।	সোমবারের পরের দিন, ভৌমবার	सोमबारेर परेर दिन, भौमबार	Tuesday.
मंगलसूत्र	पु.	1. हल्दी में रंगा सूत जो विवाह के समय वर कन्या के हाथ में बांधता है;	বিবাহে মংগলার্থ হাস্ত বদ্ধ সূত্র;	बिबाहे मङ्गलार्थ हास्त बद्ध सूत्र;	an auspicious string tied by the bridegroom during the marriage ceremony round the wrist of the bride;
		2. सधवा स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला पवित्र सूत्र।	সধবা নারী যে পবিত্র মংগলকর সূত্র গলায় ধারণ করেন	सधबा नारी जे पबित्र मङ्गलकर सूत्र गलाय धारन करेन	a string of beads (generally glass beads set in gold) worn round the neck by a married woman.
मंगलाचरण	पु.	1. शुभ कार्य के आरम्भ में मंगलकामना की की जानेवाली देवस्तुति आदि;	কর্মের আরম্ভে সুসম্পন্নতার উদ্দেশ্যে কৃত মংগলানুষ্ঠান;	कर्मेर आरम्भे सुसम्पन्नतार उद्देश्ये कृत मङ्गलानुष्ठान;	an auspicious introduction in the form of a prayer (for the attainment of success) at the beginning of any

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
					work of composition, pronouncing a blessing;
		2. ग्रंथ के आरंभ में मंगल की कामना तथा उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए लिखा जाने वाला पद्य।	নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত গ্রন্থারম্ভে করণীয় স্তোত্রপাঠরূপ মংগলানুষ্ঠান	निर्बिघ्न परिसमाप्तिर निमित्त ग्रन्थारम्भे करनीय स्तोत्रपाठरूप मङ्गलानुष्ठान	worship or salutation to deity at the commencement of an undertaking, or of a written work.
मंगलाचार	पु.	मंगलकृत्य से पहले होने वाला मंगलगान या ऐसा ही कोई और कार्य या शुभानुष्ठान।	শুভ কর্মের প্রারম্ভে মংগলজনক অনুষ্ঠান	शुभ कर्मेर प्रारम्भे मङ्गलजनक अनुष्ठन	initial benedictory recitations or songs marking the commencement of a ceremony or festive occasion.
मंगली	वि.	(व्यक्ति) जिसकी जन्म कुंडली में चौथे, आठवें या बारहवें स्थान में मंगलग्रह पड़ा हो।	যে-ব্যক্তির জন্ম-কুন্ডলীতে চতুর্থ, অষ্টম দ্বাদশ স্থানে মংগল	जे-ब्यक्तिर जन्म-कुन्डलीते चतुर्थ, अष्टम द्वादश स्थाने मङ्गल	born under the planet Mars.
मंगवाना	स. क्रि.	1. मांगने का काम दूसरे से करवाना; 2. किसी से यह कहना कि अमुक स्थान से अमुक वस्तु खरीद या मांग लाओ।	চাওয়ান, যাচ্ঞা করান; কোনো জিনিস খরিদ করান, কোনো জিনিস সংগ্রহ করান	चाओयान, जाञ्चा करान; कोनो जिनिस खरिद करान, कोनो जिनिस संग्रह करान	to cause to be sent for; to send for, to cause to be fetched, to get procured.
मंगाना	स.क्रि	दे. 'मंगवाना'।	দ্র: 'মংগবানা'	द्र: 'मंगवाना'	see 'मंगवाना'.
मंगेतर	वि.	(युवक या युवती) जिसकी मंगनी हो चुकी हो।	মংগেতর	मंगेतर	betrothed, fiance or fiancee.
मंच	पु.	1. सभा-समितियों आदि में ऊंचा बना हुआ मडंप जिस पर बैठकर सर्वसाधारण के सामने	বেদি, বেদী, প্লাটফর্ম;	बेदि, बेदी, प्लाटफर्म;	dias, stage, platform;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		किसी प्रकार का कार्य किया जाए;			
		2. मचान;	বংশাদিকৃত উচ্চাসন মাচা;	बंशादिकृत उच्चासन, माचा;	raised platform, scaffold;
		3. कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य-कलापों के लिए उपयुक्त क्षेत्र।	কোনো বিশেষ প্রকার কার্যের উপযুক্ত	कोनो बिशेष प्रकार कार्जेर उपजुक्त	platform, forum.
मंजन	पु.	दांत साफ करने का चूर्ण।	দাঁতের মাজন	दांतेर माजन	tooth powder, dentifrice.
मंजना	अ. क्रि.	1. मांजा जाना, मांजकर साफ किया जाना;	মাজাঘষা হওয়া, ঘর্ষণ দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়া;	माझाघषा हओया, घर्षन द्वारा परिष्कृत हओया;	to be rubbed or wiped or cleaned or polished;
		2. अभ्यास होना, अनुभव से दक्षता प्राप्त होना।	অভ্যাস হওয়া, অভিজ্ঞতা দ্বারা দক্ষতাপ্রাপ্ত হওয়া	अभ्यास हओया, अभिज्ञता द्वारा दक्षताप्राप्त हओया	to be practised, to be experienced, to be seasoned.
मंजरी	स्त्री.	1. नया कल्ला, कोंपल;	অঙ্কুর, মুকুল;	अङ्कुर, मुकुल;	shoot, sprout, sprig;
		2. कुछ विशिष्ट पौधों के सीके में लगे हुए बहुत से दानों का समूह।	পুষ্পস্তবক	पुष्पस्तबक	a cluster of flowers or blossoms.
मंजाना (मंजवाना)	स. क्रि.	1. किसी को मांजने में प्रवृत्त करना;	কোনো ব্যক্তিকে মাজার কাজে লাগান;	कोनो ब्यक्तिके माजार काजे लागान;	to cause to rub or scour or clean;
		2. अच्छी तरह साफ कराना।	ভাল করিয়া পরিষ্কার করান	भाल करिया परिष्कार करान	to cause to be polished. etc.
मंजिल	स्त्री.	1. उतरने या ठहरने की जगह, पड़ाव, मुकाम;	অল্পকালের জন্য থাকিবার জায়গা, যাত্রীনিবাস;	अल्पकालेर जन्य थाकिबार जायगा, जात्रीनिबास;	a place for the accommodation of travellers, a caravan sarai;
		2. गन्तव्य;	গন্তব্যস্থল;	गन्तब्यस्थल;	destination;
		3. मकान की छत, खंड;	গৃহের ছাদ, তলা;	गृहेर छाद, तला;	storey;
		4. अवस्था, चरण।	অবস্থা	अबस्था	(fig.) stage.
मंजिष्ठा	स्त्री.	मंजीष्ठ नामक पेड़ और उसका फल।	রক্তবর্ণ লতাবিশেষ	रक्तबर्न लताबिशेष	madder.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मंजीर	पु.	1. नूपुर, घुंघरु; 2. मथानी का डंडा, बांधने का खंभा।	নূপুর; দধিমন্থনদন্ড-বন্ধনার্থ স্তম্ভ	नूपुर; दधिमन्थनदन्ड-बन्धनार्थ स्तम्भ	anklet; a post round which the string of the churning stick passes.
मंजीरा	पु.	कांसे, पीतल आदि की कटोरियों की जोड़ी जिसे ताल देने के लिए बजाते हैं।	মন্দিরা	मन्दिरा	a kind of cymbal.
मंजु	वि.	सुंदर, मनोहर।	সুন্দর, মনোহর	सुन्दर, मनोहर	beautiful, lovely, charming.
मंजुल	वि.	सुंदर, मनोहर।	সুন্দর, মনোহর	सुन्दर मनोहर	beautiful, charming, lovely.
मंजूर	वि.	स्वीकृत।	মঞ্জুর, স্বীকৃত	मञ्जुर, स्वीकृत	approved of, accepted, sanctioned, granted.
मंजूरी	स्त्री.	स्वीकृति।	মঞ্জুরী, স্বীকার, সম্মতি	मञ्जुरी, स्वीकार, सम्मति	approval, grant, sanction, acceptance.
मंजूषा	स्त्री.	1. छोटा पिटारा या डिब्बा, पिटारी, पेटी; 2. वह तश्तरी आदि जिसमें रखकर अभिनंदन-पत्र भेंट किया जाता है।	পেটরা, পেটিকা; মঞ্জুষা	पेटरा, पेटिका; मंजुषा	basket; box, casket, chest
मंझधार	स्त्री.	नदी के बीच की धारा।	মাজদরিয়া, নদীর মাজখানের স্রোত	माजदरिया, नदीर माजखानेर स्रोत	mid-stream, mid-current.
मंझला (स्त्री. मंझली)	वि.	वय, स्थिति आदि के विचार से बीच का, दरमियाना।	মধ্যবর্তী, মধ্য	मध्यबर्ती, मध्य	mid, medium, middle.
मंझोला (स्त्री. मंझोली)	वि.	न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा, आकार आदि के विचार से बीच का।	মাঝারি	माझारि	of medium size or dimension, middle, intermediate.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मंडन	पु.	1. शृंगार करना, सजाना;	অলঙ্করণ, প্রসাধন;	अलङ्करन, प्रसाधन;	the act of ornamenting or adorning, bedecking oneself;
		2. आभूषण;	ভূষণ, অলঙ্কার;	भूषन, अलङ्कार;	ornament, embellishment, jewels;
		3. युक्ति आदि देकर किसी कथन या सिद्धान्त का पुष्टिकरण।	যুক্তি প্রদর্শন করত: কোনো মতের সমর্থন	जुक्ति प्रदर्शन करत: कोनो मतेर समर्थन	corroboration, support through argumentation.
मंडप	पु.	1. छाया हुआ पर चारों ओर से खुला हुआ बैठने का स्थान, बारहदरी;	সভা প্রভৃতির নির্মিত ছাদযুক্ত চত্বর বা স্থান;	सभा प्रभृतिर निर्मित छादजुक्त चत्बर बा स्थान;	an open hall;
		2. किसी विशिष्ट कार्य के लिए ऊपर से छाया हुआ स्थान, मंडवा;	প্যান্ডাল, উৎসবার্থ রচিত গৃহ;	प्यान्डाल, उत्सबार्थ रचित गृह;	a temporary hall erected on ceremonial occasions;
		3. कुंज;	কুঞ্জ;	कुंज;	an arbour, a bower;
		4. चंदोवा, शामियाना;	চাঁদোয়া ঢাকা স্থান;	चांदोया ढाका स्थान;	a tent, pavilion, canopy for ceremonial purposes;
		5. देवमंदिर का ऊपर का छाया हुआ गोलाकार अंश या भाग।	দেবাদির উদ্দেশে প্রদত্ত গৃহ, মন্দির	देबादिर उद्देशे प्रदत्त गृह, मन्दिर	a building consecrated to a deity, temple.
मंडराना	अ.क्रि	1. मंडलाकार चक्कर देते हुए उड़ना;	মন্ডলাকারে উড়া;	मन्डलाकारे उड़ा;	to fly round, to hover (as birds);
		2. लोभ या स्वार्थवश किसी के आस-पास चक्कर लगाते या घूमते रहना;	লোভের বশে কাহারও চারি-পাশে ঘুরঘুর করা;	लोभेर बशे काहारओ चारि-पाशे घुरघुर करा;	to hover or hang around (as persons).
		3. घेरा बांधकर छा जाना।	ছাইয়া যাওয়া	छाइया जाओया	to gather thick (as clouds).
मंडल	पु.	1. गोल घेरा, वृत्त;	গোল, বৃত্ত, বর্ত্তুল;	गोल, बृत्त, बर्त्तुल;	circle, ring, coil;
		2. गोलाकार आकृति, रचना या वस्तु;	বৃত্তাকার বস্তু, গোলাকার বস্তু;	बृत्ताकार बस्तु, गोलाकार बस्तु;	wheel, disc;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. सूर्य, चंद्र आदि के चारों ओर पड़ने वाली छाया का घेरा;	চন্দ্রসূর্যের উপরি রশ্মিমন্ডল;	चन्द्रसूर्जेर उपरि रश्मिमन्डल;	a halo (round the sun or moon);
		4. सूर्य, चंद्र का बिम्ब;	চন্দ্রসূর্যশরীর, বিম্ব;	चन्द्रसूर्जशरीर, बिम्ब;	disk of the sun or moon;
		5. किसी विशिष्ट दृष्टि से एक माना जाने वाला भूभाग या क्षेत्र, अंचल;	দেশ, সীমাবদ্ধ ভূমিভাগ, ক্ষুদ্ররাজ্য;	देश, सीमाबद्ध भूमिभाग, क्षुद्रराज्य;	a region, country, territory, zone;
		6. कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों का समाज, समूह या वर्ग;	বৃন্দ, সমূহ, সঙ্ঘ, সমাজ;	बृन्द, समूह, सङ्घ, समाज;	company, assembly, association;
		7. ग्रहों का गतिपथ, कक्षा।	জ্যোতিষ্কের পরিক্রমণপথ	ज्योतिष्केर परिक्रमनपथ	orbit (of a planet etc.).
मंडलाकार	वि.	मंडल के आकार का, गोलाकार।	গোল, গোলাকার	गोल, गोलाकार	round, circular, spherical.
मंडली	स्त्री.	1. मनुष्यों की गोष्ठी या समाज;	সমূহ, গণ;	समूह, गन;	team, party, association;
		2. जीव-जंतुओं का झुंड या दल;	দল;	दल;	flock;
		3. एक ही विचार या उद्देश्य वाले या एक ही तरह का काम करने वाले लोगों का दल या समूह।	একই উদ্দেশ্যে একরকম কাজে নিরত লোকের দল বা সমূহ	एकइ उद्देश्ये एकरकम काजे निरत लोकेर दल बा समूह	company (of singers), gang, circle, band.
मंडवा	पु.	1. किसी विशिष्ट कार्य के लिए छाकर बनाया हुआ स्थान, मंडप;	অস্থায়ী গৃহ বা চালা;	अस्थायी गृह बा चाला;	a temporary building or shed;
		2. शामियाना।	শামিয়ানা	शामियाना	tent, pavilion, canopy.
मंडित	वि.	1. सजाया हुआ, विभूषित;	অলঙ্কৃত, ভূষিত, শোভিত;	अलङ्कृत, भूषित, शोभित;	adorned, ornamented, decorated;
		2. भरा हुआ या पूरी तरह से युक्त किया हुआ, पूरित।	খচিত, যুক্ত, মোড়া	खचित, जुक्त, मोड़ा	corroborated, supported.

हिंदी शब्द	व्या. प्रयो.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मंडी	स्त्री.	1. थोक-बिक्री का बाजार, बड़ा बाजार;	পাইকারী বাজার;	पाइकारी बाजार;	a whole-sale market;
		2. बाजार।	বাজার	बाजार	market.
मंडूक	पु.	मेंढक	ভেক, বেঙ	भेक, बेङ्	frog.
मंतव्य	पु.	स्थिर किया हुआ विचार, मत।	অভিমত, মতামত	अभिमत, मतामत	intention, object, view.
मंत्र	पु.	1. वह शब्द या शब्द-समूह जिससे किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त होती हो;	দেবাদির সাধনার্থ তন্ত্রাদিকথিত শব্দভেদ;	देबादिर साधनार्थ तन्त्रादिकथित शब्दभेद;	incantation, charm, spell;
		2. कार्यसिद्धि का गुर, ढंग या नीति;	নীতি;	नीति;	means, contrivance;
		3. वेद का संहिता-पाठ।	বেদাংশবিশেষ	बेदांशबिशेष	a passage of the Vedas, a Vedic hymn.
मंत्रणा	स्त्री.	1. किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपस में होने वाली बातचीत, विचार-विमर्श;	কর্তব্য সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা;	कर्तब्य सम्बन्धे अन्येर सहित आलोचना;	consultation, deliberation;
		2. परामर्श, सलाह।	পরামর্শ	परामर्श	advice, counsel.
मंत्र-तंत्र	पु.	वे मंत्र जो कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं के साथ जादू-टोने के रूप में किसी अभीष्ट की सिद्धि के लिए पढ़े जाते हैं।	অভিচারিক মন্ত্র ও অভিচারিক দ্রব্য	अभिचारिक मन्त्र ओ अभिचारिक द्रब्य	sorcery, witchcraft, hocus-pocus.
मंत्रालय	पुं.	1. शासन में कर्मचारियों का वह विभाग जो किसी मंत्री के निर्देशन में काम करता हो;	প্রশাসনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীবিশেষের অধীন কর্ম-চারীদের বিভাগ;	प्रशासनेर क्षेत्रे मन्त्रीबिशेषेर अधीन कर्म-चारीदेर बिभाग;	the office headed by a minister;
		2. शासन के किसी मंत्री तथा उसके विभाग का कार्यालय।	কোনো মন্ত্রী ও তাঁহার বিভাগের প্রশাসনিক কার্যালয়	कोनो मन्त्री ओ तांहार बिभागेर प्रशासनिक कार्जालय	ministry.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मंत्रि-परिषद	स्त्री.	किसी राज्य, संस्था आदि के मंत्रियों का समूह या समाहार।	মন্ত্রীদের পরিষদ	मन्त्रीदेर परिषद	a council of ministers.
मंत्रि-मंडल	पु.	किसी राज्य के मंत्रियों का मंडल, वर्ग या समूह।	মন্ত্রীদের মন্ডল	मन्त्रीदेर मन्डल	cabinet of ministers.
मंत्री	पु.	1. राज्य के किसी विभाग या किसी संस्था का वह प्रधान अधिकारी जिसके आदेश और परामर्श से उस विभाग या संस्था का कार्य संचालन होता है;	রাষ্ট্রশাসনের বিভাগবিশেষের ভারপ্রাপ্ত আমত্য;	राष्ट्रशासनेर बिभागबिशेषेर भारप्राप्त आमत्य;	minister;
		2. राजा का वह प्रधान अधिकारी जो उसे राजकार्यों के संबंध में परामर्श देता और राजकार्यों का संचालन करता हो;	রাজার পরামর্শদাতা;	राजार परामर्शदाता;	adviser, counsellor;
		3. किसी संस्था या संगठन का सचिव।	কোনো প্রতিষ্ঠানের সচিব	कोनो प्रतिष्ठानेर सचिब	secretary.
मंथन	पु.	1. वह क्रिया जिससे दही को मथानी द्वारा चलाकर मक्खन निकाला जाता है, मथना, विलोना;	বিলোড়ন, মথিত করা, মওয়া;	बिलोड़न, मथित करा, मओया;	churning, agitating, stirring or shaking about;
		2. तत्वबोध के लिए किसी विषय को बार-बार पढ़ना, सोचना, उसकी छानबीन करना।	কোনো বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পড়া, আলোচনা করা	कोनो बिषय तन्न तन्न करिया पड़ा, आलोचना करा	deep pondering over something (for acquisition of knowledge) etc.
मंथनी	स्त्री.	दही रखने का बरतन, मटकी।	মন্থনপাত্র	मन्थनपात्र	a churning vessel.
मंथर	वि.	धीमा, मंद, सुस्त।	ধীরজ, মন্দ, অলস	धीरज, मन्द, अलस	slow, tardy, lazy.
मंद	वि.	1. धीमा;	মন্থর, ধীরজ;	मन्थर, धीरज;	slow, tardy;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. हलका;	হাল্কা;	हाल्का;	dim, faint (as light or sound etc.), low, hollow, soft, (sound or voice);
		3. सुस्त;	অলস;	अलस;	inactive, sluggish, dull;
		4. दुर्बल;	ক্ষীণ,	क्षीन;	slack, weak;
		5. अल्प, थोड़ा।	অল্প	अल्प	slight, trifling, little.
मंदबुद्धि	वि.	मोटी अक्ल वाला, अल्पबुद्धि।	অল্পবুদ্ধি	अल्पबुद्धि	dull-witted, silly, foolish, stupid.
मंदा	वि.	1. जिसकी मांग कम हो, नीचे भाव पर बिकने वाला (सौदा);	যাহার চাহিদা কম, সস্তা;	जाहार चाहिदा कम, सस्ता;	slack,cheap;
		2. मंद, धीमा।	মন্থর, ধীর	मन्थर, धीर	slow, tardy.
मंदाग्नि	स्त्री.	पाचन-शक्ति के दुर्बल हो जाने का रोग।	অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধার অল্পতা	अग्निमान्द्य, क्षुधार अल्पता	slowness of digestion.
मंदार	पु.	1. आक, मदार;	মাদার গাছ, অর্ক বৃক্ষ, আকন্দ;	मादार गाछ, अर्क बृक्ष, आकन्द;	swallow-host, Asclepias, gigantea;
		2. स्वर्ग के पांच वृक्षों में से एक देव वृक्ष;	অন্যতম;	अन्यतम;	one of the five tree in India's paradise, the coral tree;
		3. मंदारपुष्प।	মন্দারপুষ্প	मन्दारपुष्प	a flower of the coral tree.
मंदिर	पु.	1. देवालय;	দেবালয়;	देबालय;	temple;
		2. किसी विशिष्ट शुभ कार्य के लिए बना हुआ भवन।	প্রাসাদ, ভবন	प्रासाद, भबन	palace, mansion.
मंदी	स्त्री.	1. मंद होने की अवस्था या भाव;	মন্থরতা, ধীরতা;	मन्थरता, धीरता;	slowness, tardiness;
		2. बाजार की वह स्थिति जिसमें चीजों का भाव उतर रहा हो, सस्ती;	জিনিসের মূল্য হ্রাস পাওয়া,	जिनिसेर मूल्य ह्रास पाओया,	fall in prices, depression in price;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. बाजार की वह स्थिति जिसमें चीजें कम बिकती हों या रोजगार कम चलता हो।	বাজার মন্দা হওয়া	बाजार मन्दा हओया	slump in market.
मंद्र	पु.	1. गंभीर ध्वनि, जोर का शब्द;	গম্ভীর ধ্বনি;	गम्भीर ध्वनि;	deep sound, low tone,
		2. संगीत के तीन स्वर सप्तकों में से पहला।	(সংগীতে) স্বরগ্রাম বিশেষ	(सङ्गीते) स्वरग्राम बिशेष	the first note in the diatonic scale, lower octave.
	वि.	गंभीर।	গম্ভীর	गम्भीर	low, deep, grave,
मंशा	स्त्री.	1. इच्छा, इरादा;	ইচ্ছা, সঙ্কল্প;	इच्छा, सङ्कल्प;	motive, purpose, object, intention;
		2. अभिप्राय, उद्देश्य।	অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য	अभिप्राय, उद्देश्य	purport, tenor.
मंसूख	वि.	रद्द किया हुआ (आदेश, निश्चय आदि)।	রদ, খারিজ, বাতিল	रद, खारिज, बातिल	cancelled, rescinded, repealed.
मंसूखी	स्त्री.	रद्द किए जाने की क्रिया, दशा या भाव।	বারণ, খারিজ করণ, বাতিল করণ	बारन, खारिज करन, बातिल करन	cancellation, rescission.
मंसूबा (मनसूबा)	पु.	1. कोई काम करने से पहले मन में सोची जानेवाली युक्ति, जोड़-तोड़;	উপায়, পরিকল্পনা;	उपाय, परिकल्पना;	contrivance, plan, design;
		2. इरादा, विचार;	সঙ্কল্প, ভাবনা;	सङ्कल्प, भाबना;	intention, will, desire;
		3. तजवीज, योजना।	বন্দোবস্ত,যোজনা	बन्दोबस्त, जोजना	project, scheme.
मकई	स्त्री.	मक्का।	ভুট্টা, মকাই, মক্কা	भुट्टा, मकाई, मक्का	maize.
मकड़ी	स्त्री.	एक प्रसिद्ध कीड़ा जो अपने मुंह में से निकाले हुए एक तरह के लसीले पदार्थ से चक्राकार जाल बुनता है और उसमें फंसी हुई मक्खियों आदि को खाता है।	মাকড়, মাকড়সা	माकड़, माकड़सा	spider.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मकबरा	पु.	कब्र पर बनी हुई इमारत या गुंबद।	কবরের উপর নির্মিত ইমারত	कबरेर उपर निर्मित इमारत	tomb, mausoleum.
मकरंद	पु.	1. फूलों का रस;	পুষ্পরস, পুষ্পমধু;	पुष्परस, पुष्पमधु;	the juice or nectar or honey of flowers;
		2. फूलों का केसर।	পুষ্পকেশর	पुष्पकेशर	filament (esp. of the lotus flower.).
मकर	पु.	1. मगर, घड़ियाल;	ঘড়িয়াল;	घड़ियाल;	crocodile;
		2. बारह राशियों में दसवीं राशि।	জ্যোতিষি দশম রাশি	ज्योतिषि दशम राशि	name of the tenth sign of the Zodiac, the sign capricorn.
मकर-संक्रान्ति	स्त्री.	वह समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है।	সূর্যের মকররাশিতে গমন	सूर्जेर मकरराशिते गमन	the day when the sun enters the mansion capricornus.
मकसद	पु.	1. उद्देश्य;	উদ্দেশ্য;	उद्देश्य;	intention, motive, object;
		2. मनोरथ;	মনোরথ;	मनोरथ;	desire, wish;
		3. अभिप्राय।	অভিপ্রায়	अभिप्राय	intended sense (of), meaning, purport.
मकान	पु.	1. घर, गृह;	ঘর, গৃহ;	घर, गृह;	house, home;
		2. रहने की जगह, निवास स्थान;	মকাম, মোকাম, থাকার জায়গা;	मकाम, मोकाम, थाकार जायगा;	residence, dwelling;
		3. मूल निवास स्थान।	মূল নিবাসস্থান	मूल निबासस्थान	home town.
मकोय	स्त्री.	एक क्षुप जिसके फल, पत्ते आदि दवा के काम आते हैं तथा इसका फल, रसभरी।	এক লতাবৃক্ষ ইহার ফল, পাতা ঔষধে লাগে আর ফলটি রসাল	एक लतावृक्ष इहार फल, पाता औषधे लागे आर फलटि रसाल	the medicinal plant solanum rubrum and its fruit sarsa parilla
मक्का (मक्की)		एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी बालों में से दाने निकलते हैं, मकई।	মক্কা, মকাই, ভুট্টা	मक्का, मकाइ, भुट्टा	Indian corn, maize

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मक्कार	वि.	1. छली, कपटी;	छल, কপট;	छल, कपट;	deceitful, cunning, crafty;
		2. दूसरों को धोखा देने के लिए अपनी हीन स्थिति बनानेवाला।	ধোকাবাজ, ভন্ড;	धोकाबाज, भन्ड;	hypocrite.
मक्कारी	स्त्री.	1. कपट, धोखेबाजी, छल;	কপটতা, ধোকা, ছল;	कपटता, धोका, छल;	deceitfulness, cunningness, craftiness;
		2. मक्कार होने की अवस्था या भाव।	ভন্ডামি	भन्डामि	hypocrisy.
मक्खन	पु.	दूध या दही की चिकनाई जो मथने से निकलती है, नवनीत।	মাখন	माखन	butter.
मक्खी	स्त्री.	1. सर्वत्र पाया जानेवाला एक परदार कीड़ा मक्षिका;	মক্ষি, মাছি;	मक्षि, माछि;	fly;
		2. मधुमक्खी;	মৌমাছি;	मौमाछि;	honey-bee;
		3. बंदूक के अगले भाग में वह उभरा हुआ अंश जिसकी सहायता से निशाना साधा जाता है।	বন্দুকের নিশানা ঠিক করার সহায়ক কলবিশেষ	बन्दुकेर निशाना ठिक करार सहायक कलबिशेष	the sight (of a gun).
मक्खीचूस	पु.,वि	बहुत बड़ा कंजूस (घी आदि में पड़ी मक्खी तक को चूस लेनेवाला व्यक्ति)।	হাড়কৃপণ	हाड़कृपन	miserly, niggardly.
मक्खीमार	पु.	1. मक्खियां उड़ाने की एक प्रकार की छड़ी जिसके सिर पर चमड़ा लगा रहता है;	মাছি মারার জন্য তৈরী হাতিয়ার;	माछि मारार जन्य तैरी हातियार;	fly killing device;
		2. घृणित या आलसी व्यक्ति।	জঘন্য লোক, অলস লোক	जघन्य लोक, अलस लोक	idle, slothful, filthy.
मखमल	स्त्री.	एक तरह का बढ़िया रेशमी कपड़ा जो ऊपर की ओर बहुत नरम और रोएंदार होता है।	মকমল, রেশাম বা রেশমতুলায় প্রস্তুত কোমল মসৃণ বস্ত্রবিশেষ	मकमल, रेशाम बा रेशमतुलाय प्रस्तुत कोमल मसृन बस्त्रबिशेष	velvet.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मखमली	वि.	1. मखमल का बना हुआ; 2. मखमल की तरह (कोमल)।	মক্মলি; মক্মলের মতো কোমল	मक्मलि; मक्मलेर मतो कोमल	of velvet, velvety; soft, delicate.
मखाना	पु.	तालमखाना।	শুষ্ক ফলবিশেষ, পদ্মবীজের খই	शुष्क फलबिशेष, पद्मबीजेर खइ	a kind of dry fruit (prepared by parching lotus-seeds).
मखौल	पु.	ऐसी मजेदार तथा व्यंग्यपूर्ण बात जो प्रायः किसी को हास्यास्पद बनाने के लिए कही जाती है, मजाक, ठट्ठा।	মস্করা, ঠাট্টা, পরিহাস, ভাঁড়ামি	मस्करा, ठाट्टा, परिहास, भांड़ामि	mockery, joke, jest.
मखौलिया	पु.	मखौल करनेवाला व्यक्ति।	ভাঁড়, পরিহাসরসিক	भांड़, परिहासरसिक	jester.
मगज	पु.	1. दिमाग, मस्तिष्क; 2. गूदा, गिरी; 3. सारभाग।	মস্তিষ্ক; শাঁস; সারভাগ	मस्तिष्क; शांस; सारभाग	brain, intellect; kernel, pulp, the chief substance or essence (of any thing), pith.
मगजपच्ची	स्त्री.	सिर खपाना, माथापच्ची।	মাথা ঘামান, মাথা খারাপ করা	माथा घामान, माथा खाराप करा	mental over-exertion, racking of the brains.
मगजी	स्त्री.	कपड़े के किनारे पर लगाई जानेवाली गोट।	পটি বা ফিতা	पटि बा फिता	border, hem.
मगन	वि.	1. अति प्रसन्न, आनंदित; 2. तल्लीन; 3. रीझा हुआ।	অতিপ্রসন্ন, আনন্দিত; নিমগ্ন, আত্মহারা; আনন্দ, অভিভূত	अतिप्रसन्न, आनन्दित; निमग्न, आत्महारा; आनन्द, अभिभूत	delighted, charmed, glad, happy; immersed, absorbed (in), deeply engaged (in); deeply in love (with), enamoured (of).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मगर	पु.	घड़ियाल।	কুমীর	कुमीर	crocodile.
	अव्य.	परंतु, लेकिन।	কিন্তু, তবে	किन्तु, तबे	but, however.
मगरमच्छ	पु.	घड़ियाल।	ঘড়িয়াল	घड़ियाल	crocodile.
मग्न	वि.	1. डूबा हुआ;	ডোবা, নিমজ্জিত;	डोबा, निमज्जित;	drowned (in), sunk (in);
		2. तन्मय;	তন্ময়;	तन्मय;	busy, absorbed (in), immersed;
		3. खूब प्रसन्न।	অতিহৃষ্ট	अतिहृष्ट	delighted, charmed, glad, happy.
मचकना	अ.क्रि.	1. मच-मच शब्द उत्पन्न होना;	মচ মচ শব্দ হওয়া;	मच् मच् शब्द हओया;	to creak (as a bedstead, etc.,);
		2. लचकना।	বক্র হওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া	बक्र हओया, बांकिया जाओया	to bend (under pressure).
	स.क्रि.	मचमच शब्द उत्पन्न करना, मचकाना।	মচ্ মচ্ শব্দ করা	मच् मच् शब्द करा	to make a creaking sound.
मचकाना	स.क्रि.	1. मचमच शब्द उत्पन्न करना;	মচ্ মচ্ শব্দ করা;	मच् मच् शब्द करा;	to make a creaking sound;
		2. लचकाना, हिलाना।	বাঁকান, ঝাঁকান	बांकान, झांकान	to shake, to bend.
मचना	अ.क्रि.	1. जोरों से या धूमधाम से आरंभ होना;	ধুমধাম সহ আরম্ভ হওয়া;	धुमधाम सह आरम्भ हओया;	to be caused, to be occasioned;
		2. चारों ओर फैलना, छा जाना।	চারিদিকে ছাইয়া যাওয়া	चारिदिके छाइया जाओया	to be raised up, to be stirred up.
मचलना	अ.क्रि.	प्रायः बच्चों का किसी चीज को पाने या न देने के लिए हठ करना।	কোনো জিনিসের জন্য জিদ করা	कोनो जिनिसेर जन्य जिद करा	to be wayward, to be refractory, to insist.
मचली	स्त्री.	मतली, वमन की प्रवृत्ति।	গা বমি বমি করা	गा बमि बमि करा	nausea, a tendency towards vomitting.
मचवाना	स.क्रि.	1. आरम्भ कराना;	আরম্ভ করান;	आरम्भ करान;	to cause to start, begin;
		2. चारों ओर फैलाने या फैलने में प्रवृत्त करना।	চারিদিকে ছড়ান	चारिदिके छड़ान	to cause to be raised or stirred up.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मचान	पु.	बांसों, लट्ठों आदि के सहारे बनाया हुआ वह ऊंचा आसन जिस पर बैठकर शिकारी शिकार खेलते या किसान खेतों की रखवाली करते हैं।	মাচান, মঞ্চ	माचान, मञ्च	raised platform.
मचाना	स.क्रि.	1. आरंभ करना, जारी करना;	আরম্ভ করা;	आरम्भ करा;	to cause, make, produce;
		2. चारों ओर फैलाना।	চারিদিকে বিস্তৃত করা	चारिदिके बिस्तृत करा	to raise up, stir up, set up.
मचिया	स्त्री.	छोटी चौकोर चोकी जो खाट की तरह सुतली आदि से बुनी जाती है।	ছোট খাটিয়া	छोट खाटिया	a small bed, a stool.
मच्छर	पु.	एक उड़नेवाला कीड़ा जो आमतौर से बरसात में पैदा होता है तथा आदमियों और जानवरों का खून चूसता है।	মশা	मशा	mosquito.
मच्छरदानी	स्त्री.	मंच्छरों से बचने के लिए लगाया जानेवाला जालीदार परदा।	মশারি	मशारि	mosquito-net.
मछली	स्त्री.	1. एक प्रकार का प्रधान जलजीव जिसके फेफड़े नहीं होते और वह गलफड़े से स्वांस लेता है;	মাছ;	माछ;	fish;
		2. मछली के आकार का लटकन;	মৎস্যাকৃতি কর্ণভূষণ;	मत्स्याकृति कर्नभूषन;	ear-ring made in the form of a fish;
		3. पुष्ट बाहों में दिखाई पड़नेवाला मांस-पेशियों का उभार।	মাংসপেশী	मांसपेशी	muscle or tendon.
मछुआ	पु.	मछलियां पकड़ने का पेशा करनेवाला व्यक्ति।	মাছুয়া, মেছুয়া, জেলে	माछुया, मेछुया, जेले	fisherman.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मजदूर (मजूर)	पु.	1. भाड़े या मजदूरी पर शारीरिक परिश्रम संबंधी कार्य करनेवाला व्यक्ति;	মজদুর, মজুর, মুনিষ, জোন;	मजदुर, मजुर, मुनिष, जोन;	hired labourer;
		2. शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका कमाने-वाला कोई व्यक्ति।	মজুর, শ্রমজীবী, শ্রমিক	मजुर, श्रमजीवी, श्रमिक	worker, work-man.
मजदूरी (मजूरी)	स्त्री.	1. मजदूर का काम;	মজুরী, মজুরের কাজ;	मजुरी, मजुरेर काज;	bodily labour, work;
		2. भाड़े या वेतन के रूप में मजदूर को दिया जानेवाला धन।	মজুরের ভাড়া	मजुरेर भाड़ा	wages, remuneration.
मजनूं	पु.	1. पागलों की तरह आचरण करनेवाला प्रेमी, आशिक;	প্রেমোন্মাদ;	प्रेमोन्माद;	love-lorn, mad in love;
		2. पागल, विक्षिप्त, दीवाना व्यक्ति;	পাগল;	पागल;	demoniac, maniac, a fanatic;
		3. बहुत दुबला-पतला;	খুব রোগাপট্কা;	खुब रोगापट्का;	a very thin and weak person;
		4. अरब देश का एक प्रसिद्ध प्रेमी जिसका वास्तविक नाम कैस था और जो लैला के प्रेम में पागल हो गया था।	আরব দেশের এক প্রখ্যাত প্রেমিক যে লয়লার প্রেমে পাগল হয়েছিল	आरब देशेर एक प्रख्यात प्रेमिक जे लयलार प्रेमे पागल हयेछिल	a famous lover of Arabia who was mad after Laila.
मजबूत	वि.	1. दृढ़, पुख्ता, पक्का;	মজবুত, দৃঢ়, অটল;	मजबुत, दृढ़,अटल;	firm, fixed, fast;
		2. टिकाऊ;	দীর্ঘকালস্থায়ী;	दीर्घकालस्थायी;	durable, lasting;
		3. हृष्ट-पुष्ट, तगड़ा, शक्तिशाली।	বলবান্	बलबान्	strong, sturdy.
मजबूती	स्त्री.	1. दृढ़ता, पक्कापन;	মজবুতি, দৃঢ়তা;	मजबुति, दृढ़ता;	firmness, solidity;
		2. ताकत, सबलता, साहस;	শক্তি, সরলতা, সাহস;	शक्ति, सरलता, साहस;	strength;
		3. टिकाऊपन।	দীর্ঘকালস্থায়িত্ব	दीर्घकालस्थायित्व	durability.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मजबूर	वि.	बाध्य, विवश, लाचार।	বাধ্য, নাচার	बाध्य, नाचार	compelled, helpless.
मजबूरन	क्रि. वि.	मजबूर होने या किए जाने पर, विवशतापूर्वक, लाचारी से।	বাধ্য হইয়া, অনন্যোপায় হইয়া, নাচার হইয়া	बाध्य हइया, आनन्योपाय हइया, नाचार हइया	compulsorily, having no alternative, under pressure.
मजबूरी	स्त्री.	विवशता, लाचारी।	বাধ্য হওয়া, নাচার হওয়া	बाध्य हओया, नाचार हओया	compulsion, helplessness.
मजमा	पु.	भीड़भाड़, जमाव, (तमाशबीनों का) समूह।	ভিড়, সমাবেশ, সমূহ	भिड़, समाबेश, समूह	crowd, gathering, assembly.
मजमून	पु.	1. लेख, कथन या विचार आदि का विषय;	মজমুন, লেখা ইত্যাদির বিষয়;	मजमुन, लेखा इत्यादिर बिषय;	subject, topic;
		2. लेख, निबंध।	রচনা, নিবন্ধ	रचना, निबन्ध	article, essay.
मजलिस	स्त्री.	1. किसी विशेष उद्देश्य से एक साथ बैठे हुए बहुत से लोगों का समाज;	সমাজ, বৈঠক, সঙ্ঘ;	समाज, बैठक, सङ्घ;	assembly, congregation, meeting;
		2. परिषद्, सम्मेलन।	সমিতি, সভা	समिति, सभा	convention, congress, council, conference.
मजहब	पु.	1. धार्मिक संप्रदाय, पंथ, मत;	ধার্মিক সম্প্রদায় পন্থ, মত;	धार्मिक सम्प्रदाय पन्थ, मत;	belief, creed;
		2. धर्म।	ধর্ম	धर्म	religion.
मजहबी	वि.	1. मजहब या संप्रदाय-विशेष से संबंधित;	সাম্প্রদায়িক, পঞ্চসম্পর্কিত;	साम्प्रदायिक, पंचसम्पर्कित;	of or relating to a religion or sect;
		2. धार्मिक।	ধার্মিক	धार्मिक	religious.
मजा	पु.	1. सुख, आनंद, लुत्फ;	সুখ, আনন্দ, আমোদ;	सुख, आनन्द, आमोद;	joy, delight, pleasure;
		2. स्वाद, रस, जायका;	স্বাদ, রস;	स्वाद, रस;	taste, savour, relish;
		3. हंसी-ठट्ठा, परिहास;	ঠাট্টা, পরিহাস;	ठाट्टा, परिहास;	jest, joke;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. सजा, कर्मफल (ला०)।	শাস্তি, কর্মফল	शास्ति, कर्मफल	(fig.) result of one's own deeds, punishment.
मजाक	पु.	परिहास, हंसी, दिल्लगी।	পরিহাস, হাসি	परिहास, हासि	joke, jest, fun.
मजाकिया	वि.	1. मजाक या परिहास से संबंध रखनेवाला;	মজাদার;	मजादार;	humorous, witty;
		2. जो बहुत अधिक या प्रायः मजाक करता रहता हो, ठिठोलिया।	রগুড়ে, রগড়িয়া, কৌতুককারী	रगुड़े, रगड़िया, कौतुककारी	wag, jester, witty or humorous man.
मजार	पु.	विशेषतः किसी पीर, फकीर या महापुरुष की कब्र।	কোনো পীর ফকির বা মহা-পুরুষের কবর	कोनो पीर फकिर बा महा-पुरुषेर कबर	tomb, grave.
मजाल	स्त्री.	1. शक्ति, सामथ्र्य;	শক্তি, সামর্থ্য;	शक्ति, सामर्थ्य;	strength, power;
		2. दुस्साहस, घृष्टता।	দুঃসাহস, ধৃষ্টতা	दुःसाहस, धृष्टता	cheek, audacity.
मजीठ	स्त्री.	एक लता जिसके छोटे गोल फलों से लाल रंग तैयार किया जाता है।	মঞ্জিষ্ঠা, লাল রংয়ের লতাবিশেষ	मंजिष्ठा लाल रङ्येर लताविशेष	the drug Rubia manjith, the root of which yields a dye.
मजीरा	पु.	दे. 'मंजीरा'।	দ্র: 'মঞ্জীরা'	द्र: 'मंजीरा'	see 'मंजीरा'.
मजेदार	वि.	1. स्वादिष्ट;	মজাদার, স্বাদ;	मजादार, स्वाद;	tasty, savouring, delicious;
		2. आनंददायक, सुखद।	আমোদপ্রদ	आमोदप्रद	njoyable, pleasant.
मज्जा	स्त्री.	1. नली की हड्डी के भीतर का गूदा जो कोमल और चिकना होता है;	জীবদেহের হাড়ের মধ্যে যে-নরম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে;	जीबदेहेर हाड़ेर मध्ये जे-नरम स्नेह-जातीय पदार्थ थाके;	the marrow of the bones and flesh;
		2. पेड़-पौधों का सारभाग।	বৃক্ষের সার	बृक्षेर सार	the pith of plants.
मटक	स्त्री.	मटकने की क्रिया, ढंग, मुद्रा या भाव, नखरे का भाव।	হাত-পা নাড়া ছলাকলা, হাবভাব	हात-पा नाड़ा छलाकला, हाबभाब	strut, coquetry, mincing gait.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मटकना	अ.क्रि.	चलते या बातें करते समय हाथ, आंख, भौं आदि को नाज-नखरे की अदा से हिलाना, इठलाना।	চলার সময় বা কথা বলার সময় হাত নাড়া, চোখ ঘুরান, ভূরু নাচান	चलार समय बा कथा बलार समय हात नाड़ा, चोख घुरान, भुरु नाचान	to show off by gestures, to strut, to swagger.
मटका (मटकी-स्त्री.)	पु.	मिट्टी का बड़े मुंह का घड़ा, माट।	মটকী, মাটির জালা	मटकी, माटिर जाला	large earthen jar or pot, pitcher.
मटमैला	वि.	मिट्टी के रंग का, खाकी।	মেটে রংয়ের	मेटे रंयेर	dusty, dust coloured.
मटर	पु.	एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी फलियों में गोल दाने रहते हैं, उक्त पौधे की फली या दाल।	বর্তুলাকার কলায়বিশেষ	बर्तुलाकार कलायबिशेष	pea.
मटरगश्ती	स्त्री.	1. धीरे-धीरे घूमना, टहलना; 2. निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक व्यर्थ इधर-उधर घूमना, आवारा फिरना।	ধীরে ধীরে পায়চারি করা; ভবঘুরের ঘুরিয়া বেড়ানো	धीरे धीरे पायचारि करा; भबघुरेर घुरिया बेड़ानो	stroll, promenade, rambling; vagrancy, vagabondage.
मटियाना	स.क्रि.	1. किसी चीज पर मिट्टी लगाना, मिट्टी से युक्त करना; 2. (बरतन, हाथ आदि) मिट्टी मलकर धोना।	মাটি লেপা, মাটি লাগান; মাটি ঘষিয়া পরিষ্কার করা	माटि लेपा, माटि लागान; माटि घषिया परिष्कार करा	to plaster or smear with mud; to rub or scrub with earth or mud.
मटियामेट (मलियामेट)	वि.	मिट्टी में मिला हुआ, नष्ट।	মাটি হইয়াছে এমন, নষ্ট	माटि हइयाछे एमन, नष्ट	destroyed, ruined, razed.
मटियाला	वि.	मटमैला।	মটমেলা	मटमेला	dusty, dust-coloured.
मटीला	वि.	दे. 'मटमैला'।	দ্র: 'মটমৈলা'	द्र: 'मटमैला'	see 'मटमैला'.
मट्टी	स्त्री.	देखिए 'मिट्टी'।	দ্রষ্টব্য 'মিট্টী'	द्रष्टव्य 'मिट्टी'	see 'मिट्टी'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मट्ठा (मठा)	पु.	पानी मिलाकर मथा हुआ दही जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो, तक्र, छाछ।	মাঠা, ঘোষ	माठा, घोष	butter-milk.
मठ	पु.	1. साधु-संन्यासियों के रहने का स्थान या मकान; 2. देवालय, मंदिर।	সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম; দেবকুল, মন্দির	साधु सन्न्यासीदेर आश्रम; देबकुल, मन्दिर	monastery. temple, pagoda.
मठरी (मट्ठी)	स्त्री.	मैदे की बनी एक तरह की नमकीन टिकिया।	ময়দার তৈরী এক রকম কুচো নিমকী	मयदार तैरी एक रकम कुचो निमकी	small fried saltish cake.
मठाधीश	पु.	मठ में रहनेवाले साधुओं का प्रधान, महंत।	মঠাধ্যক্ষ	मठाध्यक्ष	head of a monastery, abbot.
मड़ैया	स्त्री.	मड़ई, झोंपड़ी।	কুটীর, ঝুপড়ি	कुटीर, झुपड़ि	small hut, hovel.
मढ़ना	स.क्रि.	1. कोई चीज किसी दूसरी चीज पर चिपकाना, जड़ना, लगाना या सटाना; 2. थोपना (काम); 3. आरोपित करना (दोष)।	কোনো জিনিসের উপর অন্য কোনো জিনিস সাঁটা; ঘাড়ে চাপান; আরোপ করা	कोनो जिनिसेर उपर अन्य कोनो जिनिस सांटा; घाड़े चापान; आरोप करा	to gild, to frame, to mount; to impose, to saddle (with work etc.); to impute.
मढ़वाना	स.क्रि.	मढ़ने का काम दूसरे से कराना।	অন্যের দ্বারা সাঁটানো, ঘাড়ে চাপানো	अन्येर द्वारा सांटानो, घाड़े चापानो	to cause to be mounted, framed or gilded.
मढ़ाई	स्त्री.	मढ़ने का काम या मढ़ने की मजदूरी।	সাঁটা ইত্যাদির মজুরী	सांटा इत्यादिर मजुरी	the act of or wages paid for mounting.
मणि	स्त्री.	1. बहुमूल्य और कांतियुक्त पत्थर, रत्न, जवाहर; 2. किसी वर्ग का कोई सर्वश्रेष्ठ पदार्थ या व्यक्ति; 3. कलाई, मणिबंध।	দীপ্তিশালী মূল্যবান্ প্রস্তর; শ্রেষ্ঠ বস্তু বা ব্যক্তি; মণিবন্ধ	दीप्तिशाली मूल्यबान् प्रस्तर; श्रेष्ठ बस्तु बा व्यक्ति; मनिबन्ध	precious stone, gem, jewel; anything best of its kind; the wrist.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मत	पुं.	1. चुनाव में या प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में निर्धारित विधि से प्रकट की गई राय या दिया गया समर्थन;	ভোট,	भोट;	vote;
		2. राय, सम्मति;	সম্মতি;	सम्मति;	opinion, judgement, belief;
		3. विचार;	মনোগত ভাব;	मनोगत भाव;	thought, idea;
		4. सिद्धांत;	সিদ্ধান্ত;	सिद्धान्त;	doctrine, tenet;
		5. संप्रदाय, पंथ।	সম্প্রদায়, বিশ্বাস	सम्प्रदाय, बिश्बास	sect, faith, creed.
	अव्य.	न, नहीं।	না	ना	don't.
मतगणना	स्त्री.	1. मतों की गणना;	ভোট গণনা;	भोट गनना;	counting of votes;
		2. मतपत्रों की गणना।	ভোটপত্র গণনা	भोटपत्र गनना	counting of ballot papers.
मतदाता	पुं.	जिसे मत देने का अधिकार हो, मत देनेवाला।	ভোটদাতা, ভোটার	भोटदाता, भोटार	voter.
मतदान	पुं.	चुनाव में या किसी प्रस्ताव आदि के पक्ष-विपक्ष में अपना मत देने की क्रिया।	ভোট দেওয়া	भोट देओया	poll, polling, voting, casting of votes.
मतदान-केंद्र	पुं.	वह स्थान जहां निर्वाचन के समय मतदाता आकर अपना मत देते हैं।	ভোটকেন্দ্র	भोटकेन्द्र	polling station, polling booth.
मतपत्र	पुं.	वह परची या पत्र जिस पर किसी विशेष उम्मीदवार या पक्ष के समर्थन में चिह्न आदि बनाकर उसे मतदान-केन्द्र में डाला जाता है।	ভোটপত্র	भोटपत्र	ballot, ballot paper.
मतभेद	पुं.	मत की भिन्नता, राय या विचार का न मिलना।	মতানৈক্য, মতের অমিল	मतानैक्य, मतेर अमिल	difference of opinion, dissension, disagreement.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मतलब	पुं.	1. आशय, अभिप्राय; 2. अर्थ, माने; 3. स्वार्थ; 4. संबंध, वास्ता।	আশ্রয়, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য; অর্থ মানে; স্বার্থ; সম্বন্ধ	आश्रय, अभिप्राय, उद्देश्य; अर्थ माने; स्वार्थ; सम्बन्ध	aim, purpose, motive; meaning; self-interest; concern.
मतलबी	वि.	स्वार्थपरायण, स्वार्थी।	স্বার্থপর	स्बार्थपर	selfish, self-seeking, self-concerned.
मतलाना (मिचलाना)	अ. क्रि.	मिचली या उलटी आना।	বমি আসা, বমি পাওয়া	बमि आसा, बमि पाओया	to nauseate, to feel like vomitting.
मतली	स्त्री.	दे. 'मिचली'।	গা-বমি বমি করা, বমির ভাব	गा-बमि बमि करा, बमिर भाब	nausea, inclination to vomit.
मतवाला	वि.	1. नशे आदि के कारण मस्त, नशे में चूर; 2. (बल आदि के) गर्व से इतराता हुआ; 3. उन्मत्त।	মতোয়ালা, মাতাল, নেশায় মত্ত; মদোদ্ধত, গর্বোদ্ধত; উন্মত্ত	मतोयाला, माताल, नेशाय मत्त; मदोद्धत, गर्बोद्धत; उन्मत्त	intoxicated, drunk; drunk with (power, strength etc.); wayward, tipsy, passionate.
मतांतर	पुं.	भिन्न मत, विचार, सिद्धांत या संप्रदाय।	ভিন্ন মত, অন্যবিধি, পৃথগ্ধর্মমত	भिन्न मत, अन्यबिधि, पृथग्धर्ममत	another or a different opinion or tenet.
मताधिकार	पुं.	किसी चुनाव या विषय में मत देने का अधिकार।	ভোটাধিকার	भोटाधिकार	franchise, suffrage.
मताधिकारी	पुं.	मत देने का अधिकारी।	ভোটাধিকারী	भोटाधिकारी	eligible voter.
मतानुयायी	पुं.	किसी मत या धर्म का अनुयायी, मतावलंबी।	মতানুসরণকারী, মতাবলম্বী, মতানুগামী	मतानुसरनकारी, मताबलम्बी, मतानुगामी	follower (of a creed, sect etc.).
मतावलंबी	पुं.	किसी मत, सिद्धांत आदि का अवलंबन करने-वाला, मतानुयायी।	মতগ্রহণকারী, মতানুসরণকারী, মতানুগামী	मतग्रहनकारी, मतानुसरनकारी, मतानुगामी	adherent to any particular class of religious (or philosophical) opinion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मति	स्त्री.	1. बुद्धि, समझ;	বুদ্ধি, আক্কেল;	बुद्धि, आक्केल;	intellect, understanding, sense;
		2. राय, सम्मति।	মত	मत	opinion, view.
मतिभ्रम	पुं.	अस्वस्थ या विकृत बुद्धि के कारण होनेवाला भ्रम।	বুদ্ধিভ্রংশ, মতিচ্ছন্ন	बुद्धिभ्रंश, मतिच्छन्न	delusion, confusion of mind.
मतिमंद	वि.	मंदबुद्धि, मूर्ख।	বুদ্ধিহীন, মূর্খ	बुद्धिहीन, मूर्ख	dull, stupid, foolish, imbecile.
मतिमान	वि.	बुद्धिमान, समझदार।	বুদ্ধিমান, ধীসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ	बुद्धिमान, धीसम्पन्न, प्राज्ञ	clever, intelligent, wise.
मतैक्य	पुं.	मत या विचार में होनेवाली एकता या समानता।	মতের মিল	मतेर मिल	unanimity, agreement.
मत्त	वि.	1. मतवाला, मस्त;	মাতাল, মদমত্ত;	माताल, मदमत्त;	in rut, furious (as an elephant);
		2. पागल;	উন্মত্ত, বাতুল;	उन्मत्त, बातुल;	mad, insane;
		3. किसी प्रकार के मनोवेग के पूर्ण आवेश से युक्त।	অতিগর্বিত উল্লসিত, আত্মহারা বিহ্বল	अतिगर्वित उल्लसित, आत्महारा बिह्वल	intoxicated (by liquor, or passion, or pride, etc.), passionate.
मत्था	पुं.	1. माथा, ललाट, मस्तक;	ললাট;	ललाट;	forehead;
		2. सिर;	শির, মাথা, মস্তক;	शिर, माथा, मस्तक;	head;
		3. सामने का या ऊपर का हिस्सा।	কোনো জিনিসের উপর দিক্ বা সামনের দিক্	कोनो जिनिसेर उपर दिक् बा सामनेर दिक्	the upper or frontal part (of a thing).
मत्थे	क्रि. वि.	1. सिर या मस्तक पर;	মাথায় করিয়া;	माथाय करिया;	on one's head;
		2. किसी पर उत्तरदायित्व, भार आदि के रूप में।	দায়িত্ব নিয়া	दायित्व निया	on one's responsibility.
मत्सर	पुं.	1. ईर्ष्या, जलन, डाह;	ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা;	ईर्षा, परश्रीकातरता;	envy, jealousy;
		2. क्रोध।	ক্রোধ	क्रोध	anger, passion.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मत्स्य	पुं.	मछली।	মাছ	माछ	fish.
मत्स्यन्याय	पुं.	1. यह मान्यता कि छोटों को बड़े या दुर्बलों कों सबल उसी प्रकार खा जाते या नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं;	প্রবল অত্যাচারীর দুর্বল নিরীহকে গ্রাস করার নীতিকে বলা হয় মৎস্য ন্যায় বা মাৎস্যন্যায়	प्रबल अत्याचारीर दुर्बल निरीहके ग्रास करार नीतिके बला हय मत्स्य न्याय वा मात्स्यन्याय;	"survival of the fittest" theory;
		2. आततायियों का राज्य;	অত্যাচারীর রাজত্ব;	अत्याचारीर राजत्व;	law of the jungle;
		3. अराजकता।	অরাজকতা	अराजकता	anarchy.
मत्स्यपालन	पुं.	मछलियां पालकर उनकी पैदावार बढ़ाने का काम।	মাছের চাষ	माछेर चाष	fish-culture, fish-farming.
मथना	स. क्रि.	1. दूध, दही को मथानी आदि से बिलोना;	মথা, মন্থন করা;	मथा, मन्थन करा;	to churn;
		2. आलोड़न करना;	আলোড়ন করা;	आलोड़न करा;	to stir round;
		3. किसी बात को बार-बार सोचना या करना;	কোনো বিষয় বার বার চিন্তা করা;	कोनो बिषय बार बार चिन्ता करा;	to ponder, consider;
		4. जगह-जगह ढूंढना या देखना, छान डालना।	তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা	तन्न तन्न करिया अनुसन्धान करा	to sift, scrutinize, to probe.
मथनी	स्त्री.	1. मथने की क्रिया;	মন্থন কর্ম;	मन्थन कर्म;	the act of churning;
		2. दही मथने का मटका;	মন্থনপাত্র;	मन्थनपात्र;	the churning-pot;
		3. मथानी।	মন্থনদ্রব্য	मन्थनद्रव्य	churn-staff.
मथानी	स्त्री.	दही मथने का काठ का बना हुआ एक उपकरण।	মন্থনী, মউনী	मन्थनी, मउनी	churning-stick.
मद	पु.	1. नशा;	মদ্যপানজনিত মত্ততা;	मद्पानजनित मत्तता;	intoxication, inebriety, drunkenness;
		2. मस्ती;	আনন্দজনিত বিহ্বলতা, হর্ষ;	आनन्दजनित बिह्वलता, हर्ष;	delight, rapture, passion;

हिंदी शब्द	व्या. श्रे.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. निंदनीय अहंकार या गर्व;	গর্ব, অহংকার;	गर्व, अहंकार;	pride, arrogance;
		4. मतवाले हाथी का कनपटी से बहनेवाला गंधयुक्त जल;	হস্তিগন্ডনিঃসৃত মদজল;	हस्तिगन्डनिःसृत मदजल;	the juice or ichor that exudes from an elephant's temples when in rut;
		5. उन्माद, पागलपन।	প্রমত্ততা	प्रमत्तता	madness, insanity, frenzy.
मद	स्त्री.	1. वह लंबी लकीर जिसके नीचे लेखा या हिसाब लिखा जाता है, शीर्षक;	শিরোনাম;	शिरोनाम;	column, head;
		2. लेखा या हिसाब का वह विशिष्ट भाग जो किसी कार्य या व्यक्ति के नाम से अलग रखा जाता है, खाता;	হিসাবের খাতা;	हिसाबेर खाता;	account-head;
		3. कार्य का विभाग।	কাজের অংশ, পদ	काजेर अंश, पद	item (of a programme etc.).
मदजल	पु.	मस्त हाथी की कनपटी से झरनेवाला जल, दान।	মদবারি, হস্তিদানবারি	मदवारि, हस्तिदानवारि	rutting juice, ichor (from the temples of a ruttish elephant).
मदद	स्त्री.	1. सहायता;	মদত, মদৎ, সাহায্য;	मदत, मदत्, साहाज्य;	assistance, help, aid, rescue;
		2. कुमक।	সহায়তা, পক্ষপাত	सहायता, पक्षपात	reinforcement.
मददगार	वि.	सहायक।	সহায়ক	सहायक	assistant, helper, supporter, auxiliary, accessory.
मदन	पु.	1. कामदेव;	কামদেব;	कामदेव;	name of Kamdev, the god of love;
		2. काम।	কাম	काम	passion, love, lust.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मदनोत्सव	पु.	प्राचीन भारत का एक उत्सव जो चैत्र शुक्ला द्वादशी से चतुर्दशी पर्यन्त होता है।	বসন্তোৎসব, হোলি	बसन्तोत्सव, होलि	the vernal festival celebrated in honour of cupid (in ancient India).
मदमत्त	वि.	1. मत, मस्त, मतवाला;	সুরাপানে মাতাল, আনন্দবিহ্বল;	सुरापाने माताल, आनन्दबिहबल;	intoxicated, passionate;
		2. (हाथी) जो मद बहने के कारण मस्त हो।	মদবারিনির্গমহেতু মত্ত (হস্তী)	मदबारिनिर्गमहेतु मत्त (हस्ती)	in rut, furious (elephant).
मदहोश	वि.	1. नशे के कारण जिसके होश ठिकाने न हों, मतवाला;	পাড় মাতাল;	पाड़ माताल;	dead drunk, intoxicated, out of senses;
		2. हैरान;	বিহ্বল;	बिहबल;	confounded, stupefied;
		3. बेहोश।	বেহুঁশ	बेहुंश	unconscious, senseless.
मदांध	वि.	जो मस्ती या बल आदि के गर्व से अंधा या विवेकहीन हो रहा हो।	মত্ততা হেতু অবিবেক, গর্ববিমূঢ়	मत्तता हेतु अबिबेक, गर्बबिमूढ़	blinded by intoxication, passion or pride.
मदार	पु.	आक नामक पौधा।	মন্দার, অর্কবৃক্ষ আকন্দ গাছ	मन्दार, अर्कबृक्ष, आकन्द गाछ	the medicinal plant swellow hest-calotrapis gigantea.
मदारी	पु.	1. बाजीगर; 2. बंदर-भालू आदि नचाकर जीविका चलानेवाला।	যাদুকর; যে ব্যক্তি বাঁদর-ভালুক নাচাইয়া জীবিকার্জন করে	जादुकर; जे ब्यक्ति बांदर-भालुक नाचाइया जीबिकार्जन करे	conjurer, juggler; bear-dancer, monkey-man.
मदिरा	स्त्री.	मद्य, शराब।	মদৎ, সুরা	मदत्, सुरा	spirituous liquor, wine.
मदोन्मत्त	वि.	1. नशे के कारण उन्मत्त, मदांध, मतवाला;	সুরাপানে মত্ত;	सुरापाने मत्त;	intoxicated with spirituous liquor;
		2. जो धन, बल आदि के घमंड के कारण विवेकहीन हो गया हो।	দর্পান্ধ	दर्पान्ध	intoxicated with passion, pride or wealth.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मद्धा	वि.	दे. 'मंदा'।	দ্রষ্টব্য 'মন্দা'	द्रष्टव्य 'मन्दा'	see 'मंदा'.
मद्धिम	वि.	1. मध्यम;	মাধ্যম;	माध्यम;	middle, moderate, intermediate;
		2. कम अच्छा;	মাঝারি;	माझारि;	ordinary, common;
		3. हलका, मंद।	হাল্কা	हाल्का	dull, faint, faded (as colour etc.), slack, slow, sluggish.
मद्धे	अव्य.	1. मध्य या बीच में;	মাধ্য;	माध्य;	in the middle;
		2. मद का खाते में।	খাতে	खाते	in the account of.
मद्य	पु.	मदिरा, शराब।	মদিরা, মদ, শরাব	मदिरा, मद, शराब	spirituous liquor, wine.
मद्यप	वि.	मद्य पीनेवाला, शराबी।	মদ্যপায়ী, মদখোর	मदयपायी, मदखोर	one who drinks spirituous or intoxicating liquor.
मधु	पु.	1. शहद;	মৌ, মউ;	मौ, मउ;	honey;
		2. शराब;	মদ্য;	मदय;	spirituous liquor, any sweet intoxicating drink;
		3. फूलों का रस, मकरंद;	পুষ্পরস, মকরন্দ;	पुष्परस, मकरन्द;	the juice or nectar of flowers;
		4. बसंत ऋतु;	বসন্ত ঋতু;	बसन्त धातु;	the season of spring;
		5. चैत का महीना।	চৈত্রমাস	चैत्रमास	the month Chait (March-April.)
	वि.	मीठा, मधुर।	মধুর মতো মিষ্টি, মধুর	मधुर मतो मिष्टि मधुर	sweet, pleasant, agreeable.
मधुकर	पु.	1. भौंरा;	ভ্রমর;	भ्रमर;	large black bee.
		2. कामुक व्यक्ति।	কামিজন	कामिजन	lover, libertine.
मधुकरी	स्त्री.	साधु-संन्यासियों की वह भिक्षा जो केवल पके हुए अन्न के रूप में होती है	মাধুকরী	माधुकरी	cooked food gathered in alms from different sources (by the mendicants).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मधुप	पु.	1. भौंरा; 2. शहद की मक्खी।	ভ্রমর; মৌমাছি	भ्रमर; मौमाछि	large black bee; honey-bee.
मधु-मक्खी	स्त्री.	एक प्रकार की प्रसिद्ध मक्खी जो फूलों का रस चूसकर शहद एकत्र करती है।	মধুমক্ষিকা, মৌমাছি	मधुमक्षिका, मौमाछि	honey-bee.
मधुमय	वि.	मधु से भरा हुआ।	মধুপূর্ণ	मधुपूर्न	sweet as honey, sweet, lucious.
मधुमेह	पु.	एक प्रसिद्ध रोग जो अगन्याशय में मधुसूदनी के कम बनने के कारण होता है और जिसमें मूत्र अधिक शर्करा-युक्त होकर प्राय: धीरे-धीरे और अधिक मात्रा में या अधिक देर तक होता है।	বহুমূত্ররোগ	बहुमूत्ररोग	diabetes.
मधुर	वि.	1. जिसका स्वाद मधु के समान हो, मीठा; 2. जो सब प्रकार की कटुताओं से रहित, और मधु के समान मीठा जान पड़े; 3. जो अपनी मनोहरता, सुन्दरता आदि के कारण प्रिय और भला लगता हो।	মধুর মতো মিষ্টি, মিঠা; মাধুর্যযুক্ত, প্রীতিকর; চিত্তাকর্ষক	मधुर मतो मिष्टि, मिठा; माधुर्जजुक्त. प्रीतिकर; चित्ताकर्षक	sweet; pleasant, pleasing, melodious, mellifluous; charming, attractive.
मधुरता	स्त्री.	मधुर होने की अवस्था, गुण या भाव।	মাধুর্য	माधुर्ज	sweetness, pleasantness, softness, mellifluence, melodiousness.
मधूलिका	स्त्री.	1. लता; 2. मुलेठी;	লতাবিশেষ; যষ্টিমধু;	लताबिशेष; जष्टिमधु;	kind of creeper; liquorice;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. मधूली नामक गेहूं से बनाई जानेवाली मदिरा।	মদ্যবিশেষ	मद्यविशेष	arrac distilled from the blossom of the bassnia tree or any intoxicating drink.
मध्य	पु.	1. किसी चीज के बीच का भाग;	মধ্যভাগ, কেন্দ্রস্থল;	मध्यभाग, केन्द्रस्थल;	middle, centre;
		2. तटस्थ या निष्पक्ष;	মধ্যস্থ;	मध्यस्थ;	intermediary;
		3. संगीत में तीन सप्तकों में से बीचवाला सप्तक।	গীতে ও নৃত্য মধ্যলয়	गीते ओ नृत्ये मध्यलय	medium tempo, middle octave.
	वि.	1. [illegible] का;	মধ্যবর্তী;	मध्यबर्ती;	middle, central;
		2. जो बहुत अच्छा भी न हो और बहुत बुरा भी न हो।	উৎকর্ষাপকর্ষহীন, মধ্যমগোছ	उत्कर्षापकर्षहीन, मध्यमगोछ	mediocre.
मध्यम	वि.	1. मध्य का या बीच का;	মাঝারি, মধ্যবর্তী;	माझारि, मध्यबर्ती;	medium, intermediate;
		2. मंद या हल्का;	ঢিমা, হাল্কা;	ढिमा, हाल्का;	slow, dim;
		3. न बहुत अच्छा न बुरा, साधारण कोटि का।	মধ্যমগোছ, মাঝারিরকম	मध्यमगोछ, माझारिरकम	fair, passable, mediocre, so-so.
	पु.	संगीत के सात स्वरों में से चौथा स्वर।	সংগীতে সুরগ্রামের চতুর্থ সুর	सङ्गीते स्बरग्रामेर चतुर्थ स्बर	fourth note of the Indian gamut.
मध्यम पुरूष	पु.	(व्याकरण) वक्ता की दृष्टि से उस व्यक्ति का वाचक सर्वनाम जिससे वह कुछ कह रहा हो।	(ব্যাকরণে) তুমি-বাচক সর্বনাম	(ब्याकरने) तुमि-बाचक सर्बनाम	(gram.) the second person.
मध्यम वर्ग	पु.	मनुष्य-समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से विभाजित वर्गों में से बीच का वर्ग।	মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়	मध्यबित्त सम्प्रदाय	middle class.
मध्यमा	स्त्री.	1. हाथ की बीचवाली उंगली;	মধ্যস্থিত করাংগুলি;	मध्यस्थित कराङ्गुलि;	middle finger;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. साहित्य में वह नायिका जो अपने प्रिय के द्वारा हित अथवा अहित का व्यवहार देखकर उसके प्रति वैसा ही हित अथवा अहित का व्यवहार करती हो।	নায়িকাবিশেষ, "হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত, মধ্যমা তাহার নাম মধ্যমচরিত"	नायिकाबिशेष, "हित कैले हित करे अहिते अहित, मध्यमा ताहार नाम मध्यमचरित"	one of the classes of heroines in poetic composition, a woman in the middle of her youth.
मध्यवर्ती	वि.	1. जो मध्य में वर्तमान या स्थित हो; 2. जो दो पक्षों के बीच में रहकर उनमें सम्बन्ध स्थापित करता हो।	যে মাঝামাঝি স্থানে; মধ্যস্থ	जे माझामाझि स्थाने; मध्यस्थ	being in the middle, central, middle; intermediary.
मध्यस्थ	वि.	1. जो बीच या मध्य में स्थित हो;	মধ্যস্থিত, অভ্যন্তরবর্তী;	मध्यस्थित, अभ्यन्तरबर्ती;	standing or situated in the middle or midst.
		2. आपस में मेल या समझौता करानेवाला।	সালিস	सालिस	standing between two persons or parties, acting as mediator or umpire.
	पु.	वह जो दोनों विरोधी पक्षों में से किसी पक्ष में न हो।	যে দুই বিরোধী পক্ষের কোনো পক্ষে নহে	जे दुइ बिरोधी पक्षेर कोनो पक्षे नहे	middle man, mediator, arbitrator, umpire.
मध्यस्थता	स्त्री.	1. मध्यस्थ होने की अवस्था या भाव;	মধ্যবর্তিতা, মধ্যস্থভাব;	मध्यबर्तिता, मध्यस्थभाब;	middle state or character, intermediate situation;
		2. मध्यस्थ का काम या पद।	সালিসি, সালিসী	सालिसि, सालिसी	mediatorship, umpireship, arbitration.
मध्यांतर	पु.	1. दो घटनाओं, वस्तुओं आदि के मध्य या बीच का अंतर;	দুই ঘটনা বা বস্তুর মধ্যেকার ব্যবধান;	दुइ घटना बा बस्तुर मध्येकार ब्यबधान;	gap, difference;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी काम या बात के बीच में सुस्ताने आदि के लिए निकाला या नियत किया हुआ थोड़ा समय।	বিশ্রামাদির জন্য কোন কাজ বা বিষয়ের মধ্যেকার নির্দিষ্ট সাময়িক বিরতি	विश्रामादिर जन्य कोन काज बा विषयेर मध्येकार निर्दिष्ट सामयिक विरति	recess, interval.
मध्याह्न	पु.	दिन के ठीक बीच का वह समय जब सूर्य सबसे ऊपर आ जाता है या उक्त समय के बाद का थोड़ी देर का समय।	দিবসমধ্যকাল, দুপুর বেলা, বেলা দ্বিপ্রহর	दिवसमध्यकाल, दुपुर बेला, बेला द्विप्रहर	mid-day, noon.
मन	पु.	1. प्राणियों के अंत:करण का वह अंश जिससे वे अनुभव, इच्छा, बोध, विचार और संकल्प करते हैं;	চিত্ত, অন্তঃকরণ;	चित्त, अन्त:करन;	mind (considered as the seat of perception and passion), inclination etc.;
		2. हृदय, आत्मा;	হৃদয়;	हृदय;	heart, soul, spirit;
		3. स्वभाव, प्रकृति;	স্বভাব, প্রকৃতি;	स्वभाव, प्रकृति;	character, disposition, mood temper;
		4. इच्छा, कामना;	ইচ্ছা, প্রবৃত্তি;	इच्छा, प्रवृत्ति;	desire, longing after;
		5. वज़न में चालीस सेर।	ওজনের মাপ বিশেষ	ओजनेर माप विशेष	weight equal to forty seers.
मनका	पु.	1. धातु, लकड़ी आदि का वह गोल या अंडाकार छोटा टुकड़ा जिसके बीचों-बीच छेद होता है तथा जो माला के रूप में पिरोया जाता है, एक साथ पिरोये जानेवाले बहुत से मनके माला का रूप धारण कर लेते हैं;	মালার গুটিকা;	मालार गुटिका;	bead (of gold or silver etc.);
		2. माला, सुमिरनी।	জপমালা	जपमाला	rosary.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनगढ़ंत	वि.	जिसकी वास्तविक सत्ता न हो, केवल कल्पना कर ली गई हो, मन द्वारा गढ़ा हुआ।	মনগড়া, মনঃকল্পিত	मनगड़ा, मन:कल्पित;	fabricated, concocted, imaginary.
मनचला	वि.	1. जो किसी एक वस्तु की प्राप्ति से संतुष्ट न होता हो बल्कि अनेक की प्राप्ति के लिए लालायित रहता हो;	চপলমতি, অস্থিরচিত্ত, অব্যবস্থিতচিত্ত;	चपलमति, अस्थिरचित्त, अव्यबस्थितचित्त;	one who does not stick to one thing, fidgety, frivolous;
		2. कामुक तथा रसिक स्वभाव वाला।	কামুক, রসিক	कामुक, रसिक	easy prey to female.
मनचाहा	वि.	1. जिसे मन चाहता हो;	মনঃপূত;	मनःपूत;	desired or wished for, favourite;
		2. इच्छानुसार किया हुआ।	মনোমত, মনোভীষ্ট	मनोमत, मनोभीष्ट	done of one's own accord, accomplished according to one's own wish.
मनचीता	वि.	दे. 'मनचाहा'।	দ্রঃ "মনচাহা"	द्रः "मनचाहा"	see 'मनचाहा'.
मनन	पु.	1. मन लगाकर कोई काम सोचना या समझना;	ভাবনা, চিন্তন;	भाबना, चिन्तन;	act of thinking or considering, meditating or reflecting (upon);
		2. किसी विषय के सब अंगों पर अच्छी तरह विचार करते हुए उसे समझने के लिए किया जानेवाला प्रयत्न या प्रयास;	একাগ্রচিন্তন, ধ্যান;	एकाग्रचिन्तन, ध्यान;	reflection, meditation;
		3. सुने हुए वाक्यों पर बार-बार विचार करना और प्रश्नोत्तर या शंका-समाधान द्वारा उसका निश्चय करना।	যুক্তির দ্বারা পদার্থ নির্ণয়	जुक्तिर द्वारा पदार्थ निर्नय	inference arrived at by reasoning.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मननशील	वि.	जो स्वभावतः मनन करने में प्रवृत्त रहता हो।	বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা বা বিচারশক্তি সম্পন্ন	बुद्धिदीप्त चिन्ता वा विचारशक्ति सम्पन्न	thoughtful, meditative, contemplative.
मननीय	वि.	ऐसा विषय जिस पर चिंतन मनन किया जाए।	চিন্তনীয়	चिन्तनीय	contemplatable.
मनबहलाव	पु.	मनोरंजन।	মনোরঞ্জন	मनोरंजन	amusement, recreation.
मनभाया	वि.	मन को जो भाता या रुचिकर प्रतीत होता हो।	মনোমত	मनोमत	agreeable to the mind or soul, pleasing, favourite
मनभावना	वि.	दे. 'मनभाया'।	দ্র: 'মনভায়া'	द्र: 'मनभाया'	see 'मनभाया'.
मनमाना	वि.	1. स्वेच्छा से या अपनी रुचि के अनुकूल किया गया कार्य; 2. जिसमें दूसरे की राय को कोई महत्व न दिया जाए, स्वेच्छाचारितापूर्ण।	মনোমত, মনোরঞ্জক যাহাতে মন খুশী হয়; খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ	मनोमत, मनोरंजक जाहाते मन खुशी हय; खामखेयाली, स्वेच्छाचारितापूर्न	pleasing to one's own mind; arbitrary.
मनमानी	स्त्री.	1. मनमाना कार्य; 2. वह स्थिति जिसमें औचित्य आदि का विचार किए बिना मनमाने ढंग से काम किया जाए।	স্বেচ্ছাচারিতা; খেয়ালখুশি	स्वेच्छाचारिता; खेयालखुशि	arbitrariness; self-will, wilfulness.
मनमुटाव	पु.	द्वेष आदि के फलस्वरूप होनेवाली वह स्थिति जिसमें किसी का मन दूसरे से कुछ खिंचा रहता है।	মনান্তর, মনকষাকষি, মনোমালিন্য	मनान्तर, मनकषाकषि, मनोमालिन्य	estrangement, antagonism, rift, rupture.
मनमोदक	पु.	केवल अपना मन प्रसन्न करने के लिए बनाई हुई ऐसी कल्पना जिसका कोई वास्तविक आधार न हो।	মনকলা	मनकला	illusory delight, castles in the air.
मनमौज	स्त्री.	1. मन की तरंग;	মনের খেয়াল;	मनेर खेयाल;	whim, caprice;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. हार्दिक प्रसन्नता;	আন্তরিক উল্লাস;	आन्तरिक उल्लास;	pleasure, rapture, ecstasy;
		3. अपनी प्रसन्नता या सुख के लिए किया जानेवाला काम या खेल।	আপন মনোরঞ্জক কাজ অথবা খেলা	आपन मनोरंजक काज अथवा खेला	amusing thought, tickling fancy.
मनमौजी	वि.	अपने मन में उठी तरंग के अनुसार काम करनेवाला।	খামখেয়ালী	खामखेयाली	whimsical, self-willed, capricious.
मनवाना	स.क्रि.	1. किसी को कुछ मान लेने में प्रवृत्त करना या विवश करना;	মানাইয়া লওয়ানো;	मानाइया लओयानो;	to cause to conciliate, or to be conciliated etc;
		2. मनवाने का काम दूसरे से करवाना।	অন্যকে দিয়া মানাইয়া লওয়ানো লওয়ানো	अन्यके दिया मानाइया लओयानो लओयानो	to get someone to be reconciled.
मनसा	क्रि. वि.	मन के द्वारा या मन से।	মনে মনে	मने मने	mentally, through the mind.
मनसूबा (मंसूबा)	पु.	1. कोई काम करने से पहले मन में सोची जानेवाली युक्ति;	কোনো কাজ করার আগে সেসম্পর্কে মনে মনে যুক্তি;	कोनो काज करार आगे से सम्पर्के मने मने जुक्ति;	plan, design;
		2. इरादा, विचार;	অভিপ্রায়;	अभिप्राय;	intention;
		3. योजना।	পরিকল্পনা	परिकल्पना	project, scheme.
मनस्ताप	पु.	1. मन:पीड़ा;	মন:পীড়া;	मन:पीड़ा;	mental pain, anguish;
		2. अनुताप या पश्चाताप।	অনুতাপ	अनुताप	remorse.
मनस्वी	वि.	1. श्रेष्ठ मन से सम्पन्न या उच्च विचारवाला;	প্রশস্তমনা:, মহাত্মা, মতিমান্;	प्रशस्तमना:, महात्मा, मतिमान्;	intelligent, high-souled, high-minded;.
		2. मनमाना आचरण करने-वाला, स्वेच्छाचारी।	স্বেচ্ছাচারী	स्वेच्छाचारी	arbitrary.
मनहूस	वि.	1. अशुभ, बुरा;	অশুভ, মন্দ;	अशुभ, मन्द;	ill-omened, inauspicious;
		2. अभागा, बदकिस्मत।	অভাগা	अभागा	ill-fated, gloomy.
मना	वि.	जिसके सम्बन्ध में निषेध हो।	যাহা মানা করা হইয়াছে	जाहा माना करा हइयाछे	prohibited, forbidden.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनाना	स.क्रि.	1. किसी को किसी काम या बात के लिए तत्पर या राजी करना;	কাহাকে কোনো কাজে বা বিষয়ে তৎপর করানো;	काहाके कोनो काजे बा बिषये तत्पर करानो;	to persuade, to prevail upon;
		2. रूठे हुए को प्रसन्न करना;	রুষ্ট ব্যক্তি কে প্রসন্ন করা;	रुष्ट ब्यक्ति के प्रसन्न करा;	to propitiate, to assuage, to appease;
		3. प्रार्थना या स्तुति करना;	প্রার্থনা বা স্তব করা;	प्रार्थना बा स्तब करा;	to invoke, to call upon (God);
		4. किसी उत्सव, समारोह या संस्कार का आयोजन करना।	উৎসবাদির অনুষ্ঠান করা	उत्सबादिर अनुष्ठान करा	to celebrate.
मनाही	स्त्री.	कोई काम न करने की आज्ञा या निषेध।	মানা, নিষেধ, কারণ	माना, निषेध, कारन	prohibition, ban.
मनिहार	पु.	चूड़ी बनानेवाला, चूड़ीहार।	চূড়ীপ্রস্তুতকারক	चुड़ीप्रस्तुतकारक	maker and/or seller of bangles.
मनीषा	स्त्री.	1. मन या मस्तिष्क की वह विशिष्ट शक्ति जिससे वह इच्छा, कामना, सोच-विचार आदि करता है;	প্রতিভা, প্রজ্ঞা, তীক্ষ্নবুদ্ধি;	प्रतिभा, प्रज्ञा, तीक्ष्नबुद्धि;	wisdom, intelligence, intellectual faculty;
		2. अभिलाषा या इच्छा।	অভিলাষ, ইচ্ছা	अभिलाश, इच्छा	desire, wish.
मनीषी	स्त्री.	1. ज्ञानी, पंडित, विद्वान; 2. बुद्धिमान;	প্রাজ্ঞ, পন্ডিত; বুদ্ধিমান্	प्राज्ञ, पन्डित; बुद्धिमान;	wise, learned; intelligent, clever, prudent
		3. यथेष्ट मनन और विचार करनेवाला, विचारशील।	মনীষাসম্পন্ন	मनीषासम्पन्न	thoughtful.
मनुज	पु.	मनुष्य।	মনুষ্য	मनुष्य	human being, man.
मनुष्य	पु.	जरायुज जाति का एक स्तनपायी प्राणी जो अपने मस्तिष्क या बुद्धिबल की अधिकता के कारण सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, आदमी, नर।	দ্রষ্টব্য 'মনুজ'	द्रष्टव्य 'मनुज'	see 'मनुज'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनुष्यता	स्त्री.	1. मनुष्य होने की अवस्था या भाव;	মানবতা;	मानवता;	state or condition of being a man, manhood, humanity;
		2. वे बातें जो किसी मनुष्य को शिक्षित और सभ्य समाज में उठने-बैठने के लिए आवश्यक होती हैं।	মনুষ্যত্ব, মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য	मनुष्यत्व, मानबोचित गुन बा बैशिष्ट्य	the aggregate of human qualities.
मनुहार	स्त्री.	1. किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने तथा उसका मान छुड़ाने के लिए की जानेवाली विनती या मीठी-मीठी बातें;	রুষ্ট ব্যক্তিকে প্রসন্ন করার জন্য মিনতি বা মিষ্টি মিষ্টি কথা;	रुष्ट व्यक्तिके प्रसन्न करार जन्य मिनति बा मिष्टि मिष्टि कथा;	appeasement, pacification;
		2. खुशामद।	খোশামোদ	खोशामोद	flattery, adulation.
मनोकामना	स्त्री.	मन में रहनेवाली कामना या अभिलाषा।	মনস্কামনা	मनस्कामना	heart's desire, wish.
मनोगत	वि.	मन में आया या उठा हुआ।	মনঃপ্রবিষ্ট, হৃদ্গত	मनःप्रविष्ट, हृद्गत	existing or passing in the mind, internal, inward.
	पु.	1. कामदेव;	কামদেব;	कामदेव;	cupid;
		2. विचार।	ভাব, চিন্তা	भाव, चिन्ता	an idea, thought, notion.
मनोज्ञ	वि.	मनोहर या सुंदर।	মনোহর, সুন্দর	मनोहर, सुन्दर	pleasing, lovely, beautiful, charming.
मनोज्ञता	स्त्री.	सुंदरता या मनोहरता।	সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব	सौन्दर्ज, मनोहारित्व	loveliness, beauty, charm.
मनोदशा	स्त्री.	किसी कार्य या विषय के प्रति समय विशेष पर होनेवाली मनकी अवस्था या दशा।	মেজাজ, মনের অবস্থা	मेजाज, मनेर अबस्था	mood.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनोनिग्रह	पु.	विषय-वासनाओं में प्रवृत्त होने से मन को रोकना, मन को वश में रखना।	মনঃসংযম, চিত্তনিগ্রহ	मनःसंजम, चित्तनिग्रह	mental restraint, self-control.
मनोनीत	वि.	1. मन में आया हुआ;	অভিমত;	अभिमत;	taken by the mind, made choice of, wished for;
		2. जिसका मनोनयन हुआ या किया गया हो, नामज़द, नामांकित।	মনোনয়নপ্রাপ্ত	मनोनयनप्राप्त	nominated, designated
मनोनुकूल	वि.	इच्छित, इच्छा या मन के अनुसार।	মনের প্রিয়, অভীষ্ট	मनेर प्रिय, अभीष्ट	desired, wished for, pleasant to the mind.
मनोबल	पु.	मानसिक बल या आत्मिक शक्ति।	মানসিক শক্তি, মনের জোর	मानसिक शक्ति, मनेर जोर	moral strength, morale.
मनोभाव	पु.	मन में उत्पन्न होनेवाला या रहनेवाला विचार।	মনের ভাব, মনের প্রকৃতি	मनेर भाव, मनेर प्रकृति	emotion, feeling, sentiment.
मनोमालिन्य	पु.	मन में रहनेवाला दुर्भाव या बैर-विरोध जो जल्दी ऊपर प्रकट न होता हो, मनमुटाव, रंजिश।	কলহ, মনান্তর	कलह, मनान्तर	estrangement, ill-will, rupture.
मनोयोग	पु.	किसी काम या बात में मन को एकाग्र करके लगाना।	মনোনিবেশ, একাগ্রতা	मनोनिबेश, एकाग्रता	close attention, concentration, singlemindedness.
मनोरंजक	वि.	मन बहलाकर प्रसन्न करनेवाला।	মনোরঞ্জনকারী, মনোরম	मनोरञ्जनकारी, मनोरम	interesting, amusing, recreative, entertaining.
मनोरंजन	पु.	दिल-बहलाव या मन को प्रसन्न करना।	চিত্তের সন্তোষ বিধান, মনে আনন্দদান	चित्तेर सन्तोष बिधान, मने आनन्ददान	amusement, recreation, entertainment.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनोरथ	पु.	अभिलाषा या इच्छा।	অভিলাষ, ইচ্ছা	अभिलाष, इच्छा	wish, desire, longing.
मनोरम	वि.	सुन्दर या आकर्षक।	সুন্দর, মনোহর	सुन्दर, मनोहर	attractive, pleasing, charming, lovely, beautiful.
मनोवांछित	वि.	जो मन में चाहा गया हो।	অভীষ্ট	अभीष्ट	desired, wished, longed for.
मनोविकार	पु.	मन में उठनेवाला कोई भाव या विचार।	মনের ভাব, আবেগ	मनेर भाव, आबेग	emotion, feeling, passion.
मनोविज्ञान	पु.	वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मनुष्य के मन, उसकी विभिन्न अवस्थाओ तथा क्रियाओं, उस पर पड़नेवाले प्रभावों आदि का अध्ययन तथा विवेचन होता है।	মনের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান	मनेर प्रकृति सम्बन्धीय बिज्ञान	psychology.
मनोविनोद	पु.	मनोरंजन।	মনোরঞ্জন, মনোবিনোদন	मनोरञ्जन, मनोबिनोदन	amusement, pastime, hobby.
मनोविश्लेषण	पु.	आधुनिक मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के रोगों और विकारों का उपचार या चिकित्सा यह मानकर की जाती है कि वे रोग कुछ मनोवेगों का दमन करने से उत्पन्न होते हैं।	মনঃসমীক্ষণ	मन:समीक्षन	psycho-analysis.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मनोवृत्ति	स्त्री.	वह मानसिक शक्ति या स्थिति जिसके कारण मनुष्य किसी ओर प्रवृत्त होता अथवा उससे हटता है।	চিত্তবৃত্তি, হৃদয়াবস্থা, স্মৃতি চিন্তা বিচার ইত্যাদি মনের কার্য	चित्तबृत्ति, हृदयावस्था, स्मृति चिन्ता बिचार इत्यादि मनेर कार्ज	mental disposition, temper, mentality.
मनोवेग	पु.	मन में उत्पन्न होनेवाला तीव्र विकार।	মনের আবেগ	मनेर आवेग	passion, impulse.
मनोवैज्ञानिक	वि.	मनोविज्ञान का या उससे संबंधित।	মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক	मनोबिज्ञान-बिषयक	psychological.
	पु.	वह जो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो।	মনোবিজ্ঞান পারদর্শী	मनोबिज्ञान पारदर्शी	psychologist.
मनोव्यथा	स्त्री.	मन में होनेवाली व्यथा या पीड़ा।	মনোবেদনা, মন:পীড়া	मनोबेदना, मन:पीड़ा	mental agony, anguish, affliction.
मनोहर	वि.	1. मन को हरनेवाला;	চিত্তাকর্ষক;	चित्ताकर्षक;	captivating, fascinating;
		2. मनोज्ञ या सुन्दर।	মনোজ্ঞ, সুন্দর	मनोज्ञ, सुन्दर	beautiful, lovely, charming.
मनोहरता	स्त्री.	मनोहर होने की अवस्था या भाव, सुन्दरता।	মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য	मनोहारित्व, सौन्दर्ज	charm, attractiveness, fascination, beauty.
मनौती	स्त्री.	1. रूठे हुए को मनाने की क्रिया या भाव;	রুষ্ট ব্যক্তিকে প্রসন্ন করণ;	रुष्ट ब्यक्तिके प्रसन्न करन;	appeasement;
		2. देवी-देवता के प्रति की जानेवाली यह प्रतिज्ञा या संकल्प कि अमुक मनोरथ सिद्ध हो जाने पर हम आपकी अमुक प्रकार से पूजा करके आपको प्रसन्न करेंगे।	মানত	मानत	offering promised to a deity for fulfilment of some desire.
मन्नत	स्त्री.	दे. 'मनौती'।	দ্র: "মনৌতী"	द्र: "मनौती"	see '**मनौती**'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
ममता	स्त्री.	1. अपनत्व का भाव, ममत्व;	মমভাব, 'আমার ইহা' এই অভিমান;	ममभाव, 'आमार इहा' एइ अभिमान;	sense of 'meum';
		2. परम आत्मीयता के कारण मन में होनेवाला प्रेम, स्नेह;	স্নেহ, মায়া;	स्नेह, माया;	affection, attachment;
		3. मन में होनेवाला किसी प्रकार का मोह या लोभ।	আসক্তি	आसक्ति	fascination.
ममत्व	पु.	दे. 'ममता'।	দ্রঃ "মমতা"	द्रः "ममता"	see 'ममता'.
ममिया-ससुर	पु.	जो सम्बन्ध में पति या पत्नी का मामा हो।	মামাশ্বশুর	मामाश्वसुर	maternal uncle-in-law.
ममिया-सास	स्त्री.	जो सम्बन्ध में पत्नी या पति की मामी हो।	মামী শাশুড়ী	मामी शाशुड़ी	maternal aunt-in-law.
मय	प्रत्य.	एक प्रत्यय जो तद्रूप विकार और प्राचुर्य के अर्थ में शब्दों के साथ लगाया जाता है।	বিকার, পরিপূর্ণতা, অপৃথগ্‌ভাব, ব্যাপ্তি ইত্যাদি অর্থসূচক প্রত্যয়বিশেষ	बिकार, परिपूर्नता, अपृथग्भाव, ब्याप्ति इत्यादि अर्थसूचक प्रत्ययबिशेष	Sanskrit suffix imparting the meaning of consisting of, made or composed of, abounding in, full of.
मयस्सर	वि.	हाथ में आया हुआ या प्राप्त।	হস্তগত	हस्तगत	obtained, attained, available.
मयूर	पु.	मोर।	শিখী, কলাপী	शिखी, कलापी	peacock.
मरकहा (मरखना)	वि.	मारनेवाला (पशु)।	মারকুটো, মারকুটে	मारकुटो, मारकुटे	(animal) prone to hitting or striking.
मरघट	पु.	वह स्थान जहां चिताएं जलती हों।	শ্মশান, শ্মশানভূমি	श्मशान, श्मशानभूमि	cremation ground.
मरज	पु.	1. रोग, बीमारी;	রোগ, বেমারি;	रोग, बेमारि;	disease, ailment, malady;
		2. खराब आदत या लत।	বদভ্যাস	बदभ्यास	addiction, bad habit.
मरजी	स्त्री.	1. इच्छा या कामना;	মরজি, মর্জি, মর্জী;	मरजि, मर्जि, मर्जी;	desire;

हिंदी शब्द	व्या. कोे.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी काम, बात या व्यक्ति के प्रति होनेवाला अनुकूल मनोभाव या वृत्ति;	খুশি;	खुशि;	inclination, pleasure;
		3. अनुज्ञा, अनुमति।	সম্মতি	सम्मति	assent, consent.
मरण	पु.	मरने की क्रिया या भाव।	জীবনের অবসান	जीबनेर अबसान	dying, death.
मरणशील	वि.	मर जाना जिसका धर्म या स्वभाव हो।	নশ্বর	नश्वर	mortal.
मरणोन्मुख	वि.	जो मर रहा हो या जल्दी मरनेवाला हो।	মুমূর্ষ	मुमूर्ष	on the point of death, near death.
मरना	अ.क्रि.	1. मृत्यु को प्राप्त करना या प्राणांत होना;	মরা, প্রাণত্যাগ করা;	मरा, प्रानत्याग करा;	to die, expire;
		2. वनस्पतियों आदि का सूखकर नष्ट हो जाना;	শুষ্ক হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া	शुष्क हओया, शुकाइया जाओया;	to fade, wither.
		3. अत्यधिक कष्ट भोगना या परेशान होना;	নিদারুণ কষ্ট পাওয়া;	निदारुन कष्ट पाओया;	to labour or toil hard, to sweat and groan, to suffer hardship;
		4. खेलों में खिलाड़ियों का हार जाना;	আউট হওয়া;	आउट हओया;	to be dead or out (as in a game);
		5. किसी चीज का दूसरी चीज में या किसी स्थान में विलीन होना या समा जाना;	লুপ্ত হওয়া;	लुप्त हओया;	elimination or absorption of something in some place or some other thing (as पानी मरना);
		6. बहुत धीमा होना या मंद पड़ना;	কমিয়া যাওয়া, জীর্ণ হওয়া;	कमिया जाओया, जीर्न हओया;	to sink, to fade away;
		7. किसी पर आसक्त होना।	প্রেমে পড়া, কাহারো প্রতি আসক্ত হওয়া	प्रेमे पड़ा, काहारो प्रति आसक्त हओया	to set the heart upon, to be desperately in love with.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मरना-जीना	पु.	गृहस्थी में प्रायः होनेवाली सुखद या दु:खद घटनाएं, उनसे संबंधित कर्मकाण्ड या कृत्य।	মরা বাঁচা	मरा बांचा	sad or happy occurrences in a family or the rituals.
मरम्मत	स्त्री.	1. टूटी-फूटी अथवा बिगड़ी हुई वस्तु को ठीक करके अच्छी स्थिति में लाने का काम;	মেরামত;	मेरामत;	repair, mending.
		2. (लाक्षणिक अर्थ में) वह मारपीट जो किसी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए की जाए।	পিটাইয়া সিধা করা	पिटाइया सिधा करा	(fig.) punishment given with the object of mending someone.
मरवाना	स.क्रि.	1. मारने का काम किसी दूसरे से करवाना;	অন্যকে দিয়ে মারা;	अन्यके दिये मारा;	to cause to be killed, to cause to be put to death, to cause to be beaten, etc;
		2. (लाक्षणिक अर्थ में) किसी को चतुराई से किसी काम में फंसाना।	ফাঁদে ফেলা, ঝামেলায় জড়ানো	फादे फेला, झामेलाय जड़ानो	to embroil, to involve.
मरसा	पु.	एक प्रकार का साग।	এক রকম শাক	एक रकम शाक	a species of pot-herb, **Amaranthus** obraceus.
मरसिया	पु.	उर्दू भाषा में शोकसूचक कविता जो किसी की मृत्यु के सम्बन्ध में लिखी जाती है।	উর্দূভাষায় রচিত শোক-সূচক কবিতা	उर्दूभाषाय रचित शोक-सूचक कबिता	elegy, dirge.
मरहम (मलहम)	पु.	औषधियों का वह गाढ़ा और चिकना लेप जो चमड़ी, घाव या फोड़े पर उपचार के लिए लगाया जाता है।	মলম	मलम	ointment.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मरहमपट्टी	स्त्री.	आघात की चिकित्सा के लिए घाव पर लगाया जानेवाला मरहम और पट्टी।	পটি, ব্যান্ডেজ	पटी, ब्यान्डेज	dressing, bandage.
मराल	पु.	1. एक किस्म की सफेद बत्तख जिसकी टांगें और चोंच हल्की ललाई लिए होती है;	রাজহংস, হংস;	राजहंस, हंस;	a species of goose (with red legs and bill);
		2. बादल या मेघ।	মেঘ	मेघ	cloud.
मरियल	वि.	इतना अधिक दुर्बल कि मरा हुआ सा जान पड़े।	অত্যন্ত দুর্বল	अत्यन्त दुर्बल	week, feeble, rickety.
मरीचिका	स्त्री.	वातावरण की विशिष्ट स्थितियों के कारण दिखाई देनेवाला भ्रामक दृश्य।	মৃগতৃষ্ণিকা	मृगतृष्णिका	the mirage, illusion.
मरीज	वि., पु.	रोगी या बीमार।	রোগী	रोगी	sick person, patient.
मरुभूमि	स्त्री.	रेगिस्तान।	মরুস্থল	मरुस्थल	desert.
मरुस्थल	पु.	दे. 'मरुभूमि'।	দ্রঃ 'মরুভূমি'	द्र: 'मरुभूमि'	see 'मरुभूमि'.
मरोड़	पु.	1. मरोड़ने की क्रिया या भाव;	মোচড়, পাক;	मोचड़, पाक;	turn, bend, twist;
		2. मरोड़ने के कारण पड़ने वाला बल;	খিঁচুনি, আক্ষেপ;	खिंचुनि, आक्षेप;	convolution, contortion;
		3. अपच के कारण पेट में रह-रहकर होने वाली ऐंठन।	পেটে মোচড় দেওয়া	पेटे मोचड़ देओया	contortion, wrench.
मरोड़ना	स.क्रि.	1. किसी चीज में घुमाव डालने के उद्देश्य से उसे कुछ जोर से घुमाना;	ঘুরানো, পাকানো;	घुरानो, पाकानो;	to turn, to bend, to twist;
		2. किसी चीज को ऐसी स्थिति में लाना कि उसमें कुछ तनाव या ऐंठन आ जाए।	মোচড় দেওয়া	मोचड़ देओया	to contort, to wring.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मर्तबान	पु.	शीशे या चीनी का बड़ा बर्तन जिसमें अचार आदि रखा जाता है।	কাঁচ বা চীনা মাটির বয়াম	कांच बा चीना माटिर बयाम	glazed earth ware, jar used for keeping preserves, pickles, etc.
मर्त्यलोक	पु.	पृथ्वी।	পৃথিবী	पृथिबी	world, habitation of mortals, earth.
मर्द (मरद)	पुं.	1. पुरुष;	পুরুষ;	पुरुष;	man, male;
		2. लाक्षणिक अर्थ में शक्तिशाली पुरुष;	সাহসী পুরুষ, বলবান পুরষ;	साहसी पुरुष, बलबान पुरुष;	brave and strong man;
		3. पति, स्वामी।	স্বামী	स्वामी	husband.
	वि.	वीर, साहसी।	বীর, সাহসী	बीर, साहसी	brave, valiant.
मर्दन	पु.	1. शरीर पर कोई स्निग्ध पदार्थ या औषधि रगड़कर मलने की क्रिया या भाव;	অভ্যঞ্জন, মাখা, লেপন;	अभ्यञ्जन, माखा, लेपन;	rubbing, anointing;
		2. इस प्रकार किसी चीज को मलना या रगड़ना कि वह क्षत-विक्षत हो जाए;	পিষ্টকরণ, চূর্ণন;	पिष्टकरन, चूर्नन;	crushing, crumbling;
		3. कुचलना, रौंदना;	দলন;	दलन;	trampling, treading down;
		4. पीसना, रगड़ना।	পেষণ, বাটা	पेषन, बाटा	crushing, grinding, pounding.
मर्द-बच्चा (मरद-बच्चा)	पु.	बहादुर, वीर।	বাহাদুর, বীর	बाहादुर, बीर	valorous, brave, dauntless.
मर्दानगी (मरदानगी)	स्त्री.	पौरुष।	পৌরুষ	पौरुष	manliness, bravery, courage, prowess.
मर्दाना (मरदाना)	वि.	1. मर्द या पुरुष संबंधी;	মরদ, বা পুরুষ বিষয়ক;	मरद बा पुरुष बिषयक;	of or pertaining to or suitable to a man;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पुरुषोचित;	পুরুষোচিত;	पुरुषोचित;	man-like, masculine, manly;
		3. मर्दों या वीरों जैसा।	মরদ বা বীরের মতো	मरद बा बीरेर मतो	brave, valorous.
मर्म	पु.	1 किसी बात के अन्दर छिपा हुआ तत्व;	গূঢ় অর্থ,	गूढ़ अर्थ,	secret, implied meaning;
		2. भेद, रहस्य;	তাৎপর্য;	तात्पर्ज;	secret, mystery;
		3. प्राणियों के शरीर में वह स्थान जहां आघात पहुंचने से अधिक वेदना होती है और मृत्यु तक की सम्भावना होती है;	রহস্য; দেহাভ্যন্তরস্থ এমন স্থান যেখানে আঘাত করিলে মৃত্যু হইতে পারে;	रहस्य; देहाभ्यन्तरस्थ एमन स्थान जेखाने आघात करिले मृत्यु हइते पारे;	core or vital part of the body, week, vulnerable or mortal point;
		4. हृदय।	হৃদয়	हृदय	secret recess (of the heart, etc.), the innermost heart.
मर्मघाती	वि.	मर्म पर आघात करनेवाला।	মর্মে আঘাতকারী	मर्मे आघातकारी	one who strikes at the most vulnerable point, one who makes a fatal strike.
मर्मज्ञ	वि.	किसी बात का तत्व या गूढ़ रहस्य समझनेवाला, विद्वान, पंडित।	রহস্যবিৎ, তত্ত্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত	रहस्यवित्, तत्त्वज्ञ, प्राज्ञ, पन्डित	knowing mysteries, familiar with the most secret or recondite portions of a subject, deeply versed in, learned man.
मर्मभेदी	वि.	1. मर्मस्थल अर्थात् हृदय पर आघात करनेवाला;	হৃদয়বিদারক, হৃদয়ভেদক;	हृदयबिदारक, हृदयभेदक;	moving, touching poignant;
		2. आंतरिक कष्ट देनेवाला।	মর্মান্তিক	मर्मान्तिक	excessively painful heartrending.
मर्म-वचन	पु.	ऐसा कथन, बात या वचन जो मर्म या हृदय पर आघात करनेवाला हो।	মর্মস্পর্শী কথা	मर्मस्पर्शी कथा	touching or subtle words.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मर्मस्थल	पु.	1. शरीर का कोई ऐसा अंग जिस पर आघात लगने से बहुत अधिक पीड़ा होती है और जिससे मनुष्य मर सकता है; 2. हृदय, जिस पर किसी की बात का आघात लगता है।	মর্মস্থান; হৃদয়	मर्मस्थान; हृदय	vital part, vulnerable place, tender spot. heart.
मर्मस्पर्शी	वि.	मर्म को स्पर्श करने अर्थात् उस पर प्रभाव डालनेवाला।	হৃদয়স্পর্শী, মন গলায় এমন	हृदयस्पर्शी, कन गलाय एमन	touching, moving, poignant, heart-rending.
मर्माहत	वि.	जिसके मर्म पर आघात किया गया हो।	মর্মে আঘাতপ্রাপ্ত, মর্মপীড়িত	मर्मे आघातप्राप्त, मर्मपीड़ित	vitally struck, heart-rent.
मर्यादा	वि.	1. सीमा या हद; 2. सदाचार; 3. लोक में प्रचलित व्यवहार और उसके नियम आदि; 4. मान, गौरव या प्रतिष्ठा।	সীমা; সদাচারক্রম; প্রচলিত ব্যবহার, নিয়ম, ব্যবস্থা; সম্মান, গৌরব	सीमा; सदाचारक्रम; प्रचलित ब्यबहार, नियम, ब्यबस्था; सम्मान, गौरब	limit, boundary, ambit; propriety of conduct, decorum, decency; established usage, social code, custom; rank, station, dignity.
मल	पु.	1. मैल; 2. शरीर से निकलनेवाली मैल या विकार; 3. गूह, विष्ठा।	ময়লা; বসাশুক্রাদি, দেহমন; বিষ্ঠা	मयला; बसाशुक्रादि, देहमनत; बिष्ठा	rubbish, dirt, filth; any excretion of the body; excrement, refuse, sewage.
मलना	स.क्रि.	1. किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर लगाने के उद्देश्य से रगड़ना या घिसना; 2. लेप करना।	মলা, ডলা, ঘষা, মর্দন করা; মাখানো, লেপা	मला, डला, घषा मर्दन करा; माखानो, लेपा	to rub, to massage; to anoint, to smear.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मलनी	स्त्री.	आठ-दस अंगुल लंबा दो अंगुल चौड़ा, सुडौल और चिकने बांस का वह टुकड़ा जिससे कुम्हार बरतनों की फालतू मिट्टी काटकर निकालते हैं।	আট বা দশ আংগুল লম্বা এবং দুই আংগুল চওড়া বাখারি	आट बा दश आङ्गुल लम्बा एबं दुइ आङ्गुल चओड़ा बाखारि	bamboo splinter used by potters to remove superfluous earth while shaping the pots.
मलबा	पु.	1. कूड़ा-करकट; 2. टूटी या गिराई हुई इमारत का ईट-पत्थर, चूना आदि।	ময়লা, আবর্জনা; ভাংগা বাড়ীর চূর্ণসুরকি ইঁটের টুকরা ইত্যাদি	मयला, आबर्जना; भाङ्गा बाड़ीर चूर्नसुरकि इँटेर टुकड़ा इत्यादि	rubbish, refuse; the rubbish of a fallen building or wall, debris.
मलमल	स्त्री.	एक प्रकार का प्रसिद्ध पतला कपड़ा।	মিহি সূতি কাপড়বিশেষ	मिहि सुति कापड़बिशेष	muslin.
मलमास	पु.	वह मास जिसमें संक्रान्ति न पड़ती हो, दो संक्रान्तियों के बीच में पड़नेवाला चंद्रमास।	দুই অমাবস্যাযুক্ত এবং রবিসংক্রান্তি শূন্য চান্দ্র মাস	दुइ अमाबस्याजुक्त एबं रबिसंक्रान्ति शून्य चान्द्र मास	an intercalary (thirteenth) month.
मलयानिल	पु.	मलय पर्वत की ओर से आनेवाली शीतल और सुगन्धित वायु।	মলয়বায়ু, মলয় পর্বত হইতে আগত বাতাস	मलयबायु, मलय पर्बत हइते आगत बातास	the cool and fragrant south wind from the Malaya mountain.
मलवाना	स.क्रि.	मलने का काम दूसरे से करवाना।	মলান, মলানো	मलान, मलानो	to have or get (a thing) rubbed.
मलाई	स्त्री.	1. मलने की क्रिया या भाव; 2. मलने की मजदूरी या पारिश्रमिक; 3. वह गाढ़ा, चिकना अंश जो दूध उबालने पर उसके ऊपर जमने और तैरने लगता है, बालाई।	মলাই, মর্দনের কাজ, পেষণের কাজ; মর্দনের কাজের বা পেষণের কাজের মজুরি; সর	मलाइ, मर्दनेर काज, पेषनेर काज; मर्दनेर काजेर बा पेषनेर काजेर मजुरि; सर	the act of kneading or rubbing; the wages paid for kneading or rubbing; cream of milk.
मलाल	पु.	1. दु:ख, रंज;	দুঃখ, শোক;	दु:ख, शोक;	grief, anguish;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. पश्चाताप।	অনুতাপ, খেদ	अनुताप, खेद	remorse, compunction.
मलावरोध	पुं.	मल का रुकना या कब्जियत।	কোষ্ঠবদ্ধতা	कोष्ठबद्धता	constipation of the bowels.
मलाशय	पु.	शरीर में अंतड़ियों के नीचे का वह हिस्सा जिसमें शौच के समय बाहर निकलने से पहले मल एकत्र होता है।	মলাধার, বৃহদন্ত্র	मलाधार, बृहदन्त्र	rectum.
मलिका	स्त्री.	महारानी।	মহারাণী	महारानी	queen.
मलिन	वि.	1. मैला कुचैला, गंदा;	ময়লা, নোংরা;	मयला, नोंरा;	dirty, filthy, tarnished, stained;
		2. धीमा, मंद (प्रकाश);	অনুজ্জ্বল, আবিল;	अनुज्ज्वल, आविल;	obscured, dull or dim (light etc.);
		3. उदास, म्लान।	বিষণ্ণ, ম্লান	बिषन्न, म्लान	sad, downcast, melancholy.
मलिनता	स्त्री.	मलिन होने की अवस्था या भाव।	মলিনভাব, মলিনত্ব, মালিন্য	मलिनभाव, मलिनत्व, मालिन्य	dirtiness, filthiness, impurity.
मलीदा	पु.	रोटी या पकवान का चूर-चूर करके और अच्छी तरह मलकर बनाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य-पदार्थ जो चूरमे की तरह होता है।	মিষ্টান্নবিশেষ	मिष्टान्नविशेष	cake made of pounded meal (or of flour) with butter and sugar.
मलीन	वि.	दे. 'मलिन'।	দ্র: 'মলিন'	द्र: 'मलिन'	see 'मलिन'.
मल्ल	पु.	पहलवान।	পালোয়ান	पालोयान	professional wrestler or boxer.
मल्ल-क्रीड़ा	स्त्री.	मल्लयुद्ध, कुश्ती।	বাহুযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কুস্তি	बाहुजुद्ध, मल्लजुद्ध, कुस्ति	wrestling or boxing match.
मल्लयुद्ध	पु.	मल्लों का युद्ध, कुश्ती।	বাহুযুদ্ধ, কুস্তি	बाहुजुद्ध, कुस्ति	wrestling or boxing match.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मल्लविद्या	स्त्री.	कुश्ती के दाँव-पेंच।	মল্লযুদ্ধশাস্ত্র	मल्लजुद्धशास्त्र	art of wrestling.
मल्लाह	पु.	वह व्यक्ति जो नदी में नाव खेकर अपनी जीविका अर्जित करता हो, केवट, मांझी।	মাল্লা	माल्ला	sailor, mariner, boatman.
मल्लाही	स्त्री.	मल्लाह का कार्य, पेशा और पद।	মাল্লাগিরি	माल्लागिरि	profession of a sailor, business of boatman, seamanship, navigation.
मल्लिका	स्त्री.	1. चमेली; 2. आठ अक्षरों का एक वर्णिक छंद।	চামেলি; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ	चामेलि; संस्कृत छन्दोबिशेष	Arabian jasmine; a metre in Sanskrit prosody,
मल्हार	पु.	1. लाड़-प्यार या दुलार; 2. एक प्रसिद्ध राग जो वर्षा-ऋतु में गाया जाता है।	সোহাগকরণ; মল্লার, রাগবিশেষ	सोहागकरन; मल्लार, रागविशेष	fondling, caressing; a raga in Indian music sung especially in rainy season.
मवाद	पु.	घाव से निकलनेवाली पीब।	পুঁজ	पुंज	purulent matter, pus.
मवेशी	पु.	चौपाये, विशेषतः गाय, बैल, भैंस, आदि जिन्हें मनुष्य पालता है।	গোমহিষাদি গৃহপালিত প্রাণী	गोमाहिषादि गृहपालित प्रानी	cattle.
मशक	स्त्री.	बकरी आदि की खाल का बना हुआ पानी भरने का थैला।	জল বহিবার চামড়ার থলি, ভিস্তি	जल बहिबार चामड़ार थलि, भिस्ति	a large leather waterbag.
मशक्कत	स्त्री.	कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत।	কঠোর পরিশ্রম	कठोर परिश्रम	toil, hard labour.
मशगूल	वि.	कार्य या व्यापार में लगा हुआ, व्यस्त।	মশগুল, ব্যাপৃত, নিবিষ্ট	मशगुल, ब्यापृत, निबिष्ट	busy, occupied, absorbed(in).
मशविरा	पु.	दूसरों से किया जानेवाला परामर्श।	পরামর্শ	परामर्श	consultation, advice.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मशहूर	वि.	जिसकी खूब शोहरत हो, प्रसिद्ध, विख्यात।	মশহুর, নামজাদা, খ্যাতিমান	मशहुर, नामजादा, ख्यातिमान	famous, well-known, celebrated.
मशाल	पु.	जलाने की एक लम्बी लकड़ी जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेटा जाता है और प्रकाश के लिए जलाया जाता है।	কাঠিতে জড়ান তেলমাখা ন্যাকড়া ইত্যাদির মোটা বাতি	काठिते जड़ान तेलमाखा न्याकड़ा इत्यादिर मोटा बाति	torch.
मशालची	पु.	वह जो जलती हुई मशाल लेकर रोशनी दिखलाते हुए चलता हो।	মশালধারী, মশালবাহক	मशालधारी, मशालबाहक	torch-bearer.
मशीन	स्त्री.	यंत्र, कल।	মেশিন, যন্ত্র	मेशिन, जन्त्र	machine.
मसकना	स.क्रि	कपड़े को इस प्रकार दबाना कि बुनावट के तंतु टूटकर अलग हो जाएं।	কাপড় এত জোরে ঠাসা যে তাহাতে সুতা আলগা হইয়া যায়	कापड़ एत जोरे ठासा जे ताहाते सूता आल्गा हइया जाय	to press to the point of tearing (cloth etc.);
	अ.क्रि.	इस प्रकार दबना कि बीच में से फट जाए।	এত জোরে ঠাসা যে মাঝখানে ফাঁসিয়া যায়	एत जोरे ठासा जे माझखाने फासिया जाय	to get pressed to the point of tearing, splitting etc.
मसका	पु.	1. नवनीत, मक्खन; 2. (लाक्षणिक अर्थ में) चापलूसी करना।	ননী, মাখন; খোশামোদি, খোশামুদি	ननी, माखन; खोशामोदि, खोशामुदि	butter; flattery, adulation.
मसनद	पु.	एक प्रकार का गोल, तथा बड़ा तकिया।	বড় তাকিয়া, গা-তাকিয়া	बड़ ताकिया, गा-ताकिया	bolster, big pillow.
मसल	स्त्री.	कहावत, लोकोक्ति।	প্রবচন, প্রবাদ	प्रवचन, प्रबाद	saying, proverb.
मसलन्	क्रि. वि.	उदाहरण के रूप में, उदाहरणार्थ।	দৃষ্টান্তস্বরূপ	दृष्टान्तस्बरूप	for example, for instance.
मसलना	स. क्रि.	दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी चीज को रगड़ना।	দুই হাতে রগড়ানো	दुइ हाते रगड़ानो	to rub to pieces, to press hard, to bruise, to crush.
मसला	पु.	विचारणीय विषय, समस्या।	বিচার্য বিষয়, সমস্যা	बिचार्ज बिषय, समस्या	issue, question, problem.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मसहरी	स्त्री.	मच्छरदानी।	মশারি, মশারী	मशारि, मशारी	mosquito-net.
मसान	पु.	मरघट।	শ্মশান	श्मशान	cremation ground, crematory.
मसाला	पु.	1. धनिया, मिर्च, लोंग, हींग आदि पदार्थ जिनका उपयोग दाल, तरकारी आदि को सुगंधित और स्वादिष्ट करने के लिए किया जाता है;	মসল্লা, মসলা, মশল্লা;	मसल्ला, मसला, मशल्ला;	necessaries (as for cooking), spicery, spices, condiments;
		2. सामग्री;	সামগ্রী;	सामग्री;	material, ingredients etc;
		3. औषधियों, रासायनिक द्रव्यों आदि का तैयार किया हुआ मिश्रण;	ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ;	औषध बा रासायनिक द्रब्येर मिश्रन;	mixure of durgs or chemicals;
		4. किसी काम या बात का आधारभूत साधन।	উপকরণ, মসলা	उपकरन, मसला	material.
मसालेदार	वि.	जिसमें मसाला पड़ा हुआ हो।	ঝালমসলাযুক্ত	झालमसलाजुक्त	seasoned with spices, pungent.
मसि	स्त्री.	स्याही, रोशनाई।	লিখিবার কালি	लिखिबार कालि	ink.
मसूड़ा	पु.	दांतों के नीचे-ऊपर का मांस।	মাড়ি	माड़ि	gum (of the teeth).
मसूर	पुं.	एक प्रकार का अन्न जो द्विदल और चपटा होता है, एक दाल।	মসুর, একপ্রকার দাল	मसुर, एकप्रकार दाल	a kind of pulse, lentil.
मसृण	वि.	1. चिकना; 2. मुलायम।	চিক্কণ; কোমল	चिक्कन; कोमल	unctuous, oily; soft, smooth.
मसोसना	स.क्रि.	आकांक्षा आदि को किसी विवशतावश भीतर ही भीतर दबाए रखना।	মনেই কোনো আবেগ অবরুদ্ধ করা	मनेइ कोनो आबेग अबरुद्ध करा	to suppress (an emotion etc.).
मसौदा (मसविदा)	पु.	लेख आदि का आरंभिक रूप जिसमें काट-छांट या परिवर्तन किया जा सकता हो।	মুসাবিদা, খসড়া	मुसाबिदा, खसड़ा	a draft.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मस्त	वि.	1. नशे में चूर;	মত্ত	मत्त	intoxicated, drunk;
		2. निश्चिंत और लापरवाह;	ভাবনাচিন্তাহীন;	भावनाचिन्ताहीन;	careless;
		3. जिसमें मस्ती टपके।	আনন্দে আত্মহারা	आनन्दे आत्महारा	overjoyed, delighted.
मस्तक	पु.	1. सिर; 2. माथा।	শির; মাথার উপরিভাগ	शिर; माथार उपरिभाग	the head; the forehead.
मस्तमौला	पु.	वह व्यक्ति जो अपने विचारों, कार्यों आदि में मस्त रहता हो और सांसारिक प्रपंचों में न पड़ता हो।	যে আপনভাবে বিভোর ব্যক্তি সংসারে জড়াইয়া পড়েন না	जे आपनभावे बिभोर ब्यक्ति संसारे जड़ाइया पड़ेन ना	a carefree person recognising no obligations.
मस्ताना	वि.	1. मस्तों-का सा;	মদোন্মত্ত, মত্ত;	मदोनमत्त, मत्त;	intoxicated, drunken;
		2. मस्त।	ভাবনাচিন্তাহীন, বেপরোয়া	भावनाचिन्ताहीन, बेपरोया	carefree, frolicsome.
	अ. क्रि.	मस्त होना, मस्ती पर आना।	মত্ত হওয়া, বেপরোয়া হওয়া	मत्त हओया, बेपरोया हओया	to be in an intoxicated state, to be in a wanton mood, to be in a lively frolic.
मस्तिष्क	पु.	भेजा, दिमाग।	বুদ্ধিশক্তি	बुद्धिशक्ति	cerebrum, brain.
मस्ती	स्त्री.	1. मस्त होने की अवस्था या भाव, मतवालापन;	মত্ততা;	मत्तता;	joy;
		2. संभोग की प्रबल इच्छा;	কামোন্মত্ততা	कामोन्मत्तता;	passionateness, sexual excitement;
		3. नशे की स्थिति।	নেশা	नेशा	intoxication.
मस्तूल	पु.	नाव, जहाज के बीच का वह बड़ा खंभा जिसमें पाल बांधा जाता है।	মাস্তুল	मास्तुल	mast (of a ship or boat).
मस्सा	पु.	दाने के रूप में उभरा हुआ मांसपिंड।	আঁচিল	आंचिल	wart, mole.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महंगा (स्त्री. मंहगी)	वि.	जिसके दाम अधिक या उचित से अधिक हों।	মহার্ঘ, মাগ্গি	महार्घ, मागि्ग	dear, expensive, costly.
महंगाई	स्त्री.	1. पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य पर वस्तुएं बिकने की स्थिति;	মহার্ঘতা;	महार्घता;	dearness,
		2. महंगाई के कारण वेतन के अतिरिक्त दिया जानेवाला भत्ता।	মাগ্গি ভাতা	मागि्ग भाता	dearness allowance.
महंत	पु.	वह साधु या संन्यासी जो किसी मठ आदि का प्रधान हो।	মহন্ত, মহান্ত, মঠস্বামী মঠোধ্যক্ষ	महन्त, महान्त, मठस्बामी मठोध्यक्ष	head of a monastry, abbot.
महक	स्त्री.	दूर तक फैलनेवाली सुगन्ध।	সুদূরপ্রসারী সুরভি	सुदूरप्रसारी सुरभि	a wide-spread fragrance, fragrance, cdour.
महकदार	वि.	महकवाला, खुशबूदार।	সুগন্ধযুক্ত	सुगन्धजुक्त	fragrant, odoriferous, aromatic.
महकना	अ.क्रि.	महक या गंध देना।	সুবাস, ছড়ানো	सुबास, छड़ानो	to give out sweet smell or fragrance.
महकमा	पु.	शासनिक दृष्टि से कोई विशिष्ट विभाग।	প্রশাসনিক বিভাগ	प्रशासनिक बिभाग	a department.
महकाना	स.क्रि.	महक या सुगन्ध से युक्त करना।	সুগন্ধযুক্ত করা	सुगन्धजुक्त करा	to exhale (agreeable scent), to perfume, to scent.
महज	क्रि. वि.	केवल, निरा, सिर्फ।	কেবল, সেরেফ	केबल, सेरेफ	merely, only, solely.
महती	वि.	दे. 'महत्'।	দ্রঃ 'মহৎ'	द्रः 'महत्'	see 'महत्'.
महत्	वि.	1. बड़ा, बृहत्;	বড়, বৃহৎ;	बड़, बृहत्;	great, big, large, huge;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. श्रेष्ठ, ऊंचा;	শ্রেষ্ঠ, উন্নত;	श्रेष्ठ, उन्नत;	high, eminent, distinguished;
		3. भारी, तीव्र।	অতিশয়	अतिशय	intense, gross, thick, dense.
महत्तम	वि.	सबसे बड़ा।	সর্বাপেক্ষা মহৎ	सर्वापेक्षा महत्	greatest, biggest, excellent.
महत्तम समापवर्तक	पु.	गणित में वह बड़ी संख्या जिसका भाग दो या अन्य संख्याओं में पूरा-पूरा हो सके।	গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, গ.সা.গু.	गरिष्ठ साधारन गुननीयक, ग.सा.गु.	G.C.M. (Greatest common measure).
महत्ता	स्त्री.	1. बड़प्पन, महिमा;	মহিমা;	महिमा;	greatness, magnitude;
		2. महत्व।	মহত্ব	महत्व	importance, significance.
महत्व	पु.	1. किसी कार्य, वस्तु आदि की वह अवस्था जिसमें वह उपयोग, प्रभाव आदि के विचार से औरों से बढ़कर मानी या समझी जाती है;	গুরুত্ব;	गुरुत्व;	importance, significance;
		2. बड़प्पन, बड़ाई, श्रेष्ठता।	শ্রেষ্ঠতা	श्रेष्ठता	greatness, magnitude, high degree.
महत्वपूर्ण	वि.	महत्ववाला।	মহত্বযুক্ত	महत्वजुक्त	important, significant.
महत्वाकांक्षा	स्त्री.	बड़ा बनने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा।	উচ্চাকাঙ্ক্ষা	उच्चाकाङ्क्षा	ambition, aspiration.
महत्वाकांक्षी	वि.	महत्त्वाकांक्षा रखनेवाला।	উচ্চাকাঙ্ক্ষী	उच्चाकाङ्क्षी	ambitious, aspiring.
महफिल	स्त्री.	1. जलसा, सभा;	সভা;	सभा;	an assembly, a congregation, a private gathering;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. नाच-रंग का जलसा।	নৃত্যগীতাদির বৈঠক	नृत्यगीतादिर बैठक	recreational assembly.
महरा (स्त्री.महरी)	पु.	कहार।	কাহার	काहार	kahar, a palki-bearer.
महर्षि	पु.	बहुत बड़ा ऋषि।	ঋষিশ্রেষ্ঠ	ऋषिश्रेष्ठ	great Rishi, great sage or saint.
महल	पु.	राजाओं, रईसों आदि के रहने का बहुत बड़ा मकान, प्रासाद।	রাজপ্রাসাদ	राजप्रासाद	a palace, a castle, a palatial mansion.
महसूल	पु.	1. कर या शुल्क; 2. कोई वस्तु कहीं भेजने का किराया या भाड़ा; 3. मालगुजारी या लगान।	মাসুল, মাশুল; মালের শুল্ক; রাজস্ব	मासुल, माशुल; मालेर शुल्क; राजस्व	tax, duty, custom; portage; revenue, income.
महसूली	वि.	जिस पर महसूल लगा हो या लग सकता हो।	যাহার মাসুল দিতে হয়	जाहार मासुल दिते हय	dutiable, taxable.
महसूस	वि.	ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अनुभूत (विषय)।	জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত	ज्ञानेन्द्रिय द्वारा अनुभूत	perceived, felt.
महा	वि.	1. बहुत अधिक, अत्यन्त; 2. बड़ा, महान।	সমধিক অত্যন্ত; বিশাল	समधिक अत्यन्त; बिशाल	ample, excessive; great, illustrious, mighty.
महाकाय	वि.	बहुत बड़ी काया या शरीरवाला।	বেশালদেহ	बिशालदेह	large, mammoth, gigantic.
महाकाल	पु.	1. शिव का संहारकारी रूप; 2. अखंड, अनंतकाल।	সংহারমূর্তি-ধর শিব; অনবচ্ছিন্ন কাল	संहारमूर्ति-धर शिव; अनबच्छिन्न काल	a form of Siva in his character as the destroyer of the world; the Time Infinite.
महाकाव्य	पु.	बड़ा काव्य, आठ या इससे अधिक सर्गोवाला वह प्रबन्धकाव्य जिसमें विविध ऋतुओं आदि का वर्णन हो तथा जिसमें सभी रसों एवं विविध छंदों का समावेश हो।	সর্গবন্ধরূপ অষ্টাধিকসর্গক কাব্যবিশেষ	सर्गबद्धरूप अष्टाधिकसर्गक काव्यबिशेष	a great or classical peom, an epic.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महाजन	पुं.	1. लेनदेन का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति, साहूकार; 2. श्रेष्ठ व्यक्ति।	বণিক, সওদাগর, উত্তমর্ণ, কুসীদজীবী যে তেজারতি করে; মহৎ ব্যক্তি	बनिक, सओदागर, उत्तमर्न, कुसीदजीबी, जे तेजारति करे; महत् ब्यक्ति	a merchant, tradesman, money-lender; a great or eminent man, a very distinguished person.
महाजनी	स्त्री.	1. एक विशेष लिपि जो बही-खाते में प्रयुक्त की जाती है; 2. सूद पर रुपये उधार देने का कारोबार।	হিসাবের খাতা লেখার কাজে ব্যবহৃত লিপি; তেজারতি	हिसाबेर खाता लेखार काजे ब्यबहृत लिपि; तेजारति	a kind of script used in account books; banking business, money-lending business.
महात्मा	पुं.	1. शुद्ध हृदय तथा उच्च विचारोंवाला व्यक्ति, 2. संत, योगी, सिद्ध पुरुष।	মহামনা, মহানুভাব ব্যক্তি; সন্ত, যোগী, সিদ্ধপুরুষ	महामना, महानुभाव ब्यक्ति; सन्त, जोगी, सिद्ध पुरुष	high-souled, high-minded, noble; saintly (person), saint, enlightened soul.
महाद्वीप	पुं.	पृथ्वी का वह बड़ा भाग जिसमें कई देश हों जैसे एशिया, यूरोप आदि।	মহাদেশ	महादेश	continent.
महाधिवक्ता	पुं.	विधिक क्षेत्र में किसी राज्य का वह प्रमुखतम अधिकारी जो शासकीय विवादों में उच्च न्यायालय के सामने राजकीय पक्ष प्रस्तुत करता है।	এড্ভোকেট জেনারেল	एड्भोकेट जेनारेल	advocate general.
महानता	स्त्री.	दे. 'महत्ता'।	দ্র: 'মহত্তা'	द्र: 'महत्ता'	see 'महत्ता'
महानिशा	स्त्री.	1. रात्रि का दूसरा और तीसरा पहर;	নিশার মধ্যস্থ প্রহরদ্বয়, রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর;	निशार मध्यस्थ प्रहरद्वय, रात्रिर द्वितीय ओ तृतीय प्रहर	the dead of night, the second and third watches of the night;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. प्रलय की रात।	প্রলয়রাত্রি	प्रलयरात्रि	the great deluge.
महानुभाव	पु.	बहुत बड़ा व्यक्ति, उच्च विचारवाला व्यक्ति।	উদারচিত্ত, মহামনাঃ	उदारचित्त, महामनाः	high-minded, noble-minded, generous person.
महान्यायवादी	पु.	विधिक क्षेत्र में किसी राज्य या राष्ट्र का वह प्रधान अधिकारी जिसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयां करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।	এটর্নি জেনারেল	एटर्नि जेनारेल	attorney-general.
महापातक	पु.	बहुत बड़ा तथा घोर पाप।	গুরুপাপ, জঘন্যতম পাপ	गुरुपाप, जघन्यतम पाप	a great crime or sin, a heinous offence.
महापाप	पु.	दे. 'महापातक'।	দ্রঃ 'মহাপাতক'	द्रः 'महापातक'	see 'महापातक'
महापुरुष	पुं.	श्रेष्ठ जन, महिमाशाली पुरुष।	শ্রেষ্ঠ নর মহাত্মা ব্যক্তি	श्रेष्ठ नर महात्मा व्यक्ति	a great man, an eminent personage, a dignitary.
महाप्रलय	पु.	ब्रह्माकी आयु समाप्त होने पर होनेवाला संपूर्ण सृष्टि का नाश।	ব্রহ্মা ও তাহার সৃষ্টির বিনাশ	ब्रह्मा ओ ताहार सृष्टिर बिनाश	the great deluge.
महाप्रस्थान	पुं.	1. मृत्यु, मौत;	মৃত্যু;	मृत्यु;	departing from this life, death;
		2. प्राचीन काल में स्वर्गारोहन के उद्देश्य से महापथ के द्वारा की जानेवाली दुर्गम पर्वतों की यात्रा।	মরণোদ্দেশে হিমালয় পর্যন্ত প্রয়াণ	मरनोद्देशे हिमालय पर्जन्त प्रयान	setting out on a great journey for ending life.
महाप्राण	पु.	व्याकरण के अनुसार ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर।	প্রাণবায়ু প্রধান উচ্চারণ, মহা-প্রাণযুক্ত বর্ণ—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ	प्रानवायु प्रधान उच्चारन, महा-प्रानजुक्त बर्न—बर्गेर द्वितीय ओ चतुर्थ बर्न एवं श, ष, स ह	the hard breathing or aspirate sound made in the pronunciation of the aspirates, (in Gram.) an aspirated letter.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महाभाग (महाभागी)	वि.	अति भाग्यवान।	পরম সৌভাগ্যবান্	परम सौभाग्यवान्	highly fortunate or blessed, very prosperous or happy
महाभूत	पु.	1. भारतीय दर्शन में पृथ्वी आकाश आदि पांच तत्व या भूत; 2. आधुनिक विज्ञान में वह मूल तत्त्व जो सभी तत्त्वों में समान रूप से पाया जाता है और उन सब का मूल कारण है।	ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত; মৌলিক পদার্থ	क्षिति, अप्, तेज, मरुत् एवं व्योम एइ पञ्च महाभूत; मौलिक पदार्थ	the five elements; the matter.
महामंत्री	पु.	किसी संस्था आदि का सबसे प्रमुख मंत्री, महासचिव।	কর্মসচিব, সাধারণ সচিব	कर्मसचिव, साधारन सचिव	general secretary.
महामना	वि.	उदारचित, जिसका मन सब प्रकार से शुद्ध हो।	মহামনাঃ, মহামতি, মহানুভব, মহানুভাব	महामनाः, महामति, महानुभव, महानुभाव	high-minded, noble-minded, liberal.
महामहिम	वि.	जिसकी महिमा बहुत अधिक हो।	মহামহিমান্বিত, অতিশয় মহিমাপূর্ণ	महामहिमान्वित, अतिशय महिमापूर्न	Majesty.
महामान्य	वि.	बहुत अधिक माननीय।	অত্যন্ত মাননীয়	अत्यन्त माननीय	most honourable, most revered, His Highness.
महामारी	वि.	ऐसा रोग जिससे बहुत अधिक लोग मरें, हैजा, प्लेग आदि।	মহামারাত্মক রোগ, মড়ক, সংক্রামক রোগ	महामारात्मक रोग, मड़क, सङ्क्रामक रोग	an epidemic, (cholera, plague, etc.).
महायज्ञ	पु.	बहुत बड़ा यज्ञ।	খুব বড় যজ্ঞ	खुब बड़ जज्ञ	a great sacrifice or offering.
महायात्रा	स्त्री.	मृत्यु।	মহাপ্রয়াণ, মৃত্যু	महाप्रयान, मृत्यु	the great journey, death.
महायुद्ध	पु.	बहुत बड़ा तथा व्यापक युद्ध, विश्वयुद्ध।	ভীষণ ও ব্যাপক যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ	भीषन ओ ब्यापक जुद्ध, बिश्वजुद्ध	a great war, a world war.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महारथी	पु.	1. वह योद्धा जो अकेला दस हजार योद्धाओं से लड़ने में समर्थ हो;	মহারথ;	महारथ;	a great warrior;
		2. किसी विषय का प्रकांड विद्वान या किसी क्षेत्र का महान व्यक्ति।	কোনো বিষয়ে মহাবিদ্বান, কোনো ক্ষেত্রে খুব বড় কোনো ব্যক্তি	कोनो बिषये महाबिद्वान, कोनो क्षेत्रे खुब बड़ कोनो ब्यक्ति	a leading luminary in any field of knowledge or activity.
महाराज	पु.	1. बड़ा राजा;	বড় রাজা;	बड़ राजा;	a great king, supreme sovereign;
		2. ब्राह्मण, साधु-संत आदि का सम्मान सूचक संबोधन;	ব্রাহ্মণ গুরু আচার্য মুনি সাধু ও পূজ্যের প্রতি প্রয়োজ্য সম্মানসূচক শব্দ;	ब्राह्मन गुरु आचार्ज मुनि साधु ओ पुज्येर प्रति प्रयोज्य सम्मानसूचक शब्द;	a form of respectful address to a Brahman, or a superior, Majesty, Excellency etc.;
		3. भोजन बनानेवाला ब्राह्मण।	পাচক	पाचक	cook.
महारात्रि	स्त्री.	दे. 'महानिशा'।	দ্র: 'মহানিশা'	द्र: 'महानिशा'	see 'महानिशा'.
महारानी	स्त्री.	राजा या सम्राट की पत्नी, मलिका।	মহারানী, মহারাজের পত্নী	महारानी, महाराजेर पत्नी	queen, empress.
महारोग	पु.	बहुत बड़ा और प्रायः असाध्य रोग।	কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি	कुष्टादि दुरारोग्य ब्याधि	a dangerous illness, grievous malady.
महारोगी	वि.	किसी महारोग से पीड़ित।	মহারোগগ্রস্ত	महारोगग्रस्त	suffering from a severe illness.
महालेखापाल	पु.	लेखा-विभाग का सबसे प्रधान अधिकारी।	মহাগাণনিক	महागाननिक	accountant general.
महावत	पु.	हाथीवान, फीलवान।	মাহুত	माहुत	a mahout, elephant-driver.
महावर	पु.	लाख का रंग जिससे स्त्रियां अपने पैर रंगती हैं।	আলতা	आलता	red colour used by ladies to beautify their feet.
महाविद्यालय	पु.	उच्च शिक्षा देनेवाला विद्यालय।	কলেজ	कलेज	a college.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महावीर	वि.	बहुत बड़ा वीर, पराक्रमी।	মহাশূর, অত্যন্ত পরাক্রমশালী	महाशूर, अत्यन्त पराक्रमशाली	having tremendous valour, extremely gallant.
	पु.	हनुमान।	হনুমান্	हनुमान्	an epithet of Hanuman.
महाशय	पु.	उच्चाशय, उदार, सज्जन (प्रायः नाम के साथ आदरार्थ प्रयुक्त किया जाता है)।	শ্রদ্ধাজ্ঞাপক, সম্মানসূচক, ভদ্রতাসূচক সম্বোধনবিশেষ	श्रद्धाज्ञापक, सम्मानसूचक, भद्रतासूचक सम्बोधनविशेष	a term of respectful address, Your Honour, Sir, Master.
महासभा	स्त्री.	1. कोई बहुत बड़ी सभा;	বিরাট সভা;	बिराट सभा;	a mammoth meeting or gathering;
		2. राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में होनेवाली वह सभा जिसमें सम्बद्ध समस्त राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।	রাষ্ট্র সঙ্ঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দের লইয়া গঠিত সাধারণ সভা	राष्ट्र सङ्घेर समस्त सदस्य राष्ट्रेर प्रतिनिधि-देर लइया गठित साधारन सभा	general assembly (as of UNO).
महासागर	पु.	वह समस्त जलराशि जो इस लोक के स्थल-भाग को चारों ओर से घेरे हुए है।	মহাসমুদ্র	महासमुद्र	ocean.
महिमा	स्त्री.	1. गौरव, बड़प्पन, माहात्म्य; 2. अपनी देह का इच्छानुसार विस्तार कर लेने की शक्ति।	গৌরব, মাহাত্ম্য; যোগলভ্য অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের এক শক্তি	गौरब, माहात्म्य; जोगलभ्य अनिमादि अष्ट ऐश्वर्जेर एक शक्ति	greatness, glory, dignity, exaltation; one of the 8 Siddhis, the power of increasing size of the body at will.
महिला	स्त्री.	स्त्री, औरत।	নারী, স্ত্রীমাত্র	नारी, स्त्रीमात्र	a lady, dame.
महिषी	स्त्री.	1. भैंस; 2. अभिषिक्ता रानी, पटरानी।	স্ত্রী-মহিষ; কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, পাটরানী	स्त्री-महिष; कृताभिषेका राजपत्नी, पाटरानी	a she-buffalo; queen consort.
मही	स्त्री.	पृथ्वी।	পৃথিবী	पृथिबी	earth, ground, soil.
महीतल	पु.	पृथ्वी, संसार।	ভূতল, পৃথিবীপৃষ্ঠ	भूतल, पृथिबीपृष्ठ	surface of the earth, ground, soil.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
महीधर	पु.	पर्वत, पहाड़।	পর্বত	पर्वत	mountain.
महीन	वि.	बारीक, पतला।	মিহি, সরু, সূক্ষ্ম, পাতলা	मिहि, सरु, सूक्ष्म, पातला	fine, thin (not coarse), soft (as voice).
महीना	पु.	1. वर्ष का बारहवां भाग, 30 दिन का समय, मास;	মাস;	मास;	month;
		2. मासिक धर्म।	স্ত্রী-রজ	स्त्री-रज	menses.
महीप	पु.	राजा।	রাজা	राजा	king.
महीपति	पु.	दे. 'महीप'।	দ্র: 'মহীপ'	द्र: 'महीप'	see 'महीप'.
महीपाल	पु.	दे. 'महीप'।	দ্র: 'মহীপ'	द्र: 'महीप'	see 'महीप',
महीश	पु.	दे. 'महीप'।	দ্র: 'মহীপ'	द्र: 'महीप'	see 'महीप'.
महुआ (महुवा)	पु.	एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके फल-फूल खाने, शराब बनाने और लकड़ी, ईंधन तथा इमारती कामों में आते हैं।	বৃক্ষবিশেষ, মউল গাছ, মউল ফুল	वृक्षविशेष, मउल गाछ, मउल फुल	a tree bearing sweet flowers used for preparing liquor and also as timber and fuel.
महोत्सव	पु.	बहुत बड़ा उत्सव या समारोह।	আনন্দাদি উপভোগের বিরাট অনুষ্ঠান	आनन्दादि उपभोगेर विराट अनुष्ठान	a great festival, any great rejoicing, big celebration.
महोदय (महोदया-स्त्री.)	पु.	किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जानेवाला एक आदरपूर्वक संबोधन।	মহানুভবতা ইত্যাদিসূচক সম্বোধনবিশেষ	महानुभबता इत्यादिसूचक सम्बोधनबिशेष	an honorific term, Sir.
मां	स्त्री.	माता, जननी।	মা, মাতা, জননী	मा, माता, जननी	mother.
मांग	स्त्री.	1. सिरके बालों को विभक्त करके बनाई जानेवाली रेखा;	সিঁথি, টেড়ি;	सिंथि, टेड़ि;	parting of the hair (on the head);
		2. मांगने की क्रिया, याचना;	মাগন, ভিক্ষা;	मागन, भिक्षा;	asking, begging;
		3. किसी पदार्थ के लिए लोगों को होनेवाली आवश्यकता या चाह;	চাহিদা;	चाहिदा;	requirement, want;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. आधिकारिक रूप में या दृढ़तापूर्वक यह कहना कि हमें अमुक-अमुक सुविधाएं मिलनी चाहिए।	দাবি	दाबि	demand.
मांग-टीका	पु.	माथे पर पहनने का एक गहना।	সীঁথি	सींथि	an ornament worn along the parting of hair (by a woman).
मांगना	स. क्रि.	कुछ देने की प्रार्थना करना, याचना करना।	প্রার্থনা, যাঞ্চা, চাওয়া	प्रार्थना, जाञ्चा, चाओया	to ask for, request, demand, to claim.
मांगलिक	वि.	मंगलजनक, मंगलसूचक।	শুভকর, মংগলজনক	शुभकर, मङ्गलजनक	benedictory, auspicious, propitious.
मांजना	स.क्रि.	1. साफ करने के लिए अच्छी तरह रगड़ना; 2. अभ्यास करना, मश्क करना।	মাজা; অভ্যাস করা, মক্শ করা	माजा; अभ्यास करा, मक्श करा	to cleanse, to scrub, to polish; to practice, to exercise.
मांझा	पु.	पतंग की मजबूत एवं कड़ी डोर जो घिसा हुआ शीशा आदि मलकर बनाई जाती है।	ঘুড়ির মাঞ্জা-দেওয়া সূতা	घुड़िर मांजा-देओया सूता	the kite-flying thread made sharper and stiffer by being treated with powdered glass
मांझी	पु.	केवट, मल्लाह।	মাঝি, মাঝী	माझि, माझी	steersman, boatman, sailor.
मांड	पु.	उबाले हुए चावलों का पानी जो फेंक दिया जाता है, पसाव।	মাড়, ফেন	माड़, फेन	rice-water, starch.
मांडना	स.क्रि.	1. गूंधना, सानना; 2. अन्न की बालों में से दाने झाड़ना।	ঠাসা, সানা; ধানমাড়াই করা	ठासा, साना; धानमाड़ाइ करा	to knead; to separate grain from the ears of corn.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मांडा	पु.	एक तरह का पराठा।	এক রকম পরটা	एक रकम परटा	a kind of thin cake, paratha.
मांडी	स्त्री.	मांड, कपड़े में दिया जानेवाला कलफ।	মাড়	माड़	starch (made of rice-flour etc.).
मांद	स्त्री.	खूंखार जानवरों की रहने की जगह, गुफा।	হিংস্র পশুর বিবর	हिंस्र पशुर बिबर	den (of a wild beast).
मांदगी	स्त्री.	रोग, बीमारी।	রোগ, বেমারি	रोग, बेमारि	fatigue, weariness, illness.
मांदा	वि.	बीमार, रोगग्रस्त।	ব্যায়রামী রোগগ্রস্ত	ब्यायरामी, रोगग्रस्त	fatigued, tired, ailing, indisposed.
मां-बाप	पु.	माता-पिता।	বাপ-মা, পিতা-মাতা	बाप-मा, पिता-माता	mother and father, parents.
मांस	पु.	मनुष्यों तथा जीव-जन्तुओं के शरीर का मुलायम, चिकना, रक्तवर्ण का वह अंश जो हड्डी, नस आदि से भिन्न होता है, गोश्त।	জীবদেহের অস্থি ও চর্মের-মধ্যবর্তী কোমল উপাদানবিশেষ	जीबदेहेर अस्थि ओ चर्मेर-मध्यबर्ती कोमल उपादानबिशेष	flesh, meat.
मांस-पिंड	पु.	मांस का लोथड़ा।	মাংসের পিন্ড	मांसेर पिन्ड	lump of flesh, a tumour.
मांसपेशी	स्त्री.	शरीर के अन्दर होनेवाली झिल्ली तथा रेशों के आकार का मांस-पिंड।	অস্থিপর্ব-সন্ধি প্রভৃতির মাংস-পিন্ড বিশেষ	अस्थिपर्ब-सन्धि प्रभृतिर मांस-पिन्ड बिशेष	a muscle.
मांस-भक्षी	वि.	मांस खानेवाला, मांसाहारी।	মাংসভক্ষ, মাংসভোজী	मांसभक्ष, मांसभोजी	meat-eater, carnivorous.
मांस-भोजी	वि.	दे. 'मांस-भक्षी'।	দ্র: 'মাংসভক্ষী'	द्र: 'मांसभक्षी'	see 'मांसभक्षी'
मांसल	वि.	1. मोटाताजा, हृष्टपुष्ट;	স্থূল, দৃঢ়, পুষ্ট;	स्थूल, दृढ़, पुष्ट;	fat, strong, powerful;
		2. (शरीर का कोई अंग) जो मांस से अच्छी तरह भरा हो।	মাংসবহুল	मांसबहुल	fleshy, muscular.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मांसलता	स्त्री.	1. मांस से भरे होने की अवस्था या भाव;	মাংসবহুলতা;	मांसबहुलता;	strength, bulk, power;
		2. मोटा-ताजा होने की अवस्था या भाव।	স্থূলতা, স্থূলতা,	स्थलता, स्थुलता,	fleshiness, plumpiness, muscularity.
मांसाहारी	वि.	दे. 'मांसभक्षी'।	দ্র: 'মাংসভক্ষী'	द्र: 'मांसभक्षी'	see 'मांसभक्षी'
माई	स्त्री.	1. माता, मां;	মাতা, মা;	माता, मा;	mother;
		2. वृद्धा, आदरणीया स्त्री का संबोधन;	শ্রদ্ধেয় বয়স্কা মহিলাকে সম্বোধনবিশেষ;	श्रद्धेय बयस्का महिलाके सम्बोधनबिशेष;	mode of address to a respectable old lady;
		3. नौकरानी।	চাকরানী, ঝি	चाकरानी, झि	a maid servant,
माघ	पु.	ग्यारहवां चांद्र मास जो फागुन से पहले पड़ता है।	বৎসরের দশম মাস	बत्सरेर दशम मास	eleventh month of Indian calendar.
माचिस	स्त्री.	दियासलाई।	ম্যাচিস, ম্যাচ, দিয়াশলাই	म्याचिस, म्याच, दियाशलाइ	matches, match-stick, match-box.
माजरा	पु.	1. घटना;	ঘটনা;	घटना;	event, incident, occurrence;
		2. घटना का विवरण, हाल।	ঘটনার বিবরণ	घटनार बिबरन	matter, affair.
माजून	स्त्री.	1. शहद, शक्कर आदि के योग से बना हुआ दवाओं का अवलेह;	ঔষধরূপে প্রস্তুত মিষ্ট অবলেহ	औषधरूपे प्रस्तुत मिष्ट अबलेह	a medicine in the sweatmeat;
		2. भांग की बर्फी या भांगयुक्त अवलेह;	সিদ্ধিসহযোগে প্রস্তুত মিষ্ট অবলেহ	सिद्धिसहजोगे प्रस्तुत मिष्ट अबलेह	an intoxicating sweetmeat prepared with bhang as an ingredient.
माजूफल	पु.	माजू के भवाड़ का गोंद।	মাজু নামক চারা গাছের নির্যাস	माजु नामक चारा गाछेर निर्जास	gall-nut, medicinal gum of a tree.
माणिक	पु.	लाल रंग का एक बहुमूल्य रत्न।	মানিক, মাণিক্য পদ্মরাগ	मानिक, मानिक्य, पद्मराग	ruby.
मात	स्त्री.	1. पराजय, हार;	মাৎ, পরাজয়, হার;	मात्, पराजय, हार;	defeat;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. शंतरज के खेल में वह स्थिति जब कोई पक्ष बादशाह को मिलनेवाली शह न बचा सकता हो।	দাবাখেলায় পরাজয়	दाबाखेलाय पराजय	checkmate.
मातम	पु.	मृतक का शोक, शोक के कारण होनेवाला रोना पीटना।	মৃতের জন্য শোক শোকজনিত কান্নাকাটি	मृत्येर जन्य शोक, शोकजनित कान्नाकाटि	grief, mourning, lamentation.
मातमपुर्सी	स्त्री.	मृतक के यहां जाकर सहानुभूति प्रकट करने की क्रिया।	পরের শোকে শোকপ্রকাশ	परेर शोके शोकप्रकाश	condolence.
मातमी	वि.	मातम संबंधी, शोक-सूचक।	শোকবিষয়ক, শোকসূচক	शोकबिषयक, शोकसूचक	of or relating to mourning, mournful.
मातहत	वि.	जो किसी के अधीन हो।	অধীন	अधीन	that which is under, subordinate, under.
माता	स्त्री.	1. मां, जननी; 2. आदरणीया वयोवृद्ध स्त्री का संबोधन;	মা, জননী; পূজনীয়া বয়োবৃদ্ধা নারীকে সম্বোধন;	मा, जननी; पुजनीया बयोवृद्धा नारीके सम्बोधन;	mother; an affectionate or respectful term of address to an elderly woman;
		3. चेचक या शीतला नामक रोग।	বসন্তরোগ	बसन्तरोग	small-pox.
मातृत्व	पु.	माता अर्थात् संतानवती होने की अवस्था।	জননীত্ব	जननीत्व	maternity, motherhood.
मातृभाषा	स्त्री.	अपने जन्म-स्थान की, अपने घर में बोली जानेवाली भाषा।	আপন জন্মস্থান-মাতৃভূমির ভাষা	आपन जन्मस्थान-मातृभूमिर भाषा	mother-tongue.
मातृभूमि	स्त्री.	जन्मभूमि, स्वदेश।	জন্মভূমি, স্বদেশ	जन्मभूमि, स्वदेश	motherland.
मात्र	अव्य. वि.	केवल, सिर्फ।	কেবল	केबल	only, merely, mere, sheer.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मात्रा	स्त्री.	1. परिमाण;	পরিমাণ;	परिमान;	measure, quantity;
		2. (दवा की) खुराक;	একেবারে গ্রহণীয় পরিমাণ;	एकेबारे ग्रहनीय परिमान;	a dose (of medicine);
		3. ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में लगनेवाला काल;	হ্স্বর্ণোচ্চারণে প্রয়োজনীয় কালমান;	हृस्वबर्नोच्चारने प्रयोजनीय कालमान;	the length of time required to pronounce a short syllable;
		4. किसी अक्षर में लगाया जानेवाला स्वरसूचक चिह्न।	অক্ষরের সংগে যুক্ত স্বরসূচক চিহ্ন	अक्षरेर सङ्गे जुक्त स्बरसूचक चिह्न	vowel-mark in Devanagari Script.
मात्रिक	वि.	1. मात्रा-संबंधी;	মাত্রাসম্বন্ধী;	मात्रासम्बन्धी;	of or pertaining to a vowel-mark;
		2. जिसमें मात्राओं की गणना या विचार होता हो।	যাহাতে মাত্রা গণনা বা বিচার করা হয়	जाहाते मात्रा गनना बा बिचार करा हय	based on the number of Matras.
मात्सर्य	पु.	ईर्ष्या, दूसरे का उत्कर्ष देखकर जलना।	ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা	ईर्श्या, द्वेष, परश्रीकातरता	envy, jealousy, malice.
माथा	पु.	1. मस्तक, ललाट;	মস্তক, ললাট;	मस्तक, ललाट;	forehead;
		2. वस्तु का अग्रभाग;	আগা, ডগা;	आगा, डगा;	forepart (of anything);
		3. सिर।	শির	शिर	head.
माथापच्ची	स्त्री.	समझने-समझाने के लिए होनेवाला ऐसा परिश्रम जिससे शरीर थक जाए।	মাথাঘামানো	माथाघामानो	taxing of brains, mental over-exertion.
मादक	वि.	नशा उत्पन्न करनेवाला।	মত্ততাকর	मत्तताकर	intoxicating, maddening, stupefying.
मादकता	स्त्री.	नशीलापन।	নেশাখুরি, মত্ততা	नेशाखुरि, मत्तता	state of intoxication, drunkenness.
मादा	स्त्री.	स्त्री जाति का जीव या प्राणी।	মাদী	मादी	female.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
माद्दा	पु.	1. वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी हो या बनाई जाए;	উপাদান;	उपादान;	ingredient, element;
		2. वह गुण, तत्त्व, योग्यता अथवा पात्रता जिससे मनुष्य कुछ करने-धरने योग्य होता है;	যোগ্যতা, সামর্থ্য;	जोग्यता, सामर्थ्य;	faculty, capacity;
		3. मवाद।	পুঁজ	पुंज	pus.
माधुरी	स्त्री.	मधुरता, मिठास।	মধুরতা, মাধুর্য	मधुरता, माधुर्ज	sweetness, pleasantness.
माधुर्य	पु.	1. मधुरता, मिठास;	মধুরতা, মাধুরী;	मधुरता, माधुरी;	sweetness, pleasantness;
		2. काव्य का एक गुण।	কাব্যের গুণবিশেষ	काब्येर गुनबिशेष	one of the poetic qualities.
माध्यम	पु.	साधन, जरिया।	মাধ্যম	माध्यम	means, medium.
माध्यमिक शिक्षा	स्त्री.	प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत और उच्च शिक्षा से पहले दी जानेवाली शिक्षा।	মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্য-বর্তী স্তরের শিক্ষা	माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक ओ उच्चशिक्षार मध्य-बर्ती स्तरेर शिक्षा	secondary education.
मान	पु.	1. सम्मान, आदर;	সম্মান, পূজা;	सम्मान, पूजा;	respect, honour, regard;
		2. प्रतिष्ठा, गौरव;	মর্যাদা;	मर्जादा;	prestige, dignity;
		3. नायक के किसी अपराध से नायिका का रूठना;	নায়কের প্রতি নায়িকার কোপ;	नायकेर प्रति नायिकार कोप;	female caprice, amorous sulking;
		4. पैमाना, नाप-तौल।	পরিমাণসাধন	परिमानसाधन	measure, scale.
मानक	पुं.	विशिष्ट वस्तुओं के आकार प्रकार, महत्व आदि जांचने का कोई आधिकारिक आदर्श, मानदंड या रूप।	পরিমাপের ভিত্তি, মানদণ্ড	परिमापेर भित्ति, मानदंड	standard, norm.
मानकीकरण	पु.	एक ही वर्ग की बहुत सी वस्तुओं के गुण, महत्व आदि का एक मानक रूप, स्थिर करने की क्रिया।	মাননির্ধারণ, প্রমিতকরণ	माननिर्धारन, प्रमितकरन	standardization.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मानचित्र	पु.	नक्शा, रेखाओं का ऐसा अंकन जिसमें किसी भूभाग की नदियों, पहाड़ों, नगरों आदि का विस्तार दिखाया गया हो।	ভূখন্ড দেশ বা পৃথিবীর পরিমাপ-অনুযায়ী নকশা, ম্যাপ	भूखन्ड देश बा पृथिवीर परिमाप-अनुजायी नकशा, म्याप	map.
मानचित्रावली	स्त्री.	मानचित्रों का संकलन या संग्रह, एटलस।	মানচিত্রসঙ্কলন, এটলাস	मानचित्रसङ्कलन, एटलास	atlas.
मानदंड	पु.	नापने का डंडा, पैमाना।	দাঁড়িপাল্লা, পরিমাণদন্ড	दाँड़िपाल्ला, परिमानदन्ड	standard, criterion.
मानदेय	पु.	किसी कार्य या सेवा के बदले में आदरपूर्वक दिया जानेवाला धन।	দক্ষিণা	दक्षिना	honorarium.
मानना	अ.क्रि.	1. स्वीकार करना, कबूल करना;	মানা, স্বীকার করা;	माना, स्वीकार करा;	to admit, to accept, to confess;
		2. (किसी के) गुण, योग्यता, आदि का कायल होना;	স্বীকৃতি জানানো;	स्वीकृति जानानो;	to acknowledge the superiority of;
		3. (किसी के प्रति) श्रद्धा रखना;	সম্মান করা;	सम्मान करा;	to respect, revere, esteem;
		4. तर्क-निर्वाह हेतु कुछ समय के लिए वस्तुस्थिति के विपरीत कल्पना करना।	অনুমান করা, মানিয়া লওয়া	अनुमान करा, मानिया लओया	to assume, suppose, to take for granted.
माननीय	वि.	मान करने योग्य, आदरणीय।	সম্মানার্হ	सम्मानार्ह	honourable, venerable, respectable.
मानपत्र	पु.	किसीका सम्मान करने के लिए दिया जानेवाला वह पत्र जिसमें उसके सत्कार्यों आदि की स्तुति रहती है।	মানপত্র, সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র	मानपत्र, सम्मानसूचक अभिनन्दनपत्र	an address (for welcome).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मान-मनौवल	स्त्री.	रूठे हुए को मनाने की क्रिया या भाव।	মানভঞ্জন	मानभञ्जन	entreaties and persuasion (esp. amongst lover and beloved).
मान-मनौती		दे. 'मान-मनौवल'।	দ্র: 'মান-মনৌবল'	द्र: 'मान-मनौवल'	see 'मान-मनौवल'
मानव	पु.	मनुष्य, इंसान।	মনুষ্য, মানুষ	मनुष्य, मानुष	a man, human being
मानवता	स्त्री.	1. मानव होने की अवस्था या भाव, मनुष्य-जाति;	মানবত্ব, মানবজাতি;	मानबत्व, मानबजाति;	humanity, mankind;
		2. मनुष्य के आदर्श तथा स्वाभाविक गुणों, भावनाओं आदि का प्रतीक या समूह।	মনুষ্যধর্ম, মানবগুণ	मनुष्यधर्म, मानबगुन	human quality.
मानवतावाद	पु.	वह सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है कि सभी मनुष्यों का समान रूप में कल्याण होना चाहिए और सबकी उन्नति होने की व्यवस्था होनी चाहिए।	মানবতাবাদ, যে-মতবাদের লক্ষ্য সব মানবিক কল্যাণ	मानबताबाद, जे-मतबादेर लक्ष सब मानबिक कल्यान	humanism.
मानवतावादी	वि.	मानवतावाद सम्बन्धी।	মানবতাবাদবিষয়ক	मानबताबादबिषयक	humanistic.
	पु.	मानवतावाद के सिद्धान्तों का अनुयायी और समर्थक			humanist.
मानवती	वि., स्त्री.	साहित्य में वह नायिका जो नायक से रुष्ट या असंतुष्ट होने पर मान करती हो।	মানিনী, কোপবতী	मानिनी, कोपबती	a beloved who amorously assume a sulking posture (for some lapse on the part of the lover.).
मानववाद	पु.	दे. 'मानवतावाद'।	দ্র: 'মানবতাবাদ'	द्र: 'मानवतावाद'	see 'मानवतावाद'
मानव-विज्ञान	पु.	मनुष्यों की उत्पति, उनकी जातियों, स्वभाव आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र।	নৃতত্ত্ব	नृतत्त्व	anthropology.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मानवी	स्त्री.	नारी, स्त्री।	নারী, স্ত্রী	नारी, स्त्री	woman.
	वि.	मानव का, मनुष्य-संबंधी।	মনুষ্যসম্বন্ধী	मनुष्यसम्बन्धी	pertaining to man
मानवीकरण	पुं.	किसी वस्तु को मानव का रूप देने की क्रिया या भाव।	যাহা মানব নহে তাহাকে মানবরূপ দান	जाहा मानब नहे ताहाके मानबरूप दान	to imagine or depict something in the form of a human being.
मानवीय	वि.	1. मानव संबंधी; 2. मनुष्योचित।	মানবসম্বন্ধী; মানবোচিত	मानबसम्बन्धी; मानबोचित	pertaining to mankind; human, humane.
मानस	वि.	मन से उत्पन्न, मनःकृत।	মন দ্বারা উৎপাদিত	मन द्वारा उत्पादित	produced from the mind, mental.
	पुं.	1. मन, चित्त; 2. मानसरोवर;	মন, চিত্র; মানসসরোবর;	मन, चित्र; मानससरोबर;	mind, heart, soul; a sacred lake on the mountain kailasa;
		3. आदमी, मनुष्य।	লোক, মনুষ্য	लोक, मनुष्य	man, human being.
मानसपुत्र	पुं.	(ब्रह्मा के) संकल्प मात्र से उत्पन्न पुत्र।	মন বা কল্পনা হইতে জাত পুত্র	मन बा कल्पना हइते जात पुत्र	psychic progeny.
मानसपूजा	स्त्री.	बाह्योपचार के बिना मन से की जानेवाली पूजा।	বাহ্য উপচার ব্যতীত মনঃকল্পিত উপচারে কৃত পূজা	बाह्य उपचार ब्यतीत मनःकल्पित उपचारे कृत पूजा	mental or spiritual devotion.
मानसरोवर	पुं.	हिमालय में स्थित एक पवित्र झील जो बड़े तीर्थों में मानी जाती है।	হিমালয়ে স্থিত পবিত্র হ্রদবিশেষ	हिमालये स्थित पबित्र हृदबिशेष	name of a sacred lake in the Himalaya mountains which is a place of pilgrimage.
मानसिक	वि.	मन-संबंधी।	মনঃসম্বন্ধীয়	मनःसम्बन्धीय	of or pertaining to the mind, mental, psychic.
मानसून	पुं.	बरसात, वर्षा ऋतु।	वर्षा-ऋतु, वर्षाकाल	बर्षा-ऋतु, बर्षाकाल	the monsoon (season).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मान-हानि	स्त्री.	अपमान, अप्रतिष्ठा।	সম্মানের লাঘব	सम्मानेर लाघव	insult, defamation
मानिनी	वि.	दे. 'मानवती'।	দ্রঃ 'মানবতী'	द्रः 'मानवती'	see 'मानवती'
मानी	वि.	1. मान करनेवाला, स्वाभिमानी;	অহংকারী, গর্বিত, আত্মাভিমানী;	अहंकारी, गर्बित, आत्माभिमानी;	haughty, proud, possessed of self-respect;
		2. मानयुक्त, प्रतिष्ठित।	মান্য, সম্মানার্হ	मान्य, सम्मानार्ह	entitled to respect, highly honoured.
माने	पु.	अर्थ, अभिप्राय, हेतु।	অর্থ, অভিপ্রায়, হেতু	अर्थ, अभिप्राय, हेतु	meaning, purport, import.
मानुष्य	वि.	मनुष्य-संबंधी, मनुष्य का।	মনুষ্যসম্বন্ধী	मनुष्यसम्बन्धी	belonging to mankind, human.
	पु.	आदमी, मनुष्य।	লোক, মনুষ্য	लोक मनुष्य	man, human being.
मानुषिक	वि.	मनुष्य-संबंधी।	মনুষ্যসম্বন্ধীয়	मनुष्यसम्बन्धीय	of or pertaining to mankind or human being.
मानुषी	स्त्री.	औरत, नारी।	মানবী, নারী	मानवी, नारी	woman.
	वि.	मानुषीय, मनुष्य का।	মানবীয়, মানুষের	मानवीय, मानुषेर	of or pertaining to mankind or human being.
मानो	अव्य.	जैसे, गोया।	যেমন, ধরা যাক্, যেন	जेमन धरा जाक्, जेन	supposing, as though, as if, as it were.
मान्य	वि.	1. मानने योग्य;	গ্রহণযোগ্য;	ग्रहनजोग्य;	valid, tenable, acceptable;
		2. आदरणीय, सम्मान का अधिकारी।	শ্রদ্ধেয়, মাননীয়	श्रद्धेय, माननीय	honourable, venerable, respectable.
मान्यता	स्त्री.	1. किसी संस्था आदि को स्वीकृति देना या प्रामाणिक मान लेना;	কোনো প্রতিষ্ঠানাদিকে স্বীকৃতিদান;	कोनो प्रतिष्ठानादिके स्वीकृतिदान;	recognition;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. स्वीकार या मान्य होने का भाव।	গ্রহণযোগ্যতা	ग्रहनजोग्यता	acceptability, validity.
माप	स्त्री.	1. मापने या नापने की क्रिया या भाव;	পরিমাপ;	परिमाप;	measure, measurement;
		2. मापने पर ज्ञात होनेवाला नाप, परिमाण, मिकदार।	পরিমাপ অন্তে জ্ঞাত দৈর্ঘ বিস্তার বা বেধের পরিমাণ	परिमाप अन्ते ज्ञात दैर्घ्य बिस्तार बा बेधेर परिमान	size, dimension.
मापक	वि., पु.	1. माप करने या नापनेवाला;	যে পরিমাপ করে;	जे परिमाप करे;	measurer, surveyor;
		2. वह पात्र या यंत्र जिसकी सहायता से कोई वस्तु नापी जोखी जाती हो।	সেই পাত্র বা যন্ত্র যাহা দ্বারা মাপ-জোখ করা হয়	सेइ पात्र बा जन्त्र जाहा द्वारा माप-जोख करा हय	meter.
मापतोल	स्त्री.	1. मापने, तौलने आदि की क्रिया या भाव;	মাপজোখ;	मापजोख;	measurement, a system of measures and weights;
		2. अच्छी तरह जांच या परखकर किसी चीज का महत्व, मान या मूल्य आदि जानने की क्रिया या भाव।	সঠিক পরিমাপ-করণ, সঠিক মূল্যায়ণ	सठिक परिमाप-करन, सठिक मूल्यायन	complete assessment of weight,measure etc.
मापदंड	पु.	मापने का डंडा, पैमाना।	মাপকাঠি	मापकाठि	yardstick, standard.
मापना	स.क्रि.	वस्तु का विस्तार, घनत्व या वजन मालूम करना।	মাপা, পরিমাপ করা	मापा, परिमाप करा	to measure, to survey, to scale.
मापी	पु.	मापनेवाला (यंत्र)।	মাপক	मापक	meter.
माफ	वि.	क्षमा किया हुआ, बख्शा गया।	মাফ, যাহা ক্ষমা করা হইয়াছে	माफ, जाहा क्षमा करा हइयाछे	excused, condoned, forgiven, pardoned.
माफिक	वि.	अनुकूल, अनुसार।	অনুকূল, অনুযায়ী	अनुकूल, अनुजायी	suitable, agreeable, favourable.
माफी	स्त्री.	1. क्षमा, माफ किया जाना;	মাফ, ক্ষমা, মার্জনা, রেহাই, অব্যাহতি;	माफ, क्षमा, मार्जना, रेहाइ, अव्याहति;	forgiveness, pardon, exemption;
		2. ऐसी भूमि जिसका लगान माफ कर दिया गया हो।	নিষ্কর জমি	निष्कर जमि	a rent-free grant, rent-free land.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मामला	पु.	1. घटना, बात;	বিষয়;	बिषय;	matter, occurrence, happening;
		2. आपस में होनेवाले काम, व्यवहार या व्यापार;	ব্যাপার;	ब्यापार;	business, affair;
		3. विवाद, मुकदमा।	অভিযোগ, মোকদ্দমা	अभिजोग, मोकद्दमा	a case, cause or suit (in law).
मामा	पु.	मां का भाई, मातुल।	মায়ের ভ্রাতা	मायेर भ्राता	maternal uncle.
मामी	स्त्री.	मामा की पत्नी।	মামার পত্নী	मामार पत्नी	maternal aunt.
मामूली	वि.	1. औसत दरजे का, साधारण;	মামুলি, সাধারণ;	मामुलि, साधारन;	ordinary, so-so, common place;
		2. प्रायः होता रहनेवाला।	চিরাচরিত	चिराचरित	customary, usual.
मायका	पु.	विवाहिता स्त्री की दृष्टि से उसके माता-पिता का घर और परिवार।	বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ী	बिबाहिता नारीर बापेर बाड़ी	paternal house of a married woman.
माया	स्त्री.	1. वेदांत के अनुसार ईश्वर की वह अव्यक्त बीजरूप शक्ति जो प्रपंच की कारणभूता है;	(বেদান্তে) দৃশ্যমান মিথ্যা জগতের সত্যরূপে প্রতীতির কারণ;	(बेदान्ते) दृश्यमान मिथ्या जगतेर सत्यरूपे प्रतीतिर कारन;	divine and formless power of the Supreme Being (considered to be the cause of the creation);
		2. असाधारण कला या शक्ति, करामात;	অঘটনঘটন পটীয়সীশক্তি;	अघटनघटन पटीयसीशक्ति;	extraordinary or supernatural power, magical or wonderful power;
		3. इंद्रजाल, जादू;	ইন্দ্রজাল, জাদু;	इन्द्रजाल, जादु;	enchantment, illusion of magic, delusion;
		4. अनुग्रह, कृपा;	কৃপা;	कृपा;	compassion, pity, sympathy, mercy;
		5. धन-संपत्ति, दौलत।	ধনসম্পত্তি, ধনদৌলত	धनसम्पत्ति, धनदौलत	prosperity, opulance, riches.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मायावाद	पु.	संसार को मिथ्या मानने का सिद्धांत।	দৃশ্যমান জগৎ মায়ার সৃষ্টি, সুতরাং মিথ্যা, এই সিদ্ধান্ত	दृश्यमान जगत् मायार सृष्टि, सुतरां मिथ्या, एइ सिद्धान्त	the doctrine affirming the world to be illusion.
मायाविनी	वि., स्त्री.	छल या कपट करनेवाली स्त्री।	ছলনাময়ী	छलनामयी	deceitful (woman).
मायावी	पु.	1. माया करने या जानने-वाला, जादूगर;	ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর;	ऐन्द्रजालिक, जादुकर;	magician, juggler;
		2. फरेबी।	ধূর্ত, শঠ, কপটাচারী	धूर्त, शठ, कपटाचारी	deceptive, deceitful.
मायूस	वि.	निराश, हताश।	নিরাশ, হতাশ	निराश, हताश	frustrated, disappointed, dejected.
मायूसी	स्त्री.	निराशा, नाउम्मीदी।	নিরাশা, হতাশা	निराशा, हताशा	disappointment, despair.
मार	पु.	कामदेव।	কামদেব	कामदेव	Cupid, the god of love.
	स्त्री.	1. चोट, आघात, प्रहार;	আঘাত, প্রহার;	आघात, प्रहार;	beating, striking, blow;
		2. प्रहारक्षम दूरी।	প্রক্ষেপণসীমা	प्रक्षेपनसीमा	range.
मारक	वि.	1. मारनेवाला;	ঘাতক;	घातक;	killing, destroying, slaying;
		2. दमन या नाश करनेवाला।	বিনাশক	विनाशक	suppressing, destroying.
मारकाट	स्त्री.	एक-दूसरे को मारने-काटने की क्रिया या भाव, लड़ाई।	মারাকাটার কাজ, যুদ্ধবিগ্রহ	माराकाटार काज, जुद्धविग्रह	bloody encounter, mutual fight, carnage, massacre.
मारण	पु.	1. मारना, जान लेना;	বধ, হনন;	बध, हनन;	killing, slaying, slaughter;
		2. वह तांत्रिक प्रयोग जो किसी को मार डालने के उद्देश्य से किया जाता है।	বধের উদ্দেশ্যে কৃত তন্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ	बधेर उद्देश्ये कृत तन्त्रोक्त अभिचारबिशेष	a magical ceremony performed for the purpose of destroying an enemy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मार-धाड़	स्त्री.	एक-दूसरे को मारना-पीटना, लड़ाई।	মারপিট	मारपिट	fighting, noisy encounter, scuffle
मारना	स.क्रि.	1. जान लेना, हत्या करना;	বধ করা, মারিয়া ফেলা;	बध करा, मारिया फेला;	to kill, slay, slaughter;
		2. पीटना, प्रहार करना, चोट पहुंचाना;	প্রহার করা, মারা;	प्रहार करा, मारा;	to beat, to strike, to hit;
		3. प्रभावरहित करना;	প্রভাব প্রতিহত করা;	प्रभाब प्रतिहत करा;	to counteract, to turn ineffective (poison etc.);
		4. जीतना, परास्त करना, नीचा दिखाना;	জয় করা, পরাস্ত করা, লাঞ্ছিত করা;	जय करा, परास्त करा, लांछित करा;	to overcome, conquer, defeat;
		5. नाश करना, बरबाद करना;	ধ্বংস করা, বরবাদ করা;	ध्वंस करा, बरबाद करा;	to destroy, ruin;
		6. ताश, शतरंज आदि के खेल में विपक्षी के पत्ते, गोट आदि को जीतना;	তাস দাবা ইত্যাদি খেলায় প্রতিপক্ষের তাস বড়ে ইত্যাদি জিতিয়া নেওয়া;	तास दाबा इत्यादि खेलाय प्रतिपक्षेर तास बड़े इत्यादि जितिया नेओया;	to win in a game of cards or chess;
		7. मानसिक या शारीरिक आवेग दबाना या रोकना।	আবেগ অবরোধ করা	आबेग अबरोध करा	to master, subdue, tame, mortify (affections, appetites or lusts).
मारपीट	स्त्री.	एक दूसरे को मारना, लड़ाई।	মারপিট, মারামারি	मारपिट, मारामारि	beating, scuffle, exchange of blows.
मारा-मारी	स्त्री.	1. लड़ाई, मारपीट; 2. इफरात, बहुतायत।	মারামারি, মারপিট; প্রাচুর্য	मारामारि मारपिट; प्राचुर्ज	scuffle, broil, fray; plentitude, abundance.
मारुत	पुं.	वायु, पवन।	মরুৎ, বায়ু, বাতাস	मरुत्, वायु, बातास	air, wind.
मारू	वि.	मार डालने या जान लेनेवाला, मर्म पर आघात करनेवाला।	মারাত্মক, মর্মান্তিক	मारात्मक, मर्मान्तिक	deadly, fatal.
	पुं.	1. युद्ध में बजाया जानेवाला एक बहुत बड़ा नगाड़ा;	রণবাদ্যবিশেষ, অতি বৃহৎ নাকাড়া;	रनबाद्यबिशेष, अति बृहत् नाकाड़ा;	a kind of wartime musical instrument, a kettle drum;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. युद्ध के समय वीरों को उत्तेजित करनेवाला गीत या राग।	যোদ্ধাদের উত্তেজিত করার জন্য গাওয়া হয় এমন গীত বা রাগবিশেষ	जोद्धादेर उत्तेजित करार जन्य गाओया हय एमन गीत वा रागबिशेष	name of a rag or musical mode sung during battles to arouse the soldiers.
मारे	अव्य.	के कारण, की वजह से।	কারণে, জন্য	कारने, जन्य	due to, because of, for the sake of.
मार्का	पु.	चिह्न, निशान, छाप।	মার্কা, চিহ্ন, ছাপ	मार्का, चिह्न, छाप	trademark, mark, sign.
मार्ग	पु.	1. रास्ता, पथ; 2. माध्यम, साधन।	পথ; উপায়	पथ; उपाय	way, road, path; means, tool, contrivance.
मार्गदर्शक	पु.	रास्ता दिखानेवाला, रहनुमा।	পথিপ্রদর্শক	पथिप्रदर्शक	guide, conductor.
मार्गदर्शन	पु.	रास्ता दिखलाना, पथप्रदर्शन।	পথপ্রদর্শন	पथप्रदर्शन	showing the way, guidance.
मार्गशीर्ष	पु.	दे. 'अगहन'।	অগ্রহায়ণ মাস	अग्रहायन मास	see 'अगहन'.
मार्च	पु.	अंग्रेजी वर्ष का तीसरा महीना।	ইংরেজি বৎসরের তৃতীয় মাস	इंरेजी बत्सरेर तृतीय मास	March (month).
मार्जन	पु.	1. दोष, मल आदि दूर करके साफ करने की क्रिया या भाव, सफाई; 2. भूल, दोष आदि का परिहार; 3. अपने ऊपर जल छिड़क कर अपने आपको शुद्ध करना।	পরিষ্করণ, শোধন; ভুল দোষ ইত্যাদি পরিহার; মন্ত্র সহিত জলপ্রোক্ষণ পূর্বক দেহশোধন	परिष्करन, शोधन; भुल दोष इत्यादि परिहार; मन्त्र सहित जलप्रोक्षन पूर्बक देहशोधन	cleaning, purifying, cleansing; rectification (of mistake, flaw etc.); sprinkling with water for purification, before the commencement of religious ceremonies.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मार्जनी	स्त्री.	झाड़ू, बुहारी।	সম্মার্জনী, ঝাড়ু	सम्मार्जनी, झाड़ु	brush, broom, besom.
मार्जनीय	वि.	जिसका मार्जन या सफाई आवश्यक या उचित हो, मार्जन करने योग्य।	প্রক্ষালনীয়, শোধনীয়, পরিষ্করণীয়	प्रक्षालनीय, शोधनीय, परिष्करनीय	which can be or is to be cleansed, cleaned or purified etc.
मार्जित	वि.	जिसका मार्जन किया गया हो, साफ या स्वच्छ किया हुआ।	মার্জন করা হইয়াছে এমন, পরিষ্কৃত	मार्जन करा हइयाछे एमन, परिष्कृत	cleansed, scoured, purified.
मार्तंड	पु.	सूर्य।	সূর্য	सूर्ज	the sun.
मार्दव	पु.	1. मृदुता, कोमलता, नरमी; 2. हृदय की कोमलता और सरसता।	মৃদুতা, কোমলতা কোমলভাব, চিত্তের সরসতা	मृदुता, कोमलता; कोमलभाब, चित्तेर सरसता	softness; gentleness, leniency.
मार्फत (मारफत)	अव्य.	किसी व्यक्ति के माध्यम से।	মারফৎ, কাহারো মাধ্যমে	मारफत्, काहारो माध्यमे	through, by, to the care (of).
मार्मिक	वि.	मर्म स्थान पर प्रभाव डालने अथवा उसे आंदोलित करनेवाला, मर्मस्पर्शी।	মর্মস্পর্শী	मर्मस्पर्शी	vital, affecting the vital parts, poignant, touching, moving.
मार्मिकता	स्त्री.	मार्मिक होने की अवस्था या भाव।	মর্মস্পর্শিতা	मर्मस्पर्शिता	poignancy, power to affect the vital parts.
माल	स्त्री.	चरखे की वह डोरी जो तकुए को घुमाती है।	চরকার সুতা বিশেষ	चरकार सुता बिशेष	string (of a spinning wheel, or of a reel etc.).
	पुं.	1. प्रत्येक ऐसी मूल्यवान वस्तु जिसका कुछ उपयोग होता हो;.	মাল, দ্রব্য, জিনিসপত্র;	माल, द्रब्य, जिनिसपत्र;	goods, stock;
		2. सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन;	সুস্বাদু খাদ্য;	सुस्वादु खाद्य;	dainty, delicious dish;
		3. असबाब, सामान;	আসবাব, সামগ্রী	आसबाब, सामग्री	household goods or effects;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		4. धन-दौलत;	ধন, সম্পদ;	धन, सम्पद;	riches, money, property, wealth;
		5. वह धन जो राज्य को कर, लगान आदि के रूप में प्राप्त होता है, राजस्व।	রাজস্ব, খাজনা	राजस्व, खाजना	rent or revenue (from land).
मालखंभ	पु.	वह खंभा जिस पर तरह-तरह की कसरतें की जाती हैं।	যে-কাঠের খামের উপরে নানা প্রকার কসরৎ দেখানো হয়	जे-काठेर खामेर उपरे नाना प्रकार कसरत् देखानो हय	a wooden pole used for various exercises.
मालगाड़ी	स्त्री.	वह रेलगाड़ी जो केवल माल असबाब ढोने के काम आती है।	রেলের মালবাহী গাড়ী	रेलेर मालवाही गाड़ी	goods train.
मालगुजारी	स्त्री.	जमीन का वह कर जो सरकार को दिया जाता है, लगान।	মালগুজারি, ভূমিকর	मालगुजारि, भूमिकर	land-revenue.
मालगोदाम	पु.	1. वह स्थान जिसमें व्यापारी वस्तुओं का भंडार रखते हैं;	মালপত্র রাখার ঘর, মালগুদাম;	मालपत्र राखार घर, मालगुदाम;	warehouse, store-house;
		2. रेल, जहाज आदि से आने-जानेवाले माल रखने का स्थान।	রেলগাড়ী যোগে প্রেরিত মাল-রাখার স্থান	रेलगाड़ी जोगे प्रेरित माल-राखार स्थान	godown.
माल्टा	पु.	मुसम्मी की जाति का एक प्रकार का फल।	মুসম্বী জাতীয় ফল বিশেষ	मुसम्बी जातीय फल विशेष	kind of citrus fruit
माल-स्टाक	पु.	1. रुपया-पैसा; 2. माल-मत्ता।	টাকাপয়সা; ধনরত্নাদি	टाकापयसा; धनरत्नादि	wealth, riches; assets.
मालती	स्त्री.	एक प्रसिद्ध लता जिसमें वर्षा ऋतु में सफेद रंग के सुगंधित फूल लगते हैं।	মালতী, এক প্রকার লতা যাতে সুগন্ধি শাদা গাদা ফুল ধরে	मालती, एक प्रकार लता जाते सुगन्धि शादा गादा फुल धरे	a kind of jasmine with fragrant white flowers.
मालदार	वि.	धनवान, धनी।	সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, ধনী;	सम्पत्तिशाली व्यक्ति, धनी;	wealthy, rich, moneyed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मालपूआ	पु.	एक प्रकार का मीठा पकवान।	মালপোয়া	मालपोया	a kind of sweet cake.
मालमत्ता	पु.	धन-दौलत, सम्पत्ति।	ধনরত্নাদি, ধনসম্পত্তি	धनरत्नादि, धनसम्पत्ति	assets, riches, wealth.
माला	स्त्री.	1. पंक्ति, श्रेणी; 2. हार; 3. समूह, झुंड; 4. कुछ विशिष्ट प्रकार के दानों या मनकों का हार।	পঙ্ক্তি, শ্রেণী; হার; সমূহ; ছোট দানার তৈরী মালা	पङ्क्ति, श्रेनी; हार; समूह; छोट दानार तैरी माला	row, line, series; wreath, garland; collection, group; string (of beads etc).
मालामाल	वि.	धनधान्य से पूर्ण, सम्पन्न।	সম্পন্ন	सम्पन्न	opulent, very rich.
मालिक	पु.	1. स्वामी, अध्यक्ष; 2. ईश्वर; 3. पति।	স্বামী, অধিকারী; ঈশ্বর; পতি	स्बामी, अधिकारी; ईश्बर; पति	proprietor, owner, master; the Supreme Being; husband.
मालिका	स्त्री.	1. पंक्ति, श्रेणी; 2. माला।	শ্রেণী; মালা	श्रेनी; माला	row, line, series; garland.
मालिकाना	पु.	1. स्वामी का अधिकार या स्वत्व, मिलकियत, स्वामित्व; 2. जमींदारी का हक जो काश्तकार जमींदार को देता है।	মালিকানা, স্বঃস্বামিত্ব; প্রজার নিকটে মালিকের প্রাপ্য দস্তুরী	मालिकाना, स्ब:स्बामित्ब; प्रजार निकटे मालिकेर प्राप्य दस्तुरी	proprietorship, ownership; annual or monthly allowance paid to a Zamindar by the person who occupies his lands.
	वि.	मालिक जैसा।	মালিকী	मालिकी	proprietary, like owner.
मालिन	स्त्री.	1. माली की स्त्री; 2. बागबानी का काम करनेवाली स्त्री।	মালিনী; মালীর কাজ করে এমন নারী	मालिनी; मालीर काज करे एमन नारी	wife of gardener; female gardener or flower-seller.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मालिन्य	पु.	1. मलिन या उदास होने की दशा या भाव;	মালিন্য, মলিনতা-যুক্ত ভাব;	मालिन्य, मलिनता-जुक्त भाब;	sullenness, rancour;
		2. मलिनता, मैलापन।	মলিনতা, মলযুক্ততা	मलिनता, मलजुक्तता	uncleanliness, dirtiness, pollution.
मालियत	स्त्री.	1. मूल्य, कीमत;	মূল্য, দাম;	मूल्य, दाम;	value, worth, price;
		2. धन-सम्पत्ति।	ধনসম্পত্তি	धनसम्पत्ति	wealth, opulence.
मालिश	स्त्री.	मलने की क्रिया या भाव, मर्दन।	মালিশ, ঘর্ষণ মর্দন	मालिश, घर्षन. मर्दन	shampooing, massage.
माली	पु.	1. बाग को सींचने और पौधों को ठीक स्थान पर लगानेवाला व्यक्ति, बागबान;	বাগানের কাজে নিযুক্ত, বাগানের কাজ জানে এমন ব্যক্তি;	बागानेर काजे निजुक्त, बागानेर काज जाने एमन ब्यक्ति;	gardener;
		2. फूल बेचनेवाला।	ফলবিক্রেতা	फलबिक्रेता	florist, flower-seller.
	वि.	धन-संबंधी, अर्थ-संबंधी।	আর্থিক	आर्थिक	financial, fiscal.
मालूम	वि.	जाना हुआ, ज्ञात, विदित।	জ্ঞাত, বিদিত	ज्ञात, बिदित	known.
माल्य	पु.	1. माला, हार;	মালা, হার;	माला, हार;	wreath, garland;
		2. पुष्प।	ফুল	फुल	flower.
मावा	पु.	दूध का खोआ।	খোয়া, ক্ষীর	खोया क्षीर	milk inspissated by boiling.
माशा	पु.	आठ रत्ती का एक वजन, तोले का बारहवां भाग।	আটরতি ওজন বিশিষ্ট	आटरति ओजन बिशिष्ट	weight of eight rattis or two carats.
मास	पु.	1. काल का एक विभाग जो वर्ष के बारहवें भाग के बराबर होता है, महीना;	বৎসরের বারোভাগের এক ভাগ;	बत्सरेर बारोभागेर एक भाग;	month;
		2. ज्योतिष की दृष्टि से किसी मास का शुभाशुभ फल।	জ্যোতিষের বিচারে কোনো মাসের শুভাশুভ ফল	ज्योतिषेर बिचारे कोनो मासेर शुभाशुभ फल	monthly forecast.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मासांत	पु.	1. महीने का अंत; 2. महीने का अंतिम दिन।	মাসান্ত; মাসের শেষ দিন	मासान्त; मासेर शेष दिन	end of a month; last day of the month.
मासिक	वि.	1. मास संबंधी;	মাসসম্পর্কিত;	माससम्पर्कित;	relating or pertaining to a month, monthly;
		2. प्रतिमास होनेवाला, माहवार;	প্রতিমাসভব, যাহা প্রতিমাসে ঘটে;	प्रतिमासभब, जाहा प्रतिमासे घटे;	happening every month, per mensum, monthly;
		3. महीने में एक बार निकलनेवाला (पत्र आदि)।	যাহা প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় (পত্রিকাদি)	जाहा प्रतिमासे प्रकाशित हय (पत्रिकादि)	monthly (magazine etc.)
	पु.	मासिक धर्म।	স্ত্রী-রজঃ	स्त्री-रजः	menstruation.
मासिक धर्म	पु.	स्त्रियों को प्रतिमास होनेवाला रजःस्राव।	স্ত্রী-রজঃ	स्त्री-रजः	monthly course, menstruation.
मासूम	वि.	1. निर्दोष, निरपराध, बेगुनाह; 2. जो हर प्रकार से असमर्थ एवं दया का पात्र हो।	নির্দোষ, নিরপরাধ; করুণার পাত্র	निर्दोष, निरपराध; करुनार पात्र	innocent, guiltless, simple; pitiable, deserving mercy.
मासूमियत	स्त्री.	मासूम होने की अवस्था या भाव।	দোষহীনতা, অপরাধহীনতা	दोषहीनता, अपराधहीनता	innocence, simplicity.
माह	पु.	महीना, मास।	মাস	मास	month.
माहवार	वि.	हर महीने होनेवाला, मासिक।	মাসিক	मासिक	monthly, per mensum.
माहवारी	वि., स्त्री.	मासिक धर्म।	দ্রঃ 'মাসিক ধর্ম'	द्रः 'मासिक धर्म'	monthly course, menstruation.
माहात्म्य	पु.	1. गौरव, महिमा; 2. किसी व्रत, देवता, स्थान आदि का पुण्यजनक फल।	গৌরব, মহিমা; কোনো ব্রত, দেবস্থানাদির পূর্ণ প্রভাব	गौरब, महिमा; कोनो ब्रत, देबस्थानादिर पून्य प्रभाव	magnanimity, greatness, glory; peculiar virtue of any vow, divinity or sacred shrine.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
माहिर	वि.	कुशल, निपुण, जानकार।	কুশল, নিপুণ, অভিজ্ঞ	कुशल, निपुन, अभिज्ञ	skilful, proficient, expert (in).
मिचकाना	स.क्रि.	(पलकें) झपकाना।	চোখমিট মিট করা	चोखमिटमिटकरा	to wink, to blink.
मिचना	अ.क्रि.	(आँखों का) बन्द होना।	চোখ বুজিয়া যাওয়া	चोख बुजिया जाओया	(of eye) to be shut or closed.
मिचलाना	अ.क्रि.	मतली आना, कै आने को होना।	গা বমি বমি করা	गा बमि बमि करा	to feel like vomitting, to feel nausea.
मितली	स्त्री.	जी मिचलाने की क्रिया या भाव।	গা বমি বমি করা	गा बमि बमि करा	nausea, vomitting.
मिजाज	पु.	1. प्रकृति, स्वभाव; 2. तबीयत; 3. अभिमान, घमंड।	মেজাজ, প্রকৃতি, স্বভাব; তবিয়ত; অহংকার, ঔদ্ধত্য	मेजाज, प्रकृति, स्वभाव; तबियत; अहंकार, औद्धत्य	nature, temperament; disposition, health; pride, haughtiness.
मिटना	अ. क्रि.	1. चिह्न, दाग आदि का दूर होना, लुप्त होना; 2. नष्ट होना, बरबाद होना।	মিটিয়া যাওয়া, মুছিয়া যাওয়া, লুপ্ত হওয়া; নষ্ট হওয়া, বরবাদ হওয়া	मिटिया जाओया, मुछिया जाओया, लुप्त हओया; नष्ट हओया, बरबाद हओया	to be effaced or erased; to be destroyed, to be annihilated.
मिटाना	स. क्रि.	1. दाग, निशान आदि दूर करना; 2. नष्ट करना, बरबाद करना।	দূর করা, অপনয়ন, মুছিয়া ফেলা; নষ্ট করা, বরবাদ করা	दूर करा, अपनयन, मुछिया फेला; नष्ट करा, बरबाद करा	to efface, to erase, to rub or to blot out; to destroy, to ruin.
मिट्टी	स्त्री.	धरती की ऊपरी सतह का वह भुरभुरा मुलायम तत्व जिसमें पेड़-पौधे उगते हैं।	মাটি	माटि	earth, clay, dust.
मिट्टी का तेल	पु.	एक प्रसिद्ध खनिज द्रव जिसे लैंप आदि जलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।	কেরোসিন তেল	केरोसिन तेल	kerosene.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिट्ठू	पु.	तोता।	তোতা পাখি	तोता पाखि	parrot.
मिठबोला	वि, पु.	मधुरभाषी, मीठी बातें करनेवाला।	মধুর ভাষী, মিষ্টভাষী	मधुर भाषी, मिष्टभाषी	sweet spoken (person).
मिठाई	स्त्री.	कुछ विशिष्ट प्रकार की बनाई हुई खाने की मीठी चीजें।	মিঠাই, মিষ্টি খাবার	मिठाइ, मिष्टि खाबार	sweetmeat, sweets.
मिठास	स्त्री.	1. मीठापन; 2. माधुर्य।	মিষ্টত্ব; মাধুর্য	मिष्टत्व; माधुर्ज	sweetness; pleasantness.
मितभाषी	वि.	अपेक्षाकृत कम एवं आवश्यकतानुसार बोलनेवाला।	মিতভাষী, স্বল্পভাষী	मितभाषी, स्वल्पभाषी	temperate in speech, man of few words.
मितव्यय	वि, पु.	कम खर्च करनेवाला।	মিতব্যয়ী	मितब्ययी	thrifty, frugal.
मितव्ययता	स्त्री.	मितव्ययी होने की अवस्था या भाव, कमखरची।	মিতব্যয়িতা, মিতব্যয়	मितब्ययिता, मितब्यय	thriftiness, frugality.
मितव्ययी	वि., पु.	दे. 'मितव्यय'।	দ্র: 'মিতব্যয়'	द्र: 'मितव्यय'	see 'मितव्यय'.
मिताहार	पु.	परिमित आहार।	পরিমিত আহার	परिमित आहार	sparing in diet, moderation in eating.
मिताहारी	वि., पु.	थोड़ा और परिमित भोजन करनेवाला, कम खानेवाला।	মিতভোজী, পরিমিত আহারকারী	मितभोजी, परिमित आहारकारी	moderate in diet, abstemious, abstemious person
मिती	स्त्री.	चांद्र मास के किसी पक्ष आदि की तिथि या तारीख।	চান্দ্রমাসের কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষের কোনো তিথি	चान्द्रमासेर कृष्न बा शुक्लपक्षेर कोनो तिथि	date according to the lunar month.
मित्र	पु.	दोस्त, बंधु, सखा।	দোস্ত, বন্ধু, সখা	दोस्त, बन्धु, सखा	friend, ally, comrade.
मित्रता	स्त्री.	दोस्ती।	দোস্তি, বন্ধুত্ব	दोस्ति, बन्धुत्व	friendship, intimacy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिथुन	पु.	1. नर-मादा, स्त्री-पुरुष का जोड़ा; 2. बारह राशियों में से तीसरी राशि।	স্ত্রীপুরুষদ্বয়, যুগল; (জোতিষে) দ্বাদশ রাশির তৃতীয়	स्त्रीपुरुषद्वय, जुगल; (ज्योतिषे) द्वादश राशिर तृतीय	pair, couple; third sign of the zodiac, Gemini.
मिथ्या	वि.	1. असत्य, झूठ, 2. कृत्रिम, बनावटी।	মিথ্যা, অসত্য; কৃত্রিম, নকল	मिथ्या, असत्य; कृत्रिम, नकल	false, untrue; feigned, spurious.
मिथ्याचार	पु.	कपटपूर्ण आचरण।	মিথ্যাচার, কপটাচরণ	मिथ्याचार, कपटाचरन	hypocrisy, sham conduct..
मिथ्यावादी	वि, पु.	असत्यवादी, झूठा।	মিথ্যাবাদী, অমৃতভাষী	मिथ्यावादी, अमृतभाषी	lying, untruthful, liar.
मिनट	पु.	काल गणना में एक घंटे का साठवां भाग।	মিনিট	मिनिट	minute.
मिन्नत	स्त्री.	विनती, किसी को मनाने के उद्देश्य से नम्रतापूर्वक किया जानेवाला निवेदन।	মিনতি, বিনীত নিবেদন	मिनति, बिनीत निबेदन	entreaty, request, humble and earnest supplication.
मिमियाना	अ. क्रि.	1. बकरी या भेड़ का `में में` शब्द करना; 2. दबी जबान से चापलूसी करना।	(ছাগল ও ভেড়ার ন্যায়) ভ্যা ভ্যা করা; মিন্ মিন্ করিয়া খোশামদ করা	(छागल ओ भेड़ार न्याय) भ्या भ्या करा; मिन् मिन् करिया खोशामद करा	to bleat (as a goat or sheep); to flatter, to speak submissively.
मियां	पु.	1. स्त्री का पति; 2. मुसलमान के लिए प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द।	পতি, স্বামী; মান্য বা ভদ্র মুসলমান	पति, स्वामी; मान्य बा भद्र मुसलमान	husband; respectful address for a Mohammedan.
मियां-बीबी	पुं.	पति-पत्नी।	পতি-পত্নী	पति-पत्नी	husband and wife.
मियांमिट्ठू	वि., पु.	अपनी तारीफ स्वयं करनेवाला।	যে নিজেই নিজের তারিফ করে, যে নিজেই নিজের তারিফ করে এমন ব্যক্তি	जे निजेइ निजेर तारिफ करे, जे निजेइ निजेर तारिफ करे एमन ब्यक्ति	braggart, indulging in self-praise, blowing one's own trumpet, one who praises oneself, self-praiser.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मियाद	स्त्री.	कार्य विशेष के लिए नियतकाल या अवधि।	মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়	मेयाद, निर्दिष्ट समय	limit of time, period.
मियादी	वि.	मियादवाला, जिसका काल नियत हो।	মিয়াদি, নির্দিষ্ট সময় বিশিষ্ট	मियादि, निर्दिष्ट समय बिशिष्ट	periodical, for a time or term;
मियादी बुखार	पु.	सान्निपातिक ज्वर।	মিয়াদি জ্বর	मियादी ज्वर	typhoid.
मियादी हुंडी	स्त्री.	वह हुंडी जिसका रुपया मिती पूजने पर चुकाना पड़े।	যে-হুন্ডির টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তে দিতে হয় সেই হুন্ডি	जे-हुन्डिर टाका निर्दिष्ट समय अन्ते दिते हय सेइ हुन्डि	bill payable after date.
मियाना	वि.	न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, मझोले आकार का।	মাঝারি	माझारि	medium, middle sized, medial, mean.
मियानी	स्त्री.	1. पाजामे के दोनों पायचों के बीच में लगा कपड़ा;	পাজামার দুই পা জোড় দেওয়ার জায়গায় লাগান পটি;	पाजामार दुइ पा जोड़ देओयार जायगाय लागान पटि;	cod piece, gusset (in trousers, drawers etc);
		2. कमरे की छत के नीचे बनी कोठरी जो केवल सामान रखने के काम आती है, परछती।	কামরার ছাতের তলার সংলগ্ন ছোট কুঠরি– ম্যাজানিন কামরা	कामरार छातेर तलार संलग्न छोट कुठरि– म्याजानिन कामरा	mezzanine room.
मिरगी (मिर्गी)	स्त्री.	एक स्नायविक रोग जिसमें सहसा हाथ-पैर ऐंठने लगते हैं और रोगी बेहोश हो जाता है, अपस्मार।	মৃগী, অপস্মার রোগ	मृगी, अपस्मार रोग	epilepsy.
मिर्च (मिरच)	स्त्री.	1. एक प्रकार की तीखी फली जो व्यंजनों में मसाले की तरह पड़ती है, लाल मिर्च;	মরিচ, লঙ্কা (প্রাদেশিক);	मरिच, लङ्का (प्रादेशिक);	chillies;
		2. उक्त की तरह काम आनेवाला एक प्रसिद्ध काला, छोटा दाना, गोल मिर्च।	গোলমরিচ	गोलमरिच	pepper.
मिलता-जुलता	वि.	लगभग समान, एक-सा।	প্রায় সমান, কাছাকাছি	प्राय समान, काछाकाछि	resembling partially, almost identical or similar.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिलन	पु.	दो बिछुड़े हुए व्यक्तियों का होनेवाला मेल या मिलाप, मिलने की क्रिया या भाव।	সংযোগ, সদ্ভাবস্থাপন	संजोग, सद्भावस्थापन	union, contact, meeting.
मिलनसार	वि.	जिसकी प्रवृत्ति सबसे मिल-जुलकर रहने की हो।	মিলিয়া মিশিয়া থাকা যাহার স্বভাব	मिलिया मिशिया थाका जाहार स्बभाब	sociable, friendly, affable.
मिलनसारी	स्त्री.	मिलनसार होने की अवस्था या भाव।	মিলমিশ	मिलमिश	sociableness, friendliness, affability.
मिलना	अ.क्रि.	1. मिश्रित होना, एक होना;	মিলিত হওয়া, একত্র হওয়া, মিলা;	मिलित हओया, एकत्र हओया, मिला;	to be mixed, to be mingled, to be blended;
		2. जुड़ना, सटना;	সংযুক্ত হওয়া, মিলিয়া যাওয়া;	संजुक्त हओया, मिलिया जाओया;	to join, to unite, to come together;
		3. भेंट होना, साक्षात्कार होना;	সাক্ষাৎকার হওয়া, দেখা হওয়া;	साक्षात्कार हओया, देखा हओया;	to come into contact (with), to meet;
		4. छानबीन करने पर किसी बात का ज्ञान अथवा परिचय होना;	আবিষ্কৃত হওয়া;	आबिष्कृत हओया;	to be discovered, to be revealed;
		5. प्राप्त होना, हस्तगत होना;	ছুটিয়া যাওয়া, হস্তগত হওয়া;	छुटिया जाओया, हस्तगत हओया;	to be found, to be obtained, to come to hand;
		6. अपना दल या पक्ष छोड़कर किसी अन्य दल या पक्ष में शामिल हो जाना;	নিজের দল ছাড়িয়া অন্যদলে সামিল হওয়া;	निजेर दल छाड़िया अन्यदले सामिल हओया;	to defect.
		7. गुण, रूप आदि के विचार से किसी दूसरे के अनुरूप या समान होना।	অনুরূপ বা একপ্রকার হওয়া	अनुरूप बा एकप्रकार हओया	to harmonize, to correspond.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिलनी	स्त्री.	विवाह के समय की एक रस्म जिसमें वर और कन्यापक्ष के लोग आपस में गले मिलते हैं और कन्यापक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को कुछ धन भेंट करते हैं।	বিবাহের সময়কার আচারবিচার– ইহাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের লোকেরা পরস্পরকে আলিংগন করেন	बिबाहेर समयकार आचारबिचार– इहाते बरपक्ष ओ कन्यापक्षेर लोकेरा परस्परके आलिङ्गन करेन	one of the various marital ceremonie (where the people from both the sides meet and embrace each other).
मिलवाई	स्त्री.	1. मिलवाने की क्रिया या भाव;	মিলনক্রিয়া;	मिलनक्रिया;	act of meeting;
		2. मिलवाने के बदले दिया जानेवाला धन।	মিলন করার ধন	मिलन करार धन	money paid for effecting a meeting.
मिलवाना	स. क्रि.	1. दूसरे को मिलने या मिलाने के लिए प्रेरित करना;	মিলন করানো;	मिलन करानो;	to cause to be joined or to cause to be united;
		2. आपस में मेल कराना।	আপোষ করানো, মিটমাট করানো	आपोष करानो, मिटमाट करानो	to cause to be reconciled.
मिलाई	स्त्री.	1. मिलाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक;	মিলিত করার কাজ;	मिलित करार काज;	act of mixing or causing a meeting;
		2. जेल, अस्पताल आदि में कैदियों या रोगियों से उनके मित्रों, संबंधियों आदि से भेंट कराने की क्रिया या भाव।	হাসপাতালে রোগীর সংগে বা জেলে কয়েদীর সংগে সম্পর্কিত গণের দেখা সাক্ষাৎ	हासपाताले रोगीर सङ्गे बा जेल कयेदीर सङ्गे सम्पर्कित गनेर देखा साक्षात्	visit (esp. paid to a prisoner or a patient)..
मिला-जुला	वि	आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिश्रित, संयुक्त।	পরস্পরের সংগে প্রকৃষ্ট রূপে মিলিত-সংযুক্ত হওয়া	परस्परेर सङ्गे प्रकृष्ट रूपे मिलित-संजुक्त हओया	mingled, mixed, combined, linked. joined, connected composite (as culture).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिलान	पु.	1. तुलनात्मक दृष्टि से अथवा ठीक होने की जांच करने के लिए दो या अधिक चीजों या बातों का आपस में साथ रखकर मिलाया और देखा जाना;	মিল খুঁজিয়া বাহির করা;	मिल खुंजिया बाहिर करा;	reconciliation (of accounts);
		2. गुण, दोष, विभिन्नता या समानता जानने के लिए दो चीजों या बातों के संबंध में किया जाने-वाला विवेचन, तुलना।	তুলনা করিয়া দেখা	तुलना करिया देखा	comparison.
मिलाना	स. क्रि.	1. मिश्रित करना, एक करना, मिलावट करना;	মিলানো, একত্র করা, মিশ্রিত করা;	मिलानो, एकत्र करा, मिश्रित करा;	to mix, to mingle, to blend;
		2. जोड़ना, सटाना;	সংযুক্ত করা;	संजुक्त करा;	to connect, to join;
		3. भेंट कराना, मेल-मिलाप कराना;	মিলিত করানো, দেখাসাখাৎ করানো;	मिलित करानो, देखासाक्षात् करानो;	to introduce (one person to another), to reconcile;
		4. मिलाकर देखना, तुलना करना;	তুলনা করা;	तुलना करा;	to reconcile (accounts), to compare;
		5. किसी को अपनी ओर करना, दूसरे पक्ष से जोड़ना।	কোনো ব্যক্তিকে অপর দল ভাংগাইয়া নিজের দলভুক্ত করা	कोनो ब्यक्तिके अपर दल भाङ्गाइया निजेर दलभुक्त करा	to cause (someone) to defect to one's side.
मिलाप	पु.	1. दो या अधिक व्यक्तियों का आपस में प्रेमपूर्वक मिलना;	মিলাপ;	मिलाप;	union, unity;
		2. मन-मुटाव दूर कर संधि करना;	মনমালিন্য দূর করা;	मनमालिन्य दूर करा;	rapprochement, reconciliation;
		3. वह स्थिति जिसमें लोग परस्पर मिल-जुल कर रहते हैं।	সমাজবদ্ধতা	समाजबद्धता	social converse, society.
मिलावट	स्त्री.	बढ़िया वस्तु में घटिया वस्तु का मेल।	মিশেল	मिशेल	adulteration, mixing, alloy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिलिंद	पु.	दे. 'भौंरा'।	দ্রষ্টব্য 'ভোঁরা'	द्रष्टव्य 'भौंरा'	see 'भौंरा'.
मिलीभगत	स्त्री.	किसी को तंग या परेशान करने के लिए आपस में मिल-जुल कर चली जाने-वाली धूर्ततापूर्ण चाल।	যোগসাজশ	जोगसाजश	collusion, league.
मिल्कियत	स्त्री.	1. स्वामित्व;	মালিকানা, স্বামিত্ব;	मालिकाना, स्वामित्व;	proprietary right in land;
		2. वह चीज जिस पर मालिकाना हक हो, जायदाद, जागीर।	যে সম্পত্তির উপর মালিকানাস্বত্ব রহিয়াছে	जे सम्पत्तिर मालिकानास्वत्व रहियाछे	estate, landed or real property, possession.
मिश्र	वि.	1. कई वस्तुओं के संयोग से बना हुआ;	মিশ্রিত;	मिश्रित;	mixed, blended, combined;
		2. जिसमें कोई वस्तु मिली हो या मिलाई गई हो।	মিশেল করা হইয়াছে এমন	मिशेल करा हइयाछे एमन	having a mixture or alloy.
मिश्रण	पु.	1. दो या अधिक चीजों को एक में मिलाना;	মিশ্রিতকরণ;	मिश्रितकरन;	mixing, blending, combining;
		2. उक्त प्रकार से मिलाने से तैयार होनेवाला पदार्थ या रूप;	মিশেল করা জিনিস;	मिशेल करा जिनिस;	mixture, blend;
		3. मिलावट।	ভেজাল, মিশল	भेजाल, मिशल	adulteration.
मिश्रधातु	पु.	दो या अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातु।	মিশ্রধাতু	मिश्रधातु	alloy.
मिश्रित	वि.	मिला या मिलाया हुआ।	ভেজাল, মিশল এমন	भेजाल, मिशल एमन	mixed, mingled, blended,
मिश्री	स्त्री.	विशेष प्रकार से जमाई हुई चीनी।	মিছরি	मिछरि	candy, sugar.
मिश्रीकरण	पु.	मिलाने की क्रिया या भाव, मिश्रण करना।	মিশ্রণ	मिश्रन	mixing, admixture.
मिष्टभाषी	वि., पु.	मीठे वचन बोलनेवाला, मधुरभाषी।	যে মিষ্টিমুখে কথা বলে, মধুরভাষী	जे मिष्टिमुखे कथा बले मधुरभाषी	soft spoken (person.).
मिष्टान्न	पु.	मिठाई, मीठा पकवान।	মিঠাই, মিষ্টি খাবার	मिठाइ, मिष्टि खाबार	confectionary, sweetmeat.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मिस	पु.	बहाना।	মিষ, ব্যাজ, ছল	मिष, ब्याज, छल	pretext, excuse.
	अव्य.	नाते या सम्बन्ध के विचार से।	সম্বন্ধে, সম্পর্কে	सम्बन्धे, सम्पर्के	as, as to.
मिसाल	स्त्री.	उदाहरण, दृष्टांत।	উদাহরণ, দৃষ্টান্ত	उदाहरन, दृष्टान्त	example, precedent.
मिसिल	स्त्री.	एक साथ रखे हुए अथवा नत्थी किए हुए किसी मुकदमे या विषय से संबंध रखनेवाले कागज-पत्र।	মিছিল, মোকদ্দমার কাগজপত্র নথী	मिछिल, मोकद्दमार कागजपत्र, नथी	file of papers and documents of a case.
मिस्त्री (मिस्तरी)	पु.	कुशल कारीगर।	মিস্ত্রি, নিপুণ, শিল্পকার, কারিগর	मिस्त्रि, निपुन, शिल्पकार, कारिगर	artisan, craftsman, mechanic.
मिस्सी	स्त्री.	एक मंजन जिसे स्त्रियां सिंगार के लिए दांतों पर लगाती हैं।	মিশি	मिशि	powder used by women for tinging teeth — cosmetic.
मींजना	स.क्रि.	मलना, मसलना।	মাজা, মর্দন করা	माजा, मर्दन करा	to rub with the hand, to crush, to pulverize.
मींचना	स.क्रि.	बंद करना।	বন্ধ করা	बन्ध करा	to shut or close (the eyes).
मीज़ान	स्त्री.	1. जोड़, जमा; 2. तुला, तराजू।	মোট; দাড়িপাল্লা, তরাজু	मोट; दाड़िपाल्ला, तराजु	sum total, total; balance, pair of scales.
मीठा	वि.	1. जिसमें मिठास हो, मधुर रसवाला;	মিঠা, মিষ্ট, মধুর;	मिठा, मिष्ट, मधुर;	sweet (lit & fig), pleasant, agreeable;
		2. धीमा, मंदा।	ধীর, মৃদু	धीर, मृदु	slow, slight, mild.
	पु.	मिठाई।	মিষ্ট, খাদ্য, মিঠাই	मिष्ट खाद्य, मिठाइ	general name for sweets.
मीड़	स्त्री.	(संगीत में) एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने का एक सुन्दर ढंग।	অনবচ্ছিন্নভাবে সুর হইতে সুরান্তরে গমন	अनवच्छिन्नभावे स्वर हइते स्वरान्तरे गमन	glide.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मीन	पु.	1. मछली;	माछ, मৎস্য;	माछ, मत्स्य;	fish;
		2. बारह राशियों में से एक राशि।	দ্বাদশ রাশির একটি	द्वादश राशिर एकटि	twelfth sign of the zodiac,pisces.
मीन-मेख	पु.	सोच-विचार, आगा-पीछा, व्यर्थ की आलोचना।	দোষারোপ	दोषारोप	finding faults.
मीनाकारी	स्त्री.	सोने-चांदी पर होनेवाला मीने का रंगीन काम।	মিন-কলাইয়ের কাজ	मिना-कलाइयेर काज	enamelling. कलम
मीना बाजार	पु.	सुंदर तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का बाजार, मेला।	নানা প্রকার মনোহর বস্তুর বাজার, মেলা	नाना प्रकार मनोहर बस्तुर बाजार, मेला	fancy fair.
मीनार	स्त्री.	बहुत ऊंची वास्तुरचना जो स्तंभ के रूप में होती है।	মিনার, অত্যুচ্চ গোল চূড়াকৃতি স্তম্ভ	मिनार, अत्युच्च गोल चुड़ाकृति स्तम्भ	tower, minaret.
मीमांसा	स्त्री.	1. गंभीर मनन और विचार जो तत्त्वनिर्णय के लिए किया जाता है;	মীমাংসা, বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয় বা সিদ্ধান্ত;	मीमांसा, बिचारपूर्बक तत्त्वनिर्नय बा सिद्धान्त;	reflection, consideration, investigation of truth;
		2. छः प्रसिद्ध भारतीय दर्शनों में से एक जिसमें वैदिक कर्मकांड का निरूपण किया गया है।	ভারতীয় ষড়্-দর্শনের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র যাহাতে বৈদিক ক্রিয়াকান্ডের	भारतीय षड़-दर्शनेर अन्यतम दर्शनशास्त्र जाहाते बैदिक क्रियाकान्डेर	name of one of the six systems of Hindu philosophy in which Vedic rituals are stipulated.
मील	पु.	1760 गज या आठ फर्लांग की दूरी।	মাইল	माइल	mile.
मील-पत्थर	पु.	1. सड़क के किनारे लगा हुआ वह पत्थर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी मीलों में बताता है;	মাইল-নির্দেশক প্রস্তরখন্ড;	माइल-निर्देशक प्रस्तरखन्ड;	milestone;
		2. किसी राष्ट्र आदि के इतिहास में वह बिन्दु या स्थिति जहां कोई नई और विशिष्ट बात हुई हो।	ইতিহাসের এমন-স্থান যেখানে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা হইয়াছে	इतिहासेर एमन-स्थान जेखाने कोनो बिशेष गुरुत्वपूर्न घटनार सूचना हइयाछे	point of historical event or turning point.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुंगरा (स्त्री. मुंगरी)	पु.	मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है।	মুগুর	मुगुर	mallet, wooden hammer.
मुंड	पु.	1. सिर, मस्तक; 2. कटा हुआ सिर या खोपड़ी।	শির, মাথা, মস্তক; কাটা মুন্ড অথবা কারোটি	शिर, माथा, मस्तक; काटा मुन्ड अथबा कारोटि	head or forehead; severed head or skull.
मुंडन	पु.	1. सिर के बाल उस्तरे से मूंडने की क्रिया;	চুল কামাইয়া ফেলা, বা মুড়ানো;	चुल कामाइया फेला, बा मुड़ानो;	shaving of the head, to usure.
		2. एक संस्कार जिसमें बाल उस्तरे से मूंडे जाते हैं।	কেশচ্ছেদনরূপ হিন্দু সংস্কারবিশেষ	केशाच्छेदनरूप हिन्दु संस्कारबिशेष	Hindu ritual of shaving of head.
मुंडना	अ.क्रि.	1. मूंडा जाना; 2. बुरी तरह ठगा जाना।	মুন্ডিত হওয়া; ভীষণভাবে প্রতারিত হওয়া	मुन्डित हओया; भीषनभाबे प्रतारित हओया	to be shaved; (fig.) to be fleeced, to be swindled.
मुंड-माला	स्त्री.	कटे हुए सिरों की माला।	নরমুন্ডসমূহে গাঁথা মালা	नरमुन्डसमूहे गांथा माला	garland of human skulls.
मुंडा	वि.	1. जिसके सिर पर बाल न हों, गंजा;	টেকো;	टेको;	bald;
		2. जिसके बाल मुंडे हुए हों;	মুন্ডিত;	मुन्डित;	shaven;
		3. बिना सींग का (बैल आदि)।	শৃংগহীন জন্তু	श्रृङ्गहीन जन्तु	hornless animal (oxen).
	पु.	1. छोटा नागपुर के आदिवासी;	ছোটনাগপুরের আদিম জাতিবিশেষ;	छोटनागपुरेर आदिम जातिबिशेष;	tribe;
		2. देवनागरी लिपि का एक प्रकार।	দেবনাগরী লিপির প্রকারভেদ	देबनागरी लिपिर प्रकारभेद	a type of Devanagari script.
मुंडाई	स्त्री.	मूंडने का कार्य या पारिश्रमिक।	মাথামুড়ানোর মজুরি	माथामुड़ानोर मजुरि	shaving charges.
मुंडाना	स.क्रि.	मूंडने का कार्य दूसरे से कराना, मुंडन कराना।	মুড়ানো	मुड़ानो	to get shaved.
मुंडासा	पु.	सिर पर बांधने का साफा, एक प्रकार की पगड़ी।	এক প্রকার পাগড়ি	एक प्रकार पागड़ि	a kind of turban.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुंडित	वि.	जिसका मुंडन हुआ हो।	মুন্ডিত	मुन्डित	shaven, shorn.
मुंडेर	स्त्री.	छत के चारों ओर मेंड़ जैसी दीवार।	আলিসা	आलिसा	parapet.
मुंडेवा	पु.	दे. 'मुंडेर'।	দ্র: 'মুঁডের'	द्र: 'मुंडेर'	see 'मुंटेर'.
मुंदना	अ.क्रि.	1. आंख का बंद होना;	মুদা, বোজা;	मुदा, बोजा;	to be shut, or closed (eyes);
		2. ढकना, बंद होना, छिपना।	ঢাকা পড়া, লুকানো থাকা	ढाका पड़ा, लुकानो थाका	to be covered or hidden.
मुंदरी	स्त्री.	अंगूठी।	মুদরি, মুদড়িং আংটি	मुदरि, मुदड़ी, आंटि	ring, finger-ring.
मुंशी	पु.	1. लिखने का काम करनेवाला, लिपिक;	মুন্সি, লিপিকর, কেরানি;	मुन्सि, लिपिकर, केरनि;	scribe, clerk, munshi;
		2. उर्दू-फारसी का अध्यापक।	ফারসি বা উর্দুর শিক্ষক	फारसी बा उर्दूर शिक्षक	teacher of Persian or Urdu.
मुंशीगीरी	स्त्री.	मुंशी का काम या पेशा।	মুনসির কাজ বা পেশা	मुनसिर काज बा पेशा	work or profession of a munshi.
मुंसिफ	वि.	इन्साफ करनेवाला।	ন্যায়পরায়ণ	न्यायपरायन	equitable, just, fair.
	पु.	न्याय-विभाग का एक अधिकारी उप-न्यायाधीश से नीचे।	মুন্সিব, মুন্সেফ	मुन्सिब, मुनसेफ	an officer of judiciary, officer of the civil court below the rank of a sub-judge.
मुंसिफी	स्त्री.	1. इन्साफ या न्याय करने का काम;	ন্যায়পরতা, ন্যায়বিচার;	न्यायपरता, न्यायबिचार;	justice, equity, act of delivering justice;
		2. मुंसिफ का पद;	মুন্সেফের পদ, মুনসেফি;	मुन्सेफेर पद, मुनसेफि;	office or duty of a munsif;
		3. मुंसिफ की कचहरी।	মুনসেফি আদালত	मुनसेफि आदालत	court of munsif.
मुंह	पु.	1. आहार ग्रहण करने का एवं बोलने का साधन-रूप अवयव;	মুখ;	मुख;	mouth;
		2. चेहरा, आकृति;	বদনমন্ডল	बदनमन्डल	face, countenance;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. छेद, विवर।	ছিদ্র, বিবর	छिद्र, बिबर	aperture, orifice, opening.
मुंह-अंधेरे	क्रि. वि.	बहुत सवेरे।	খুব ভোরে অতি প্রত্যুষে	खुब भोरे, अति प्रत्युषे	before day-break, at dawn.
मुंह-छुट	वि.	मुंहफट।	মুখ পটকা, মুখফটকা, মুখর	मुख पटका, मुखफटका, मुखर	outspoken, fearless, unrestrained in speech, loose-tongued.
मुंह-जबानी	अव्य.	मौखिक रूप से।	মুখের কথায়	मुखेर कथाय	verbally, orally.
मुंह-जोर	वि.	1. घृष्टतापूर्वक बिना समझे-बूझे जो मुंह में आए कह देनेवाला, बकवादी;	মুখপটকা, মুখফোঁড়;	मुखपटका, मुखफोंड़;	insolent, impudent;
		2. उद्दण्ड (घोड़ा)।	দুর্দান্ত	दुर्दान्त	high-spirited, hard-mouthed (horse).
मुंहजोरी	स्त्री.	मुंहजोर होने की अवस्था या भाव।	মুখবাজি	मुखबाजि	foul-mouthedness, insolence, impudence.
मुंहतोड़	वि.	विरोधी को पूरी तरह से परास्त करते हुए नीचा दिखानेवाला (उत्तर)।	মুখের মত	मुखेर मत	irrefutable, apt, befitting, retaliatory (answer).
मुंह-दिखाई	स्त्री.	1. दुलहिन का मुंह देखने की रस्म;	নববধূর মুখ দেখার রীতি, আচারবিশেষ;	नबबधूर मुख देखार रीति, आचारबिशेष;	ceremony among Hindus observing purdah wherein the bride's face is shown to the near and dear of the bridegroom;
		2. वह धन आदि जो दुलहिन का मुंह देखकर उसे दिया जाए।	নববধূর মুখ দেখিয়া যে অর্থাদি দেওয়া হয়	नबबधूर मुख देखिया जे अर्थादि देओया हय	present etc. given to the bride after seeing her face.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुंह-देखा	वि.	बिलकुल ऊपरी, दिखाऊ।	লোকদেখানো	लोकदेखानो	sham, superficial.
मुंह-फट	वि.	दे. 'मुंह-छुट'।	দ্রঃ 'মুঁহ-ছুট'	द्रः 'मुंह-छुट	see. 'मुंहछुट'.
मुंह-बोला	वि.	जन्मतः या वस्तुतः संबंध न होने पर भी जिसके साथ केवल मुंह से कहकर संबंध स्थापित किया गया हो।	মুখের কথায় সাধিত সম্পর্ক	मुखेर कथाय साधित सम्पर्क	adopted.
मुंह-मांगा	वि.	जो मुंह से कहकर मांगा गया हो।	যাহা মৌখিক চাওয়া হইয়াছে	जाहा मौखिक चाओया हइयाछे	demanded, requested, asked for by word of mouth.
मुंह-लगा	वि.	जो अनधिकारी या अपात्र होने पर भी किसी बड़े के साथ रहने के कारण बढ़-चढ़ कर बोलने का अभ्यस्त हो गया हो, सिर चढ़ा, ढीठ।	বাক্‌চপল, মাথায় চড়িয়াছে এমন	बाक्चपल, माथाय चड़ियाछे एमन	given to too much liberty, insolent, impudent.
मुंहासा	पु.	मुंह पर निकलनेवाले वे दाने जो युवावस्था में निकलते हैं।	বয়োব্রণ, বয়সফোড়া	बयोब्रन, बयसफोड़ा	pimples (on the face, signifying the advent of youth).
मुअत्तल (मुअत्तिल)	वि.	अस्थायी रूप से पदच्युत किया हुआ, कुछ अरसे के लिए काम से अलग किया हुआ।	সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে এমন	सामयिकभाबे बरखास्त करा हइयाछे एमन	suspended, held in abeyance.
मुअत्तली (मुअत्तिली)	स्त्री.	मुअत्तल होने का भाव।	সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ	सामयिकभाबे बरखास्तकरन	suspension.
मुआवजा	पु.	1. किसी प्रकार की हानि की पूर्ति करने के लिए उसके बदले में दिया जाने वाला धन, क्षतिपूर्ति;	ক্ষতিপূরণ;	क्षतिपूरन;	compensation, recompense;
		2. पारिश्रमिक।	পারিশ্রমিক	पारिश्रमिक	remuneration.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुकदमा	पु.	वह विवादास्पद विषय जो न्यायालय के सामने विचार और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए।	মকদ্দমা, মোকদ্দমা, মামলা	मकद्दमा, मोकद्दमा, मामला	law-suit, suit, cause.
मुकदमेबाज	वि.	जिसे मुकदमे लड़ने का शौक हो, जिसने बहुत से मुकदमे लड़े हों।	মোকদ্দমাবাজ, মকদ্দমাবাজ, মামলাবাজ	मोकद्दमाबाज, मकद्दमाबाज, मामलाबाज	litigant.
मुकदमेबाजी	स्त्री.	मुकदमे लडने की क्रिया या भाव।	মোকদ্দমাবাজি, মামলাবাজি	मोकद्दमाबाजि, मामलाबाजि	litigation.
मुकम्मल	वि.	1. पूरा किया हुआ, समाप्त; 2. पूर्ण।	মকম্মল, সিদ্ধ, নিষ্পন্ন; সম্পূর্ণ	मकम्मल, सिद्ध, निष्पन्न; सम्पूर्न	completed, finished; complete, entire, whole.
मुकरना	अ.क्रि.	कही हुई बात से हटना, नटना, इनकार करना।	কথার খেলাপ করা, অস্বীকার করা	कथार खेलाप करा, अस्बीकार करा	to deny, to go back from one's word, to belie.
मुकर्रर	वि.	1. जिसके संबंध में इकरार हो चुका हो, निश्चित; 2. जिसे किसी पद या स्थान पर नियुक्त किया गया हो।	মোকোর, নির্দিষ্ট, ঠিক; নিযুক্ত	मोकोर, निर्दिष्ट, ठिक; निजुक्त	settled, fixed, established; appointed, posted.
मुकाबला	पु.	1. आमना-सामना; 2. बराबरी, तुल्यता; 3. प्रतियोगिता, बलपरीक्षा; 4. तुलनात्मक निरीक्षण या परीक्षा।	মুকাবিলা, মোকাবিলা; তুলনা; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা; তুলনামূলক পরীক্ষা	मुकाबिला, मोकाबिला; तुलना; प्रतिजोगिता, प्रतिद्वन्द्विता; तुलनामूलक परीक्षा	facing, encounter, confronting; comparison; competition. collation, examination.
मुकाम	पु.	1. ठहरने का स्थान, पड़ाव; 2. रहने की जगह, घर;	মকাম, মোকাম, বিশ্রামস্থান; থাকার জায়গা, আশ্রয়;	मकाम, मोकाम, बिश्रामस्थान; थाकार जायगा, आश्रय;	halt, stay; place, site, residence;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. किसी के यहां मृत्यु होने पर सहानुभूति प्रकट करने और सान्त्वना देने के लिए जाने और उसके पास कुछ देर तक बैठने की क्रिया या भाव।	শোকগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সান্ত্বনা দিবার জন্য কিছুক্ষণ তাহার কাছে থাকা	शोकग्रस्त ब्यक्तिर प्रति सहानुभूति प्रदर्शन एबं सान्त्बना दिबार जन्य किछुक्षन ताहार काछे थाका	the act of offering condolence to the bereaved.
मुकुट	पु.	एक प्रसिद्ध शिरोभूषण जो राजा लोग पहनते थे और जो प्राय: देवी-देवताओं की मूर्तियों के सिर पर पहनाया जाता है।	মুকুট, শিরোভূষণ, কিরীট	मुकुट, शिरोभूषन, किरीट	diadem, crown.
मुकुर	पु.	दर्पण, शीशा, आइना।	মুকুর, দর্পণ, আরশি, আয়না	मुकुर, दर्पन, आरशि, आयना	mirror, looking-glass.
मुकुल	पु.	वह कली जिसका मुंह जरा-जरा खुल रहा हो।	মুকুল, বিকচোন্মুখ কলিকা, কুঁড়ি	मुकुल, बिकचोन्मुख कलिका, कुंड़ि	blossoming bud.
मुकुलित	वि.	1. (पेड़ या पौधा) जिसमें कलियां आई हों, कलियों से युक्त;	মুকুল ধরিয়াছে এমন, কোরকিত;	मुकुल धरियाछे एमन, कोरकित;	blooming tree or plant.
		2. अधखिला;	বিকাশোন্মুখ;	बिकाशोन्मुख;	blossoming;
		3. अधमुंदा।	অর্ধ-প্রস্ফুটিত	अर्ध-प्रस्फुटित	partly blossomed partly closed.
मुक्का (मुक्की स्त्री.)	पु.	आघात करने के उद्देश्य से बांधी हुई मुट्ठी, घूंसा	ঘুসা, ঘুসি, মুষ্ট্যাঘাত	घुसा, घुसि, मुष्ट्याघात	punch, thump.
मुक्केबाज	पु.	वह जो मुक्के का प्रहार करके लड़ता हो।	মুষ্টিযোদ্ধা	मुष्टिजोद्धा	boxer, pugilist.
मुक्केबाजी	स्त्री.	1. एक दूसरे को मुक्कों से मारने की क्रिया, घूंसेबाजी;	ঘুষাঘুষি;	घुषाघुषि;	fisticuffs; pugilism;
		2. एक प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें एक दूसरे पर मुक्कों से आघात किया जाता है।	মুষ্টিযুদ্ধ	मुष्टिजुद्ध	boxing.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुक्त	वि.	1. जो किसी प्रकार के बंधन आदि से छूट गया हो;	অব্যাহতিপ্রাপ্ত, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, খালাস হইয়াছে এমন;	अव्याहतिप्राप्त, निष्कृतिप्राप्त, खालास हइयाछे एमन;	set free, liberated, relaxed;
		2. मोक्ष-प्राप्त, भव-बंधन से मुक्त;	মোক্ষপ্রাপ্ত;	मोक्षप्राप्त;	absolved or emancipated (from sin or worldly existence);
		3. छूटा हुआ, फेंका हुआ।	নিক্ষিপ্ত	निक्षिप्त	thrown, cast, discharged, hurled.
मुक्तकंठ (से)	क्रि.वि.	बिना किसी संकोच के, स्पष्ट रूप से तथा उच्च स्वर में।	মুক্তকন্ঠে	मुक्तकन्ठे	freely, without any reservation, loudly
मुक्तक	पुं.	काव्य का एक प्रकार जिसमें एक ही बंद में कोई पूरी बात या विषय आ गया हो और आगे-पीछे के दूसरे छंदों से उसका कोई संबंध न हो।	কবিতার এক বিশেষ প্রকার:- পূর্বাপর নিরপেক্ষ স্বয়ম্পূর্ণ অর্থ ও ছন্দোবহ শ্লোক	कवितार एक विशेष प्रकार:— पूर्वापर निरपेक्ष स्वयम्पूर्न अर्थ ओ छन्दोवह श्लोक	a kind of poetic stanza in Hindi.
मुक्त छंद	पु.	ऐसी कविता जिसमें मात्राओं आदि का बंधन नहीं माना जाता है, केवल लय का ध्यान रखा जाता है।	ছন্দের বাঁধাধরা নিয়মবর্জিত কবিতা	छन्देर बांधाधरा नियमबर्जित कबिता	free verse.
मुक्त व्यापार	पु.	व्यापार की वह व्यवस्था जिसमें आयात-निर्यात आदि पर कोई विशेष बंधन नहीं लगाया जाता है।	অবাধ বাণিজ্য	अवाध बानिज्य	free trade, laissez-faire.
मुक्तहस्त	वि.	जो उदारतापूर्वक अधिक मात्रा में दान आदि करता हो।	বদান্য, দানে অবাধহস্ত	वदान्य, दाने अबाधहस्त	liberal, bountiful.
मुक्ता	स्त्री.	मोती।	মুক্তা, মোতি	मुक्ता, मोति	pearl.
मुक्ताफल	पु.	दे. 'मुक्ता'।	দ্রঃ 'মুক্তা'	द्रः 'मुक्ता'	see 'मुक्ता'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुक्तावली	स्त्री.	मोतियों की लड़ी।	মুক্তাবলি	मुक्ताबलि	string of pearls.
मुक्ति	स्त्री.	1. किसी प्रकार के बंधन आदि से छुटकारा;	বন্ধনরাহিত্য;	बन्धनराहित्य;	release, liberation, deliverance, salvation;
		2. धार्मिक क्षेत्र में वह स्थिति जिसमें जीव जन्ममरण के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष।	মোক্ষ, নির্বাণ	मोक्ष, निर्बान	absolution of the soul from metempsychosis.
मुख	पु.	1. मुंह;	মুখ, বদন, আনন;	मुख, बदन, आनन;	mouth, face;
		2. किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी खुला भाग।	সম্মুখ ভাগ, অগ্রভাগ, পুরোভাগ	सम्मुख, भाग, अग्रभाग, पुरोभाग	front, fore-part.
मुखड़ा	पु.	चेहरा, मुख।	বদনমন্ডল, চেহারা	बदनमन्डल, चेहारा	face, countenance.
मुखपत्र	पु.	किसी संस्था या दल का वह पत्र जिसमें उसके सिद्धांतों तथा मत का प्रकाशन मुख्य रूप से होता है।	কোনো প্রতিষ্ঠান বা দল প্রভৃতির বক্তব্য সম্বলিত পত্রিকা	कोनो प्रतिष्ठान बा दल प्रभृतिर बक्तब्य सम्बलित पत्रिका	organ, mouth-piece.
मुखपृष्ठ	पु.	किसी ग्रन्थ या पुस्तक का सबसे ऊपर वाला पृष्ठ जिसमें उस पुस्तक तथा उसके लेखक का नाम छपा होता है।	নামপত্র	नामपत्र	title page.
मुखबिर	पु.	1. गुप्त रूप से खबर देनेवाला व्यक्ति, जासूस;	গুপ্তচর, স্পাই;	गुप्तचर, स्पाइ;	spy, reporter, informer;
		2. वह मुलजिम-जो अपराध स्वीकार करके सरकारी गवाह बन जाता है और जिसे माफी दे दी जाती है।	রাজসাক্ষী	राजसाक्षी	approver.
मुखबिरी	स्त्री.	मुखबिर का काम, पद या भाव।	রাজসাক্ষীর কাজ	राजसाक्षीर काज	work of an approver.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुखर	वि.	1. बहुत बोलनेवाला, बकवादी;	বহুভাষী, বাচাল;	बहुभाषी, बाचाल;	talkative, garrulous, loquacious;
		2. शब्द करता हुआ।	শব্দায়মান, ধ্বনিপূর্ণ	शब्दायमान, ध्वनिपूर्न	noisy, making a continuous sound.
मुखरित	वि.	1. ध्वनित, शब्दायमान;	ধ্বনিত, সশব্দীকৃত,	ध्वनित, सशब्दीकृत;	ringing or noisy with;
		2. व्यक्त, प्रकट।	ব্যক্ত, প্রকট	ब्यक्त, प्रकट	explicit, expressed.
मुखसुख	पु.	उच्चारण की सरलता, प्रयत्न-लाघव	উচ্চারণের সরলতা	उच्चारनेर सरलता	facility of pronunciation, phonetic ease.
मुखाकृति	स्त्री.	चेहरा।	মুখের চেহারা	मुखेर चेहारा	face, countenance.
मुखाग्र	वि.	जबानी याद, कंठस्थ।	মুখস্থ, কন্ঠস্থ	मुखस्थ, कन्ठस्थ	committed to memory, on the tip of the tongue.
मुखापेक्षी	पु., वि.	मुंह जोहने वाला, दूसरों की कृपा पर अवलंबित रहनेवाला।	পরের অনুগ্রহ বা সাহায্যের উপর নির্ভরশীল	परेर अनुग्रह बा साहाज्येर उपर निर्भरशील	subsisting or depending on others, indigent.
मुखिया	पु.	प्रधान व्यक्ति, अगुआ।	প্রধান ব্যক্তি	प्रधान ब्यक्ति	chief, leader, head
मुखौटा	पुं.	नाट्य-नृत्य में मुंह पर पहना जानेवाला बनावटी चेहरा।	মুখোশ	मुखोश	mask.
मुख्तार	पु.	1. वह व्यक्ति जिसे विशिष्ट अवसरों पर कुछ विशेष प्रकार के काम प्रतिनिधि के रूप में करने का वैध अधिकार मिला होता है;	মোক্তার, মুক্তিয়ার, মকদ্দমাদি চালাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত প্রতিনিধি, আমমোক্তার;	मोक्तार, मुक्तियार, मकद्दमादि चालाइबार निमित्त निजुक्त प्रतिनिधि, आममोक्तार;	agent, attorney;
		2. एक प्रकार का कानूनी सलाहकार जो पद में वकील से छोटा होता है।	উকিল অপেক্ষা নিম্নস্তরের আইনজীবীবিশেষ	उकिल अपेक्षा निम्नस्तरेर आइनजीवीविशेष	advocate below the category of vakil.
मुख्तारनामा	पु.	वह लेख जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को मुख्तार बनाया जाए।	মোক্তারনামা, আমমোক্তার নিয়োগপত্র	मोक्तारनामा, आममोक्तार नियोगपत्र	power of attorney.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुख्य	वि.	1. प्रधान, खास;	মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ;	मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ;	chief, principal, main;
		2. महत्वपूर्ण या सारभूत।	গুরুত্বপূর্ণ	गुरुत्बपूर्न	important, prominent.
मुख्यतः	क्रि. वि.	प्रधानतः, खास तौर से।	মুখ্যতঃ, প্রধানভাবে	मुख्यतः, प्रधानभाबे	primarily, mainly, chiefly.
मुख्यता	स्त्री.	मुख्य होने की अवस्था, गुण या भाव।	প্রধানতা	प्रधानता	pre-eminence, distinction.
मुख्यमंत्री	पु.	किसी राज्य (प्रांत) का सबसे बड़ा मंत्री।	কোনো রাজ্যের মন্ত্রি-মন্ডলীর প্রধান	कोनो राज्येर मन्त्रि-मन्डलीर प्रधान	chief minister.
मुख्यार्थ	पुं.	शब्द का प्रधान अर्थ।	বাচ্যার্থ, শব্দের প্রধান অর্থ	बच्यार्थ, शब्देर प्रधान अर्थ	the primary or original meaning of a word.
मुख्यालय	पु.	किसी संस्था का केन्द्रीय और प्रधान स्थान, प्रधान कार्यालय।	সদর, কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়	सदर, कोनो प्रतिष्ठानेर प्रधान कार्जालय	headquarters.
मुग्ध	वि.	1. मोहित, मूढ़;	মোহিত, মোহগ্রস্ত, মূঢ়,	मोहित, मोहग्रस्त, मूढ़;	stupefied, perplexed, infatuated;
		2. सीधा-सादा, सरल, भोला।	সরল, অকপট	सरल, अकपट	simple, artless, innocent.
मुग्धता	स्त्री.	मुग्ध होने की अवस्था या भाव।	মোহগ্রস্ততা, সরলতা, অকপটতা	मोहग्रस्तता, सरलता, अकपटता	simplicity, artlessness, innocence.
मुग्धा	स्त्री.	साहित्य में वह नायिका जिसके नवयौवनांकुर निकल रहे हों परन्तु जिसमें अभी काम-चेष्टा का भाव उत्पन्न हुआ हो।	নায়িকাবিশেষ, যার প্রথম যৌবনোদগম হয়েছে, অথচ যে রতিবিমুখ	नायिकाबिशेष, जार प्रथम जौबनोद्गम हयेछे, अथच जे रतिबिमुख	a pretty young maiden (regarded as a variety of Nayikas in poetic composition).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुचलका	पु.	(आजकल विधिक क्षेत्र में) कोई विधि-विरुद्ध कार्य न करने या नियत तिथि पर हाजिर होने का प्रतिज्ञा-पत्र जिसका पालन न करने पर प्रतिज्ञा करनेवाला नियत अर्थ-दण्ड देना स्वीकार करता है।	মোচলকা, মুচলেকা, ভবিষ্যতে আইনের বিরুদ্ধ কোন অন্যায় কর্ম না করার বা নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার প্রতিজ্ঞাপত্র	मोचलका, मुचलेका, भविष्यते आइनेर बिरुद्ध कोन अन्याय कर्म ना करार बा निर्दिष्ट समये आदालते उपस्थित हओयार प्रतिज्ञापत्र	binding agreement, bond, bail.
मुछंदर	वि., पु.	बड़ी बड़ी मूंछोंवाला।	গোঁফো, যার গোঁফ লম্বা এমন ব্যক্তি	गोंफो, जार गोंफ लम्बा एमन ब्यक्ति	having long moustaches, whiskered.
मुछमुंडा	वि., पु.	जिसने मूंछें मुंडा ली हों।	যে গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছে এমন ব্যক্তি	जे गोंफ कामाइया फेलियाछे एमन ब्यक्ति	without moustaches, clean shaved.
मुजरा	वि.	(धन) जो प्राप्त होने के कारण किसी देय राशि में से काट लिया जाए।	প্রাপ্য টাকা হইতে বাদ, ছাড়, কাটান	प्राप्य टाका हइते बाद, छाड़, काटान	premium, deduction.
	पु.	1. झुकझुककर किया जानेवाला अभिवादन;	নমস্কার, সেলাম;	नमस्कार, सेलाम;	particular type of salutation, obeisance, respects;
		2. वेश्या का महफिल में बैठकर गाना।	গানের বৈঠকে বেশ্যার গান	गानेर बैठके बेश्यार गान	singing and dancing of prostitutes in small gathering.
मुजरिम	वि., पु.	जुर्म करनेवाला, अपराधी।	অপরাধী	अपराधी	criminal, offender.
मुझ	सर्व.	'मैं' का वह रूप जो कर्त्ता और संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों में विभक्ति के योग से होता है।	কর্তৃকারক ও সম্বন্ধকারক ব্যতীত অন্যান্য কারকে বিভক্তি	कर्तृकारक ओ सम्बन्धकारक ब्यतीत अन्यान्य कारक बिभक्ति	oblique form of 'मैं'

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुझे	सर्व.	'मैं' के कर्म और संप्रदाय कारक का रूप।	কারক 'আঁয়' শব্দের রূপ	कारक 'म्यंय' शब्देर रूप	me, to me.
मुटाना	अ. क्रि.	1. मोटा हो जाना;	মোটানো, মোটা হওয়া;	मोटानो, मोटा हओया;	to become fat, plump;
		2. घमंडी होना।	উদ্ধিত হওয়া, অহংকারী হওয়া	उद्धित हओया, अहंकारी हओया	to become arrogant or proud.
मुट्ठी	स्त्री.	1. हथेली की वह स्थिति जिसमें उंगलियां अंदर की ओर मोड़कर बंद कर ली जाती हैं;	মুঠি, মুঠ, মুঠো, মুঠা, মুষ্টি;	मुठि, मुठ, मुठो, मुठा, मुष्टि;	the fist, grasp (of the hand);
		2. उतनी वस्तु जितनी मुट्ठी में आ सके;	মুষ্টিপরিমিত বস্তু, মুটা, মুঠাভর;	मुष्टिपरिमित बस्तु, मुटा, मुठाभर;	handful;
		3. मुट्ठी की चौड़ाई का माप।	মুষ্টি পরিমিত প্রসার	मुष्टि परिमित प्रसार	a measure equal to the breadth of fist.
मुठभेड़	स्त्री.	1. दो पक्षों में थोड़ी देर के लिए किन्तु जमकर होनेवाली लड़ाई;	স্বল্পস্থায়ি প্রবল সংঘর্ষ;	स्वल्पस्थायि प्रबल संघर्ष;	the collision, clash, skirmish;
		2. सामना, भेंट।	সামনাসামনি হওয়া	सामनासामनि हओया	meeting, encounter.
मुठिया	स्त्री.	1. उपकरण या औजार का दस्ता;	মোট, বস্তা;	मोट, बस्ता;	handle or hilt round plump;
		2. रुई धुननेवाले का बेलन जिसे वे तांत पर मारते हैं।	ধুনরীরা তুলা ধুনার সময় তাহাদের তুলা ধুনার ধনুকের ছিলার উপর যে ছোট মুগুরের দ্বারা আঘাত করে	धुनरीरा तुला धुनार समय ताहादेर तुला धुनार धनुकेर छिलार उपर जे छोट मुगुरेर द्वारा आघात करे	the round plump stick with which a cotton carder strikes the string of his bow.
मुठियाना	स. क्रि.	1. मुट्ठी में भरना या लेना;	মুঠায় ভরা;	मुठाय भरा;	to grasp, to clutch;
		2. मुट्ठियों से हलका आघात करना।	মুষ্টির দ্বারা মৃদু আঘাত করা	मुष्टिर द्वारा मृदु आघात करा	to thump mildly with the fist.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुड़ना	अ. क्रि.	1. किसी सीधी या खड़ी वस्तु का किसी ओर झुक जाना;	বাঁকানো, মোচড়ানো;	बांकानो, मोचड़ानो;	to be turned, to be or become twisted, to be or become bent;
		2. अगल-बगल या पीछे की ओर घूमना।	এদিক-ওদিক ঘুরা, পিছন ফেরা	एदिक-ओदिक घुरा, पिछन फेरा	to turn, to turn back.
मुड़वाना	स. क्रि.	मोड़ने का काम कराना।	মুড়ানো	मुड़ानो	to cause to be turned or twisted.
मुताबिक	अव्य.	सदृश, अनुरूप, अनुसार।	মোতাবেক, অনুরূপ, অনুযায়ী, অনুকূল	मोताबेक, अनुरूप, अनुजायी, अनुकूल	according to, in accordance (with).
मुदित	वि.	आनन्दित, प्रसन्न, हर्षित।	হৃষ্ট, আহ্লাদিত	हृष्ट, आहलादित	pleased, delighted, happy.
मुद्गर	पु.	कसरत करने के लिए काठ के बड़े टुकड़ों की जोड़ी जो हाथों में लेकर इधर-उधर और ऊपर-नीचे घुमाई जाती है।	মুদ্গর	मुद्गर	a mace or club-like piece of wood used for exercising the arms.
मुद्दत	स्त्री.	1. नियत किया हुआ समय; अवधि;	নির্দিষ্ট কাল;	निर्दिष्ट काल;	period, length of time;
		2. लंबा अरसा, दीर्घ काल।	দীর্ঘকাল	दीर्घकाल	long period.
मुद्दा	पु.	अभिप्राय, आशय।	অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য	अभिप्राय, उद्देश्य	meaning, object, purport.
मुद्रक	पु.	छापनेवाला।	মুদ্রাকর	मुद्राकर	printer.
मुद्रण	पु.	1. छापने की क्रिया या भाव;	ছাপানো;	छापानो;	printing, marking;
		2. मुद्रा से अंकित करना, मोहर लगाना।	মোহর করা	मोहर करा	sealing, stamping.
मुद्रणालय	पु.	जहां छापने का काम होता है, छापाखाना।	ছাপাখানা	छापाखाना	printing press.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुद्रांक	पुं.	1. सरकारी कागज जिस पर अर्जी-दावा लिखकर अदालत में दाखिल किया जाता है या जिस पर पक्की लिखा-पढ़ी की जाती है;	যে মুদ্রাঙ্কিত কাগজে আইনসম্মত দলিল ইত্যাদি লেখা হয় অথবা আদালতে দরখাস্ত করা হয়	जे मुद्राङ्कित कागजे आइनसम्मत दलिल इत्यादि लेखा हय अथवा आदालते दरखास्त करा हय	stamp paper;
		2. छाप।	মুদ্রা, সীলমোহর	मुद्रा, सीलमोहर	stamp, seal.
मुद्रांकन	पुं.	मुद्रा की सहायता से छापना।	ছাপ দেওয়া, মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত করণ	छाप देओया मुद्रा द्वारा चिह्नितकरन	stamping.
मुद्रांकित	वि.	मुद्रा से छपा हुआ, जिस पर मुद्रा लगाई गई हो।	মুদ্রাচিহ্নযুক্ত, সীলমোহরকরা	मुद्राचिहनजुक्त, सीलमोहरकरा	marked with a seal or stamp, sealed, stamped.
मुद्रा	स्त्री.	1. नाम, चिह्न आदि अंकित करने की मोहर;	সীলমোহর;	सीलमोहर;	seal, signet;
		2. ऐसी अंगूठी जिस पर किसी का नाम या वैयक्तिक चिह्न अंकित हो;	নাম অথবা ব্যক্তিত্ব-সূচক চিহ্নযুক্ত অংগুরীয়ক;	नाम अथवा व्यक्तित्व-सूचक चिहनजुक्त अङ्गुरीयक;	ring embedded with name or personal mark;
		3. क्रय-विक्रय का आधिकारिक माध्यम, सिक्का;	স্বর্ণরৌপ্যাদি মুদ্রা, টাকা পয়সা ইত্যাদি;	स्वर्नरौप्यादि मुद्रा, टाका पयसा इत्यादि;	currency, money, coin;
		4. आंख, मुंह, हाथ आदि की भाव-सूचक क्रिया या स्थिति;	ভাবজ্ঞাপক অংগভংগি;	भावज्ञापक अङ्गभङ्गि;	mien, posture, countenance;
		5. देवपूजन में हाथ की उंगलियों का विशेष विन्यास।	দেবারাধনার সময় বিবিধ ভংগিতে করাংগুলি-বিন্যাস	देवाराधनार समय विविध भङ्गिते कराङ्गुलि-बिन्यास	a mode of intertwining the fingers in religious worship.
मुद्राक्षर	पुं.	वे अक्षर जिनका उपयोग पुस्तकें आदि छापने के लिए किया जाता है।	ছাপার কাজে ব্যবহৃত ধাতব অক্ষর, টাইপ	छापार काजे व्यबहृत धातव अक्षर, टाइप	type (a modern use).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुद्रास्फीति	स्त्री.	अर्थशास्त्र के अनुसार वह स्थिति जिसमें कागजी नोट देश की व्यापारिक आवश्यकताओं से कहीं अधिक प्रचलित कर दिए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप देश में सब वस्तुएं मंहगी बिकने लगती हैं।	মুদ্রাস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় মুদ্রার অধিক পরিমাণ-বৃদ্ধি	मुद्रास्फीति, क्रयक्षमतार तुलनाय मुद्रार अधिक परिमान-वृद्धि	inflation.
मुद्रिका	स्त्री.	अंगूठी।	অংগুরীয়	अङ्गुरीय	finger ring.
मुद्रित	वि.	1. मुद्रण किया हुआ, छपा या छापा हुआ; 2. मुंदा हुआ, बंद।	মুদ্রিত, সীলমোহর করা, ছাপানো; নিমীলিত	मुद्रित सीलमोहर करा, छापानो; निमीलित	sealed, stamped, printed, marked; closed, unblown (as a flower).
मुनक्का	पु.	सुखाया हुआ अंगूर।	মনাক্কা, মুনাক্কা, শুষ্ক আংগুর	मनाक्का, मुनाक्का, शुष्क आङ्गुर	a species of dried grapes or raisins.
मुनाफा	पु.	क्रय-विक्रय में आर्थिक दृष्टि से होनेवाला लाभ, नफा।	লাভ	लाभ	gains, profits.
मुनाफाखोर	पु.	बहुत अधिक मुनाफा लेनेवाला।	মুনাফাখোর, যে অত্যধিক লাভ করে	मुनाफाखोर, जे अत्यधिक लाभ करे	profiteer.
मुनाफाखोरी	स्त्री.	मुनाफाखोर होने की स्थिति या प्रवृत्ति।	মুনাফাখুরি	मुनाफाखुरि	profiteering.
मुनासिब	वि.	उचित, वाजिब।	যোগ্য, উচিত, ঠিক	जोग्य, उचित, ठिक	proper, suitable. reasonable.
मुनि	पु.	ऋषि, तपस्वी।	ঋষি, তপস্বী	ऋषि, तपस्वी	ascetic. hermit.
मुनीम	पु.	बहीखाता लिखनेवाला कर्मचारी।	যে-ব্যক্তি দোকানের খাতা লেখেন	जे-व्यक्ति दोकानेर खाता लेखेन	clerk of a merchant.
मुनीमी	स्त्री.	मुनीम का कार्य या पद।	'মুনীমে'র কাজ বা পদ	'मुनीमे'र काज बा पद	the work or profession of munim.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुन्ना (मुन्नी-स्त्री.)	पुं.	छोटे बच्चों का प्यार का संबोधन।	বাচ্চাদের আদর করিয়া মুন্না বা মুন্নী বলা হয়	बाच्चादेर आदर करिया मुन्ना बा मुन्नी बला हय	a term of endearment for children.
मुफ्त	वि.	बिना दाम का।	বিনামূল্যের, মাগনা	बिनामूल्येर, मागना	free of charge, without payment or charge, gratis.
मुफ्तखोर	पुं.	बिना मेहनत किए दूसरे की कमाई खानेवाला।	পরশ্রমজীবী	परश्रमजीबी	one who lives on other's earnings, a parasite.
मुफ्तखोरी	स्त्री.	मुफ्तखोर होने की अवस्था या भाव।	পরশ্রমজীবি	परश्रमजीबि	living on other's earnings.
मुबारकबाद	पुं.	बधाई, शुभकामना।	অভিনন্দন, শুভকামনা	अभिनन्दन, शुभकामना	congratulations, felicitations.
मुमकिन	वि.	जो कार्य रूप में परिणत हो सके, संभव।	সম্ভবপর	सम्भबपर	possible, feasible.
मुमुक्षा	स्त्री.	मोक्ष की कामना।	মুমুক্ষা, মুক্তির ইচ্ছা	मुमुक्षा, मुक्तिर इच्छा	desire of liberation or of final emencipation.
मुमुक्षु	वि., पुं.	मोक्ष का अभिलाषी।	মুমুক্ষু, মোক্ষকামী	मुमुक्षु, मोक्षकामी	a sage striving after final emancipation or beatitude, eager to be free (from mundane existence).
मुरझाना	अ. क्रि.	1. फूलपत्तों का सूखने लगना, कुम्हलाना; 2. उदास या सुस्त होना, कांति, श्री आदि से रहित होना।	শুকাইয়া যাওয়া, বিবর্ণ হওয়া; মনমরা হওয়া, স্ফূর্তিহীন হওয়া	शुकाइया जाओया, बिर्बन हओया; मनमरा हओया, स्फूर्तिहीन हओया	to wither, fade, droop; to become dejected or dispirited.
मुरब्बा	पुं.	फलों को चाशनी में डालकर तैयार किया पाक।	মোরব্বা	मोरब्बा	jam.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
	वि.	वर्ग, वर्गीकृत।	বর্গ, বর্গীকৃত	बर्ग, बर्गीकृत	square.
मुरमुरा	पु.	भुने हुए चावल।	মুড়ি	मुड़ि	parched and puffed rice.
	वि.	'मुरमुर' शब्द करनेवाला।	মচ্মচে	मचमचे	crackling, crisp.
मुरली	स्त्री.	बांसुरी।	মুরলি, বাঁশী	मुरलि, बांशी	flute, pipe.
मुराद	स्त्री.	1. बहुत दिनों से मन में बनी रहनेवाली अभिलाषा, मनोरथ; 2. अभिप्राय, आशय, मतलब।	মনোবাসনা, দীর্ঘদিনের অভিলাষ, মনোরথ; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মতলব	मनोबासना, दीर्घदिनेर अभिलाष, मनोरथ; अभिप्राय, उद्देश्य, मतलब	wish, longing, desire, inclination; object, purport, tenor.
मुरेठा (मुरैठा)	पुं.	पगड़ी, साफा।	পাগড়ি	पागड़ि	turban.
मुर्गा	पु.	एक प्रसिद्ध पक्षी जिसके सिर पर कलगी होती है और प्रायः प्रातःकाल 'कुकड़ूं-कूं' बोलता है।	মোরগ, কুক্কুট	मोरग, कुक्कुट	cock.
मुर्गी	स्त्री.	मुर्गे की मादा।	মুর্গী, কুক্কুটী	मुर्गी, कुक्कुटी	hen.
मुर्दनी	स्त्री.	1. चेहरे से प्रकट होनेवाले मृत्यु-चिह्न; 2. शव के साथ अंत्येष्टि क्रिया के लिए जाना।	বদনমন্ডলে প্রকাশিত মৃত্যুচিহ্ন; শবানুগমন	बदनमन्डले प्रकाशित मृत्युचिह्न; शबानुगमन	death-like stillness, melancholy; accompanying a funeral procession.
मुर्दा	वि.	1. मरा हुआ, मृत; 2. बेजान, अति दुर्बल; 3. कुम्हलाया या मुरझाया हुआ।	মৃত; ক্ষীণপ্রাণ; ম্লান, বিবর্ণ	मृत; क्षीनप्रान; म्लान, बिबर्न	dead; weak, infirm; faded or withered.
	पु.	मृत प्राणी, शव।	মৃতদেহ, শব	मृतदेह, शब	dead body, corpse.
मुर्दादिल	वि.	जिसमें कुछ उमंग या उत्साह न रह गया हो।	মনমরা	मनमरा	dispirited, dejected, sad.
मुलजिम	वि.	जिस पर कोई दोष या इलजाम लगाया गया हो।	অভিযুক্ত	अभिजुक्त	accused.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुलतानी मिट्टी	स्त्री.	एक प्रकार की कोमल और चिकनी मिट्टी जो प्रायः सिर धोने तथा रंगाई में अस्तर देने आदि के काम आती है।	গেরি মাটি	गेरि माटि	Armenian bole.
मुलम्मा	पु.	1. सस्ती धातुओं पर रासायनिक प्रक्रिया से किया हुआ बहुमूल्य धातु का लेप जिससे वह देखने में सुन्दर और बहुमूल्य जान पड़ती है;	গিলটি;	गिलटि;	gilding, gilt, plating, veneer;
		2. किसी साधारण या तुच्छ वस्तु को आकर्षक रूप देने की क्रिया या भाव;	কলাই;	कलाइ;	coating;
		3. ऊपरी तड़क-भड़क।	বাহিরে চিকনচাকন, বাহ্যাড়ম্বর	बाहिरे चिकनचाकन, बाह्याड़म्बर	external show, ostentation.
मुलहठी	स्त्री.	गुंजा लता की जड़ जो दवा के काम आती है।	যষ্টিমধু	जष्टिमधु	liquorice.
मुलाकात	स्त्री.	1. एक-दूसरे से मिलना, भेंट;	সাক্ষাৎকার, দেখা;	साक्षात्कार, देखा;	meeting, encountering, interview;
		2. जान-पहचान।	জানাশোনা, পরিচিত	जानाशोना, परिचित	acquaintance.
मुलाकाती	वि.	मिलनेवाला।	সাক্ষাৎকর্তা	साक्षात्कर्ता	visitor.
	पु.	मित्र, परिचित।	মিত্র, পরিচিত	मित्र, परिचित	acquaintance, friend.
मुलाजिम	पु.	नौकर, सेवक, कर्मचारी।	চাকর, কর্মচারী	चाकर, कर्मचारी	servant, attendant.
मुलायम	वि.	नरम, कोमल, सुकुमार।	মোলায়েম, কোমল, নরম	मोलायेम, कोमल, नरम	soft, tender, delicate.
मुल्क	पु.	1. देश;	মুলুক, দেশ;	मुलुक, देश;	country;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. देश का छोटा विभाग, प्रांत।	দেশের অঞ্চলবিশেষ	देशेर अन्चलबिशेष	territory, region.
मुलतबी (मुलतवी)	वि.	आगे के लिए टाला हुआ, स्थगित।	স্থগিত	स्थगित	postponed, adjourned.
मुल्ला	पु.	1. मुस्लिम धर्मशास्त्र का आचार्य;	মোল্লা, মুসলমান পুরোহিত;	मोल्ला, मुसलमान पुरोहित;	Muslim priest;
		2. मुसलमान शिक्षक।	মুসলমান শিক্ষক	मुसलमान शिक्षक	Muslim school master.
मुवक्किल	पु.	वह जो मुकदमा आदि लड़ने के लिए अपना वकील नियुक्त करता हो।	মক্কেল, মোকদ্দমায় উকিলের সাহায্য-গ্রহণকারী ব্যক্তি	मक्केल, मोकद्दमाय उकिलेर साहाज्य-ग्रहनकारी ब्यक्ति	client of a pleader.
मुशायरा	पु.	कवितापाठ की मजलिस, शायरों का इक्ट्ठे होकर ग़ज़लें आदि पढ़ना।	কবিসম্মেলন	कबिसम्मेलन	poetic symposium.
मुश्किल	वि.	कठिन, क्लिष्ट, कष्टसाध्य।	কঠিন, কষ্টসাধ্য	कठिन, कष्टसाध्य	difficult, hard, tough.
	स्त्री.	कठिनाई, परेशानी।	কাঠিন্য, কষ্ট	काठिन्य कष्ट	difficulty, hardship.
मुष्टि	स्त्री.	1. मुट्ठी; 2. घूंसा, मुक्का।	মুঠি; ঘুষি, গাট্টা	मुठि; घुषि, गाट्टा	clenched hand, fist; fist-blow.
मुसाफिर	पु.	सफर करनेवाला, यात्री, पथिक।	মুসাফির, যাত্রী, পথিক	मुसाफिर, जात्री, पथिक	traveller, wayfarer, passenger.
मुसाफिरखाना	पु.	मुसाफिरों के ठहरने की जगह।	মুসাফিরখানা, পান্থশালা, সরাই	मुसाफिरखाना, पान्थशाला, सराइ	travellers' waiting-room, inn.
मुसीबत	स्त्री.	1. तकलीफ, कष्ट;	ক্লেশ, কষ্ট;	क्लेश, कष्ट;	trouble, difficulty, affliction;
		2. विपत्ति, आफत, संकट।	বিপত্তি, আপদ, সঙ্কট	बिपत्ति, आपद, सङ्कट	calamity, misfortune, disaster.
मुस्कराना	अ. क्रि.	इस प्रकार धीरे से हंसना कि होंठ फैल जाएं पर दशन-पंक्ति दिखाई न दे।	মৃদুহাস্য করা	मृदुहास्य करा	to smile.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुस्कराहट	स्त्री.	मुस्कराने की अवस्था या भाव।	স্মিতহাসি, মৃদুহাসি	स्मितहासि, मृदुहासि	smile.
मुस्कान	स्त्री.	दे. 'मुस्कराहट'।	দ্র: 'মুস্করাহট'	द्र: 'मुस्कराहट'	see. 'मुस्कराहट'
मुस्टंडा	वि.	हट्टा-कट्टा।	বলিষ্ঠকায়, মোটাসোটা	बलिष्ठकाय, मोटासोटा	strong-bodied, stout.
	पु.	ताकतवर आदमी।	বলিষ্ঠকায় মোটাসোটা ব্যক্তি	बलिष्ठकाय मोटासोटा व्यक्ति	rough and robust fellow.
मुस्तकिल	वि.	1. स्थिर, स्थायी, सदा रहनेवाला;	স্থির, স্থায়ি, চিরস্থায়ি;	स्थिर, स्थायि, चिरस्थायि;	stable, perpetual;
		2. किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त।	কোনো পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত	कोनो पदे स्थायिभाबे निजुक्त	permanent, confirmed.
मुस्तैद	वि.	1. जो किसी कार्य के लिए पूर्ण रूप से उद्यत या तत्पर हो, कटिबद्ध, सन्नद्ध;	কোনো কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত;	कोनो काजेर जन्य सम्पूर्नरूपे प्रस्तुत;	ready, prepared;
		2. चुस्त, तेजी से काम करनेवाला।	সপ্রতিভ, কর্মতৎপর সতর্ক	सप्रतिभ, कर्मतत्पर सतर्क	alert, active, vigilant.
मुस्तैदी	स्त्री.	मुस्तैद होने की अवस्था या भाव।	প্রস্তুতি, কর্মতৎপরতা	प्रस्तुति, कर्मतत्परता	readiness, alertness, promptitude.
मुहताज (मोहताज)	वि.	जिसे किसी वस्तु का अभाव और आवश्यकता हो, जो किसी बात के लिए दूसरे पर आश्रित हो।	অভাবগ্রস্ত, পরমুখাপেক্ষী	अभावग्रस्त, परमुखापेक्षी	dependent on, needy, indigent, destitute.
मुहब्बत	स्त्री.	प्रीति, प्रेम, प्यार।	প্রেম, প্রীতি	प्रेम, प्रीति	love, affection, fondness.
मुहर (मोहर)	स्त्री.	1. किसी चीज पर खुदा हुआ नाम, प्रतीक या पद जिसे हस्ताक्षर के स्थान पर प्रामाणिकता के लिए छापा जा सके;	সীলমোহর, নামমুদ্রাঙ্কন, প্রত্যয়ার্থ, সীলমোহরাঙ্কন;	सीलमोहर, नाममुद्राङ्कन, प्रत्ययार्थ, सीलमोहराङ्कन;	seal, stamp;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. स्वर्णमुद्रा (सिक्का)।	স্বর্ণমুদ্রা	स्बर्नमुद्रा	gold coin.
मुहर्रम	पु.	1. इस्लामी वर्ष का पहला महीना;	মুসলমানদের বৎসরের প্রথম মাস;	मुसलमानदेर बत्सरेर प्रथम मास;	the first month of the Islamic calender;
		2. हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन।	হজরত ইমাম হোসেনের তিরোধান-দিবস	हजरत इमाम होसेनेर तिरोधान-दिबस	Husain's martyrdom held sacred by Muslims.
मुहर्रमी	वि.	1. मुहर्रम-संबंधी;	মোহরম বা মহরম সম্বন্ধী;	मोहरम बा महरम सम्बन्धी;	pertaining to Muharram;
		2. शोक-सूचक।	শোক-সূচক	शोक-सूचक	melancholy, gloomy.
मुहर्रिर	पु.	लिखनेवाला, मुंशी।	মুহুরি, মুহুরী	मुहुरि, मुहुरी	clerk, scribe.
मुहर्रिरी	स्त्री.	मुहर्रिर का काम, पद या पेशा।	মুহুরিগিরি	मुहुरिगिरि	the office or business of a muharrir or clerk.
मुहलत (मोहलत)	स्त्री.	1. कार्य विशेष के लिए मिलनेवाला समय;	কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়;	कोनो बिषये निर्दिष्ट समय;	grace period;
		2. फुरसत, अवकाश।	ফুরসত, অবকাশ	फुरसत, अबकाश	leisure.
मुहल्ला (महल्ला)	पु.	शहर या कस्बे का एक भाग।	নগরের অংশ, পাড়া, অঞ্চল	नगरेर अंश, पाड़ा, अन्चल	locality.
मुहाना	पु.	नदी का उद्गम-स्थल।	মোহনা, নদী প্রভৃতির মুখস্থান	मोहना, नदी प्रभृतिर मुखस्थान	mouth of a river, estuary.
मुहावरा	पु.	1. वह शब्द या वाक्यांश जो अपने अभिधार्थ से भिन्न किसी ओर अर्थ में रूढ़ हो गया हो;	বাগ্‌ধারা, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য;	बाग्धारा, बाग्बैशिष्ट्य;	idiom, phraseology;
		2. अभ्यास।	অভ্যাস	अभ्यास	practice, habit.
मुहावरेदार	वि.	मुहावरे से युक्त।	বাগ্‌ধারাসম্মত	बाग्धारासम्मत	idiomatic.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मुहूर्त	पु.	1. काल का एक मान जो दिन-रात के तीसवें भाग के बराबर होता है; 2. फलित ज्योतिष के अनुसार शुभाशुभ समय; 3. श्रीगणेश, आरंभ।	দিনরাত্রের ৩০ ভাগের একভাগ; জ্যোতিষ অনুসারে শুভাশুভ সময়; শুভারম্ভ	दिनरात्रेर 30 भागेर एकभाग; ज्योतिष अनुसारे शुभाशुभ समय; शुभारम्भ	a particular division of time, the thirtieth part of a day; auspicious moment; the auspicious beginning.
मुहैया	वि.	आवश्यकता की पूर्ति के लिए लाकर इकट्ठा किया हुआ, उपलब्ध।	প্রয়োজন সাধনের জন্য সংগৃহীত	प्रयोजन साधनेर जन्य संगृहीत	got ready, available, procured.
मूंग	स्त्री.	एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी दाल बनती है।	মুগ, দালবিশেষ	मुग, दालविशेष	a kind of lentil.
मूंगफली	स्त्री.	एक झाड़ी जिसके फल खाने और तेल निकालने के काम आते हैं।	চীনা বাদাম	चीना बादाम	ground-nut.
मूंगरा (मोगरा)	पु.	बड़े और अधिक सुगंधित फूलवाला बेला।	বড় আর খুব সুগন্ধি বেলফুল	बड़ आर खुब सुगन्धि बेलफुल	the double jasmine.
मूंगा	पु.	समुद्र में रहनेवाले एक प्रकार के कीड़ों के समूह-पिंड की लाल ठठरी जिसकी गुरिया बनाकर पहनते हैं, इसकी गिनती रत्नों में की जाती है।	প্রবাল	प्रवाल	coral.
मूंगिया	वि.	मूंग के दानों के रंग का।	গাঢ় সবুজ রঙের	गाढ़ सवुज रङ्गेर	of dark green colour.
मूंछ	स्त्री.	पुरुषों एवं कुछ अन्य जीव-जन्तुओं के ऊपरवाले होंठ पर उगी हुई रोम-राशि।	মোছ, গোঁফ, শ্মশ্রু	मोछ, गोंफ, श्मश्रु	moustache, whiskers.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मूंज	स्त्री.	सरकंडों के ऊपरी भाग का छिलका जिसे भिगोकर और कूटकर बान बनाया जाता है।	মুঞ্জ, মুজ ঘাস;	मुन्ज, मुज घास;	a kind of long reed, (of which ropes are made).
मूंडन(मुंडन)	पु.	दे. 'मुंडन'।	দ্র: 'মুন্ডন'	द्र: 'मुन्डन'	see 'मुंडन'
मूंडना	स. क्रि.	1. उस्तरे से बाल बनाना;	মুড়ানো;	मुड़ानो;	to shave, to shave the head off;
		2. ठगना;	ঠকানো;	ठकानो;	to cozen, to cheat;
		3. चेला बनाना।	চেলা করা, শিষ্য করা	चेला करा, शिष्य करा	to initiate someone into an ascetic's life.
मूंदना	स. क्रि.	1. (आंख) बंद करना;	মুদা, বোজা;	मुदा, बोजा;	to close, to shut (eyes);
		2. ढंकना, छिपाना।	ঢাকা, লুকানো	ढाका, लुकानो	to cover, to hide.
मूंजी	वि.	1. सतानेवाला, अत्याचरी;	যে কষ্ট দেয়;	जे कष्ट देय;	pesterer, oppressor, tyrant;
		2. बहुत कंजूस।	অত্যন্ত কৃপণ	अत्यन्त कृपन	miser, niggard.
मूक	वि.पु.	गूंगा।	মূক, বোবা	मूक, बोबा	dumb, silent, mute
मूठ	स्त्री.	1. किसी उपकरण आदि का दस्ता;	মুঠ, বাঁট, হাতল;	मुठ, बांट, हातल;	hilt, handle;
		2. मंत्र-तंत्र का प्रयोग, जादू-टोना।	তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ, জাদু	तन्त्रमन्त्रेर प्रयोग, जादु	act of sorcery.
मूठा (मूठी स्त्री)	पु.	घास-फूस आदि का मुट्ठी में आने लायक पुलिंदा।	মুঠো, মুষ্টি পরিমিত দ্রব্য	मुठा, मुष्टि परिमित द्रब्य	handful (of anything), bundle.
मूढ़	वि.	1. परम मूर्ख;	মূঢ়, মূর্খ;	मूढ़, मूर्ख;	foolish, silly, stupid (person);
		2. हक्का-बक्का, हैरान।	হতবুদ্ধি	हतबुद्धि	stupefied, infatuated.
मूढ़ता	स्त्री.	मूर्खता, नासमझी।	মূঢ়তা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা	मूढ़ता, मूर्खता, निर्बुद्धिता	stupidity, simplicity, folly.
मूत	पु.	पेशाब, मूत्र।	মূত, মূত্র	मुत, मूत्र	urine.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मूतना	अ. क्रि.	पेशाब करना।	মুতা, প্রস্রাব করা	मुता, प्रस्राब करा	to discharge urine, to make water, to piss.
मूत्र	पु.	गुर्दों के द्वारा स्रवित जलीय द्रव जो मूत्राशय में रहता है तथा उपस्थ मार्ग से बाहर निकलता है।	মূত, প্রস্রাব	मुत, प्रस्राब	urine, piss.
मूत्राशय	पु.	नाभि के नीचे की वह थैली जिसमें मूत्र संचित होता है, मसाना।	মূত্রাশয়, উদর-মধ্যে যে থলিতে মূত্র জন্মে	मूत्राशय, उदर-मध्ये जे थलिते मूत्र जन्मे	urinary bladder, vesica.
मूर्ख	वि. पु.	मूढ़, नासमझ।	মূর্খ, মূঢ় নির্বোধ	मूर्ख, मूढ़, निर्बोध	stupid, foolish, silly, blockhead, idiot.
मूर्खता	स्त्री.	मूढ़ता, नासमझी।	মূর্খতা, মূঢ়তা	मुर्खता, मूढ़ता	stupidity, folly.
मूर्च्छा	स्त्री.	1. बेहोशी, संज्ञा-लोप;	মূর্ছা, চৈতন্যহীনতা, সংজ্ঞালোপ;	मूर्छा, चैतन्यहीनता संज्ञालोप;	swoon, fainting, unconsciousness;
		2. दौरा।	ফিট	फिट	fit.
मूर्च्छित	वि.	जो अचेत या बेहोश पड़ा हो।	মূর্ছিত, অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন	मूर्छित, अचैतन्य संज्ञाहीन	fainted, swooned.
मूर्त	वि.	1. जिसका कोई आकार या रूप हो;	মূর্ত, মূর্তিমান্, শরীরী;	मूर्त, मूर्तिमान्, शरीरी;	embodied, incarnate;
		2. जिसका कोई भौतिक अर्थात् कड़ा या ठोस रूप हो, और इसीलिए जो देखा या पकड़ा जा सके;	বৈষয়িক আধিভৌতিক;	बैषयिक आधिभौतिक;	material, corporeal, concrete;
		3. जिसका महत्व या स्वरूप समझ में आ सके।	স্পষ্টবোধ্য	स्पष्टबोध्य	solid, hard, tangible.
मूर्ति	स्त्री.	1. आकृति, शकल;	মূর্তি, আকৃতি, চেহারা রূপ;	मूर्ति, आकृति, चेहारा रूप	image, figure, form;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. उपासना के लिए बनाई हुई देवी-देवता की प्रतिमा।	প্রতিমা, প্রতিকৃতি	प्रतिमा, प्रतिकृति	idol, statue.
मूर्तिकला	स्त्री.	मूर्तियां बनाने की कला।	ভাস্কর্য	भास्कर्ज	sculpture.
मूर्तिकार	पु.	मूर्ति बनानेवाला।	ভাস্কর	भास्कर	sculptor.
मूर्तिपूजा	स्त्री.	देव-प्रतिमा का पूजन।	প্রতিমাপূজা	प्रतिमापूजा	image-worship, idolatry.
मूर्तिमान	वि.	जो मूर्त रूप में हो, प्रत्यक्ष, साक्षात्।	মূর্তিমান, মূর্তি বিশিষ্ট, প্রত্যক্ষ	मूर्तिमान, मूर्ति बिशिष्ट, प्रत्यक्ष	incarnate, personified.
मूर्द्धन्य	वि.	1. मूर्धा से उत्पन्न;	মূর্ধন্য, মূর্ধাজাত;	मूर्धन्य, मूर्धाजात;	of or belonging to the head;
		2. मूर्धा से उच्चरित;	মূর্ধাস্থানে উচ্চারিত;	मूर्द्धास्थाने उच्चारित;	cerebral (syllable or letter);
		3. शीर्ष स्थानीय, श्रेष्ठ।	শীর্ষস্থানীয়, শ্রেষ্ঠ	शीर्षस्थानीय, श्रेष्ठ	top-ranking, leading, pre-eminent.
मूल	वि.	आद्य, प्रधान।	মূল, আদ্য, প্রধান	मूल, आद्य, प्रधान	original, basic.
	पुं.	1. पेड़-पौधों का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता है;	শিকড়;	शिकड़;	root (of a plant or tree);
		2. आदि, आरंभ;	গোড়া, আরম্ভ;	गोड़ा, आरम्भ;	groundwork, beginning;
		3. उत्पत्ति स्थान;	উৎপত্তিস্থান;	उत्पत्तिस्थान;	origin, source, cause;
		4. ग्रंथकार की मूल शब्दावली;	আকরগ্রন্থ আকর;	आकरग्रन्थ, आकर;	original, original text;
		5. असल पूंजी;	পুঁজি, মূলধন;	पुंजि, मूलधन;	principal (sum);
		6. सत्ताइस नक्षत्रों में से उन्नीसवां नक्षत्र।	মূলা (নক্ষত্র)	मूल्य (नक्षत्र)	the nineteenth lunar mansion containing eleven stars.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मूलतः	क्रि. वि.	मूलरूप में, प्रथमतः।	মূলত: মূলে, প্রথমত:	मूलतः, मूले, प्रथमतः	basically, fundamentally, primarily.
मूलधन	पु.	व्यापार आदि में लगाई हुई पूंजी।	পুঁজি	पुंजि	capital, principal.
मूलपाठ	पु.	वह मूल शब्दावली जिसका प्रयोग लेखक ने अपने लेख में स्वयं किया हो।	মূলপাঠ, আদিপাঠ	मूलपाठ, आदिपाठ	text, original text.
मूलप्रकृति		संसार की बीज शक्ति या आदिम सत्ता जिसका परिणाम तथा विकास यह सारी सृष्टि है।	বিশ্বের আদি কারণ, আদ্যাশক্তি	बिश्बेर आदि कारन, आद्याशक्ति	fundamental or basic nature.
मूलभूत	वि.	आधाररूप, बुनियादी।	ভিত্তিস্বরূপ, বনিয়াদি	भित्तिस्वरूप, बनियादि	fundamental, basic, original.
मूलमंत्र	पु.	वह उपाय जिससे कोई कार्य या सब कार्य जल्दी और सहज में सिद्ध हो जाते हैं।	মূলমন্ত্র, যার বলে সকল কাজ দ্রুত এবং সহজসাধ্য হয়	मूलमन्त्र, जार बले सकल काज द्रुत एबं सहजसाध्य हय	key note, essence.
मूल स्थान	पु.	आदि स्थान, बाप-दादों का स्थान।	আদি নিবাস	आदि निबास	original home.
मूली	स्त्री.	एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ और पत्ते शाक की तरह से खाए जाते हैं।	মুলা, মুলো	मुला, मुलो	radish.
मूलोच्छेद	पु.	1. जड़ से उखाड़ देना; 2. समूल नाश।	মূলোৎপাটন; সমূলবিনাশ	मूलोत्पाटन; समूलबिनाश	uprooting; utter destruction, total eradication.
मूल्य	पु.	1. वस्तु के बदले में दिया जानेवाला धन, कीमत, दान;	মূল্য, বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ, দাম;	मूल्य, बिनिमये, प्रदत्त अर्थ दाम;	cost, price;
		2. उपयोगिता।	গুরুত্ব, সারবত্তা	गुरुत्व, सारबत्ता	worth, value.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मूल्यवान	वि.	जिसका मूल्य अत्यधिक हो, कीमती।	মূল্যবান, দামি	मूल्यबान, दामि	costly, valuable, precious.
मूल्यांकन	पु.	मूल्य निर्धारित या निश्चित करने की क्रिया।	মূল্যায়ন, মূল্যাবধারন	मूल्यायन, मूल्याबधारन	assessment, evaluation.
मूसल (मूसली स्त्री.)	पु.	लकड़ी का मोटा डंडा जिससे धान आदि कूटते हैं।	মুশল, মুষল, মোনা	मुशल, मुषल, मोना	pestle, pounder.
मूसलधार (मूसलाधार)	वि., क्रि. वि.	मूसल के समान मोटी धार में (बरसनेवाला पानी)।	মুষলধার, মুষলধারা	मुषलधार, मुषलधारा	heavy or torrential (rain).
मृग	पु.	हिरन	মৃগ, হরিণ	मृग, हरिन	deer, antelope.
मृगचर्म	पु.	हिरन की खाल जो पवित्र मानी जाती है।	মৃগচর্ম, হরিণের চামড়া	मृगचर्म, हरिनेर चामड़ा	deer-skin held sacred and used as a mat to sit on for worshipping.
मृग-छाला	स्त्री.	दे. 'मृगचर्म'।	দ্রঃ 'মৃগচর্ম'	द्र: 'मृगचर्म'	see. 'मृगचर्म'
मृग-जल	पु.	मृग-तृष्णा।	মরীচিকা	मरीचिका	mirage.
मृग-तृष्णा	स्त्री.	1. कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में होनेवाली जलधारा की मिथ्या प्रतीति;	মরীচিকা;	मरीचिका;	mirage.
		2. ऐसी तृष्णा जिसकी पूर्ति प्रायः असम्भव हो।	যে-তৃষ্ণার নিবৃত্তি প্রায় অসম্ভব	जे-तृष्नार निबृत्ति प्राय असम्भब	unaccomplishable desire.
मृग-मद	पु.	कस्तूरी।	কস্তূরী, মৃগনাভি	कस्तूरी, मृगनाभि	musk.
मृग-मरीचिका	स्त्री.	दे. 'मृगतृष्णा'।	দ্রঃ 'মৃগতৃষ্ণা'	द्र: 'मृगतृष्णा'	see. 'मृगतृष्णा'.
मृगया	स्त्री.	आखेट, शिकार।	মৃগয়া, শিকার	मृगया, शिकार	hunting, the chase.
मृगी	स्त्री.	1. मादा हिरन;	মৃগী, হরিণী;	मृगी, हरिनी;	female deer, a hind;
		2. मिरगी नामक रोग, अपस्मार।	মিরগী, অপস্মার	मिरगी, अपस्मार	epilepsy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मृणाल	पु.	कमल के पौधे का डंठल, कमल-नाल।	মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মনাল	मृनाल, पद्मेर डांटा, पद्मनाल	fibrous root of a lotus, lotus fibre.
मृत	वि.	मरा हुआ या मुर्दा।	মৃত, গতপ্রাণ	मृत, गतप्रान	dead, deceased, defunct, extinct.
मृतक	पु.	मरा हुआ, मुरदा।	মৃতদেহ, শব	मृहदेह, शब	dead body, corpse.
मृतक-कर्म	पु.	मृतक की गति के निमित्त किया जानेवाला कृत्य, प्रेत-कर्म।	প্রেতকৃত্য	प्रेतकृत्य	posthumous rituals.
मृतप्राय	वि.	लगभग मरा हुआ, मरे हुए के समान।	মৃতপ্রায়, মৃতকল্প, মর-মর	मृतप्राय, मृतकल्प, मर-मर	almost dead.
मृत-भाषा	स्त्री.	वह भाषा जो सामान्य बोलचाल की भाषा न रह गई हो।	তৃতভাষা	मृतभाषा	dead language.
मृत-संजीवनी	स्त्री.	1. मुरदे को जिलाने की क्रिया, मंत्र;	মৃতসঞ্জীবনী;	मृतसज्जीबनी;	charm for reviving the dead;
		2. एक प्रकार की बूटी जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुरदा भी जी उठता है।	পুরাণবর্ণিত ওষধিবিশেষ-বলা হইয়াছে ইহার স্পর্শে মৃতব্যক্তি প্রাণ পায়	पुरानबर्नित ओषधिबिशेष—बला हइयाछे इहार स्पर्शे मृतब्यक्ति प्रान पाय	mythological herb that restores the dead to life, anything that infuses new life.
मृत्तिका	स्त्री.	मिट्टी।	মাটি	माटि	earth, soil, clay.
मृत्युंजय	वि.	जिसने मृत्यु को जीत लिया हो।	মরণজয়ী	मरनजयी	conqueror of death, immortal.
	पु.	शिव का एक नाम।	শিব	शिब	epithet of Siva.
मृत्यु	स्त्री.	मरण, मौत।	মরণ, নিধন	मरन, निधन	death, demise.
मृत्यु-कर	पु.	किसी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पर लगनेवाला कर।	মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে-কর ধার্য হয়	मृत ब्यक्तिर सम्पत्तिर उपर जे-कर धार्ज हय	death-duty.
मृत्युदंड	पु.	अपराधी को जान से मार डालने का दंड, प्राणदंड।	মৃত্যুদন্ড, প্রাণদন্ড	मृत्युदन्ड, प्रानदन्ड	capital punishment, death sentence.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मृत्युसंख्या	स्त्री.	दुर्घटना, महामारी आदि से मरने वालों की संख्या।	মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	मृत व्यक्तिर संख्या	death toll.
मृदंग	पु.	ढोलक की तरह का एक बाजा।	মৃদংগ ঢোলকের মত বাদ্যযন্ত্র	मृदङ्ग, ढोलकेर मत बाद्यजन्त्र	Indian musical instrument like drum, percussion instrument.
मृदु	वि.	कोमल, नरम, मुलायम।	মৃদু, কোমল, নরম	मृदु, कोमल, नरम	soft, delicate, tender.
मृदुता	स्त्री.	नरमी, कोमलता।	মৃদুতা, কোমলতা	मृदुता, कोमलता	softness, gentleness, tenderness.
मृदुल	वि.	कोमल, मुलायम।	কোমল, মৃদু	कोमल, मृदु	soft, tender, delicate.
मृषा	क्रि. वि.	झूठमूठ, वृथा।	মিছামিছি, বৃথা	मिछामिछि, बृथा	falsely, untruly, in vain.
	वि.	झूठ, मिथ्या।	অসত্য, মিথ্যা	असत्य, मिथ्या	false, untrue.
में	पर-सर्ग	अधिकरणकारक का चिह्न।	অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তিতে ব্যবহৃত চিহ্ন	अधिकरन कारके सप्तमी बिभक्तिते ब्यबहृत चिह्न	in, into, in the midst of, among, between, at.
मेंगनी	स्त्री.	भेड़-बकरी आदि की विष्टा जो छोटी-छोटी गोलियों के आकार में होती है।	নাদি	नादि	orbicular dung ball of goats, sheep, camels, rats, etc.
मेंड़	स्त्री.	खेत की हदबंदी।	জমির সীমান্ত-নির্দেশক বেড়া	जमीर सीमान्त-निर्देशक बेड़ा	hedge (raised to separate fields), border.
मेंड़बंदी	स्त्री.	मेंड बनाने का काम।	বেড়া দেওয়া	बेड़ा देओया	hedging.
मेंढक	पु.	एक प्रसिद्ध जल-स्थल-चारी छोटा जन्तु।	ভেক, ব্যাঙ্	भेक, ब्याङ्	frog.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मेंढकी	स्त्री.	मेंढकी की मादा	ভেকী	भेकी	female frog.
मेंह	पु.	वर्षा, पानी बरसना।	বৃষ্টি	बृष्टि	rain.
मेंहदी	स्त्री.	एक प्रकार की झाड़ी जिसकी पत्तियां हाथ-पैर रंगने के काम आती हैं।	মেহেদি, মেদি	मेहेदि, मेदि	henna.
मेख	स्त्री.	खूंटा, खूंटी, कील।	পেরেক,	पेरेक	nail, peg.
मेखला	स्त्री.	करधनी, कमरबंद।	কাঞ্চ, চন্দ্রহার	काञ्च, चन्द्रहार	belt, girdle, waist-band.
मेघ	पु.	बादल।	মেঘ, জলধর, বারিদ	मेघ, जलधर, बारिद	cloud.
मेघाच्छन्न	वि.	बादलों से ढका हुआ।	মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত	मेघे ढाका, मेघाबृत	overcast or covered with clouds, cloudy.
मेज	स्त्री.	एक प्रकार की ऊंची चौकी जो खाना खाने, लिखने आदि के लिए आधार रूप में काम आती है।	টেবিল	टेबिल	table.
मेजपोश	पु.	मेज पर शोभा के लिए बिछाया जानेवाला कपड़ा	টেবিলের ঢাকনা	टेबिलेर ढाकना	table cloth, table cover.
मेजबान	पु., वि.	आतिथ्य करनेवाला। (व्यक्ति)।	মেজমান, আতিথ্যকারক	मेजमान, आतिथ्यकारक	host.
मेजबानी	स्त्री.	अतिथि-सत्कार, मेहमानदारी।	আতিথেয়তা	आतिथेयता	acting as the host, hospitality.
मेटना	स.	दे. 'मिटाना'।	দ্র: 'মিটান'	द्र: 'मिटान'	see. 'मिटाना'
मेथी	स्त्री.	एक पत्रशाक जिसके पत्ते सब्जी के लिए और दाने दवा और मसाले के काम आते हैं।	মেতি, মেথি	मेति, मेथि	the plant finugreek.
मेद	पु.	1. शरीर के अन्दर चरबी;	মেদ, চর্বি;	मेद, चर्बि;	fat, marrow;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. चरबी या मोटाई बहुत बढ़ जाने का रोग।	মেদবর্ধক রোগ	मेदबर्धक रोग	morbid or unnatural corpulence.
मेदा	पु.	पक्वाशय, पेट।	পাকাশয়, পেট	पाकाशय, पेट	stomach.
मेदिनी	स्त्री.	पृथ्वी, धरती।	মেদিনী, পৃথিবী	मेदिनी, पृथिबी	earth.
मेधा	स्त्री.	बातें समझने और स्मरण रखने की शक्ति।	স্মরণশক্তি, বোধশক্তি	स्मरनशक्ति, बोधशक्ति	mental vigour or power, intellect, understanding.
मेधावी	वि.	असाधारण मेधा शक्तिवाला, बुद्धिमान।	মেধাবী, ধীমান্, বুদ্ধিমান্	मेधावी, धीमान्, बुद्धिमान्	possessed of extraordinary mental power, intelligent, brilliant.
मेमना	पु.	भेड़ का बच्चा।	মেষশাবক	मेषशाबक	lamb, kid.
मेरा (मेरी स्त्री.)	सर्व. वि.	'मैं' का संबंधकारक	'মৈ' শব্দের সম্বন্ধ কারক, 'আমার'	'मैं' शब्देर सम्बन्ध-कारक, 'आमार'	my, mine.
मेरु	पु.	1. सुमेरु पर्वत;	সুমেরু, পর্বত;	सुमेरु पर्वत;	name of a fabulous mountain (supposed to be of gold);
		2. जपमाला में सबसे ऊपर रहनेवाला प्रधान दाना।	জপমালার মুখদুয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্তী মধ্যগুলিকা	जपमालार मुखद्वयेर सन्धिस्थ अग्रबर्ती मध्यगुलिका	centre or most prominent bead in a rosary.
मेरुदंड	पु.	मनुष्यों और बहुत से जीवजन्तुओं में पीठ के बीचों-बीच गरदन से लेकर कमर तक जाने-वाली एवं माला की तरह गुथी हुई हड्डी।	মেরুদন্ড, শিরদাঁড়া	मेरुदन्ड, शिरदांड़ा	spine, backbone.
मेल	पु.	1. मिलन, मिलाप;	মিলন, সংযোগ;	मिलन, संजोग;	reconciliation, agreement, concord;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. मित्रता, अनुकूलता;	মিত্রতা, অনুকূলতা;	मित्रता, अनुकूलता;	intimacy, amity, friendship;
		3. मिलावट;	মিশ্রণ, মিশাল;	मिश्रन, मिशाल;	mixture, combination;
		4. जोड़ या टक्कर;	জোড়;	जोड़;	match;
		5. तरह, किस्म;	রকম, প্রকার;	रकम, प्रकार;	kind, quality;
		6. मेल (गाड़ी)।	'মেল' (ডাক গাড়ি)	'मेल' (डाक गाड़ी)	mail (train).
मेल-जोल	पु.	आत्मीयतापूर्ण संबंध, प्रीति-संबंध।	মিলমিশ	मिलमिश	reconciliation, union, friendship.
मेल-मिलाप	पु.	दे. 'मेल-जोल'।	দ্র: 'মেলজোল'	द्र: 'मेलजोल'	see 'मेल-जोल'.
मेला	पु.	1. भीड़,जमाव;	মেলা, ভিড়, গাদা;	मेला, भिड़, गादा;	crowd, multitude, throng;
		2. तीर्थ-स्थान, देव-दर्शन, सैर-तमाशे के लिए नियत तिथि और स्थान में होने वाला लोगों का जमाव।	তীর্থাদিতে বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম	तीर्थादिते बा उत्सबे बहु लोकेर समागम	large concourse of people (for religious or commercial purposes), fair.
मेला-ठेला	पु.	मेला, सैर-तमाशा।	হৈ চৈ	है चै	fanfare, hustle and bustle.
मेवा	पु.	खाने का फल विशेषत: सूखा फल।	মেওয়া, ফল, কিশমিশ	मेओया, फल, किशमिश	dry fruit.
मेष	पु.	1. भेड़;	মেষ, ভেড়া;	मेष, भेड़ा;	ram, sheep;
		2. ज्योतिष में बारह राशियों में से पहली राशि।	মেষরাশি, রাশিচক্রের প্রথম রাশি	मेषराशि, राशिचक्रेर प्रथम राशि	first sign of the zodiac, Aries.
मेष-संक्रांति	स्त्री.	सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने का समय।	সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণের সময়	सूर्जेर मेष राशिते संक्रमनेर समय	the day when the sun crosses into the mansion of Aries.
मेह	पु.	1. पेशाब, मूत्र;	প্রস্রাব, মূত্র;	प्रस्राब, मूत्र;	urine;
		2. कोई ऐसा रोग जिसमें मूत्र के साथ कोई विकृत तत्व भी निकलता हो।	প্রস্রাবের পীড়াবিশেষ	प्रस्राबेर पीड़ाबिशेष	urinary disease, diabetes.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मेहतर	पु.	भंगी।	মেথর,মলপরিষ্কারক, ঝাড়ুদার	मेथर, मलपरिष्कारक, झाड़ुदार	sweeper, scavenger.
मेहतरानी	स्त्री.	भंगी की पत्नी या भंगी का पेशा (काम) करनेवाली स्त्री, भंगिन।	মেথরাণী	मेथरानी	the wife of a sweeper or sweeper woman.
मेहनत	स्त्री.	परिश्रम, उद्योग।	পরিশ্রম	परिश्रम	labour, toil, hard work.
मेहनताना	पु.	1. मेहनत करने के बदले में मिलनेवाला धन, पारिश्रमिक;	পারিশ্রমিক, মজুরি;	पारिश्रमिक, मजुरि;	remuneration, wages;
		2. वकील की फीस।	উকিলের ফি	उकिलेर फि	fee paid to a lawyer.
मेहनती	वि.	मेहनत करनेवाला, परिश्रमी।	মেহনতকারী, শ্রমকারী	मेहनतकारी, श्रमकारी	laborious, diligent, hard-working.
मेहमान	पु.	अतिथि, पाहुना।	অতিথি	अतिथि	guest.
मेहमानदारी	स्त्री.	मेहमान की की जानेवाली आवभगत, आतिथ्य।	আতিথ্য	आतिथ्य	hospitality, entertainment.
मेहमानी	स्त्री.	1. मेहमान होने की अवस्था या भाव;	অতিথিরূপে অবস্থান;	अतिथिरूपे अबस्थान;	staying as a guest;
		2. मेहमान का किया जानेवाला सत्कार।	অতিথেয়তা	अतिथेयता	enjoying the hospitality (of).
मेहरबान	वि.	कृपालु, दयालु, अनुग्रह करने वाला।	মেহেরবান, দয়ালু	मेहेरबान, दयालु	kind, benevolent, compassionate.
मेहरबानी	स्त्री.	कृपा, अनुग्रह, उपकार।	মেহেরবানি, দয়া, অনুগ্রহ	मेहेरबानि, दया, अनुग्रह	kindness, goodness, favour.
मेहरा	पु.	1. जनखा, स्त्रैण व्यक्ति; 2. बर्तन मांजने या पानी भरनेवाला व्यक्ति।	স্ত্রৈণ পুরুষ; যে বাসন মাজে বা জল তোলে	स्त्रैन पुरुष; जे बासन माजे बा जल तोले	effeminate person household utensil cleaner.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मेहराब	स्त्री.	द्वार के ऊपर का अर्द्धमंडलाकार बनाया हुआ भाग।	ধনুকাকৃতি, খিলান	धनुकाकृति, खिलान	arch, vault.
मेहराबदार	वि.	जिसमें मेहराब लगी हो।	বাসন-মাজা ঝি	बासन-माजा झि	arched, vaulted.
मेहरी	स्त्री.	बर्तन मांजनेवाली स्त्री।	বাসন-মাজা ঝি	बासन-माजा झि	woman who works as a household utensil cleaner.
मैं	सर्व.	एक सर्वनाम, उत्तम पुरुष में कर्ता का रूप।	আমি	आमि	the pronoun 'I'.
मैत्री	स्त्री.	मित्रता, दोस्ती।	মৈত্রী, দোস্তি	मैत्री, दोस्ति	friendship, intimacy.
मैथुन	पु.	स्त्री के साथ पुरुष का समागम, रति-क्रीड़ा।	মৈথুন, স্ত্রীপুরুষের সংগম, রতিক্রিয়া	मैथुन, स्त्रीपुरुषेर सङ्गम, रतिक्रिया	coition, copulation, carnal intercourse.
मैदा	पु.	बहुत महीन पीसा हुआ आटा जिससे पकवान और मिठाइयां बनती हैं।	ময়দা	मयदा	fine wheat flour.
मैदान	पु.	1. विस्तृत क्षेत्र या भूखंड, दूर तक फैली हुई सपाट जमीन;	ময়দান, বিস্তৃত মাঠ;	मयदान, बिस्तृत माठ;	extensive plain;
		2. पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न समतल भूभाग;	সমতলভূমি;	समतलभूमि;	plains;
		3. खेल आदि का स्थान;	খেলার মাঠ;	खेलार माठ;	field, playground;
		4. युद्धक्षेत्र, समरस्थली।	যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল	जुद्धक्षेत्र, रनस्थल	battle-field.
मैना	स्त्री.	एक चिड़िया जो अपनी मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है, सारिका।	ময়না	मयना	name of a bird, a kind of starling.
मैल	स्त्री.	1. शरीर, कपड़े आदि से चिपका हुआ मल, गर्द, धूल आदि;	ময়লা, পাত্রমল, বস্ত্রমল ইত্যাদি;	मयला, पात्रमल, बस्त्रमल इत्यादि;	dirt, filth, scum;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी के प्रति मन में संचित दुर्भाव।	মনের মলিনতা	मनेर मलिनता	rancour, sullenness.
मैलखोरा	वि.	धूल-गर्द आदि पड़ने पर भी जो मैला न दिखाई दे, जो मैल को छिपा सके।	যাহা ময়লা হইলেও বোঝা যায় না এমন	जाहा मयला हइलेओ बोझा जाय ना एमन	dust-absorbing (as colour).
मैला	वि.	जिस पर मैल जमी हो, जिस पर धूल-गर्द आदि पड़ी हो, गंदा।	ময়লা, মলিন, মলযুক্ত অপরিচ্ছন্ন	मयला, मलिन, मलमुक्त, अपरिच्छन्न	dirty, filthy, foul, unclean.
	पु.	गू, विष्टा।	মল, বিষ্ঠা	मल, बिष्ठा	excrement, faeces.
मैला-कुचैला	वि.	बहुत अधिक मैला या गंदा।	অত্যন্ত ময়লা ও নোংরা	अत्यन्त मयला ओ नोंरा	dirty and filthy.
मैलापन	पु.	मलिनता, गंदापन।	মলিনতা	मलिनता	dirtiness, filthiness.
मोक्ष	पु.	1. बंधन से छूटना, मुक्ति, छुटकारा;	বন্ধনমুক্তি, মুক্তি, মোচন;	बन्धनमुक्ति मुक्ति, मोचन;	emancipation, deliverance, freedom;
		2. जन्म-मरण के बंधन से छूटना।	ভববন্ধন হইতে মুক্তি, কৈবল্য	भवबन्धन हइते मुक्ति, कैवल्य	release from worldly existence. final beatitude.
मोगरा	पु.	बड़े और अधिक सुगंधित फूलवाला बेला।	বড় এবং খুব সুগন্ধি বেলফুল	बड़ एबं खुब सुगन्धि बेलफुल	the double jasmine
मोघ	वि.	निरर्थक, व्यर्थ जानेवाला।	ব্যর্থ নিষ্ফল	व्यर्थ, निष्फल	vain, useless, ineffective.
मोच	स्त्री.	झटका लगने से शरीर के किसी अंग के जोड़ की नस का अपने स्थान से इधर-उधर खिसक जाना।	মচকানো	मचकानो	sprain, twist.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोचन	पु.	बंधन, कष्ट आदि से छुड़ाना, छुटकारा देना या दिलाना।	মোচন, মুক্তিদান, দূরীকরণ	मोचन, मुक्तिदान, दूरीकरन	release, liberation freeing or delivering from.
मोचना	पु.	एक औजार, चिमटी।	সাড়াঁশি	साड़ांशि	a pair of forceps, pincers.
मोची	पु.	जूते गांठने या सीनेवाला।	মুচি	मुचि	shoemaker, cobbler.
मोजा	पु.	पांव में पहनने का एक बुना हुआ कपड़ा।	মোজা	मोजा	stocking, socks.
मोटा	वि.	1. जिसकी देह में मांस-मेद अधिक हो, स्थूलकाय;	মোট, স্থূল, মাংসল, মেদবহুল;	मोट, स्थूल, मांसल, मेदबहुल;	fat, plump, corpulent;
		2. जो पतला या बारीक न हो (जैसे कपड़ा आदि)।	যাহা মিহি নয়	जाहा मिहि नय	thick, coarse.
मोटा-ताजा	वि.	हृष्ट-पुष्ट, तगड़ा।	মোটাসোটা, তাগড়া	मोटासोटा, तागड़ा	stout, robust, well-built.
मोटाई	स्त्री.	1. मोटापा, स्थूलता;	স্থূলতা;	स्थलूता;	fatness, plumpness, corpulence;
		2. किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त तीसरा आयाम।	ঘনত্ব	घनत्व	thickness.
मोटाना	अ. क्रि.	1. मोटा होना; स्थूलकाय होना;	মোটানো, স্থূলাংগ হওয়া;	मोटानो, स्थूलाङ्ग हओया;	to fatten, to grow fat or plump;
		2. धनवान या सम्पन्न होना।	ধনবান বা সম্পন্ন হওয়া	धनबान बा सम्पन्न हओया	to become wealthy
मोटापन	पु.	मोटा होने की अवस्था या भाव।	মেদবহুলতা, স্থূলতা, ঘনত্ব	मेदबहुलता, स्थूलता, घनत्व	fatness, plumpness, thickness.
मोटापा (मुटापा)	पु.	दे. 'मोटापन'।	দ্রঃ 'মোটাপন'	द्र: 'मोटापन'	see. 'मोटापन'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोठ	स्त्री.	मूंग की तरह का एक मोटा अन्न।	মুগ দালের মত দালবিশেষ, বনমুগ	मुग दालेर मत दालविशेष बनमुग	a kind of grain, lentil.
मोड़	पु.	1. मुड़ने या मोड़ने की अवस्था, क्रिया या भाव, घुमाव;	মোড়ানো, বাঁকানো, ফেরানো;	मोड़ानो, बांकानो, फेरानो;	turn, bend, twist;
		2. वह जगह जहां से रास्ता दूसरी दिशा की ओर मुड़ता हो;	বাঁক;	बांक;	turning point;
		3. वह स्थिति जिसमें किसी काम या बात की दिशा बदली हो।	যেখান থেকে কোন কর্ম বা বিষয় দিক্ পরিবর্তন করে	जेखान थेके कोन कर्म बा विषय दिक् परिबर्तन करे	(fig.) a new direction.
मोड़ना	स. क्रि.	1. घुमाना, दिशा बदलना;	মুড়া, ফেরানো;	मुड़ा, फेरानो;	to turn, to turn back;
		2. टेढ़ा करना;	বাঁকানো, মুড়া;	बांकानो, मुड़ा;	to bend, to twist;
		2. तह करना।	ভাজ করা	भाज करा	to fold.
मोढ़ा	पु.	बांस, सरकंडे या बेंत का बना हुआ एक प्रकार का ऊंचा गोलाकार आसन।	মোড়া	मोड़ा	a kind of stool made of reeds.
मोतिया	वि.	मोती जैसा।	মোতির মতো	मोतिर मतो	bright as a pearl.
	पु.	1. बेले का एक भेद;	বেলফুল বিশেষ;	बेलफुल बिशेष;	a kind of jasmine;
		2. एक प्रकार का सलमा।	একপ্রকার সূচীকর্ম	एकप्रकार सूचीकर्म	a kind of embroidery.
मोतियाबिंद	पु.	आंख का एक रोग जिसमें देखने की शक्ति दिन पर दिन कम होती जाती है।	ছানি	छानि	cataract, a disease of the eye.
मोती	पु.	एक बहुमूल्य रत्न जो सीपी में से निकलता है, मुक्ता।	মোতি, মুক্তা	मोति, मुक्ता	pearl.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोतीचूर	पु.	बेसन की बनी हुई बहुत छोटी बूंदियां जिसे चाशनी में डालकर लड्डू बनाए जाते हैं।	মোতিচূর, মিঠাইবিশেষ	मोतिचूर, मिठाइबिशेष	laddu,a kind of sweet-meat.
मोतीझरा (मोतीझिरा)	पुं.	आन्त्रज्वर, मियादी बुखार।	আন্ত্রিক জ্বর, টাইফয়েড	आन्त्रिक ज्वर, टाइफयेड	typhoid.
मोथा	पु.	नागर मोथा।	মুথা	मुथा	a kind of grass and its root (used in medicine and for perfume).
मोद	पु.	1. हर्ष, आह्लाद;	হর্ষ, আহ্লাদ;	हर्ष आह्लाद;	pleasure, delight, happiness;
		2. सुगंध।	সৌরভ	सौरभ	fragrance, perfume.
मोदक	पु.	लड्डू।	মোয়া, লাড়ু	मोया, लाड़ु	a small round sweetmeat, laddu
	वि.	आनन्द देने वाला।	আনন্দদায়ক	आनन्ददायक	gladdening, exhilarating.
मोदन	पु.	खेल-तमाशे आदि के द्वारा मन का बहल्ना तथा चित्तवृत्तियों का प्रफुल्लित होना।	হর্ষ, আনন্দ	हर्ष, आनन्द	joy, pleasure, recreation.
मोदी	पु.	दाल, चावल आदि बेचने वाला, परचूनिया।	মুদি	मुदि	merchant, grocer.
मोदीखाना	पु.	अन्न आदि रखने का घर, भंडार।	মুদিখানা	मुदिखाना	store-house, provision store.
मोम	पु.	वह चिकना, मुलायम द्रव्य जिसमें शहद की मक्खियां अपना छता बनाती हैं।	মৌচাকের উপাদান বিশেষ, শিক্থ	मौचाकेर उपादान बिशेष, शिक्थ	bees-wax, wax.
मोमबत्ती	स्त्री.	धागे पर मोम चढ़ाकर बनाई हुई बत्ती जिसे रोशनी के लिए जलाते हैं।	মোমবাতি	मोमबाति	wax-candle, candle-stick.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोमी	वि.	1. मोम का बना हुआ; 2. मोम की तरह मुलायम।	মোমের তৈরি; মোমের মতো	मोमेर तैरि; मोमेर मतो	waxen; soft as wax.
मोयन	पु.	खस्तेपन के लिए गुंधे हुए आटे में डाला जाने वाला घी या तेल।	ময়ান	मयान	mixing of ghee in kneaded flour to impart crispness and softness to the ultimate preparation.
मोर	पु.	एक बड़ा पक्षी जो अपनी सुन्दरता एवं नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मयूर।	ময়ূর	मयूर	peacock.
मोरनी	स्त्री.	1. मादा मोर; 2. नथ में लटकाने का टिकरा।	ময়ূরী; নোলক ঝুমকা	मयूरी; नोलक झुमका	peahen; pendant (of an earring or nose-ring).
मोरपंख	पु.	मोर का पर या पंख।	ময়ূরপুচ্ছ	मयूरपुच्छ	feather of a peacock.
मोर-मुकुट	पु.	मोरपंख का मुकुट।	ময়ূরপুচ্ছের মুকুট	मयूरपुच्छेर मुकुट	crown made of peacock feathers.
मोरी	स्त्री.	छोटी नाली जिससे गंदा या फालतू पानी बहकर निकलता है।	নর্দমা, ড্রেন	नर्दमा, ड्रेन	drain, gutter, sewer, conduit.
मोर्चा	पु.	वह स्थान जहां से सेना, गढ़, नगर, आदि की रक्षा की जाती है।	যুদ্ধক্ষেত্র	जुद्धक्षेत्र	battle front, front. थान
मोर्चाबंदी	स्त्री.	मोर्चा बनाना।	যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ	जुद्धक्षेत्रे सैन्यसमावेश	taking up strategic position.
मोल	पु.	मूल्य, दाम।	মূল্য, দাম	मूल्य, दाम	cost, price.
मोल-तोल	पु.	दाम ठहराने, सौदा पटाने की बातचीत।	দরদস্তুর	दरदस्तुर	bargaining, higgling.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोह	पु.	1. स्नेह, लगाव;	মায়া, মমতা;	माया, ममता;	attachment, love, affection;
		2. बेवकूफी, मूर्खता;	মূঢ়তা;	मूढ़ता;	folly, ignorance, infatuation;
		3. (दर्शन में) मन का वह भ्रम जो सत्य का ठीक-ठाक ज्ञान नहीं होने देता।	সদসদ্‌বিচার-মূঢ়তা	सदसद्‌विचार-मूढ़ता	(in phil.) delusion of mind which prevents one from discerning the truth.
मोहक	वि.	1. मोह उत्पन्न करनेवाला;	মোহকারী, মোহকর;	मोहकारी, मोहकर;	bewildering, infatuating;
		2. मन को आकृष्ट करनेवाला, लुभावना।	চিত্তাকর্ষক	चित्ताकर्षक	charming, fascinating.
मोहताज (मुहताज)	वि.	दे. 'मुहताज'।	দ্রঃ 'মুহতাজ'	द्रः 'मुहताज'	see. 'मुहताज'.
मोहना	अ. क्रि.	1. मुग्ध होना, मोहित होना।	মুগ্ধ হওয়া, মোহিত হওয়া;	मुग्ध हओया, मोहित हओया;	to be tempted, to be infatuated.
	स. क्रि.	2. लुभाना, मोहित करना, मोह या भ्रम में डालना।	মুগ্ধ করা, মোহগ্রস্ত করা	मुग्ध करा, मोहग्रस्त करा	to faseinate, to delude, to bewilder.
मोहनी	स्त्री.	1. मोहक प्रभाव, वशीकरण;	বশীকরণ;	बशीकरन;	charm, spell;
		2. माया।	মায়া	माया	illusion.
	वि.	मोहित करनेवाली।	মোহকারী	मोहकारी	fascinating, charming.
मोहर (मुहर)	स्त्री.	दे. 'मुहर'।	দ্রঃ 'মুহর'	द्रः 'मुहर'	see. 'मुहर'.
मोहरा	पु.	1. शतरंज की गोटी;	দাবার ঘুঁটি;	दाबार घुंटि;	chessman;
		2. बरतन आदि का मुहं;	বাসন ইত্যাদির মুখ;	बासन इत्यादिर मुख;	opening;
		3. सेना का अग्रभाग।	সৈন্যদলের অগ্রভাগ	सैन्यदलेर अग्रभाग	van, vanguard.
मोहरी	स्त्री.	पाजामे का नीचे की ओर का मुंह, पायंचा।	মুহুরী, পায়জামার নীচের দিকের মুখ	मुहुरी पायजामार नीचेर दिकेर मुख	lower opening of trousers.
मोहलत	स्त्री.	दे. 'मुहलत'।	দ্রঃ 'মুহলত'	द्रः 'मुहलत'	see. 'मुहलत'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मोहित	वि.	1. पूर्ण रूप से आसक्त या मुग्ध;	মোহিত, মোহপ্রাপ্ত;	मोहित, मोहप्राप्त;	fascinated, charmed, enamoured;
		2. भ्रम में पड़ा हुआ।	মূঢ়বুদ্ধি, সংশয়প্রাপ্ত;	मूढ़बुद्धि, संशयप्राप्त;	bewildered, infatuated, deluded.
मोहिनी	वि.	मोहित करनेवाली, मोहनेवाली।	মোহিনী, মনোহারিণী	मोहिनी, मनोहारिनी	fascinating, charming.
	स्त्री.	माया, मोह।	মায়া, মোহ	माया, मोह	illusion.
मोही	वि.	जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम हो, प्रेमी।	সর্বজনের প্রতি প্রেমযুক্ত	सर्बजनेर प्रति प्रेमजुक्त	loving, affectionate.
मौका	पु.	1. उपयुक्त काल, अवसर;	মওকা, সুযোগ;	मओका, सुजोग;	chance, occasion, opportunity;
		2. वह स्थल जहां कोई घटना हुई हो।	ঘটনা স্থল	घटना स्थल	place of occurrence, situation, site.
मौखिक	वि.	मुंह से कहा या बोला जानेवाला, जबानी।	মৌখিক, বাচনিক	मौखिक, बाचनिक	oral, verbal.
मौखिक परीक्षा	स्त्री.	विद्यार्थियों को मौखिक प्रश्न करके ली जानेवाली परीक्षा।	মৌখিক পরীক্ষা, যে-পরীক্ষা মুখে মুখে নেওয়া হয়	मौखिक परीक्षा, जे-परीक्षा मुखे मुखे नेओया हय	oral examination, viva voce (test).
मौज	स्त्री.	1. मन की लहर, तरंग; 2. सुख, आनन्द, समृद्धि; 3. लहर।	খেয়াল; সুখ, আনন্দ; তরংগ	खेयाल; सुख, आनन्द; तरङ्ग	whim, caprice; delight, ecstasy; wave, surge.
मौजा	पु.	1. गांव, ग्राम; 2. स्थान।	মৌজা, গাঁ, গ্রাম; স্থান	मौजा, गां, ग्राम; स्थान	village, hamlet; place, site.
मौजी	वि.	जो मन में आए वह कर बैठनेवाला।	খেয়ালী	खेयाली	whimsical, capricious, emotional.
मौजूं	वि.	ठीक, उपयुक्त।	ঠিক, উপযুক্ত	ठिक, उपजुक्त	reasonable, befitting, suitable.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
मौजूद	वि.	उपस्थित, हाजिर, विद्यमान।	মজুত, উপস্থিত, হাজির, বর্তমান	मजुत, उपस्थित, हाजिर, बर्तमान	present, existing.
मौजूदगी	स्त्री.	उपस्थिति, हाजिरी, विद्यमानता।	উপস্থিতি, বিদ্যমানতা	उपस्थिति, बिद्यमानता	existence, presence.
मौजूदा	वि.	वर्तमान काल का, जो सामने उपस्थित या प्रस्तुत हो।	বর্তমানকালীন, সম্মুখে উপস্থিত	बर्तमानकालीन, सम्मुखे उपस्थित	existing, current or present.
मौत	स्त्री.	मरण, मृत्यु।	মরণ, মৃত্যু	मरन, मृत्यु	death, demise.
मौन	वि.	जो न बोले, चुप।	নির্বাক, নীরব	निर्बाक, नीरब	mum, silent, speechless,
	पु.	चुप रहना, चुप्पी।	নীরবতা, তূষ্ণীম্ভাব	नीरबता, तुष्णीम्भाब	silence, taciturnity.
मौनव्रत	पु.	चुप रहने का व्रत।	মৌনব্রত	मौनब्रत	vow of silence.
मौनी	वि.	चुप रहनेवाला, न बोलनेवाला।	মৌনী, নীরব, নির্বাক্	मौनी, नीरब, निर्बाक्	observing a vow of silence, silent.
मौनी अमावस	स्त्री.	माघ मास की अमावस्या (हिन्दु धर्म)।	মাঘ মাসের অমাবস্যা, যেদিন মৌন পালন করা হয় (হিন্দু পর্বদিন)	माघ मासेर अमाबस्या जेदिन मौन पालन करा हय (हिन्दु पर्बदिन)	the last day of the dark fortnight of the month Magha when a vow to keep silent is taken.
मौर	पु.	1. एक तरह का मुकुट जो विवाह के अवसर पर वर को पहनाया जाता है;	বরের মাথার টোপর;	बरेर माथार टोपर;	a kind of crown worn by the bridegroom in traditional Indian marriage ceremonies;
		2. बौर, मंजरी।	বউল, মঞ্জরী	बउल, मन्जरी	a bud, blossom.
मौरूसी	वि.	पैतृक।	মৌরসি, পৈতৃক	मौरसि, पैतृक	hereditary, patrimonial.
मौलवी	पु.	1. इस्लामी धर्म-शास्त्र का पंडित;	মৌলবী, মুসলমান পন্ডিত;	मौलबी, मुसलमान पन्डित;	a person learned in Muslim relgion;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. अरबी, फारसी पढ़ानेवाला।	আরবী, ফারসী ইত্যাদির অধ্যাপক	आरबी, फारसी, इत्यादिर अध्यापक	teacher of Arabic and Persian.
मौलसिरी	स्त्री.	एक सदाबहार पेड़ जिसके फूल बहुत सुगंध वाले होते हैं।	বকুল	बकुल	a perennially blooming tree yielding very fragrant small flowers.
मौला	पु.	1. स्वामी; 2. ईश्वर; 3. वह गुलाम जिसे मुक्ति मिली हो।	স্বামী; ঈশ্বর; মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস	स्वामी; ईश्वर; मुक्तिप्राप्त क्रीतदास	lord, master; God; a manumitted slave, freed man.
मौलाना	पु.	अरबी का बहुत बड़ा विद्वान, बड़ा मौलवी।	মৌলানা, আরবীর পন্ডিত, মৌলবী	मौलाना, आरबीर पन्डित, मौलबी	great scholar of Arabic.
मौलि	पु.	1. चोटी, सिरा; 2. मस्तक, सिर; 3. मुकुट, किरीट।	শিরোভাগ; মস্তক; মুকুট, কিরীট	शिरोभाग; मस्तक; मुकुट किरीट	top of anything; head; crown, diadem.
मौलिक	वि.	1. मूल-संबंधी, मूलगत; 2. जो किसी की छाया, उलथा, अनुकृति आदि न हो।	মৌলিক, মূলসম্বন্ধী মূলগত; আদিম, প্রথম উদ্ভাবিত	मौलिक, मूलसम्बन्धी, मूलगत; आदिम, प्रथम उद्भाबित	radical, primordial, fundamental; original.
मौलिकता	स्त्री.	मौलिक होने का भाव।	মৌলিকত্ব	मौलिकत्ब	originality.
मौसंबी (मौसमी)	स्त्री.	नींबू की जाति का एक प्रकार का मीठा फल।	মোসম্বী	मोसम्बी	a big sweet lemon
मौसम	पु.	1. गरमी, सरदी आदि के विचार से समय का विभाग, ऋतु; 2. किसी काम या बात के लिए उपयुक्त समय।	মরসুম্, ঋতু; উপযুক্ত অবসর	मरसुम्, ऋतु; उपजुक्त अबसर	season, weather; opportune time.
मौसमी	वि.	1. किसी विशिष्ट ऋतु या मौसम में होनेवाला;	মরসুমি, ঋতুগত;	मरसुमि, ऋतुगत;	seasonal, of the season;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. समयोपयोगी, काल के अनुकूल।	সময়োপযোগী	समयोपजोगि	opportune.
मौसा	पु.	संबंध के विचार से माता की बहन का पति।	মেসো	मेसो	husband of mother's sister.
मौसिया	वि.	मौसी के द्वारा संबंधित, मौसी के संबंध का।	মাসী সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মাসতুতো	मासी सम्पर्के सम्पर्कजुक्त, मासतुतो	through the relation of mother's sister.
मौसी	स्त्री.	माता की बहन।	মাসী	मासी	mother's sister, aunt.
मौसेरा	वि.	मौसी से संबद्ध, मौसी के संबंध का।	মাসীর সংগে সম্বন্ধযুক্ত	मासीर सङ्गे सम्बन्धजुक्त	related through mother's sister.
म्यान	स्त्री.	तलवार आदि रखने का कोष या गिलाफ।	আলোয়ারের খাপ	आलोयारेर खाप	sheath.
म्रियमाण	वि.	मरा हुआ या मृतप्राय।	ম্রিয়মাণ, মরনাপন্ন	म्रियमान, मरनापन्न	on the verge of death, moribund.
म्लान	वि.	1. कुम्हलाया या मुरझाया हुआ;	ম্লান, মলিন, বিবর্ণ, শুষ্ক;	म्लान, मलिन, बिबर्न, शुष्क;	faded, withered.
		2. निस्तेज, दुर्बल।	ক্ষীণ, দুর্বল	क्षीन, दुर्बल	languid, weary.
म्लानि	स्त्री.	मलिनता, कांतिक्षय।	মালিন্য, কান্তিক্ষয়, দীপ্তিহীনতা	मालिन्य, कान्तिक्षय, दीप्तिहीनता	languor, lassitude, fading.
यंत्र	पु.	विशेष प्रकार से बनाया हुआ कोई ऐसा उपकरण जो किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए अथवा कोई चीज बनाने के काम आता हो, औजार।	যন্ত্র, শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের হাতিয়ার, কল, মেশিন	जन्त्र, शिल्पद्रब्यादि निर्मानेर हातियार, कल, मेशिन	instrument, mechanical contrivance.
यंत्रणा	स्त्री.	बहुत अधिक तीव्र कष्ट या पीड़ा।	যন্ত্রণা, যাতনা, পীড়া, ক্লেশ	जन्त्रना, जातना, पीड़ा, क्लेश	pain, anguish, affliction, torture.
यंत्र-तंत्र	पु.	ऐसी क्रिया जिसमें तांत्रिक शास्त्र का प्रयोग किया जाता है, जादूटोना।	তন্ত্রমন্ত্র	तन्त्रमन्त्र	sorcery.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यकायक	क्रि. वि.	एकाएक।	অকস্মাৎ, সহসা	अकस्मात्, सहसा	all at once, suddenly, immediately.
यकीन	पु.	विश्वास, एतबार।	বিশ্বাস	बिश्वास	confidence, faith.
यकीनन	क्रि. वि.	निश्चित रूप से।	নিশ্চয়ই, অবশ্যই	निश्चयइ, अबश्यइ	certainly, surely.
यक्ष्मा	स्त्री.	क्षय नामक रोग, तपेदिक का रोग।	যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগবিশেষ, ক্ষয়কাশ	जक्ष्मा, क्षयरोगबिशेष, क्षयकाश	pulmonary disease. consumption, tuberculosis.
यजन	पु.	1. यज्ञ करना;	যজ্ঞকরণ;	जज्ञकरन;	the act of sacrificing or worshipping;
		2. यज्ञभूमि।	যজ্ঞভূমি	जज्ञभूमि	a place of sacrifice.
यजमान	पु.	ब्राह्मण को दान-दक्षिणा आदि देकर यज्ञ कराने वाला व्यक्ति।	যজমান, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাপক	जजमान, जज्ञादिर अनुष्ठापक	householder who performs the sacrifice through priests.
यजमानी	स्त्री.	यजमानों के यहां कर्मकांड आदि कराने तथा उनसे दान-दक्षिणा आदि लेने की वृत्ति।	যজমানি যজমানবৃত্তি, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়	जजमानि, जजमानबृत्ति, पौरोहित्य-ब्यबसाय	occupation of performing sacrifice for the household.
यज्ञ	पु.	प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन होता था।	যজ্ঞ	जज्ञ	ceremony of the Aryas in which oblations were offered.
यज्ञ-कर्ता	पु. वि.	यज्ञ करनेवाला।	যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞ-কারক	जज्ञकर्ता, जज्ञकारक	one who performs the ceremony of sacrifice or oblation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यज्ञ-सूत्र	पु.	जनेऊ, यज्ञोपवीत।	যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত, পৈতা	जज्ञसूत्र, जज्ञोपबीत, पैता	sacrificial thread or cord, sacred thread.
यज्ञशाला	स्त्री.	यज्ञ करने का स्थान।	যজ্ঞশালা, যজ্ঞসদন	जज्ञशाला, जज्ञसदन	sacrificial hall, house or place for keeping the sacrificial fire.
यज्ञोपवीत	पु.	1. हिन्दुओं का एक संस्कार जिसमें बालक को पहले – पहल तीन तागों का मण्डलाकार सूत पहनाया जाता है;	উপনয়ন সংস্কার;	उपनयन संस्कार;	a Hindu ceremony in which a child is introduced to wearing the sacred thread;
		2. तीन तागोंवाला वह सूत्र जो उक्त अवसर पर बालक को पहले-पहल पहनाया जाता है, जनेऊ।	যজ্ঞসূত্র, পৈতা	जज्ञसूत्र, पैता	sacred or sacrificial thred.
यति	पु., स्त्री.	1. संन्यासी;	যতি, সন্ন্যাসী;	जति, सन्न्यासी;	ascetic, one who has renounced the world and controlled his passions;
		2. संगीत अथवा काव्यछंदों के चरणों में वह स्थान जहां पढ़ते समय थोड़ा विश्राम हो।	পদচ্ছেদ, পদবিরাম, পাঠবিরাম	पदच्छेद, पदबिराम, पाठबिराम	(music) pause, (prosody) caesura.
यतिभंग	पु.	काव्य का लय संबंधी एक दोष जिसमें नियत स्थान पर विश्राम नहीं होता, बल्कि उससे कुछ पहले या पीछे होता है।	যতিপাত	जतिपात	(prosody) caesural flaw.
यतीम	पु.	ऐसा बालक जिसके माता-पिता मर गए हों, अनाथ।	মাতৃপিতৃহীন, অনাথ	मातृपितृहीन, अनाथ	orphan.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यत्किंचित्	वि.	थोड़ा-सा, जरा सा।	যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প	जत्किञ्चित, अत्यल्प	whatever, whatsoever.
यत्न	पु.	1. किसी काम या बात के लिए किया जानेवाला उद्योग, कोशिश;	যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম, প্রয়াস;	जत्न, चेष्टा, उद्यम, प्रयास;	effort, endeavour;
		2. उपाय, युक्ति।	উপায়, কৌশল	उपाय, कौशल	means, device.
यत्नवान	वि.	यत्न करनेवाला।	যত্নশীল	जत्नशील	making effort or exertion, diligent.
यत्र	क्रि. वि.	जिस जगह, जहां।	যথা স্থানে, যেখানে	जथा स्थाने, जेखाने	in which place, where.
यत्र-तत्र	क्रि.	1. जहां-तहां, इधर-उधर।	যত্রতত্র, যেখানে-সেখানে, ইতস্তত:	जत्रतत्र, जेखाने-सेखाने इतस्ततः	wherever, anywhere.
यथा	अव्य.	जिस प्रकार से, जैसे।	যেরূপ, যেমন	जेरूप, जेमन	in which manner, as, like as, like, according to.
यथाक्रम	क्रि. वि.	ठीक और निश्चित क्रम से।	ক্রমানুসারে	क्रमानुसारे	according to order, in regular order or series, in due succession.
यथातृथ्य	वि., क्रि. वि.	ज्यों का त्यों, हूबहू।	তথ্যানুসারে, যথার্থভাবে	तथ्यानुसारे, जथार्थभाबे	in accordance with the truth, really, truly.
यथानुक्रम	क्रि. वि.	यथाक्रम, क्रमानुसार।	যথাক্রম, ক্রমানুসারে	जथाक्रम, क्रमानुसारे	according to order.
यथापूर्व	क्रि. वि.	पहले की तरह।	যথাপূর্ব, পূর্ববৎ	जथापूर्व, पूर्बबत्	as before, as previously.
यथायोग्य	क्रि. वि.	1. जैसा चाहिए ठीक वैसा;	যথাযোগ্য, ঠিক উপযুক্তমত;	जथाजोग्य, ठिक उपजुक्तमत;	consonant with propriety;
		2. यथोचित।	যথোচিত	जथोचित	suitably, properly. fitly,

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यथार्थ	पु. वि.	जो अपने अर्थ (आशय, उद्देश्य, भाव आदि) के ठीक अनुरूप हो।	যথার্থ, প্রকৃত, খাঁটি, সত্য	जथार्थ, प्रकृत, खांटि, सत्य	accordant with reality, conformable to truth, or to the true meaning or sense, agreeing with fact.
यथार्थतः	क्रि. वि.	वास्तव में, सचमुच।	যথার্থতঃ, যথার্থ-ভাবে, সত্য সত্য	जथार्थतः, जथार्थ-भावे, सत्य सत्य	truly, rightly, fitly, really.
यथार्थता	स्त्री.	1. यथार्थ होने की अवस्था या भाव; 2. सच्चाई, सत्यता।	যথার্থতা, যথার্থ্য; সত্যতা	जथार्थता, जथार्ज्य; सत्यता	reality; correctness, accuracy.
यथार्थवाद	पु.	आजकल साहित्यिक क्षेत्र में यह मत या सिद्धांत कि प्रत्येक बात अपने यथार्थ रूप में चित्रित की जानी चाहिए।	বাস্তববাদ	बास्तबबाद	realism.
यथार्थवादी	पु.वि.	1. यथार्थवाद से संबंध रखनेवाला; 2. यथार्थवाद के अनुरूप होनेवाला; 3. यथार्थवाद के सिद्धान्तों का समर्थक।	বাস্তববাদ-সম্বন্ধী; বাস্তববাদানুগ বাস্তববাদী	बास्तबबाद-सम्बन्धी; बास्तबबादानुग; बास्तबबादी	pertaining to realism; in accordance with realism; realist.
यथावत्	क्रि. वि.	1. जैसा होना चाहिए वैसा; 2. अच्छी तरह से।	বিধি অনুযায়ী; যথাযথভাবে	बिधि अनुजायी; जथाजथभावे	exactly as it should be; duly, properly, rightly.
यथा विधि	क्रि. वि.	निश्चित की अथवा बतलाई हुई विधि के अनुसार।	যথাবিধি বিধানানুরূপ	जथाबिधि बिधानानुरूप	according to proper method, according to rule.
यथाशक्ति	क्रि. वि.	सामर्थ्य के अनुसार।	যথাশক্তি, সামর্থানুসারে, ক্ষমতানুযায়ী	जथाशक्ति, सामर्थानुसारे, क्षमतानुजायी	to the best of (one's) ability, as far as possible.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यथाशक्य	क्रि.	दे. 'यथाशक्ति'।	দ্র: 'যথাশক্তি'	द्र: 'यथाशक्ति'	see 'यथाशक्ति'.
यथाशास्त्र	क्रि. वि.	जो कुछ शास्त्रों में बतलाया गया हो उसी के अनुसार।	যথাশাস্ত্র, শাস্ত্রানুসারে	जथाशास्त्र, शास्त्रानुसारे	according to the **Sastras** or sacred codes of law, according to scripture, as the law ordains, according to the precept of science.
यथाशीघ्र	क्रि. वि.	जितनी शीघ्र संभव हो।	যথাশীঘ্র, যথা-সম্ভব সত্বর	जथाशीघ्र, जथा-सम्भब सत्वर	as quickly as possible.
यथासम्भव	क्रि. वि.	जहां तक हो सके।	যথাসম্ভব	जथासम्भब	accordant with possibility, as far as possible.
यथासमय	क्रि. वि.	1. ठीक या नियत समय आनेपर; 2. जब जैसा समय हो, तब उसके अनुसार।	যথাসময়, ঠিক সময়; সময়ানুসারে	जथासमय, ठिक समय; समयानुसारे	at the proper time; according to time or circumstances.
यथासाध्य	क्रि. वि.	दे. 'यथाशक्ति'।	দ্র: 'যথাশক্তি'	द्र: 'यथाशक्ति'	see 'यथाशक्ति'.
यथास्थान	क्रि. वि.	अपने उचित या उपयुक्त स्थान पर।	যথাস্থান, উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট স্থানে	जथास्थान, उपजुक्त बा निर्दिष्ट स्थाने	in proper place.
यथास्थिति	क्रि. वि.	जब जैसी स्थिति हो, तब उसी के अनुसार।	যথার্থরূপে	जथार्थरूपे	according to circumstances.
यथेच्छ	वि.	इच्छा के अनुसार।	যথেচ্ছ, ইচ্ছামত	जथेच्छ, इच्छामत	according to wish or desire.
यथेष्ट	वि.	1. इच्छा के अनुसार; 2. उतना जितने की इच्छा हो।	ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছামত; যথেপ্সিত	इच्छानुरूप, इच्छामत; जथेप्सित	according to wish or desire; as much as may be wanted.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यथोचित	वि.	जैसा उचित या मुनासिब हो वैसा।	ঔচিত্যানুরূপ, যথোপযুক্ত	औचित्यानुरूप, जथोपजुक्त	accordant with fitness or propriety or equity, as is right or befitting.
यथोपयुक्त	वि.	जैसा उपयुक्त अथवा उचित हो।	যথোপযুক্ত	जथोपजुक्त	as is proper or befitting.
यदा-कदा	क्रि. वि.	कभी-कभी।	কখনো, কখনো	कखनो कखनो	whenever, now and then.
यदि	अव्य.	अगर, अमुक अवस्था हो तो।	যদি	जदि	if, in case.
यदृच्छया	क्रि. वि.	1. अचानक;	আকস্মিকভাবে;	आकस्मिकभाबे;	accidently, spontaneously;
		2. दैवयोग से।	দৈবাৎ	दैबात्	by chance.
यदृच्छा	स्त्री.	1. स्वेच्छाचार;	স্বেচ্ছানুসারে;	स्बेच्छानुसारे;	acting as one likes, self-will;
		2. आकस्मिक संयोग।	আকস্মিক সংযোগ	आकस्मिक संजोग	chance, accident.
यद्यपि	अव्य.	अगर ऐसा है, भी।	যদ্যপি, একান্তই যদি, যদিও	जद्यपि, एकान्तइ जदि, जदिओ	even if, although, though.
यम	पु.	1. भारतीय आर्यों के एक प्रसिद्ध देवता जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं;	যম, মৃত্যুর অধিদেবতা;	जम, मृत्युर अधिदेबता;	the god of death in Hindu mythology;
		2. मन, इन्द्रिय आदि को वश या रोक में रखना;	আত্মসংযম;	आत्मसंजम;	self-restraint, self-control;
		3. जुड़वां।	যমজ	जमज	twin.
यमक	पु.	साहित्य में एक शब्दालंकार जिसमें एक शब्द भिन्न अर्थों में दो बार आए।	যমক, শব্দালঙ্কার-বিশেষ	जमक, शब्दालङ्कार-बिशेष	(rhet.) repetition in the same stanza (in any part of it) of words or syllables similar in sound, but different in meaning.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यमज	वि.,	जुड़वां;	যমজ	जमज	twin-born;
	पु.	जुड़वां बच्चे।	যমজ সন্তান	जमज सन्तान	twins.
यमदूत	पु.	यमराज का दूत।	যমদূত, মৃত্যুদূত	जमदूत, मृत्युदूत	Yam's (god of death) messenger or minister.
यमल	वि.	जुड़वां।	যমজ	जमज	twin.
	पुं.	जोड़ा।	জোড়া	जोड़ा	pair, couple.
यमलोक	पु.	वह लोक जहां मरने के उपरांत मनुष्य जाते हैं।	যমলোক, শমনভুবন	जमलोक, शमनभुबन	Yam's world, the region of Yam (the world of death).
यव (यवक)	पु.	जौ नामक अन्न।	যব	जब	barley corn.
यवन	पु.	प्राचीन भारत में यूनान से आये हुए लोगों की संज्ञा।	প্রাচীন ভারতে গ্রীকদের যবন বলা হইত	प्राचीन भारते ग्रीकदेर जबन बला हइत	(ancient India) Greek.
यवनिका	स्त्री.	रंगमंच का परदा।	যবনিকা	जबनिका	curtain.
यश	पु.	कीर्ति, प्रशंसा।	যশ, কীর্তি, খ্যাতি	जश, कीर्ति, ख्याति	glory, splendour, name, praise, reputation.
यशस्कर	वि.	यशदायक।	যশস্কর, কীর্তিজনক	जशस्कर, कीर्तिजनक	causing renown, conferring fame or distinction.
यशस्विनी	स्त्री., वि.	जिसका खूब यश हो।	যশস্বিনী, কীর্তিমতী নারী	जशस्बिनी, कीर्तिमती नारी	lady of renown or distinction, renowned or celebrated (female).
यशस्वी	वि.	जिसका यश चारों ओर फैला हो।	যশস্বী, কীর্তিমান	जशस्बी, कीर्तिमान	famous, renowned, celebrated.
यष्टि	स्त्री.	1. छड़ी; 2. टहनी, शाखा।	যষ্টি, ছড়ি, লাঠি; শাখা	जष्टि, छड़ि, लाठि; शाखा	stick, staff; branch, twig.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यष्टिका	स्त्री.	हाथ में रखने की बड़ी या छोटी लाठी।	যষ্টি	यष्टि	staff, stick.
यह	सर्व., वि.	1. एक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर निकट के और सब मनुष्यों तथा पदार्थों के लिए होता है;	এই তিনি, সে, ইহা;	एइ, तिनि, से, इहा;	this (person), he, she, it;
		2. जो वर्तमान या समीप हो या जिसका अभी-अभी उल्लेख किया गया हो।	যা উপস্থিত বা কাছে আছে, এক্ষণি যাহার উল্লেখ করা হইল	जा उपस्थित बा काछे आछे, एक्षनि जाहार उल्लेख करा हइल	this.
यहां	क्रि. वि.	इस स्थान पर।	এই স্থানে, এখানে	एइ स्थाने, एखाने	in this place, here, hither.
यही	वि.	निश्चित रूप से यह।	এইটিই, ইহাই	एइटिइ, इहाइ	this very, this same, the very same (person or thing).
यांत्रिक	पु. वि.	1. मशीनों का रहस्य जाननेवाला और उनकी मरम्मत करनेवाला;	যন্ত্রী, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের রহস্য-জ্ঞাতা;	जन्त्री, जन्त्र ओ जन्त्रांशेर रहस्य-ज्ञाता;	mechanic;
		2. यंत्र से संबंधित;	যন্ত্র সম্পর্কিত;	जन्त्र सम्पर्कित;	relating to instrument or machines;
		3. यंत्रवत् चलनेवाला।	যন্ত্রের মত চলনযুক্ত	जन्त्रेर मत चलनजुक्त.	working like a machine.
यांत्रिकी	स्त्री.	वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें अनेक प्रकार के यंत्र बनाने, चलाने, सुधारने आदि के उपायों तथा रीतियों का विवेचन होता है।	যন্ত্রবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান	जन्त्रबिद्या, जन्त्रबिज्ञान	mechanics.
या	अव्य.	विकल्पसूचक शब्द, अथवा।	বিকল্পসূচক, শব্দ, অথবা	बिकल्पसूचक शब्द अथबा	or, either.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
याक्ष्मिकी	स्त्री.	आधुनिक चिकित्सा की वह शाखा जिसमें विशिष्ट रूप से यक्ष्मा रोग के कीटाणुओं आदि का नाश करने के उपायों और सिद्धान्तों का विवेचन होता है।	যক্ষ্মাবিজ্ঞান	जक्ष्माबिज्ञान	medicinal science etc. concerning tuberculosis.
याग	पु.	दे. 'यज्ञ'।	যাগ, যজ্ঞ	जाग, जज्ञ	see 'यज्ञ'.
याचक	वि., पु.	1. मांगनेवाला;	যাচক, প্রার্থী;	जाचक, प्रार्थी;	beggar;
		2. भिक्षुक।	ভিক্ষুক	भिक्षुक	mendicant.
याचकता	स्त्री.	1. याचक होने की अवस्था या भाव;	যাঞ্চাকরণ;	जाञ्चाकरन;	begging;
		2. भिक्षावृत्ति।	ভিক্ষাবৃত্তি	भिक्षाबृत्ति	mendicancy.
याचना	स्त्री.	कुछ मांगने के लिए किसी से नम्रतापूर्वक की जानेवाली प्रार्थना।	যাঞ্চা, প্রার্থনা, ভিক্ষা	जाञ्चा, प्रार्थना, भिक्षा	asking, soliciting, begging, request, entreaty.
याचिका	स्त्री.	वह प्रार्थनापत्र जो न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है।	আবেদনপত্র, দরখাস্ত	आबेदनपत्र, दरखास्त	petition, request.
याचित	वि.	जो कुछ मांगा गया हो।	প্রার্থিত	प्रार्थित	asked, solicited, prayed for, begged.
याजक	पु.	यज्ञ करनेवाला।	যাজক, যজ্ঞকারী, যাজ্ঞিক	जाजक, जज्ञकारी, जाज्ञिक	sacrificer, sacrificing priest, priest officiating at a sacrifice.
याजन	पु.	यज्ञ की क्रिया।	যাজন, যজ্ঞকরণ	जाजन, जज्ञकरन	act of performing or conducting a sacrifice.
यातना	स्त्री.	घोर शारीरिक कष्ट।	যাতনা, যন্ত্রণা, তীব্র বেদনা	जातना, जन्त्रना, तीब्र बेदना	acute pain, agony, torment, torture.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यातायात	पु.	एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहने की क्रिया या भाव।	যাতায়াত, গমনাগমন	जातायात, गमनागमन	going and coming, traffic.
यातुधान	पु.	राक्षस।	রাক্ষস	राक्षस	evil spirit, demon or devil.
यात्रा	स्त्री.	एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया।	গমন, প্রস্থান, দেশান্তরগমন	गमन, प्रस्थान देशान्तरगमन	journey, travel.
यात्रा-भत्ता	पु.	यात्रा करने के बदले अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को मिलनेवाला भत्ता।	ভ্রমণভাতা	भ्रमनभाता	travelling allowance.
यात्रिक	पु., वि.	1. यात्रा करनेवाला व्यक्ति;	পথিক;	पथिक;	traveller;
		2. यात्रा संबंधी।	যাত্রাসম্বন্ধী	जात्रासम्बन्धी	relating to a travel or journey.
यात्री	पु.	वह जो यात्रा कर रहा हो, मुसाफिर।	যাত্রী, যাত্রাকারী, ভ্রমণকারী	जात्री, जात्राकारी, भ्रमनकारी	one who is on a journey, traveller.
याद	स्त्री.	1. स्मरण करने की क्रिया या भाव;	স্মরণ;	स्मरन;	remembrance, recollection;
		2. स्मरणशक्ति।	স্মরণশক্তি	स्मरनशक्ति	memory.
यादगार	स्त्री.	स्मृतिचिह्न।	স্মৃতিচিহ্ন	स्मृतिचिह्न	monument, memorial·
याददाश्त	स्त्री.	स्मरणशक्ति।	স্মরণশক্তি	स्मरनशक्ति	memory.
यान	पु.	वह उपकरण या साधन जिस पर सवार होकर यात्रा की जाती है अथवा माल ढोया जाता है।	যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়	जाहाते चड़िया जाओया जाय	conveyance or vehicle of any kind, carriage, chariot, wagon, car, etc.
यानी (याने)	अव्य.	अर्थ या आशय यह है कि, अर्थात्।	অর্থাৎ	अर्थात्	that is to say, viz., i.e.
यापन	पु.	व्यतीत करना, बिताना (समय)।	যাপন, অতিবাহন, কালক্ষেপ	जापन, अतिबाहन, कालक्षेप	spending or passing (time).

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यापना	स्त्री.	वह धन जो किसी को जीविका-निर्वाह के लिए दिया जाए।	খোরপোশ, ভরণপোষণের খরচ	खोरपोश, भरनपोषनेर खरच	(money paid for) maintenance.
याम	पु.	तीन घंटे का समय।	তিন ঘন্টা	तिन घन्टा	period or watch of three hours.
यामिनी	स्त्री.	रात्रि, रात।	যামিনী, রাত্রি	जामिनी, रात्रि	night.
यायावर	वि.	वह जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो।	যাযাবর, ভবঘুরে	जाजाबर, भवघुरे	frequently travelling, vagrant, having no fixed abode.
	पु.	साधु, संत।	পরিব্রাজ	परिब्राज	mendicant, saint.
यार	पु.	1. मित्र, दोस्त; 2. किसी स्त्री के विचार से उसका प्रेमी या उपपति।	ইয়ার, বন্ধু; জার	इयार,बन्धु; जार	friend; paramour.
याराना	पु.	मित्र (यार) होने की अवस्था, धर्म या भाव, पर-स्त्री और पर-पुरुष का अनुचित संबंध।	বন্ধুত্ব, ব্যভিচার	बन्धुत्व, ब्यभिचार	friendliness, friendship, illicit relations.
	वि.	मित्र का जैसा।			friendly.
यारी	स्त्री.	मित्र (यार) होने की अवस्था या भाव।	বন্ধুত্ব	बन्धुत्व	friendship.
युक्त	वि.	1. किसी के साथ जुड़ा, मिला या लगा हुआ; 2. सम्मिलित।	সংগলগ্ন, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত; সমেত, সম্মিলিত	संलग्न, संश्लिष्ट, संजुक्त; समेत, सम्मिलित	joined, united, connected, attached; combined, included.
युक्ति	स्त्री.	1. उपाय, तरकीब; 2. तर्क; 3. युक्त होने की अवस्था या भाव।	উপায়; তর্ক, বিচার; সংযোগ	उपाय; तर्क, बिचार; संजोग	means, contrivance, device; argument, reason; union, junction, combination.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
युक्तिकर	वि.	उपयुक्त तर्क के अनुकूल, ठीक।	যুক্তিসংগত, ন্যায্য	जुक्तिसङ्गत, न्याज्य	in accordance with reason, proper, fit.
युक्तियुक्त	वि.	युक्तिपूर्ण, उचित।	যুক্তিযুক্ত, যুক্তিপূর্ণ, ন্যায্য	जुक्तिजुक्त, जुक्तिपूर्न, न्याज्य	argumentative, proper, fit.
युग	पुं.	1. काल, समय; 2. पुराणानुसार काल का एक दीर्घ परिमाण।	কাল, সময়; সত্য ত্রেতাদি পৌরাণিক কাল	काल, समय; सत्य त्रेतादि पौरानिक काल	period, time; age of the world according to Puranas.
	वि.	जो गिनती में दो हो।	যুগল, যুগ্ম	जुगल, जुग्म	pair, couple.
युगद्रष्टा	पुं.	युग की समस्याओं और उसके हल को स्पष्ट रूप से सोचने-समझनेवाला व्यक्ति, अत: युग का महापुरुष।	যুগসত্যের দর্শনকারী মহাপুরুষ	जुगसत्येर दर्शनकारी महापुरुष	seer of the age, hence a great man
युगधर्म	पुं.	कोई ऐसा काम जो किसी विशिष्ट युग में प्राय: सभी लोग साधारण रूप से करते हों।	যুগধর্ম, যুগোপযোগী ধর্ম, নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য বা ঝোঁক	जुगधर्म, जुगोपजोगी धर्म, निर्दिष्ट जुगेर बैशिष्ट्य बा झोंक	standard of the age, order of the day.
युगपत्	अव्य.	एक ही समय में, साथ-साथ।	যুগপৎ, একই সময়ে	जुगपत् एकइ समये	simultaneously, all at once, all together, at the same time.
युगपुरुष	पुं	अपने समय का बहुत बड़ा महापुरुष।	যুগপুরুষ	जुगपुरुष	man of the age.
युगल	वि. पुं.	युग्म, जोड़ा।	যুগল, যুগ্ম	जुगल, जुग्म	pair, couple.
युगांत	पुं.	1. प्रलय; 2. युग का अंतिम काल या समय।	যুগান্ত, প্রলয়; যুগাবসান	जुगान्त, प्रलय; जुगाबसान	destruction of the universe; the end of an age
युगांतर	पुं.	प्रस्तुत युग के उपरांत आनेवाला दूसरा युग।	যুগান্তর, অন্য যুগ	जुगान्तर, अन्य जुग	succeeding epoch

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
युगावतार	पुं.	युग का अवतारी महान पुरुष।	যুগাবতার	जुगाबतार	great man of the age.
युग्म	पु.	जोड़ा, ऐसी दो वस्तुएं जो प्रायः साथ आती या रहती हों।	যুগ্ম, জোড়া, যুগল	जुग्म, जोड़ा, जुगल	pair, couple.
युग्मज	पु.	एक साथ एक ही गर्भ से उत्पन्न होनेवाले दो जीव।	যমজ সন্তান	जमज सन्तान	twin.
	वि.	(ऐसे दो) जो एक साथ उत्पन्न हुए हों।	যমজ	जमज	twin-born.
युत	वि.	देखें 'युक्त'।	দ্রষ্টব্য 'যুক্ত'	द्रष्टब्य 'युक्त'	see 'युक्त'.
युद्ध	पु.	किसी प्रकार के साधन से आपस में होनेवाली लड़ाई।	সংগ্রাম, সমর, লড়াই	संग्राम, समर, लड़ाइ	war, battle etc.
युद्धकारी	वि.	जो किसी से युद्ध कर रहा हो अथवा किसी युद्ध में किसी पक्ष से सम्मिलित हो।	যে যুদ্ধ করে	जे जुद्ध करे	making war, fighting.
युद्धपोत	पु.	वह बहुत बड़ा समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं।	রণতরী	रनतरी	warship.
युद्धबंदी	स्त्री.	1. युद्ध का रुकना, युद्ध-विराम।	অস্ত্রসম্বরণ, যুদ্ধবিরতি;	अस्त्रसम्बरन, जुद्धविरति;	ceasefire.
	पु.	2. लड़ाई का कैदी।	যুদ্ধবন্দী	जुद्धबन्दी	prisoner of war.
युद्धभूमि	स्त्री.	लड़ाई का मैदान, रणक्षेत्र।	যুদ্ধভূমি, রণক্ষেত্র	जुद्धभूमि, रनक्षेत्र	battle ground, field of battle.
युद्ध विराम	पु.	चलता हुआ युद्ध इस उद्देश्य से रोकना कि दोनों पक्ष आपस में संधि की बातचीत कर सकें।	যুদ্ধবিরতি	जुद्धबिरति	ceasefire.
युद्धोन्मत्त	वि.	जो युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा हो।	রণোন্মত্ত	रनोन्मक्त	mad for war.
युयुत्सु	वि.	जिसके मन में युद्ध करने की इच्छा हो।	যুযুৎসু, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক	जुजुत्सु, जुद्ध करिते इच्छुक	desirous of fighting, eager for battle.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
युवक	पु.	नौजवान व्यक्ति, विशेषतः 16 से 35 वर्ष के बीच की अवस्था का व्यक्ति।	যুবক, যুবা, প্রাপ্তযৌবন ব্যক্তি	जुबक, जुबा, प्राप्तजौबन व्यक्ति	youth.
युवती	स्त्री.	जवान स्त्री।	যুবতী, যৌবন-প্রাপ্তা নারী	जुबती, जौबन-प्राप्ता नारी	young woman, damsel.
युवराज	पु.	वह सबसे बड़ा राजकुमार जो अपने पिता के राज्य का वास्तविक अधिकारी होता है।	সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র	सिंहासनेर उत्तराधिकारी राजपुत्र	heir-apparent, crown-prince.
युवराशी	स्त्री.	राजकुमारी।	রাজকুমারী	राजकुमारी	princess.
युवा	वि.	जवान, जिसकी अवस्था सोलह से लेकर पैंतीस वर्ष तक के अन्दर हो।	যুবা, প্রাপ্তযৌবন	जुबा, प्राप्तजौबन	young (between the age of 16 and 35 years.).
यूं		अव्य. यों, इस प्रकार।	এই প্রকার	एइ प्रकार	thus, in this manner.
यूथ	पु.	1. समूह, झुंड;	যূথ সমূহ, পশুপক্ষীর দল বা পাল;	जूथ, समूह, पशुपक्षीर दल बा पाल;	flock, herd (of birds, animals etc.);
		2. सेना की टुकड़ी।	সৈনিকদের দল	सैनिकदेर दल	band or company of army.
यूथपति	पु.	1. झुंड या दल का नेता; 2. सेना की टुकड़ी का अधिकारी।	যূথপতি, যূথমুখ্য; সৈনিকদলের অধিনায়ক	जूथपति, जूथमुख्य; सैनिकदलेर अधिनायक	leader or head of a flock or herd; captain or commander of a company or band of army.
ये	सर्व., वि.	1. निर्दिष्ट समीपस्थ वस्तुएं या व्यक्ति;	এই সমস্ত;	एइ समस्त;	these;
		2. दो या अधिक समीपस्थ वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होनेवाला विशेषण।	এরা, ইহারা	एरा, इहारा	they.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
येन केन प्रकारेण	क्रि. वि.	किसी न किसी प्रकार।	যেন তেন প্রকারে, যেমন তেমন করিয়া	जेन तेन प्रकारे, जेमन तेमन करिया	some how or the other.
यों		देखिए 'यूं.'।	দ্রষ্টব্য 'যূঁ'	द्रष्टव्य 'यूं'	see 'यूं'.
यों ही (यूं ही)	क्रि. वि.	1. इसी ढंग, तरह या प्रकार;	এই প্রকারে;	एइ प्रकारे;	in this way;
		2. बिना किसी आवश्यक प्रयोजन के।	এমনি	एमनि	generally speaking.
योग	पु.	1. दो या अधिक पदार्थों का एक में मिलना;	সংযোগ, মিলন;	संजोग, मिलन;	compound;
		2. पातंजलि द्वारा प्रवर्तित दर्शन की एक शाखा;	পতঞ্জলি- প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ;	पतन्जलि-प्रवर्तित दर्शनशास्त्रविशेष;	Yoga system of philosophy established by Patanjali;
		3. मानसिक एकाग्रता की साधना;	মানসিক একাগ্রতা লাভের সাধনা;	मानसिक एकाग्रता लाभेर साधना;	concentration of mental faculties;
		4. उपाय;	উপায়;	उपाय;	device, remedy;
		5. गणित में दो या अधिक संख्याओं का जोड़;	(গণিতে) দুই বা ততোধিক সংখ্যার মিলন	(गनिते) दुइ बा ततोधिक संख्यार मिलन;	(arith.) addition;
		6. फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल या अवसर।	(ফলিত জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধবিশেষ	(फलित ज्योतिषे) ग्रहनक्षत्रादिर सम्बन्धविशेष	(astro) conjunction.
योग-क्षेम	पु.	कुशल-मंगल, खैरियत।	কুশল মংগল	कुशल मङ्गल	well-being.
योगदर्शन	पु.	पातंजलि प्रणीत दर्शन की एक शाखा।	যোগদর্শন, পতঞ্জলিকৃত দর্শন	जोगदर्शन, पतन्जलिकृत दर्शन	branch of philosophy established by Patanjali.
योगदान	पु.	किसी को सहायता देना।	যোগদান কার্যে সহকারিতা কারণ	जोगदान कार्जे सहकारिता कारन	contribution.
योगफल	पु.	वह अंक या फल जो दो अंकों को जोड़ने से प्राप्त हो।	যোগফল, সঙ্কলনের ফলে প্রাপ্ত রাশি	जोगदान, सङ्कलनेर फले प्राप्त राशि	sum, total.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
योगबल	पु.	योग से प्राप्त होनेवाला तेज या शक्ति।	যোগাবল, যোগলব্ধ শক্তি	जोगाबल, जोगलब्ध शक्ति	force of devotion, the power or strength derived from continued abstract meditation.
योगमाया	स्त्री.	दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्रों में ईश्वर या ब्रह्म की वह माया जिससे नाम, गुण और रूप से युक्त यह सारी सृष्टि बनी है और जिसके अन्दर ईश्वर या ब्रह्मा का तत्व छिपा हुआ व्याप्त है।	যোগমায়া, ভগবানের জগৎ-সর্জ্জনার্থ শক্তি, ভগবানের লীলা-বিস্তারিণী শক্তি	जोगमाया, भगबानेर जगत्-सर्जनार्थ शक्ति भगबानेर लीला-बिस्तारिनी शक्ति	power of God in the creation of the world personified as a deity.
योग-विद्या	स्त्री.	वह विद्या या शास्त्र जिसमें योग-संबंधी क्रियाओं का विवेचन होता है।	যোগশাস্ত্র	जोगशास्त्र	science of Yoga.
योगशक्ति	स्त्री.	योग द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्ति।	যোগবল	जोगबल	supernatural power attained through yoga.
योगसिद्ध	वि.	वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर ली हो।	যোগসিদ্ধ, যোগেসিদ্ধিপ্রাপ্ত	जोगसिद्ध, जोगेसिद्धिप्राप्त	perfected by means of Yoga.
योगसिद्धि	स्त्री.	योग-क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना।	যোগসিদ্ধি, যোগ-সাধনায় সাফল্য	जोगसिद्धि, जोग-साधनाय साफल्य	acquiring mastery in Yoga practices.
योगाभ्यास	पु.	योग दर्शन में वर्णित विधि के अनुसार योग का अनुष्ठान या साधन।	যোগাভ্যাস, যোগসাধনা	जोगाभ्यास, जोगसाधना	practising Yoga as directed in the Yoga philosophy.
योगाभ्यासी	पु.	योग की साधना करनेवाला योगी।	যোগসাধক, যোগী	जोगसाधक, जोगी	one who practises Yoga.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
योगायोग	पु.	उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता।	যোগ্যতা-অযোগ্যতা	जोग्यता-अजोग्यता	suitability and unsuitability.
योगासन	पु.	योग-साधन के लिए विहित आसन अर्थात् बैठने के ढंग या मुद्राएं।	যোগাসন, যোগসাধনায় বসিবার প্রণালী	जोगासन, जोगसाधनाय बसिबार प्रनाली	posture of performing Yoga practices.
योगित्व	पु.	योगिता।	যোগীর গুণ বা ভাব	जोगीर गुन बा भाब	state or condition of Yogi.
योगिनी	स्त्री.	योग की साधना करनेवाली स्त्री।	যোগিনী, যোগসাধিকা	जोगिनी, जोगसाधिका	female Yogi.
योगिराज	पु.	योगियों में श्रेष्ठ, बहुत बड़ा योगी।	যোগিরাজ, যোগিশ্রেষ্ঠ	जोगिराज, जोगिश्रेष्ठ	king amongst Yogis, great Yogi.
योगी (जोगी)	पु.	1. वह जो योग की साधना करता हो;	যোগী, যোগসাধক;	जोगी, जोगसाधक;	follower of the Yoga system of philosophy,ascetic;
		2. शिव।	শিব	शिब	Siva.
योग्य	वि.	1. काबिल, लायक;	যোগ্য, উপযুক্ত, লায়েক, সমর্থ;	जोग्य, उपजुक्त, लायेक, समर्थ;	qualified (for), able;
		2. उचित, मुनासिब।	উচিত, সংগত	उचित, सङ्गत	proper, fit, suitable.
योग्यता	स्त्री.	1. योग्य होने की अवस्था, धर्म या भाव;	যোগ্যতা, উপযুক্ততা;	जोग्यता, उपजुक्तता;	suitability, propriety, fitness;
		2. काबलियत;	সামর্থ্য;	सामर्थ्य;	ability, capability;
		3. गुण।	কুশলতা	कुशलता	quality.
योजक	वि.	जोड़ने या मिलानेवाला।	সংযোগকারী	संजोगकारी	joining, uniting.
योजन	पु.	1. जोड़ने, मिलाने आदि की क्रिया या भाव;	সংযোগকরণ;	संजोगकरन;	joining, uniting, fixing;
		2. दूरी नापने का एक पुराना माप जो चार कोस अथवा 8 या 9 मील के बराबर होता था।	চারিক্রোশ পরিমাণ দৈর্ঘ্য	चारिक्रोश परिमान दैर्घ्य	measure of distance equal to four 'Kosas' or eight or nine miles.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
योजना	स्त्री.	किसी भावी कार्य के निष्पन्न करने का प्रस्तावित कार्यक्रम।	যোজনা, কর্মোদ্যোগ বা তাহার পরিকল্পনা	जोजना, कर्मोद्योग बा ताहार परिकल्पना	scheme, planning.
योजना आयोग	पु.	वह प्रशासकीय संस्था जो राजकीय योजनाओं का संचालन करती है।	পরিকল্পনা কমিশন	परिकल्पना कमिशन	Planning Commission.
योजनीय	वि.	1. जो किसी काम या बात में लगाए जाने के योग्य हो;	যোজনার যোগ্য;	जोजनार जोग्य;	fit to be employed or used;
		2. जो मिलाने के योग्य हो।	সংযোগযোগ্য;	संजोगजोग्य	fit to be joined, fit to be united or connected.
योजित	वि.	1. जिसकी योजना की गई हो;	যাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে;	जाहार परिकल्पना करा हइयाछे;	planned;
		2. किसी काम या बात में लगाया हुआ;	নিয়োজিত;	नियोजित;	employed, used;
		3. जोड़ा या मिलाया हुआ।	গ্রথিত	ग्रथित	joined, connected.
योद्धा	पु.	युद्ध करनेवाला सैनिक या सिपाही।	যুদ্ধকারী ব্যক্তি সৈনিক	जुद्धकारी ब्यक्ति, सैनिक	fighter, warrior, soldier, combatant.
योधन	पु.	युद्ध, लड़ाई।	যুদ্ধ	जुद्ध	war, battle.
योनि	स्त्री.	1. उत्पत्ति-स्थान;	উৎপত্তিস্থান;	उत्पत्तिस्थान;	place of birth or origin;
		2. स्त्रियों की जननेन्द्रिय;	স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়;	स्त्री-जननेन्द्रिय;	female organ of generation;
		3. प्राणियों के विभाग, जातियां या वर्ग जिनकी संख्या पुराणों में 84 लाख कही गई है।	(পুরাণ অনুসারে) ৮৪ লক্ষ প্রজাতির যে-কোনো একটি	(पुरान अनुसारे) 84 लक्ष प्रजातिर जे-कोनो एकटि	one class out of 84 lakh classes of creatures, according to Puranas.
योनिज	वि., पु.	जिसने योनि से जन्म लिया हो।	যোনিজাত	जोनिजात	born of the womb, viviparous.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
यौगिक	वि, पु.	1. योग (दर्शन) से संबंध रखनेवाला;	যৌগিক, যোগসম্বন্ধীয়;	जौगिक, जोगसम्बन्धीय;	relating to the religious practice of Yogaphilosophy
		2. दो शब्दों के योग या मेल से बना हुआ पद।	প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ	प्रकृति-प्रत्ययजोगे गठित शब्द	compound word.
यौन	वि.	पुरुष और स्त्रियों की जननेन्द्रियों से संबंध रखनेवाला।	স্ত্রী-পুরুষের সংগম সম্বন্ধীয়	स्त्री-पुरुषेर सङ्गम सम्बन्धीय	sexual.
यौन-विकृति	स्त्री.	आधुनिक मनोविज्ञान में काम-वासना की तृप्ति के लिए उत्पन्न होनेवाली वह विकृत स्थिति जो स्वाभाविक संभोग से भिन्न और उसके विपरीत हो।	স্বাভাবিক যৌন সম্বন্ধের বিকার	स्वाभाबिक जौन सम्बन्धेर बिकार	sexual perversion.
यौन-विज्ञान	पु.	स्त्री-पुरुष की जननेन्द्रियों तथा तत्संबंधी क्रियाओं का विज्ञान।	যৌনবিজ্ঞান, যৌনশাস্ত্র	जौनबिज्ञान, जौनशास्त्र	sexology.
यौवन	पु.	अवस्था का वह मध्यभाग जो बाल्यावस्था के उपरान्त आरम्भ होता है और जिसकी समाप्ति पर वृद्धावस्था आती है।	যৌবন, যুবাবস্থা, তারুণ্য	जौबन, जुबाबस्था, तारुन्य	youth, manhood.
रंक	वि., पु.	गरीब, कंगाल, दरिद्र।	গরিব, কাঙাল	गरिब, काङाल	poor, wretched.
रंग	पु.	1. एक वर्ण, किसी दृश्य पदार्थ का वह गुण जो उसके आकार या रूप से भिन्न होता है और जिसका अनुभव केवल आंखों से होता है;	রঙ্, বর্ণ দেহের বর্ণ, চিত্রার্থ তৈলাদিমিশ্রিত রঞ্জক দ্রব্য;	रङ्, बर्न, देहेर बर्न चित्रार्थ तैलादिमिश्रित रन्जक द्रब्य;	colour, hue, dye, complexion, paint

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. शोभा, रौनक;	দীপ্তি;	दीप्ति;	glamour;
		3. ढंग, ढब;	ধরন;	धरन;	mode, manner;
		4. मनोरंजन, मस्ती।	কৌতুক, মজা	कौतुक मजा	amusement, mood.
रंग-ढंग	पु.	आचरण, व्यवहार आदि का प्रकार या रूप, तौर-तरीका।	চালচলন, আচার-ব্যবহার	चालचलन, आचार-व्यबहार	manners, demeanour, conduct.
रंगत	स्त्री.	1. किसी रंग की झलक;	রঙের আভা;	रङ्गेर आभा;	colour, complexion, tint;
		2. प्रभाव, छाप।	প্রভাব	प्रभाव	influence.
रंगदानी	स्त्री.	वह प्याली जिसमें चित्रकार आदि किसी चीज पर लगाने के लिए अपने सामने रंग रखते हैं।	রঙের পেয়ালা বা বাটি	रङ्गेर पेयाला बा बाटि	colour pot.
रंगना	स. क्रि.	1. रंग में डुबाकर किसी चीज को रंगीन करना;	রং করা, রাংগানো;	रङ्ग करा, राङ्गानो;	to colour, to dye, to paint;
		2. लेखन में बहुत अधिक लिखना;	অনেক বেশী লেখা;	अनेक बेशी लेखा;	to write excessively;
		3. किसी को अपने प्रेम में फंसाना;	প্রেমের ফাঁদে ফেলা, প্রণয়াসক্ত করা;	प्रेमो फांदे फेला, प्रनयासक्त करा;	to infatuate;
		4. अपने अनुकूल करना, प्रभावित करना।	প্রভাবিত করা	प्रभाबित करा	to influence.
रंगबाज	वि.	1. दूसरों पर अपना प्रभाव जमानेवाला;	অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন;	अन्येर उपर प्रभाव बिस्तार करे एमन;	one who influences others;
		2. मौजमस्ती करनेवाला।	রংগদার	रङ्गदार	one who makes merry, a happy go-lucky fellow.
रंगबाजी	स्त्री.	1. रंगबाज होने की अवस्था या भाव;	প্রভাবকারিতা, রংগরস;	प्रभाबकारिता, रङ्गरस;	act of influencing others, merry making;
		2. ताश का एक प्रकार का खेल।	তাসের খেলাবিশেষ	तासेर खेलाबिशेष	game of cards.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रंग-बिरंगा (रंग-बिरंग)	वि.	1. कई रंगों का;	নানারংগ-বিশিষ্ট;	नानारङ्ग-बिशिष्ट;	of various colours, multicoloured, variegated;
		2. कई प्रकार का।	নানাপ্রকার	नानाप्रकार	of diverse kinds or sorts.
रंगभूमि	स्त्री.	1. आमोद-प्रमोद का स्थान; 2. नाटक खेलने का स्थान।	রংগভূমি, আমোদ-প্রমোদের স্থান; নাট্যশালা	रङ्गभूमि, आमोद-प्रमोदेर स्थान; नाट्यशाला	place of amusement; place of acting. stage, theatre.
रंगमंच	पु.	वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं।	অভিনয়মঞ্চ স্টেজ	अभिनयमञ्च, स्टेज	stage for acting.
रंग-रसिया	पु.	वह व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति आमोद-प्रमोद में लगी रहती हो, विलासी पुरुष।	যে ব্যক্তি রংগরস করে, বিলাসী পুরুষ	जे ब्यक्ति रङ्गरस करे, बिलासी पुरुष	one who makes pleasure his aim, lascivious person.
रंगरूट	पु.	पुलिस, सेना आदि में भर्ती हुआ नया व्यक्ति।	রংরুট	रंरुट	recruit, novice.
रंगरेज	पु.	वह जो कपड़े रंगने का व्यवसाय करता हो।	যে কাপড় ইত্যাদি রঙ করে	जे कापड़ इत्यादि रङ् करे	dyer.
रंगरेली	स्त्री.	आमोद-प्रमोद, आनंद, क्रीड़ा।	রংগরস	रङ्गरस	rejoicing, merriment, pleasure, revelry.
रंगवाई	स्त्री.	रंगवाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक।	রঙ করান, রঙকরানর মজুরি	रङ् करान, रङ्करानर मजुरि	act of getting clothes dyed or price paid for dyeing.
रंगवाना	स. क्रि.	रंगने का काम किसी दूसरे से कराना।	রঙ করানো	रङ् करानो	to get the work of dyeing done by others.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रंगशाला	स्त्री.	1. नाट्यशाला; 2. भोग-विलास का स्थान।	নাট্যশালা; ভোগবিলাসের স্থান, রংগমহল	नाट्यशाला; भोगबिलासेर स्थान, रङ्गमहल	theatre; place of making mirth or enjoyment.
रंगसाज	पु.	वह जो चीजों पर रंग चढ़ाता हो।	যে ব্যক্তি কোনো জিনিস রঙ করে	जे ब्यक्ति कोनो जिनिस रङ् करे	painter, colourman.
रंगसाजी	स्त्री.	रंगसाज का काम, पेशा या भाव।	রঙ লাগানোর কাজ	रङ् लागानोर काज	mixing or making colours, painting.
रंगाई	स्त्री.	रंगने का काम, पेशा, भाव या मजदूरी।	রাংগানো, রাংগানোর মজুরি	राङ्गानो, राङ्गानोर मजुरि	act of colouring or dyeing, etc. or price paid for colouring, etc.
रंगाना	स. क्रि.	रंगवाना।	রং করানো	रङ्ग करानो	to cause to be coloured or dyed.
रंगारंग	वि.	1. बहुत से रंगोंवाला; 2. अनेक प्रकार का।	রঙচঙে, রঙবেরঙে; অনেকপ্রকার	रङ्चङे, रङबेरङे; अनेकप्रकार	of various or many colours; of different sorts or kinds.
रंगावट	स्त्री.	रंगे हुए होने का भाव।	রাঙানো	राङ्गानो	colouring, dyeing.
रंगा सियार	पु.	ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो भला लगता हो पर हो बहुत बड़ा चालाक और धूर्त।	ভিজে বেড়াল	भिजे बेड़ाल	innocent-looking person who is wicked at heart.
रंगीन	वि.	1. रंगदार; 2. जिसकी प्रकृति या स्वभाव में विनोद, विलास आदि तत्वों की प्रधानता हो।	রংগিন, রংদার; রংগী, রংগিলা	रङ्गिन, रंदार; रङ्गी, रङ्गिला	coloured, painted; gay, lively, jovial.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रंगीनी	स्त्री.	1. रंगीन होने की अवस्था या भाव;	রঞ্জিত হওয়া;	रन्जित हओया;	being coloured, being of various colours;
		2. बनाव-सिंगार।	বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা	बर्नाढ्य साजसज्जा	elegant or colourful make-up.
रंगीला (रंगीली-स्त्री.)	वि.	1. रसिक प्रकृति;	রংগিলা, রংগপ্রিয়, স্ফূর্তিবাজ;	रङ्गिला, रङ्गप्रिय, स्फूर्तिबाज;	gay, merry, jovial, colourful;
		2. कई रंगों से युक्त होने के कारण आकर्षक और मनोहर लगनेवाला।	নানাবর্ণ শোভিত	नानाबर्न शोभित	gaudy, showy.
रंच (रंचक)	वि.	थोड़ा, अल्प।	অল্পরিমাণ	अलपरिमान	little.
रंज	पु.	मन में होनेवाला दु:ख।	মনোবেদনা	मनोबेदना	trouble, sorrow, grief, affliction.
रंजक	पु.	प्राय: आनन्द-मंगल करने और प्रसन्न रहनेवाला।	রংগদার	रङ्गदार	happy-go-lucky, carefree.
रंजन	पु., वि.	1. रंगने की क्रिया या भाव;	রঙকরা;	रङ्करा;	act of colouring, dyeing or painting;
		2. चित्त प्रसन्न करने की क्रिया या भाव।	আনন্দ দান	आनन्द दान	pleasing, delighting.
रंजनीय	वि.	1. जिसका चित्त प्रसन्न किया जा सकता हो;	যার মন প্রসন্ন করা সম্ভব;	जार मन प्रसन्न करा सम्भब;	one who can be pleased or made happy;
		2. जो रंगे जाने के योग्य हो।	রঞ্জনযোগ্য	रन्जनजोग्य	fit to be coloured or dyed.
रंजित	वि.	1. जिसका चित्त प्रसन्न किया गया हो;	সন্তোষিত;	सन्तोषित;	delighted, pleased, amused;
		2. किसी के अनुराग या प्रेम में पगा हुआ।	কাহারো প্রেমে পড়িয়াছে এমন	काहारो प्रेमे पड़ियाछे एमन	infatuated, charmed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रंजिश	स्त्री.	किसी की ओर से मन में बैठा हुआ रंज।	বিদ্বেষ	बिद्वेष	animosity, ill-feeling.
रंजीदगी	स्त्री.	दु:ख होने की अवस्था या भाव।	বিষাদগ্রস্ততা, শোকগ্রস্ততা	बिषादग्रस्तता, शोकग्रस्तता	state of sadness, sorrow or affliction.
रंजीदा	वि.	जिसे रंज हो, दु:खित।	বিষন্ন, দুঃখিত	बिषन्न, दु:खित	afflicted, grieved, sorrowful, sad, gloomy.
रंडापा	पु.	विधवा होने की दशा या भाव।	বৈধব্য	बैधव्य	widowhood.
रंडी	स्त्री.	वेश्या।	রন্ডা, বেশ্যা	रन्डा, बेश्या	harlot, prostitute.
रंद	पु.	किले की दीवार का वह झरोखा जिसमें से बाहर गोले फेंके जाते थे।	দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্র এই রন্ধ্র দিয়া বাহিরে গুলি ছোঁড়া হইত	दुर्गप्राकारेर रन्ध्र एइ रन्ध्र दिया बाहिरे गुलि छोंड़ा हइत	hole in the wall of fort from which guns were fired.
रंदना	स. क्रि.	रंदे से छीलकर लकड़ी की सतह चिकनी और समतल करना।	রেঁদা করা, রেঁদা দেওয়া	रेंदा करा, रेंदा देओया	to plane.
रंदा	पु.	बढ़इयों का एक औजार जिसमें वे लकड़ी की सतह छीलकर चिकनी और समतल करते हैं।	রেঁদা, রাঁদা	रेंदा, रांदा	joiner's or carpenter's plane.
रंधन	पु.	1. रसोई बनाने की क्रिया; 2. नष्ट या बरबाद करना।	রান্না, পাক, রাঁধা; নষ্টকরণ, ধ্বংস করণ	रान्ना, पाक, रांधा; नष्टकरन, ध्वंस करन	act of cooking, dressing of food; act of destroying.
रंधना	अ. क्रि.	भोजन का पकाया जाना।	রান্না হওয়া, পাক হওয়া	रान्ना हओया, पाक हओया	to be cooked.
रंध्र	पु.	छिद्र, सूराख।	রন্ধ্র, ছিদ্র	रन्ध्र, छिद्र	hole, aperture.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रंभा	पु., स्त्री.	1. लोहे का वह मोटा भारी डंडा जिसका अगला सिरा धारदार होता है और जिससे आघात करके मजदूर जमीन या दीवार में छेद करते हैं;	শাবল;	शाबल;	sharp-headed iron rod used for boring into earth etc.;
		2. एक अप्सरा का नाम।	অপ্সরাবিশেষ	अप्सराबिशेष	name of a celebrated Apsara.
रंभाना	अ. क्रि.	गाय का बोलना।	হাম্বা হাম্বা করা	हाम्बा हाम्बा करा	to bellow (as cow).
रई	स्त्री.	1. मथानी;	মথনী, মউনি;	मथनी, मउनि;	churning staff, churner;
		2. गेहूं का मोटा आटा, सूजी।	সুজি	सुजि	coarse flour of wheat;
रईस	पु.	अमीर या धनी व्यक्ति, सरदार।	ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি, জমিদার	धनी ओ अभिजात ब्यक्ति जमिदार	rich or wealthy man, nobleman.
रईसजादा	पु.	रईस या बहुत बड़े आदमी का लड़का।	ধনী ও অভিজাত ব্যক্তির পুত্র	धनी ओ अभिजात ब्यक्तिर पुत्र	son of a rich or big man.
रईसी	स्त्री.	रईस होने की अवस्था या भाव।	সম্পন্ন অবস্থা	सम्पन्न अबस्था	state of being wealthy.
रकबा	पु.	क्षेत्रफल।	ক্ষেত্রফল	क्षेत्रफल	area.
रकम	स्त्री.	रुपया-पैसा जिसकी संख्या नियत या सूचित की गई हो, राशि।	নির্দিষ্ট অর্থপরিমাণ, রাশি	निर्दिष्ट अर्थपरिमान, राशि	amount or sum (of money).
रकाब	स्त्री.	घोड़े की काठी का झूलता हुआ पायदान जिस पर पैर रखकर घोड़े पर सवार होते हैं और बैठने में जिससे सहारा लेते हैं।	ঘোড়ায় চড়ার সহায়ক পা-দানি	घोड़ाय चड़ार सहायक पा-दानि	stirrup.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रकाबी	स्त्री.	छिछली गोल छोटी थाली।	রেকাবি, রেকাব	रेकाबि, रेकाब	dish, plate.
रक्त	पुं.	1. लाल रंग का वह तरल पदार्थ जो शरीर की नसों आदि में बहा करता है;	রক্ত, শোণিত, রুধির;	रक्त, शोनित, रुधिर;	blood;
	वि.	2. लाल;	লাল;	लाल;	red;
		3. रंगा हुआ।	রঞ্জিত	रन्जित	coloured, dyed.
रक्तचाप	पुं.	चिकित्साशास्त्र में एक रोग जिसमें अवस्था के प्रसम अनुपात से रक्त का दबाव या वेग घट या बढ़ गया होता है।	রক্তচাপ, ব্লাডপ্রেসার	रक्तचाप, ब्लाडप्रेसार	blood-pressure.
रक्तदान	पुं.	रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जानेवाला रक्त का दान।	রক্তদান, শোণিতদান	रक्तदान, शोनितदान	donation of blood.
रक्तदोष	पुं.	रक्त में विकार या खराबी।	রক্তদূষ্টি	रक्तदृष्टि	deterioration of blood.
रक्तपात	पुं.	1. ऐसी मारपीट या लड़ाई-झगड़ा जिसमें मारकाट के कारण अनेक शरीरों से खून बहता है;	শোণিতক্ষরণ;	शोनितक्षरन;	bloodshed;
		2. रक्तस्राव।	রক্তস্রাব	रक्तस्राब	bleeding.
रक्तपायी	वि., पुं.	1. खून पीनेवाला;	রক্তপায়ী;	रक्तपायी;	blood-drinking;
		2. खटमल।	ছারপোকা	छारपोका	bug.
रक्तप्रदर	पुं.	स्त्रियों के प्रदर रोग का वह भेद जिसमें उनकी योनि से रक्त बहता है।	রক্তপ্রদর, রক্তস্রাবযুক্ত প্রদরবিশেষ	रक्तप्रदर, रक्तस्राबजुक्त प्रदरबिशेष	feminine disease in which blood flows from the womb.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रक्तबैंक	पु.	वह स्थान जहां स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर से निकाला हुआ रक्त इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे रोगियों के शरीर में प्रविष्ट किया जा सके जो रक्त की कमी के कारण मरणासन्न हो रहे हों।	রক্তভান্ডার, ব্লাড ব্যাঙ্ক	रक्तभान्डार, ब्लाड ब्याङ्क	blood bank.
रक्तविकार	पु.	दे. 'रक्तदोष'।	দ্র: 'রক্তদোষ'	द्र: 'रक्तदोष'	see 'रक्त दोष'.
रक्तसंबंध	पु.	एक ही कुल, परिवार या वंश की दृष्टि से होनेवाला संबंध।	রক্তজাত সম্পর্ক	रक्तजात सम्पर्क	blood relation.
रक्तस्राव	पु.	शरीर के किसी अंग से रक्त निकलना या बहना।	রক্তস্রাব, শোণিতস্রবণ	रक्तस्राब, शोनितस्रबन	flow of blood, haemorrhage
रक्ताभ	वि.	जो कुछ-कुछ लाली लिए हुए हो।	রক্তাভ, লোহিতাভ	रक्ताभ, लोहिताभ	red looking, reddish.
रक्ताल्पता	स्त्री.	रक्त की कमी।	রক্তাল্পতা	रक्ताल्पता	anaemia.
रक्षक	पु.	रक्षा करनेवाला, बचानेवाला।	রক্ষক, রক্ষাকারক, ত্রাতা	रक्षक, रक्षाकारक, त्राता	protector, preserver, guardian. keeper, guard,
रक्षण	पु.	रक्षा करने की क्रिया या भाव।	রক্ষণ, রক্ষা করা	रक्षन, रक्षा करा	act of guarding, watching, protecting, preserving, protection.
रक्षणीय	वि.	रक्षा किये जाने के योग्य।	রক্ষণীয়, রক্ষণযোগ্য	रक्षनीय, रक्षनजोग्य	to be guarded or preserved or protected from.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रक्षा	स्त्री.	ऐसा काम जो आक्रमण, आघात, आपद, नाश आदि से बचने या बचाने के लिए किया जाता है, संभाल।	রক্ষা, রক্ষণ, পালন	रक्षा, रक्षन, पालन	defence, protection, custody.
रक्षा-कवच	पु.	कोई ऐसी चीज या बात जो सब प्रकार से किसी की रक्षा के लिए यथेष्ट मानी जाती है।	রক্ষাকবচ, এমন কোনো বস্তু যাহা সর্বপ্রকার আপদ-বিপদাদি থেকে রক্ষাকরিতে সমর্থ	रक्षाकबच, एमंन कोनो बस्तु जाहा सर्बप्रकार आपद-बिपदादि थेके रक्षा करिते समर्थ	which protects or shields from all sorts of calamities etc.
रक्षाबंधन	पु.	हिन्दुओं का एक त्यौहार जो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को होता है और जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधती हैं।	রক্ষাবন্ধন, রাখীবন্ধন	रक्षाबन्धन, राखीबन्धन	Hindu festival in which sisters bind an amulet on the wrist of their brothers.
रक्षिका	स्त्री.	1. रक्षा या हिफाजत करनेवाली स्त्री; 2. गंडा, तावीज आदि।	রক্ষিকা, রক্ষাকারিণী; মন্ত্রপূত গ্রন্থি	रक्षिका, रक्षाकारिनी; मन्त्रपूत गन्थि	chaperon, female guardian; amulet, charm.
रक्षित	वि.	जिसकी रक्षा की गई हो, संभाल कर रखा हुआ।	রক্ষিত, রক্ষা করা হইয়াছে এমন	रक्षित, रक्षा करा हइयाछे एमन	protected, preserved.
रक्षी	पु.	रक्षक, बचानेवाला।	রক্ষী, রক্ষক	रक्षी, रक्षक	one who guards or protects, guard, protector, watch, sentinel.
रक्षीदल	पु.	पुलिस-विभाग के साधारण सिपाहियों के वर्ग का सामूहिक नाम।	পুলিস প্রহরীদের সাধারণ সামগ্রিক নাম	पुलिस प्रहरीदेर साधारन सामग्रिक नाम	police contingent.
रखना	स. क्रि.	1. किसी वस्तु पर या किसी वस्तु अथवा स्थान में स्थित करना;	রাখা, স্থাপন করা;	राखा, स्थापन करा;	to put or to place to lay (upon);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. अपने अधिकार में लेना;	অধিকার করা, দখল করা;	अधिकार करा, दखल करा;	to take into possession;
		3. संग्रह करना;	সংরক্ষিত করা;	संरक्षित करा;	to keep;
		4. सेवा में लेना।	নিযুক্ত করা	निजुक्त करा	to employ.
रख-रखाव	पु.	1. मर्यादा, परम्परा, व्यवहार, संबंध आदि का उचित रूप में होनेवाला निर्वाह;	শালীনতা;	शालीनता;	decorum, etiquette;
		2. देख-भाल।	দেখাশোনা	देखाशोना	maintenance.
रखवाई	स्त्री.	1. रखवाली;	রক্ষন, রাখালি;	रक्षन, राखालि;	keeping, guarding;
		2. रखवाली करने का काम, भाव या मजदूरी।	রাখালি-কর্ম, রাখালের মজুরি	राखालि-कर्म, राखालेर मजुरि	act of or price paid for keeping etc.
रखवाना	स. क्रि.	1. रखने की क्रिया;	রক্ষা করানো;	रक्षा करानो;	to cause to be kept;
		2. किसी को कुछ सौंपने में प्रवृत्त या विवश करना।	ভারার্পণ করানো	भारार्पन करानो	to have (a thing) placed in charge or custody (of) etc.
रखवाला	पु.	पहरा देनेवाला।	রক্ষক, রক্ষাকারী, রাখাল	रक्षक, रक्षाकारी, राखाल	guard, keeper. custodian.
रखवाली	स्त्री.	1. रक्षा करने की क्रिया या भाव, हिफाजत;	রক্ষণ;	रक्षन;	protection, safe guarding, custody;
		2. चौकीदारी, पहरेदारी।	রাখালি, চৌকিদারি	राखालि, चौकिदारि	watch, guard, care.
रखाई	स्त्री.	1. रखवाली;	প্রাহরা;	प्राहरा;	keeping, guarding, etc.;
		2. रखवाली करने के बदले में मिलनेवाला पारिश्रमिक।	রাখালি	राखालि	wages for the act of watching, guarding, keeping, etc.
रखाना	स. क्रि.	रखने की क्रिया दूसरे से कराना।	রাখানো	राखानो	to cause to keep.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रखैल	स्त्री.	बिना विवाह किए ही घर में पत्नी के रूप में रखी हुई स्त्री।	রক্ষিতা	रक्षिता	keep, concubine.
रग	स्त्री.	शरीर की नस या नाडी।	শিরা	शिरा	artery, vein.
रगड़	स्त्री.	1. रगड़ने की क्रिया या भाव;	ঘর্ষণ, রগড়া;	घर्षन, रगड़ा;	rubbing;
		2. वह चिह्न जो किसी चीज से रगड़े जाने पर लक्षित होता है, खरोंच।	আঁচড়, ঘষ্টানির দাগ	आंचड़, घष्टानिर दाग	abrasion, friction, rub, bruise.
रगड़ना	स. क्रि.	1. किसी चीज के तल पर किसी दूसरी चीज का तल बार-बार दबाते हुए चलाना;	রগড়ানো, ঘর্ষণ করা;	रगड़ानो, घर्षन करा;	to rub, to scrub;
		2. दो तत्वों के बीच रखी हुई वस्तु को चूर-चूर करना;	পেষণ বা মর্দন করা;	पेषन बा मर्दन करा;	to grind or grate;
		3. निरंतर अत्यधिक परिश्रमपूर्वक काम करते रहना।	অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া কাজ করা	अत्यधिक परिश्रम करिया काज करा	to overwork.
रगड़वाना	स. क्रि.	1. रगड़ने का काम दूसरे से कराना;	অন্যকে দিয়া রগড়ানো;	अन्यके दिया रगड़ानो;	to cause to rub;
		2. किसी पर रगड़ने की क्रिया करवाना।	মর্দন করানো	मर्दन करानो	to cause to be rubbed.
रगड़ा	पु.	1. किसी चीज में रगड़ लगने पर होनेवाला आघात;	ঘষটানির দাগ;	घषटानिर दाग;	mark of friction or rubbing;
		2. रगड़ने की क्रिया या भाव;	রগড়ানোর কাজ;	रगड़ानोर काज;	rubbing;
		3. बराबर कुछ समय तक चलता रहनेवाला झगड़ा या वैर-विरोध।	বেশ কিছু দিন ধরিয়া যে ঝগড়া বা শত্রুতা চলিতে থাকে	बेश किछु दिन धरिया जे झगड़ा बा शत्रुता चलिते थाके	quarrel or animosity which lasts for some time.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रगड़ा-झगड़ा	पु.	बहुत समय तक चलता रहनेवाला झगड़ा या लड़ाई।	অনেক দিনের ঝগড়াবিবাদ	अनेक दिनेर झगड़ाबिबाद	long standing quarrel or strife.
रगेदना	स. क्रि.	बल प्रयोग करते हुए भगाना, खदेड़ना।	জোর করিয়া তাড়ানো,খেদানো	जोड़ करिया ताड़ानो,खेदानो	chase or drive off or away.
रचना	स्त्री.	1. रचने की क्रिया या भाव;	রচনা, রচন;	रचना, रचन;	making, forming;
		2. बनाकर तैयार की हुई चीज, कृति;	নির্মাণ, কৃতি;	निर्मान, कृति;	created thing, structure, fabrication;
		3. साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति।	সাহিত্য অথবা শিল্প-মূলক কৃতি	साहित्य अथबा शिल्प-मूलक कृति	literary or artistic production or composition.
रचना-तंत्र	पु.	रचना का कलात्मक और कौशलपूर्ण प्रकार।	গঠন প্রণালী, নির্মাণ প্রণালী	गठन प्रनाली, निर्मान प्रनाली	constitution.
रचनात्मक	वि.	ऐसा कार्यादि जिससे निर्माण, वृद्धि आदि हो।	গঠনমূলক	गठनमूलक	constructive.
रचना-प्रक्रिया	स्त्री.	किसी पदार्थ के निर्माण का ढंग।	নির্মাণ-প্রণালী	निर्मान-प्रनाली	process of creation or construction.
रचयिता	पु.	रचना करनेवाला, बनानेवाला।	রচয়িতা, নির্মাতা প্রণেতা	रचयिता, निर्माता प्रनेता	author, composer.
रचवाना	स. क्रि.	1. दूसरे को रचना करने में प्रवृत करना;	রচনা করানো;	रचना करानो;	to cause to create or make;
		2. किसी चीज की रचना दूसरे से करवाना।	অন্যকে দিয়া রচনা করানো	अन्यके दिया रचना करानो	to cause to get created or made.
रचाना	स. क्रि.	अनुष्ठान या आयोजन करना, जैसे-ब्याह रचाना, यज्ञ रचाना।	অনুষ্ঠান করা, আয়োজন করা	अनुष्ठान करा, आयोजन करा	to cause to perform sacrificial ceremony or celebrate marriage ceremony.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रचित	वि.	रचा हुआ, कृति आदि के रूप में प्रस्तुत किया हुआ।	রচিত, প্রণীত, নির্মিত	रचित, प्रनीत, निर्मित	made, formed, created, composed.
रज	स्त्री. पुं.	1. धूल;	রজঃ, ধুলি;	रजः, धुलि;	dust;
		2. पराग;	পরাগ;	पराग;	pollen of flowers;
		3. रजोगुण।	রজোগুণ	रजोगुन	second of the three Gunas or constituent qualities of all substances.
रजक	पुं.	धोबी।	রজক, ধোবা	रजक, धोबा	washerman.
रजत	पुं.	1. चांदी;	রজত, রৌপ্য;	रजत, रौप्य;	silver;
	वि.	2. रुपहला, चांदी का बना।	রৌপ্যময়	रौप्यमय	silvery, made of silver.
रजत-जयंती	स्त्री.	किसी व्यक्ति अथवा संस्था की 25वीं वर्षगांठ पर मनाई जानेवाली जयंती।	রজত জয়ন্তী, পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব	रजत जयन्ती, पँचिश बत्सर पूर्न हओया उपलक्षे उत्सब	silver jubilee.
रजतपट	पुं.	वह परदा जिस पर सिनेमाघर में चित्र दिखलाए जाते हैं।	সিনেমার পর্দা	सिनेमार पर्दा	screen.
रजनी	स्त्री.	रात, रात्रि।	রজনী, রাত্রি, রাত	रजनी, रात्रि, रात	night.
रजनीकर	पुं.	चंद्रमा।	চন্দ্র, চাঁদ	चन्द्र, चांद	moon.
रजनीगंधा	स्त्री.	एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फूल रात के समय खिलते हैं।	রজনীগন্ধা, ফুলবিশেষ	रजनीगंधा, फुलबिशेष	the tuberose, polianthes tuberosa.
रजनीचर	पुं.	राक्षस।	রাক্ষস	राक्षस	evil spirit.
रजनीपति	पुं.	रात का स्वामी, चंद्रमा।	চন্দ্র, চাঁদ, নিশাপতি	चन्द्र, चांद, निशापति	lord of night, moon.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रजनीमुख	पु.	संध्या, रात होने से कुछ पहले का समय।	সন্ধ্যার প্রাক্কাল	सन्ध्यार प्राक्काल	nightfall; evening.
रजनीश	पु.	रात का स्वामी, चंद्रमा।	রজনীনাথ, চন্দ্র	रजनीनाथ, चन्द्र	lord of the night, moon.
रजवाड़ा	पु.	मध्ययुग तथा ब्रिटिश भारत में देशी रियासत।	মধ্যযুগ তথা ব্রিটিশ আমলের এক ক্ষুদ্র রাজ্য	मध्यजुग तथा ब्रिटिश आमलेर एक क्षुद्र राज्य	small state during the mediaeval period and the British rule.
रजस्वला	वि., स्त्री.	जिसका रक्त प्रवाहित हो रहा हो।	রাজস্বলা, ঋতুমতী	राजस्वला, ऋतुमती	woman during the menses.
रजाई	स्त्री.	एक प्रकार का रुईदार ओढ़ना।	লেপ	लेप	quilt.
रजामंद	वि.	जो किसी बात पर राजी या सहमत हो।	রাজি	राजि	willing, consenting.
रजामंदी	स्त्री.	रजामंद होने की अवस्था या भाव।	রাজি হওয়া, সম্মতি	राजि हओया, सम्मति	willingness, consent.
रजोगुण	पु.	सांख्य के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों में से दूसरा गुण जिससे जीवधारियों में भोग-विलास तथा बल-वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।	(সাংখ্যদর্শনে) প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণের মধ্যমটি	(सांख्यदर्शने) प्रकृतिर त्रिबिध गुनेर मध्यमटि	according to Samkhya, the second of the three Gunas or constituent qualities of all material substances.
रजोदर्शन	पुं.	1. स्त्रियों का पहली बार रजस्वला होना;	স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব;	स्त्रीलोकेर प्रथम ऋतुस्राव;	first appearance of the menstrual excretion, first menstrual flow;
		2. स्त्रियों का मासिक धर्म।	মাসিক ঋতুস্রাব	मासिक ऋतुस्राव	menstruation.
रजोधर्म	पु.	स्त्रियों का मासिक धर्म।	মাসিক ঋতু	मासिक ऋतु	menstruation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रजोनिवृत्ति	स्त्री.	स्त्रियों की वह अवस्था या दशा जिसमें उनका मासिक रजोदर्शन सदा के लिए बंद हो जाता है।	স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকভাবে চিরকালের জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া	स्त्रीलोकेर स्वाभाविकभावे चिरकालेर जन्य ऋतुस्राव बन्ध हओया	age at which the menstrual flow ends for ever.
रज्जु	स्त्री.	रस्सी।	রজ্জু, দড়ি	रज्जु, दड़ि	rope, cord, string.
रज्जुमार्ग	पु.	ऊंची-नीची पंक्ति या पहाड़ी जगहों, बड़े बड़े कल-कारखानों आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजें पहुंचाने के लिए खंभों में रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग।	রজ্জুপথ	रज्जुपथ	rope way.
रटंत	स्त्री.	रटने की क्रिया या भाव।	মুখস্ত করা	मुखस्त करा	cramming, learning by heart or repetition.
रट	स्त्री.	रटने की अवस्था, क्रिया या भाव।	বারংবার আবৃত্তি	बारंबार आवृत्ति	repetition.
रटना	स. क्रि.	कंठस्थ करने तथा स्मृति-पथ में लाने के लिए किसी पद, वाक्य आदि का बारबार और जोर-जोर से उच्चारण करना।	জোরে জোরে মুখস্থ করা	जोरे जोरे मुखस्थ करा	to cram, to repeat, to learn by heart.
रड़क	स्त्री.	चुभन, हल्का दर्द या पीड़ा।	কাঁটা বিধার মতো ব্যথা	कांटा बिधार मतो व्यथा	pricking pain.
रड़कना	अ. क्रि.	1. हलका दर्द होना;	অল্প ব্যথা হওয়া;	अल्प व्यथा हओया;	to pain;
		2. शरीर में किसी गड़ी या चुभी हुई चीज की कष्टदायक अनुभूति होना।	গায়ে কাঁটা বিঁধলে যেরূপ কষ্ট হয়	गाये कांटा बिंधले जेरूप कष्ट हय	to prick.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रण	पु.	लड़ाई, युद्ध।	রণ, লড়াই, যুদ্ধ	रन, लड़ाइ, जुद्ध	battle, war, combat,fight, conflict.
रण-क्षेत्र	पु.	युद्धभूमि।	রণক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র	रनक्षेत्र, जुद्धक्षेत्र	battle-field.
रणन	पु.	शब्द करना।	রণন, শব্দ করা	रनन शब्द करा	to make sound.
रण-भूमि	स्त्री.	लड़ाई का मैदान।	রণভূমি, যুদ্ধভূমি	रनभूमि, जुद्धभूमि	battle-ground, field of battle.
रणभेरी	स्त्री.	युद्ध आरंभ होने का संकेत करने के लिए बजाया जानेवाला वाद्य।	রণভেরী, যুদ্ধভেরী, রণশিঙা	रनभेरी, जुद्धभेरी, रनशिङा	battle bugle.
रण-रंग	पुं.	1. युद्ध का उत्साह; 2. युद्ध-क्षेत्र।	রণোৎসাহ; রণভূমি	रनोत्साह; रनभूमि	bellicosity; battle-field.
रण-वाद्य	पुं.	युद्ध का बाजा।	রণবাদ্য, যুদ্ধের বাজনা	रनबाद्य, जुद्धेर बाजना	instrument of military music.
रण-स्थल	पु.	लड़ाई का मैदान।	রণস্থল, যুদ্ধক্ষেত্র	रनस्थल, जुद्धक्षेत्र	battle-field.
रणांगण	पु.	लड़ाई का मैदान।	রণাংগণ, যুদ্ধক্ষেত্র রণভূমি	रनाङ्गन, जुद्धक्षेत्र, रनभूमि	battle place, field of battle.
रत	वि.	जो किसी काम में पूरे मनोयोग से लगा हुआ हो।	রত, ব্যাপৃত, অভিনিবিষ্ট	रत, ब्यापृत, अभिनिबिष्ट	engaged in, devoted to, absorbed in.
रतजगा	पु.	ऐसा उत्सव जिसमें लोग रात भर जागते रहें।	রাতজাগা, রাত্রিজাগরণ	रातजागा, रात्रिजागरन	keeping awake whole night (on certain religious occasions).
रतनार	वि.	लाल रंग का।	লাল রঙের	लाल रङेर	of red colour.
रतालू	पु.	पिंडालू नामक कंद जिसकी तरकारी बनाते हैं।	মেটে আলু	मेटे आलु	a species of red yam.
रति	स्त्री.	1. कामक्रीड़ा;	রতি, কামক্রীড়া;	रति, कामक्रीड़ा;	sexual union, coition, copulation;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. साहित्य में शृंगार-रस का स्थायी भाव; 3. प्रेम की देवी तथा कामदेव की पत्नी का नाम।	শৃংগার রসের স্থায়িভাব; কন্দর্প-পত্নী	श्रृङ्गार रसेर स्थायिभाब; कन्दर्प-पत्नी	(in lit.) sentiment of love; name of the goddess of love personified as wife of Cupid.
रति-क्रिया	स्त्री.	सम्भोग।	রতিক্রিয়া, সুরতব্যাপার	रतिक्रिया, सुरतब्यापार	sexual union, sexual intercourse.
रतिरंग	पुं.	प्रणय-व्यापार, काम-क्रीड़ा।	রতিরংগ, কেলি-বিলাস, সুরতকৌতুক	रतिरङ्ग, केलि-बिलास, सुरतकौतुक	pleasure of love, sexual intercourse.
रतौंधी	स्त्री.	आंख का एक प्रसिद्ध रोग जिसके कारण रोगी को रात के समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।	রাত্রান্ধ, রাতকানা	रात्रान्ध, रातकाना	night-blindness, nyctalopia.
रत्ती	स्त्री.	1. माशे के आठवें अंश या सवा दो ग्रेन के बराबर की तौल या मान; 2. घुंघुची का दाना या बीज जिसका बाट के रूप में प्रयोग होता है।	রত্তি, রতির পরিমাণ, কুঁচের সমান ওজন; গুঞ্জা, কুঁচ–যাহা ওজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়	रत्ति, रतिर परिमान, कुंचेर समान ओजन; गुन्जा, कुंच–जाहा ओजन हिसाबे ब्यबहृत हय	a weight equal to eight barley-corns, or 2¼ grains; the seed of **Abrus precatorius** used as weight.
रत्न	पुं.	कुछ विशेष छोटे चमकीले खनिज पदार्थ या बहुमूल्य पत्थर जो आभूषण आदि में जड़े जाते हैं।	রত্ন, হীরামাণিক্যাদি বহুমূল্য মণিমুক্তা	रत्न, हीरामानिक्यादि बहुमूल्य मनिमुक्ता	jewel, gem, precious stone.
रत्नाकर	पुं.	1. समुद्र, सागर; 2. ऐसी खान जिसमें से रत्न निकलते हों।	রত্নাকর, সমুদ্র; রত্নখনি	रत्नाकर, समुद्र; रत्नखनि	sea, ocean; jewel mine.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रथ	पुं.	प्राचीन काल की एक प्रकार की सवारी जिसमें चार या दो पहिये हुआ करते थे।	রথ, অশ্বাদিবাহিত চক্রযুক্ত প্রাচীন যানবিশেষ	रथ, अश्वादिबाहित चक्रजुक्त प्राचीन जानबिशेष	chariot.
रथयात्रा	स्त्री.	रथ में किसी देवी या देवता की मूर्ति को रख कर निकाली जानेवाली यात्रा।	রথযাত্রা, দেবতার রথভ্রমণোৎসব	रथजात्रा, देबतार रथभ्रमनोत्सब	procession of an idol placed in a chariot.
रथवान	पुं.	रथ हांकनेवाला।	রথচালক	रथचालक	charioteer, carriage-driver, coach-man.
रथी	पुं.	वह जो रथ पर चढ़कर चलता हो, योद्ध।	রথী, রথারূঢ় পুরুষ যোদ্ধা	रथी, रथारुढ़ पुरुष जोद्धा	riding in a chariot, warrior.
रथ्या	स्त्री.	बड़े नगरों में वह चौड़ा मार्ग जिस पर रथ चलते थे।	রথবর্ত্ম, রাজপথ	रथबर्त्म, राजपथ	road for carriages, high road, main road.
रद्द	वि.	जिसे अस्वीकार कर दिया गया हो, मंसूख।	রদ, অগ্রাহ্য, প্রত্যাহৃত, মকুফ	रद,अग्राहय, प्रत्याहूत मकुफ	rejected, cancelled.
रद्दा	पुं.	मिट्टी की दीवार उठाने में उतना अंश जितना चारों ओर एक बार में उठाया जाता है।	মাটির দেয়াল গাঁথার সময় চারদিক থেকে একেবারে যতটা গাঁথা হয়	माटिर देयाल गांथार समय चारदिक थेके एकेबारे जतटा गांथा हय	stratum (of a wall), layer (of bricks).
रद्दी	वि.	1. जो व्यर्थ हो तथा उपयोग में न लाया जा सकता हो;	রদ্দি, নিকৃষ্ট;	रद्दि, निकृष्ट;	waste, worthless;
		2. जिसमें कुछ भी बढ़ियापन न हो।	ওছা	ओछा	inferior.
रनिवास (रनवास)	पुं.	महल का वह अंश जिसमें रानियां रहती थीं।	রানীমহল	रानीमहल	female apartment, harem, gynaeceum.
रपट	स्त्री.	1. रपटने की क्रिया या भाव, फिसलाहट;	পিচ্ছিলতা;	पिच्छिलता;	slipperiness, slipping;
		2. सूचना।	বিবরণ, রিপোর্ট	बिबरन, रिपोर्ट	report.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रपटना	अ. क्रि.	1. फिसलना;	পিছলানো;	पिछलानो;	to slip, slide;
		2. शीघ्रता से काम करना या चलना।	তাড়াতাড়ি কাজ করা বা চলা	ताड़ाताड़ि काज करा बा चला	to act or move rapidly.
रपटाना	स. क्रि.	किसी को रपटने में प्रवृत्त करना।	'তাড়াতাড়ি কাজ করানো	ताड़ाताड़ि काज ' करानो	to cause to move rapidly.
रपटीला	वि.	इतना चिकना जिस पर पैर फिसलता हो।	পিচ্ছিল, পিছল	पिच्छिल, पिछल	slippery.
रफा-दफा	वि.	निपटाया हुआ, शांत किया गया (झगड़ा आदि)।	মিটমাট করা হইয়াছে এমন	मिटमाट करा हइयाछे एमन	settled, pacified (quarrel etc.).
रफू	पुं.	एक प्रकार की सिलाई जिसमें कुछ फटा कपड़ा इस प्रकार सूत भर कर मिलाया जाता है कि साधारणत: जोड़ नहीं दिखाई पड़ता।	রিফু, রিপু	रिफु, रिपु	darning.
रफूगर	पुं.	वह कारीगर जो कपड़ों में रफू करने का काम करता हो।	রিফুগার	रिफुगार	darner.
रफूगरी	स्त्री.	रफूगर का काम, पेशा या भाव।	রিফুগারি	रिफुगारि	darning.
रफू-चक्कर	वि.	चंपत, गायब।	চম্পট দিয়াছে এমন, নিখোঁজ হইয়াছে এমন	चम्पट दियाछे एमन, निखोंज हइयाछे एमन	one who has slipped or escaped quietly or stealthily.
रफ्तार	स्त्री.	चाल, गति।	চাল, গতি	चाल, गति	gait, pace, speed.
रफ्ते-रफ्ते (रफ्ता रफ्ता)	क्रि. वि.	धीरे-धीरे।	রপ্টে, রপ্টে, ধীরে ধীরে	रप्टे, रप्टे, धीरे धीरे	step by step, slowly, gradually.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रबड़	पु.	एक वृक्ष जिसके दूध से इसी नाम का लचीला पदार्थ बनता है और वह पदार्थ।	রবর, বৃক্ষবিশেষ এবং তাহার স্থিতিস্থাপক দ্রব্যবিশেষ	रबर, वृक्षबिशेष एबं ताहार स्थितिस्थापक द्रब्यबिशेष	rubber tree and the product made from its milk.
रबड़ी	स्त्री.	औटाकर गाढ़ा और लच्छेदार किया हुआ दूध।	রাবড়ি	राबड़ि	thickened milk.
रबी	स्त्री.	वह फसल जो बसन्त में काटी जाती है।	রবিশস্য	रबिशस्य	the spring harvest.
रमज़ान	पु.	अरबी वर्ष का नवां महीना जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं।	মুসলমানি বৎসরের নবম মাস, রোজার মাস	मुसलमानि बत्सरेर नबम मास, रोजार मास	ninth of the Arabian months in which Muslims observe fast.
रमण	पुं.	1. मन प्रसन्न करनेवाली क्रिया; 2. संभोग; 3. घूमना फिरना या टहलना।	রমণ, প্রীতিপ্রদ কর্ম; মৈথুন, সুরত; বেড়ানো, পায়চারি করা	रमन, प्रीतिप्रद कर्म; मैथुन, सुरत; बेड़ानो पायचारि करा	pleasing or delighting act; sexual union; walking, strolling.
रमणी	स्त्री.	सुंदर नारी, युवती।	রমণী, সুন্দরী নারী, যুবতী	रमनी, सुन्दरी नारी, जुबती	charming woman. beautiful young woman.
रमणीक	वि.	सुन्दर, मनोहर।	সুন্দর, মনোহর	सुन्दर, मनोहर	beautiful, lovely, pleasant.
रमणीय	वि.	सुन्दर, मनोहर।	রমণীয়, সুন্দর, মনোহর	रमनीय, सुन्दर, मनोहर	delightful, charming, beautiful, lovely, pleasant.
रमणीयता	स्त्री.	रमणीय होने की अवस्था, धर्म या भाव।	রমণীয়তা, সৌন্দর্য, মনোহারিতা	रमनीयता, सौन्दर्ज, मनोहारिता	beauty, charm, loveliness, pleasantness.
रमना	अ. क्रि.	किसी काम, बात या व्यक्ति में अनुरक्त या लीन होना।	নিবিষ্ট হওয়া, অনুরক্ত হওয়া	निबिष्ट हओया, अनुरक्त हओया	to be absorbed in, to be devoted to.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रमल	पु.	भविष्य की घटनाओं के संबंध में पासे की बिंदियों की गणना आदि के आधार पर किया जानेवाला कथन।	পাশার দান ফেলিয়া ভবিষ্যৎ বলা	पाशार दान फेलिया भविष्यत् बला	mode of fortune-telling by means of dice.
रमाना	स. क्रि.	मोहित करना, लुभाना।	মোহিত করা, প্রলুব্ধ করা	मोहित करा, प्रलुब्ध करा	to infatuate, to entice.
रम्य	वि.	दे. 'रमणीय'।	দ্র: 'রমণীয়'	द्र: 'रमणीय'	see 'रमणीय'.
रवन्ना	पुं.	1. वह कागज जिस पर रवाना किए हुए माल का ब्यौरा होता है; 2. कोई चीज आदि ले, जाने का अनुमतिपत्र।	চালান; জিনিসপত্রাদি দিয়া যাওয়ার অনুমতিপত্র	चालान; जिनिसपत्रादि दिया जाओयार अनुमतिपत्र	paper containing details of goods despatched; passage permit.
रवा	पुं.	1. (रेत, बारूद आदि का) बहुत छोटा टुकड़ा; 2. सूजी।	ধূলি, বারুদ ইত্যাদির কণা; সুজি	धुलि, बारुद इत्यादिर कना; सुजि	grain, crystal (of sand, sugar, gunpowder etc.); granulous wheat meal.
रवादार	वि.	1. जिसमें कण या दाने हों; 2. उदारचेता, सहनशील।	দানাদার; উদারচেতা, সহনশীল	दानादार; उदारचेता, सहनशील	granulous, crystaline; tolerant, liberal
रवानगी	स्त्री.	रवाना होने की क्रिया या भाव, प्रस्थान।	রওয়ানা, প্রস্থান	रओयाना, प्रस्थान	going, departure.
रवाना	वि.	जिसने कहीं से प्रस्थान किया हो।	রওয়ানা, হইয়াছে এমন	रओयाना हइयाछे एमन	one who has left some place, departed.
रवि	पुं.	सूर्य।	রবি, সূর্য	रबि, सूर्ज	the Sun.
रविवार	पुं.	शनिवार और सोमवार के बीच का दिन, इतवार।	রবিবার, রবিবাসর	रबिबार, रबिबासर	Sunday.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रवैया	पुं.	1. आचार-व्यवहार;	আচার-ব্যবহার;	आचार-व्यबहार;	behaviour, conduct;
		2. रंग-ढंग।	চালচলন, ফ্যাসন	चालचलन, फ्यासन	manner, fashion.
रश्मि	स्त्री.	1. किरण;	রশ্মি, কিরণ;	रश्मि, किरन;	ray of light, beam;
		2. घोड़े की लगाम, बाग;	লাগাম;	लागाम;	rein;
		3. पलकों के बाल, बरौनी।	পক্ষ্ম, নেত্রলোম	पक्ष्म, नेत्रलोम	eye-lashes.
रस	पुं.	1. वनस्पतियों अथवा उनके फूल-पत्तों आदि का वह जलीय अंश जो उन्हें कूटने, दबाने, निचोड़ने आदि पर निकलता है;	বৃক্ষাদির নির্যাস, ফলপুষ্পের সার;	बृक्षादिर निर्जास, फलपुष्पेर सार;	sap or juice of plants, fruits etc;
		2. किसी चीज को उबालने पर प्राप्त होनेवाला अंश;	ক্বাথ;	क्बाथ;	soup, broth;
		3. रसेन्द्रिय में होनेवाली अनुभूति या संवेदन;	রসনাগ্রাহ্য গুণবিশেষ, স্বাদ;	रसनाग्राह्य गुनबिशेष, स्बाद;	relish (one of the six senses);
		4. मन में उत्पन्न होनेवाला वह भाव जो काव्य पढ़ने या नाटक आदि देखने से होता है;	কাব্যপাঠ অভিনয় দর্শনাদি হেতু মনে যে-ভাবের উদয় হয়;	काब्यपाठ अभिनय दर्शनादि हेतु मने जे-भाबेर उदय हय;	(in lit.) pleasure, sentiment;
		5. आनन्द।	আনন্দ	आनन्द	delight, happiness
रस-केलि	स्त्री.	प्रेमी और प्रेमिका की क्रीड़ा या विहार।	রতিক্রীড়া	रतिक्रीड़ा	sport of love, sexual enjoyment.
रसगुल्ला	पुं.	छेने की एक प्रकार की मिठाई जो गुलाब जामुन के समान गोल और शीरे में पगी हुई होती है।	রসগোল্লা	रसगोल्ला	sweetmeat of globular form made of milk immersed in sugar-syrup.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रसज्ञ	पुं.	1. वह जो रस का ज्ञाता हो;	রসজ্ঞ, রসবেত্তা, রসগ্রাহী;	रसज्ञ, रसबेत्ता, रसग्राही;	one who knows Rasa or true essence;
		2. काव्य-मर्मज्ञ।	কাব্য-রসবেত্তা,	काब्य-रसबेत्ता	one who understands and appreciates poetry.
रसद	स्त्री.	1. वे खाद्य पदार्थ जो यात्री सैनिक आदि प्रवास काल में अपने साथ ले जाते हैं;	যাত্রী অথবা সৈন্যদের খাদ্য;	जात्री अथबा सैन्यदेर खाद्य	supplies of food which travellers or soldiers carry with them;
		2. खाद्य-सामग्री।	খাদ্যসামগ্রী	खाद्यसामग्री	food stuff, ration.
रसदार	वि.	1. जिसमें रस हो;	রসাল;	रसाल;	that which has essence, juicy;
		2. मजेदार।	সুস্বাদু	सुस्बादु	tasty, full of relish.
रसना	स्त्री.	1. जीभ, जबान;	রসনা, জিহ্বা;	रसना, जिह्बा;	tongue;
		2. लगाम;	বল্‌গা;	बल्गा;	rein;
		3. रस्सी।	রজ্জু	रज्जु	rope, cord.
रस-निष्पत्ति	स्त्री.	काव्य में भावों, अनुभावों तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से होनेवाली रसानुभूति।	রস-নিষ্পত্তি, ভাব অনুভাব ইত্যাদির সংযোগে রসানুভূতি	रस-निष्पत्ति, भाब अनुभाब इत्यादिर संजोगे रसानुभूति	accomplishment or consummation of a sentiment in poetry.
रसभरी	स्त्री.	एक प्रकार का गोल और खटमिट्ठा फल।	ঈষদম্ল স্বাদু ফলবিশেষ	ईषदम्ल स्बादु फलबिशेष	raspberry. हण्णु
रसरंग	पुं.	1. प्रेम के द्वारा प्राप्त होनेवाला आनंद;	প্রেমের আনন্দ;	प्रेमेर आनन्द;	enjoyment derived from love;
		2. केलि।	রসকেলি	रसकेलि	sport of love, sexual union.
रसराज	पुं.	1. पारा;	পারদ;	पारद;	quicksilver;
		2. (साहित्य में) श्रृंगार रस ।	(সাহিত্যে) শৃংগাররস	(साहित्ये) श्रृङ्गाररस	sentiment of love in poetry.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रसवाद	पुं.	1. प्रेम या आनंद की बातचीत; 2. साहित्य में वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत रस के महत्व को ध्यान में रखते हुए साहित्यिक रचना की समीक्षा की जाती है।	প্রেমালাপ; সাহিত্যে রসবিষয়ক মতবাদ	प्रेमालाप; साहित्ये रसबिषयक मतबाद	love talk, amorous talk; theory of Rasa in poetics.
रसा	स्त्री. पुं.	1. धरती, भूमि; 2. तरकारी आदि का शोरबा।	ধরা, পৃথিবী; ঝোল	धरा, पृथिबी; झोल	earth, ground; soup of vegetables etc., broth.
रसातल	पुं.	पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से एक लोक, पाताल।	রসাতল, পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের অন্যতম, পাতাল	रसातल, पुरानोक्त सप्त पातालेर अन्यतम पाताल	name of the lowest of the seven regions under the earth, the lower world or hell in general.
रसाभास	पुं.	भारतीय साहित्य-शास्त्र के अनुसार किसी साहित्यिक रचना में कहीं - कहीं दिखाई देनेवाली वह स्थिति जिसमें रस का पूरी तरह से परिपाक नहीं होने पाता, जिससे सहृदयों को उसका आभास मात्र मिलता है।	রসাভাস (ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রে) পরিবেশের বা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে রসের অবতারণা	रसाभास (भारतीय साहित्य शास्त्रे) परिबेशेर बा बिषयवस्तुर बिरुद्धे रसेर अबतारना	mere semblance or appearance of a sentiment.
रसायन	पुं.	आरंभिक भारतीय वैद्यक में औषध, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में रस अर्थात् पारे का प्रयोग करने की विद्या।	রসায়ন পদার্থ সমূহের উপাদান গুণ পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা	रसायन पदार्थ-समूहेर उपादान गुन परस्पर सम्बन्ध प्रभृति बिषयक बिद्या	chemistry, alchemy.
रसायनज्ञ	पुं.	रसायन-क्रिया का जाननेवाला।	রসায়নবিদ্	रसायनबिद्	chemist, alchemist.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रसायन-विज्ञान (शास्त्र)	पुं.	विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस बात का विवेचन होता है कि पदार्थों में क्या-क्या गुण और तत्व होते हैं, दूसरे, पदार्थों के योग से उनमें क्या-क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और उन्हें किस प्रकार रूपान्तरित किया जा सकता है।	রসায়ন নামক বিজ্ঞান	रसायन नामक बिज्ञान	science of chemistry.
रसाल	वि., पुं.	1. रस से पूर्ण;	রসাল, রসপূর্ণ;	रसाल, रसपूर्न;	having juice, juicy;
		2. आम।	আম, চূতফল	आम, चूतफल	mango.
रसास्वादन	पुं.	1. किसी प्रकार के रस या आनंद का भोग करना;	রসাস্বাদন, রসের স্বাদ গ্রহণ;	रसास्वादन, रसेर स्वाद ग्रहन;	to relish;
		2. साहित्य में रस का अनुभव करना।	সাহিত্যের রসাস্বাদ বা রসোলব্ধি	साहित्येर रसास्बाद बा रसोलब्धि	to enjoy any poetic sentiment in literature.
रसिक	वि.	जिसके हृदय में सौन्दर्य, मधुर आदि बातों के प्रति अनुराग हो।	রসিক, রসজ্ঞ, রসকলাবিৎ	रसिक, रसज्ञ, रसकलाबित्	one who appreciates and enjoys beauty and elegance, a man full of taste and feeling, aesthetic.
रसिकता	स्त्री.	रसिक होने का भाव या धर्म।	রসজ্ঞতা, বৈদগ্ধ্য	रसज्ञता, बैदग्ध्य	sense of taste, quality of being aesthetic.
रसिया	पुं.	1. रस अर्थात् आनन्द लेने का शौकीन;	রসিক, রসজ্ঞ;	रसिक, रसज्ञ;	an epicure, a man of amorous disposition;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. एक प्रकार का लोकगीत।	একপ্রকার লোকগীত	एकप्रकार लोकगीत	a type of folk song.
रसीद	स्त्री.	वह पत्र जिस पर ब्यौरे-वार यह लिखा हो कि अमुक व्यक्ति से, अमुक कार्य के लिए, अमुक समय पर प्राप्त किया।	রসিদ, অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র	रसिद, अर्थादिर प्राप्तिस्वीकारपत्र	receipt.
रसीदी	वि.	रसीद से संबधित, रसीद का।	রসিদ সম্পর্কিত	रसिद सम्पर्कित	relating to receipt, of receipt.
रसीला	वि.	1. रस से भरा हुआ, स्वादिष्ट;	রসপূর্ণ;	रसपूर्न;	having juice, juicy, tasteful;
		2. रसिया।	রসিয়া	रसिया	epicure.
रसीलापन	पुं.	रसीला होने की अवस्था, धर्म या भाव।	রসালতা	रसालता	state of being juicy.
रसेदार (रसदार)	वि.	1. जिसमें रस हो;	রসাল;	रसाल;	having juice;
		2. मजेदार, स्वादिष्ट।	সুস্বাদু	सुस्बादु	delicious, tasty.
रसोइया	पुं.	भोजन बनाने वाला।	রসুইয়া, রসুয়ে	रसुइया, रसुये	cook.
रसोई	स्त्री.	1. बना हुआ भोजन;	রসুই, রন্ধন;	रसुइ, रन्धन;	cooked or dressed food;
		2. वह स्थान जहां पर घर के लोगों के लिए भोजन पकाया जाता है।	রসুইঘর, পাকশালা	रसुइघर, पाकशाला	kitchen.
रसोई-घर	पुं.	वह कमरा या स्थान जहां पर घर के लोगों के लिए भोजन पकाया जाता है।	রসুইঘর, পাকশালা	रसुइघर, पाकशाला	kitchen, cooking-room.
रसौली	स्त्री.	एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर के किसी अंग में गिलटी निकल आती है।	টিউমার	टिउमार	tumour.
रस्म	स्त्री.	प्रथा, परिपाटी।	প্রথা	प्रथा	custom, practice.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रस्मी	वि.	1. रस्म-संबंधी; 2. औपचारिक।	প্রথাসম্মত; আনুষ্ঠানিক	प्रथासम्मत; आनुष्ठानिक	customary; formal.
रस्मोरिवाज	पुं.	रूढ़ि और परम्परा।	প্রথা, আচার	प्रथा, आचार	custom and usage.
रस्सा (रस्सी स्त्री.)	पुं.	मूंज, सन आदि का बटा हुआ तथा मोटा रूप।	রশা, দড়া	रशा, दड़ा	thick rope made of jute etc.
रस्साकशी	स्त्री.	एक प्रकार का व्यायाम-मूलक खेल जिसमें एक-दूसरे के पीछे पंक्ति बांधकर खड़े खिलाड़ियों के दो दल आमने-सामने रस्से को अपनी-अपनी ओर खींचने के लिए जोर लगाते हैं;	দড়ি টানাটানি;	दड़ि टानाटानि;	tug-of-war;
		2. (लाक्षणिक) आपस में होने वाली खींचातानी या प्रतियोगिता।	(লাক্ষণিক) ঘরোয়া প্রতিযোগিতা	(लाक्षनिक) घरोया प्रतिजोगिता	tussle.
रहट	पुं.	खेतों में सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का एक प्रकार का यंत्र।	অরঘট, কুয়ো থেকে জল তোলার যন্ত্র	अरघट, कुयो थेके जल तोलार जन्त्र	a wheel or machine for draining water with, the persian wheel.
रहन-सहन	पुं.	घर-गृहस्थी या लोक में रहने और लोगों से व्यवहार करने की क्रिया या ढंग।	জীবনযাত্রা, চালচলন	जीवनजात्रा, चालचलन	mode or style of living.
रहना	अ. क्रि.	1. निवास करना;	রহা, বাস করা;	रहा, बास करा;	to dwell, to live;
		2. विद्यमान होना; 3. ठहरना।	থাকা; অবস্থান করা	थाका; अबस्थान करा	to exist; to stay.
रहनुमा	वि., पुं.	ठीक रास्ता बताने-वाला।	পথপ্রদর্শক	पथप्रदर्शक	guide.
रहनुमाई	स्त्री.	ठीक रास्ता बतलाना।	পথপ্রদর্শন	पथप्रदर्शन	guidance.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रहम	पुं.	करुणा, दया।	করুণা, দয়া	करुना, दया	mercy, kindness, pity, compassion.
रहल (रिहल)	स्त्री.	एक विशेष प्रकार की छोटी चौकी जो आवश्यकतानुसार खोली और बंद की जा सकती है और जिस पर पढ़ने के समय पुस्तक रखी जा सकती है।	রেহাল, এক প্রকার পুস্তকাধার	रेहाल, एक प्रकार पुस्तकाधार	stand or desk, support or stand for a book.
रहस्य	पुं.	1. मर्म या भेद की बात, गुप्त बात;	গোপনীয় বিষয়;	गोपनीय बिषय;	secret;
		2. आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर और उसकी सृष्टि के संबंध में वे तत्व या भेद जिनकी अनुभूति केवल सात्त्विक वृत्तिवाले लोगों के अन्तःकरण में ही होती है।	আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক ভাবাত্মক গূঢ় তত্ত্ব	आध्यात्मिक क्षेत्रे सात्विक भावात्मक गूढ़ तत्त्व	mystery in spiritualism.
रहस्यवाद	पुं.	ईश्वर तथा सृष्टि के परम तत्व या सत्य पर आश्रित एक वाद या सिद्धांत।	মরমিয়াবাদ	मरमियाबाद	mysticism.
रहस्यवादी	वि.,	रहस्यवाद-संबंधी।	মরমিয়াবাদবিষয়ক	मरमियाबादबिषयक	mystical.
	पुं.	वह जो रहस्यवाद के तत्व समझता अथवा उसके सिद्धांतों का अनुकरण करता हो।	মরমিয়া	मरमिया	mystic.
रहा-सहा	वि.	बहुत थोड़ा, बाकी बचा हुआ।	অবশিষ্ট	अबशिष्ट	remained, left.
रहित	वि.	1. के बिना, से विहीन;	রহিত, বিহীন;	रहित, बिहीन;	devoid of, without;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. अलग तथा मुक्त।	বিশ্লিষ্ট, বিয়োজিত	बिश्लिष्ट, बियोजित	void of, separated from, free from.
रांगा	पुं.	सफेद रंग की एक प्रसिद्ध धातु जो अपेक्षतया नरम होती है।	রাংগ, রাঙ	राङ्ग, राङ	pewter, tin.
रांधना	स. क्रि.	पकाना।	রাঁধা	रांधा	to cook, to prepare food.
रांपी	स्त्री.	पतली खुरपी के आकार का मोचियों का एक औजार जिससे वे चमड़ा काटते, छीलते और साफ करते हैं।	রাঁপি, রাম্পি	रांपि, राम्पि	shoemaker's tool for scraping leather, awl.
राई	स्त्री.	1. एक प्रकार की बहुत छोटी सरसों जिसका स्वाद बहुत तीक्ष्ण होता है;	রাই, রাজসর্ষপ, সরিষাবিশেষ;	राइ, राजसर्षप, सरिषाबिशेष;	a kind of mustard with small seeds, sinapis racemasa, chinesis, mustard;
		2. बहुत थोड़ी मात्रा या परिमाण।	কণা	कना	small particle.
राका	स्त्री.	पूर्णिमा की रात।	পূর্ণিমা	पूर्निमा	the night of full moon.
राकेश	पुं.	चंद्रमा।	চন্দ্র	चन्द्र	the moon.
राक्षस	पुं.	निशिचर, दैत्य।	রাক্ষস, নিশাচর, দৈত্য	राक्षस, निशाचर, दैत्य	evil or malignant spirit, demon, monster.
राक्षसी	वि.	राक्षस-जैसा।	রাক্ষুসে,	राक्षुसे,	demon like.
	स्त्री.	राक्षस की स्त्री।	রাক্ষসের স্ত্রী	राक्षसेर स्त्री	female demon.
राख	स्त्री.	भस्म, किसी बिलकुल जले हुए पदार्थ का अवशेष।	খাক, ছাই, ভস্ম	खाक, छाइ, भस्म	ashes.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राखी	स्त्री.	**रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को बांधा जाने वाला सूत्र।**	শ্রাবণী পূর্ণিমায় বোন ভাইয়ের মণিবন্ধে যে মংগলসূত্র পরিয়ে দেয়	श्रावनी पूर्निमाय बोन भाइयेर मनिबन्धे जे मङ्गलसूत्र परिये देय	a sacred thread bound by a sister round the wrist of her brother on the festival of saluno or the full moon of Savan.
राग	पुं.	**1. अनुराग, प्रेम;**	অনরাগ, প্রেম;	अनुराग, प्रेम;	love, affection, attachment;
		2. रंग, विशेषतः लाल;	রঙ্, বিশেষ-ভাবে লাল;	रङ्,बिशेष-भावे लाल;	colour, particularly red;
		3. किसी खास धुन में बैठाए हुए स्वर जिनके उच्चारण से गान होता है।	(সংগীতে) গানের সুর-বিন্যাসবিশেষ	(सङ्गीते) गानेर स्वर-बिन्यासबिशेष	melodic mode or structure with a fixed sequence of notes.
राग-रंग	पुं.	**कोई ऐसा उत्सव जिसमें गाना-बजाना और आमोद-प्रमोद होता है।**	এমন উৎসব যাহাতে গান আমোদ-প্রমোদ হয়	एमन उत्सब जाहाते गान बाजना आमोद- प्रमोद हय	revelry, festivities, amusement.
रागिनी	स्त्री.	**भारतीय शास्त्रीय संगीत में कोई ऐसा छोटा राग जिसके स्वरों के उतार-चढ़ाव आदि का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो।**	ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে 'রাগ'-এর পত্নী রূপে পরিকল্পিত তদুপজাত প্রধান সুর সমষ্টি	भारतीय शास्त्रीय संगीते 'राग'– एर पत्नी रूपे परिकल्पित तदुपजात प्रधान सुर समष्टि	a modification of the musical mode called Raga
राज	पुं.	**1. राजा के अधिकार में रहने वाला क्षेत्र, राज्य;**	রাজ্য;	राज्य;	kingdom, state;
		2. राजकीय शासन;	সরকার, গভরনমেন্ট;	सरकार, गभरनमेन्ट;	rule, government;
		3. मकान बनाने वाला कारीगर।	রাজমিস্ত্রি	राजमिस्त्रि	mason.
राज़	पुं.	**रहस्य, भेद।**	রহস্য	रहस्य	secret, mystery.
राजकर	पुं.	**राजा की ओर से लगाया हुआ कर।**	রাজকর, রাজস্ব	राजकर, राजस्व	tax or tribute paid to the king.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजकाज	पुं.	राज्य या शासन के प्रतिदिन के या महत्वपूर्ण काम।	রাজকার্য, রাজকর্ম	राजकार्ज, राजकर्म	state affairs, King's business, governmental affairs.
राजकीय	वि.	राजा या राज्य से संबंध रखनेवाला।	রাজসম্বন্ধী, সরকারি	राजसम्बन्धी, सरकारि	kingly, royal or governmental.
राजकुमार	पुं.	राजा का पुत्र।	রাজকুমার, রাজপুত্র	राजकुमार, राजपुत्र	a king's son, a prince.
राजकुमारी	स्त्री.	राजा की पुत्री।	রাজকুমারী রাজকন্যা	राजकुमारी, राजकन्या	a king's daughter, a princess.
राजकुल	पुं.	राजा का कुल या वंश।	রাজকুল, রাজবংশ	राजकुल, राजबंश	king's family, royal race or dynasty.
राजकोष	पुं.	वह स्थान जहां राजकीय धनसंपत्ति सुरक्षित रूप में रखी जाती है, सरकारी खजाना।	রাজকোষ, রাজকীয় ধনভান্ডার, ট্রেজারি	राजकोष, राजकीय धनभान्डार, ट्रेजारि	state treasury.
राजगद्दी	स्त्री.	राज-सिंहासन, राजा के बैठने का आसन।	সিংহাসন, রাজার আসন	सिंहासन, राजार आसन	king's throne, royal throne.
राजगीर	पुं.	मकान बनानेवाला कारीगर, राज।	রাজমিস্ত্রি	राजमिस्त्रि	mason.
राजगीरी	स्त्री.	राजगीर का कार्य।	রাজমিস্ত্রির কাজ	राजमिस्त्रिर काज	mason's work, masonry.
राजतिलक	पुं.	वह उत्सव जो नये राजा को राज्य-सिंहासन पर बैठाकर तिलक लगाने के अवसर पर होता हैं, राज्याभिषेक।	রাজটীকা, রাজ্যাভিষেকে রাজললাটে যে তিলক পরানো হয়	राजटीका, राज्याभिषेके राजललाटे जे तिलक परानो हय	the mark placed on the forehead of a royal personage on the occasion of coronation, coronation.
राजतंत्र	पुं.	ऐसा राज्य या शासन जिसमें सारी सत्ता एक राजा के हाथ में हो।	রাজতন্ত্র, নৃপতি কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা	राजतन्त्र, नृपति कर्तृक शासन-व्यबस्था	monarchy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजदंड	पुं.	1. शासक होने के प्रतीक स्वरूप वह डंडा जो राजा के हाथ में रहता है;	রাজদন্ড, রাজ-পদের নিদর্শন-স্বরূপ রাজার দন্ড;	राजदन्ड, राज-पदेर निदर्शन-स्वरूप राजार दन्ड;	king's sceptre, royal sceptre, kingly authority;
		2. राजा या राज्य के द्वारा अपराधियों, दोषियों आदि को मिलने वाला दंड।	রাজবিধি অনুযায়ী শাস্তি	राजबिधि अनुजायी शास्ति	punishment inflicted by order of a king, punishment prescribed or inflicted by law, tax or fine payable under law.
राजदूत	पुं.	किसी राजा के राज्य का वह दूत जो दूसरे राजा के यहां या राज्य में अपने राजा या राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो।	রাজদূত	राजदूत	king's envoy, ambassador.
राजद्रोह	पुं.	वह कृत्य जिससे राजा या राज्य के नाश या बहुत बड़े अहित की संभावना हो।	রাজদ্রোহ, প্রকাশ্যভাবে রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	राजद्रोह, प्रकाश्यभावे राजा बा राष्ट्रेर बिरुद्धे बिद्रोह	rebellion, treason.
राजद्रोही	पुं.	वह जिसने राजद्रोह किया हो।	রাজদ্রোহকারী	राजद्रोहकारी	traitor, rebel.
राजद्वार	पुं.	राजा के महल का द्वार।	রাজদ্বার, রাজ-প্রাসাদের দ্বার	राजद्वार, राज-प्रासादेर द्वार	the king's gate, palace gate.
राजधर्म	पुं.	राजा का कर्त्तव्य।	রাজধর্ম	राजधर्म	king's duty.
राजधानी	स्त्री.	किसी राज्य का वह नगर जो उसका शासन-केन्द्र हो।	রাজধানী, রাজ-শাসনের কেন্দ্রস্থল বা প্রধান নগর	राजधानी, राज-शासनेर केन्द्रस्थल बा प्रधान नगर	capital, metropolis.
राजनय	पुं.	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार-कुशलता।	কূটনীতিক, শলতা	कूटनीतिक शलता	diplomacy.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजनयिक	वि.	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा संबंधों में कुशल।	কূটনীতিকুশল ব্যক্তি	कूटनीतिकुशल व्यक्ति	diplomat.
राजनीति	स्त्री.	1. वह नीति या पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य का प्रशासन किया जाता है; 2. गुटों, वर्गों आदि की पारस्परिक स्पर्धावाली तथा स्वार्थपूर्ण नीति।	রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও রাষ্ট্রপরিচালনার রীতি; গোষ্ঠী, দল ইত্যাদির স্ব স্ব স্বার্থানুকূল নীতি	राजनीति, राष्ट्रशासन ओ राष्ट्रपरिचालनार रीति; गोष्ठी, दल इत्यादिर स्ब स्ब स्बार्थानुकूल नीति	statesmanship; politics.
राजनीतिक	वि.	राजनीति-संबंधी।	রাজনীতিসম্বন্ধী	राजनीतिसम्बन्धी	political.
राजनीतिज्ञ	पुं.	राजनीति का ज्ञाता।	রাজনীতিজ্ঞ	राजनीतिज्ञ	politician.
राजपत्र	पुं.	राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होनेवाला वह पत्र जिसमें राजकीय घोषनाएं, उच्च-पदस्थ कर्मचारियों की नियुक्तियां, नये नियम और विधान तथा इसी प्रकार की और प्रमुख सूचनाएं प्रकाशित होती हैं।	গেজেট	गेजेट	gazette.
राजपत्रित	वि.	जिसका उल्लेख या घोषणा राजपत्र में हो चुकी हो।	গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এমন	गेजेटे प्रकाशित हइयाछे एमन	gazetted.
राजपथ	पुं.	राजमार्ग, मुख्यमार्ग।	রাজমার্গ	राजमार्ग	national high way.
राजपाट	पुं.	राजा का सिंहासन और राज्य।	রাজসিংহাসন, রাজ্য	राजसिंहासन, राज्य	royal throne and kingdom.
राजपुरुष	पुं.	राज्य का कोई प्रधान अधिकारी या कार्यकर्त्ता।	প্রধানত: উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী	प्रधानतः उच्चपदस्थ राजकर्मचारी	royal servant or minister.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजपूत	पुं.	हिन्दुओं की एक योधा जाति का सदस्य।	রাজপুত, হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এক যোদ্ধা জাতি	राजपुत, हिन्दु सम्प्रदायभुक्त एक जोद्धा जाति	member of a Hindu martial caste.
राजभक्ति	स्त्री.	राजा या राज्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा।	রাজভক্তি	राजभक्ति	loyalty towards the king or the state.
राज-भवन	पुं.	1. वह भवन जिसमें राजा निवास करता हो;	রাজভবন, রাজপ্রাসাদ;	राजभवन, राजप्रासाद;	palace of a king, royal mansion or residence;
		2. वह सरकारी भवन जिसमें राजपाल रहता हो।	রাজ্যপালের বাসভবন	राज्यपालेर बासभवन	governor's residence.
राजमहल	पुं.	राजा के रहने का महल।	রাজার মহল	राजार महल	royal residence, palace, royal apartment.
राजमहिषी	स्त्री.	पटरानी।	পাটরানী	पाटरानी	the chief queen.
राजमार्ग	पुं.	दे. 'राजपथ'।	দ্র: 'রাজপথ'	द्र: 'राजपथ'	see 'राजपथ'.
राजमुद्रा	स्त्री.	सरकारी मोहर।	সরকারি সীল	सरकारी सील	royal signet or seal, privy seal.
राजयक्ष्मा	पुं.	तपेदिक, क्षय नामक रोग।	ক্ষয়রোগ, কঠিনতম যক্ষ্মা	क्षयरोग, कठिनतम जक्ष्मा	disease of consumption, tuberculosis.
राजयोग	पुं.	1. योग की एक शाखा;	যোগবিশেষ;	जोगबिशेष;	a branch of Yoga;
		2. ज्योतिष के अनुसार कुछ विशिष्ट ग्रहों का योग जिसके अनुसार मनुष्य राजा बनता है।	গ্রহনক্ষত্রাদির একত্র অবস্থানবিশেষ ইহাতে জন্মিলে জাতক রাজা হয়	ग्रहनक्षत्रादिर एकत्र अबस्थानबिशेष इहाते जन्मिले जातक राजा हय	configuration of planets under which kings are born.
राजरोग	पुं.	1. वह रोग जो असाध्य हो;	দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ব্যাধি;	दुश्चिकित्स्य कठिन ब्याधि;	a mortal disease;
		2. क्षयरोग।	ক্ষয়রোগ	क्षयरोग	tuberculosis.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजर्षि	पुं.	वह ऋषि जिसका जन्म किसी राजवंश अर्थात् क्षत्रिय कुल में हुआ हो।	এমন ঋষি যাঁর জন্ম রাজবংশ তথা ক্ষত্রিয়বংশে	एमन ऋषि जांर जन्म राजबंश तथा क्षत्रियबंशे	a royal rishi or saint, rishi or saint of royal descent.
राजलक्ष्मी	स्त्री.	राजाओं या राज्य का वैभव।	রাজলক্ষ্মী, রাজশ্রী	राजलक्ष्मी, राजश्री	good fortune or glory of a king.
राज-वंश	पुं.	राजा का कुल।	রাজকুল	राजकुल	royal race or family, dynasty.
राजवंशी	वि.	जो राजवंश में उत्पन्न हुआ हो।	রাজবংশীয়, রাজকুলে জাত	राजबंशीय, राजकुले जात	of royal race.
राजस	वि.	रजोगुण से उत्पन्न अथवा युक्त।	রজোগুণোদ্ভব, রজগুণবিশিষ্ট	राजगुनोद्भब, रजगुनबिशिष्ट	belonging or relating to the quality of passion (rajas).
राजसत्ता	स्त्री.	राजशक्ति, राजा या राज्य के हाथ में होनेवाली शक्ति।	রাজশক্তি	राजशक्ति	royal authority.
राजसिंहासन	पुं.	वह सिंहासन जिस पर राजा दरबार में बैठता है।	রাজসিংহাসন, রাজার সিংহাসন	राजसिंहासन, राजार सिंहासन	royal throne.
राजसिक	वि.	रजोगुण से उत्पन्न।	রাজসিক, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন	राजसिक, रजोगुन हइते उत्पन्न	belonging or relating to the quality of passion (rajas).
राजसी	वि.	1. राजाओं के वैभव, महत्व के लिए उपयुक्त, राजाओं का सा;	রাজসুলভ, রাজবৈভব;	राजसुलभ, राजबैभब;	fit for a king's grandeur, kingly;
		2. जिसमें रजोगुण की प्रधानता हो।	রজোগুণপ্রধান	रजोगुनप्रधान	with the quality of passion (rajas) as dominant.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजसूय	पुं.	एक यज्ञ जिसके करने का अधिकार केवल ऐसे राजा को होता है जो विश्व सम्राट के पद का अधिकारी हो।	রাজসূয়, রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট যে-যজ্ঞ করিতে পারেন	राजसूय, राजचक्रबर्ती बा सम्राट जे-जज्ञ करिते पारेन	a great sacrifice or religious ceremony performed at the coronation of supreme sovereign or universal monarch.
राजस्व	पुं.	वह धन जो राजा या राज्य को आधिकारिक रूप से मिलता हो।	রাজস্ব, রাজা বা সরকারকে দেয় খাজনা	राजस्ब, राजा बा सरकारके देय खाजना	revenue of a king or state.
राजा	पुं.	वह जो किसी राज्य या भूखण्ड का पूरा मालिक हो और उसमें बसने वाले लोगों पर सब प्रकार से शासन करता हो, नृपति, भूप।	রাজা, নৃপতি, ভূপতি	राजा, नृपति, भूपति	king, sovereign, monarch, ruler.
राजाज्ञा	स्त्री.	राजा या राज्य की आज्ञा।	রাজ-আজ্ঞা, রাজাদেশ	राज-आज्ञा, राजादेश	decree or ordinance of a king or state.
राजी	वि.	1. जो कोई कही हुई बात मानने को तैयार हो; 2.प्रसन्न और संतुष्ट।	রাজি, সম্মত, প্রীত, তুষ্ট	राजि, सम्मत; प्रीत, तुष्ट	willing, agreeable; pleased, contented.
राजी-खुशी	वि.	कुशल और आनन्दपूर्वक।	কুশল ও আনন্দযুক্ত	कुशल ओ आनन्दजुक्त	well and happy.
राज़ीनामा	पुं.	1. वह सुलहनामा जो वादी और प्रतिवादी न्यायालय में मुकदमा उठा लेने के उद्देश्य से उपस्थित करते हैं; 2. स्वीकृति-पत्र।	মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে সম্মত উভয়পক্ষের আদালতে স্বীকৃতি-সূচক দরখাস্ত; সম্মতিপত্র	मोकद्दमार निष्पत्ति करिते सम्मत उभयपक्षेर आदालते स्बीकृत-सूचक दरखास्त; सम्मतिपत्र	deed of agreement or compromise between the plaintiff and the defendant; agreement, written consent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राजीव	पुं.	नीला कंमल।	নীল পদ্ম	नील पद्म	the blue lotus, nelumbium, speciosum.
राज्य	पुं.	1. राजा का काम, शासन;	রাজ্য, রাজত্ব;	राज्य, राजत्व;	kingship, royalty, sovereignty, reign;
		2. आजकल निश्चित सीमाओं वाला वह भूखंड जिसकी प्रभुसत्ता उसके निवासियों में ही निहित हो;	যে সুসীম ভূখন্ডের রাজশক্তি তথা প্রভুত্বের ক্ষমতা স্থানীয় অধিবাসী-দের মধ্যেই নিহিত;	जे सुसीम भूखन्डेर राजशक्ति तथा प्रभुत्वेर क्षमता स्थानीय अधिबासी-देर मध्येइ निहित;	country, kingdom;
		3. किसी संघ-राज्य की कोई इकाई।	কোনো রাষ্ট্রের-রাজতন্ত্র;	कोनो राष्ट्रेर-राजतन्त्र;	unit of a federation of states, state.
राज्य-तंत्र	पुं.	1. राज्य शासन की वह प्रणाली जिसमें किसी राज्य का प्रधान शासक राजा होता है;	রাজ্যবিশেষ	राज्यबिशेष	monarchy;
		2. राज्य की शासन-प्रणाली।	রাজ্যের শাসনপ্রণালী	राज्येर शासनप्रनाली	system of administration or government.
राज्य-परिषद्	स्त्री.	गणतन्त्र भारत की दो सर्वोच्च विधि-निर्मात्री संस्थाओं में से एक जिसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है।	রাজ্যসভা	राज्यसभा	Council of States, (Upper House of) the Parliament of Indian Republic.
राज्यपाल	पुं.	भारत-संघ के अन्तर्गत किसी राज्य का प्रधान शासक जिसका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं।	রাজ্যপাল, ভারতের রাজ্য বা প্রদেশ-বিশেষের প্রধান শাসনকর্তা	राज्यपाल, भारतेर राज्य बा प्रदेश-बिशेषेर प्रधान शासनकर्ता	Governor of a State.
राज्यसभा	स्त्री.	दे. 'राज्य-परिषद्'।	দ্র: 'রাজ্যপরিষদ'	द्र: 'राज्यपरिषद'	same as 'राज्य-परिषद्'.
राज्याभिषेक	पुं.	किसी नये राजा का राजसिंहासन पर बैठना।	রাজপদে বিধিপূর্বক প্রতিষ্ঠাপন	राजपदे बिधिपूर्बक प्रतिष्ठापन	the inauguration or coronation of a king.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रात	स्त्री.	समय का वह भाग जिसमें सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, संध्या से प्रातःकाल तक का समय।	রাত, রাত্রি	रात, रात्रि	night.
रात की रानी	स्त्री.	एक प्रकार का पुष्प, जिसमें रात के समय गुच्छों में लगे हुए सुगंधित फूल फूलते हैं।	সুগন্ধ পুষ্প-বিশেষ, রাত্রি-বেলায় যাহার গন্ধ ছড়ায়	सुगन्ध पुष्प-बिशेष रात्रि-बेलाय जाहार गन्ध छड़ाय	fragrant flower that blooms during the night.
रातिब (रातब)	पुं.	1. एक दिन का खाने का भत्ता, निश्चित वृत्ति पर वेतन; 2. पालतू पशु के लिए भोजन।	খাদ্যের দৈনিক বারাদ্দ, দৈনিক ভাতা; গৃহপালিত পশুর খাদ্য	खाद्येर दैनिक बराद्द, दैनिक भाता; गृहपालित पशुर खाद्य	daily allowance of food, a ration, set stipend or salary; food for pet animals.
रात्रि	स्त्री.	निशा, रात।	রাত্রি, নিশা, রাত	रात्रि, निशा, रात	night.
रान	स्त्री.	जांघ।	জঙ্ঘা	जङ्घा	the thigh.
रानी	स्त्री.	राजा की पत्नी।	রানী, রাজপত্নী	रानी, राजपत्नी	king's wife.
रानी-मक्खी	स्त्री.	मधुमक्खियों के छत्ते में वह मक्खी जिसका काम केवल अंडे देना होता है।	মক্ষিরানী	मक्षिरानी	queen.
राब	स्त्री.	औटाकर खूब गाढ़ा किया हुआ गन्ने का रस।	মাতগুড়	मातगुड़	treacle; molasses.
राम	पुं.	1. सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र जो विष्णु के दस अवतारों में से एक माने जाते हैं तथा रामायण के नायक; 2. कृष्ण के बड़े भाई बलराम।	দশরথপুত্র রামচন্দ্র; বলরাম	दशरथपुत्र रामचन्द्र; बलराम	King Dashrath's son and an incarnation of Lord Vishnu who is also the hero of the Ramayan; Elder brother of Lord Krishna.

हिंदी शब्द	व्या· को·	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राम कहानी	स्त्री.	अपने पर बीती हुई घटनाओं का लम्बा या विस्तृत वर्णन।	আত্মকথা	आत्मकथा	narration of the events of one's own life.
रामदाना	पुं.	मरसे या चौराई की जाति का एक पौधा जिसमें सफेद रंग के छोटे-छोटे दाने या बीज लगते हैं।	রামদানা, এক প্রকার ক্ষুদ্র চারা গাছ–ইহাতে সাদা সাদা ছোট ছোট বীজ হয়	रामदाना, एक प्रकार क्षुद्र चारा गाछ—इहाते सादा सादा छोट छोट बीज हय	a plant which gives small white seeds like those of poppy.
रामनवमी	स्त्री.	भगवान रामचन्द्र का जन्मदिवस, चैत्र शुक्ल नवमी।	ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মতিথি, চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী	भगवान् रामचन्द्रेर जन्मतिथि, चैत्रमासेर शुक्ला नबमी	ninth day in the bright half of the lunar month of Chaitra, being the birthday of Ramchandra.
रामनामी	स्त्री.	1. वह वस्त्र जिसपर सब जगह रामनाम छपा हुआ हो; 2. गले में पहनने का एक प्रकार का हार।	রামনামাঙ্কিত নামাবলি; হারবিশেষ	रामनामाङ्कित नामाबलि; हारबिशेष	cloth on which the name of Rama is printed all over; a kind of necklace.
रामबाण	पुं.	1. ऐसी दवा जो उपयोगी सिद्ध हो, अचूक; 2. सब रोगों के लिए कारगर।	অমোঘ ঔষধ; সর্বরোগহর ঔষধ	अमोघ औषध; सर्बरोगहर औषध	unfailing remedy, sure cure; panacea.
रामरज	स्त्री.	एक प्रकार की पीली मिट्टी जिसका वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं।	একপ্রকারের হলদে মাটি –বৈষ্ণবেরা ইহা দ্বারা তিলক করেন	एकप्रकारेर हलदे माटि बैष्नबेरा इहा द्वारा तिलक करेन	a kind of yellow earth with which Vaishnavas put tilak on their fore-head.
रामरस	पुं.	नमक।	লবণ	लबन	salt.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रामराज्य	पुं.	ऐसा राज्य या शासन जिसमें प्रजा सब प्रकार से निश्चिंत, सम्पन्न तथा सुखी हो।	আদর্শভাবে শাসিত অতিশয় সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য	आदर्शभावे शासित अतिशय सुखशान्तिपूर्न राज्य	ideal state the people of which are happy, contented and free from care, golden rule.
राम-राम	पुं.	भेंट के समय अभिवादन स्वरूप बोला जानेवाला पद।	এই বলিয়া নমস্কারাদি করা হয়;	एइ बलिया नमस्कारादि करा हय;	a form of salutation or greeting.
	अव्य.	दुःख संकोच आदि भावों का सूचक।	দুঃখ সঙ্কোচ ইত্যাদি ভাবসূচক কথা	दुःख संकोच इत्यादि भावसूचक कथा	a form of invocation, Good God! Good heavens!
रामलीला	स्त्री.	रामायण पर आधारित भगवान राम के जीवन की घटनाओं का नाटक रूप में प्रदर्शन।	রামের চরিতবিষয়ক অভিনয়	रामेर चरितबिषयक अभिनय	a dramatic performance on the story of Rama
राय	स्त्री.	सलाह, सम्मति, मत।	সলা, সম্মতি, মত	सला, सम्मति, मत	counsel, advice, opinion.
रायता	पुं.	मठे या दही में उबले आलू, घिया, पिसा हुआ पोदीना अथवा केले आदि के टुकड़े डालकर बनाया गया व्यंजन।	রাজাক্তা, পিষ্টরাজিকা-দধিলবণমিশ্রিত ব্যঞ্জন	राज्यक्ता, पिष्टराजिका-दधिलबनमिश्रित व्यन्जन	a specially made yoghurt dish.
रार	स्त्री.	झगड़ा, तकरार।	ঝগড়া, তকরার	झगड़ा, तकरार	quarrel, fray.
राल	स्त्री.	मुंह से निकलनेवाला पतला रस।	লালা	लाला	saliva, spittle.
राव	पुं.	1. राजा; 2. राजा का दरबारी।	রাজা; রাজপরিষদ	राजा; राजपरिषद	king, prince; chief, courtier.
राशि	स्त्री.	1. किसी पदार्थ का समूह;	পুঞ্জ, সমূহ;	पुन्ज, समूह;	heap, mass, pile, accumulation;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. (गणित में) जोड़, गुणा, भाग आदि की क्रिया की जानेवाली संख्या;	(গণিতে) যোগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি অনুসারে লব্ধ সংখ্যা;	(गनिते) जोग-गुन-भाग इत्यादि अनुसारे लब्ध संख्या;	a fraction;
		3. ज्योतिषशास्त्र के अन्तर्गत क्रांति-वृत्त में पड़नेवाले 12 तारा समूह में से कोई एक।	(জ্যোতিষে) জ্যোতিশ্চক্রের অন্তর্গত ১২ টি গ্রহের যে-কোনো একটি	(ज्योतिषे) ज्योतिश्चक्रेर अन्तर्गत 12 टि ग्रहेर जे-कोनो एकटि	a sign of the zodiac.
राशि-चक्र	पुं.	क्रांति-वृत्त में पड़नेवाली बारह राशियों का मंडल।	মেষাদিরাশিঘটিত বৃত্ত, জ্যোতিশ্চক্র	मेषादिराशिघटित बृत्त, ज्योतिश्चक्र	zodiacal circle, zodiac.
राशि-नाम	पुं.	मनुष्य के जन्म के समय की राशि के अनुसार रखा गया उसका नाम।	জন্মরাশির বর্ণানুসারে কৃত নাম	जन्मराशिर बर्नानुसारे कृत नाम	name given (to a child) on the basis of the zodiacal sign (under which he is born).
राष्ट्र	पुं.	किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासी जो एक ही शासन के अधीन हों।	রাষ্ট্রবাসী, কোনো দেশ বিশেষের অধিবাসী জন	राष्ट्रबासी, कोनो देश बिशेषेर अधिबासी जन	people, nation, country.
राष्ट्रकवि	पुं.	ऐसा कवि जिसे शासन राष्ट्र का कवि घोषित कर के सम्मानित करे।	জাতীয় কবি	जातीय कबि	national poet.
राष्ट्रकुल	पुं.	ब्रिटेन तथा ऐसे राष्ट्रों का मंडल जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे।	ব্রিটেনের অধীনে মৈত্রী-বন্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জ	ब्रिटेनेर अधीने मैत्री-बृद्धा राष्ट्रपुन्ज	Commonwealth of Nations.
राष्ट्रगीत	पुं.	ऐसा गीत जिसे विशिष्ट मान्यता प्राप्त हो और उसे राष्ट्रीय उत्सवों आदि पर गाया जाता हो।	জাতীয় সংগীত	जातीय सङ्गीत	national anthem.
राष्ट्रपति	पुं.	किसी शासन-व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी।	রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপধান	राष्ट्रपति, राष्ट्रप्रधान	president of a country.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राष्ट्रभाषा	स्त्री.	राष्ट्र की ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राष्ट्रवासी सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हों।	রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রের ভাষা	राष्ट्रभाषा, राष्ट्रेर भाषा	national language.
राष्ट्रमंडल	पुं.	दे. 'राष्ट्रकुल'।	দ্র: 'রাষ্ট্রকুল'	द्र: 'राष्ट्रकुल'	see 'राष्ट्रकुल'.
राष्ट्रवाद	पुं.	राष्ट्र एवं राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रति निष्ठा एवं गौरव की भावना की धारणा।	জাতীয়তাবাদ	जातीयताबाद	nationalism.
राष्ट्रवादी	वि., पुं.	राष्ट्रवाद से संबंधित, राष्ट्रवाद में विश्वास रखनेवाला व्यक्ति।	জাতীয়তাবাদী	जातीयताबादी	nationalistic, nationalist.
राष्ट्रसंघ	पुं.	संसार के प्रमुख राष्ट्रों का वह मंडल जिसकी स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् की गई थी।	রাষ্ট্রসঙ্ঘ, দুনিয়ার প্রায় সব স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্ঘ	राष्ट्रसङ्घ, दुनियार प्राय सब स्बाधीन राष्ट्रेर सङ्घ	League of Nations
राष्ट्रिक	वि., पुं.	ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त हो।	কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক	कोनो राष्ट्रेर नागरिक	belonging to a nation, (n) national.
राष्ट्रिकता	स्त्री.	राष्ट्रिक होने का भाव अथवा राष्ट्रिकता का अधिकार।	জাতিত্ব	जातित्ब	nationality.
राष्ट्रीय	वि.	राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र का।	জাতীয়	जातीय	national.
राष्ट्रीयता	स्त्री	राष्ट्र का कल्याण, सुरक्षा आदि को प्रमुख मानने की भावना, राष्ट्र का अंग होने की भावना।	জাতীয়তা	जातीयता	nationalism.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रास	स्त्री.	1. प्राचीन भारत में ग्वालों की एक क्रीड़ा जिसका एक रूप श्री कृष्ण से संबंधित आज भी प्रदर्शित किया जाता है; 2. लगाम।	কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব–এর অনুষ্ঠান প্রাচীনকাল হইতে চলিতেছে; রাশ, লাগাম	कार्त्तिकी पूर्निमाय गोपिदेर सहित श्रीकृष्नेर नृत्योत्सब–एर अनुष्ठन प्राचीनकाल हइते चलितेछे; राश, लागाम	a form of pastoral dance associated with Lord Krishna and Gopis; reins.
रास-मंडली	स्त्री.	रास खेलनेवालों का समूह।	রাসলীলার অভিনয়কারী দল	रासलीलार अभिनयकारी दल	troupe of the performers of **Rasa.**
रास-लीला	स्त्री.	वह क्रीड़ा जो श्रीकृष्ण अपने ग्वालों तथा गोपियों के साथ किया करते थे।	শ্রীকৃষ্ণের রাসরূপ ক্রীড়া	श्रीकृष्नेर रासरूप क्रीड़ा	dance in which Lord Krishna and his cowherds and milkmaids used to take part.
रासायनिक	वि.	रसायन शास्त्र से सम्बन्धित।	রাসায়নিক, রসায়নসম্বন্ধী	रासायनिक, रसायनसम्बन्धी	chemical.
रासो	पुं.	किसी राजा-महाराजा के जीवन का पद्यमय वृतान्त।	কোনো রাজা-মহারাজার পদ্যে রচিত জীবন-	कोनो राजा-महाराजार पद्य रचित जीवन-	epic.
रास्ता	पुं.	वह भू-खण्ड जिस पर लोग प्रायः आते-जाते हों, मार्ग, पथ।	পথ	पथ	road, way, path, passage.
राह	स्त्री.	दे. 'रास्ता'।	দ্র: 'রাস্তা'	द्र: 'रास्ता'	see 'रास्ता'.
राहगीर	पुं.	राह चलनेवाला, पथिक।	পথিক	पथिक	traveller, wayfarer pedestrian.
राहज़नी	स्त्री.	राह चलते लोगों को लूटना।	রাহাজানি, পথে ডাকাতি বা লুটপাট	राहाजानि, पथे डाकाति बा लुटपाट	highway robbery.
राहत	स्त्री.	1. आराम, सुख; 2. छुटकारा।	আরাম, সুখ; পরিশ্রম, কষ্ট ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি	आराम, सुख; परिश्रम, कष्ट इत्यादि हइते अव्याहति	rest, ease; freedom from toil or trouble etc., relief.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
राहदारी	स्त्री.	1. राह चलने की अनुमति; 2. प्राचीन समय में राह चलने के लिए अदा किया जाने वाला एक प्रकार का कर।	যাত্রার অনুমতি; রাস্তায় চলাচল ইত্যাদির জন্য দেয় কর, উপশুল্ক	जात्रार अनुमति; रास्ताय चलाचल इत्यादिर जन्य देय कर, उपशुल्क	permission to travel; toll.
राही	पुं.	दे. 'राहगीर'।	দ্র: 'রাহগীর'	द्र: 'राहगीर'	see 'राहगीर'.
राहु	पुं.	पुराणों के अनुसार नौ ग्रहों में से एक।	গ্রহবিশেষ, অষ্টম গ্রহ	ग्रहबिशेष अष्टम ग्रह	one of the nine planets.
रिआयत	स्त्री.	छूट, ढील।	রেয়াত, রেহাই	रेयात, रेहाइ	remission, leniency, concession.
रिआयती	वि.	जिसमें किसी प्रकार की रिआयत, छूट या ढील दी गई हो।	রেয়াত করা হইয়াছে এমন	रेयात करा हइयाछे एमन	granted remission or leniency, concessional.
रिआया	स्त्री.	प्रजा।	রাইয়ত, রায়ৎ	राइयत, रायत्	subjects, people.
रिक्त	वि.	खाली, जिसमें या जहां कुछ न हो।	রিক্ত, খালি, শূন্য	रिक्त, खालि, शून्य	empty, void.
रिक्तता	स्त्री.	खाली या शून्य होने का भाव।	রিক্ততা, শূন্যতা	रिक्तता, शून्यता	emptiness, vacancy.
रिक्ति	स्त्री.	खाली पड़ी नौकरी।	কর্মখালি	कर्मखालि	vacancy.
रिक्शा	पुं.	दो पहियों की हल्की सवारी गाड़ी जिसे एक या अधिक व्यक्ति खींच कर चलाते हैं; साइकिल जैसे तीन पहियोंवाली सवारी जिसे चालक साइकिल की ही तरह चलाता है।	রিকশা, মনুষ্য চালিত দ্বি অথবা ত্রিচক্রযান	रिकशा, मनुष्य चालित द्बि अथबा त्रिचक्रजान	rikshaw.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रिझाना		मोहित करना, प्रसन्न करना।	মুগ্ধ করা, প্রসন্ন করা	मुग्ध करा, प्रसन्न करा	to please, to captivate, to charm.
रिपु	पुं.	शत्रु, विरोधी।	রিপু, শত্রু, বৈরী	रिपु, शत्रु, बैरी	enemy, foe, opponent.
रिमझिम	स्त्री.	छोटी-छोटी बूंदों का बरसना, फुहार पड़ना।	নিরন্তর মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ	निरन्तर मृदु बृष्टिपातेर शब्द	drizzling.
रियासत	स्त्री.	1. रईस अथवा अमीर होने का भाव;	অভিজাত্য, ধনাঢ্যতা;	अभिजात्य, धनाढ्यता;	state of being wealthy, nobleness;
		2. राज्य।	রাজ্য	राज्य	state, estate.
रियासती	वि.	राज्य का, रियासत से संबंधित।	রাজ্যসম্পর্কিত	राज्यसम्पर्कित	of or belonging to a state or estate
रिलना	अ. क्रि.	प्रवेश करना, घुसना।	প্রবেশ করা, ঢোকা	प्रवेश करा, ढोका	to enter (into).
रियाज	पुं.	प्रथा, चलन।	রেওয়াজ, রেয়াজ	रेओयाज, रेयाज	custom, practice.
रिश्ता	पुं.	सम्बन्ध, नाता।	সম্বন্ধ, আত্মীয়তা	सम्बन्ध, आत्मीयता	connection, relation, relationship, kinship, affinity.
रिश्तेदार	पुं.	सम्बन्धी।	আত্মীয়	आत्मीय	relative, relation, kinsman.
रिश्तेदारी	स्त्री.	रिश्ता होने का भाव, सम्बन्ध, नाता।	আত্মীয়তা, সম্বন্ধ	आत्मीयता, सम्बन्ध	relationship, kinship.
रिश्वत	स्त्री.	उचित अथवा अनुचित रूप से काम करवाने के लिए दिया जानेवाला धन अथवा कोई उपहार, घूस।	ঘুষ, উৎকোচ	घुष, उत्कोच	a bribe.
रिश्वतखोर	पुं.	घूस खानेवाला।	ঘুষখোর	घुषखोर	one who takes bribe.
रिश्वतखोरी	स्त्री.	घूस खाने की क्रिया।	ঘুষখোরি	घुषखोरि	taking of bribes.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रिसना	अ. क्रि.	किसी तरल पदार्थ का धीरे-धीरे अथवा बूंद-बूंद करके बाहर निकलना।	চুয়ানো	चुयानो	to drop slowly, to drip, to trickle, to leak, to ooze.
रिसाना	अ. क्रि.,	1. क्रुद्ध होना;	ক্রুদ্ধ হওয়া, চটা;	क्रुद्ध हओया, चटा;	to take offence, to be offended;
	स. क्रि.	2. क्रोधित करना।	চটানো	चटानो	to offend.
रिहा	वि.	बन्धन से मुक्त, छूटा हुआ।	রিহাই বা রেহাই পাইয়াছে এমন	रिहाइ बा रेहाइ पाइयाछे एमन	released, liberated, set free.
रिहाई	स्त्री.	मुक्ति, छुटकारा।	রিহাই, রেহাই, মুক্তি, অব্যাহতি	रिहाइ, रेहाइ, मुक्ति, अब्याहति	liberation, freedom, release, acquittal.
रिहायश	स्त्री.	1. रहने का स्थान, निवास; 2. रहन-सहन का ढंग, रहना।	বাসস্থান, নিবাস; জীবনযাত্রা	बासस्थान, निबास; जीबनजात्रा	place of residence or dwelling; way of living, living, stay.
रिहायशी	वि.	निवास अथवा रहन-सहन से सम्बन्धित।	বাসস্থান অথবা জীবনযাত্রা-বিষয়ক	बासस्थान अथबा जीबनजात्रा-बिषयक	residential.
रीछ	पुं.	एक जंगली पशु—भालू।	ঋক্ষ, ভল্লুক	ऋक्ष, भल्लुक	bear.
रीझ	स्त्री.	किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ पर मोहित होने या दिल आने का भाव।	হর্ষ, আনন্দ	हर्ष, आनन्द	inclination, pleasure, liking.
रीझना	अ. क्रि.	मोहित होना, दिल आना।	মুগ্ধ হওয়া, মনে ধরা	मुग्ध हओया, मने धरा	to be inclined, to be infatuated, to be charmed.
रीठा	पुं.	एक प्रकार का जंगली वृक्ष तथा उसका सख्त फल जिसके झाग से केश और कपड़े धोए जाते हैं।	রিঠা, গরম কাপড় ইত্যাদি কাচার জন্য ব্যবহৃত আঠাল ফলবিশেষ	रिठा, गरम कापड़ इत्यादि काचार जन्य ब्यबहृत आठाल फलबिशेष	soap-wart, soap-nut.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रीढ़	स्त्री.	पीठ के बीचों-बीच की वह गांठदार हड्डी जिससे दोनों ओर की पसलियां जुड़ी रहती हैं, मेरु-दंड।	মেরুদন্ড, শিরদাঁড়া	मेरुदन्ड, शिरदांड़ा	back-bone, spine.
रीत	स्त्री.	रिवाज, प्रथा।	রীতি, রেওয়াজ, প্রথা	रीति, रेओयाज, प्रथा	custom, practice, convention, vogue, mode.
रीता	वि.	खाली, जिसमें या जिसके पास कुछ न हो।	রিক্ত, খালি, শূন্য	रिक्त, खालि, शून्य	empty, void.
रीति	स्त्री.	1. प्रथा, रिवाज, चलन;	রীতি, প্রথা, রেওয়াজ;	रीति, प्रथा, रेओयाज;	custom,fashion, practice, convention;
		2. मध्ययुगीन हिन्दी काव्य-रचना की एक प्रणाली।	মধ্যযুগীয় হিন্দী কাব্যরচনার শৈলীবিশেষ	मध्यजुगीय हिन्दी काव्यरचनार शैलीबिशेष	style.
रीतिकाव्य	पुं.	हिन्दी काव्य की ऐसी विधा जिसमें अलंकार, रस तथा नायिका-भेद आदि को प्रमुखता दी जाती है।	হিন্দী কাব্যের প্রকারভেদ	हिन्दी काव्येर प्रकारभेद	the particular trend of mediaeval poetry in Hindi.
रीति-रिवाज	पुं.	रस्मो-रिवाज, प्रथाएं, परम्पराएं आदि।	রীতি-নীতি	रीति-नीति	customs and practices.
रीतिवाद	पुं.	चली आ रही रीतियों अथवा परम्पराओं का दृढ़तापूर्वक पालन करने का मत अथवा सिद्धांत।	চিরাগত রাজনীতি বা পরম্পরা দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করার মত বা সিদ্ধান্ত	चिरागत राजनीति बा परम्परा दृढ़तार सहित अनुसरन करार मत बा सिद्धान्त	conventionalism.
रीस	स्त्री.	किसी को देख कर कुछ करना, प्रतिस्पर्धा, क्रोध।	রিষ, ঈর্ষা, ক্রোধ	रिष, ईर्षा, क्रोध	emulation, envy, anger.
रुंड	पुं.	1. कटे सिर का धड़;	কবন্ধ;	कबन्ध;	headless body, trunk (of body);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. टहनी-पत्तों से रहित वृक्ष।	ছিন্নপত্র ছিন্নশাখ বৃক্ষ	छिन्नपत्र छिन्नशाख बृक्ष	tree devoid of branches, leaves etc.
रुंधना	अ. क्रि.	1. रुकना, रुकावट के कारण गति में बाधा आना; 2. गले से आवाज न निकलना।	থামিয়া যাওয়া, বাধার জন্য গতিরুদ্ধ হওয়া; গলা হইতে স্বর বাহির না হওয়া	थामिया जाओया, बाधार जन्य गतिरुद्ध हओया; गला हइते स्वर बाहिर ना हओया	to be restrained; to be choked.
रुआं	पुं.	शरीर पर उगनेवाला पतला नर्म बाल।	রোঁয়া, রোম	रोंया, रोम	soft thin hair of the body.
रुआंसा	वि.	रोने के निकट, भरे दिलवाला।	রোদনোন্মুখ	रोदनोन्मुख	on the verge of weeping.
रुआब (रौब)	पुं.	धाक, दबदबा।	পরাক্রম	पराक्रम	commanding or awe-inspiring presence, dignity, awe.
रुई	स्त्री.	कपास की डोडी के अंदर का सफेद हल्का नर्म पदार्थ जिससे सूती कपड़ा बुना जाता है।	তুলা, কার্পাস	तुला, कार्पास	cotton (carded or cleaned).
रुईदार	वि.	रुईवाला, रुई से युक्त।	তুলাভরা	तुलाभरा	quilted with cotton, stuffed with cotton.
रुकना	अ. क्रि.	1. आगे बढ़ने या चलने की क्रिया में ठहर जाना; 2. कहीं ठहरना, टिकना।	গতিরুদ্ধ হওয়া; থামা	गतिरुद्ध हओया; थामा	to stop, to rest, to be hindered; to halt, to stay.
रुकवाना	स. क्रि.	रोकने का काम किसी अन्य से करवाना।	রুখা, থামানো	रुखा, थामानो	to cause to be stopped, etc.
रुकाव	पुं.	1. रुकने का भाव या अवस्था;	থামা;	थामा;	stoppage;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. रुकावट, बाधा, अटकाव।	বাধা, প্রতিবন্ধক	बाधा, प्रतिबन्धक	obstruction, checking, hindrance, prevention.
रुकावट	स्त्री.	बाधा, अटकाव।	বাধা, প্রতিবন্ধক	बाधा, प्रतिबन्धक	obstruction, checking, hindrance.
रुक्का	पुं.	1. छोटी सी चिट्ठी, परचा;	রোকা, ছোট চিঠি হাতচিঠা;	रोका, छोट चिठि, हातचिठ;	bit, piece, scrap (of paper), chit;
		2. ऋण लेने समय लिखकर दी जानेवाली हुंडी।	ঋণগ্রহণের সময়ে খাতকের দেওয়া রসিদ	ऋनग्रहनेर समय खातकेर देओया रसिद	note or bill (written while taking loan or debt), promissory note.
रुख	पुं.	1. चेहरा, मुंह;	চেহারা, মুখমন্ডল;	चेहारा, मुखमन्डल;	face, countenance, cheek, face, aspect, point, side,quarter;
		2. दिशा, तरफ;	দিক্, তরফ;	दिक् तरफ;	direction, trend;
		3. पेड़, वृक्ष;	গাছ, বৃক্ষ;	गाछ, बृक्ष;	tree;
		4. शतरंज का एक मुहरा।	দাবার গুটিবিশেষ	दाबार गुटिबिशेष	rook or castle (of chess game).
रुखाई	स्त्री.	1. रूखा होने की अवस्था या भाव, रूखापन;	রুক্ষতা, শুষ্কতা;	रक्षता, शुष्कता;	roughness, dryness;
		2. व्यवहार की कठोरता और नीरसता, स्नेह-हीनता।	কর্কশতা, কঠোরতা নীরবতা, স্নেহশূন্যতা	कर्कशता, कठोरता, नीरबता, स्नेहशून्यता	rudeness, indifference.
रुखानी	स्त्री.	1. बढ़इयों का लकड़ी में काटकर छेद करनेवाला एक धारदार उपकरण·	তরপুন;	तरपुन;	auger, borer, carpenter's drill;
		2. संगतराशों की टांकी या छैनी।	ছিদ্রকরার বাটালি	छिद्रकरार बाटालि	a gouging chisel.
रुग्ण	वि.	जिसे कोई रोग हो गया हो, बीमार, रोगी।	রুগ্ন, রোগী যার রোগ হইয়াছে	रुग्न, रोगी, जार रोग हइयाछे	diseased, sick.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रुग्णता	स्त्री.	रुग्ण होने की अवस्था या भाव, बीमारी।	রুগ্নতা, পীড়িতাবস্থা	रुग्नता, पीड़िताबस्था	sickness, illness, disease.
रुचना	अ. क्रि.	अच्छा लगना, भाना, रुचि के अनुकूल प्रतीत होना।	রুচিকর হওয়া, ভাল লাগা	रुचिकर हओया, भाल लागा	to be pleasant, agreeable.
रुचि	स्त्री.	मन की वह प्रवृत्ति जिसके अनुसार मन को कोई चीज़ या कार्य भाए या मनुष्य का मन उस ओर झुकता हो।	পছন্দ, আগ্রহ, স্পৃহা	पछन्द, आग्रह, स्पृहा	liking, taste, interest.
रुचिकर	वि.	जिसमें मन की रुचि हो, भानेवाला, अच्छा लगनेवाला।	রুচিকর, যাতে মনের রুচি-স্পৃহা ঘটে	रुचिकर, जाते मनेर रुचि-स्पृहा घटे	causing pleasure, exciting.
रुचिकारक	वि.	दे. 'रुचिकर'।	দ্র: 'রুচিকর'	द्र: 'रुचिकर'	see 'रुचिकर'.
रुचिकारी	वि.	रुचि उत्पन्न करनेवाला, मनोहर, रुचिकर।	রুচিপ্রদ, রুচিকর	रुचिप्रद, रुचिकर	according to taste, agreeable, pleasant.
रुचिर	वि.	रुचि के अनुकूल, प्रिय, अच्छा लगनेवाला।	মনোরম	मनोरम	agreeable, lovely, pleasant.
रुचिरता	स्त्री.	रुचिर होने का भाव या अवस्था।	রুচিরত্ব	रुचिरत्व	agreeableness, pleasantness.
रुचिवर्धक	वि.	1. रुचि बढ़ानेवाला; 2. भूख बढ़ानेवाला।	স্পৃহাবর্ধক; ক্ষুধাবর্ধক	स्पृहाबर्धक; क्षुधाबर्धक	increasing desire; causing appetite.
रुझान	पुं.	किसी वस्तु या कार्य में प्रवृत्ति होने का भाव।	ঝোঁক	झोंक	inclination, aptitude, trend.
रुत	स्त्री.	ऋतु, मौसम।	ঋতু, মৌসুম	ऋतु, मौसुम	season.
रुतबा	पुं.	पद, स्थान।	পদ, স্থান	पद स्थान	rank, position, status.
रुदन	पुं.	रोने की क्रिया या भाव, रोना।	রোদন	रोदन	weeping, wailing lamentation.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रुद्ध	वि.	रुका हुआ या बन्द।	অবরুদ্ধ, বন্ধ	अबरुद्ध, बन्ध	obstructed or closed, shut.
रुद्र	वि.	1. रुलानेवाला; 2. भयंकर; 3. शिव का एक नाम।	রোদয়িতা; ভয়ঙ্কর; শিব	रोदयिता; भयङ्कर; शिब	causing to weep; terrified, dreadful; an epithet of Siva.
रुद्राक्ष	पुं.	एक प्रकार का वृक्ष जिसके बीजों की माला पहनी जाती है।	রুদ্রাক্ষ, বৃক্ষবিশেষ– ইহার ফলের দ্বারা মালা প্রস্তুত হয়	रुद्राक्ष, वृक्षबिशेष इहार फलेर द्वारा माला प्रस्तुत हय	the berry of the Elaeocarpus ganitrus tree used as beads for rosaries.
रुधिर	पुं.	रक्त, खून, लहू।	রুধির, রক্ত	रुधिर रक्त	blood.
रुपया	पुं.	सौ पैसे के मूल्य का सिक्का या नोट।	রুপেয়া, টাকা	रुपेया, टाका	coin or note of one rupee the value of which is equal to hundred paise.
रुपल्ली	स्त्री.	रुपया।	রুপিয়া, রুপেয়া	रुपिया, रुपेया	rupee.
रुपहला	वि.	चांदी के रंग या कामवाला।	রূপালি	रूपालि	silvery or worked or tinted with silver.
रुबाई	स्त्री.	उर्दू-फारसी कविता में एक प्रकार का चार पंक्तियों का छन्द।	উর্দূ ও ফরাসি ভাষার চৌপদী ছন্দের কবিতা	उर्दू ओ फरासि भाषार चौपदी छन्देर कबिता	a quatrain (in Urdu-Persian poetry).
रुमाल (रूमाल)	पुं.	जेब में रखने का चौकोना कपड़े का टुकड़ा जो हाथ-नाक आदि साफ करने के काम आता है।	রুমাল, হাতমুখ মুছিবার চতুষ্কোণ বস্ত্রখন্ড	रुमाल, हातमुख मुछिबार चतुष्कोन बस्त्रखन्ड	handkerchief.
रुमाली	स्त्री.	एक प्रकार का लंगोट।	লেংগটবিশেষ	लेङ्गटबिशेष	a kind of loin-cloth.
रुलाई	स्त्री.	1. रोने की क्रिया या भाव;	রোদন;	रोदन;	act of weeping;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. रोने को प्रवृत्त होने का भाव।	রোদনোন্মুখতা	रोदनोन्मुखता	readiness to weep, on the verge of weeping or crying.
रुलाना	स. क्रि.	अन्य को रोने को प्रवृत्त करना।	কাঁদানো	कांदानो	to cause to weep, to make (one) cry or weep.
रुष्ट	वि.	1. रोष से भरा हुआ, क्रुद्ध; 2. रूठा हुआ, अप्रसन्न।	রুষ্ট, রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ; বিরক্ত, অপ্রসন্ন	रुष्ट, रागान्बित, क्रुद्ध; बिरक्त, अप्रसन्न	full of anger or wrath, enraged; displeased, offended.
रुष्टता	स्त्री.	1. रुष्ट होने की स्थिति या भाव; 2. अप्रसन्नता, नाराजगी।	রোষ; অপ্রসন্নতা	रोष; अप्रसन्नता	state of being angry or offended; displeasure, annoyance.
रुंधना	स. क्रि.	रुकावट या बाधा डालना।	রুদ্ধ করা, বাধা দেওয়া	रुद्ध करा, बाधा देओया	to obstruct or restrain.
रूई	स्त्री.	दे. 'रुई'।	দ্রষ্টব্য 'রুই'	द्रष्टव्य 'रुई'	see 'रुई'.
रूक्ष	वि.	रूखा, खुरदरा।	রূক্ষ, কর্কশ	रुक्ष, कर्कश	dry, rough, indifferent.
रूक्षता	स्त्री.	रूखा होने की अवस्था या भाव, रूखापन।	রূক্ষতা, রূক্ষত্ব	रुक्षता, रुक्षत्व	roughness, aridity, harshness.
रूखा	वि.	दे. 'रूक्ष'।	দ্রষ্টব্য 'রূক্ষ'	द्रष्टव्य 'रुक्ष'	see 'रूक्ष'
रूखापन	पुं.	दे. 'रूक्षता'।	দ্রষ্টব্য 'রূক্ষতা'	द्रष्टव्य 'रुक्षता'	see 'रूक्षता'.
रूखा-सूखा	वि.	बिना घी-मसाले आदि का (भोजन)।	ঘৃত, তৈলাদি-বর্জিত (খাদ্য)	घृत तैलादि-बर्जित (खाद्य)	plain or simple (food).
रूठना	अ. क्रि.	रुष्ट या अप्रसन्न होना।	রুষ্ট বা অপ্রসন্ন হওয়া	रुष्ट बा अप्रसन्न हओया	to be irritated, to be vexed, to be offended or displeased.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रूढ़	वि.	प्रचलित, प्रसिद्ध।	প্রচলিত, প্রসিদ্ধ	प्रचलित, प्रसिद्ध	traditional, conventional, popular.
रूढ़ि	स्त्री.	प्रचलन, प्रसिद्धि।	প্রসিদ্ধি	प्रसिद्धि	tradition, convention, popularity.
रूप	पुं.	1. बाह्यगुण-आकार, बनावट;	রূপ, আকৃতি, চেহারা;	रूप, आकृति, चेहारा;	appearance, form, shape;
		2. किसी कार्य के संचालन की पद्धति या प्रणाली;	রকম, ধরন;	रकम, धरन;	way, method;
		3. सुन्दरता।	সৌন্দর্য	सौन्दर्ज	beauty, grace.
रूपक	पुं.	1. किसी रूप की प्रतिकृति या मूर्ति;	প্রতিকৃতি, মূর্তি;	प्रतिकृति, मूर्ति;	image, likeness;
		2. चांदी का बना गहना;	রৌপ্যালঙ্কার;	रौप्यालङ्कार;	silver ornament;
		3. ऐसी साहित्यिक रचना जिसका अभिनय हो सके, नाट्य;	দৃশ্যকাব্য নাটক;	दृश्यकाव्य नाटक;	play, drama;
		4. साहित्य में एक प्रकार का अर्थालंकार।	অর্থালঙ্কার-বিশেষ	अर्थालङ्कार-विशेष	(in literature) a figure of speech, metaphor.
रूपभेद	पुं.	रूप में किया गया आंशिक परिवर्तन।	রূপের বিভিন্নতা, রূপের আংশিক পরিবর্তন	रूपेर बिभिन्नता, रूपेर आंशिक परिबर्तन	diversity or variety of form or manifestation.
रूपरेखा	स्त्री.	1. रेखाओं द्वारा ऐसा अंकन जिससे किसी के रूप का स्थूल ज्ञान होता हो;	রেখাচিত্র;	रेखाचित्र;	sketch;
		2. किसी कार्य या बात का संक्षिप्त रूप।	পরিলেখ	परिलेख	outline.
रूपवंत	वि.	रूप से युक्त, सुन्दर।	রূপবান, সুন্দর	रूपबान, सुन्दर	having a beautiful form or figure, handsome.
रूपवती	वि.	सुन्दरी, रूप से युक्त (स्त्री)।	রূপবতী, সুন্দরী, রূপসী	रूपबती, सुन्दरी, रूपसी	handsome or well formed (woman), a beautiful woman.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रूपवान	वि.	दे. 'रूपवंत'।	দ্র: 'রূপবন্ত'	द्र: 'रूपवन्त'	see 'रूपवंत'.
रूपसी	स्त्री.	ऐसी स्त्री जो बहुत सुन्दर हो।	রূপসী, সুন্দরী	रूपसी, सुन्दरी	a handsome or very beautiful woman.
रूपांतर	पुं.	प्राप्त होनेवाला दूसरा रूप।	অন্যরূপ, ভিন্নমূর্তি	अन्यरूप, भिन्नमूर्ति	change of appearance or form.
रूपांतरण	पुं.	रूप का बदलना, दूसरे रूप की प्राप्ति।	রূপান্তরসাধন, অন্যরূপপ্রাপ্তি	रूपान्तरसाधन, अन्यरूपप्राप्ति	transformation.
रूसना	अ. क्रि.	रुष्ट होना, रूठना, क्रुद्ध होना।	রুষ্ট হওয়া	रुष्ट हओया	to be offended or displeased, to be angry.
रूह	स्त्री.	1. आत्मा, मन;	আত্মা, মন;	आत्मा, मन;	the soul, spirit, life, the vital principle, the breath of life;
		2. कई बार का खींचा हुआ अर्क।	আরক, নির্যাস	आरक, निर्जास	the spirit or essence (of anything).
रेंकना	अ. क्रि.	गधे के बोलने की क्रिया।	গাধার ডাক	गाधार डाक	braying of an ass.
रेंगना	अ. क्रि.	बच्चों की तरह पेट सटाकर हाथ-पैरों के बल धरती पर खिसकते हुए चलना।	পেটে ভর দিয়া চলা, হামাগুড়ি দেওয়া	पेटे भर दिया चला, हामागुड़ि देओया	to creep, to crawl.
रेख	स्त्री.	रेखा, लकीर।	রেখা, লাইন	रेखा, लाइन	line.
रेखांकन	पुं.	रेखा खींचना।	লাইন টানা	लाइन टाना	drawing of lines.
रेखांकित	वि.	रेखाओं से बनी आकृति, जिस (शब्द या शब्द-समूह) के नीचे रेखा खींची गई हो।	নিম্নরেখ	निम्नरेख	underlined.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रेखा	स्त्री.	लकीर।	রেখা, লাইন	रेखा, लाइन	a line.
रेखा-गणित	पुं.	गणित की वह शाखा जिसमें रेखाओं से बनी आकृतियों का प्रयोग होता है, ज्यामिति।	জ্যামিতি	ज्यामिति	geometry.
रेखा-चित्र	पुं.	केवल रेखाओं से बनाया गया कोई चित्र या आकृति।	ছবির প্রাথমিক নকশা	छबिर प्राथमिक नकशा	sketch.
रेगमाल	पुं.	मोटे कागज का वह टुकड़ा जिस पर गोंद अथवा सरेस से रेत चिपकाई जाती है तथा जो लकड़ी को चिकना करने के काम आता है।	সিরিশ কাগজ	सिरिश कागज	sand paper.
रेगिस्तान	पुं.	भूमि का वह प्राकृतिक खंड जिस पर रेत ही रेत हो, मरुस्थल।	বালুকাভূমি, মরুভূমি	बालुकाभूमि, मरुभूमि	sandy region or tract, desert.
रेचक	वि.	ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके खाने से दस्त लगें।	বিরেচক, ভেদকারক	विरेचक, भेदकारक	a purgative, cathartic.
रेचन	पुं.	जो दस्त लगाकर पेट साफ कर दे, जुलाब	জোলাপ	जोलाप	purgative.
रेज़गारी	स्त्री.	भनकड़, छोटा सिक्का, छुट्टा।	রেজগী	रेजगी	small coin, change (of money).
रेजगी	स्त्री.	1. रेजगारी; 2. सोने-चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े।	টাকার ভাংগানি সোনা রূপার ছোট ছোট টুকরা	टाकार भाङ्गानि सोना रूपार छोट छोट टुकरा	small coin, change; small pieces of gold or silver wire.
रेढ़ी	स्त्री.	तीन या चार पहियों का वह वाहन जिस पर सामान आदि लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठेल कर ले जाते हैं।	তিন বা চার-চাকার ঠেলাগাড়ী	तिन बा चार-चाकार ठेलागाड़ी	barrow, hand-cart.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रेणु	स्त्री.	1. धूल; 2. पृथ्वी।	ধূলি, বালুকাকণা; পৃথিবী	धुलि, बालुकाकना; पृथिबी	dust, sand, a grain of dust or sand etc.; earth.
रेत	स्त्री.	समुद्र, नदी आदि के किनारे पड़ा पत्थर का चूरा, बालू।	সমুদ্র নদী ইত্যাদির ধারের পাথরকুচি, বালি	समुद्र नदी इत्यादिर धारेर पाथरकुचि, बालि	sand.
रेतना	स. क्रि.	1. रेती से रगड़ कर लकड़ी आदि का तल चिकना बनाना; 2. सान पर किसी औज़ार के फन को लगा कर तेज करना।	রেতি ঘষিয়া কাঠ ইত্যাদির সমতা করা; রেতি ঘষিয়া কোনো যন্ত্র ধার দেওয়া	रेति घषिया काठ इत्यादिर समता करा; रेति घषिया कोनो जन्त्र धार देओया	to even or smoothen the surface of wood etc. with the help of a file; to file or sharpen the blades of any tool, to rasp.
रेता	पुं.	दे. 'रेत'।	দ্রষ্টব্য 'রেত'	द्रष्टव्य 'रेत'	same as 'रेत'
रेती	स्त्री.	एक औजार जो लकड़ी आदि का तल चिकना करने के काम आता है, सोहान।	রেতি, রেত	रेति, रेत	a file, rasp.
रेतीला	वि.	ऐसा स्थान जहां रेत बिखरी पड़ी हो।	বালুকাময়	बालुकामय	sandy (land).
रेफ	पुं.	1. 'र' अक्षर; 2. शब्द में पड़नेवाले 'र' अक्षर का वह रूप जो अगले अक्षर के ऊपर पड़ता है।	র্-বর্ণ; রেফ-অন্যতর ব্যঞ্জনের মস্তকে যুক্ত র-চিহ্ন (ˊ)	र्-बर्न; रेफ-अन्यतर ब्यंजनेर मस्तके जुक्त र-चिहन (ˊ)	the letter 'र'; the mark which represents the letter 'र' when it is placed over a following consonant.
रेल	स्त्री.	लोहे की वह पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है।	রেল লাইন	रेल लाइन	railway.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रेलगाड़ी	स्त्री.	वह यान जो भाप, बिजली आदि की सहायता से केवल लोहे की पटरी पर चलता है।	রেলগাড়ি	रेलगाड़ि	railway train.
रेल-पेल	स्त्री.	1. भीड़-भड़क्का; 2. अधिकता।	আধিক্য; প্রাচুর্য	आधिक्य; प्राचुर्य	crowd, throng; abundance, profusion.
रेला	पुं.	1. प्रबल प्रवाह; 2. धक्कम-धक्का (भीड़ में); 3. अधिकता।	প্রবল, প্রবাহ; ভিড়ে ঠেলাঠেলি; আধিক্য	प्रबल, प्रबाह; भिड़े ठेलाठेलि; आधिक्य	strong flow, flood; rush and push (in a crowd), influx, jostle; abundance, excess.
रेवड़	पुं.	भेड़-बकरियों का झुण्ड।	ছাগল ভেড়ার পাল	छागल भेड़ार पाल	a herd or flock (of goats or sheep).
रेवड़ी	स्त्री.	चीनी अथवा गुड़ की टिकिया, जिस पर तिल चिपका दिए जाते हैं।	রেউড়ি, গুড় বা চিনি এবং তিল দিয়ে তৈরী খাবার	रेउड़ि, गुड़ बा चिनि एबं तिल दिये तैरी खाबार	a kind of crisp sweatmeat prepared with sugar and sesame.
रेशम	पुं.	एक विशेष प्रकार के कीड़े के रोओं से बना तागा जो बहुत चमकीला और मुलायम होता है तथा जिससे कपड़ा बुना जाता है।	গুটিপোকার লালাজাত মিহি সুতা, যার থেকে কাপড় বোনা যায়, রেশম,	गुटिपोकार लालाजात मिहि सूता जार थेके कापड़ बोना जाय, रेशम	silk (thread or cloth).
रेशमी	वि.	रेशम का बना हुआ।	রেশমি, রেশমে নির্মিত	रेशमि, रेशमे निर्मित	silken, made or woven of silk.
रेशा	पुं.	पौधों तथा फलों के अन्दर पाया जानेवाला सूत जैसा तन्तु।	গাছের ছাল ইত্যাদির আঁশ আম ইত্যাদির ফলের আঁশ	गाछेर छाल इत्यादिर आंश, आम इत्यादिर फलेर आंश	fibre.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रेह	स्त्री.	खार मिली हुई मिट्टी जो ऊपर के मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है तथा कपड़े धोने और साबुन बनाने के काम आती है।	সাজি, মাটি, ক্ষার	साजि माटि, क्षार	fossil alkali (used for washing and making soap), impure nitrate of soda, saline soil.
रेहन (रहन)	पुं.	उधार लिए गए पैसे के लिए (जमानत के रूप में) कोई पदार्थ आदि उधार देनेवाले को सौंपना, बंधक।	রেহান, বন্ধক	रेहान, बन्धक	pledging, pawning, mortgage.
रेहनदार	पुं.	जिसके पास कुछ रेहन रखा गया हो।	রেহানদার, যে বন্ধক রাখে	रेहानदार, जे बन्धक राखे	the holder of a pledge.
रेहननामा	पुं.	ऐसा कागज जिस पर रेहन की शर्तें आदि लिखी रहती हैं।	রেহাননামা, বন্ধকি দলিল	रेहाननामा, बन्धकि, दलिल	mortgage deed.
रैन-बसेरा	पुं.	जहां यात्री आदि रात बिताते हैं।	রাত্রিবাসের স্থান	रात्रिबासेर स्थान	night shelter.
रैयत	स्त्री	प्रजा।	রাইয়ত, রায়ত	राइयत, रायत	subjects, people.
रोंगटा	पुं.	शरीर पर का नर्म बाल।	গায়ের লোম	गायेर लोम	hair (of the body).
रोआं	पुं.	शरीर पर का नर्म पतला बाल।	রোঁয়া	रोंया	fine thin hair on the body, bristle, fur.
रोयंदार	वि.	जिस पर रोएं हों।	লোমশ	लोमश	hairy, wooly.
रोक	स्त्री.	1. प्रतिबंध; 2. रोकने (बाधा डालने या निषेध करने) की क्रिया या भाव।	প্রতিবন্ধক; বাধাদান, নিষেধকরণ	प्रतिबन्धक; बाधादान, निषेधकरन	ban; restraint, prevention, obstacle, etc.
रोक-टोक	स्त्री.	रोकने-टोकने (प्रतिबन्ध) लगाने) की क्रिया या भाव बाधा, रुकावट।	বাধাবিঘ্ন, প্রতিবন্ধক	बाधाबिघ्न, प्रतिबन्धक	obstruction, restriction, obstacle, check.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोकड़	स्त्री.	नकद रुपया – पैसा या रकम आदि।	নগদ টাকা পয়সা	नगद टाका पयसा	cash, ready money.
रोकड़-जमा	स्त्री.	हाथ में नकदी।	হাতে মজুদ টাকা	हाते मजुद टाका	cash in hand, opening balance.
रोकड़-बही	स्त्री.	वह बही जिसमें नकद आय-व्यय का खाता रखा जाता है।	রোকড় পাকা খাতা	रोकड़ पाका खाता	cash book.
रोकड़-बाकी	स्त्री.	आय-व्यय का लेखा-जोखा लगाकर बाकी हाथ में बची रकम।	হাতে মজুদ টাকা	हाते मजुद टाका	cash balance in hand.
रोकड़िया	पुं.	आय-व्यय आदि का हिसाब-किताब रखनेवाला, खजांची।	খাজাঞ্চি	खाजाञ्चि	cash keeper, cashier, treasurer.
रोक-थाम	स्त्री.	किसी प्रवृत्ति या रोग आदि के उन्मूलन तथा प्रसार आदि को रोकने के उपाय।	নিবারণ, প্রতিরোধ	निवारन, प्रतिरोध	restraint, check, prevention, temporary remedy.
रोकना	स. क्रि.	1. किसी के आगे बढ़ने में बाधा डालना;	রুখা, গতিরোধ করা;	रुखा, गतिरोध करा;	to hinder, impede, retard, prevent;
		2. कोई कार्य न करने देना;	বাধা দেওয়া;	बाधा देओया;	interrupt, intercept, obstruct;
		3. प्रहार, आघात आदि से बचाव करना;	ঠেকানো;	ठेकानो;	to resist, to protect;
		4. जाने न देना।	থামানো	थामानो	to detain, to hold
रोग	पुं.	स्वास्थ्य बिगड़ने या विकार की अवस्था, बीमारी।	পীড়া, ব্যাধি	पीड़ा, ब्याधि	ailment, sickness, disease.
रोग-ग्रस्त	वि.	जिसे कोई रोग लगा हो, रोगी, बीमार।	রোগগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত, পীড়িত	रोगग्रस्त, रोगाक्रान्त, पीड़ित	seized with sickness, sick, diseased, ill.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोगन	पुं.	1. वह चिकना तरल पदार्थ जिसमें रंग आदि मिलाकर लकड़ी, लोहे आदि के पदार्थों पर किया जाता है;	রঙ;	रङ्;	paint, varnish;
		2. घी, तेल आदि।	ঘি, তেল ইত্যাদি	घि, तेल इत्यादि	fat, oil, butter, ghee.
रोगनदार	वि.	जिस पर रोगन किया गया हो।	রঙ লাগান হইয়াছে এমন	रङ लागान हइयाछे एमन	painted, varnished.
रोगनाशक	वि.	रोग दूर करनेवाला।	রোগনাশক	रोगनाशक	curative.
रोग-निदान	पुं.	रोग के लक्षण, उत्पत्ति के कारण आदि की जानकारी, बीमारी की जांच।	ব্যাধিনির্ণয়	व्याधिनिर्नय	diagnosis.
रोग-विज्ञान	पुं.	चिकित्सा-शास्त्र की वह शाखा जिसमें रोगों के लक्षण, उत्पत्ति के कारण आदि का विवेचन रहता है।	চিকিৎসা-বিজ্ঞান	चिकित्सा-विज्ञान	science of medicine.
रोगाक्रांत	वि.	रोग से पीड़ित, रोगग्रस्त।	রোগাক্রান্ত	रोगाक्रान्त	diseased, ill.
रोगाणु	पुं.	ऐसे जीवाणु जो शरीर में अस्वस्थता, विकार तथा रोग का कारण बनते हैं।	রোগবীজাণু	रोगबीजानु	germs which cause disease.
रोगिणी	वि., स्त्री.	रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त स्त्री।	রোগিণী, রোগ-গ্রস্তস্ত্রীলোক	रोगिनी, रोग-ग्रस्तस्त्रीलोक	diseased, ill, sick (female).
रोगी	वि., पुं.	रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त पुरुष।	রোগী, রোগগ্রস্ত পুরুষ	रोगी, रोगग्रस्त पुरुष	patient, sick, diseased (male).
रोचक	वि.	रुचने या अच्छा लगनेवाला।	রুচিকরতা, তৃপ্তিজনকতা	रुचिकरता, तृप्तिजनकता	pleasing, interesting, engaging.
रोचकता	स्त्री.	रुचने या अच्छा लगने का गुण या भाव।	রুচিকরতা, তৃপ্তিজনকতা	रुचिकरता, तृप्तिजनकता	appealableness, agreeableness.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोज़	पुं., क्रि.वि.	दिन, प्रतिदिन।	দিন, প্রত্যহ	दिन, प्रत्यह	day, daily.
रोज़गार	पुं.	धन्धा, पेशा, आजीविका का साधन।	পেশা, জীবিকা	पेशा, जीबिका	profession, vocation, way of livelihood, occupation, employment.
रोजनामचा	पुं.	ऐसी पुस्तक या बही जिसमें दिन भर का कार्य-व्यौरा हो।	রোজনামচা, দিনলিপি, ডায়েরি	रोजनामचा, दिनलिपि, डायेरि	day book, diary, daily account book.
रोजमर्रा	क्रि. वि.	हर रोज, प्रतिदिन।	প্রতিদিন	प्रतिदिन	daily, every day.
रोजाना	क्रि. वि.	प्रतिदिन, दैनिक।	প্রতিদিন, দৈনিক	प्रतिदिन, दैनिक	every day, daily.
रोजी	स्त्री.	रोजगार, आजीविका।	রুজি, বৃত্তি, জীবিকা	रुजि, बृत्ति, जीबिका	means of subsistence, livelihood.
रोजीदार	वि.	रोजगार या काम-धंधे से लगा हुआ।	যে রুজিরোজগার করে	जे रुजिरोजगार करे	employed.
रोट	पुं.	1. आटे की मोटी रोटी;	আটার মোটা রুটি;	आटार मोटा रुटि;	thick bread, a large thick cake or bread;
		2. देवताओं पर चढ़ाने के लिए पकाई गई मोटी बड़ी रोटी।	দেবতাকে ভোগ দেওয়ার জন্য তৈরি করা মোটা রুটি	देबताके भोग देओयार जन्य तैरि करा मोटा रुटि	sweet bread offered to gods.
रोटी	स्त्री.	1. अन्न के आटे का गूंदकर, बेलकर आंच पर सेक कर पकाया गया भोज्य, चपाती, फुलका;	চাল অথবা আটার রুটি;	चाल अथबा आटार रुटि;	bread of grain or corn-flour;
		2. रोजी।	অনুসংস্থান	अनुसंस्थान	livelihood.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोटी-कपड़ा	पुं.	खाने-पहनने की व्यवस्था।	ভাত কাপড়, ভরণপোষণ	भात कापड़, भरनपोषन	bread and clothes. maintenance.
रोटी-दाल	स्त्री.	साधारण खाना-पीना।	ডাল, ভাত সাধারণ খাবারদাবার	डाल, भात साधारन खाबारदाबार	simple food or living.
रोड़ा	पुं.	1. ईंट, पत्थर आदि का टुकड़ा; 2. बाधा।	ইটপাথরের টুকরা; বাধা	इटपाथरेर टुकरा; बाधा	a fragment of stone or brick etc.; obstruction, hindrance.
रोड़ी	स्त्री.	ईंट, पत्थर आदि के वे छोटे-छोटे टुकड़े जो सड़क बनाने के या नींव, फर्श आदि भरने के काम आते हैं।	ইট পাথর ইত্যাদির ছোট টুকরা, কাঁকর	इट पाथर इत्यादिर छोट टुकरा, कांकर	small pieces of broken stone or brick, gravel.
रोदन	पुं.	रोना, विलाप करना।	রোদন, ক্রন্দন, কান্না, বিলাপ	रोदन, क्रन्दन, कान्ना, बिलाप	weeping, wailing, lamentation.
रोध	पुं.	बढ़ने से रोकनेवाला पदार्थ या तत्व, बाधा, बांध, आदि।	বাধা, অবরোধ, প্রতিবন্ধ	बाधा, अबरोध, प्रतिबन्ध	restraint, prohibition, stoppage, obstruction, a dam.
रोधक	वि.	बाधा डालने या रोकनेवाला।	রোধকারী	रोधकारी	holding back, restraining, checking.
रोधन	पुं.	रोकने की क्रिया या भाव।	বাধাদান, রুদ্ধকরণ	बाधादान, रुद्धकरन	obstructing, impeding, being an obstacle or hindrance.
रोना	अ. क्रि.	आंसू बहाना, रुदन करना।	রোদন করা, ক্রন্দন, কাঁদা	रोदन करा, क्रन्दन कांदा	to cry, weep, wail, lament.
रोना-कलपना	अ. क्रि.	दुःखी होकर रोना-पीटना या विलाप करना, अपने कष्टों का बखान करना।	বিলাপ করা, কান্নাকাটি করা	बिलाप करा, कान्नाकाटि करा	to wail; to lament

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोना-धोना	अ. क्रि.	देखें 'रोना-कलपना'।	কান্নাকাটি	कान्नाकाटि	same as 'रोना-कलपना'
रोपण	पुं.	1. रखना या स्थापित करने की क्रिया; 2. पौधा आदि बोने की क्रिया।	স্থাপন; রোপণ, গাছের বীজ মাটিতে পুতিঁয়া রাখা	स्थापन; रोपन, गाछेर बीज माटिते पुंतिया राखा	the act of setting up or erecting; the act of raising, planting or sowing.
रोपना	स. क्रि.	रोपण की क्रिया करना।			to set up, to erect, to raise, to plant, to sow.
रोपित	वि.	जिसका रोपण किया गया हो।	রোপিত, রোপণ করা হইয়াছে এমন	रोपित, रापेन करा हइयाछे एमन	planted, set up.
रोब	पुं.	किसी के बड़प्पन, महत्व, शक्ति आदि का दूसरों पर आतंक डालनेवाला प्रभाव, धाक, दबदबा।	রোপিত, রোপণ করা হইয়াছে এমন দাপট, পরাক্রম	रोपित, रापेन करा हइयाछे एमन दापट, पराक्रम	awe, terror, aweful influence of one's greatness or power, sway, dignity, impressiveness.
रोब-दाब	पुं.	आतंक तथा उसके कारण पड़नेवाला प्रभाव।	পরাক্রম	पराक्रम	awe-inspiring influence, dignity.
रोबदार	वि	जिसका दूसरों पर प्रभाव या आतंक पड़ता हो, रोब से युक्त।	পরাক্রমশালী	पराक्रमशाली	awe-inspiring, influencing.
रोबीला	वि.	देखें 'रोबदार'।	দ্রঃ 'রোবদার'	द्रः 'रोबदार'	same as 'रोबदार'.
रोम	पुं.	1. शरीर पर का बाल, विशेषकर पतला और नर्म छोटा बाल, रोआं; 2. छेद, सुराख।	লোম, রোঁয়া; ছিদ্র	लोंम, रोंया; छिद्र	thin and fine hair of the body, bristle; pore.
रोम-कूप	पुं.	शरीर के वे छिद्र जिनसे रोम निकलते हैं, मसाम।	লোমের মূলে স্থিত রন্ধ্র, রোমকপ	लोमेर मूले स्थित रन्ध्र रोमकप	hair bole, pore of the skin.

हिंदी शब्द	व्या. कोटि	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
रोमांच	पुं.	भय, हर्ष आदि से शरीर के रोमों का खड़ा होना, पुलक।	রোমাঞ্চ, পুলক	रोमाञ्च, पुलक	thrill (of rapture, horror, surprise).
रोमांचित	वि.	जिसे रोमांच हुआ हो।	রোমাঞ্চিত, পুলকিত	रोमाञ्चित, पुलकित	thrilled.
रोमावलि (रोमावली)	स्त्री.	रोओं की वह पंक्ति जो पेट के बीचों-बीच नाभि से ऊपर छाती की ओर जाती है।	নাভির উপর হইতে বুক পর্যন্ত প্রসারিত রোমশ্রেণী	नाभिर उपर हइते बुक पर्जन्त प्रसारित रोमश्रनी	a line of hair extending across the navel or from the breast to the navel.
रोयाँ	पुं.	देखें 'रोआँ'।	দ্রষ্টব্য 'রোঁয়া'	द्रष्टव्य 'रोआँ'	see 'रोआं'
रोलना	स. क्रि.	1. किसी चीज में अंगुली या हाथ मार कर उसे हिलाना-डुलाना; 2. किसी चीज को इधर-उधर बिखेरना; 3. उबटन, लेप आदि अंगों में लगाना।	আঙুল অথবা হাত দিয়া নাড়াচাড় করা; ছড়ানো; অংগরাগাদি বিলেপন করা	आङुल अथवा हात दिया नाड़ाचाड़ा करा; छड़ानो; अङगरागादि बिलेपन करा	to sift, to winnow (with fingers); to separate (by winnowing); to annoint.
रोली	स्त्री.	हल्दी और चूने के योग से बना एक प्रकार का चूर्ण जिससे तिलक लगाया जाता है।	চুন ও হলুদের মিশ্রণে তৈরি চূর্ণ	चुन ओ हलुदेर मिश्रने तैरि चुर्न	a mixture of turmer and lime which is used in marking 'tilak' on forehead.
रोशन (रौशन)	वि.	चमकदार, प्रकाश से युक्त, उज्ज्वल।	চকমকে, উজ্জ্বল	चकमके, उज्ज्वल	full of light, bright, shining.
रोशनदान	पुं.	कमरे की दीवार में ऊपर छोड़ा गया खुला स्थान जिससे प्रकाश आता है।	ঘরের কামরায় আলো হাওয়া খেলবার জন্য রাখা জানালা	घेरर कामराय आलो हओया खेलवार जन्य राखा जानाला	hole for admitting light, skylight, ventilator.
रोशनाई	स्त्री.	लिखने की स्याही, मसि।	লেখার কালি, মসি	लेखार कालि, मसि	ink for writing.
रोशनी	स्त्री.	1. उजाला, प्रकाश;	রোশনি, আলোক, রোশনাই;	रोशनि, आलोक, रोशनाइ;	light, brightness, splendour:

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आनन्दोत्सव के समय की जाने वाली दीपमाला।	আলোকসজ্জা	आलोकसज्जा	illumination.
रोष	पुं.	क्रोध, कोप, गुस्सा।	রোষ, ক্রোধ, কোপ	रोष, क्रोध, कोप	anger, wrath, rage.
रोहण	पुं.	1. ऊपर की ओर बढ़ना; 2. सवार होना; 3. बीज या पौधे का उगना अथवा उसका अंकुरित होना।	আরোহণ; অশ্বাদি আরোহণ; অঙ্কুরোদ্ভেদ	आरोहन; अश्वादि आरोहन; अङ्कुरोद्भेद	ascending; riding (on); spreading up (of a plant).
रौंदना	स. क्रि.	किसी चीज को पैरों के तले पीसते, रगड़ते, कुचलते हुए विवृत कर देना।	পদদলিত করা	पददलित करा	to trample on, to tread down, to crush.
रौद्र	वि.	1. रुद्र से सम्बन्धित, रुद्र का; 2. अतिक्रुद्ध, प्रचंड, भीषण।	রৌদ্র, রুদ্রসম্বন্ধী; অতিক্রুদ্ধ, প্রচন্ড, ভীষণ	रौद्र, रुद्रसम्बन्धी; अतिक्रुद्ध, प्रचन्ड, भीषन	of or belonging to Rudra; violent or wild with anger, wrathful.
रौनक	स्त्री.	1. चमक-दमक, शोभा; 2. चहल-पहल, जमघट।	চাকচিক্য, শোভা; ধাক্কাধাক্কি, ভিড়	चाकचिक्य, शोभा; धाक्काधाक्कि, भिड़	brightness, lustre, splendour; hustle and bustle, crowd or throng.
रौला	पुं.	शोर, हल्ला, उपद्रव।	শোর, হল্লা, উপদ্রব	शोर, हल्ला, उपद्रव	noise, commotion, tumult, riot.
लंगड़ा	वि., पुं.	1. जिसका एक पैर बेकार हो गया हो या टूटा हो; 2. एक प्रसिद्ध कलमी आम।	লেংগড়া খোঁড়া; লেংড়া, উৎকৃষ্ট আমবিশেষ	लेङ्गड़ा खोंड़ा; लेंड़ा, उत्कृष्ट आमविशेष	cripple; a species of mango.
लंगड़ाना	अ. क्रि.	लंगड़ा होने के कारण कुछ दबते और उचकते हुए चलना, लंगड़ाकर चलना।	খোঁড়ানো, লেংচানো	खोंड़ानो, लेंचानो	to limp.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लंगड़ापन	पुं.	लंगड़े होने की अवस्था या भाव।	খঞ্জত্ব	खञ्जत्व	lameness, limpness, etc.
लंगर (लंगड़)	पुं.	1. लोहे का बहुत भारी कांटा जिसे नदी, समुद्र आदि में गिराकर नाव, जहाज आदि रोके जाते हैं;	নোঙর;	नोङ्र;	anchor;
		2. वह स्थान जहां गरीबों को पका खाना बांटा जाए;	লংগরখানা;	लङ्गरखाना;	public kitchen, alms-house;
		3. पहलवानों का लंगोट;	পালোয়ানের লেংগট;	पालोयानेर लेङ्गट;	privy cover worn by the wrestlers;
		4. हाहाई गाए के गले में बांधा जानेवाला खूंटा;	গরুর গলায় যে ভারি কাষ্টখন্ড বাঁধিয়া দেওয়া হয়;	गरुर गलाय जे भारि काष्टखन्ड बाधिया देओया हय;	heavy wooden piece tied to cattles' neck;
		5. रस्सी, तार आदि से बांधी और लटकती कोई भारी चीज जिसका व्यवहार कई प्रकार की कलों में उनकी गति ठीक रखने के लिए होता है।	পেন্ডুলাম	पेन्डुलाम	pendulum.
लंगूर	पुं.	एक प्रकार का बंदर जिसका मुंह और हाथ-पैर काले, सारा शरीर भूरा या सफेद और दुम बहुत लम्बी होती है।	মুখ কালো, হাত পা কালো, লেজ খুব লম্বা এমন বানর-বিশেষ	मुख कालो, हात पा कालो, लेज खुब लम्बा एमन बानर-बिशेष	long tailed black faced monkey, baboon.
लँगोट	पुं.	कमर में बांधने का एक प्रकार का वस्त्र जिससे केवल उपस्थ ढका जाता है।	ল্যাংগট	ल्याङ्गट	a strip of cloth worn to protect the private parts.
लँगोटिया	वि.	बचपन से ही अत्यन्त घनिष्ठ (मित्र)।	শৈশব থেকে ঘনিষ্ট (বন্ধু)	शैशब थेके घनिष्ट (बन्धु)	old friend (from childhood), chum.
लँगोटी	स्त्री.	छोटा लँगोट।	ছোট ল্যাঙ্গট	छोट ल्याङ्गट	smaller लँगोट

हिंदी शब्द	व्या. कोटि.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लंघन	पुं.	1. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना; 2. उपवास या फाका।	উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম; উপবাস	उल्लङ्घन, अतिक्रम; उपबास	violation, transgression; fast.
लंघनीय	वि.	1. जो लांघने के योग्य हो; 2. जिसका उल्लंघन या अवज्ञा हो सके।	লঙ্ঘনযোগ্য, উল্লঙ্ঘনীয়; অবজ্ঞেয়	लङ्घनजोग्य, उल्लङ्घनीय; अबज्ञेय	to be traversed or passed over, passable; to be violated, to be neglected or disregarded.
लंघाना	स. क्रि.	किसी को लांघने में प्रवृत्त करना।	লাফ দেওয়ানো	लाफ देओयानो	to cause, make or help to jump.
लंठ	वि.	परम मूर्ख, असभ्य।	গন্ডমূর্খ, অসভ্য	गन्डमूर्ख, असभ्य	block-head, stupid, uncivil.
लंपट	वि.	कामी, विषयी।	লম্পট, কামুক	लम्पट, कामुक	lascivious, dissolute, libertine.
लंपटता	स्त्री.	कुकर्म, कामुकता।	লাম্পট্য, কামুকতা	लाम्पट्य, कामुकता	dissoluteness, lewdness, lasciviousness.
लंब	पुं.	1. किसी रेखा पर खड़ी और सीधी गिरनेवाली रेखा; 2. कोई लंबी और बिलकुल सीधी रेखा।	লম্ব, কোনো রেখার উপরে বিলম্বিত সমকোণ সরলরেখা; দীর্ঘ রেখা	लम्ब, कोनो रेखार उपरे बिलम्बित समकोन सरलरेखा; दीर्घ रेखा	perpendicular; long and straight line.
लंबतड़ंग	वि.	विशालकाय और हृष्ट-पुष्ट।	লম্বাচৌড়া	लम्बाचौड़ा	tall and tough, hefty.
लंबमान	वि.	दूर तक गया या फैला हुआ।	লম্ববান, বিলম্বিত হইয়া আছে	लम्बबान, बिलम्बित हइया आछे	prolonged, perpendicular.
लंबरदार	पुं.	दे. 'नंबरदार'।	দ্র: 'নম্বরদার'	द्रः 'नम्बरदार'	see 'नंबरदार'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लंबा (लंबी)	वि.	1. जिसके दोनों सिरे एक दूसरे से दूर हों;	লম্বা, দীর্ঘ;	लम्बा, दीर्घ;	long, lengthy;
		2. जो अधिक ऊंचा हो;	দীর্ঘকায়, ঢেঙা;	दीर्घकाय, ढेङा;	tall;
		3.परिमाण में अधिक;	বড়,অধিক;	बड़,अधिक;	great,large;
		4. अधिक विस्तार वाला।	অতিবিস্তৃত	अतिबिस्तृत	spacious.
लंबाई	स्त्री.	लंबा होने का भाव, लंबापन।	লম্বাই, দৈর্ঘ্য	लम्बाइ, दैर्घ्य;	length, tallness. height.
लंबान	स्त्री.	लंबाई।	লম্বাই, দৈর্ঘ্য	लम्बाई, दैर्घ्य	length.
लंबायमान	वि.	1. लंबा किया हुआ;	লম্বায়মান;	लम्बायमान;	lengthened;
		2. लेटा हुआ।	যে শুইয়া পড়িয়াছে	जे शुइया पड़ियाछे	lying flat.
लंबोतरा	वि.	कुछ-कुछ लंबा, जो लंबाई लिए हुए हों।	লম্বাটে	लम्बाटे	longish, somewhat long.
लकड़दादा	पुं.	परदादा से बड़ा दादा।	বৃদ্ধ প্রপিতামহ	बृद्ध प्रपितामह	Great great grand-father.
लकड़बघ्घा	पुं.	भेड़िये की जाति का एक जानवर।	হায়েনা	हायेना	hyena.
लकड़हारा	पुं.	जंगल आदि में लकड़ियां तोड़कर बेचनेवाला।	কাঠুরিয়া	काठुरिया	woodman.
लकड़ी	स्त्री.	1. पेड़ का कोई भी सूखा हुआ भाग, शाखा, टहनी आदि;	লাকড়ি, কাঠ;	लाकड़ि, काठ;	wood, timber;
		2. ईंधन;	ইন্ধন;	इन्धन;	firewood, fuel;
		3. लाठी, बैसाखी।	লাঠি	लाठि	stick, staff, crutches.
लकवा	पुं.	एक प्रकार का वातरोग जिसके कारण प्रभावित अंग निश्चेतन और शक्तिहीन हो जाता है, फालिज।	পক্ষাঘাত	पक्षाघात	paralysis.
लकीर	स्त्री.	वह चिह्न, जो लंबाई के बल कुछ दूर तक बना या बनाया गया हो।	রেখা, লাইন	रेखा, लाइन	line, a streak.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लकुटी	स्त्री.	छोटी लाठी, छड़ी।	ছোট লাঠি, ছড়ি	छोट लाठि, छड़ि	small stick or cane
लक्कड़	पुं.	बड़ी और मोटी लकड़ी।	কাঠের কুঁদা	काठेर कुंदा	log, block, wood.
लक्ष	वि.	एक लाख।	লক্ষ, এক লাখ	लक्ष, एक लाख	one hundred thousand, lac.
लक्षक	वि.	लक्षित करने वाला।	নির্দেশক, সূচক	निर्देशक, सूचक	indicating, hinting at.
	पुं.	वह शब्द जो सम्बन्ध या प्रयोजन से अपना अर्थ सूचित करे।	লক্ষণাবৃত্তিযুক্ত, লাক্ষণিক অর্থের প্রকাশক	लक्षनावृत्तिजुक्त, लाक्षनिक अर्थेर प्रकाशक	a word which indicates indirectly or expresses secondarily.
लक्षण	पुं.	1. विशेषता-सूचक शब्द्; 2. शरीरस्थ रोगसूचक चिह्न; 3. शुभाशुभ की सूचना देनेवाले अंगस्थित चिह्न;	বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম; রোগের বাহ্য চিহ্ন; শুভাশুভ সূচক চিহ্ন;	वैशिष्ट्यसूचक धर्म; रोगेर बाह्य चिह्न; शुभाशुभ सूचक चिह्न;	distinctive mark; sign, symptom, token; any mark or features of the body (indicating good or bad luck);
		4. किसी वस्तु या व्यक्ति में होनेवाला कोई ऐसा गुण या विशेषता जो सहसा बातों में न दिखाई देती हो।	মৌল পরিচয়, আভ্যন্তরীণ স্বরূপ-চিহ্ন	मौल परिचय आभ्यन्तरीन स्वरूप-चिह्न	feature, character, attribute;
लक्षणा	स्त्री.	वह शब्दशक्ति जो सामान्य अर्थ से अन्य अर्थ प्रकट करती हो।	অভিধাবৃত্তি দ্বারা অর্থগ্রহণ না হইলে	अभिधावृत्ति द्वारा अर्थग्रहन ना हइले	indirect or figurative sense of a word.
लक्षित	वि.	1. देखा हुआ;	দৃষ্ট;	दृष्ट;	seen, observed, beheld;
		2. अनुभव से जाना या समझा हुआ;	উপলক্ষিত, জ্ঞাত, অনুভূত;	उपलक्षित, ज्ञात, अनुभूत;	discerned, discovered, known (from signs, indication or appearances);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. निर्दिष्ट;	নির্দিষ্ট;	निर्दिष्ट;	denoted, indicated, implied;
		4. किसी प्रकार के लक्षण या चिह्न से युक्त।	বিশেষ চিহ্ন-লক্ষণযুক্ত	बिशेष चिह्न-लक्षनजुक्त	marked, distinguished.
लक्षितार्थ	पुं.	शब्द की लक्षणा शक्ति से निकलने वाला अर्थ।	লক্ষণাবোধিত অর্থ	लक्षनाबोधित अर्थ	figurative meaning of a word.
लक्ष्मण-रेखा	स्त्री.	ऐसी रेखाकार सीमा जो किसी प्रकार लांघकर पार न की जा सके।	অলঙ্ঘ্য গন্ডী (পুরাণ সূত্রে) রামানুজ লক্ষ্মণ সীতাকে যে রেখা টানিয়া তাহা অতিক্রম করিতে নিষেধ করেন	अलङ्घ्य गन्डी (पुरान सूत्रे) रामानुज लक्षन सीताके जे रेखा टानिया ताहा अतिक्रम करिते निषेध करेन	a forbidding line suggestive of destruction if crossed, an uncrossable line or limit, (in mytho.) a line drawn by Laxman the younger brother of Rama forbidding Sita to cross it.
लक्ष्मी	स्त्री.	1. धन-सम्पत्ति, दौलत;	সম্পত্তি, বিত্ত;	सम्पत्ति, बित्त;	fortune, prosperity, wealth;
		2. शोभा, श्री;	শোভা, শ্রী;	शोभा, श्री;	grace, splendour, lustre;
		3. धन-धान्य बढ़ानेवाली भाग्यवती स्त्री।	ধনধান্য প্রবর্ধন ক্ষমা মহিলা লক্ষ্মীসদৃশী	धनधान्य प्रबर्धन क्षमा महिला लक्ष्मीसदृशी	woman symbolising fortune and prosperity.
लक्ष्मीवान	वि.	1. धनवान;	ধনবান্;	धनबान;	prosperous, wealthy;
		2. सुन्दर।	শোভন, সুন্দর	शोभन, सुन्दर	handsome, beautiful.
लक्ष्य	पुं.	1. निशाना;	লক্ষ্য, নিশানা;	लक्ष्य, निशाना;	target;
		2. अभीष्ट वस्तु, उद्देश्य;	কাম্য বস্তু;	काम्य बस्तु;	aim, object;
		3. शब्द की लक्षणा-शक्ति से निकलनेवाला	লক্ষ্মণাবৃত্তিবোধ্য অর্থ	लक्षनाबृत्तिबोध्य अर्थ	implication or implied meaning.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लक्ष्यवेधी	पुं.	लक्ष्य का भेदन करनेवाला।	লক্ষ্যভেদক	लक्ष्यभेदक	piercing or hitting a mark.
लक्ष्य-साधन	पुं.	1. लक्ष्य सिद्ध करने का भाव; 2. अस्त्र चलाने से पहले अच्छी तरह देख लेना जिससे वह ठीक निशाने पर लगे।	উদ্দেশ্য-সাধন; লক্ষ্যগ্রহণ, লক্ষ্যে দৃষ্টি-নিবদ্ধকরণ	उद्देश्य-साधन; लक्ष्यग्रहन, लक्ष्ये दृष्टि-निबद्धकरन	fulfilment or attainment; taking an aim, sighting.
लक्ष्यार्थ	पुं.	शब्द की लक्षणा-शक्ति से निकलने वाला अर्थ।	লক্ষণাবৃত্তিবোধ্য শব্দার্থ	लक्षनावृत्तिबोध्य शब्दार्थ	implied or figurative meaning (of a word).
लखना	स. क्रि.	1. देखना; 2. समझना, जानना।	লক্ষ করা, দেখা; বুঝিতে পারা	लक्ष्य करा, देखा; बुझिते पारा	to see, behold, perceive; to understand.
लखपति	पुं.	लाखों रुपये का मालिक, बहुत धनी व्यक्ति।	লক্ষপতি, লাখ টাকার মালিক	लक्षपति, लाख टाकार मालिक	millionaire, wealthy person.
लखौरी	स्त्री.	1. पुराने ढंग की छोटी और पतली ईंट; 2. किसी देवता को उसके प्रिय वृक्ष का पत्ता या फल आदि एक लाख की संख्या में चढ़ाना।	ছোট পাতলা ইট; দেবতাকে নিবেদিত লক্ষবস্তু	छोट पातला इट; देवताके निवेदित लक्षबस्तु	a kind of brick; hundred thousand offerings of a certain thing to a deity.
लगन	स्त्री.	मन, प्रवृत्ति का किसी ओर लगना, झुकना, लौ, धुन।	মন লাগা, ঝোঁক, আকর্ষণ	मन लागा, झोंक आकर्षन	attachment, devotion, perseverance.
	पुं.	विवाह या अन्य शुभ कार्य का मुहूर्त।	বিবাহাদির লগ্ন বা শুভকাল	बिवाहादिर लग्न बा शुभकाल	the auspicious hour of performing a ceremony or doing something.
लगना	अ. क्रि.	1. एक चीज़ का दूसरी चीज से मिलना या सटना;	লাগা, সন্নিহিত হওয়া, আটিয়া যাওয়া;	लागा, सन्निहित हओया, आटिया जाओया;	to be close to, be contiguous (to);

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जड़ा जाना, सिया जाना;	লাগা, সংশ্লিষ্ট হওয়া;	लागा, संश्लिष्ट हओया;	to be fastened (to), to be stitched;
		3. एक चीज का पास वाली दूसरी चीज से रगड़ खाना या संपृक्त होना;	একে অন্যের সহিত সংযুক্ত-সম্পৃক্ত হওয়া;	एके अन्येर सहित संजुक्त-सम्पृक्त हओया;	to be attached (to), to be joined (to);
		4. किसी अनिष्टदायक बात का किसी के साथ संबद्ध होना;	অনিষ্টদায়ক কোনো কিছুর সংগে যুক্ত হইয়া পড়া;	अनिष्टदायक कोनो किछुर सङ्गे जुक्त हइया पड़ा;	to hang about, to haunt;
		5. काम आना, खर्च होना;	লগ্নি হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, খরচ হওয়া;	लग्नि हओया, ब्यथित हओया, खरच हओया;	to be invested (as money), to be spent or expended;
		6. गड़ना, चुभना या धंसना;	ব্যথা দেওয়া, পীড়া জন্মানো;	व्यथा देओया, पीड़ा जन्मानो;	to gall, pinch, rub;
		7. ठीक और पूरा काम करना अथवा प्रभाव दिखलाना;	সঠিক কাজ করা অথবা প্রভাব দেখানো;	सठिक काज करा अथबा प्रभाव देखानो;	to affect, to have the intended or natural effect;
		8. अंकुरित या प्रस्फुटित होना;	অঙ্কুরিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া;	अङ्कुरित बा प्रस्फुटित हओया;	to take root, to become rooted (in);
		9. पकाये जाने वाले पदार्थ का कुछ अंश बरतन के पेंदे में चिपक या सड़ जाना;	রান্নার বাসনের তলার অংশবিশেষ পুড়িয়া যাওয়া;	रान्नार बासनेर तलार अंशविशेष पुड़िया जाओया;	to be burnt or scorched (as food in cooking or clothes in drying before fire);
		10. किसी से संबंध या रिश्ता होना;	কাহারও সংগে সম্বন্ধ হওয়া;	काहारयओ सङ्गे सम्बन्ध हओया;	to be related;
		11. दिखाई देना, अनुभव होना।	বোধ হওয়া	बोध हओया	to seem, to appear.
लगभग	अव्य.	अनुमानित अवधि या मात्रा घोषित करनेवाला अव्यय, करीब-करीब।	মোটামুটি, প্রায় কাছাকাছি	मोटामुटि, प्राय काछाकाछि	almost, about, nearly.
लगवाना	स. क्रि.	किसी को कुछ लगाने में प्रवृत्त करना।	লাগানো	लागानो	to cause to be applied, or put etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लगातार	क्रि. वि.	निरंतर, बराबर, बिना रुके हुए।	লাগাতার, অবিরাম, একটানা	लागातार, अबिराम, एकटाना	continuous, constantly, continuously.
लगान	पुं.	राजा, सरकार, ज़मींदार को मिलने वाला भूमिकर।	রাজস্ব, জমির খাজনা	राजस्ब, जमिर खाजना	land revenue.
लगाना	स. क्रि.	1. जोड़ना, संलग्न करना;	লাগান, জোড়া দেওয়া, সংলগ্ন করা;	लागान, जोड़ा देओया, संलग्न करा;	to put together (figures), to sum up, to add;
		2. सिलसिले से रखना;	যথাযথভাবে রাখা, বিন্যস্ত করা;	जथाजथभाबे राखा, बिन्यस्त करा;	to put in order, to arrange;
		3. रोपना;	রোপণ করা;	रोपन करा;	to plant, to set;
		4. किसी वस्तु का उपयोग करते समय उसको कम करना;	প্রয়োগ করা;	प्रयोग करा;	to put or set (to work), to apply, to use;
		5. मुकर्रर करना, नियुक्त करना;	নিয়োজিত করা;	नियोजित करा;	to employ, to engage;
		6. किसी पद-वाक्य आदि का अर्थ समझ कर स्थिर करना;	কোনো পদ-বাক্যের ঠিক ঠিক অর্থ নির্ধারণ করা;	कोनो पद-बाक्येर ठिक ठिक अर्थ निर्धारन करा;	to construe;
		7. किसी में नई आदत डालना।	কোনো নূতন প্রবণতার সঞ্চার করা	कोनो नूतन प्रबनतार सञ्चार करा	to infuse or imbue.
लगाम	स्त्री.	बाग, रास।	লাগাম, রাস	लागाम, रास	reins, bridle.
लगाव	पुं.	1. संबंध, ताल्लुक;	সম্বন্ধ;	सम्बन्ध;	bond, link, contact, relation;
		2. स्नेह;	স্নেহ;	स्नेह;	attachment, affection;
		3. दिलचस्पी।	আকর্ষণ	आकर्षन	inclination, propensity.
लगावट	स्त्री.	1. सम्बन्ध; 2. प्रेम, प्यार।	সম্বন্ধ; প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা	सम्बन्ध; प्रेम, प्रीति, भालबासा	relation, contact; attachment, affection, love.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लग्गा	पुं.	1. कई प्रकार के कामों में आनेवाला लंबा बांस;	লগা, দীর্ঘ বংশদন্ড;	लगा, दीर्घ वंशदन्ड;	a thick long pole;
		2. काम शुरू करना, काम में हाथ डालना।	কাজ শুরু করা, কাজে হাত দেওয়া	काज शुरु करा, काजे हात देओया	commencement, start.
लग्गू	वि.	किसी के साथ रहने या आनेजाने वाला।	যে কাহারো পিছনে পিছনে ফিরে	जे काहारो पिछने पिछने फिरे	one who dogs or follows, a hanger-on.
लग्न	वि.	किसी के साथ लगा या सटा हुआ।	বিলগ্ন, সংসক্ত, সংশ্লিষ্ট	विलग्न, संसक्त, संश्लिष्ट	adhered or clung to, stuck, held fast.
	पुं.	1. राशि विशेष के उदयकाल का दिनांश;	লগ্ন, রাশির উদয়কাল;	लग्न, राशिर उदयकाल;	the rising of the sun or of the planets;
		2. किसी काम को करने का शुभ मुहूर्त।	শুভ সময়	शुभ समय	an auspicious or lucky moment.
लग्न-कुंडली	स्त्री.	जन्मपत्री, जन्म-कुंडली।	জন্মকুন্ডলী	जन्मकुन्डली	horoscope.
लग्न-पत्र	पुं.	वह पत्र जिसमें विवाह कर्म, उसकी तिथि आदि का उल्लेख हो।	যে লিপিতে বিবাহ এবং তার লগ্নাদি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখিত থাকে	जे लिपिते विवाह एबं तार लग्नादि सम्पर्कित तथ्य उल्लेखित थाके	formal letter or document in which the date and time etc. of the marriage ceremony are intimated.
लघिमा	स्त्री.	1. एक सिद्धि जिसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य लघुतम रूप धारण कर सकता है;	লঘিমা, অষ্ট-সিদ্ধির একতম –ইহার প্রভাবে লঘুতম রূপ ধারণ সম্ভব হয়;	लघिमा, अष्ट-सिद्धर एकतम इहार प्रभावे लघुतम रूप धारन सम्भब हय;	the supernatural power of assuming excessive lightness at will, one of the eight siddhis;
		2. लघुत्व, हलकापन।	লঘুতা, হালকা ভাব	लघुता, हालका भाब	littleness, smallness, insignificance.
लघु	वि.	1. किसी से तुलना में छोटा;	ক্ষুদ্র, ছোট;	क्षुद्र, छोट;	little, small, diminutive;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जिसमें उग्रता या तीव्रता न हो,	অনতিতীব্র, মৃদু;	अनतितीव्र, मृदु;	sober;
		3. थोड़ा, कम।	অল্প, অকিঞ্চিৎকর	अल्प, अकिञ्चित्कर	trifling, trivial.
लघुकरण	पुं.	1. छोटे आकार-प्रकार में लाना; 2. संक्षिप्त करना।	লঘূকরণ, ভারি জিনিসকে হালকা করা; সংক্ষিপ্তকরণ	लघुकरन, भारि जिनिसके हालका करा; संक्षिप्तकरन	reducing in weight or consequence; reduction, diminution.
लघुतम	वि.	सबसे छोटा।	সব চেয়ে ছোট	सब चेये छोट	minimum, lowest, smallest.
लघुतम समापवर्त्य (समापवर्तक)	पुं.	वह सबसे छोटी संख्या जो दो या अधिक संख्याओं से पूरी-पूरी बंट जाए।	লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক	लघिष्ट साधारन गुननीयक	least common multiple.
लघुता	स्त्री.	लघु होने का भाव, हलकापन, छोटाई।	লঘুতা, লঘুত্ব, অকিঞ্চিৎকরতা	लघुता, लघुत्व, अकिञ्चित्करता	smallness, littleness insignificance, absence of dignity, humiliation.
लघुत्व	पुं.	दे. 'लघुता'।	দ্রষ্টব্য 'লঘুতা'	द्रष्टव्य 'लघुता'	see 'लघुता'
लघुशंका	स्त्री.	पेशाब करना।	প্রস্রাব	प्रस्राव	making water, urine.
लचक	स्त्री.	लचकने का भाव या क्रिया।	নমনীয়তা	नमनीयता	flexibility, elasticity, springiness.
लचकना	अ. क्रि.	1. लंबी वस्तु का दबाव आदि के कारण झुकना;	বক্র হওয়া;	बक्र हओया;	to bend, to be bent;
		2. स्त्रियों की कमर का नज़ाकत से झुकना	মেয়েদের কোমর বাঁকিয়া যাওয়া	मेयेदेर कोमर बाँकिया जाओया	to receive a sprain or strain.
लचका	पुं.	1. लचक; 2. एक प्रकार का गोटा।	মচকানো; গোটবিশেষ	मचकानो; गोटबिशेष	a strain, a sprain; gold or silver lace

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लचकाना	स. क्रि.	झुकाना, लचाना।	বাঁকানো	बांकानो	to cause to bend, to bend.
लचकीला	वि.	लचकनेवाला, लचकदार।	নমনীয়	नमनीय	flexible, elastic, resilient.
लचर	वि.	तथ्यहीन, कमजोर।	অসমর্থনীয়, দুর্বল, মূল্যহীন	असमर्थनीय, दुर्बल मूल्यहीन	untenable, weak, ineffective.
लचलचा	वि.	दे. 'लचकीला'।	দ্র: 'লচকীলা'	द्र: 'लचकीला'	see 'लचकीला'.
लचीला	वि.	दे. 'लचकीला'।	দ্র: 'লচকীলা'	द्र: 'लचकीला'	see 'लचकीला'.
लचीलापन	पुं.	लचक, झुकाव का गुण।	নমনীয়তা	नमनीयता	flexibility, elasticity.
लच्छा	पुं.	1. तारों या डोरों का समूह;	তার বা সূতার বান্ডিল;	तार वा सूतार बान्डिल;	a bundle (of thread etc.), skein.;
		2. लंबे पतले बारीक कटे हुए टुकड़े;	পায়ের গহনা বিশেষ	पायेर गहना विशेष	a thin shred or slice;
		3. एक प्रकार का गहना जो पैरों में पहना जाता है।	খুব সরু৲ পাতলা টুকরা;	खुब सरु पातला टुकरा;	a bracelet (or an anklet).
लच्छी	स्त्री.	सूत, रेशम आदि की लपेटी हुई गुच्छी।	সুতা রেশম ইত্যাদির গুচ্ছ	सुता रेशम इत्यादिर गुच्छ	a skein, hank.
लच्छेदार	वि.	1. जिसमें लच्छे पड़े या बने हों;	যার মধ্যে সরু সরু লম্বা লম্বা টুকরা আছে;	जार मध्ये सरु सरु लम्बा लम्बा टुकरा आछे;	having fine shreds;
		2. खाना जो चिकना-चुपड़ा या मजेदार हो।	মজাদার খাবার	मजादार खाबार	amusing, fascinating.
लजवाना	स. क्रि.	लज्जित करना, शर्मिन्दा करना।	লজ্জা দেওয়া, লজ্জিত করা	लज्जा देओया, लज्जित करा	to cause to be ashamed, to put to shame.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लजाना	अ. क्रि.	लज्जित होना, लाज या शर्म से सिर नीचा करना।	লজ্জিত হওয়া, লজ্জায় মুখ নীচু করা	लज्जित हओया, लज्जाय मुख नीचु करा	to feel shy, to blush.
लजीला	वि.	शर्मीला, लज्जाशील।	লাজুক, লজ্জাশীল	लाजुक, लज्जाशील	shy, bashful, modest.
लज्जत	स्त्री.	खाने-पीने की वस्तुओं का स्वाद, मजा।	লজ্জত, খাদ্য-দ্রব্যের স্বাদ	लज्जत, खाद्य द्रव्येर स्वाद	taste, flavour, relish.
लज्जतदार	वि.	स्वादिष्ट, जायकेदार।	সুস্বাদু	सुस्वादु	tasteful, tasty, delicious.
लज्जा (लाज)	स्त्री.	स्वभाव या अपने किसी अनुचित आचरण के कारण हुई मन की संकोचपूर्ण अवस्था, शर्म, हया।	লজ্জা, শরম, ব্রীড়া	लज्जा, शरम, ब्रीड़ा	shame, modesty, shyness.
लज्जाप्रद	वि.	कृत्य या बात जिसके कारण उसके कर्त्ता को लज्जित होना पडे।	লজ্জাপ্রদ, লজ্জাজনক	लज्जाप्रद, लज्जाजनक	shameful.
लज्जालु	वि.	लज्जाशील, अधिक शर्माने वाला।	লজ্জাশীল, লাজুক	लज्जाशील, लाजुक	bashful, modest, shy.
लज्जावान	वि.	शर्मदार, हयादार।	লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত	लज्जाशील, लज्जाजुक्त	bashful, modest, shy.
लज्जाशील	वि.	जिसे स्वभावत: लज्जा आती हो।	লজ্জাশীল, লাজুক	लज्जाशील, लाजुक	of modest disposition, modest, bashful.
लज्जाशून्य	वि.	लज्जा से रहित, निर्लज्ज।	লজ্জাশূন্য, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ	लज्जाशून्य, लज्जाहीन, निर्लज्ज	devoid of modesty, shameless.
लज्जाहीन	वि.	दे. 'लज्जाशून्य'।	দ্রঃ 'লজ্জাশূন্য'	द्र: 'लज्जाशून्य'	see 'लज्जाशून्य'.
लज्जित	वि.	लज्जायुक्त, शर्मिन्दा।	লজ্জাযুক্ত, লজ্জাবান্	लज्जाजुक्त, लज्जावान्	ashamed, abashed, blushed.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लट	स्त्री.	1. सिर के लटकते हुए बालों का गुच्छा;	খোলা, চুলের গুচ্ছ;	खोला चुलेर गुच्छ;	a curl, ringlet, lock of hair;
		2. उलझे हुए बालों का गुच्छा।	জটপাকানো চুল	जटपाकानो चुल	matted or tangled hair.
लटक	स्त्री.	मन का आकस्मिक उद्वेग।	মনের আকস্মিক উদ্বেগ	मनेर आकस्मिक उद्वेग	a sudden fit or emotion.
लटकन	पुं.	1. लटकने वाली वस्तु;	ঝুলানো জিনিস;	झुलानो जिनिस;	anything hanging, a pendulum;
		2. टिकली, टिकड़ा;	টিকলি;	टिकलि;	a pendant;
		3. नाक का एक गहना।	নাকের অলঙ্কার	नाकेर अलङ्कार	nose drop.
लटकना	अ. क्रि.	1. ऊंची जगह के आश्रय से नीचे की ओर अवलम्बित होना;	লটকা, ঝুলিতে থাকা;	लटका, झुलिते थाका;	to hang, to swing;
		2. किसी सीधी खड़ी वस्तु का कोई भाग किसी ओर थोड़ा झुकना;	হেলিয়া পড়া;	हेलिया पड़ा;	to dangle, to be suspended;
		3. काम पूरा न होना, देर होना।	কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া, কাজ ঝুলিয়া থাকা	काज सम्पूर्न ना हओया, काज झुलिया थाका	to be kept waiting or in suspense, to be delayed.
लटकवाना	स. क्रि.	लटकाने का काम दूसरे से कराना।	অন্যকে দিয়া লটকানো	अन्यके दिया लटकानो	to cause to be hung, to get hung.
लटका	पुं.	1. चिकित्सा, तंत्रमंत्र आदि के क्षेत्र में कोई ऐसी छोटी प्रक्रिया जिससे जल्दी और सहज ही उद्देश्य सिद्ध होता हो;	চিকিৎসা তন্ত্র-মন্ত্রাদির ক্ষেত্র কোনো ছোট প্রক্রিয়া টোটকা;	चिकित्सा तन्त्र-मन्त्रादिर क्षेत्रे कोनो छोट प्रक्रिया टोटका;	formula, tip;
		2. बात-चीत, चाल आदि में दिखाया जानेवाला हावभाव और स्वरों का उतार-चढ़ाव।	মুদ্রাদোষ	मुद्रादोष	affected movement or mannerism.
लटकाना	स. क्रि.	1. लटकने में प्रवृत्त करना, टांगना;	লটকানো;	लटकानो;	to hang, to suspend;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. खड़ी वस्तु को किसी ओर झुकाना;	হেলিয়া পড়া;	हेलिया पड़ा;	to tilt, to bend;
		3. इंतजार कराना, फंसा रखना, देर करना।	প্রতীক্ষা করানো, বসাইয়া রাখা, দেরি করা	प्रतीक्षा करानो, बसाइया राखा, देरि करा	to keep (one) waiting, to delay.
लटना	अ. क्रि.	परिश्रम, रोग आदि के कारण बहुत ही शिथिल और दुर्बल होना।	কৃশ হওয়া, শীর্ণ হওয়া, রোগা হওয়া	कृश हओया, शीर्न हओया, रोगा हओया	to become lean, to be emaciated, to become weak.
लटपटा	वि.	1. ठीक और सीधे तरह से न चलता हुआ;	লটপট করে এমন;	लटपट करे एमन;	reeling, tottering, staggering;
		2. ढीला-ढाला;	শিথিলভাবে দোদুল্যমান;	शिथिलभावे दोदुल्यमान;	loosely folded, hanging loose;
		3. अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित।	অব্যবস্থিত;	अव्यवस्थित;	in complete disorder, messy.
लटपटाना	अ. क्रि.	1. कमजोरी आदि के कारण सीधे न चल पाना, लड़खड़ाना;	দুর্বলতাদির কারণে টলিয়া টলিয়া চলা;	दुर्बलतादिर कारने टलिया टलिया चला;	to stagger, stumble, falter;
		2. विचलित होना, अस्थिर होना।	বিচলিত হওয়া, অস্থির হওয়া	विचलित हओया, अस्थिर हओया	to be nervous, to be demoralized.
लटा	वि.	1. दुष्ट, बदमाश, नीच; 2. बहुत दुबला-पतला या कमजोर।	দুষ্ট, বদমাশ; রোগা পাতলা, দুর্বল	दुष्ट, बदमाश; रोगा पातला, दुर्बल	wicked, mean; weak, emaciated; impoverished.
लट्टू	पुं.	1. लकड़ी का एक गोल खिलौना जिसके आधे भाग में एक कील होती है और उसे चलाये जाने पर उस कील पर घूमता है;	লাট্টু, লাটিম;	लाट्टु, लाटिम;	spinning top;
		2. बिजली का बल्ब।	বাল্ব	बाल्ब	bulb.
लट्ठ	पुं.	मोटा लम्बा डंडा।	মোটা লম্বা ডান্ডা	मोटा लम्बा डान्डा	staff, cudgel.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लट्ठबाज़	वि.	1. लाठी चलानेवाला; 2. लड़ाकू, झगड़ालू।	লাঠিবাজ, লাঠিয়াল, লেঠেল; ঝগড়াটে	लाठिबाज, लाठियाल, लेठेल; झगड़ाटे	skilled in wielding a cudgel; quarrel-some.
लट्ठबाजी	स्त्री.	लाठियों से होनेवाली मारपीट।	লাঠিবাজি	लाठिबाजि	cudgel-fighting, skill in wielding cudgel.
लट्ठमार	वि.	1. (व्यक्ति) जो उजड्ड और उद्दंड हो; 2. (कथन) जिसमें नम्रता, शालीनता आदि का पूर्ण अभाव हो।	অশিষ্ট, অসভ্য দুর্দান্ত; (কথাবার্তা) অবিনীত অশালীন	अशिष्ट, असभ्य, दुर्दान्त; (कथावार्ता) अविनीत अशालीन	uncivil, rude, boorish; rude, impolite (utterance).
लट्ठा	पुं.	1. लकड़ी का बहुत मोटा और लम्बा टुकड़ा, शहतीर; 2. गाढ़ा मोटा कपड़ा, गफ मारकीन; 3. 5½ हाथ लंबा बांस जिससे जमीन नापी जाती है।	লম্বা ও মোটা কাঠের ফালি; মোটা কাপড় বিশেষ, মার্কিন কাপড় বিশেষ; জমি মাপার 5½ হাত লম্বা বাঁশ বা নল	लम्बा ओ मोटा काठेर फालि; मोटा कापड़ विशेष मार्किन कापड़ विशेष; जमि मापार 5½ हात लम्बा बांश बा नल	beam, log, rafter; coarse kind of long cloth, a kind of white cloth; measuring rod or pole measuring 5½ of hand space.
लट्ठाबंदी	स्त्री.	5½ हाथ लंबे बांस द्वारा की जानेवाली जमीन की नाप-जोख।	5½ হাত লম্বা নল দিয়া করা মাপজোক	5½ हात लम्बा नल दिया करा मापजोक	measuring land with a lattha.
लठिया	स्त्री.	छोटी लाठी, छड़ी या डंडा।	ছোট লাঠি, ছড়ি	छोट लाठि, छड़ि	small lattha or stick.
लठैत	वि.	दे. 'लट्ठबाज'।	দ্র: 'লটঠবাজ'	द्र: 'लट्ठबाज'	see 'लट्ठबाज'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लड़	स्त्री.	1. सीध में गुंथी हुई या एक दूसरे से लगी हुई एक ही प्रकार की वस्तुओं की पंक्ति — जैसे मोतियों की लड़;	মালার আকারে গাঁথা একই রকম বস্তুর পঙ্ক্তি যেমন মুক্তাপঙ্ক্তি;	मालार आकारे गांथा एकइ रकम वस्तुर पङ्क्ति जेमन मुक्तापङ्क्ति;	string (of pearls, etc.);
		2. रस्सी आदि के रूप में बटा हुआ लंबा खंड;	দড়ির আকারে পাকানো সুতা আঁশ তার ইত্যাদি;	दड़िर आकारे पाकानो सुता आंश तार इत्यादि;	strand (of a rope or cord);
		3. कतार, पंक्ति।	পঙক্তি, শ্রেণী	पङ्क्ति, श्रेनी	row, line, series.
लड़कपन	पुं.	1. बाल्यावस्था;	বাল্যাবস্থা, ছেলেবেলা;	बाल्यावस्था, छेलेबेला;	boyhood, childhood;
		2. लड़कों का-सा आचरण या व्यवहार, जिसमें बुद्धि का परिपाक न दिखाई देता हो।	ছেলেমানুষি	छेलेमानुषि	childishness.
लड़कबुद्धि	स्त्री.	बालकों की-सी अपरिपक्व मति।	ছেলেবুদ্ধি	छेलेबुद्धि	child's understanding, childishness.
लड़का	पुं.	1. बालक, जो अभी युवक न हुआ हो;	বালক;	बालक;	boy;
		2. पुत्र।	পুত্রসন্তান	पुत्रसन्तान	son.
लड़की	स्त्री.	1. बालिका जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो;	বালিকা;	बालिका;	girl, maid;
		2. पुत्री, बेटी।	কন্যা, বেটি	कन्या, बेटि	daughter.
लड़खड़ाना	अ. क्रि.	1. चलते समय सीधे स्थिर न रह सकने के कारण इधर-उधर झुक पड़ना, डगमगाना, डिगना;	নড়বড় করা, পা টলা;	नड़बड़ करा, पा टला;	to stagger, to stumble;
		2. बोलते समय जीभ से स्पष्ट शब्द न निकल पाना।	তোতলানো	तोतलानो	to stutter, to falter (in speech).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लड़खड़ाहट	स्त्री.	लड़खड़ाने की क्रिया या भाव।	পা-টলা, তোতলামি	पा-टला, तोतलामि	staggering, stumbling.
लड़ना	अ. क्रि.	1. एक पदार्थ या व्यक्ति का दूसरे पदार्थ या व्यक्ति से टक्कर खाना, भिड़ जाना;	সংঘর্ষ হওয়া;	संघर्ष हओया;	to collide (with);
		2. कुश्ती करना, एक दूसरे को पटकने का प्रयत्न करना;	লড়া, যুদ্ধ করা;	लड़ा जुद्ध करा;	to wrestle, to make war, to give battle;
		3. एक दूसरे पर प्रहार करना;	পরস্পর আঘাত করা;	परस्पर आघात करा;	to fight, to quarrel;
		4. बहस करना, वाग्युद्ध करना;	বাগযুদ্ধ করা, কথা কাটাকাটি করা;	बागजुद्ध करा, कथा काटाकाटि करा;	to debate, to argue;
		5. संघर्ष करना।	সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া	संघर्षे लिप्त हओया	to contend, to struggle.
लड़ना-भिड़ना	अ.	दे. 'लड़ना'।	দ্রঃ 'लड़ना'	द्रः 'लड़ना'	see 'लड़ना'.
	पुं.	लड़ाई-झगड़ा।	ঝগড়া-বিবাদ	झगड़ा-बिबाद	quarrel, altercation.
लड़ाई	स्त्री.	1. प्रहार करनेवाले पर प्रहार करना;	লড়াই, মারামারি;	लड़ाइ, मारामारि;	fighting, wrestling;
		2. दो सेनाओं का एक दूसरे पर आक्रमण, संग्राम;	যুদ্ধ;	जुद्ध;	battle, war;
		3. कुश्ती, मल्लयुद्ध;	কুস্তি, মল্লযুদ্ধ;	कुस्ति, मल्लजुद्ध;	wrestling, duel;
		4. झगड़ा, कलह;	ঝগড়া, কলহ;	झगड़ा कलह;	quarrel, brawl;
		5. बहस;	কথা কাটাকাটি;	कथा काटाकाटि;	wordy duel;
		6. वैर, अनबन।	বাদবিসংবাদ	बादबिसंबाद	discord, hostility, enmity.
लड़ाई-झगड़ा	पुं.	1. कलह;	কলহ, ঝগড়াবিবাদ;	कलह, झगड़ाबिवाद;	broil, altercation, quarrel;
		2. बैर, वैमनस्य।	শত্রুতা, বৈরিতা	शत्रुता, बैरिता	enmity, hostility.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लड़ाका	वि.	1. बात-बात में या प्रायः सबसे झगड़ा करनेवाला;	লড়াকু;	लड़ाकु;	pugnacious, quarrelsome, contentious;
		2. लड़नेवाला, योद्धा।	লড়িয়ে, যোদ্ধা	लड़िये जोद्धा	fighter.
लड़ाकू		वि.1. युद्ध में व्यवहृत होनेवाला;	যুদ্ধোপযোগী;	जुद्धोपजोगी;	used in battle (arms, ships etc.);
		2. युद्धप्रिय, झगड़ालू।	ঝগড়াটে	झगड़ाटे	warlike, quarrelsome.
लड़ाना	स. क्रि.	1. एक दूसरे में झगड़ा कराना;	লড়ানো;	लड़ानो;	to cause to fight, to make (two persons or animals) fight, to instigate;
		2. एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिड़ाना;	সংঘর্ষ বাঁধানো;	संघर्ष बांधानो;	to collide a thing (against another);
		3. कुश्ती लड़ने को प्रवृत्त करना।	কুস্তিতে প্রবৃত্ত করা	कुस्तिते प्रवृत्त करा	to cause to wrestle;
लड़ी		स्त्री. 1. एक सीध में गुंथी हुई किसी चीज की माला, पंक्ति;	মালা, পঙ্‌ক্তি;	माला, पङ्क्ति;	string (of pearls, or flowers, etc.), chain;
		2. एक साथ मिलाकर बटी हुई रस्सी, गुच्छे के तार।	পাকানো দড়ি, পাকানো তার	पाकानो दड़ि, पाकानो तार	strand (of rope or cord).
लड्डू	पुं.	गेंद के आकार की कोई गोलाकार मिठाई।	লাড্ডু, নাড়ু	लाड्डु, नाड़ु	ball-shaped sweetmeat.
लत		स्त्री. बुरी आदत।	বদভ্যাস	बदभ्यास	addiction, bad habit.
लतखोर	वि.	जो झिड़की आदि सुनते रहने का आदी हो गया हो, निर्लज्ज।	লাথি-খেকো, নির্লজ্জ	लाथि-खेको, निर्लज्ज	one who is used to kicks or rebukes, shameless.
लता		स्त्री. 1. जमीन या किसी आधार पर फैलनेवाला पौधा, बेल;	লতা, ব্রততী, বল্লরী;	लता, ब्रतती, बल्लरी;	Vine;
		2. कोमल खंड या शाखा।	শাখা	शाखा	branch.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लताकुंज	पुं.	लताओं से छाया हुआ स्थान।	লতাকুঞ্জ, লতামন্ডপ	लताकुञ्ज, लतामन्डप	bower, an arbour.
लताड़	स्त्री.	झिड़की, डांट-फटकार।	ভর্ৎসনা, তাড়না, তিরস্কার, ধমক	भर्त्सना, ताड़ना, तिरस्कार, धमक	scolding, reprimand.
लताड़ना	स. क्रि.	डांटना, फटकारना, झिड़कना।	ভর্ৎসনা করা, তাড়না করা	भर्त्सना करा, ताड़ना करा	to scold or to reprimand.
लता-मंडप	पुं.	दे. 'लताकुंज'।	দ্রঃ 'লতাকুঞ্জ'	द्रः 'लताकुञ्ज'	see 'लताकुंज'.
लतियल	वि.	जिसे झिड़की सुनने और मार खाने की आदत पड़ गई हो, दे. 'लतखोर'।	দ্রঃ 'লতখোর'	द्रः 'लतखोर'	see 'लतखोर'.
लतियाना	स. क्रि.	1. लातों से मारना;	লাথি মারা;	लाथि मारा;	to spurn;
		2. अपमानित करना।	অপমানিত করা	अपमानित करा	to humiliate, to insult.
लतीफा	पुं.	1. हास्यपूर्ण छोटी कहानी;	হাস্যরসাত্মক ছোট কাহিনী;	हास्यरसात्मक छोट काहिनी;	witty anecdote;
		2. हंसी की अनोखी या विलक्षण बात।	রসিকতা, কৌতুক	रसिकता, कौतुक	pleasentry, jest, joke.
लत्ता	पुं.	1. फटा-पुराना कपड़ा, चीथड़ा;	নেকড়া;	नेकड़ा;	scrap of cloth, rag, tatter;
		2. कपड़ा।	কাপড়-চোপড়	कापड़-चोपड़	cloth.
लत्ती	स्त्री.	1. पशुओं द्वारा लात से किया जानेवाला आघात;	পশুর পায়ে লাথি;	पशुर पाये लाथि;	kick with the hind legs (by a horse or an ass etc.);
		2. कपड़े की लंबी धज्जी।	কাপড়ের লম্বা ফালি	कापड़ेर लम्बा फालि	strip of cloth.
लथ-पथ	वि.	1. किसी तरल पदार्थ में बहुत अधिक तर या भीगा हुआ;	সিক্ত	सिक्त;	soaked, saturated, drenched;
		2. कीचड़ आदि से सना हुआ।	কাদামাখা	कादामाखा	clogged, besmeared (with dirt).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लथाड़	स्त्री.	दे. 'लताड़'।	দ্র: 'লতাড়'	द्र: 'लताड़'	see 'लताड़'.
लथाड़ना	स.	दे. 'लताड़ना'।	দ্র: 'লতাড়না'	द्र: 'लताड़ना'	see 'लताड़ना'.
लथेड़ना	स. क्रि.	किसी को इस प्रकार घसीटना कि उस पर धूल या कीचड़ या मिट्टी लग जाए।	কাদা মাখানো	कादा माखानो	to draggle, to smear (with mud etc.).
लदना	अ. क्रि.	1. बोझ से युक्त होना;	বোঝাই হওয়া;	बोझाइ हओया;	to be loaded or to be laden;
		2. भारी वस्तुओं का किसी स्थान से प्रेषणार्थ भरा जाना;	অন্য স্থানে পাঠানোর জন্য বোঝাই হওয়া;	अन्य स्थाने पाठानोर जन्य बोझाइ हओया;	to be borne or to be carried;
		3. गत होना, समाप्त होना।	সমাপ্ত হওয়া	समाप्त हओया	to be finished, to be over.
लदवाना	स. क्रि.	लादने का काम कराना।	অন্যকে দিয়া বোঝাই করানো	अन्यके दिया बोझाइ करानो	to cause to be loaded, to cause to load.
लदाई	स्त्री.	**लादने की क्रिया, भाव या मजदूरी।**	বোঝাই করার কাজ, ভাব, মজুরি	बोझाइ करार काज, भाव, मजुरि	act or payment for loading.
लदान	स्त्री.	**(माल) लादने की क्रिया।**	বোঝাই	बोझाइ	act of loading.
लदाना	स. क्रि.	**दे. 'लदवाना'।**	দ্র: 'লদবানা'	द्र: 'लदबाना'	see 'लदवाना'.
लदाफंदा	वि.	**बोझ से लदा हुआ।**	অত্যধিক বোঝাই করা	अत्यधिक बोझाइ करा	over-loaded, too much burdened.
लदाव	पुं.	**1. लादने का काम;**	বোঝাই করার কাজ;	बोझाइ करार काज;	lading, cargo;
		2. बोझा;	বোঝা;	बोझा;	load, burden;
		3. छत आदि का पटाव।	খিলানযুক্ত ছাদ, পিটানো ছাদ	खिलानजुक्त छाद, पिटानो छाद	arched roof or terrace.
लद्दू	वि.	**जिस पर केवल बोझ लादा जाता हो, भार ढोनेवाला।**	ভারবাহী	भारबाही	fit to carry a load, beast of burden.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लद्धड़	वि.	जिसमें तेजी या फुर्ती न हो, सुस्त, काहिल।	ঢিলা	ढिला	lethargic, slothful.
लद्धड़पन	पुं.	लद्धड़ होने की अवस्था या भाव।	কুঁড়েমি, অলসতা, ঢিলেমি	कुंड़ेमि, अलसता, ढिलेमि	lethargy, slowness.
लपक	स्त्री.	1. तेजी, वेग, चुस्ती; 2. चमक, दीप्ति।	ক্ষিপ্রতা; চমক, দীপ্তি	क्षिप्रता; चमक, दीप्ति	swiftness; flash, flame.
लपकना	अ. क्रि.	1. सहसा तेजी या फुरती से आगे बढ़ना; 2. फेंकी गई किसी वस्तु को जमीन में गिरने से पूर्व ही चुस्ती से पकड़ लेना।	বেগে অগ্রসর হওয়া; লুফিয়া লওয়া	बेगे अग्रसर हओया; लुफिया लओया	to rush forth, to go out with gusto; to catch (a ball, etc.).
लपकाना	स. क्रि.	किसी को लपकने में प्रवृत्त करना।	বেগে ধাবিত করানো	बेगे धाबित करानो	to cause to rush forth.
लपट	स्त्री.	1. आग की लौ, ज्वाला; 2. गंध से भरा हुआ वायु का झोंका।	অগ্নিশিখা; সুগন্ধ বাতাসের ঝলক	अग्निशिखा; सुगन्ध बातासेर झलक	flame, blaze; sweet smell, blast of fragrance.
लपटा	पुं.	गाढ़ी गीली वस्तु।	আঠা	आठा	glutinous substance, thick liquid substance.
लपलपाना	अ. क्रि.	किसी लचीली वस्तु के हिलने या हिलाये जाने पर उसका थोड़ा झुकना, रह-रह कर लपकना।	হেলিতে দুলিতে ঝুঁকিয়া পড়া, নমনীয়া হওয়া	हेलिते दुलिते झुकिया पड़ा, नमनीया हओया	to be resilient or flexible (as a cane).
लपलपाहट	स्त्री.	लपलपाने की क्रिया या भाव।	স্বস্থানে ফিরিয়া আসার ভাব	स्वस्थाने फिरिया आसार भाब	resilience, flexibility.
लपसी	स्त्री.	1. कोई गाढ़ा तरल पदार्थ; 2. एक प्रकार का पतला हलुआ।	ঘন তরল পদার্থ বিশেষ, লপসি; একপ্রকার তরল হালুয়া	घन तरल पदार्थ बिशेष लपसि; एकप्रकार तरल हालुया	glutinous kind of food; kind of 'हलुवा'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लपेट	स्त्री.	1. लपेटने की क्रिया या भाव;	মোচড় দেওয়া বা পাক দেওয়া;	मोचड़ देओया बा पाक देओया;	folding, twisting, covering;
		2. लपेटनेवाली चीज का हर बार का फेरा;	ভাঁজ, কুন্ডলী, পেঁচ;	भांज, कुन्डली, पेंच;	fold, coil, plait;
		3. किसी चीज की मोटाई का विस्तार।	প্রস্থের বিস্তার	प्रस्थेर बिस्तार	girth, circumference, compass.
लपेटन	स्त्री.	लपेट, लपेटने के फलस्वरूप पड़नेवाला फेरा या बल।	পাক, ভাঁজ, পেঁচ	पाक, भांज, पेंच	folding, winding, plait.
	पुं.	वह वस्तु जिससे किसी वस्तु को चारों ओर लपेटकर बांधते हैं, बैठन।	এমন বস্তু যার চারিপাশে ঘুরাইয়া বাঁধা হয়	एमन बस्तु जार चारिपाशे घुराइया बांधा हय	roller on which cloth is wound in the loom.
लपेटना	स. क्रि.	1. सूत, कपड़े आदि को किसी चीज के चारों ओर फेरा देकर बांधना;	কোনো কিছুর চারপাশে ঘিরিয়া সূতা কাপড় ইত্যাদি গুটানো;	कोनो किछुर चारपाशे घिरिया सूता कापड़ इत्यादि गुटानो;	to wind or to twine (round);
		2. किसी चीज को तह देकर मोड़ना;	বেলনার আকারে পাকাইয়া যাওয়া;	बेलनार आकारे पाकाइया जाओया;	to roll up, to fold or wrap;
		3. (ला०) किसी व्यक्ति को किसी मामले में फांसना।	কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে জড়ানো	कोनो ब्यक्तिके कोनो बिषये जड़ानो	(fig.) to involve, to implicate.
लपेटनी	स्त्री.	जुलाहों की लपेटन नाम की लकड़ी।	তাঁতির লপেটন নামক কাষ্ঠখন্ড	तांतिर लपेटन नामक काष्ठखन्ड	weaver's stick.
लप्पड़	पुं.	तमाचा, थप्पड़।	চড়, থাপ্পড়	चड़, थाप्पड़	slap, thump.
लफंगा	वि.	आवारा, दुश्चरित्र, बदमाश।	লোচ্চা, দুশ্চরিত্র, বদমাস	लोच्चा, दुश्चरित्र, बदमास	loafer, vagabond.
लबाड़ (लबार)	वि.	झूठा, गप्पी।	মিথ্যাবাদী, গল্পে	मिथ्याबादी, गल्पे	liar, babbler.
लबादा	पुं.	एक लंबा और ढीला-ढाला पहनावा।	আলখাল্লা	आलखाल्ला	cloak, gown, robe, apron.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लबालब	वि.	किनारे तक भरा हुआ।	কানায় কানায় পূর্ণ	कानाय कानाय पूर्न	brimful.
लब्ध	वि.	1. मिला या प्राप्त किया हुआ;	লব্ধ, প্রাপ্ত;	लब्ध, प्राप्त;	got, obtained, acquired;
		2. भाग करने से निकला हुआ।	ভাগফল	भागफल	quotient.
लब्धप्रतिष्ठ	वि.	जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, सम्मानित।	লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, খ্যাতিমান্	लब्धप्रतिष्ठ प्रतिष्ठाप्राप्त, ख्यातिमान्	one who has acquired fame, renowned.
लब्धि	स्त्री.	1. लाभ, प्राप्ति;	লাভ, প্রাপ্তি;	लाभ, प्राप्ति;	acquirement, attainment, achievement;
		2. (गणित) भागफल, लब्धांक।	(গণিতে) ভাগফল	(गनिते) भागफल	(arith.) the quotient.
लभ्य	वि.	जो पाया जा सके या मिल सके।	লভ্য, লাভের যোগ্য	लभ्य, लाभेर जोग्य	attainable, obtainable, within reach.
लय	पुं.	1. एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विलीन होना; 2. दार्शनिक क्षेत्र में वह स्थिति जिसमें सृष्टि की समस्त चीजें अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती हैं।	লয়, বিলীন হওয়া; (দর্শনে) প্রলয়	लय, बिलीन हओया; (दर्शने) प्रलय	merger, immersion, fusion; dissolution, extinction, destruction.
	स्त्री.	स्वर के आरोह, अवरोह का ढंग।	সুরের আরোহ, আরোহের প্রকরণ	सुरेर आरोह, आरोहेर प्रकरन	tempo.
लरजना	अ. क्रि.	1. कांपना, हिलना-डुलना;	কম্পিত হওয়া; ভয় পাওয়া	कम्पित हओया; भय पाओया	to shake, to quiver, to tremble;
		2. डर जाना, दहल जाना।	ভয় পাওয়া	भय पाओया	to be frightened, to be amod.
ललक	स्त्री.	बलवती इच्छा।	বলবতী ইচ্ছা	बलवती इच्छा	craving,yearning, longing.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
ललकना	अ. क्रि.	किसी वस्तु को पाने की गहरी लालसा या इच्छा करना।	কোনো বস্তু লাভের লালসে উৎসুক হওয়া	कोनो वस्तु लाभेर लालसे उत्सुक हओया	to long or crave (for), to yearn.
ललकार	स्त्री.	लड़ने के लिए प्रतिपक्षी को चुनौती देना।	আহ্বান, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়	आह्वान, प्रतिद्वन्द्विताय	call, challenge.
ललकारना	स. क्रि.	विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना।	প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা	प्रतिद्वन्द्विताय आह्वान करा	to hold out a challenge, to halloo.
ललचाना	स. क्रि.	कुछ पाने की आशा बांधकर किसी को अधीर करना, कोई लुभावनी वस्तु दिखाकर उसे पाने के लिए आकुल और अधीर करना।	প্রলুব্ধ করা, লোভ দেখানো	प्रलुब्ध करा, लोभ देखानो	to tempt to allure.
	अ. क्रि.	किसी अच्छी वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए अधीर होना।	লালসিত হওয়া, লুব্ধ হওয়া	लालसित हओया, लुब्ध हओया	to be tempted, to be allured.
ललना	स्त्री.	स्त्री, सुन्दर स्त्री।	ললনা, নারী, সুন্দরী	ललना, नारी, सुन्दरी	woman (in general), beautiful woman.
ललाई	स्त्री.	सुर्खी, लाली।	লালিমা, রক্তিমা	लालिमा, रक्तिमा	redness, ruddiness
ललाट	पुं.	1. माथा; 2. भाग्य।	ললাট, কপাল, ভাগ্য	ललाट, कपाल; भाग्य	forehead; fate, destiny.
ललाट-रेखा	स्त्री.	भाग्य-लेख।	ললাটস্থ সৌভাগ্যরেখা	ललाटस्थ सौभाग्यरेखा	line on the forehead (supposed to indicate long life).
[illegible]	वि.	[illegible] सुन्दर।	মনোরম, কান্ত	मनोरम, कान्त	beautiful, lovely, charming.
[illegible]	वि.	मनोहर, सुन्दर।	ললিত, মনোহর, সুন্দর	ललित, मनोहर, सुन्दर	lovely, beautiful, elegant, graceful.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
ललित कला	स्त्री.	वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौन्दर्य की अपेक्षा हो और जो मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो।	ললিতকলা, গীতবাদ্য চিত্রাঙ্কণ সাহিত্য-রচনা প্রভৃতি চারুকলা	ललितकला, गीतवाद्य चित्राङ्कन साहित्य-रचना प्रभृति चारुकला	fine art.
ललित साहित्य	पुं.	ऐसा साहित्य जो उपयोगी या ज्ञानवर्धक होने की अपेक्षा भावप्रवण अधिक होता है, मनोरंजक साहित्य।	রম্য রচনা	रम्य रचना	belles lettres.
लल्ला	पुं.	लड़के या बेटे के लिए प्यार का शब्द।	ছোট ছেলেকে আদর করিয়া বলা হয়, খোকন	छोट छेलेके आदर करिया बला हय, खोकन	dear boy, darling, affectionate term of address for a child or boy.
लल्लो-चप्पो	स्त्री.	चिकनी-चुपड़ी बात, चाटुकारिता।	তোষামোদ, চাটুকারিতা	तोषामोद, चाटुकारिता	wheedling. adulation, flattery coaxing.
लवंग	पुं.	लौंग नामक वृक्ष और उसकी कलियां या फूल।	লবংগ, লবংগবৃক্ষ ও তাহার ফুল	लबङ्ग, लबङ्गबृक्ष ओ ताहार फुल	clove plant and its flowers.
लव	पुं.	1. अल्पमात्रा, थोड़ा अंश; 2. काल का एक मान।	অতি অল্প, লেশ; অত্যল্প কালাংশ	अति अल्प, लेश; अत्यल्प कालांश	particle, drop. small quantity; minute division of time (sixth part of a twinkling).
लवण	पुं.	नमक, लोन।	লবণ, নুন	लवन, नुन	salt.
लवलीन	वि.	तन्मय, मग्न।	তন্ময়, মগ্ন	तन्मय, मग्न	absorbed, engrossed (in).
लवलेश	पुं.	अल्पमात्रा, बहुत थोड़ा परिमाण।	লেশ, অণু	लेश, अनु	whit, very small particle.
लश्कर	पुं.	1. सेना; 2. प्राणियों का बड़ा दल या समूह;	লস্কর, সৈন্য; জন্তুর প্রকান্ড দল	लस्कर, सैन्य; जन्तुर प्रकान्ड दल	army; large multitude of animals;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		3. सैनिक पड़ाव, छावनी।	(সৈন্যের) ছাউনি	(सैन्येर) छाउनि	encampment of army.
लश्करी	वि.	लश्कर सम्बन्धी।	লস্কর সম্বন্ধীয়	लस्कर सम्बन्धीय	of or belonging to an army.
लस	पुं.	1. चिपचिपाहट;	চট্‌চটে ভাব, আঠাযুক্ততা;	चट्चटे भाव, आठजुक्तता;	stickiness, glutinousness;
		2. चिपकानेवाली चीज, गोंद।	গঁদ	गंद	gum.
लसदार	वि.	जिसमें लस हो।	আঠাল, চট্‌চটে	आठल, चट्चटे	sticky, adhesive, glutinous.
लसलसा	वि.	चिपचिपा, गोंद की तरह चिपकनेवाला।	চট্‌চটে, আঠাযুক্ত	चट्चटे, आठजुक्त	adhesive, glutinous, sticky.
लसीला	वि.	दे. 'लसदार'।	দ্র: 'লসদার'	द्र: 'लसदार'	see 'लसदार'.
लस्टम-पस्टम	क्रि. वि.	बहुत ही मंद गति तथा साधारण रूप में, जैसे-तैसे।	ঢিমাতেতালায়, যেমন তেমন করিয়া	ढिमातेतालाय, जेमन तेमन करिया	slowly and ordinarily, somehow or the other.
लस्सी	स्त्री.	दही का घोल।	লস্‌সি	लस्सि	cold drink made of churned curd mixed with water and sugar.
लहंगा	पुं.	कमर के नीचे का सारा अंग ढकने के लिए स्त्रियों का एक घेरदार पहरावा, घाघरा।	ঘাঘরাবিশেষ, সায়া	घाघराबिशेष, साया	loose skirt or petticoat worn round the loins to the feet.
लहक	स्त्री.	1. आग की लपट;	অগ্নিশিখা;	अग्निशिखा;	flame, blaze;
		2. चमक।	চমক, ঝলকানি	चमक, झलकानि	glare, glitter, flash.
लहकना	अ. क्रि.	1. हवा में इधर-उधर हिलना;	বাতাসে দোলা;	बातासे दोला;	to bend or wave (as corn or grass before the wind), to warble, quaver;

हिंदी शब्द	व्या. क्रो.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आग का प्रज्वलित होना।	অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া;	अग्नि प्रज्वलित हओया;	to rise up into a flame, to blaze up.
लहकाना	स. क्रि.	1. हवा से इधर-उधर हिलाना;	বাতাসে দোলানো;	बातासे दोलानो;	to cause to warble or quaver;
		2. उत्तेजित करना, उकसाना;	উত্তেজিত করা, উস্কানি দেওয়া;	उत्तेजित करा, उस्कानि देओया;	to incite, to instigate;
		3. दहकाना।	আগুন জ্বালানো	आगुन ज्वालानो	to blow up (a fire).
लहजा	पुं.	बोलनें या शब्दों के उच्चारण का खास ढंग।	লহ্জা	लब्जो	tone, accent, intonation.
लहर	स्त्री.	1. वायु की गति से पानी में उत्पन्न होनेवाली चढ़ाव उतारदार हरकत;	তরংগ, ঢেউ;	तरङ्ग, ढेउ;	a wave, surge;
		2. वेगमयी भावना, मन की मौज;	বেগবতী চিন্তা, খেয়াল খুশি, মর্জি;	बेगबती चिन्ता, खेयाल खुशि, मर्जि;	caprice, fancy;
		3. आनन्द, हर्ष आदि का वेग।	হর্ষবেগ	हर्षबेग	ecstasy, transport, rapture.
लहरदार	वि.	लहरोंवाला।	তরংগযুক্ত	तरङ्गजुक्त	wavy.
लहराना	अ. क्रि.	1. हवा के झोंकों में हिलना-डुलना;	হাওয়ায় দোলা;	हाओयाय दोला;	to shimmer, to fluctuate;
		2. मन का उमंग या उल्लास में आना।	আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া	आनन्दे उत्फुल्ल हओया	to be in ecstasy.
	स. क्रि.	हिलाना-डुलाना।	আন্দোলিত করা	आन्दोलित करा	to flutter, to wave.
लहरिया	वि.	लहरदार, बेल-बूटों वाला।	ঢেউখেলানো, বুটিদার	ढेउखेलानो, बुटिदार	striped,
	पुं.	1. लहर की आकृति की रेखाओं का समूह;	তরংগায়িত রেখাসমূহ;	तरङ्गायित रेखासमूह;	wavy meandering;
		2. वह कपड़ा जिस पर लहरों के आकार की आकृतियां हों।	ঢেউখেলানো নকশাযুক্ত কাপড়	ढेउखेलानो नकशाजुक्त कापड़	wave like embroidery in cloth.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लहरी	स्त्री.	लहर, तरंग।	লহর, তরংগ	लहर, तरङ्ग	ripple, small wave.
	वि.	मनमौजी।	খামখেয়ালি	खामखेयालि	fanciful, whimsical, capricious.
लहलहा	वि.	1. हरा-भरा, फूलपत्तों से भरा; 2. (ला०) परमप्रसन्न, आनन्दमय।	লকলকে, সবুজ; আনন্দে ডগমগ, অতিপ্রসন্ন	लकलके, सबुज; आनन्दे डगमग, अतिप्रसन्न	verdant, green; rapturous, delighted.
लहलहाना	अ. क्रि.	हरा-भरा होना, पनपना।	সবুজ হওয়া, লকপক করিয়া বাড়া	सबुज हओया, लकपक करिया बाड़ा	to be verdant, to flourish or bloom, to wave.
लहसुन	पुं.	प्याज की तरह की एक गांठ और उसका पौधा।	রসুন	रसुन	garlic.
लहसुनिया	पुं.	धूमिल रंग का एक प्रकार का रत्न।	বৈদূর্যমণি	वैदूर्जमनि	a certain precious stone, 'cats' eye.'
लहू	पुं.	खून, रक्त।	লহু, রক্ত	लहु, रक्त	blood.
लहू-लुहान	वि.	खून से तर।	রক্তাক্ত, রক্তমাখা	रक्ताक्त, रक्तमाखा	smeared in blood, soaked in blood.
लाँग	स्त्री.	धोती या लंगोट का वह छोर जिसे जांघों के नीचे से निकालकर पीछे कमर में खोंसा जाता है।	ধুতি বা লেংগটের সেই অংশ যা দ্বারা পাছকোঁচা দেওয়া হয়	धुति बा लेङ्गटेर सेइ अंश जा द्वारा पाछकोंचा देओया हय	the fold of a dhoti passed between the thighs.
लांगूल	पुं.	पूंछ, दुम।	পুচ্ছ, লেজ	पुच्छ, लेज	tail.
लाँघना	अ. क्रि.	1. डग भरकर, छलांग लगाकर पार करना; 2. स्थान आदि को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना।	লঙ্ঘন করা, লাফাইয়া পার হওয়া; সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া	लङ्घन करा, लाफाइया पार हओया; सीमा छाड़ाइया जाओया	to jump or spring over, to cross; to go beyond, to pass over.
लांछन	पुं.	कोई बुरा काम करने से चरित्र पर लगनेवाला धब्बा, कलंक।	কলঙ্ক	कलङ्क	blame, slur, stigma.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लांछित	वि.	जिस पर लांछन लगा हो।	কলঙ্কিত	कलङ्कित	blamed, stigmatized.
लाई	स्त्री.	धान आदि को सुखाकर और गरम बालू में भूनकर बनाई हुई खीलें।	লাজ, খই	लाज, खइ	parched grain.
लाक्षणिक	वि.	शब्द की लक्षणा शक्ति पर आश्रित या उससे सम्बद्ध।	লাক্ষণিক, লক্ষণাসম্বন্ধী, লক্ষণাযুক্ত	लाक्षनिक, लक्षनासम्बन्धी, लक्षनाजुक्त	expressing indirectly or figuratively, metaphorical, allegorical, symbolical.
	पुं.	वह जो लक्षणों का ज्ञाता हो।	দৈবজ্ঞ	दैवज्ञ	one who is acquainted with marks or signs.
लाक्षा	स्त्री.	लाख नामक लाल पदार्थ।	লা, জতু	ला, जतु	a kind of red dye, lac.
लाख	वि.	जो संख्या में सौ हज़ार हो।	এক লক্ষ	एम लक्ष	a hundred thousand, lac.
	पुं.	सौ हजार की सूचक संख्या - 100000।	১00000 এই সংখ্যা	100000 एइ संख्या	the number one lac.
लाग	स्त्री.	1. लगाव, सम्पर्क; 2. प्रतिस्पर्धा, होड़; 3. दुश्मनी, वैर।	আসক্তি, সম্পর্ক; প্রতিদ্বন্দ্বিতা; শত্রুতা	आसक्ति, सम्पर्क; प्रतिद्वन्द्विता; शत्रुता	attachment, affection; competition; enmity, hostility, rancour.
लाग-डांट	स्त्री.	ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें लुप्त वैर-विरोध का भाव भी सम्मिलित हो।	বৈরিভাবমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা	बैरिभाबमूलक प्रतिद्वन्द्विता	rancour, rivalry, competition.
लागत	स्त्री.	किसी पदार्थ के निर्माण में होनेवाला खर्च।	তৈরি করার খরচ	तैरि करार खरच	prime cost, expenditure.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	कश्मीरी पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लाग-लपेट	स्त्री.	वह तत्त्व या भाव जो किसी बात में अप्रत्यक्ष रूप से लाया हुआ हो, विशेषत: ऐसी बात जिसमें कुछ और भी छिपा हुआ हो।	গূঢ়ার্থক তত্ত্ব বা ভাব	गूढ़ार्थक तत्त्व बा भाव	partiality, favouritism.
लागू	वि.	चरितार्थ होनेवाला, लगनेवाला।	যাহা কার্যে পরিণত হইবে এমন	जाहा कार्जे परिनत हइबे एमन	applied, enforced.
लागू करना	स. क्रि.	1. कार्यान्वित करना; 2. किसी बात को किसी अन्य बात पर घटाना।	কার্যে রূপায়িত করা; প্রয়োগ করা	कार्जे रुपायित करा: प्रयोग करा	to execute, to implement; to apply.
लाघव	पुं.	1. लघु होने की अवस्था या भाव; 2. छोटा या संक्षिप्त करने की क्रिया या भाव।	লাঘব, লঘুতা; সংক্ষেপণ, সংহতকরণ	लाघब, लघुता; संक्षेपन, संहतकरन	smallness, littleness; brevity, conciseness (of expression).
लाचार	वि.	निरुपाय, मजबूर, असमर्थ।	নাচার, নিরুপায়, নিঃসহায়	नाचार, निरुपाय, नि:सहाय	helpless, destitute, hopeless.
लाचारी	स्त्री.	मजबूरी, असमर्थता, विवशता।	নিঃসহায়তা, অসমর্থতা	नि:सहायता, असमर्थता	helplessness, inability.
लाज	स्त्री.	शरम, हया।	লাজ, লজ্জা, শরম	लाज, लज्जा, शरम	shame, sense of decency.
लाजना	अ. क्रि.	लजाना, लज्जित होना।	লজ্জিত হওয়া, লজ্জা পাওয়া	लज्जित हओया, लज्जा पाओया	to feel ashamed or to abash, to blush.
लाजवंती	स्त्री.	1. लज्जाशील स्त्री; 2. छुई-मुई नाम का पौधा।	লজ্জাবতী লজ্জাশীলা; লজ্জাবতী লতা	लज्जावती लज्जाशीला; लज्जावती लता	modest, coy, blushing woman; the plant touch-me-not.
लाजवाब	वि.	1. अनुपम, बेजोड़; 2. (व्यक्ति) जो जवाब न दे सकता हो।	অনুপম, অদ্বিতীয়; নির্বাক	अनुपम, अद्वितीय; निर्बाक	peerless, unique; speechless, silent.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लाजा	स्त्री.	भुने हुए धान की खील।	লাজ, খই	लाज, खइ	fried or parched grain.
लाज़िमी	वि.	अवश्य और उचित, कर्त्तव्य के विचार से अपरिहार्य।	অবশ্য কর্তব্য, আবশ্যিক, অপরিহার্য	अबश्य, कर्तब्य, आर्बश्यिक, अपरिहार्ज	inevitable, obligatory, compulsory.
लाट	स्त्री.	1. ऊँचा और मोटा खंभा;	স্তম্ভ;	स्तम्भ;	lofty pillar;
		2. लार्ड का विकृत रूप।	লর্ড শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ	लर्ड शब्देर अपभ्रष्ट रूप	lord.
लाठी	स्त्री.	डंडा, बांस की लंबी लकड़ी।	লাঠি, যষ্ঠি	लाठि, जष्टि	staff, stick, cudgel.
लाठी-चार्ज	पुं.	लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस का भीड़ पर लाठियाँ चलाना।	লাঠিচার্জ	लाठिचार्ज	lathi-charge.
लाड़	पुं.	प्यार, दुलार।	সোহাগ, স্নেহ	सोहाग, स्नेह	affection, caress, endearment.
लाड़-प्यार	पुं.	दे. 'लाड़'।	দ্রষ্টব্য 'লাড়'	द्रष्टव्य 'लाड़'	see **'लाड़'**.
लाड़ला (स्त्री. लाड़ली)	वि.	प्यारा, दुलारा।	আদুরে	आदुरे	darling, dear, beloved (baby, person).
लात	स्त्री.	1. पैर, पद;	পা;	पा;	a leg;
		2. पाद-प्रहार।	লাথি	लाथि	kick.
लाद	स्त्री.	1. लादने की क्रिया या भाव;	বোঝাইকরণ	बोझाइकरन;	loading, burden;
		2. उदर, पेट।	উদর, পেট	उदर, पेट	entrail, bowels.
लादना	स. क्रि.	1. किसी पर बहुत सी वस्तुएं भार के रूप में रखना;	বোঝাই করা, ভার চাপানো;	बोझाइ करा, भार चापानो;	to load, to burden;
		2. किसी पर जिम्मेदारी का भार डालना।	ঘাড়ে বোঝা চাপানো	घाड़े बोझा चापानो	to saddle one with (responsibility).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लादी	स्त्री.	1. बोझा, भार;	বোঝা, ভার;	बोझा, भार;	small load (such as put on an ox or ass);
		2. धुलाई के लिए दिए गए कपड़ों का ढेर।	কাচিবার জন্য কাপড়ের বোঝা	काचिबार जन्य कापड़ेर बोझा	bundle of clothes meant for washing.
लानत	स्त्री.	फटकार, धिक्कार, भर्त्सना।	তিরস্কার, ধিক্কার, ভর্ৎসণা	तिरस्कार, धिक्कार भर्त्सना	curse.
लाना	स. क्रि.	1. कहीं से कोई वस्तु लेकर आना;	আণা;	आना;	to bring, to fetch;
		2. उपस्थित करना, सामने रखना।	উপস্থিত করা, সম্মুখে স্থাপন	उपस्थित करा, सम्मुखे स्थापन	to bring forward, to present, to produce.
लापता	वि.	जिसका पता न हो।	নিরুদ্দেশ	निरुद्देश	missing, absconding.
लापरवाह	वि.	1. बेफिक्र, निश्चिन्त; 2. असावधान।	বেপরোয়া, অসাবধান	बेपरोया; असावधान	careless, carefree; negligent, inattentive, heedless.
लापरवाही	स्त्री.	1. बेफिक्री; 2. असावधानी, प्रमाद।	বেপরোয়াভাব; অসাবধানতা	बेपरोयाभाव; असावधानता	carelessness; negligence, heedlessness.
लाभ	पुं.	1. प्राप्ति, लब्धि; 2. फायदा, नफा।	প্রাপ্তি; মুনাফা	प्राप्ति; मुनाफा	advantage, benefit; gain, profit.
लाभकारक	वि.	जिससे लाभ हो।	লাভকর, লাভজণক	लाभकर, लाभजनक	profitable, beneficial, advantageous.
लाभकारी	वि.	दे. 'लाभकारक'।	দ্র: 'লাভকারক'	द्र: 'लाभकारक'	see 'लाभकारक'.
लाभदायक	वि.	दे. 'लाभकारक'।	দ্র: 'লাভকারক'	द्र: 'लाभकारक'	see 'लाभकारक'.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लाभप्रद	वि.	दे. 'लाभकारक'।	দ্র: 'লাভকারক'	द्र: 'लाभकारक'	see 'लाभकारक'.
लाभांश	पुं.	लाभ का वह अंश जो किसी कारखाने के हिस्सेदारों को लगाई गई पूंजी के अनुपात में मिलता है।	লভ্যাংশ, ডিভিডেন্ড	लभ्यांश, डिभिडेन्ट	dividend, bonus.
लाम	पुं.	1. सेना, फौज; 2. युद्ध-मोर्चा।	সেনাবাহিনী, ফৌজ রণক্ষেত্র	सेनावाहिनी, फौज; रनक्षेत्र	army; war-front.
लामबन्दी	स्त्री.	सेना को शस्त्रों से सुसज्जित कर युद्धार्थ प्रयाण के लिए तैयार रखना।	সেনাবাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা	सेनावाहिनीके जुद्धार्थ प्रस्तुत करा	mobilization (of army).
लामा	पुं.	तिब्बत में बौद्ध धर्मावलम्बियों के गुरु या धर्माचार्य।	তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত	तिब्बतीय बौद्ध पुरोहित	a Buddhist monk.
लायक	वि.	योग्य, उपयुक्त, मुनासिब	লায়েক, উপযুক্ত, যোগ্য, সমর্থ	लायेक, उपजुक्त, जोग्य, समर्थ	worthy, able, capable, competent.
लार	स्त्री.	1. मुँह में से तार के रूप में निकलने वाला थूक; 2. कतार।	লালা, নাল; কাতার, শ্রেণী পঙ্‌ক্তি	लाला, नाल; कातार, श्रेनी पङ्क्ति	saliva, spittle; string, series, row, train.
लाल	पुं.	1. पुत्र, बेटा; 2. प्यारा बच्चा, छोटा और प्रिय बालक; 3. माणिक नामक रत्न।	পুত্র, বেটা; প্রিয় বালক; মাণিক	पुत्र, बेटा; प्रिय बालक; मानिक	son; darling, pet; a ruby;
	वि.	रक्त वर्ण का, सुर्ख।	রক্তবর্ণ	रक्तवर्न	red, ruddy.
लालच	पुं.	कोई वस्तु पाने की बहुत बढ़ी हुई इच्छा, लोभ।	লালসা, লোভ	लालसा, लोभ	covetousness, greed, avarice, allurement.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लालची	वि.	लोभी, लोलुप।	লোভী, লোলুপ	लोभी, लोलुप	greedy, avaricious.
लालटेन	स्त्री.	हाथ में लटकाने लायक चिमनीदार लैंप।	লন্ঠন	लन्ठन	lantern.
लालन	पुं.	बहुत अधिक लाड़ करना।	লালন, অত্যধিক আদর করা	लालन, अत्यधिक आदर करा	fondling, coaxing, caressing.
लालन्न-पालन	पुं.	बच्चों को लाड़ करना और पाल-पोस कर बड़ा करना।	লালন, পালন, প্রতিপালন	लालन, पालन, प्रतिपालन	rearing, upbringing.
लाल पगड़ी	स्त्री.	पुलिस का सिपाही या अधिकारी।	লালপাগড়ি, পুলিস	लालपार्गाड़, पुलिस	policeman or police officer.
लाल फीता	पुं.	सरकारी कार्यों के संपादन, निर्णय आदि में लगनेवाली अनावश्यक देर, दीर्घ-सूत्रता।	লালফিতা	लार्लफिता	red tape.
लाल मिर्च	स्त्री.	एक प्रकार का छोटा पौधा जिसमें फली के आकार के फल होते हैं जो आरम्भ में हरे तथा पकने पर लाल हो जाते हैं।	লাল মরিচ	लाल मरिच	red chilli, capsicum.
लालसा	स्त्री.	बहुत दिनों से मन में बनी रहने वाली इच्छा।	লালসা, লিপ্সা, স্পৃহা	लालसा, लिप्सा, स्पृहा	longing, ardent desire, yearning.
लालसी	वि.	लालसा या अभिलाषा करनेवाला।	লিপ্সাযুক্ত, স্পৃহাযুক্ত	लिप्साजुक्त, स्पृहाजुक्त	one who desires, longs or yearns.
लाला	पुं.	1. आदरसूचक संबोधन;	মহাশয়, সাহেব;	महाशय, साहेव;	a respectable term of address to elders;
		2. बनियों आदि के नाम से पहले लगनेवाला आदरसूचक शब्द।	বৈশ্যাদির নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক শব্দ	वैश्यादिर नामेर पूर्वे व्यवहृत सम्मानसूचक शब्द	a title given to persons of the Vaisya class, etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लालायित	वि.	जिसके मुंह में लालच से पानी भर आया हो, ललचाया हुआ।	লালায়িত, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, লোলুপ	लालायित, अत्यन्त आग्रहान्वित, लोलुप	eager, tempted, enamoured.
लालित्य	पुं.	ललित होने की अवस्था या गुण, रमणीयता।	লালিত্য, ললিত ভাব, কমনীয়তা	लालित्य, ललित भाब, कमनीयता	gracefulness, grace, beauty, charm, delicacy.
लालिमा	स्त्री.	लाल होने की अवस्था या भाव, लाली।	লালিমা, লাল আভা, রক্তিমা	लालिमा, लाल आभ, रक्तिमा	redness, reddishness.
लाली	स्त्री.	1. लालपन, सुर्खी; 2. लाड़ली लड़की; 3. होठों या गालों पर लगाया जानेवाला पाउडर।	রক্তিমা; সোহাগী মেয়ে; রুজ, লিপস্টিক	रक्तिमा; सोहागी मेये; रुज, लिपस्टिक	redness, ruddiness; a darling daughter; rouge, lipstick.
लाले पड़ना	अ. क्रि.	किसी वस्तु का अभाव होना।	দুর্লভ হওয়া	दुर्लभ हओया	to be rare, to be beyond reach.
लावण्य	पुं.	सुन्दरता।	কান্তি, সৌন্দর্য	कान्ति, सौन्दर्ज	beauty, loveliness, charm.
लाव-लश्कर	पुं.	सामग्री, सामान, असबाब।	জিনিসপত্র, আসবাবপত্র	जिनिसपत्र, आसबाबपत्र	large paraphernalia, goods and chettels.
लावा	पुं.	ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला द्रव पदार्थ	লাভা	लाभा	lava.
लावारिस	वि.	1. जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो; 2. जिसका कोई अधिकारी या दावेदार न हो।	লাওয়ারেশ, উত্তরাধিকারিহীন; যাহার কোনো দাবিদার নাই	लाओयारेश, उत्तराधिकारिहीन; जाहार कोनो दाबिदार नाइ	heirless, having or leaving no heir; to which there is no heir (property), unclaimed.
लावारिसी	स्त्री.	लावारिस होने की अवस्था या भाव।	উত্তরাধিকারিহীনতা	उत्तराधिकारिहीनता	the state of being heirless.
लाश	स्त्री.	किसी प्राणी का मृत शरीर।	লাশ, মৃতদেহ, শব	लाश, मृतदेह, शब	a dead body, a corpse, a carcass.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लासा	पुं.	लसदार, चिपकने वाली वस्तु।	চট্‌চটে বস্তু লেই, আঠা	चट्चट्े बस्तु लेइ आठा	viscous or glutinous substance.
लासानी	वि.	अद्वितीय, बेजोड़।	অদ্বিতীয়,	अद्वितीय	matchless, uncomparable, peerless.
लास्य	पुं.	वह नृत्य जिसमें वाद्य और गीत का योग हो।	লাস্য, গীতবাদ্যসহিত নৃত্য	लास्य, गीतबाद्यसहित नृत्य	dance accompanied with singing and instrumental music.
लिंग	पुं.	1. किसी वस्तु की पहचान का माध्यम, चिह्न;	লিঙ্গ, চিহ্ন, লক্ষণ;	लिङ्ग, चिह्न, लक्षन;	mark, spot, sign, token;
		2. पुरुष की जननेन्द्रिय;	পুং জননেন্দ্রিয়;	पुं जननेन्द्रिय;	the genital organ;
		3. शिव का एक विशिष्ट प्रतीक या मूर्ति;	শিবমূর্তিবিশেষ;	शिबमूर्तिबिशेष;	phallus deity representing shiva;
		4. शब्दों का पुंलिंग, स्त्रीलिंग आदि संबंधी भेद;	শব্দের পুং-স্ত্রী ক্লীবভেদ;	शब्देर पुं-स्त्री क्लीबभेद;	gender;
		5. नर-मादा की दृष्टि से प्राणियों का विभाजन।	পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব	पुंसत्व ओ स्त्रीत्व	the sign of gender or sex.
लिंगानुशासन	पुं.	वह शास्त्र जिसमें शब्दों का लिंग निर्धारित किया जाता है।	লিংগনির্ণয়বিধি	लिङ्गनिर्नयबिधि	the laws of grammatical gender.
लिए	अव्य.	'के' से युक्त होकर 'के लिए' रूप में प्रयुक्त होनेवाला सम्प्रदान कारक का विभक्ति चिह्न।	জন্য, কারণে	जन्य, कारने	for, for the sake of, on account of.
लिखत	स्त्री.	1. लिखे हुए होने की अवस्था या भाव;	লিখন;	लिखन;	writing;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. आपस में की हुई लिखा-पढ़ी।	আপোস লেখাপড়া	आपोस लेखपड़ा	document, an agreement, a stipulation.
लिखना	स. क्रि.	1. कोई बात लिपिबद्ध करना;	লিখা;	लिखा;	to write, to enter, to register, to note down, to copy;
		2. किसी साहित्यिक कृति की रचना करना।	রচনা করা	रचना करा	to compose (a work etc.).
लिखवाई	स्त्री.	लिखने की क्रिया, भाव या मजदूरी।	লেখা, লেখার মজুরি	लेखा, लेखार मजुरि	the act of or remuneration for writing.
लिखवाना	स. क्रि.	किसी को लिखने में प्रवृत्त करना।	লেখানো	लेखानो	to cause to be written or recorded.
लिखा	पुं.	वह जो कुछ लिखित रूप में हो।	লিখিত	लिखित	what has been (or is) written.
लिखाई	स्त्री.	1. लिखने का काम; 2. लिखने की मजदूरी;	লেখন, লিখন; লেখার মজুরি;	लेखन, लिखन; लेखार मजुरि;	act of writing; wages or remuneration for writing or copying;
		3. लिखने का ढंग, लिखावट।	লিখনপদ্ধতি, লিপিকৌশল	लिखनपद्धति, लिपिकौशल	the art or business of writing.
लिखाना	स. क्रि.	दे. 'लिखवाना'।	দ্রঃ 'লিখবানা'	द्र: 'लिखवाना'	see 'लिखवाना'.
लिखा-पढ़ी	स्त्री.	1. पत्र-व्यवहार; 2. किसी शर्त आदि को कागज पर लिखा कर पक्का करना।	পত্রালাপ; লিখিত চুক্তি	पत्रालाप; लिखित चुक्ति	correspondence; written agreement.
लिखावट	स्त्री.	लिखने का प्रकार या ढंग।	লেখার ঢঙ, হস্তলিপি	लेखार ढङ, हस्तलिपि	manner of writing, handwriting.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लिखित	वि.	लिखा हुआ, लिपिबद्ध किया हुआ।	লিখিত, লেখা হইয়াছে এমন	लिखित, लेखा हइयाछे एमन	written, recorded.
लिटाना	स. क्रि.	किसी को लेटने में प्रवृत्त करना।	শোয়ানো	शोयानो	to cause to lie down, to lay (one) down.
लिपटना	अ. क्रि.	1. सट जाना, चिपकना;	লেপটানো, জড়াইয়া যাওয়া;	लेपटानो, जड़ाइया जाओया;	to cling (to), to adhere (to), to twine or coil (round);
		2. आलिंगन करना;	আলিংগন করা;	आलिङ्गन करा;	to embrace;
		3. किसी काम में मनोयोग पूर्वक लग जाना।	কোনো কাজে মন নিবিষ্ট করা	कोनो काजे मन निबिष्ट करा	to concentrate on a work.
लिपटाना	स. क्रि.	1. सटाना, चिमटाना;	ভাজ করা, গুটানো;	भाज करा, गुटानो;	to fold or wrap (round), to twine or wind (round) etc;
		2. गले लगाना, आलिंगन करना।	আলিংগন করা	आलिङ्गन करा	to embrace.
लिपना	अ. क्रि.	1. गीली चीज से पोता जाना;	লেপা;	लेपा;	to be washed over, to be white-washed;
		2. किसी गाढ़ी वस्तु का किसी तल पर लगकर फैल जाना।	প্রলেপ লাগা, মাখানো হওয়া	प्रलेप लागा, माखानो हओया	to be smeared.
लिपाई	स्त्री.	लीपने की क्रिया, भाव या मजदूरी।	লেপা, লেপার মজুরি	लेपा, लेपार मजुरि	the act of or wages paid for plastering or pargetting.
लिपि	स्त्री.	लिखावट, लिखने की पद्धति।	লিপি, লিখন-পদ্ধতি	लिपि, लिखन-पद्धति	writing, script.
लिपिक	पुं.	मुहर्रिर, लेखक।	মুহরি, মোহরের	मोहरेर	a scribe, clerk.
लिपिबद्ध	वि.	लिखा हुआ।	লিপিবদ্ধ, লিখিত	लिपिबद्ध, लिखित	written, recorded.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लिप्त	वि.	जो किसी के साथ इस प्रकार लगा हो कि जल्दी उससे अलग न हो सके।	লিপ্ত, সংযুক্ত, জড়িত	लिप्त, संजुक्त, जड़ित	attached, involved, absorbed.
लिप्सा	स्त्री.	पाने की चाह, इच्छा।	লিপ্সা, লাভেচ্ছা, স্পৃহা	लिप्सा, लाभेच्छा, स्पृहा	desire for getting or regaining.
लिप्सु	वि.	पाने की इच्छा करने वाला, इच्छुक।	লিপ্সু, লাভেচ্ছু, ঈপ্সু	लिप्सु, लाभेच्छु, ईप्सु	desirous of getting, ardently desirous.
लिफाफा	पुं.	1. कागज की चौकोर थैली जिसमें पत्र आदि रखकर भेजे जाते हैं;	লেফাফা, খাম;	लेफाफा, खाम;	cover of a letter, an envelope;
		2. किसी प्रकार का ऊपरी आवरण;	বহিরাবরণ	बहिराबरन;	a wrapper, outward case;
		3. जल्दी नष्ट होनेवाली और दिखावटी वस्तु।	বাহ্য দৃশ্য	बाह्य दृश्य	outward show.
लिबास	पुं.	पहनने के कपड़े, पोशाक।	পরিধেয় বস্ত্র পোষাক	परिधेय बस्त्र, पोषाक	apparel clothes, dress, attire.
लियाकत	स्त्री.	1. योग्यता;	যোগ্যতা;	जोग्यता;	skill, ability, merit;
		2. व्यवहार आदि की भद्रता, शालीनता।	শিষ্টব্যবহার, শালীনতা	शिष्टब्यबहार, शालीनता	propriety, fitness.
लिलकना	अ. क्रि.	दे. 'ललकना'।	দ্র: 'ললকনা'	द्र: 'ललकना'	See 'ललकना'.
लिवाना	स. क्रि.	साथ लाना, उपलब्ध करना।	আনা, সংগ্রহ করা	आना, संग्रह करा	to bring, to fetch, to procure.
लिवैया	पुं.	कोई वस्तु लेने विशेषतः खरीद कर लेनेवाला व्यक्ति।	যে-ব্যক্তি কোনো জিনিস নেয় বিশেষত: খরিদ করিয়া নেয়	जे-ब्यक्ति कोनो जिनिस नेय बिशेषत: खरिद करिया नेय	one who takes, a taker.
लिहाज	पुं.	1. व्यवहार में किसी व्यक्ति का आदरपूर्वक रखा जानेवाला ध्यान, अदब;	শ্রদ্ধা, সম্মান	श्रद्धा, सम्मान;	respect, deference;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. किसी बात का किसी रूप में रखा जानेवाला ध्यान;	সশ্রদ্ধ বিবেচনা	सश्रद्ध बिबेचना	regard, consideration;
		3. लज्जा, संकोच।	লজ্জা, সঙ্কোচ	लज्जा, सङकोच	shame, hesitation.
लिहाजा	अव्य.	अंतः,इसलिए।	অতএব, এইজন্য, কাজে কাজেই	अतएव, एइजन्य, काजे काजेइ	therefore, thus, consequently.
लिहाफ	पुं.	मोटी रजाई।	লেপ	लेप	a quilt.
लीक	स्त्री.	1. गाड़ी, सर्प आदि के चलने से बनी हुई लंबी रेखा;	গাড়ীর চাকার চলার দাগ, সাপের চলার দাগ;	गाड़ीर चाकार चलार दाग, सापेर चलार दाग;	mark (of a cart wheel), wheel-track, rut;
		2. पगडंडी;	পাকদন্ডী;	पाकदन्डी;	track, trace;
		3. लोकरीति, रस्मरिवाज।	লোকাচার, প্রথা	लोकाचार प्रथा	established practice, custom, rule.
लीचड़	वि.	1. सुस्त, काहिल, निकम्मा;	নিষ্কর্মা;	निष्कर्मा;	sluggish, slothful;
		2. जल्दी पीछा न छोड़नेवाला;	নাছোড়বান্দা;	नाछोरबान्दा;	one who pesters;
		3. लेनदेन के व्यवहार के विचार से बहुत ही तुच्छ प्रवृत्ति का।	কিপটে	किपटे	stingy.
लीची	स्त्री.	1. एक वृक्ष जिसका फल बहुत मीठा होता है;	লিচু (গাছ);	लिचु (गाछ);	a kind of tree the fruit of which is very sweet;
		2. इस वृक्ष का फल।	লিচু (ফল)	लिचु (फल)	fruit of this tree.
लीद	स्त्री.	गधे, घोड़े आदि पशुओं का मल।	লাদ	लाद	dung (of horses, mules, asses and elephants).
लीन	वि.	1. जो किसी में समा गया हो;	লীন, লয়প্রাপ্ত;	लीन, लयप्राप्त;	completely absorbed or swallowed up in, completely merged;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जो किसी काम में इस प्रकार लगा हुआ हो कि उसे और बातों का ध्यान न रहे, तन्मय।	অভিনিবিষ্ট, তন্ময়	अभिनिविष्ट, तन्मय	devoted, engrossed, given upto.
लीनता	स्त्री.	लीन होने की अवस्था या भाव।	লয়প্রাপ্তি, অভিনিবিষ্টতা	लयप्राप्ति, अभिनिबिष्टता	the state of being absorbed or merged.
लीपना	स. क्रि.	किसी वस्तु पर गाढ़े या पतले तरल पदार्थ का लेप करना।	লেপা, মাখানো	लेपा, माखानो	to plaster, to smear, to coat.
लीपना-पोतना	स. क्रि.	सफाई करना।	লেপা পোছা করা	लेपा पोछा करा	to whitewash and plaster, to clean and tidy up.
लीपा-पोती	स्त्री.	1. गोबर आदि से जमीन आदि लीपने या पोतने की क्रिया या भाव;	লেপা পোছা;	लेपा, पोछा;	plastering and white-washing;
		2. किसी दुष्कर्म को छिपाना।	কোনো দুষ্কর্ম ঢাকা দেওয়া	कोनो दुष्कर्म ढाका देओया	shielding some one's misdeeds, patching up.
लीलना	स. क्रि.	निगलना।	গিলিয়া ফেলা, গ্রাস করা	गिलिया फेला, ग्रास करा	to swallow, to gulp.
लीला	स्त्री.	1. क्रीड़ा, खेल;	লীলা, ক্রীড়া, খেলা;	लीला, क्रीड़ा, खेला;	play, sport;
		2. अवतारों के चरित्र का अभिनय;	দেবতার অবতাররূপে ক্রীড়াচ্ছলে অনুষ্ঠান;	देबतार अबताररूपे क्रीड़ाच्छले अनुष्ठान;	stage representation (of the deeds of divine incarnations);
		3. अद्भुत या रहस्यपूर्ण काम या व्यापार।	গূঢ় মর্মপূর্ণ খেলা বা কার্য	गूढ़ मर्मपूर्न खेला बा कार्ज	mysterious acts or happenings.
लीलामय	वि.	क्रीड़ा से भरा हुआ, क्रीड़ायुक्त।	লীলাময়, ক্রীড়াপরায়ণ	लीलामय, क्रीड़ापरायन	sportive, playful.
लुंगी	स्त्री.	छोटी धोती, तहमद।	লুংগি	लुङ्गि	a sarong.

हिंदी शब्द	व्या. कों.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लुंचन	पुं.	काटने, नोचने आदि की क्रिया।	ছেদন, ত্বগমোচন	छेदन, त्वगमोचन	peeling, plucking out.
लुंज	वि.	बिना हाथ पैर का, लंगड़ा-लूला।	বিকলাংগ	बिकलाङ्ग	crippled (person).
लुंजा	वि.	दे. 'लुंज'।	দ্রষ্টব্য 'লুঞ্জ'	द्रष्टव्य 'लुंज'	see 'लुंज'.
लुंठन	पुं.	1. चोरी, लूट; 2. लुढ़कन।	লুন্ঠন, অপহরন, লুঠ; ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়া	लुन्ठन, अपहरन लुठ; भूमितले गड़ागड़ि देओया	plundering, robbing, stealing; rolling.
लुंठित	वि.	1. लुढ़का हुआ; 2. लूटा या चुराया हुआ।	লুন্ঠিত; অপহৃত, লুঠ হইয়াছে এমন	लुन्ठित; अपहृत लुठ हइयाछे एमन	rolled; plundered, robbed, stolen.
लुक	पुं.	आग की लपट, ज्वाला।	অগ্নিশিখা	अग्निशिखा	a flame or blaze.
लुकना	अ. क्रि.	आड़ में होना, छिपना।	লুকানো	लुकानो	to be hidden, to be invisible.
लुका-छिपी	स्त्री.	लुकने-छिपने का खेल या क्रिया।	লুকোচুরি	लुकोचुरि	a play or act of hide and seek.
लुकाठ	पुं.	एक प्रकार का वृक्ष और उसका फल।	বৃক্ষবিশেষ ও তাহার ফল	बृक्षबिशेष ओ ताहार फल	a kind of tree and its fruit.
लुकाना	स. क्रि.	छिपाना	লুকানো	लुकानो	to hide, to conceal.
लुगदी	स्त्री.	पीसी हुई गीली वस्तु का पिंड।	মাখা জিনিসের পিন্ড	माखा जिनिसेर पिन्ड	a mass or lump (of some soft, clammy substance as dough, kneaded earth etc.), pulp.
लुगाई	स्त्री.	औरत, पत्नी।	নারী, স্ত্রীলোক, পত্নী	नारी, स्त्रीलोक पत्नी	a woman, female. wife.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लुच्चा (स्त्री. लुच्ची)	वि., पुं.	कमीना, बदमाश, लंपट (व्यक्ति)।	লোচ্চা, কামুক, লম্পট, লোচ্চার	लोच्चा, कामुक, लम्पट, लोच्चार	base, depraved, vagabond, scoundrel.
लुटना	अ. क्रि.	1. लूट लिया जाना;	লুন্ঠিত হওয়া;	लुन्ठित हओया;	to be plundered, to be robbed;
		2. कोई अत्यन्त प्रिय और बहुमूल्य वस्तु का हाथ से निकल जाना।	অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান্ বস্তু হাতছাড়া হওয়া	अत्यन्त प्रिय ओ मूल्यवान वस्तु हातछाड़ा हओया	to be deprived.
लुटाना	स. क्रि.	1. बरबाद करना, व्यर्थ में व्यय करना;	উড়াইয়া দেওয়া, নিরর্থক ব্যয় করা;	उड़ाइया देओया, निरर्थक ब्यय करा;	to squander, to give away liberally
		2. बहुत कम दाम पर कोई वस्तु ग्राहक को दे देना।	নামমাত্র মূল্যে কোনো জিনিস বিক্রয় করা	नाममात्र मूल्ये कोनो जिनिस बिक्रय करा	to sell (a thing) for a song.
लुटिया	स्त्री.	छोटा लोटा।	ছোট ঘটি	छोट घटि	a small round utensil.
लुटेरा	पुं.	लूटने वाला, डाकू।	লুন্ঠনকারী, ডাকাত	लुन्ठनकारी, डाकात	a plunderer, robber.
लुढ़कना	अ. क्रि.	चक्कर खाते हुए आगे बढ़ना या गिरना, नीचे-ऊपर होते हुए चिमटना या रपटना।	ঘুরপাক খাইতে খাইতে পড়া, গড়াইয়া যাওয়া	घुरपाक खाइते खाइते पड़ा, गड़ाइया जाओया	to roll down, to topple over.
लुढ़काना	स. क्रि.	कोई वस्तु इतनी तेजी से फेंकना या ढकेलना कि चक्कर खाती हुई आगे बढ़े।	কোনো জিনিস জোরে নিক্ষেপ করা	कोनो जिनिस जोरे निक्षेप करा	to set a-rolling, to cause to roll down or roll over.
लुत्फ़	पुं.	1. किसी काम या बात में मिलने वाला आनन्द या सुख;	মজা, আনন্দ, সুখ;	मजा, आनन्द, सुख;	fun, pleasure, enjoyment;
		2. किसी चीज़ या बात में होनेवाला कोई विशिष्ट सुखद गुण, खास खूबी।	উৎকর্ষ, মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য	उत्कर्ष, मनोहारित्व, सौन्दर्ज	elegance, grace, beauty.
लुप्त	वि.	1. जो अन्तर्हित हो गया हो, छिप गया हो;	লুপ্ত অপগত, লোপপ্রাপ্ত, অদৃশ্য	लुप्त, अपगत, लोपप्राप्त, अदृश्य	dropped, elided, disappeared (in gram).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. जिसका प्रयोग न होता हो।	অপ্রচলিত	अप्रचलित	obsolete, out of use.
लुब्ध	वि.	1. आसक्त, मोहित;	লুব্ধ, আসক্ত, মোহিত;	लुब्ध, आसक्त, मोहित;	charmed, attracted;
		2. ललचाया हुआ, लुभाया हुआ।	লোলুপ, লোভী	लोलुप, लोभी	covetous, greedy, avaricious.
लुब्धक	पुं.	व्याध, बहेलिया।	ব্যাধ	व्याध	a hunter, fowler.
लुभाना	अ. क्रि.	आकृष्ट, मोहित या रागयुक्त होना, लालच में पड़ना।	আকৃষ্ট হওয়া, মুগ্ধ হওয়া	आकृष्ट हओया, मुग्ध हओया	to be allured, tempted (by).
	स. क्रि.	किसी के मन में लोभ या लालच उत्पन्न करना।	প্রলুব্ধ করা	प्रलुब्ध करा	to tantalize, to allure.
लुभावना	वि.	मोहित या लुब्ध करने वाला, मनोहर, सुन्दर।	লোভ জনক, লোভনীয়, মনোহর	लोभ जनक, लोभनीय, मनोहर	charming, attractive, alluring.
लुहार, लोहार	पुं.	लोहे का काम करने-वाला या उक्त काम करनेवाली एक जाति।	লোহার, লৌহের কর্মকারক সঙ্কীর্ন জাতি বিশেষ	लोहार, लौहेर कर्मकारक सङ्कीर्न जाति बिशेष	a blacksmith or caste in this profession.
लुहारा	पुं.	1. वह स्थान जहां बैठकर लुहार काम करते हों;	কামারশালা;	कामारशाला;	the place where blacksmiths work;
		2. लुहारों की बस्ती या मुहल्ला।	কামারপাড়া	कामारपाड़ा	the locality of blacksmiths.
लुहारिन (लोहारिन)	स्त्री.	लुहार की पत्नी।	কামারানী	कामारानी	a blacksmith's wife.
लुहारी (लोहारी)	स्त्री.	लुहार का काम या पेशा।	কামারের কাজ বা পেশা	कामारेर काज बा पेशा	the profession or work of a blacksmith.
लू	स्त्री.	1. ग्रीष्म ऋतु में चलनेवाली बहुत गरम हवा;	লু, গ্রীষ্মকালের অতিতপ্ত বায়ুবিশেষ;	लु, ग्रीष्मकालेर अतितप्त बायुबिशेष;	hot wind of summer;
		2. गर्मी में गर्म हवा लग जाने से होनेवाली एक बीमारी।	সর্দিগর্মি	सर्दिगर्मि	sun-stroke.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लूट	स्त्री.	1. लूटने की क्रिया; 2. लूट से मिलनेवाला धन या सम्पत्ति।	লুঠি, লুঠ, লুন্ঠন; বলপূর্বক অপহৃত ধনাদি	लुठि, लुठ, लुन्ठन; बलपूर्बक अपहृत धनादि	plunder, robbery; booty.
लूट-खसोट	स्त्री.	लूटमार, आर्थिक शोषण।	লুঠতরাজ	लुठतराज	plunder, pillage.
लूटना	स. क्रि.	1. जबरदस्ती छीनना; 2. उचित से बहुत अधिक लेना; 3. धोखे, अन्याय से किसी का धन ले लेना।	লুটা, লুঠা; গলাকাটা দাম নেওয়া; অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করা	लुटा, लुठा; गलाकाटा दाम नेओया; अन्याय भाबे आत्मसात् करा	to plunder, to rob; to charge exorbit-antly; to extort (anything) from.
लूटपाट	स्त्री.	लोगों को शारीरिक यंत्रणा देकर उनका धन छीन लेना।	লুটপাট, ব্যাপক-লুন্ঠন, দস্যু-বৃত্তি ও মারপিট	लुटपाट, व्यापक-लुन्ठन, दस्यु-बृत्ति ओ मारपिट	plundering and ravaging, pillaging.
लूटमार	स्त्री.	दे. 'लूटपाट'।	দ্র: 'লুটপাট'	द्र: 'लूटपाट'	see 'लूटपाट'.
लूला	वि.	1. बिना हाथ का; 2. जो कुछ भी करने में असमर्थ हो।	নূলা, যাহার হাতকাটা বা বিকল; যার কিছুই করার সামর্থ নাই	नूला, जाहार हातकाटा बा बिकल; जार किछुइ करार सामर्थ्य नाइ	lame-handed (person); crippled, handicapped
लेई	स्त्री.	चिपकाने के काम के लिए घोलकर पकाया हुआ मैदा।	লেই, কাই, আঠালো মন্ড	लेइ, काइ, आठालो मन्ड	an adhesive paste prepared from fine flour.
लेकिन	अव्य.	परंतु, मगर, किन्तु।	পরন্তু, কিন্তু	परन्तु किन्तु	but.
लेख पुं.	पुं.	1. लिखावट; 2. लिखी हुई बात; 3. समाचार पत्र आदि में छपनेवाला सामयिक निबंध।	হাতের লেখা; দলিল; সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশযোগ্য নিবন্ধ	हातेर लेखा; दलिल; सामयिक पत्रादिते प्रकाशजोग्य निबन्ध	handwriting; document, written document (of any kind); an article.
लेखक	पुं.	पत्रादि के लिए लेख लिखने वाला या साहित्यिक ग्रन्थ लिखनेवाला।	পত্রপত্রিকার জন্য যিনি লেখেন, গ্রন্থাদির রচয়িতা	पत्रपत्रिकार जन्य जिनि लेखेन, ग्रन्थादिर रचयिता	a writer, author.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लेखन	पुं.	1. लिखने का काम; 2. चित्रकारी, तूलिका से चित्र आदि अंकित करने की क्रिया या विद्या।	লেখা; চিত্রকরণ, অঙ্কন	लेखा; चित्रकरन, अङ्कन	writing; painting. sketching.
लेखन-सामग्री	स्त्री.	लिखने के काम आनेवाली वस्तुएं।	লেখার জন্য আবশ্যক জিনিসপত্র	लेखार जन्य आबश्यक जिनिसपत्र	writing material.
लेखनी	स्त्री.	लिखने, अक्षर बनाने का साधन, कलम।	লেখনী, কলম	लेखनी, कलम	a pen.
लेख-पत्र	पुं.	लिखा हुआ कागज, दस्तावेज।	দলিল	दलिल	a deed, document (legal).
लेखपाल	पुं.	वह सरकारी कर्मचारी जो गांवों के खेतों और उनकी उपज, लगान आदि का लेखा रखता है।	যে ব্যক্তি গ্রামের জমিজমা, শস্য ইত্যাদির হিসাব রাখে	जे ब्यक्ति ग्रामेर जमिजमा शस्य इत्यादिर हिसाब राखे	a person who keeps village land-records.
लेखा	पुं.	हिसाब, आय-व्यय का ब्यौरा।	হিসাব	हिसाब	account, calculation.
लेखा-जोखा	पुं.	हिसाब-किताब।	হিসাব-কিতাব	हिसाब-किताब	calculation, account.
लेखा-परीक्षक	पुं.	किसी व्यक्ति, संस्था आदि के हिसाब-किताब को जांचने वाला।	আয়ব্যয় পরীক্ষক, হিসাব পরীক্ষক, অডিটর	आयब्यय परीक्षक, हिसाब परीक्षक, अडिटर	auditor.
लेखा-परीक्षा	स्त्री.	आय-व्यय आदि की जांच करने की क्रिया।	হিসাব পরীক্ষা অডিট	हिसाब परीक्षा अडिट	audit.
लेखाकार	पुं.	आय-व्यय या लेनदेन का हिसाब लिखनेवाला।	গাণনিক	गाननिक	accountant.
लेखापाल	पुं.	दे. 'लेखाकार'।	দ্রঃ 'লেখাকার'	द्र: 'लेखाकार'	see **'लेखाकार'**

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लेखा-पुस्तिका	स्त्री.	वह पुस्तिका जो बैंक में रुपए जमा कराने वाले लोगों को बैंक की ओर से दी जाती है और जिसमें लेनदेन की सब रकम लिखी जाती है।	পাসবুক	पासबुक	passbook.
लेखा-बही	स्त्री.	वह बही जिसमें रोकड़ के लेनदेन का ब्यौरा लिखा रहता है।	হিসাব বহি, রোকড়	हिसाब बहि, रोकड़	account book, a cash book.
लेखा-शास्त्र	पुं.	वह शास्त्र जिसमें हिसाब-किताब रखने की विधि का विवेचन होता है।	গণিতকবিদ্যা	गनितकबिद्या	accountancy.
लेखिका	स्त्री.	स्त्री -लेखक।	লেখিকা	लेखिका	authoress.
लेख्य	वि.	1. लिखे जाने योग्य:	লেখনীয়, লেখার যোগ্য;	लेखनीय, लेखार जोग्य;	worth writing or reading;
		2. दस्तावेजी।	দলিল ভুক্ত	दलिल भुक्त	documentary.
लेजम	स्त्री.	एक तरह की कमान जिसमें तांत की जगह लोहे की जंजीर लगी होती है और जिसके सहारे कसरत की जाती है।	একরকমের ধনুক লোহার শিকল দ্বারা ধৃত (ব্যায়ামের জন্য ব্যবহৃত)	एकरकमेर धनुक लोहार शिकल द्वारा धृत (व्यायामेर जन्य ब्यबहृत)	a kind of bow fitted with iron chain (used for exercise)
लेटना	अ. क्रि.	1. विश्राम करने के लिए लंबाई के बल पड़े रहना, पौढ़ना:	বিশ্রাম করার জন্য শোয়া;	बिश्राम करार शोया;	to repose, rest:
		2. झुक कर जमीन पर गिरना या जमीन से सटना।	হাত পা ছড়াইয়া শোয়া	हात पा छड़ाइया शोया	to lie down, to lie prostrate.
ले-दे	स्त्री.	झगड़ा, वाद-विवाद।	বাক্যুদ্ধ, কথা কাটাকাটি	बाकजुद्ध, कथा काटाकाटि	wordy duel, altercation.
लेन	पुं.	1. लेने की क्रिया: 2. प्राप्य धन, पावना।	নেওয়া, লওয়া; পাওনা	नेओया, लओया; पाओना	taking, receiving money to be received.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लेनदार	पुं.	महाजन, उत्तमर्ण।	মহাজন, উত্তমর্ন	महाजन, उत्तमर्न	a creditor.
लेनदेन	पुं.	1. किसी को कुछ देने और उससे कुछ लेने का व्यवहार;	আদান প্রদান;	आदान प्रदान;	business, transaction, dealing;
		2. उधार देने लेने का व्यवसाय।	টাকা ধার দেওয়া নেওয়ার কারবার	टाका धार देओया नेओयार कारबार	borrowing and lending.
लेना	स. क्रि.	1. पकड़ना, थामना;	ধরা, হস্তগতকরা;	धरा हस्तगतकरा;	to hold, grasp, lay hold of;
		2. खरीदना, प्राप्त करना;	খরিদ করা, পাওয়া;	खरिद करा, पाओया;	to get, obtain, to buy, purchase;
		3. जीतना, कब्जे में करना	জয় করা, দখল করা;	जय करा, दखल करा;	to seize, capture, to take possession of;
		4. उधार लेना;	ধার করা;	धार करा;	to borrow;
		5. किसी काम का भार उठाना।	কোনো কাজের দায়িত্ব নেওয়া	कोनो काजेर दायित्व नेओा	to take responsibility (of).
लेना-देना	पुं.	1. लेने और देने की क्रिया या भाव;	আদান প্রদান, নেওয়া-দেওয়া;	आदान प्रदान, नेओया-देओया;	transaction, dealing;
		2. वास्ता, सरोकार।	অপেক্ষা	अपेक्षा	concern, business.
लेप	पुं.	1. लेपने-पोतने की क्रिया;	লেপন, লেপা;	लेपन, लेपा;	smearing, plastering, coating;
		2. पोतने के काम आनेवाली कोई गीली वस्तु।	প্রলেপ, লেপিয়া জুড়িবার জিনিস	प्रलेप, लेपिया जुड़िबार जिनिस	a plaster in general (such as whitewash, mortar etc.), ointment.
लेपन	पुं.	1. लेपने की क्रिया;	লেপা;	लेपा;	smearing, plastering;
		2. उबटन, अंगराग।	লেপনদ্রব্য	लेपनद्रव्य	unguent.
लेवा	वि.	लेनेवाला।	গ্রহীতা, যে নেয়	ग्रहीता, जे नेय	one who takes, taker.
	पुं.	1. किसी चीज पर चढ़ाया जानेवाला मिट्टी आदि का लेप;	লেপ, পোঁচ	लेप, पोंच;	plaster;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. गीली मिट्टी जो लेवा लगाने के काम आती हो।	লেপার জন্য কাদা	लेपार जन्य कादा	wet clay used for plastering.
लेवाल	वि.	लेनेवाला, खरीदनेवाला।	গ্রহীতা, খরিদদার	ग्रहीता, खरिददार	taker, purchaser.
लेश	पुं.	किसी चीज का थोड़ा अंश, अल्पता।	লেশ, সামান্য অংশ, কনা	लेश, सामान्य अंश, कना	a small bit or portion, particle.
	वि.	थोड़ा, अल्प।	নামমাত্র, একটু	नाममात्र, एकटु	very little.
लेस	स्त्री.	1. लसीला पदार्थ;	আঠাল বস্তু, আঠা;	आठाल बस्तु, आठा;	anything sticky, paste, glue;
		2. लगाव, सम्बन्ध।	সম্বন্ধ	सम्बन्ध	concern, relation.
लेसना	स. क्रि.	1. चिपकाना;	সাঁটা;	सांटा;	to glue, to stick;
		2. पोतना।	লেপা	लेपा	to plaster (with mud and dung).
लेह्य	पुं.	वह पदार्थ जो चाटकर खाया जाता हो।	লেহ্য লেহনীয় খাদ্য	लेह्य, लेहनीय खाद्य	food that is licked or sipped.
लैंगिक	वि.	1. लिंग सम्बन्धी; 2. स्त्री-पुरुष की जननेन्द्रिय से संबंध रखनेवाला।	লিংগ সম্বন্ধী; যৌন	लिंग सम्बन्धी; जौन	sexual; phallic.
लैस	वि.	तैयार, कील कांटे से दुरुस्त, कसा हुआ।	প্রস্তুত, পোষাক ও অস্ত্রে সজ্জিত	प्रस्तुत, पोषाक ओ अस्त्रे सज्जित	equipped (with).
लोंदा	पुं.	किसी गीली वस्तु का पिंड।	কাদার তাল	कादार ताल	a lump of clay or earth.
लो		अव्य. किसी का ध्यान आकृष्ट करने या आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होनेवाला एक शब्द।	কাহারো মনোযোগ আকর্ষনের জন্য বা বিস্ময় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত শব্দ	काहारो मनोजोग आकर्षनेर जन्य बा विस्मय प्रकाशेर जन्य ब्यबहृत शब्द	a term used for expressing surprise or attracting one's attention.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोई	स्त्री.	1. एक तरह का पतला ऊनी कंबल;	লুই;	लुइ;	a kind of the woollen blanket;
		2. गुंधे हुए आटे का गोलाकार पिंड जिसे बेलकर रोटी बनाते हैं।	লেচি	लेचि	small ball of doughed flour to be spread into bread.
लोक	पुं.	1. विश्व का एक विभाग, भुवन;	লোক, ভুবন;	लोक, भुबन;	the world, a division of the universe;
		2. जगत्, संसार;	জগৎ, পৃথিবী, সংসার	जगत्, पृथिबी, संसार;	the earth, terrestrial world;
		3. मनुष्यों का वर्ग या समूह, लोग।	জনসাধারন, প্রজা	जनसाधारन, प्रजा	the people or subjects, a collection, **group**, class, company.
लोककथा	स्त्री.	लोक विशेषतः ग्राम्य लोगों में प्रचलित कोई प्राचीन गाथा।	লোককথা লোকসমাজে চলে-আসা	लोककथा, लोकसमाजे चले-आसा	popular legend, folk-tale.
लोकगीत	पुं.	साधारण जनता में प्रचलित गीत।	লোকসংগীত	लोकसङ्गीत	folk song.
लोकतंत्र	पुं.	वह शासन-प्रणाली जिसमें जनसाधारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता हो, जनता का शासन।	গণতন্ত্র	गनतन्त्र	democracy.
लोकतंत्री	वि., पुं.	लोकतंत्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादक या समर्थक।	গণতান্ত্রিক, গনতন্ত্রী	गनतान्त्रिक, गनतन्त्री	democratic, a democrat.
लोकतांत्रिक	वि.	लोकतंत्र संबंधी।	গনতন্ত্র সম্বন্ধী	गनतन्त्र सम्बन्धी	democratic.
लोकना	स. क्रि.	गिरती या फैंकी हुई वस्तु को जमीन छूने से पहले ही हवा में पकड़ लेना।	লুফিয়া লওয়া	लुफिया लओया	to catch (a thing falling down).

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोकनाट्य	पुं.	शास्त्रीय नियमानुसार बने नाटकों से भिन्न वे नाटक जिन्हें जनसाधारण अपनी उद्भावना से बनाते हैं और जनसाधारण को दिखाते हैं।	লোকনাটক	लोकनाटक	folk-drama.
लोकनृत्य	पुं.	शास्त्रीय नृत्य कला से रहित ऐसे नाच जिन्हें देहात के लोग उमंग में आकर नाचते हैं।	লোকসাধারনে প্রচলিত, লোক-সাধারনের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্য	लोकसाधारने प्रचलित, लोक-साधारनेर द्वारा अनुष्ठित नृत्य	folk-dance.
लोकपाल	पुं.	1. दिक्पाल;	ইন্দ্রাদি দিক্পাল;	इन्द्रादि दिक्पाल;	a regent or guardian of a quarter of the world;
		2. नरेश।	রাজা	राजा	a protector or ruler of the people, a king.
लोकप्रवाद	पुं.	सर्वसाधारण में प्रचलित बात।	জনশ্রুতি	जनश्रुति	hearsay, rumour.
लोकप्रिय	वि.	जो बहुत से लोगों को प्रिय लगे।	জনপ্রিয়	जनप्रिय	popular.
लोकप्रियता	स्त्री.	लोकप्रिय होने की अवस्था या भाव।	জনপ্রিয়তা	जनप्रियता	popularity.
लोकमत	पुं.	जनता की राय।	জনমত	जनमत	public opinion or view.
लोक-रंजन	पुं.	सबको प्रसन्न तथा सुखी रखना।	লোকরঞ্জন, জনতোষন	लोकरञ्जन, जनतोषन	popular entertainment, serving popular interest.
लोक-विरुद्ध	वि.	जो लोक में प्रचलित न हो और इसलिए ठीक न माना जाता हो।	জনমতবিরুদ্ধ, জনবিরোধী	जनमतविरुद्ध, जनविरोधी	opposed to public opinion, anti-social, anti-public.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोक-व्यवहार	पुं.	समाज की मर्यादा के विचार से किया जाने वाला शिष्ट व्यवहार।	লোকাচার, লোকযাত্রা	लोकाचार, लोकजात्रा	established usage or custom.
लोकसंग्रह	पुं.	सभी के कल्याण या मंगल का ध्यान रखना।	বিশ্বকল্যাণ	बिश्वकल्यान	the welfare of the world.
लोकसंग्रही	वि.	जो सब लोगों को प्रसन्न रखकर अपने पक्ष में करता हो।	যিনি সকলকে খুশি করে নিজের দলে টানতে পারেন	जिनि सकलके खुशि करे निजेर दले टानते पारेन	who pleases and propitiates all.
लोकसंस्कृति	स्त्री.	जनसाधारण में प्रचलित वे सब बातें जो संस्कृति के क्षेत्र से संबद्ध हों।	লোকসংস্কৃতি, লোক সাধারণের সংস্কৃতি	लोकसंस्कृति, लोकसाधारनेर संस्कृति	folk-culture.
लोकसत्ता	स्त्री.	लोकतांत्रिक शासनप्रणाली के द्वारा जनता को प्राप्त होनेवाली सत्ता।	জনশক্তি	जनशक्ति	public authority or power.
लोकसत्तात्मक	वि.	लोकसत्ता संबंधी, लोकसत्ता का।	গণতান্ত্রিক	गनतान्त्रिक	democratic.
लोक-सदन	पुं.	दे. 'लोकसभा'।	দ্রঃ 'লোকসভা'	द्रः 'लोकसभा'	see 'लोकसभा'
लोकसभा	स्त्री.	प्रजातंत्र शासन में जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो देश के लिए कानून आदि बनाती है।	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত সর্বোচ্চ আইনসভা, পার্লামেন্ট	गनतान्त्रिक ब्यबस्थाय निर्बाचित सर्बोच्च आइनसभा, पार्लामेन्ट	House of the People (in Indian Parliament).
लोक-साहित्य	पुं.	साधारण जनता में प्रचलित परम्परा से प्राप्त साहित्य।	লোক সাহিত্য	लोक साहित्य	folk-literature.
लोकसिद्ध	वि.	जनसामान्य में मान्य और प्रचलित।	লোকে পরিনিষ্ঠিত, লোকপ্রচলিত	लोके परिनिष्ठित लोकप्रचलित	established or current among the people.
लोक-सेवक	पुं.	जनता की सेवा करने वाला।	জনসেবক	जनसेबक	public servant.
लोकसेवा	स्त्री.	जनसाधारण के हित के लिए की जानेवाली सेवा।	লোকসেবা, জনসেবা	लोकसेबा, जनसेबा	public service.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोकसेवा आयोग	पुं.	राज्य द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्तियों की समिति जो राजकीय सेवाओं से संबंधित पदों पर उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति चुनती है।	সরকারি কর্ম নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন হয় যেখানে	सरकारि कर्म नियोगेर जन्य जोग्य ब्यक्तिर निर्बाचन हय जेखाने	Public Service Commission.
लोक-स्वास्थ्य	पुं.	सार्वजनिक रूप से लोगों का स्वास्थ्य।	জনস্বাস্থ্য	जनस्वास्थ्य	public health.
लोकहित	पुं.	जनसाधारण की भलाई।	লোকহিত, জনকল্যান	लोकहित, जनकल्यान	public welfare.
लोकाचार	पुं.	संसार का व्यवहार, चलन।	লোকব্যবহার	लोकब्यबहार	common practice, popular or general custom.
लोकापवाद	पुं.	लोकनिन्दा, बदनामी।	লোকপবাদ, লোকনিন্দা	लोकपबाद, लोकनिन्दा	public scandal or public slander.
लोकायत	पुं.	1. इसी लोक पर आस्था रखने वाला व्यक्ति; 2. भारतीय दर्शन में एक नास्तिक सम्प्रदाय, चार्वाक-दर्शन।	বস্তুবাদী; লোকায়তিক, চার্বাকমতাবলম্বী	बस्तुबादी; लोकायतिक, चार्बाकमताबलम्बी	a materialist; the atheistic philosophy of Charvak.
लोकोक्ति	स्त्री.	लोक में प्रचलित बात, कहावत।	লোকোক্তি, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী	लोकोक्ति, जनश्रुति, किंबदन्ती	a proverb, popular saying.
लोकोत्तर	वि.	लोक में होने वाले पदार्थों से बढ़कर या श्रेष्ठ, असाधारण, विलक्षण।	অলৌকিক, অসাধারন	अलौकिक, असाधारन	supernatural, transcendental.
लोकोपकार	पुं.	सार्वजनिक लाभ का काम।	লোকোপকার, জনকল্যান, লোকহিতৈষন	लोकोपकार, जनकल्यान, लोकहितैषन	public welfare, philanthropy.
लोकोपकारी	वि.	1. लोकोपकार संबंधी; 2. लोगों का उपकार करने वाला।	লোকোপকার-সম্বন্ধী; লোকহিতৈষী	लोकोपकार-सम्बन्धी; लोकहितैषी	pertaining to public good; a philanthropist.
लोग	पुं.	मनुष्य।	মনুষ্য	मनुष्य	people, public.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोग-बाग	पुं.	जनसाधारण।	লোক, জন	लोक, जन	people (great and small).
लोच	स्त्री.	वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दबाने पर दब जाती है और दबाव न रहने पर पुनः सामान्य रूप प्राप्त कर लेती है, लचीलापन।	স্থিতিস্থাপকতা	स्थितिस्थापकता	flexibility, elasticity.
लोचन	पुं.	आंख, नेत्र।	লোচন, চক্ষু, নেত্র	लोचन, चक्षु, नेत्र	the eye.
लोट	स्त्री.	लोटने की क्रिया।	লোটানো, গড়াগড়ি দেওয়া	लोटानो, गड़ागड़ि देओया	rolling about, tossing about.
लोटन	वि.	जमीन पर उलटबाजी लगाने वाला।	গড়াগড়ি দেওয়া	गड़ागड़ि देओया	rolling, wallowing.
	पुं.	एक प्रकार का कबूतर।	একজাতীয় পারাবত	एकजातीय पारावत	a kind of pigeon.
लोटना	अ. क्रि.	थकावट आदि मिटाने के उद्देश्य से पेट और पीठ के बल लुढ़कना।	গড়াগড়ি দেওয়া	गड़ागड़ि देओया	to welter, to roll or toss.
लोट-पोट	स्त्री.	लोटने की क्रिया या भाव।	লোটাপুটি	लोटापुटि	rolling or tossing about.
लोटा (लुटिया स्त्री.)	पुं.	जल रखने का धातु का एक छोटा पात्र।	ঘটি	घटि	a small, round, metal pot.
लोढ़ा	पुं.	सिल पर पीसने के लिए बना हुआ पत्थर का गोल लम्बा टुकड़ा।	নোড়া	नोड़ा	a stone pestle.
लोथ	स्त्री.	किसी प्राणी का मृत शरीर, शव।	মৃতদেহ, শব	मृतदेह, शब	a corpse, a carcass.
लोथड़ा	पुं.	मांस का बड़ा टुकड़ा।	মাংসপিন্ড	मांसपिन्ड	a lump of flesh.
लोना (लोनी स्त्री.)	पुं.	क्षार, नोना।	দেওয়ালাদির লবন	दओयालादिर लबन	salt that effloresces from walls, etc.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोप	पुं.	नाश, छिपना।	বিনাশ, ধ্বংস, অন্তর্ধান	बिनाश, ध्वंस, अन्तर्धान	loss, destruction, omission, dropping.
लोबान (लोहबान)	पुं.	एक वृक्ष का निर्यास जिसे सुगंध के लिए जलाते हैं और दवा के काम में भी लाते हैं।	ধুনার মতো সুগন্ধি বৃক্ষনির্যাস বিশেষ	धुनार मतो सुगन्धि बृक्षनिर्जास बिशेष	benzoin.
लोभ	पुं.	1. दूसरे की वस्तु पाने की प्रबल कामना या इच्छा; 2. कंजूसी।	লোভ, পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ; গৃধ্নুতা, লোলুপতা	लोभ, परद्रव्य आत्मसात् करिबार अभिलाष; गृध्नुता, लोलुपता	eager (or intense) desire, longing; covetousness, greediness, avarice.
लोभनीय	वि.	लुभाने वाला, मनोहर।	লোভজনক, চিত্তাকর্ষক	लोभजनक, चित्ताकर्षक	enticing, alluring, attractive.
लोभी	वि.	जिसे किसी वस्तु का लोभ हो, लालची।	লোভী, লোভকারী, লোলুপ	लोभी, लोभकारी, लोलुप	covetous, greedy.
लोम	पुं.	शरीर पर के छोटे-छोटे बाल।	লোম, রোম	लोम, रोम	the hair on the body of men or animals.
लोमड़ी	स्त्री.	गीदड़ की जाति का एक जानवर।	খেঁকশিয়াল	खेंकशियाल	a fox.
लोमहर्षक	वि.	रोमांचकारी।	রোমাঞ্চকর	रोमाञ्चकर	horripilating, thrilling.
लोमहर्षण	पुं.	रोमांच।	রোমাঞ্চ	रोमाञ्च	horripilation, thrilling with delight.
लोरी	स्त्री.	बच्चों को सुलाने के लिए गाए जानेवाले गीत।	ঘুমপাড়ানি গান	घुमपाड़ानि गान	a lullaby.
लोल	वि.	हिलता हुआ, चंचल।	অস্থির, চঞ্চল	अस्थिर, चञ्चल	shaking, rolling.
लोलक	पुं.	1. नथ आदि का लटकन; 2. घंटी या घंटे का लटकन।	নোলক; দোলক	नोलक; दोलक	a pendant; pendulum.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोलुप	वि.	1. लोभी, लालची; 2. परम उत्सुक।	লোভী, গৃধ্নু; পরম উৎসুক	लोभी, गृध्नु; परम उत्सुक	covetous, greedy; very desirous, very eager.
लोलुपता	स्त्री.	1. लालच; 2. परम इच्छा, उत्कंठा।	লোলুপতা, লিপ্সা, গৃধ্নুতা ব্যাকুল ইচ্ছা, অভিলাষ	लोलुपता, लिप्सा, गृध्नुता; ब्याकुल इच्छा, अभिलाष	covetousness, greed; eager desire or longing.
लोह	पुं.	दे. 'लौह'।	দ্রষ্টব্য 'লৌহ'	द्रष्टव्य 'लौह'	see 'लौह'.
लोहचून	पुं.	लोहे का बुरादा।	লৌহচূর্ণ	लौहचूर्न	iron-filings.
लोहड़ी	स्त्री.	मकर संक्रांति के एक दिन पहले का एक त्यौहार जिसमें रात के समय अग्नि की पूजा होती है।	মকরসংক্রান্তির পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত উৎসব-বিশেষ ইহাতে রাত্রে অগ্নিপূজা হয়	मकरसंक्रान्तिर पूर्बदिने अनुष्ठित उत्सब-बिशेष इहाते रात्रे अग्निपूजा हय	a festival of Punjab held in January wherein fire is worshipped at night.
लोहा	पुं.	प्राय: काले रंग की एक प्रसिद्ध धातु जिससे अनेक प्रकार के हथियार, आवरण, यंत्र आदि बनाये जाते हैं।	লোহাং লৌহ	लोहा, लौह	iron.
लोहारखाना (लुहारखाना)	पु.	वह स्थान जहा लुहार लोहे की वस्तुएं बनाते हैं।	কামারশালা	कामारशाला	blacksmith's workshop.
लोहासव	पुं.	एक प्रकार की आयुर्वैदिक पेय औषध जिसमें लोहा मुख्य घटक पदार्थ होता है।	লৌহাসব, আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ লোহাপ্রধান	लौहासब, आयुर्बेदीय औषधबिशेष लोहाप्रधान	a medicinal tonic, a beverage prepared from processed iron and other ingredients.
लोहित	वि.	लाल रंग का।	লোহিত, রক্তবর্ণ	लोहित, रक्तबर्न	red, red-coloured.
लोहिया	वि.	लोहे का बना हुआ।	লৌহনির্মিত	लौहनिर्मित	made of iron.
	पुं.	लोहे का व्यापार करने वाला व्यक्ति।	লোহার ব্যবসায়ী	लोहार व्यबसायी	an iron-seller.

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
लोहू	पुं.	रक्त, खून।	লোহু, রক্ত	लोहु, रक्त	blood.
लौंग	स्त्री.	1. एक प्रकार का वृक्ष या उसकी कली;	লং, লবংগ;	लं, लबङ्ग;	the clove;
		2. नाक में पहनने का एक आभूषण।	নাকের অলঙ্কারবিশেষ	नाकेर अलङ्कारबिशेष	a nose-stud.
लौंजी	स्त्री.	आम की फांक जो अचार चटनी आदि के काम आती है।	আমের আচার, চাটনি বিশেষ	आमेर आचार, चाटनि बिशेष	a kind of pickle.
लौंद	पुं.	अधिकमास, मलमास।	মলমাস	मलमास	an intercalary month.
लौ	स्त्री.	1. आग की लपट, ज्वाला;	অগ্নিশিখা;	अग्निशिखा;	flame, glow.;
		2. लगन, धुन;	মনোযোগ;	मनोजोग;	devotion;
		3. आशा, कामना।	আশা, কামনা	आशा, कामना	ardent desire, longing, craving.
लौकिक	वि.	1. सांसारिक;	লৌকিক, পার্থিব;	लौकिक, पार्थिब;	worldly, mundane;
		2. व्यवहार-सम्बन्धी, व्यावहारिक।	লোকব্যবহার সম্পর্কিত	लोकब्यबहार सम्पर्कित	customary.
लौकी	स्त्री.	कद्दू, घीआ।	লাউ	लाउ	the bottle-gourd.
लौट	स्त्री.	लौटना, घुमाव।	প্রত্যাবর্তন	प्रत्याबर्तन	turning back, returning.
लौटना	अ. क्रि.	1. वापस आना;	প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়া আসা;	प्रत्याबर्तन करा, फिरिया आसा;	to return, to come back;
		2. पीछे की ओर घूमना, मुड़ना;	পশ্চাদপসরণ, হঠিয়া আসা;	पश्चादपसरन, हठिया आसा;	to retreat, to withdraw;
		3. मुकर जाना।	ফিরিয়া যাওয়া	फिरिया जाओया	to go back (from), to be false (to).
लौट-फेर	पुं.	भारी परिवर्तन, उलट-फेर।	অনেক পরিবর্তন	अनेक परिबर्तन	substantial change, modification.
लौटाना	स. क्रि.	1. वापस करना;	ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যর্পণ করা;	फिराइया देओया, प्रत्यर्पन करा;	to refund, to return, to withdraw;

हिंदी शब्द	व्या. को.	हिंदी अर्थ	बंगला पर्याय	देवनागरी लिप्यंतरण	अंग्रेजी पर्याय
		2. फेरना, बदलना।	বদল করা	बदल करा	to change, to exchange.
लौह	पुं.	लोहा।	লৌহ, লোহা;	लौह, लोहा;	iron.
	वि.	लोहे का, लोहे संबंधी।	লৌহনির্মিত	लौहनिर्मित	made of iron.
लौह-आवरण	पुं.	किसी स्थान, देश आदि के संबंध में बरती जानेवाली ऐसी गोपनीयता जिससे कोई भी समाचार बाहर न जा सके।	লৌহবরন, গোপনতার দুর্ভেদ্য আবরন	लौहबरन, गोपनतार दुर्भेद्य आबरन	iron curtain.
लौह-पट	पुं.	दे. 'लौह-आवरण'।	দ্র: 'লৌহ আবরণ'	द्र: 'लौह आवरण'	see '**लौह-आवरण**'.
लौह-पुरुष	पुं.	अपने व्यवहार एवं विचारों में अडिग रहने वाला व्यक्ति।	স্বীয় কর্মে ও সিদ্ধান্তে অটল ব্যক্তি, লৌহমানব	स्वीय कर्मे ओ सिद्धान्ते अटल व्यक्ति, लौहमानब	an iron-man.
लौहयुग	पुं.	संस्कृति के इतिहास में वह युग जब उपकरण तथा अस्त्र-शस्त्र लोहे के ही बनते थे, अन्य धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ था।	লৌহযুগ, যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ প্রথম লোহা ব্যবহার করিতে শিখে	लौहजुग, जे प्रागैतिहासिक जुगे मानुष प्रथम लोहा व्यवहार करिते शिखे	iron-age.
लौहसार	पुं.	रासायनिक प्रक्रिया से बनाया हुआ एक प्रकार का लवण जो लोहे से बनाया जाता है और औषधियों में काम आता है।	লৌহসার	लौहसार	iron-calx.

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित/प्रकाशनाधीन कोश

प्रकाशित

- भारतीय भाषा कोश

द्विभाषा कोश :

- हिंदी-गुजराती
- हिंदी-सिंधी
- हिंदी-उर्दू
- हिंदी-मराठी
- हिंदी-असमिया
- हिंदी-तमिल
- हिंदी-तेलुगु
- हिंदी-मलयालम
- हिंदी-उड़िया

त्रिभाषा कोश :

- हिंदी-गुजराती-अंग्रेज़ी
- हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेज़ी
- हिंदी-कन्नड़-अंग्रेज़ी
- हिंदी-तमिल-अंग्रेज़ी
- हिंदी-मलयालम-अंग्रेज़ी

प्रकाशनाधीन

- हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी
- हिंदी-पंजाबी-अंग्रेज़ी
- हिंदी-सिंधी-अंग्रेज़ी
- हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी
- हिंदी-मराठी-अंग्रेज़ी
- हिंदी-कश्मीरी